

अच्युतग्रन्थमालायाः (ख) विभागो पञ्चमं प्रसूनम् ।

ॐ



पं० श्रीचण्डीप्रसादशुक्ल, प्रिंसिपल जो० म० गोयनका-संस्कृतमहाविद्यालय,
तथा

पं० श्रीकृष्णपन्त शारी साहित्याचार्य
द्वारा
सम्पादित

प्रकाशनस्थान—

अच्युतग्रन्थमाला-कार्यालय.

फाजी ।

प्रिन्टिंग नागपण मुन्जी पुन्तमन्त
के. १६९, का. १८. देवी रोड.
वसन्तनाथपुत्र नशोर वान्ते मुन्दी नं. १

Saiy
Saiy/G
61985

प्रकाशक—

श्रेष्ठिप्रवर श्रीगौरीशङ्कर गोयनका
अच्युतप्रथमाङ्क-कार्यालय, वाशी ।

मुद्रक

मा० रा० काळे

श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेस, बारास ।

महर्षिश्रीवेदव्यासप्रणीतं

ब्रह्मसूत्रम्

तच्च



परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादविरचित-

शारीरकमीमांसाभाष्येण,

परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्गोपालसरस्वतीपूज्यपादशिष्य-

श्रीरामानन्दभगवत्पादविरचितरत्नप्रभया

यतिप्रवर श्रीभोलेबाबाविरचितेन भाष्यरत्नप्रभाभाषानुवादेन

तथा

वाराणसेयराजकीयसंस्कृतमहाविद्यालयप्रधानाध्यक्ष-

महामहोपाध्यायपण्डितप्रवरश्रीगोपीनाथकविराज एम्० ए० विरचितया

गवेषणापूर्णया विस्तृतया च भूमिकया

समलङ्कृतम्

प्रथमोऽध्यायः

संचित

१९९३

शाङ्करभाष्यरत्नप्रभाभाषानुवादमद्वित

ब्रह्मसूत्र

के प्रथमाध्यायकी विषय सूची—

विषय	उपोद्धात [पृ० १-५०.]	पृ० पं०
अध्यासपर आक्षेप	...	१२ - २
अध्यासका लक्षण	...	३२ - २
आत्मामें अध्यास हो सकता है	...	३८ - २
अध्यासमें प्रमाण	...	४३ - २
प्रस्तुत शास्त्रके विषय और प्रयोजन	...	५७ - २
जिज्ञासाधिकरण १।१।१।१ [पृ० ६०-९४]		
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा १।१।१।१		६० - १
मूत्रगत अथ शब्द आनन्तर्यरूप अर्थका प्रतिपादन करता है ...		६२ - २
आनन्तर्यका अवधिभूत पूर्ण कारण	...	७४ - ३
ब्रह्मजिज्ञासा पदका समास	...	७७ - ४
पृष्ठी कर्मवाचक ही है	...	७९ - २
जिज्ञासा पदका अवयवार्थ-कथन	...	८३ - ४
ब्रह्म-प्रसिद्धिका निरूपण	...	८५ - ३
ब्रह्मके स्वरूपमें मतभेद	...	८९ - ३
जन्माद्यधिकरण १।१।२।२ [पृ० ०५-१२१]		
जन्माद्यस्य यतः १।१।२।२	...	९५ - १
द्वितीय अधिकरणका सार	...	९५ - ९
जन्मादि पदका समास	...	१०१ - २
द्वितीय सूत्रके अर्थका विवरण	...	१०३ - ६
वृद्धि आदि भावविकारोंका जन्म आदि तीनोंमें अन्तर्भाव-कथन	...	१०५ - ३
जगत्की सृष्टि ईश्वरमे ही होती है	...	१०७ - ३
सूत्रमें अनुमान उपन्यस्त नहीं है	...	११० - २
तर्क श्रुतिका सहायक नहीं है	...	१११ - २
द्वितीय सूत्रका विषयवाक्य	...	१२० - २

शास्त्रयोनित्वाधिकरण १।१।३।३ [पृ० १२२-१३१]

शास्त्रयोनित्वात् १।१।३।३	...	१२२ - १
तृतीय अधिकरणका प्रथमवर्णकसार	...	१२२ - १०
तृतीय अधिकरणका द्वितीयवर्णकसार	...	१२३ - ४
प्रथम वर्णकानुसार सूत्रार्थका प्रतिपादन	...	१२६ - २
द्वितीय वर्णकानुसार सूत्रार्थका प्रतिपादन	...	१३० - २

समन्वयाधिकरण १।१।४।४ [पृ० १३२-२२३]

तत्त समन्वयान् १।१।४।४	...	१३२ - १
चतुर्थ अधिकरणका प्रथमवर्णकसार	...	१३२ - ११
चतुर्थ अधिकरणका द्वितीयवर्णकसार	...	१३३ - ४
ब्रह्मके शास्त्रप्रमाणकत्वपर आक्षेप	...	१३४ - २
वेदान्त क्रिया-विधिके अङ्ग हैं	...	१३५ - ६
वेदान्त उपासना के अङ्ग हैं	...	१४० - ४
सूत्रका व्याख्यान	...	१४१ - ४
वेदान्त क्रियाविधिके अङ्ग नहीं हैं	...	१४५ - २
वेदान्त उपासना विधिके अङ्ग नहीं हैं	...	१४७ - ४
वृत्तिकारके मतसे पूर्वपक्ष	...	१५० - २
उक्त पूर्वपक्षका खण्डन	...	१५८ - ३
मोक्ष ब्रह्मसे भिन्न नहीं है	...	१६६ - ५
आत्मतत्त्वज्ञानसे मिथ्याज्ञानका नाश होता है	...	१७० - ३
ब्रह्मानैकत्वविज्ञान सम्पदादिरूप नहीं है	...	१७३ - २
मोक्ष उत्पाद्य, विकार्य, आप्य तथा संस्कार्य नहीं है	...	१८१ - ४
क्रियासे ज्ञान विलक्षण है	...	१८८ - ४
'आत्मा द्रष्टव्य.' इत्यादि विधितुल्य वचनोका प्रयोजन-कथन	...	१९२ - ४
सम्पूर्ण वेद कार्यपरक है इस मतका खण्डन	...	१९५ - ४
आत्मा केवल उपनिषदोसे ही जाना जाता है	...	१९७ - ५
वधि आदि शब्दोंके समान वेदान्त भी सिद्ध वस्तुका बोध कराते हैं	...	२०१ - २
निषेधवाक्योंके समान वेदान्त सिद्धार्थका प्रतिपादन करते हैं	...	२०४ - ३
'ब्राह्मणो न हन्तव्यः' इत्यादि वाक्योंमें निषेधका अर्थ	...	२०५ - ४
जिसको 'मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा ज्ञान हो गया है, वह पूर्वकी तरह
संसारि नहीं रहता	...	२१० - ५

विषय	पृ०	पं०
जीतेजी भी शरीररहित स्थिति होती है	२१२-४
देह आदिमें आत्माभिमान मिथ्या है गौण नहीं है	२१५-२
ब्रह्म मननादि विधिका शेष नहीं है	२१८-५
चतुर्थ सूत्रकी योजना		२१९-४
ब्रह्मज्ञानके पहले ही सब व्यवहार हैं इस विषयमें ब्रह्मवेत्ताओंकी गाथा		२२१-५

ईक्षत्यधिकरण १।१।५।५-११ (पृ० २२४-२६९)

पंचम अधिकरणका सार	२२४-४
वेदान्तोंका समन्वय ब्रह्ममें नहीं है इस प्रकार सांख्यमतसे आक्षेप		२२५-४
कणादमत	२२६-४
सांख्यमतका निरूपण	२२७-५
ईक्षतेनांशब्दम् १।१।५।५		२३१-१
'प्रधान जगत्का कारण है' इस सांख्यमतका निराकरण		२३१-१०
ब्रह्ममें सर्वज्ञता मुख्य है	२३५-९
ईश्वरके ज्ञानमें शरीर आदिकी अपेक्षा नहीं है	२३९-३
'ईक्षण प्रधानमें औपचारिक है' इस सांख्यमतका कथन	२४४-२
गौणश्चेन्नात्मशब्दात् १।१।५।६		२४६-१
उपर्युक्त सांख्यमतका निराकरण	२४६-९
श्रुतिमें आत्मशब्दका प्रयोग है अतः प्रधान ईक्षणकर्ता नहीं हो		
सकता है	२४७-४
आत्मशब्द प्रधानमें गौण है इस सांख्यमतका निरूपण	२५०-२
तान्निष्ठस्य माक्षोपदेशात् १।१।५।७		२५१-१
उपर्युक्त सांख्यमतका निरसन	२५१-८
आत्मशब्द चेतनका ही वाचक है	२५४-६
हेयत्वावचनाच्च १।१।५।८		२५८-१
स्थूलारुन्धतीन्यायसे भी प्रधान 'सत्' शब्दका अर्थ नहीं हो सकता		२५८-१०
स्वाप्ययात् १।१।५।९		२६२-१
श्रुति आत्मीमें सब चेतनोंका लय कहती है, अतः आत्मा सत्शब्द-		
वाच्य तथा जगत्कारण है	२६२-८
गतिष्ठामान्यात् १।१।५।१०		२६६-१
सब वेदान्त चेतनको ही जगत्कारण धतलते हैं, अतः चेतन ही		
जगत्कारण है	२६६-८

विषय	पृ०	पं०
भुतत्वान्च १।१।५।११	...	२६८ - १
सर्वज्ञ ब्रह्म ही जगत्कारण है, इस विषयका सप्रमाण उपपादन...	...	२६८ - ८

आनन्दमयाधिकरण १।१।६।१२-१९ [पृ० २७०-३१२]

षष्ठ अधिकरणका प्रथम वर्णकसार	...	२७० - ७
षष्ठ अधिकरणका द्वितीय वर्णकसार	...	२७० - १९
अप्रिम सूत्र (आनन्दमयोऽभ्यासात्) की रचनापर आक्षेप	...	२७१ - २
उक्त आक्षेपका समाधान	...	२७१ - ६
उपासनाओं तथा उनके फलोंका भेद	...	२७४ - ५
आत्मा यद्यपि वस्तुतः निरतिशय है, तो भी विद्याके तारतम्यसे सातिशय भासता है	...	२७६ - ७
आनन्दमयाऽभ्यासात् १।१।६।१२	...	२७९ - १
आनन्दमयशब्दके अर्थ में संशय	...	२८० - २
आनन्दमय अमुख्य आत्मा है ऐसा पूर्वपक्ष	...	२८० - ४
वृत्तिकारके मतसे समाधान	...	२८१ - ७
प्रियशिरस्त्व तथा शरीरत्व आदि उपाधिसंबन्धसे कल्पित हैं	...	२८५ - २
विकारशब्दाच्चेति चेन्न प्राचुर्यात् १।१।६।१३	...	२८६ - १
मयट् प्रत्यय विकारार्थक होनेके कारण आनन्दमय परमात्मा नहीं हो सकता है ऐसा पूर्वपक्ष	...	२८६ - ११
मयट् प्राचुर्यार्थक है	...	२८७ - २
तद्वेतुष्यपदेशाच्च १।१।६।१४	...	२८८ - १
ब्रह्म आनन्दका हेतु है, अतः मयट् प्राचुर्यार्थक है	...	२८८ - ८
मान्यवर्णिकमेव च गीयते १।१।६।१५	...	२८९ - १
प्रकरणसे भी आनन्दमय ब्रह्म है	...	२८९ - १०
नेतरोऽनुपपत्तेः १।१।६।१६	...	२९१ - १
कामयितृत्व आदि धर्म जीवमें सम्भव नहीं है, अतः आनन्दमय जीव नहीं है	...	२९१ - ९
भेदव्यपदेशाच्च १।१।६।१७	...	२९२ - १
श्रुति जीव और ब्रह्मका भेद कहती है, अतः आनन्दमय जीव नहीं है	...	२९२ - ९
कामाच्च नानुमानापेक्षा १।१।६।१८	...	२९५ - १
श्रुति आनन्दमयको कामयिता कहती है, अतः प्रधान आनन्दमय नहीं है	...	२९५ - १०
अस्मिन्नस्य च तद्योग शास्ति १।१।६।१९	...	२९६ - १

विषय	पृ०	पं०
आनन्दमयको जाननेवाला आनन्दमय ही हो जाता है इस प्रकार ज्ञाता और ज्ञेयका अभेद कहा गया है, अतः प्रधान अथवा जीव आनन्दमय नहीं है ...	२५६	— १२
'आनन्दमय जीव है' इस मुख्य सिद्धान्तका प्रतिपादन ...	२५७	— ८
अन्नमय आदिके समान आनन्दमय भी ब्रह्म नहीं है ...	२५९	— २
ब्रह्म आनन्दमयका अवयव है [पूर्वपक्ष] ...	३००	— ३
'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इस वाक्यमें स्वप्रधान ब्रह्मका ही उपदेश है आनन्दप्रचुरता ब्रह्ममें नहीं हो सकती है, ब्रह्मप्रतिगरीरभिन्न नहीं है और आनन्दपदका ही अभ्यास है, अतः आनन्दमय ब्रह्म नहीं है ...	३०१	— २
सिद्धान्तमतके अनुसार 'आनन्दमयोऽभ्यासात्' इत्यादि सूत्रोंकी व्याख्या अन्तराधिकरण १।१।७।२०, २१ [पृ० ३१३-३२५]	३०९	— २
सप्तम अधिकरणका सार ...	३१३	— ६
अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् १।१।७।२० ...	३१३	— १६
'य एषोऽन्तरादित्ये' इत्यादि श्रुतिमें प्रतिपादित पुरुष जीव है [पूर्वपक्ष] ...	३१६	— २
उक्त पूर्वपक्षका खण्डन और वह पुरुष परमेश्वर है ऐसा प्रतिपादन भेदव्यपदेशाच्च १।१।७।२१ ...	३१८	— ३
अन्य श्रुतिमें आदित्य आदि जीवोंसे भिन्न अन्तर्यामी कहा गया है अतः आदित्यस्थ और अक्षिस्थ पुरुष परमात्मा है ...	३२४	— ११
आकाशाधिकरण १।१।८।२२ [पृ० ३२६-३३४]		
अष्टम अधिकरणका सार ...	३२६	— ६
आकाशस्तद्धिज्ञात् १।१।८।२२ ..	३२६	— १५
'आकाश इति होवाच' इस श्रुतिमें स्थित आकाशपद भूताकाशपरक है इस पूर्वपक्षका खण्डन कर सिद्धान्तका प्रतिपादन ...	३२७	— २
प्राणाधिकरण १।१।९।२३ [पृ० ३३५-३४३]		
नवम अधिकरणका सार ...	३३५	— ६
अत एव प्राणः १।१।९।२३ ...	३३६	— १
'प्राण इति होवाच' इस श्रुतिमें प्राणपद वायुविकारका वाचक है इस पूर्वपक्षका निरसनकर वह परमात्मवाचक है ऐसे सिद्धान्तका प्रतिपादन ...	३३६	— ९
ज्योतिश्चरणाधिकरण १।१।१०।२४-२७ [पृ० ३४४-३७२]		
दशम अधिकरणका सार ...	३४४	— ६
ज्योतिश्चरणाभिधानात् १।१।१०।२४ ...	३४५	— १

विषय	पृ०	पं०
'अथ यदतः परो दिवो ज्योतिः' इत्यादि श्रुति में आदित्य आदि ही ज्योति है [पूर्वपक्ष]	...	३४६ - ५
ज्योतिःशब्द ब्रह्मवाचक है [सिद्धान्त]	...	३५२ - ६
छन्दोभिधानान्नेति च० १।१।१०।२५	...	३६० - १
'गायत्री वा इदं' इस पूर्ववाक्यमें गायत्रीछन्दका अभिधान है	...	३६० - २०
उक्त वाक्यमें ब्रह्म ही प्रकृति है	...	३६२ - २
भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्चैवम् १।१।१०।२६	...	३६७ - १
पूर्ववाक्यमें भूत, पृथिवी आदि पाद कहे गये हैं इससे भी ब्रह्म ही प्रकृत है	...	३६७ - ११
उपदेशभेदान्नेति चैत्रोमयस्मिन्नविरोधात् १।१।१०।२७	...	३७० - १
'दिवि' 'दिवः' इन शब्दोंमें विभक्तिका भेद होनेपर भी प्रातिपदिक 'द्यु' शब्दके एक होनेसे ब्रह्मकी प्रत्यभिज्ञा होती है	...	३७० - १९
प्रतर्दनाधिकरण १।१।११।२८-३१ [पृ० ३७३-३९८]		
एकादश अधिकरणका सार	...	३७३ - ६
प्राणस्तथानुगमात् १।१।११।२८	...	३७४ - १
'प्राणोऽस्मिं प्रज्ञात्मा' इस श्रुतिमें प्राणशब्दके अर्थमें संशय प्राण ब्रह्म है	...	३७५ - ५
न वक्षुरात्मापदेशादिति १।१।११।२९	...	३७९ - १
प्राण इंद्र है इस पूर्वपक्षका कथन	...	३७९ - १४
उक्त पूर्वपक्षका निरासपूर्वक प्राणका ब्रह्मत्व प्रतिपादन	...	३८१ - ५
क्षोत्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत् १।१।११।३०	...	३८४ - १
'प्राणोऽस्मि' इस वाक्यका इन्द्रपरत्वनिरासपूर्वक ब्रह्मपरत्व व्यवस्थापन	...	३८४ - ११
जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति० १।१।११।३१	...	३८६ - १
जीवके तथा मुख्यप्राणके लिङ्ग होनेसे प्राणवाक्य ब्रह्मपरक नहीं हो सकता	...	३८६ - २३
प्राणवाक्यको ब्रह्मपरक न माननेमें अनुपपत्ति, माननेमें उपपत्ति तथा जीव और मुख्यप्राणपरत्वका निरास	...	३८९ - २
युक्तिकारमतसे सूत्रके सिद्धान्त भागका व्याख्यान	...	३९२ - ८
प्रथमाध्यायके प्रथम पादकी समाप्ति	...	३९८ - ११
सर्वत्रप्रसिद्ध्याधिकरण १।२।१।१-८ [पृ० ३९९-४२६]		
उक्तानुवादपूर्वक द्वितीय और तृतीय पादके आरम्भका प्रयोजनकथन	...	३९९ - ५
द्वितीय पादके प्रथम अधिकरणका सार	...	४०१ - ६
सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् १।२।१।१	...	४०२ - १

विषय	पृष्ठ पंक्ति
मनोमयत्व आदि धर्मों से जीव उपास्य है [पूर्वपक्ष] ...	४०४ - ४
मनोमयत्व आदि धर्मोंसे ब्रह्म ही उपास्य है [सिद्धान्त] ...	४०७ - ७
विवक्षित गुणोपपत्तेश्च १।२।१।२ ...	४१० - १
वेदमें विवक्षित सत्यसङ्कल्पत्व आदि गुण ब्रह्ममें ही उपपन्न होते हैं, अतः ब्रह्म ही उपास्य है ...	४१० - ८
अनुपपत्तेस्तु न शारीरः १।२।१।३ ...	४१३ - १०
विवक्षित सत्यसङ्कल्पत्व आदि गुण जीवमें नहीं हैं ...	४१३ - १८
कर्मकर्तृव्यपदेशान्च १।२।१।४ ...	४१५ - १
श्रुति ब्रह्मको प्राप्य जीवको प्राप्तिकर्ता कहती है, अतः जीव मनो- मयत्व आदि गुणविशिष्ट नहीं है ...	४१५ - ११
शब्दविशेषात् १।२।१।५ ...	४१६ - ९
अन्य श्रुतिमें ब्रह्म तथा जीवके वाचक शब्द भिन्न-भिन्न कहे गये हैं, अतः ब्रह्म ही मनोमयत्व आदि गुणोंसे युक्त है ...	४१६ - १०
स्मृतेश्च १।२।१।६ ...	४१७ - १
शरीर और परमात्माका भेदविवेचन ...	४१७ - १२
अर्भकौकस्त्वात्तद्व्यपदेशाच्च० १।२।१।७ ...	४१९ - १
हृदय अल्प है जीव भी सूक्ष्म है, अतः हृदयमें रहनेवाला जीव है इस पूर्वपक्षका निरसनपूर्वक हृदयस्थ परमेश्वर है ऐसा सदृशान्त प्रतिपादन ...	४१९ - १८
संभोगप्राप्तिरिति चेन्न वैशेष्यात् १।२।१।८ ...	४२२ - ७
ब्रह्ममें भोगकी प्राप्ति होगी [पूर्वपक्ष] ...	४२२ - १९
उक्त पूर्वपक्षका निरसन ...	४२३ - ४
अत्रुचिकरण १।२।२।९-१० [पृ० ४२७-४३२]	
द्वितीय अधिकरणका सार ...	४२७ - ७
अत्ताचराचर गृहणात् १।२।२।९ ...	४२८ - १
अत्तवाक्यमें प्रतीयमान अत्ता अग्नि है [पूर्वपक्ष] ...	४३० - २
उक्त अत्ता परमेश्वर है [सिद्धान्त] ...	४३० - ६
प्रकरणाच्च १।२।२।१० ...	४३२ - १
प्रकरण तथा लिङ्गसे सिद्ध होता है कि उक्त अत्ता परमेश्वर है ...	४३२ - ११
गुहामविष्टाधिकरण १।२।३।११, १२ [पृ० ४३३ - ४४८]	
तृतीय अधिकरणका सार ...	४३३ - ६
गुहा प्रविष्टावात्मानौ द्वि० १।२।३।११ ...	४३४ - १

विषय	पृष्ठ	पंक्ति
'ऋतं पिबन्तौ' इस वाक्यमें प्रतीयमान पानकर्ताओमें संशय ...	४३५	- ३
उक्त संशयपर आक्षेप ...	४३६	- ६
उक्त आक्षेपका निरसन ...	४३७	- ३
पानकर्ता बुद्धि और जीव हैं [पूर्वपक्ष] ...	४३८	- ६
पानकर्ता जीवात्मा और परमात्मा हैं [सिद्धान्त] ...	४३९	- ६
विशेषणाच्च १।२।१।१२ ...	४४१	- १७
श्रुत्युक्त विशेषण भी जीव और परमात्मामें ही संगत होते हैं ...	४४२	- २
'द्वा सुपर्णा' इस मंत्रमें भी जीव और परमात्मा ही प्रतिपाद्य हैं... ..	४४३	- ५
'द्वा सुपर्णा' यह मंत्र इस अधिकरणका विषय नहीं है ...	४४४	- ६

अन्तराधिकरण १।२।४।१३-१७ [पृ० ४४९-५६८]

चतुर्थ अधिकरणका सार ...	४४९	- ६
अन्तर उपपत्तेः १।२।४।१३ ...	४५०	- १
अक्षिस्थ पुरुष छायात्मा है [पूर्वपक्ष] ...	४५१	- ४
अक्षिस्थ पुरुष परमेश्वर है [सिद्धान्त] ...	४५२	- ४
स्थानादिव्यपदेशाच्च १।२।४।१४ ...	४५४	- १
अन्य पृथिवी आदि स्थान एवं नाम और रूप परमेश्वरके कहे गये हैं, अतः नेत्र भी परमेश्वरका स्थान हो सकता है ...	४५४	- १२
सुरविशिष्टाभिधानादेव च १।२।४।१५ ...	४५६	- १
अक्षिस्थानमें सुरविशिष्ट ब्रह्मज्ञा उपदेश है ...	४५६	- ११
भूतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च १।२।४।१६ ...	४६२	- १
प्रदावित्की गति ही अक्षिस्थ पुरुषको जाननेवालेके लिए कही गयी है, अतः अक्षिस्थ पुरुष परमेश्वर है ...	४६२	- ११
अनवस्थितेरसम्भवाच्च १।२।४।१७ ...	४६५	- १
छायात्मा या विज्ञानात्मा अथवा देवतात्मा अक्षिस्थ पुरुष नहीं हो सकते हैं ...	४६५	- १२

अन्तर्याम्यधिकरण १।२।५।१८-२० [पृ० ४६९-४८२]

पंचम अधिकरणका सार ...	४६९	- ७
अन्तर्याम्यधिदेवादिषु १।२।५।१८ ...	४६९	- ७
पृथिवी आदिया अन्तर्यामी कोई अप्रसिद्ध पदार्थ अथवा देवता या योगी है [पूर्वपक्ष] ...	४७१	- ३
अन्तर्यामी परमात्मा है ...	४७३	- २
न च स्मार्तमतद्वर्गमिच्छापात् १।२।५।१९ ...	४७६	- १

विषय	पृ० पं०
प्रधान अन्तर्यामी हो सकता है [पूर्वपक्ष]	... ४७६ - १०
उक्त पूर्वपक्षका निरसन	... ४७७ - ४
जीव अन्तर्यामी हो सकता है [पूर्वपक्ष]	... ४७८ - २
शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते १।२।५।२०	... ४७९ - १
जीव अन्तर्यामी नहीं हो सकता है [सिद्धान्त]	... ४७९ - ११
जीव और ईश्वरका भेद पारमार्थिक नहीं है	... ४८१ - ३

अदृश्यत्वाधिकरण १।२।६।२१-२३ [पृ० ४८३-५०४]

पञ्च अधिकरणका सार	... ४८३ - ६
अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः १।२।६।२१	... ४८४ - १
प्रधान भूतयोनि है [पूर्वपक्ष]	... ४८५ - ५
भूतयोनि परमेश्वर है [सिद्धान्त]	... ४८७ - ८
विशेषणव्यपदेशान्म्या च नेतरी १।२।६।२२	... ४९४ - १८
जीव या प्रधान भूतयोनि नहीं है, किन्तु परमेश्वर ही भूतयोनि है	
इस विषयमें दूसरे कारणका प्रदर्शन	... ४९५ - २
रूपोपन्यासाच्च १।२।६।२३	... ४९९ - १
उपर्युक्त विषयमें ही अन्य हेतुका प्रदर्शन	... ४९९ - ८
भूतयोनिके विषयमें घृत्तिकारका मत	... ५०१ - ५

वैश्वानराधिकरण १।२।७।२४-३२ [पृ० ५०५-५३६]

सप्तम अधिकरणका सार	... ५०५ - ४
वैश्वानरः साधारणशब्दाविशेषात् १।२।७।२४	... ५०६ - १
सप्तम अधिकरणके विषयवाक्यका प्रदर्शन	... ५०६ - १३
जाठराग्नि, या भूताग्नि अथवा आग्न्यभिमानी देवता	
वैश्वानर है [पूर्वपक्ष]	... ५१० - २
वैश्वानर परमात्मा है [सिद्धान्त]	... ५११ - ८
स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति १।२।७।२५	... ५१४ - १
स्मृतिसे भी प्रतीत होता है कि वैश्वानर परमात्मा ही है	... ५१४ - १०
शब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न १।२।७।२६	... ५१६ - १
वैश्वानर परमात्मा नहीं हो सकता [पूर्वपक्ष]	... ५१६ - १९
वैश्वानर परमात्मा ही है [सिद्धान्त]	... ५१९ - ४
अत एव न देवता भूतञ्च १।२।७।२७	... ५२२ - १
भूताग्नि और देवता वैश्वानर नहीं हैं	... ५२२ - १०
साक्षादप्यविरोध जैमिनिः १।२।७।२८	... ५२३ - १८

विषय		पृष्ठ पंक्ति
वैश्वानरकी उपासनामें जैमिनि आचार्य मत	...	५२४ - २
अभिव्यक्तेरित्यादमरध्व. १।२।७।२९	...	५२७ - १८
आदमरध्व्य आचार्यके मतानुसार परमेश्वरमें प्रादेशमात्र	...	५२८ - २
श्रुतिका समन्वय	...	५२८ - २
अनुस्मृतेर्नादरिः १।२।७।३०	...	४२८ - २२
उपर्युक्त विषयमें बादरि आचार्यके मतका प्रदर्शन	...	५२९ - २
सम्पत्तेरिति जैमिनिन्तथाहि दर्शयति १।२।७।३१	...	५३० - १
उपर्युक्त विषयमें जैमिनि आचार्यके मतका प्रदर्शन	...	५३० - १२
आमनन्ति चैनमादिमन् १।२।७।३२	...	५३३ - १९
जावाल भी मस्तक और ठोड़ीके बीच में परमेश्वरकी उपासना करते हैं	...	५३४ - २
प्रथमाध्यायके द्वितीय पादकी समाप्ति	...	५२६ - २१

द्युम्नाद्यधिकरण १।३।१-७ [पृ० ५३७—५५७]

तृतीय पादके प्रथम अधिकरणका सार		
द्युम्नाद्यायतन स्वशब्दात् १।३।१।१	...	५३७ - ९
द्युलोक, भूलोक आदिका आश्रय ब्रह्मभिन्न है [पूर्वपक्ष]	...	५३८ - १
द्यु और भूलोकका आश्रय परब्रह्म ही है [सिद्धान्त]	...	५४० - ३
आत्मा एकरस है	...	५४२ - ४
सेतुश्रुति ब्रह्मविषयक नहीं है, किन्तु ब्रह्मज्ञानविषयक है	...	५४४ - ४
मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात् १।३।१।२	...	५४७ - २
मुक्तान्य होनेके कारण द्यु, भू आदिका आधार ब्रह्म है	...	५४८ - १
नानुमानमतच्छब्दात् १।३।१।३	...	५४८ - ९
प्रधान द्यु, भू आदिका आधार नहीं है	...	५५१ - १
प्राणभृच्च १।३।१।४	...	५५१ - ८
जीव भी उनका आधार नहीं है	...	५५२ - १
भेदव्यपदेशात् १।३।१।५	...	५५२ - ८
उपर्युक्त विषयमें दूसरे हेतुका कथन	...	५५३ - १
प्रकरणात् १।३।१।६	...	५५३ - ८
परमात्माका प्रकरण है, अत जीव उनका आधार नहीं है	...	५५४ - १
स्थित्यदनाभ्याम् १।३।१।७	...	५५४ - ८
'द्वा सुपर्णा' इस मंत्रसे भी सिद्ध होता है कि द्यु, भू आदिका	...	५५४ - १९
आधार जीव नहीं है	...	५५५ - २

विषय

पृष्ठ संक्ति

भूमाधिकरण १।३।२।८, ९ [पृ० ५५८—५८३]

द्वितीय अधिकरणका सार	...	५५८ - १
भूमा संप्रसादादध्युपदेशात् १।३।२।८	...	५५९ - १
'भूमा'पदके अर्थमें संशयका कारण	...	५६० - २
प्राण भूमा है [पूर्वपक्ष]	...	५६१ - ३
भूमाके धर्मोंका प्राणसे समन्वय	...	५६३ - ५
भूमा परमात्मा है [सिद्धान्त]	...	५६५ - ६
धर्मोपपत्तेश्च १।३।२।९	...	५७३ - ८
भूमाके धर्म परमात्मामें ही संभव हैं	...	५७३ - १७

अक्षराधिकरण १।३।३।१०-१२ [पृ० ५७६-५८३]

तीसरे अधिकरणका सार	...	५७६ - ६
अक्षरमम्बरान्तधृतेः १।३।३।१०	...	५७७ - १
अक्षरशब्द वर्णवाचक है [पूर्वपक्ष]	...	५७८ - २
अक्षरशब्द ब्रह्मका अभिधान करता है [सिद्धान्त]	...	५७८ - ६
सा च प्रशासनात् १।३।३।११	...	५८० - १
आकाशान्त जगत्को धारण करना परमेश्वरका ही कर्म है	...	५८० - ११
अन्यभावव्यावृत्तेश्च १।३।३।१२	...	५८१ - १३
चेतन होनेके कारण ब्रह्मही अक्षरशब्दवाच्य है	...	५८१ - २०

ईक्षतिकर्मव्यपदेशाधिकरण १।३।४।१३ [पृ० ५८४-५९२]

चौथे अधिकरणका सार	...	५८४ - ६
ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्तः १।३।४।१३	...	५८५ - १
ओंकार द्वारा अपरब्रह्म ध्येय है [पूर्वपक्ष]	...	५८७ - २
ओंकार द्वारा परब्रह्म ही ध्येय है [सिद्धान्त]	...	५८७ - ४

दहराधिकरण १।३।५।१४-१८ [पृ० ५९३-६३९]

पंचम अधिकरणका सार	...	५९३ - ६
दहर उत्तरेभ्यः १।३।५।१४	...	५९४ - १
दहराकाशमें संशय	...	५९५ - २
दहराकाश भूताकाश है [पूर्वपक्ष]	...	५९५ - ९
दहराकाश जीव है [पूर्वपक्ष]	...	५९७ - २
दहर परमेश्वर ही है [सिद्धान्त]	...	५९८ - ४
भूताकाश दहर नहीं हो सकता	...	६०० - २
जीव दहर नहीं हो सकता	...	६०२ - ३

विषय	पृ०	पं०
ब्रह्मपुराणशब्दमें 'ब्रह्म' शब्द परब्रह्मका अभिधायक है	...	६०२ - ८
अन्तर्वर्तिपदार्थोंके साथ ब्रह्म ध्येय है	...	६०४ - ६
गतिशब्दाभ्यां तथाहि दृष्टं० १।३।५।१५	...	६०७ - १
गति और ब्रह्मलोकशब्दसे भी दहर परब्रह्म है	...	६०७ - २०
धृतेश्च महिम्नोऽस्या० १।३।५।१६	...	६११ - १
धृतिसे भी दहर परमेस्वर ही है	...	६११ - १४
प्रसिद्धेश्च १।३।५।१७	...	६१४ - १
आकाशशब्द ब्रह्ममें रूढ़ है अतः दहराकाश ब्रह्म ही है	...	६१४ - ९
इतरपरामर्शात् स इति० १।३।५।१८	...	६१५ - १
वाक्यशेषमें जीवका भी परामर्श है, अतः जीव दहराकाश है	...	६१५ - ११
उपाधिपरिच्छिन्न जीव दहर नहीं हो सकता	...	६१७ - ५
उत्तराच्चेदार्विभूत० १।३।५।१९	...	६१८ - १
अपहृतपात्मत्व आदि धर्म जीवमें भी प्रजापतिवान्यसे प्रतीत होते हैं, अतः जीव दहर हो सकता है	...	६१९ - २
अपहृतपात्मत्व आदि धर्म ब्रह्मभूत जीवके कहे गये हैं	...	६२२ - ८
जीवका शरीरसे समुत्थान और स्वरूपसे अभिव्यक्तिका आक्षेपसमा- धानपूर्वक निरूपण	...	६२६ - २
'एतं त्वेव ते' इसमें 'एतत्' पदसे परमात्माकी अनुवृत्ति है, यह कहने वालोंके मतका निराकरण	...	६३३ - ५
कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि जीवका रूप पारमार्थिक है, ऐसा माननेवालोंके मतका निराकरण	...	६३४ - ७
सूत्रोंमें जीवेश्वरभेदके प्रतिपादनका अभिप्राय	...	६३५ - २
अन्यार्थश्च परामर्शः १।३।५।२०	...	६३७ - १
दहरवाक्यशेषमें जीवका परामर्श परमेश्वरके द्योतनके लिए है	...	६३७ - ९
अल्पभ्रुतेरिति० १।३।५।२१	...	६३९ - १
परमेस्वरमें भी अल्पत्व उपपन्न है	...	६३९ - ११

अनुकृत्यधिकरण १।३।६।२२-२३ [पृ० ६४०-६४९]

पट्ट अधिकरणका सार	...	६४० - ६
अनुकृतेस्तस्य च १।३।६।२२	...	५४१ - १
'न तत्र सूर्यो भाति' इस श्रुतिमें 'तत्' पदसे प्रतिपाद्य कोई तेजस्वी पदार्थ है [पूर्वपक्ष]	...	६४२ - ४

विषय	पृष्ठ संक्ति
उक्त श्रुतिमें 'तन्' पदप्रतिपाद्य ब्रह्म ही है ...	६४३ - ७
उक्त श्रुतिके चौथे पादमें स्थित सर्वशब्दको जगन्मात्रनायक मानकर	
ध्यास्थान ...	६४३ - २
अत्र च स्मर्यते १।३।६।२३ ...	६४९ - १
स्मृतिमें भी अन्यसे अभास्य एवं सवका भासक परमात्मा ही	
कहा गया है ...	६४९ - १०
प्रमिताधिकरण १।३।७।२४, २५ [पृ० ६५०-६५८]	
सप्तम अधिकरणका सार ...	६५० - ६
शब्दादेव प्रमितः १।३।७।२४ ...	६५१ - १
अद्भुष्टमात्र पुरुष जीव है [पूर्वपक्ष] ...	६५२ - ३
अद्भुष्टमात्र पुरुष ब्रह्म ही है [सिद्धान्त] ...	६५३ - ६
दृश्येद्यथा तु० १।३।७।२५ ...	६५४ - २३
शास्त्रके अधिकारी त्रैजर्णिक हैं, मनुष्योंके अद्भुष्टमात्र हृदयमें	
रहनेके कारण परमेश्वर अद्भुष्टमात्र कहलाता है ...	६५५ - ६
देवताधिकरण १।३।८।२६-३३ [० ६५९-७२८]	
अष्टम अधिकरणका सार ...	६५९ - ६
तदुपर्यपि बादरायणः० १।३।८।२६ ...	६६० - १
ब्रह्मविद्यामें देवता आदि भी अधिकारी हैं ...	६६१ - २
विरोधः कर्मणीति चेत्ता० १।३।८।२७ ...	६६५ - १८
देवताओंका शरीर मानने पर कर्ममें विरोधका प्रतिपादन ...	६६५ - १८
उक्त विरोधका परिहार ...	६६७ - २
एक देवताके अनेक शरीरयोगमें स्मृतिप्रामाण्य ...	६६८ - ४
'अनेकप्रतिपत्तेर्दर्शनात्' इस सूत्रभागका दूसरा व्याख्यान ...	६७० - ४
शब्द इति चेन्नातः० १।३।८।२८ ...	६७१ - १
शब्दमें विरोधका प्रदर्शन ...	६७१ - १३
उक्त विरोधका परिहार ...	६७२ - ७
पूर्वापरविरोधकी शङ्का ...	६७२ - ८
शब्द और अर्थके सम्बन्धका नित्यत्वकथन ...	६७४ - २
शब्दार्थ जाति है ...	६७४ - ४
शब्द जगन्का उपादानकारण नहीं है ...	६७६ - ५
शब्दसे जगन्की उत्पत्तिमें प्रमाण ...	६७७ - २
स्फोट ही शब्द है, वर्ण शब्द नहीं है ...	६७९ - १०

विषय	पृ०	पं
वर्णोंसे अर्थज्ञान नहीं हो सकता	...	६८१ - ०
वर्ण ही शब्द हैं	..	६८५ - २
वर्णचैत्रिय अभिव्यक्तकत्रैचित्र्यनिमित्तिक है	..	६८६ - ६
वर्णभेदज्ञान ध्वनित है	.	६८८ - ३
स्फोटकी कल्पना व्यर्थ है	...	६९० - ३
'एक पद है' यह बुद्धि वर्णविषयक ही है	...	६९१ - ०
अनेक भी एक बुद्धिके विषय होते हैं	...	६९१ - ८
ब्रह्मविशेषसे पदविशेषका ज्ञान होता है		६९३ - ४
स्फोटकल्पनामे गौरवप्रदर्शन		६९४ - ४
अत एव च नित्यत्वम् १।३।८।२९	..	६९५ - १
प्रपञ्चका जनक होनेसे वेद नित्य है	...	६९५ - ८
समाननामरूपत्वा० १।३।८।३०		६९७ - १
महाप्रलय एव नूतन सृष्टिके श्रुतिस्मृतिसिद्धि होनेके कारण शब्दमें अविरोध नहीं कहा जा सकता		६९७ - १८
शब्दमे अविरोधकी उपपत्ति		६९९ - २
कल्पान्तरमें पूर्वकल्पके पदार्थोंका अनुसन्धान नहीं हो सकता हे		७०० - ७
हिरण्यगर्भ आदिको पूर्वकल्पके व्यग्रहारका अनुसन्धान हो सकता है		७०१ - ३
ऋषि भी प्रकृष्टज्ञानवान् हैं		७०३ - ०
सृष्टि पूर्वसृष्टिसजातीय ही होती है		७०४ - ०
नाम और रूप पूर्वसजातीय ही हैं, इस विषयमे श्रुतिस्मृतिरूप प्रमाणोंका प्रदर्शन	...	७०७ - ७
मध्वादिष्वसम्भवादन० १।३।८।३१		७१० - १
देवता आदिका विद्यामे अधिकार नहीं है—जैमिनि आचार्यके मतका प्रदर्शन	...	७१० - १३
ज्योतिषि भावाच्च १।३।८।३२	...	७१३ - १५
आदित्य आदि शब्द अचेतनवाचक हैं, अतः देवताओंका शरीर न होनेसे विद्यामे अधिकार नहीं है		७१४ - २
भाव तु वादरायणोऽस्ति हि १।३।८।३३		७१६ - २२
निर्गुणब्रह्मविद्यामें देवताओंका अधिकार है		७१७ - ३
आदित्य आदि शब्द चेतनवाचक हैं		७१९ - २
मत्र और अर्थवादका स्वार्थमे भी प्रामाण्य है		७२० - ७
देवता ध्येय होनेसे भी शरीरी हैं		७२४ - ४
इतिहास और पुराण भी देवताओंको शरीरी कहते हैं	.	७२६ - ०

विषय	पृ० पं०
योगशास्त्रसे भी सिद्ध है कि देवता शरीरी हैं	... ७२७ - ५
अपशूद्राधिकरण १।३।९।३४८ [पृ० ७२९-७४५]	
नवम अधिकरणका सार	... ७२९ - ६
शुगस्य तदनादरश्रवणात् १।३।९।३४	... ७३० - १
शूद्रका भी विद्यामें अधिकार है [पूर्वपक्ष]	... ७३० - १२
शूद्रका विद्यामें अधिकार नहीं है [सिद्धान्त]	... ७३२ - ५
‘अह हारे त्या शूद्र’ इस श्रुतिमें उक्त शूद्रशब्द अधिकारी क्षत्रिय में समन्वित है	... ७३५ - २
क्षत्रियत्वगतेश्चोत्तरत्वं १।३।९।३५	... ७३७ - १
जानश्रुति जातिशूद्र नहीं है	... ७३७ - ११
संस्कारपरामर्शात् १।३।९।३६	... ७३९ - १६
विद्याके अधिकारीके लिए उपनयन संस्कार आदि कहे गये हैं, अतः शूद्रका अधिकार नहीं है	... ७४० - २
तदभावनिर्धारणे च प्रवृत्तेः १।३।९।३७	... ७४२ - १
गौतमकी प्रवृत्तिरूप लिङ्गसे भी शूद्रका विद्यामें अधिकार नहीं है	... ७४३ - २
श्रवणाध्ययनार्थप्रति १।३।९।३८	... ७४३ - १७
शूद्रके लिए वेदश्रवण आदिका निषेध है इससे भी शूद्र अधिकारी नहीं है	... ७४४ - २
कम्पनाधिकरण १।३।१०।३६ [पृ० ७४६-७५३]	
दशम अधिकरणका सार	... ७४६ - ६
कम्पनात् १।३।१०।३९	... ७४७ - १
‘एजति’ वाक्यमें कथित प्राण वायु है [पूर्वपक्ष]	... ७४८ - ५
उक्त प्राण ब्रह्म ही है [सिद्धान्त]	... ७५० - २
ज्योतिराधिकरण १।३।११।४० [पृ० ७५४-७५६]	
ग्यारहवें अधिकरणका सार	... ७५४ - ६
ज्योतिर्दर्शनात् १।३।११।४०	... ७५५ - १
प्रजापतिविद्यावाक्यगत ज्योति शब्द भूतात्मिका वाचक है [पूर्वपक्ष]	... ७५६ - ३
उक्त ज्योति-शब्द ब्रह्मवाचक है [सिद्धान्त]	... ७५७ - ३
अथन्तिरत्वव्यपदेशाधिकरण १।३।१२।४१ [पृ० ७६०-७६३]	
बारहवें अधिकरणका सार	... ७६० - ६
आकाशोऽर्थान्तरत्वादि १।३।१२।४१	... ७६१ - १

विषय	पृ० पं
वर्णोंसे अर्थज्ञान नहीं हो सकता	... ६८१ - २
वर्ण ही शब्द हैं	... ६८५ - २
वर्णवैचित्र्य अभिव्यञ्जकवैचित्र्यनिमित्तिक है	... ६८६ - ६
वर्णभेदज्ञान ध्वनिरूत है	... ६८८ - ३
स्फोटकी कल्पना व्यर्थ है	... ६९० - ३
'एक पद है' यह बुद्धि वर्णविषयक ही है	... ६९१ - २
अनेक भी एक बुद्धिके विषय होते हैं	... ६९१ - ८
क्रमविशेषसे पदविशेषका ज्ञान होता है	... ६९३ - ४
स्फोटकल्पनामें गौरवप्रदर्शन	... ६९४ - ४
अत एव च नित्यत्वम् १।३।८।२९	... ६९५ - १
प्रपञ्चका जनक होनेसे वेद नित्य है	... ६९५ - ८
समाननामरूपत्वा० १।३।८।३०	... ६९७ - १
महाप्रलय एवं नूतन सृष्टिके श्रुतिस्मृतिसिद्धि होनेके कारण शब्दमें अविरोध नहीं कहा जा सकता	... ६९७ - १८
शब्दमें अविरोधकी उपपत्ति	... ६९९ - २
कल्पान्तरमें पूर्वकल्पके पदार्थोंका अनुसन्धान नहीं हो सकता है	७०० - ७
हिरण्यगर्भ आदिको पूर्वकल्पके व्यवहारका अनुसन्धान हो सकता है	७०१ - ३
ऋषि भी प्रकृष्टज्ञानवान् हैं	... ७०३ - २
सृष्टि पूर्वसृष्टिसजातीय ही होती है	... ७०४ - २
नाम और रूप पूर्वसजातीय ही हैं, इस विषयमें श्रुतिस्मृतिरूप प्रमाणोंका प्रदर्शन	... ७०७ - ७
मध्वादिष्वसम्भवादन० १।३।८।३१	... ७१० - १
देवता आदिका विद्यामें अधिकार नहीं है—जैमिनि आचार्यके मतका प्रदर्शन	... ७१० - १३
ज्योतिषि भावाच्च १।३।८।३२	... ७१३ - १५
आदित्य आदि शब्द अचेतनवाचक हैं, अतः देवताओंका शरीर न होनेसे विद्यामें अधिकार नहीं है	... ७१४ - २
भावं तु वादरायणोऽस्ति हि १।३।८।३३	... ७१६ - २२
निर्गुणब्रह्मविद्यामें देवताओंका अधिकार है	... ७१७ - ३
आदित्य आदि शब्द चेतनवाचक हैं	... ७१९ - २
मंत्र और अर्थवादका स्वार्थमें भी प्रामाण्य है	... ७२० - ७
देवता ध्येय होनेसे भी शरीरी हैं	... ७२४ - ४
इतिहास और पुराण भी देवताओंको शरीरी कहते हैं	... ७२६ - २

विषय	पृ० पं०
योगशास्त्रसे भी सिद्ध है कि देवता शरीरी हैं	... ७२७ - ५
अपशूद्राधिकरण १।३।१।३४८ [पृ० ७२९-७४५]	
नवम अधिकरणका सार	... ७२९ - ६
शुगस्य तदनादश्रवणात् १।३।१।३४	... ७३० - १
शूद्रका भी विद्यामें अधिकार है [पूर्वपक्ष]	... ७३० - १२
शूद्रका विद्यामें अधिकार नहीं है [सिद्धान्त]	... ७३२ - ५
'अह हारे त्वा शूद्र' इस श्रुतिमें उक्त शूद्रशब्द अधिकारी क्षत्रिय में समन्वित है	... ७३५ - २
अभियत्यगतेश्चोत्तरन० १।३।१।३५	... ७३७ - १
जानश्रुति जातिशूद्र नहीं है	... ७३७ - ११
संस्कारपरामर्शात् १।३।१।३६	... ७३९ - १६
विद्याके अधिकारीके लिए उपनयन संस्कार आदि कहे गये हैं, अतः शूद्रका अधिकार नहीं है	... ७४० - २
तदभाननिर्वाणे च प्रवृत्तेः १।३।१।३७	... ७४२ - १
गौतमकी प्रवृत्तिरूप लिङ्गसे भी शूद्रका विद्यामें अधिकार नहीं है	... ७४३ - २
श्रवणाध्ययनार्थप्रति० १।३।१।३८	... ७४३ - १७
शूद्रके लिए वेदश्रवण आदिका निषेध है इससे भी शूद्र अधिकारी नहीं है	... ७४४ - २
कम्पनाधिकरण १।३।१०।३६ [पृ० ७४६-७५३]	
दशम अधिकरणका सार	... ७४६ - ६
कम्पनात् १।३।१०।३९	... ७४७ - १
'एजति' वाक्यमें कथित प्राण वायु है [पूर्वपक्ष]	... ७४८ - ५
उक्त प्राण ब्रह्म ही है [सिद्धान्त]	... ७५० - २
ज्योतिराधिकरण १।३।११।४० [पृ० ७५४-७५६]	
ग्यारहवें अधिकरणका सार	... ७५४ - ६
ज्योतिर्दर्शनात् १।३।११।४०	... ७५५ - १
प्रजापतिविद्यावाक्यगत ज्योति शब्द भूतामिका वाचक है [पूर्वपक्ष]	... ७५६ - ३
उक्त ज्योतिःशब्द ब्रह्मवाचक है [सिद्धान्त]	... ७५७ - ३
अथन्तिरत्वव्यपदेशाधिकरण १।३।१२।४१ [पृ० ७६०-७६३]	
बारहवें अधिकरणका सार	... ७६० - ६
आनाशोऽर्थान्तरत्वादि० १।३।१२।४१	... ७६१ - १

विषय	पृ०	पं०
संख्याके पञ्चविंशतिसे अधिक होनेसे भी सांख्यके तत्त्वोंका अभिधान नहीं है	...	८३६ - २
'पञ्च पञ्चजनाः' इसका वास्तविक अर्थ	...	८३७ - ४
प्राणादयो वाक्यशेषात् १।४।३।१२	...	८३८ - २०
उक्त पाँच पञ्चजनोका प्रतिपादन	...	८३९ - २
मतान्तर-कथन	...	८४२ - ४
सूत्रतात्पर्य	...	८४३ - २
ज्योतिषैकेषामसत्यत्वे १।४।३।१३	...	८४४ - १
काण्वमतमें प्राण आदि पांचमें अन्नके स्थानमें ज्योति है	...	८४४ - ८
कारणत्वाधिकरण १।४।४।१४, १५ [पृ० ८४६—८६१]		
चौथे अधिकरणका सार	...	८४६ - ६
कारणत्वन चाकाशादिषु १।४।४।१४	...	८४७ - १
सृष्टिवैचित्र्यप्रदर्शन	...	८४९ - १
कार्यवैचित्र्य होनेपर भी कारणस्वरूपमें वैचित्र्य नहीं है	...	८५१ - ७
सृष्ट्यादिका कथन ब्रह्मप्रतिपादनार्थ है	...	८५५ - ४
समाकर्षात् १।४।४।१५	...	८५७ - ७
कारणस्वरूपविषयक विरोधका परिहार	...	८५७ - १६
वालाक्यधिकरण १।४।५।१६—१८ [८६२—८७७]		
जगद्वाचित्र्यात् १।४।५।१६	...	८६३ - १
'यो वै वालाके' इस श्रुतिमें उक्त कर्ता प्राण है [पूर्वपक्ष]	...	८६३ - १३
उक्त कर्ता जीव है [पूर्वपक्ष]	...	८६५ - २
वह कर्ता ब्रह्म है [सिद्धान्त]	...	८६६ - ७
जीवमुख्यप्राण० १।४।५।१७	...	८७१ - १
वाक्यशेषगत जीवलिंग एवं मुख्यप्राणलिंगसे प्राप्त जीव और प्राणके ग्रहणका परिहार	...	८७१ - १३
अन्यार्थ तु जैमिनिः० १।४।५।१८	...	८७३ - १३
उक्त वाक्यमें जीव परामर्श अन्यार्थक है	...	८७४ - २
वाक्यान्वयाधिकरण १।४।६।१९—२२ [पृ० ८७८—८९९]		
षष्ठ अधिकरणका सार		
वाक्यान्वयात् १।४।६।१९	...	८७८ - ६
'आत्मा वा अरे द्रष्टव्य.' इत्यादि श्रुतिमें उपदिष्ट आत्मा जीव है [पूर्वपक्ष]	...	८७९ - १
	...	८८० - ५

विषय	पृष्ठ पंक्ति
उक्त आत्मा परमेश्वर है [सिद्धान्त] ...	८८१ - ७
प्रतिशासिदेर्लिङ्ग० १।४।६।२० ...	८८५ - १
उक्त श्रुतिगत जीवोपक्रमके विषयमें आश्रमरथ्य आचार्यका मत ..	८८५ - ९
उत्क्रमिष्यत एवं० १।४।६।२१ ...	८८६ - १
उक्त विषयमें औडुलोमि आचार्यका मत ...	८८६ - १०
अवस्थितेरिति० १।४।६।२२ ...	८८७ - २०
उक्त विषयमें काशकृत्स्न आचार्यका मत ...	८८८ - २
काशकृत्स्न आचार्यका मत ही उपादेय है ...	८८९ - ८
'एतेभ्यो भूतेभ्यः' इस श्रुतिमें जन्म और नाश कहे गये हैं, ऐसा आक्षेप एवं उसका समाधान ...	८९२ - ९
जीव और परमात्माका भेद केवल उपाधिनिमित्तक है, पारमार्थिक नहीं है ...	८९५ - ५
भेदकी कल्पना करनेवालोंके मतमें दोष ...	८९८ - ५

प्रकृत्याधिकरण १।४।७।२३-२७ [पृ० ९००-९१५]

सप्तम अधिकरणका सार ..	९०० - ६
प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा० १।४।७।२३ ...	९०१ - १
ब्रह्म जगत्का केवल निमित्तकारण है [पूर्वपक्ष] ...	९०२ - २
ब्रह्म जगत्का उपादानकारण भी है [सिद्धान्त] ...	९०४ - ४
कुछ श्रुतियोंमें कथित प्रतिज्ञा और दृष्टान्तका प्रदर्शन ...	९०४ - ६
'यतो वा इमानि' इस श्रुतिमें पंचमी प्रकृत्यर्थक है ...	९०७ - २
अभिधोपदेशाच्च १।४।७।२४ ...	९०९ - १
श्रुत्युक्त चिन्तन भी आत्माको फर्ता और प्रकृति कहता है ...	९०९ - ९
साक्षाच्चोपयाम्नानात् १।४।७।२५ ...	९१० - ११
श्रुतिमें ब्रह्मसे उत्पत्ति और ब्रह्ममें लय कथित है, इसलिये ब्रह्म उपादान कारण भी है ...	९१० - ११
आत्मकृतेः परिणामात् १।४।७।२६ ...	९११ - १
'तदात्मानं' इस श्रुतिमें आत्मा उभयकारण कहा गया है ...	९११ - १०
योनिश्च हि गीयते १।४।७।२७ ...	९१३ - १८
श्रुतिमें ब्रह्म योनिशब्दसे कहा गया है, इसलिये प्रकृति भी है ...	९१३ - २६

विषय	पृष्ठ पंक्ति
'आकाशो वै नाम' इस श्रुतिमें उक्त आकाशशब्द भूताकाशका वाचक है [पूर्वपक्ष]	... ७६१ - १३
उक्त आकाशशब्द ब्रह्मका वाचक है [सिद्धान्त]	... ७६२ - ४
सुपुप्त्युत्क्रान्त्यधिकरण १।३।१३।४२, ४३ [पृ० ७६४-७७२]	
तेरहवें अधिकरणका सार	... ७६४ - ६
सुपुप्त्युत्क्रान्त्योर्भेदेन १।३।१३।४२, ४३	... ७६५ - १
'योऽयं विज्ञानमयः' इस श्रुतिमें कथित विज्ञानमय जीव है [पूर्वपक्ष]	७६६ - ३
उक्त विज्ञानमय ब्रह्म है [सिद्धान्त]	... ७६७ - २
पत्यादिशब्देभ्यः १।३।१३।४३	... ७७१ - १
उक्त श्रुतिमें पति आदि शब्द होनेसे उसमें प्रतिपाद्य ब्रह्म ही है	७७१ - १२
प्रथमाध्यायके तृतीय पादकी समाप्ति	... ७७२ - २२
आनुमानिकाधिकरण १।४।१।१-७ [पृ० ७७३-८१३]	
चतुर्थ पादके प्रथम अधिकरणका सार	... ७७३ - ९
पूर्वसंदर्भकथनपूर्वक अप्रिमग्रन्थके निर्माणका प्रयोजन कथन	... ७७४ - २
आनुमानिक्रमप्येकेपा० १।४।१।१	... ७७६ - १
काठक श्रुतिमें पठित अव्यक्तशब्द प्रधानवाचक होनेसे प्रधान अशब्द नहीं है [पूर्वपक्ष]	... ७७६ - १७
उक्त अव्यक्तशब्द प्रधानवाचक नहीं है, किन्तु शरीरका वाचक है	७७८ - २
उक्त श्रुतिगत 'महत्'शब्द हिरण्यगर्भकी बुद्धिका वाचक है	... ७८३ - ३
उक्त श्रुतिमे जीवब्रह्मैक्यज्ञानकी विवक्षा है	... ७८५ - २
सूक्ष्म तु तदहंत्वात् १।४।१।२	... ७८६ - १९
अव्यक्तशब्दसे सूक्ष्म शरीर विवक्षित है	... ७८७ - ५
तदधीनत्वादर्थवत् १।४।१।३	... ७८८ - १७
जगत्की पूर्वावस्थाके परतंत्र होनेसे प्रधानकारणवादकी प्रसक्ति नहीं है	... ७८९ - ६
अव्यक्त आकाश आदि शब्दोंसे श्रुतिमे निर्दिष्ट है	... ७९० - ५
अव्यक्तगत महत्से श्रेष्ठताकी शरीरमें कल्पना है	... ७९२ - ३
घृत्तिकारके मतसे दोनों सूत्रोंका व्याख्यान	... ७९२ - ७
उक्त व्याख्यानका निराकरण	... ७९३ - ६
शेयत्वावचनाच्च १।४।१।४	... ७९६ - १८
श्रुतिमें अव्यक्त ज्ञेय नहीं कहा गया है	... ७९७ - ४
वदतीति चेन्न प्राशो० १।४।१।५	... ७९८ - २३

विषय	पृ०	पं०
अग्निमान्यमें प्रधान ज्ञेय कहा गया है [पूर्वपक्ष]	...	७९९ - २
उस मान्यमें परमात्मा ज्ञेय कहा गया है, प्रधान नहीं [सिद्धान्त]	...	७९९ - ८
त्रयाणामेव चैव० १।४।१।६	...	८०० - १९
अग्नि, जीव और परमात्माका ही प्रश्न तथा उपन्यास है, अतः प्रधान अव्यक्तपदवाच्य अथवा ज्ञेय नहीं है	...	८०१ - २
जीवप्रश्न और परमात्मप्रश्न भिन्न भिन्न हैं या एक है ? [शङ्का]	...	८०३ - ७
एक ही प्रश्न है [समाधान]	...	८०४ - ७
जीव और ईश्वरमें भेद होनेसे प्रश्नभेद है	...	८०५ - ७
जीव और प्राज्ञका प्रमाणप्रदर्शनपूर्वक अभेद-कथन	...	८०६ - ७
उक्त विषयमें युक्तिप्रदर्शन	...	८०८ - ५
दृष्टान्तप्रदर्शनपूर्वक उपाधिकृत धर्मभेदसे वस्तुभेदज्ञान एवं उपाधि- नाशसे वस्तुस्वरूपप्राप्तिकथन	...	८१० - ८
महद्वच्च १।४।१।७	...	८१२ - २३
महत्त्वशब्दके समान अव्यक्तशब्द वैदिकप्रयोगमें प्रधानवाचक नहीं हो सकता	...	८१३ - २

चमसाधिकरण १।४।२।८—१० [पृ० ८१४-८२५]

दूसरे अधिकरणका सार	...	८१४ - ६
चमसवदविशेषात् १।४।२।८	...	८१५ - १
अजाशब्द प्रधानका वाचक होनेसे प्रधान अशब्द नहीं है [पूर्वपक्ष]	...	८१५ - १४
अजाशब्द प्रधानका वाचक नहीं हो सकता है [सिद्धान्त]	...	८१७ - ४
ज्योतिरूपकमा तु० १।४।२।९	...	८१९ - १
तेजोऽप्रज्ञात्मक प्रकृति अजाशब्दवाच्य है	...	८१९ - ११
कल्पनोपदेशाच्च० १।४।२।१०	...	८२३ - १
तेजोवन्नात्मक प्रकृतिमें अजात्व सादृश्यसे कल्पित है	...	८२३ - १२
'अजामेकाम्' इस मंत्रमें क्षेत्रज्ञभेदका प्रतिपादन नहीं है	...	८२४ - ३

संख्योपसंग्रहाधिकरण १।४।३।११-१३ [पृ० ८२६-८४५]

तीसरे अधिकरणका सार	...	८२६ - ६
न संख्योपसङ्ग्रहादपि० १।४।३।११	...	८२७ - १
'यस्मिन् पञ्च पञ्चजनाः' इस मन्त्रमें कथित संख्याके सांख्यमतके सत्त्वोंकी प्रतिपादिका होनेसे प्रधान श्रुतिप्रतिपाद्य है [पूर्वपक्ष]	...	८२८ - २
उक्त पूर्वपक्षका निरसन	...	८३० - २

विषय	पृ०	पं०
संख्याके पश्चविंशतिसे अधिक होनेसे भी सांख्यके तत्त्वोंका अभिधान नहीं है	...	८३६ - २
'पथ्य पथ्यजनाः' इसका वास्तविक अर्थ	...	८३७ - ४
प्राणादयो वाक्यशेषात् १।४।३।१२	...	८३८ - २०
उक्त पाँच पथ्यजनोंका प्रतिपादन	...	८३९ - २
मतान्तर-कथन	...	८४२ - ४
सूत्रतात्पर्य	...	८४३ - २
ज्योतिषैवेपामसत्यत्वे १।४।३।१३	...	८४४ - १
काण्वमतमें प्राण आदि पांचमें अन्नके स्थानमें ज्योति है	...	८४४ - ८
कारणत्वाधिकरण १।४।४।१४, १५ [पृ० ८४६—८६१]		
चौथे अधिकरणका सार	...	८४६ - ६
कारणत्वन चाकाशादिपु० १।४।४।१४	...	८४७ - १
सृष्टिवैचित्र्यप्रदर्शन	...	८४९ - १
कार्यवैचित्र्य होनेपर भी कारणस्वरूपमें वैचित्र्य नहीं है	...	८५१ - ७
सृष्ट्यादिका कथन ब्रह्मप्रतिपादनार्थ है	...	८५५ - ४
समाकर्षात् १।४।४।१५	...	८५७ - ७
कारणस्वरूपविषयक विरोधका परिहार	...	८५७ - १६
वालाक्यधिकरण १।४।५।१६—१८ [८६२—८७७]		
जगद्वाचित्वात् १।४।५।१६	...	८६३ - १
'यो वै वालाके' इस श्रुतिमें उक्त कर्ता प्राण है [पूर्वपक्ष]	...	८६३ - १३
उक्त कर्ता जीव है [पूर्वपक्ष]	...	८६५ - २
वह कर्ता ब्रह्म है [सिद्धान्त]	...	८६६ - ७
जीवमुख्यप्राण० १।४।५।१७	...	८७१ - १
वाक्यशेषगत जीवलिंग एवं मुख्यप्राणलिंगसे प्राप्त जीव और प्राणके ग्रहणका परिहार	...	८७१ - १३
अन्यार्थ तु जैमिनिः० १।४।५।१८	...	८७३ - १३
उक्त वाक्यमें जीव परामर्श अन्यार्थक है	...	८७४ - २
वाक्यान्वयाधिकरण १।४।६।१९—२२ [पृ० ८७८—८९९]		
षष्ठ अधिकरणका सार		८७८ - ६
वाक्यान्वयात् १।४।६।१९		८७९ - १
'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः' इत्यादि श्रुतिमें उपदिष्ट आत्मा जीव है [पूर्वपक्ष]	...	८८० - ५

विषय	पृष्ठ पंक्ति
उक्त आत्मा परमेश्वर है [सिद्धान्त]	... ८८१ - ७
प्रतिशास्त्रिदेर्लिङ्ग० १।४।६।२०	... ८८५ - १
उक्त श्रुतिगत जीवोपक्रमके विषयमें आश्वरथ्य आचार्यका मत ..	८८५ - ९
उत्पत्तिमध्यत एव० १।४।६।२१	... ८८६ - १
उक्त विषयमें औडुलोमि आचार्यका मत	... ८८६ - १०
अवस्थितेरिति० १।४।६।२२	... ८८७ - २०
उक्त विषयमें काशकृत्न आचार्यका मत	... ८८८ - २
काशकृत्न आचार्यका मत ही उपादेय है	... ८८९ - ८
'एतेभ्यो भूतेभ्यः' इस श्रुतिमें जन्म और नाश कहे गये हैं, ऐसा आक्षेप एवं उसका समाधान	... ८९२ - ९
जीव और परमात्माका भेद षड्वल उपाधिनिमित्तक है, पारमार्थिक नहीं है	... ८९५ - ५
भेदकी कल्पना करनेवालोंके मतमें दोष	... ८९८ - ५

प्रकृत्यधिकरण १।४।७।२३-२७ [पृ० ९००-९१५]

सप्रम अधिकरणका सार	.. ९०० - ६
प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा० १।४।७।२३	... ९०१ - १
ब्रह्म जगत्का केवल निमित्तकारण है [पूर्वपक्ष]	... ९०२ - २
ब्रह्म जगत्का उपादानकारण भी है [सिद्धान्त]	... ९०४ - ४
कुछ श्रुतियोंमें कथित प्रतिज्ञा और दृष्टान्तका प्रदर्शन	... ९०४ - ६
'यतो वा इमानि' इस श्रुतिमें पंचमी प्रकृत्यर्थक है	... ९०७ - २
अभिध्यापदेशाच्च १।४।७।२४	... ९०९ - १
श्रुत्युक्त चिन्तन भी आत्माको कर्ता और प्रकृति कहता है	... ९०९ - ९
साक्षाच्चोभयान्मानार्त् १।४।७।२५	... ९१० - ११
श्रुतिमें ब्रह्मसे उत्पत्ति और ब्रह्ममें लय कथित है, इसलिये ब्रह्म उपादान कारण भी है	... ९१० - ११
आत्मकृतेः परिणामात् १।४।७।२६	... ९११ - १
'तदात्मानं' इस श्रुतिमें आत्मा उभयकारण कहा गया है	... ९११ - १०
योनिश्च हि गीयते १।४।७।२७	... ९१३ - १८
श्रुतिमें ब्रह्म योनिशब्दसे कहा गया है, इसलिये प्रकृति भी है	... ९१३ - २६

विषय	पृष्ठ पंक्ति
सर्वव्याख्यानाधिकरण १।४।८।२८ [पृ० ९१६-९१९]	
अष्टम अधिकरणका सार	... ९१६ - ६
एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः १।४।८।२८	... ९१७ - १
पूर्ववृत्तके कथनपूर्वक अणु आदि कारणवादोंका प्रतिषेध	... ९१७ - १०





श्रीपरमात्मने नमः

ब्रह्मसूत्र

[शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित]

—•१०५•—

श्रीगोविन्दानन्दकृता भाष्यरत्नप्रभा

यमिह कारुणिकं शरणं गतोऽप्यरिसहोदर आप महत्पदम् ।
तमहमाशु हरिं परमाश्रये जनकजाङ्गमनन्तसुखाकृतिम् ॥ १ ॥
श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदाम्भोजेन मुक्तिप्रदं
प्रौढं विन्नवनं हरन्तमनघं श्रीदुण्डितुण्डासिना ।
वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात्परं
नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरं श्रीकाशिकेशं शिवम् ॥ २ ॥*

यतिवर श्रीभोलेबावाकृत रत्नप्रभाका अनुवाद

यथा विना जगत्सर्वं जडोन्मत्तपिशाचवत् ।
भ्रमान्धकारनाशिन्यै वागीश्वर्यै नमो नमः ॥ १ ॥
श्रीगुरुं सच्चिदानन्दं स्वतन्त्रं परमं शिवम् ।
सर्वगं सर्वकर्तारं परत्मानं नमाम्यहम् ॥ २ ॥

* जिस करुणामयी शरणमें गया हुआ शशुका भार्हीभी शीघ्र उन्नत पदको प्राप्त हुआ, जानकीजीको मोदमें लिए हुए निरातिशय आनन्दरूप उस परमहरि (श्रीरामचन्द्रजी) की शरणमें मैं प्राप्त होता हूँ ॥ १ ॥

श्रीपार्वतीजीके द्वारा सब दृष्ट पदार्थोंको देनेवाले, अपने चरण-कमलसे मोक्ष देनेवाले, श्रीगणेशजीके मुखरूप तलवारसे प्रबल विघ्नसमूहको दूर करनेवाले, यज्ञचर्म, खप्पर आदि अपनी सामग्रीसे, वैराग्य-सुखसे बढ़कर कुछ नहीं है ऐसा उपदेश करते हुए निष्कलमय, अविनाशी काशीपति श्रीशिवजीको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥

(रत्नप्रभा)

यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पण्डितः ।
 वेदशास्त्रशरीरां तां वाणीं वीणाकरां भुजे ॥ ३ ॥
 कामाक्षीदत्तदुग्धप्रचुरसुरनुतप्राज्यभोज्याधिपूज्य-
 श्रीगौरीनायकाभित्प्रकटनशिवरामार्यलब्धात्मबोधैः ।
 श्रीमद्गोपालगीर्भिः प्रकटितपरमाद्वैतभासा स्मितास्य-
 श्रीमद्गोविन्दवाणीचरणकमलगो निर्वृतोऽहं यथाऽलिः ॥४॥
 श्रीशङ्करं भाष्यकृतं प्रणम्य व्यासं हरिं सूत्रकृतं च वच्मि ।
 श्रीभाष्यतीर्थं परहंसतुष्ट्यै वाग्जालबन्धच्छिदमभ्युपायम् ॥५॥
 विस्तृतग्रन्थवीक्षायामलस यस्य मानसम् ।
 व्याख्या तदर्धमारब्धा भाष्यरत्नप्रभाभिधा ॥६॥ *

रत्नप्रभा का अनुवाद

सञ्चित एक अनन्त, शुद्ध शाश्वत अविकारी ।
 गिरगाननगोतीत भीतिहर्ता सुखकारी ॥ ३ ॥
 सहज सांस धृति जासु, शेष शारद गुण गावत ।
 केवल मृकुटिविलास, विश्व पालत उपजावत ॥ ४ ॥
 आत्मज्योति आनन्दधन, द्वैतदूर दुखद्वन्द्व हर ।
 नमन करूं छल छाड़कर, प्रसन्न हूजे देववर ॥ ५ ॥
 वन्दों नरहरि व्यास, विपिन अद्वैत विहारी ।
 द्वैतवादि-भाजमत्त, मानमद मर्दनकारी ॥ ६ ॥
 रचा शास्त्र वेदान्त, वेद-सिद्धान्त प्रशाशक ।
 अद्भुत शुक्ति अपूर्व, भेदहर संशयनाशक ॥ ७ ॥

• जिसकी कृपाके लेशमात्रसे गूढ भी पण्डित हो जाता है, वेदशास्त्र शरीरवाली उस वीणापाणि श्रीसरस्वतीका मैं ध्यान करता हूँ ॥ ३ ॥

अपने नामसे श्रीविष्णु तथा शिष्यके साथ अपना अभेद प्रवट करनेवाले श्रीशिवराम योगी वाश्रींसे रहते थे । उन्हें श्रीकामाक्षी देवीने अपने दाशैंसे देवदुर्लभ प्रचुर सौर दी । उसे खाकर वे अति पूज्य हुए । उन्होंने श्रीगोपाल सरस्वतीको आत्मबोधकी प्राप्ति हुई । गोपाल सरस्वतीसे प्रकटित परम अद्वैतकी आभासे श्रीगोविन्दसरस्वतीजीका मुग्धमल विवसित हुआ । उन्होंने गुरु महाराजके चरण-वमलोंमें भ्रमरके समान गया हुआ मैं, शान प्राप्तकर, सुखा हुआ हूँ ॥ ४ ॥

भाष्यकार श्रीशङ्करानार्यजी एवं सूत्रकार भगवान् श्रीवेदव्यासजीको प्रणामकर परमदेसों (श्रेष्ठ देसों) के सन्तोषके लिए भाष्यरूपी शास्त्र (जलावतार) में वाग्जालरूपी बन्धन (जालरूपी बन्धन) को दूर करनेवाले उपायको कहता हूँ ॥ ५ ॥

विज्ञानराम ऋषींको देखनेमें त्रिनवा मन आलस्यरुक्त रहता है, उनके लिए भाष्यरत्नप्रभा (भाष्यरूपी मणिको पार्त) नामकी व्याख्या रची जाती है ॥ ६ ॥

रत्नप्रभा

श्रीमच्छारीरकं भाष्यं प्राप्य वाक् शुद्धिमाप्नुयात् ।

इति श्रमो मे सफलो गङ्गां रथ्योदकं यथा ॥७॥

यदज्ञानसमुद्भूतमिन्द्रजालमिदं जगत् ।

सत्यज्ञानसुखानन्तं तदहं ब्रह्म निर्भयम् ॥ ८ ॥*

इह खलु स्वाध्यायोऽध्येतव्यः” (श०ब्रा० ११।५।६) इति नित्याध्ययनविधि-
ना अधीतसाङ्गत्वाध्याये “तद्विजिज्ञासस्व” (तै० आ० ९।१) “सोऽन्वेष्टव्यः स
विजिज्ञासितव्यः” आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः” (बृ० २।४।५) इति श्रवण-
विधिरुपलभ्यते । तस्यार्थः—अमृतत्वकामेन अद्वैतात्मविचार एव वेदान्तवाक्यैः

रत्नप्रभाका अनुवाद

पढ़त सुनत हो शान्तिमुख, दोकमोहभय जाय है ।

जीव ब्रह्मकी एकता, सहज समझमें आय है ॥ ८ ॥

शाङ्कर चरणन नाय शिर, सूत्र भाष्यकर्तार ।

शारीरक भाषा करूँ, ध्याख्या सहित सुधार ॥ ९ ॥

ध्याख्या सहित सुधार, वेद का बाजे डंका ।

सरल होय वेदान्त, गूढ सब मजे शंका ॥१०॥

पढ़ें सुनें हरिभक्त, तरें भयसिंधु भयंकर ।

मोला को दें शान्ति, व्यास, हरि, शंकर शंकर ॥११॥

“स्वाध्यायोऽध्येतव्यः” (अङ्गोंके सहित अपने वेदका अध्ययन करना चाहिये) अध्ययन-
की इस नित्य विधिसे जिसने पढ़ेगा महित वेदका अध्ययन किया है, उसको—‘तद्विजिज्ञासस्व’
(उस ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर) ‘सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः’ (उसकी खोज
करनी चाहिए, उसका विशेषज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा करनी चाहिए) ‘आत्मा वा अरे’
(आत्माना दर्शन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए) इत्यादि श्रवणविधि उपलब्ध होती है ।

* गङ्गामें जाकर जैसे नालीका जल शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार पावन शारीरक भाष्यसे
सम्बद्ध होकर मेरी वाणी शुद्धिको प्राप्त हो इससे मेरा श्रम सफल है ॥ ७ ॥

जिस (ब्रह्म) के अज्ञानसे इन्द्रजाल तुल्य यह प्रपञ्च उत्पन्न हुआ है, वही सत्य, ज्ञान,
अनन्तसुखरूप निभय ब्रह्म में हूँ ॥ ८ ॥

(१) ‘अध्येतव्यः’ इसमें तव्य प्रत्यय विधिका बोधक है । और द्विजको वेद न पढ़नेसे प्रत्यवाय
होता है, इससे तथा वाक्यमें फलके अश्रवणसे यह नित्य विधि है ।

(२) शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्तं छन्दसां चयः ।

व्योक्तिप्रामयनं यैव वेदाङ्गानि पठेव तु ॥

शिक्षा (जिस शास्त्रमें वर्ण, स्वर आदिके उच्चारणकी रीति बतलाई गई है, जैसे—पाणिनि-
शिक्षा, नारद-शिक्षा, व्यास-शिक्षा आदि), कल्प (जिसमें गृह्य, यज्ञ आदि विधिका प्रतिपादन है,

रत्नप्रभा

कर्तव्य इति । तेन काम्येन नियमविधिना अर्थादेव भिन्नात्मशास्त्रप्रवृत्तिः वैदिकानां पुराणादिप्राधान्यं वा निरस्यते इति वस्तुगतिः । तत्र कश्चिदिह जन्मनि जन्मान्तरे वा अनुष्ठितयज्ञादिभिः नितान्तविमलस्वान्तो 'अस्य श्रवणविधेः को विषयः, किं फलम्, कोऽधिकारी, कः सम्बन्धः' इति जिज्ञासते । तं जिज्ञासुमुपलभमानो भगवान् वादरायणस्तदनुबन्धचतुष्टयं श्रवणात्मकशास्त्रारम्भप्रयोजकं न्यायेन निर्णेतुमिदं सूत्रं रचयाञ्चकार "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" (ब्र० सू० १।१।१) इति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

इसका अभिप्राय यह है कि मोक्षार्थी पुरुषको वेदान्त वाक्योंसे अद्वैत आत्माका विचार करना चाहिए । इस काम्य नियमविधिते वैदिक पुरुषोंकी आत्मभेद प्रतिपादक शास्त्रोंमें प्रवृत्तिका तथा पुराण आदिके प्राधान्यका अर्थतः निरसन किया जाता है, यह वस्तुस्थिति है । इस जन्ममें अथवा पूर्व जन्ममें यज्ञ आदि करनेसे जिसका चित्त अत्यन्त निर्मल हो चुका हो, उस व्यक्तिको जिज्ञासा होती है कि इस श्रवणविधिका विषय क्या है ? फल क्या है ? अधिकारी कौन है ? और सम्बन्ध क्या है ? उक्त जिज्ञासुकी जिज्ञासा शान्त करनेके लिए भगवान् व्यास-देवजी ने श्रवणात्मक शास्त्रमें प्रवृत्ति करनेके कारण चार अनुबन्धोंको न्यायपूर्वक निर्णय करनेके लिए 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इस सूत्रकी रचना की है ।

जैसे—आशलायन, आपस्तम्ब, बोधायन आदि कल्पसूत्र), व्याकरण (जिसमें शब्दसाधुत्व बतलाया गया है, जैसे—पाणिनीय आदि), निरुक्त (जिसमें कठिन वैदिक शब्दोंकी व्युत्पत्ति तथा अर्थका प्रतिपादन किया गया है, जैसे—यास्क निरुक्त आदि), छन्दःशास्त्र (जिसमें अनुष्टुप् आदि अक्षरवृत्त, आर्या आदि मात्रावृत्तोंका वर्णन है, जैसे—पिङ्गलसूत्र आदि) और ज्योतिष (जिसमें सूर्य आदि ग्रहोंका वर्णन है, जैसे—लग्न ज्योतिष आदि) ये वेद के छः अङ्ग हैं ।

(१) जीव और ब्रह्म, जगत् और ब्रह्म सब एक हैं । सन ब्रह्म है, ब्रह्मके सिवा दूसरा कुछ नहीं है । ब्रह्मरूप एक ही वस्तु है, दो वस्तुएं हैं ही नहीं, यह वेदान्त मत है ।

(२) नित्य, नैमित्तिक और काम्य ये तीन प्रकार की विधियाँ हैं । जिसका अनुष्ठान नित्य किया जाय एवं जिसके न करनेसे पाप होता हो वह नित्य-विधि है । जैसे "अहरहः सन्ध्यामुपासीत" (प्रतिदिन सन्ध्याउपासन करे) । जिसका अनुष्ठान किसी निमित्तसे किया जाय, वह नैमित्तिक है, जैसे ब्रह्मण आदिके निमित्त पर खान करना । फलकामनाके अधीन जो विधि है वह काम्य विधि है, जैसे स्वर्गकी कामनासे ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ करना । श्रवण विधिका अष्टतत्परूप फल है, इसलिए श्रवण काम्यविधि है । यदि कोई वेदान्तको दुरूह, पुराणको दुर्गम समझकर पुराण-वाक्योंसे ही आत्मश्रवण करना चाहे तो उस पक्षमें वेदान्तश्रवण अप्राप्त है, उसकी विधायक होनेसे यह नियमविधि है । नियम उभयथा है—“वेदान्तवाक्यैरेव अद्वैतारमविचारः वर्तव्यः” “अद्वैतारम-विचार एव वर्तव्यः ।”

(३) शास्त्रमें विषय, प्रयोजन, अधिकारी और सम्बन्ध ये चार अनुबन्ध कहे जाते हैं ।

रत्नप्रभा

ननु अनुबन्धजातं विधिसन्निहितार्थवादवाक्यैरेवं ज्ञातुं शक्यम् । तथा हि—
 “तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते” (छा० ८।१।६)
 इति श्रुत्या ‘यत् कृतकं तदनित्यम्’ इति न्यायवत्या “न जायते म्रियते वा
 विपश्चिद्” “यो वै भूमा तदमृतम्” (छा० ७।२।४।१) “अतोऽन्यदार्तम्” इत्यादिश्रुत्या
 च भूमात्मा नित्यः, ततोऽन्यदनित्यमिति विवेको लभ्यते । कर्मणा—कृप्यादिना,
 चितः—सम्पादितः, सस्यादिलोको भोग्य इत्यर्थः । विपश्चिद् नित्यज्ञानस्वरूपः ।
 “परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन” (मु० १।२।१२)
 “आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति” (बृ० २।४।५) इत्यादिश्रुत्या अनात्ममात्रे वैराग्यं
 लभ्यते । परीक्ष्य—अनित्यत्वेन निश्चित्य । अकृतः—मोक्षः, कृतेन—कर्मणा, नास्तीति
 कर्मतत्फलेभ्यो वैराग्यं प्राप्नुयादित्यर्थः । “शान्तो दान्त उपरतस्तिक्षुः समाहितः
 श्रद्धावित्तो भूत्वाऽऽत्मन्येवात्मानं पश्येद्” (बृ० ४।४।२३) इति श्रुत्या शमादिषट्कं
 लभ्यते । “समाहितो भूत्वा” इति काण्वपाठः । उपरतिः—संन्यासः । “न स
 पुनरावर्तते” (का० ६०) इति स्वयंज्योतिरानन्दात्मकमोक्षस्य नित्यत्वश्रुत्या
 मुमुक्षा लभ्यते ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

यहाँ पर ऐसा पूर्वपक्ष होता है कि उक्त चारों अनुबन्ध विधिवाक्योंके समीपवर्ती
 अर्थवादवाक्योंसे ही जाने जा सकते हैं । “तद्यथेह०” जैसे इस लोकमें होती आदिसे
 उत्पन्न हुए अन्न आदि भोग्य पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही परलोकमें पुण्यसे सम्पादित
 लोक भी नष्ट हो जाता है । इस श्रुतिवाक्यसे ऐसा प्रतिपादन किया गया है कि जो
 जो कर्मसे निष्पादित हैं, वे सब अनित्य हैं । इसी प्रकारकी—‘न जायते०’ (जिसको नित्य
 ज्ञान अर्थात् ब्रह्मज्ञान हो जाता है, वह विद्वान् न तो जन्म लेता है और न मरता
 है) “यो वै भूमा०” (जो आत्मा है, वह अमर है, उससे भिन्न सब विनाशी
 हैं)—इत्यादि श्रुतिसे भी आत्मा नित्य है, और उससे भिन्न सब अनित्य हैं ऐसा
 विवेक होता है । “परीक्ष्य०” (कर्म से प्राप्त किए हुए लोक अनित्य हैं, कर्म से मोक्ष नहीं
 होता, ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण कर्मके प्रति वैराग्य करे), “आत्मनस्तु०” (अपनी आत्मा
 की प्राप्ति के लिए सब प्रिय होते हैं) इत्यादि उपनिषद्-वाक्यों द्वारा आत्मासे भिन्न देह,
 इन्द्रिय आदि सब वस्तुओंमें वैराग्य होता है । “शान्तो दान्त०” (शान्त, चित्तनिग्रहयुक्त,
 इन्द्रियनिग्रहयुक्त, संन्यासी, क्षमाशील, समाधिस्थ और ध्वांसम्पन्न होकर बुद्धिमें ही
 आत्माका दर्शन करे ।) इस श्रुतिसे शम आदि अर्थात् शम, दम, उपरति, तितिक्षा,
 समाधान और ध्वा ये छ. सम्पत्तियां प्राप्त होती हैं । “न स पुनरावर्तते” (वह पाँछे नहीं

(१) सिद्धान्तमे विरुद्ध पक्ष । (२) चार साधनोंमें विवेक प्रथम साधन है ।

रत्नप्रभा

तथा च विवेकादिविशेषणवानधिकारीति ज्ञातुं शक्यम् । यथा—“य एता रात्रीरुपयन्ति” इति रात्रिसत्रविधौ प्रतितिष्ठन्तीत्यर्थवादस्थप्रतिष्ठाकामः तद्वत् । तथा “श्रोतव्यः” इत्यत्र प्रत्ययार्थस्य नियोगस्य प्रकृत्यर्थो विचारो विषयः । विचारस्य वेदान्ता विषया इति शक्यं ज्ञातुम् । ‘आत्मा द्रष्टव्यः’ इत्यद्वैतात्मदर्शन-मुद्दिश्य ‘श्रोतव्यः’ इति विचारविधानात् । नहि विचारः साक्षादर्शनहेतुः, अप्र-माणत्वात्, अपि तु प्रमाणविषयत्वेन । प्रमाणं च अद्वैतात्मनि वेदान्ता एव, “तं त्वौपनिपदं पुरुषं” (बृ० ३।९।२६) “वेदान्तविज्ञानमुनिश्चितार्थाः” (मु० ३।२।६) इति श्रुतेः । वेदान्तानां च प्रत्यग्रहैक्यं विषयः, “तत्त्वमसि” (छा० ६।८।७) “अहं ब्रह्मास्मि” (बृ० १।४।१०) इति श्रुतेः ।

एवं विचारविवेः फलमपि ज्ञानद्वारा मुक्तिः, “तरति शोकमात्मवित्”

रत्नप्रभाका अनुवाद

लौक्यता) इस श्रुतिवाक्यसे स्वप्रकाश आनन्दस्वरूप मोक्ष नित्य है, ऐसा जाननेसे मुमुक्षा (मुक्त होनेकी इच्छा) होती है

इस प्रकार जैसे “य एता०” (जो प्रतिष्ठा पानेकी इच्छा करते हैं, वे रात्रिसत्र नामक याग करें) इस रात्रिसत्र विधिमें ‘प्रतितिष्ठन्ति’ इस अर्थवादसे प्रतिपाद्य प्रतिष्ठा चाहनेवाला अधिकारी जाना जाता है, वैसे ही उपनिषद्-वाक्यों द्वारा ही यह जाना जा सकता है कि विवेक, वैराग्य, शम आदि और मुमुक्षा इन चार साधनोंवाला अधिकारी है । जैसे वेदान्तवाक्योंसे श्रवणविधि-का अधिकारी जाना जा सकता है, वैसे विषय भी जाना जा सकता है । ‘श्रोतव्य’ इसमें ‘श्रु’ प्रकृति और ‘तव्य’ प्रत्यय है । प्रकृतिका अर्थ विचार है और प्रत्ययका अर्थ विधि है । इस विधिका विषय विचार है और विचारके विषय वेदान्त हैं, यह जाना जा सकता है । क्योंकि ‘आत्मा द्रष्टव्यः’ में अद्वैत आत्मसाक्षात्कारका उद्देश्य करके ‘श्रोतव्य’ से विचारका विधान किया है । विचार अप्रमाण होनेसे, आत्माके साक्षात्कारमें, साक्षात् हेतु नहीं है, किन्तु अन्य प्रमाणका आश्रय लेकर ही आत्मसाक्षात्कार करता है । अर्थात् विचार तर्करूप है, अतः वह आत्म-साक्षात्कारमें स्वतः प्रमाण नहीं है, किन्तु वेदान्तवाक्यरूप शब्दका सहकारी होकर परम्परया प्रमाण है । “तं त्वौप०” (उस उपनिषद्गम्य आत्माके) और “वेदान्तविज्ञान०” (जिन्होंने वेदान्तके ज्ञानसे तत्त्वज्ञान प्राप्त कर लिया है) इन श्रुतिवाक्योंसे सिद्ध है कि अद्वैत-आत्मामें वेदान्त ही प्रमाण है । ‘तत्त्वमसि’ ‘अहं ब्रह्मास्मि’ इत्यादि श्रुतियोंसे प्रत्यगात्मा और ब्रह्मा एक ही उपनिषद्-प्रमाणका विषय है ।

इसी प्रकार ‘तरति शोकं०’ (आत्माके जाननेवाला शोकको पारकर जाता है) “ब्रह्मविद्०” (ब्रह्मज्ञ ब्रह्म ही हो जाता है) इत्यादि श्रुतिवाक्योंसे विचारविधिका फल भी ज्ञान द्वारा मुक्ति है,

रत्नप्रभा

(छा० ७।१।३) “ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति” इत्यादिश्रुतेः । तथा सम्बन्धोऽप्यधिकारिणा विचारस्य कर्तव्यतारूपः, फलस्य प्राप्यतारूपः इति यथायोगं सुबोधः । तस्मादिदं सूत्रं व्यर्थमिति चेद्? न, तासामधिकार्यादिश्रुतीनां स्वार्थे तात्पर्यनिर्णयकन्यायसूत्राभावे किं विवेकादिविशेषणवानधिकारी उत अन्यः, किं वेदान्ताः पूर्वतन्त्रेण गतार्था अगतार्था वा, किं ब्रह्म प्रत्यगभिन्नं न वा, किं मुक्तिः स्वर्गादिवल्लोकान्तरम्, आत्मस्वरूपा वा ? इति संशयानिवृत्तेः । तस्मादागमवाक्यै-
रापाततः प्रतिपन्नाधिकार्यादिनिर्णयार्थमिदं सूत्रमावश्यकम् ।

तदुक्तं प्रकाशात्मश्रीचरणैः—“अधिकार्यादीनामागमिकत्वेऽपि न्यायेन निर्णयार्थमिदं सूत्रम्” इति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

ऐसा सिद्ध होता है । इसी प्रकार अधिकारियोंके साथ विचारका कर्तव्यतारूप और फलका प्राप्यतारूप सम्बन्ध है इत्यादि स्पष्ट मालूम हो जाता है । अतएव ‘अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ यह सूत्र व्यर्थ है । उक्त शङ्का करनेवालेसे कहना चाहिए कि सूत्र व्यर्थ नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त अधिकारी आदिका प्रतिपादन करनेवाले श्रुतिवाक्योंका स्वार्थमें तात्पर्य है ऐसा निर्णय करनेके लिए इस सूत्रकी आवश्यकता है । यदि यह सूत्र न होता, तो विवेक आदि चार साधनोंसे सम्पन्न पुरुष अधिकारी है अथवा कोई दूसरा ? पूर्वशास्त्र अर्थात् पूर्वमीमांसासे वेदान्त गतार्थ हैं अथवा नहीं ? ब्रह्म प्रत्यगात्मासे अभिन्न है या नहीं ? स्वर्ग आदिके समान मुक्ति लोकान्तर है अथवा आत्मस्वरूप है ? इत्यादि संशयोंकी निवृत्ति नहीं होती । यद्यपि वेदान्त वाक्योंसे सामान्यतः अधिकारी आदिका ज्ञान होता है, परन्तु उनका निर्णय नहीं हो सकता । उनका निर्णय करनेके लिए इस सूत्रकी आवश्यकता है ।

प्रकाशात्मश्रीचरणेन कहा है—यद्यपि वेदवाक्योंसे अधिकारी आदिका ज्ञान हो जाता है, तो भी न्यायसे [सन्देह, पूर्वपक्ष, सिद्धान्त आदिके निश्चय द्वारा] उनका निर्णय करनेके लिए यह सूत्र रचा गया है । [इस प्रकार ‘अथातो०’ इस सूत्रकी और इसी प्रकार समग्र ब्रह्मसूत्रकी आवश्यकता सिद्ध होती है ।]

(१) कणाद मुनि प्रणीत वैशेषिक शास्त्र, गौतम मुनि प्रणीत न्यायशास्त्र, कपिल मुनि प्रणीत साह्यशास्त्र, पतञ्जलि मुनि प्रणीत योगशास्त्र, जैमिनि मुनि प्रणीत पूर्वमीमांसा और बादरायण मुनि प्रणीत उत्तरमीमांसा ये छ दर्शन हैं । पूर्वमीमांसा में कर्मकाण्डका विचार है । उससे यह आदि कर्मोंके विषयमें होनेवाले संशयोंकी निवृत्ति होती है । उत्तरमीमांसा में ज्ञानकाण्डका विचार है । इस शास्त्रसे मयके विषयमें हुए संशयोंकी निवृत्ति होती है ।

(२) जीव ।

रत्नप्रभा

येषां मते श्रवणे विधिर्नास्ति तेषामविहितश्रवणेऽधिकार्यादिनिर्णयानपेक्षणात् सूत्रं व्यर्थमित्यापततीत्यलं प्रसंगेन ।

तथा च अस्य सूत्रस्य श्रवणविध्यपेक्षिताधिकार्यादिश्रुतिभिः स्वार्थनिर्णयाय उत्थापितत्वाद् हेतुहेतुमद्भावश्रुतिसङ्गतिः । शास्त्रारम्भहेत्वनुबन्धनिर्णायकत्वेन उपोद्धातत्वात् शास्त्रादौ संगतिः । अधिकार्यादिश्रुतीनां स्वार्थे समन्वयोक्तेः समन्वयाध्यायसंगतिः । “ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि” (छा० ६।८।७) इत्यादिश्रुतीनां सर्वात्मत्वादिस्पष्टब्रह्मलिङ्गानां विषयादौ समन्वयोक्तेः पादसङ्गतिः । एवं सर्वसूत्राणां श्रुत्यर्थनिर्णायकत्वात् श्रुतिसङ्गतिः । तत्तदध्याये तत्तत्पादे च समाप्रमेयत्वेन संगतिरूहनीया ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

जिनके मतमें श्रवणमें विधि नहीं है, उनके मतमें विधिरहित श्रवणमें अधिकारी आदिके निर्णयकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह सूत्र व्यर्थ हो जायगा । अस्तु ।

श्रवणविधिके लिए अपेक्षित अधिकारी आदिका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियोंसे अपने अर्थके निर्णयके लिए यह सूत्र उत्थापित किया गया है, इसलिए श्रुतिके साथ सूत्रकी हेतुहेतु-मद्भाव संगति है । शास्त्रारम्भके कारणीभूत अनुबन्ध चतुष्टयका निर्णायक होनेसे यह सूत्र उपोद्धात (अवतरण) रूप है, अतः सूत्रके साथ शास्त्रकी उपोद्धात संगति है । अधिकारी आदिका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियोंका अपने अर्थमें समन्वय किया गया है । अतः सूत्रकी समन्वयाध्यायके साथ संगति है । “ऐतदात्म्यमिदम्” (यह संपूर्ण जगत् आत्मस्वरूप है और वह सत्य है, वह आत्मा है, अतः इस सूत्रकी पादके साथ संगति है । इसी प्रकार राय सूत्र श्रुत्यर्थके निर्णायक हैं, अतः राय सूत्रोंकी श्रुतिके साथ संगति है । इसी प्रकार प्रत्येक अध्याय और प्रत्येक पादमें समान विषयसे संगतिवी कल्पना करनी चाहिए ।

(१) भामतीकार शीवाचस्पतिमिश्र शब्दज्ञान्य बोधको ही श्रवण कहते हैं । श्रवण प्रमाणके अधीन है, पुरुषके अधीन नहीं है, इसलिए उसका विधान नहीं हो सकता । ‘द्रष्टव्य,’ में तन्व्य प्रत्यय ‘अहं’ अर्थमें है, ‘विधि’ अर्थमें नहीं है । उनके मतमें जब श्रवणमें विधि नहीं है तब विधिके लिए अपेक्षित विषय, प्रयोजन, अधिकारीका निर्णय भी अनावश्यक है । अतः उसके निर्णयके लिए अपेक्षित सूत्र व्यर्थ ही हो जायगा । रत्नप्रभाकार शीरोविन्दानन्द अद्वैत ब्रह्ममें वेदान्तवाक्योंके तात्पर्य निर्णय को श्रवण कहते हैं । तात्पर्य-निर्णय करना पुरुषके अधीन है, अतः उसका विधान होता है, और विधिके लिए अपेक्षित विषय, प्रयोजन, अधिकारी आदिका कथन आवश्यक है, अतः उनके निर्णयके लिए रचित सूत्र सफल है ।

(२) धारण-कार्य, सम्बन्ध ।

(३) पहले अध्यायमें अधिकारी आदिका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियोंका अपने अर्थमें

रत्नप्रभा

प्रमेयं च कृत्तशास्त्रस्य ब्रह्म, अध्यायानां तु समन्वयाविरोधसाधनफलानि । तत्र प्रथमपादस्य स्पष्टब्रह्मलिङ्गानां श्रुतीनां समन्वयः प्रमेयः, द्वितीयतृतीययोः अस्पष्टब्रह्मलिङ्गानाम्, चतुर्थपादस्य पदमात्रसमन्वय इति भेदः । अस्य अधिकरणस्य प्राथम्यात् न अधिकरणसंगतिरपेक्षिता ।

अथ अधिकरणमारच्यते—“श्रोतव्यः” इति विहितश्रवणात्मकं वेदान्तमीमांसाशास्त्रं विषयः, तत् किमारब्धव्यं न वेति विषयप्रयोजनसम्भवासम्भवाभ्यां संशयः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

इस समग्र शास्त्रका प्रतिपाद्य ब्रह्म है । इस शास्त्रके चार अध्यायोंके प्रमेय क्रमशः समन्वय, अविरोध, साधन और फल हैं । जिनमें ब्रह्मलिङ्ग स्पष्ट है, ऐसी स्पष्टब्रह्मलिङ्गवाली धृतियोंका ब्रह्मैक्यमें समन्वय पहले पादमें दिखलाया है । दूसरे और तीसरे पादमें अस्पष्ट-ब्रह्मलिङ्गवाली (जिनमें ब्रह्मका प्रतिपादन स्पष्टरूपसे प्रतीत नहीं होता) धृतियोंका ब्रह्मैक्यमें समन्वय दिखलाया है । चौथे पादमें पदमात्रका समन्वय दिखलाया है, अर्थात् पदोंका ही तात्पर्य समझाया है । यह प्रथमाधिकरण है, इसलिए यहाँ अधिकरणसंगतिकी अपेक्षा नहीं है ।

यह अधिकरण इस प्रकार रचा जाता है । ‘श्रोतव्यः’ इसमें जिरा श्रवणका विधान किया गया है, वह श्रवण जिसका स्वरूप है ऐसा प्रस्तुत वेदान्तमीमांसा शास्त्र इस अधिकरणका विषय है । इस शास्त्रका आरम्भ करना चाहिए या नहीं ? इस प्रकार विषय और प्रयोजनके सम्भव और असम्भवसे संशय उत्पन्न होता है ।

कहा है अर्थात् सब धृतियों ब्रह्मैक्यका प्रतिपादन करती हैं ऐसा निर्णय किया गया है । इसलिए यह अध्याय समन्वयाध्याय कहलाता है ।

(१) जानने योग्य, प्रमेय । (२) अद्वैत ब्रह्म । (३) सम्बन्ध, तात्पर्य ।

(४) पांच अवयवोंका बना हुआ वाक्य-समुदाय ।

“विषयो विशयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम् ।

सङ्गतिश्चेति पञ्चान्नं शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम् ॥”

जिसमें विषय, संशय, पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष और संगति, ये पांच हों, उस वाक्यको शास्त्रमें अधिकरण कहते हैं ।

जिम वाक्यके अर्थका प्रतिपादन हो उस योग्य वाक्य को ‘विषय’ कहते हैं । संशय अर्थात् यह ऐसा है या नहीं, ऐसे विकल्पका नाम ‘विशय’ है । सिद्धान्तके विरुद्ध कोटिको ‘पूर्वपक्ष’ कहते हैं । पूर्वपक्ष की युक्तिका दण्डन करके सत्पक्षमें युक्ति दिखलानेवाला वाक्य ‘उत्तरपक्ष’ कहलाता है, इसीको ‘सिद्धान्त’ भी कहते हैं । संगति-सम्बन्ध । प्रत्येक अध्यायकी पूर्व अध्यायके साथ, प्रत्येक पादकी पूर्व पादके साथ, प्रत्येक अधिकरणकी पूर्व अधिकरणके साथ संगति है, इस बातको स्पष्ट-स्पष्ट पर बतलावेंगे ।

रत्नप्रभा

तत्र नाऽहं ब्रह्मेति भेदग्राहिप्रत्यक्षेण, कर्तृत्वाकर्तृत्वानादिविरुद्धधर्मवत्त्वलिङ्गकानुमानेन च विरोधेन ब्रह्मात्मनोः ऐक्यस्य विषयस्य असम्भवात्, सत्यबन्धस्य ज्ञानात् निवृत्तिरूपफलासम्भवात् न आरम्भणीयम् इति प्राप्ते सिद्धान्तः—“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” (ब्र० सू० १।१।१) इति। अत्र श्रवणविधिसमानार्थत्वाय ‘कर्तव्या’ इति पदमध्याहर्तव्यम्। अध्याहृतं च भाष्यकृता “ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या” इति।

तत्र प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः ज्ञानेच्छयोः कर्तव्यत्वानन्वयात् प्रकृत्या फलीभूतं ज्ञानमजहलक्षणया उच्यते। प्रत्ययेन इच्छासाध्यो विचारो जहलक्षणया। तथा च ब्रह्म-
रत्नप्रभाका अनुवाद

उक्त संदेह होने पर ‘नाहं ब्रह्म’ (मैं ब्रह्म नहीं हूँ) इस प्रकार आत्मा और ब्रह्मके बीचमें भेदका ज्ञान करनेवाला प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी प्रकार ‘जीवब्रह्मणी मियो भिन्ने, कर्तृत्वाकर्तृत्वादि-विरुद्धधर्मवत्त्वात्, तेजस्तिमिरवत्’ (जीव और ब्रह्म परस्पर भिन्न हैं, क्योंकि वे दोनों प्रकाश और अन्धकारके समान विरुद्ध धर्मवाले हैं) इस अनुमानसे भी आत्मा और ब्रह्म दोनोंमें विरोध सिद्ध होता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों प्रमाणोंसे आत्मा और ब्रह्ममें विरोध होनेके कारण उन दोनोंके ऐक्यरूप विषयकी सभावना नहीं है, और ज्ञानसे सत्य-बन्धकी निवृत्ति भी नहीं हो सकती, इसलिए मोक्षरूप फलकी प्राप्ति असम्भव है। विषय और फल (प्रयोजन) दोनोंका अभाव होनेसे वेदान्तमीमांसा शास्त्र अनारम्भणीय है, ऐसा पूर्वपक्ष होने पर “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” यह प्रथम सूत्र सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेवाला है। इस सूत्रमें श्रवणविधिही समानार्थकताके लिए ‘कर्तव्या’ पदका अभ्याहार करना चाहिए। ‘ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या’ ऐसा कह कर भाष्यकारने भी इस पदका अभ्याहार किया है। ‘जिज्ञासा’ शब्दका अर्थ ज्ञानकी इच्छा है। इसमें प्रकृतिका अर्थ ज्ञान और प्रत्ययका अर्थ इच्छा है।

ज्ञान और इच्छाका ‘कर्तव्या’ पदके अर्थके साथ अन्वय नहीं हो सकता, इसलिए अजहलक्षणोंसे प्रकृतिका अर्थ ‘अज्ञाननिवर्तक अपरोक्ष ज्ञान’ और ‘जहलक्षणा’ से प्रत्ययका अर्थ ‘इच्छा-साध्य

(१) एकरूपता।

(२) सत्साररूप बन्धन, प्रवाहरूपसे सतत चलनेवाला देहसे देहान्तरप्राप्तिरूप सत्सार।

(३) नाश।

(४) वाक्यकी अर्थ पूर्तिके लिए अभुत पदोंका अनुसंधान।

(५) जहा शब्दके मुख्य अर्थका बाध होता है, वहा ‘जहलक्षणा’ मानकर लक्ष्य अर्थ करना पड़ता है, जैसे—‘गङ्गायां घोषः’ (गङ्गामें ग्वालोंका श्राव है)। गङ्गा शब्दका मुख्य अर्थ प्रवाह है, उसके साथ घोषका अन्वय नहीं बनता, इसलिये गङ्गा शब्दका लक्षणा द्वारा गङ्गातार अर्थ करना पड़ता है। जहा मुख्य अर्थके त्याग किए बिना ही लक्ष्य अर्थ की अपेक्षा रहती है, वहां अजहलक्षणा मानी जाती है, जैसे—“वाकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्” (कौओंसे दहीकी रक्षा करो)। वहा काक शब्दका अर्थ दधुपघातक प्राणी मात्र (कुत्ता, दिहा आदि) है, केवल काक मात्र ही नहीं है।

रत्नप्रभा

ज्ञानाय विचारः कर्तव्य इति सूत्रस्य श्रौतोऽर्थः सम्पद्यते । तत्र ज्ञानस्य स्वतः फलदायोगात् प्रमातृत्वकर्तृत्वभोक्तृत्वात्मकानर्थनिवर्तकत्वेनैव फलत्वं वक्तव्यम् । तत्र अनर्थस्य सत्यत्वे ज्ञानमात्रात् निवृत्त्ययोगात् अध्यक्षत्वं वक्तव्यमिति बन्धस्य अध्यक्षत्वमर्थात् सूचितम् । तच्च शास्त्रस्य विषयप्रयोजनवत्त्वसिद्धिहेतुः । तथा हि—शास्त्रमारब्धव्यम्, विषयप्रयोजनवत्त्वाद्, भोजनादिवत् । शास्त्रं प्रयोजनवत्, बन्धनिवर्तकज्ञानहेतुत्वात्, रज्जुरियम् इत्यादिवाक्यवत् । बन्धो ज्ञाननिवर्त्यः, अध्यक्षत्वात्, रज्जुसर्पवत्, इति प्रयोजनसिद्धिः ।

एवमर्थाद् ब्रह्मज्ञानात् जीवगतानर्थभ्रमनिवृत्तिं फलं सूत्रयन् जीवब्रह्मणोरैक्यं विषयमपि अर्थात् सूचयति, अन्यज्ञानात् अन्यत्र भ्रमानिवृत्तेः । जीवो ब्रह्माभिन्नः,

रत्नप्रभाका अनुवाद

विचार' करना चाहिए, तब ब्रह्मसाक्षात्कारके लिए विचार करना चाहिए ऐसा सूत्रका शब्दार्थ होता है । ज्ञान स्वतः फल नहीं हो सकता, इसलिये जीव प्रमाता, कर्ता और भोक्ता है इत्यादि अविद्यासे जीवमें प्रमातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि धर्म प्रतीत होते हैं, इस अनर्थका निवर्तक होनेके कारण ज्ञान फल है, ऐसा कहना चाहिए । सत्य वस्तुकी निवृत्ति ज्ञानसे नहीं होती है, अनर्थ यदि सत्य है, तो उसकी निवृत्ति ज्ञानमानसे नहीं हो सकेगा, अतः अनर्थ अध्यक्ष है, ऐसा कहना चाहिए । इस प्रकार बन्ध अध्यक्ष है, ऐसा अर्थ सूचित किया जाता है । बन्ध अध्यक्ष है इस कारण शास्त्र विषय और प्रयोजनसे युक्त है, यह सिद्ध होता है । इसी बातको दिखाते हैं—शास्त्र आरब्धव्य है, भोजन आदिके समान, विषय और प्रयोजनसे युक्त होनेके कारण, इस अनुमानसे शास्त्र आरम्भ करने योग्य है, यह सिद्ध होता है । 'बन्धका नाश करनेवाले ज्ञानका हेतु होनेसे शास्त्र प्रयोजनयुक्त है, 'यह रज्जु है' इत्यादि वाक्यकी तरह ।' इस अनुमानसे शास्त्र प्रयोजनयुक्त है, ऐसा सिद्ध होता है । 'अध्यक्ष होनेके कारण बन्ध ज्ञानसे निवर्त्य है, रज्जुमें सर्पकी तरह । इस अनुमानसे बन्धनाश-रूप प्रयोजन सिद्ध होता है ।

इस प्रकार ब्रह्मज्ञानसे जीवगत कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अनर्थ भ्रमकी निवृत्तिरूप फलको दिखलते हुए सूत्रकार जब ब्रह्मके अभेदरूप विषयको भा अर्थत सूचित करते हैं, क्योंकि एक वस्तुके यथार्थ ज्ञानसे ही उसका पूर्वका अयथार्थ ज्ञान निवृत्त हो सकता है । दूसरी वस्तुमें भ्रम दूसरी वस्तुके ज्ञानसे निवृत्त नहीं होता । ब्रह्म ज्ञानसे नष्ट होनेवाले अध्यासका आश्रय

(१) मिथ्या आरोप । (२) आरम्भ करने योग्य ।

(३) रस्सी । 'यह रस्सी है' इस सत्य ज्ञानसे जैसे सर्पका भ्रम जाता है, वैसे ही ।

(४) नाश होने के योग्य ।

(५) अयथार्थज्ञान, विपरीत निर्णय । शास्त्र पीला है, स्फटिक लाल है, सीप चाँदी है इत्यादि भ्रम हैं ।

भाष्य

युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोः विषयविषयिणोः तमःप्रकाशवद्विरुद्ध-
स्वभावयोः इतरेतरभावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतराम् इतरे-
तरभावानुपपत्तिः, इत्यतोऽस्मत्प्रत्ययगोचरे विषयिणि चिदात्मके

भाष्यका अनुवाद

— अन्धकार और प्रकाश के समान विरुद्ध-स्वभाववाले 'तुम' और 'हम' ऐसी प्रतीति के योग्य विषय और विषयी का तादात्म्य युक्त नहीं है, ऐसा सिद्ध होने पर उनके धर्मों का भी तादात्म्य नितरां नहीं बन सकता, यह सिद्ध ही है, इसलिए 'हम' ऐसी प्रतीति के योग्य जो चैतन्य-स्वरूप (आत्मा) विषयी है,

रत्नप्रभा

तज्ज्ञाननिवर्त्याध्यासाश्रयत्वाद्, यदित्यं तत् तथा, यथा शुक्तयभिन्नः इदमंश इति ।
विषयसिद्धिहेतुरध्यासः । इत्येवं विषयप्रयोजनवत्त्वात् शास्त्रमारम्भणीयमिति ।

अत्र पूर्वपक्षे बन्धस्य सत्यत्वेन ज्ञानाद् अनिवृत्तेरुपायान्तरसाध्या मुक्तिरिति फलम् । सिद्धान्ते ज्ञानादेव मुक्तिरिति विवेकः, इति सर्वं मनसि निधाय ब्रह्म-
सूत्राणि व्याख्यातुकामो भगवान् भाष्यकारः सूत्रेण विचारकर्तव्यतारूपश्रौतार्था-
न्यथानुपपत्त्या अर्थात् सूत्रितं विषयप्रयोजनवत्त्वमुपोद्धातत्वात् तत्सिद्धिहेत्वध्यासा-
क्षेपसमाधानभाष्याभ्यां प्रथमं वर्णयति—युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोरिति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

होनेसे जीव ब्रह्मसे अभिन्न है, जो जिसके ज्ञानसे हटनेवाले भ्रमका आश्रय होता है, वह उससे अभिन्न होता है, जैसे शुक्तिके ज्ञानसे नष्ट होनेवाले रजतभ्रमका आश्रय इदमंश शुक्तिसे अभिन्न है । इस प्रकार जीव और ब्रह्मके ऐक्यरूप विषयकी सिद्धि हेतु अध्यास है । अतः विषय और प्रयोजनमें युक्त होनेके कारण शास्त्रका आरम्भ करना चाहिए ऐसा सिद्ध होता है ।

पूर्वपक्षमें बन्ध सत्य है, इसलिए ज्ञानसे उमंगों निवृत्ति नहीं हो सकती है, और मुक्ति अन्य उपायसे साध्य है यह फल है । ज्ञानसे ही मुक्ति होती है यह सिद्धान्त पक्षका फल है । पूर्वपक्ष और सिद्धान्त पक्षमें यही अन्तर है । इन सबको मनमें रगकर ब्रह्मसूत्रका भाष्य करनेकी इच्छासे भाष्यकार भगवान् श्रीशङ्कराचार्य 'विचार करना चाहिए' यह जो जिज्ञासा पदका श्रौत अर्थ है यह तब तक नहीं बन सकता, जब तक कि विषय और प्रयोजन मालूम न हों, अतः 'अपातो' इस सूत्रसे अर्थात्सूचित उपोद्धातरूप विषय एवं प्रयोजनका—उनकी सिद्धिके हेतु अध्यासके आक्षेप-भाष्य एवं समाधान-भाष्य द्वारा—पहले वर्णन करते हैं—“युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोः” इत्यादिसे ।

रत्नप्रभा

एतेन सूत्रार्थास्पर्शित्वादध्यासग्रन्थो न भाष्यमिति निरस्तम्, आर्थिकार्थ-
स्पर्शित्वात् ।

यत्तु मङ्गलाचरणामावादव्यास्येयमिदं भाष्यमिति, तन्न; “सुतरामितरेतर-
भावानुपपत्तिः” इत्यन्तभाष्यरचनार्थं तदर्थस्य सर्वोपद्रवरहितस्य विज्ञानधनप्रत्य-
गर्थस्य तत्त्वस्य स्मृतत्वात् । अतो निर्दोषत्वादिदं भाष्यं व्यास्येयम् ।

लोके शुक्ताविदं रजतमिति भ्रमः सत्यरजते इदं रजतमिति अधिष्ठानसामान्या-
रोप्यविशेषयोः ऐक्यप्रमाहितसंस्कारजन्यो दृष्ट इति । अत्रापि आत्मनि अना-
त्माहङ्काराध्यासे पूर्वप्रमा याच्या, सा च आत्मानात्मनोर्वास्तवैक्यमपेक्षते,
नहि तदस्ति । तथाहि—आत्मानात्मानौ ऐक्यशून्यौ, परस्परैक्यायोग्यत्वात्, तमः-
प्रकाशवत्, इति मत्वा हेतुभूतं विरोधं वस्तुतः प्रतीतितो व्यवहारतश्च साधयति—
युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोरिति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

इससे अध्यासग्रंथ सूत्रके अर्थसे सम्बन्ध न रखनेके कारण भाष्य नहीं है ऐसा कहनेवालोंका
सन्देह जाता रहा, क्योंकि शब्दतः सूत्रार्थके साथ सम्बन्ध न होने पर भी अर्थतः सूत्रार्थका
इमरो सम्बन्ध है ही, इसलिए यह भाष्य है ।

यहाँ कोई ऐसी शङ्का करे कि ग्रन्थ के आरम्भमें निर्विघ्न परिसमाप्तिके लिए और शिष्टाचारके
परिपालनके लिए भाष्यकारको मङ्गलाचरण करना उचित था, सो नहीं किया, इसलिए भाष्य पर
टीका करना योग्य नहीं है । यह शङ्का व्यर्थ है, क्योंकि भाष्यकारने ‘सुतरामितरेतरभावानु-
पपत्तिः’ यहाँ तक भाष्य रचनेके लिए उसके अर्थभूत सर्वविघ्न-रहित, विज्ञान-स्वरूप, ग्रंथगात्म-
रूप तत्त्वका स्मरण किया है, इसलिए मङ्गलाचरण है ही, अतः भाष्य निर्दोष है और इस पर
टीका करना उचित है ।

व्यवहार में हम देखते हैं कि प्रथम सत्य चाँदी में ‘यह चाँदी है’ ऐसी प्रमा उत्पन्न होती
है । इस प्रमासे मनमें जो संस्कार पड़ता है, उससे सीप और चाँदी दोनों में, समान चमक
होनेसे, ‘यह चाँदी है, ऐसा सीप में भ्रम उत्पन्न होता है । इसी प्रकार भ्रम उत्पन्न होनेके पहले
सर्वत्र प्रमा होनी चाहिए । प्रस्तुत विषय—आत्मा में भी अनात्मा अहङ्कार आदिके अध्याससे
पहले प्रमा कहनी चाहिए । इस प्रमाके कहनेके लिए आत्मा और अनात्माके वास्तविक ऐक्य-
की आवश्यकता है । परन्तु, वास्तविक ऐक्य है नहीं, क्योंकि—‘अन्धकार और प्रकाशके समान,
परस्पर ऐक्यके अयोग्य होनेसे आत्मा और अनात्मा ऐक्यरहित हैं’—ऐसा अनुमान होता है ।
इस अनुमानमें हेतुभूत विरोधको स्वभाव, प्रतीति, और व्यवहारसे शिद्ध करते हैं ‘युष्मदस्म-
त्प्रत्यय०’ इत्यादिसे ।

रत्नप्रभा

न च “प्रत्ययोत्तरपदयोश्च” (पा० सू० ७।२।९८) इति सूत्रेण “प्रत्यये चोत्तरपदे च परतो युष्मदस्मदोर्मपर्यन्तस्य त्वमादेशौ स्तः” इति विधानात् “त्वदीयं मदीयं त्वत्पुत्रो मत्पुत्रः” इतिवत् “त्वन्मत्प्रत्ययगोचरयोः” इति स्यादिति वाच्यम् । “त्वमावेकवचने” (पा० सू० ७।२।९७) इत्येकवचनाधिकारात् । अत्र च युष्मदस्मत्पदयोः एकार्थवाचित्वाभावात्, अनात्मनां युष्मदर्थानां बहुत्वाद् अस्मदर्थचैतन्यस्याऽपि उपाधितो बहुत्वात् ।

नन्वेवं सति कथमत्र भाष्ये विग्रहः ? न च ‘यूयमिति प्रत्ययो युष्मत्प्रत्ययः, वयमिति प्रत्ययोऽस्मत्प्रत्ययस्तद्गोचरयोः’ इति विग्रह इति वाच्यम्, शब्दसाधुत्वेऽप्यर्थासाधुत्वात्, नहि अहङ्काराद्यनात्मनो यूयमिति प्रत्ययविषयत्वमस्तीति चेत्, न; गोचरपदस्य योग्यतापरत्वात् । चिदात्मा तावदस्मत्प्रत्यययोग्यः तत्प्रयुक्तसंशयादिनिवृत्तिफलभाक्त्वात्, ‘न तावदयमेकान्तेन अविषयः, अस्मत्प्रत्ययविषयत्वाद्’ इति भाष्योक्तेश्च । यद्यप्यहङ्कारादिरपि तद्योग्यस्तथापि चिदात्मनः सकाशाद् अत्यन्तभेदसिद्ध्यर्थं युष्मत्प्रत्यययोग्य इत्युच्यते ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

शङ्का—“प्रत्ययोत्तरपदयोश्च” (प्रत्यय या उत्तर पद वादमे हो तो युष्मद्, अस्मद् शब्द के मपर्यन्त भागके स्थानमें क्रमसे ‘त्व’ ‘म’ आदेश होते हैं) इस सूत्रसे जैसे ‘त्वदीयम्’ ‘मदीयम्’ त्वत्पुत्र’ मत्पुत्र’ प्रयोग होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी ‘त्वन्मत्प्रत्ययगोचरयोः’ ऐसा पाठ होना चाहिये ।

समाधान—यह शङ्का ठीक नहीं है, क्योंकि ‘त्वमावेकवचने’ इस सूत्र से त्व और म आदेश एकवचन में ही होते हैं । यहाँ पर ‘युष्मत्’ ‘अस्मत्’ शब्द एकार्थवाची नहीं हैं, किन्तु अनेकार्थके वाचक हैं, क्योंकि ‘युष्मत्’ पदके अर्थ अनात्मा बहुत हैं । ‘अस्मत्’ पदके अर्थ आत्मा वस्तुतः एक होने पर भी उपाधि भेद से अनेक हैं ।

शङ्का—भाष्य में उन पदों का विग्रह कैसा है ? ‘यूयमिति प्रत्ययः युष्मत्प्रत्ययः, वयमिति प्रत्ययः अस्मत्प्रत्ययः’ ऐसा विग्रह तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यद्यपि शब्दकी गलती तो नहीं है, किन्तु अर्थकी गलती रहती ही है, क्योंकि अहङ्कार आदि अनात्मा ‘यूयम्’ इस प्रत्ययके विषय नहीं होते हैं ।

समाधान—यहाँ गोचर पद का अर्थ योग्यता है । चिदात्मा तो ‘अस्मत्’ इस प्रत्यय का योग्य ही है, क्योंकि उमके विषयमें होनेवाले संगम आदिको निश्चितरूप फलका योग है । “आत्मा सर्वथा अविषय नहीं है, क्योंकि ‘अस्मद्’ इस प्रत्ययका विषय है” ऐसा भाष्यकार भी कहते हैं । यद्यपि अहङ्कार आदि भी ‘अस्मद्’ इस प्रत्ययके योग्य हैं, तो भी चिदात्मनोसे अत्यन्त भेद सिद्ध करने के लिए उसे ‘युष्मद्’ इस प्रत्ययके योग्य कहा है ।

रत्नप्रभा

आश्रमश्रीचरणास्तु टीकायोजनायामेवमाहुः—“सम्बोध्यचेतनो युष्मत्पद-
वाच्यः, अहङ्कारादिविशिष्टचेतनोऽस्मत्पदवाच्यः । तथा च युष्मदस्मदोः स्वार्थे
प्रयुज्यमानयोरेव त्वमादेशनियमो, न लक्षणिकयोः, “युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थी-
द्वितीयास्थयोर्वाच्चावौ” (पा० सू० ८।१।२०) इति सूत्रासाङ्गत्यप्रसङ्गात् । अत्र
शब्दलक्षकयोरिव चिन्मात्रजडमात्रलक्षकयोरपि न त्वमादेशः, लक्षकत्वाविशेषाद्”
इति ।

यदि तयोः शब्दबोधकत्वे सत्येव त्वमादेशाभाव इत्यनेन सूत्रेण ज्ञापितम्,
तदाऽस्मिन् भाष्ये युष्मत्पदेन युष्मच्छब्दजन्यप्रत्यययोग्यः परागर्थो लक्ष्यते, अस्म-
त्पदेन अस्मच्छब्दजन्यप्रत्यययोग्यः प्रत्यगात्मा । तथा च लक्ष्यतावच्छेदकतया
शब्दोऽपि बोध्यते इति न त्वमादेशः । न च पराक्त्वप्रत्यक्त्वयोरेव लक्ष्यताव-

रत्नप्रभा का अनुवाद

आश्रमश्रीचरण टीकायोजनामें कहते हैं—“जिसको उद्देश्य करके बोलते हैं, वह चेतन
‘युष्मत्’ पदका अर्थ है एवं अहङ्कारादियुक्त चेतन ‘अस्मत्’ पदका अर्थ है । जहाँ पर ‘युष्मत्’
और ‘अस्मत्’ पदोंका इस प्रसिद्धार्थमें प्रयोग होता है, वहाँ पर इन शब्दोंके मपर्यन्त भागमें
क्रमसे ‘त्व’ और ‘म’ आदेश होते हैं । लेकिन जहाँ इन पदोंका लक्षणा वृत्तिसे अर्थ किया जाता है,
वहाँ ‘त्व’ और ‘म’ आदेश नहीं होते हैं । अन्यथा “युष्मदस्मदो” (पदसे परे रहनेवाले पदके
आदिमें न रहनेवाले षष्ठ्यादि विभक्तियोंसे युक्त ‘युष्मत्’ ‘अस्मत्’ शब्दोंके स्थानमें क्रमसे ‘वा’ तथा
‘नी’ आदेश होते हैं) यह सूत्र असङ्गत हो जायगा । जैसे शब्दलक्षक ‘युष्मत्’ तथा ‘अस्मत्’ के
स्थानमें ‘त्व’ और ‘म’ आदेश नहीं होते हैं, वैसे ही चिन्मात्र तथा जडमात्र लक्षकके स्थानमें भी
आदेश नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों स्थलोंमें लक्षकत्वरूप धर्म समान ही है ।

यदि कोई कहे कि ‘युष्मत्’ एवं ‘अस्मत्’ शब्द जब शब्दके बोधक होते हैं, तभी उनके
स्थानमें ‘त्व’ और ‘म’ आदेश नहीं होते हैं ऐसा सूत्रकारका अभिप्राय है तो इस भाष्यमें
‘युष्मत्’ पदसे युष्मत्शब्दजन्य प्रत्ययके योग्य बाह्य अर्थ लक्षित है और ‘अस्मत्’ पदसे अस्मत्-
शब्दजन्य प्रत्ययके योग्य प्रत्यगात्मा लक्षित है, तब लक्ष्यतावच्छेदक शब्दके बोधक ये पद हो
जायेंगे इसलिए ‘त्व’ और ‘म’ आदेश नहीं होते हैं । यहाँ यदि कोई शङ्का करे कि ‘लक्ष्यतावच्छेदक
केवल बाह्य अर्थत्व एवं प्रत्यगात्मत्व मानेंगे, शब्दयोग्यत्वको नहीं मानेंगे, उसे माननेमें गौरव

(१) समाधानका तात्पर्य यह है कि लक्ष्यमें रहनेवाले धर्म (लक्ष्यमें विशेषणभूत पदार्थ) को
लक्ष्यतावच्छेदक कहते हैं । युष्मत् एवं अस्मत् पदोंका लक्ष्य जब क्रमशः युष्मत् शब्दजन्यप्रत्यययोग्य बाह्य
अर्थ और अस्मत् पदजन्यप्रत्यययोग्य प्रत्यगात्मा है तो जैसे तादृश अर्थत्व और प्रत्यगात्मत्व लक्ष्यताव-
च्छेदक है, वैसे ही तादृशशब्दजन्यप्रत्यययोग्यत्व भी लक्ष्यतावच्छेदक है । उनमें शब्द भा अन्तर्गत
है । इसलिए वे पद शब्दबोधक हैं । अतः उनके स्थानमें ‘त्व’ और ‘म’ आदेश नहीं होते हैं ।

(रत्नप्रभा)

च्छेदकत्वम्, न शब्दयोग्यत्वांशस्य गौरवादिति वाच्यम्, पराकृप्तीचोर्विरोध-
स्फुरणार्थं विरुद्धशब्दयोग्यत्वस्याऽपि वक्तव्यत्वात् । अत एव इदमस्मत्प्रत्यय-
गोचरयोरिति वक्तव्येऽपीदंशब्दोऽस्मदर्थे लोके वेदे च बहुशः “इमे वयमास्महे”
“इमे विदेहाः...अयमहमस्मि” इति च प्रयोगदर्शनात् नास्मच्छब्दविरोधीति
मत्वा युष्मच्छब्दः प्रयुक्तः, इदंशब्दप्रयोगे विरोधास्फूर्तेः । एतेन चेतनवाचित्वा-
दस्मच्छब्दः पूर्वं प्रयोक्तव्यः, “अभ्यर्हितं पूर्वम्” इति न्यायात् । “त्यदादीनि
सर्वैर्नित्यम्” (पा० सू० १।२।७२) इति सूत्रेण विहित एकशेषश्च स्यादिति
निरस्तम्, “युष्मदस्मदोः” इति सूत्र इव अत्रापि पूर्वनिपातैकशेषयोरप्राप्तेः,
एकशेषे विवक्षितविरोधास्फूर्तेश्च ।

वृद्धास्तु “युष्मदर्थानात्मनो निष्कृष्य शुद्धस्य चिद्धातोरध्यारोपापवादन्यायेन
ग्रहणं द्योतयितुमादौ युष्मद्ग्रहणम्” इत्याहुः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

है । यह नहीं हो सकता है, क्योंकि बाह्यार्थ और प्रत्ययत्माका विरोध दिखानेके लिए
विरुद्धशब्दयोग्यत्व भी कहना पड़ेगा । ‘यह’ और ‘हम’ ऐसे प्रत्ययके योग्य ऐसा कहनेसे स्पष्ट
विरोध जाननेमें नहीं आता, क्योंकि ‘इदम्’ शब्द व्यवहार और घेदमें बहुधा ‘अस्मत्’ शब्दके
अर्थमें आता है । ये हम बैठते हैं, यह विदेह है ..यह मैं हूँ इत्यादि प्रयोगोंमें ‘यह’ और ‘हम’
का समान अर्थमें साथ प्रयोग है । इन प्रयोगों द्वारा मालूम होता है कि ‘इदम्’ शब्द ‘अस्मत्’
शब्दका विरोधी नहीं है । इसलिए अत्यन्त भेद दिखानेके लिए ‘युष्मत्’ शब्दका प्रयोग
किया है ।

शब्दा—‘अस्मत्’ शब्द चेतनवाची है, इसलिए ‘पूज्यता पूर्व प्रयोग होता है’ इस वार्तिकके
अनुसार ‘अस्मद्’ शब्दका पूर्व प्रयोग करना उचित था अर्थात् भाष्यकारको ‘अर इदंयुष्मत्प्रत्यय-
गोचरयो.’ ऐसा कहना चाहिये था, क्योंकि अस्मदर्थं चेतन होनेसे अभ्यर्हित (पूज्य) है, और
युष्मदर्थ अचेतन होनेसे पूज्य नहीं है । एतं ‘त्यदादीनि’ (त्यद्, तद् आदि सर्वनाम शब्दोंके
साथ अन्य किसी शब्दका प्रयोग हो, तो केवल त्यदादि शेष रह जाते हैं) इस सूत्रपर पठित
‘त्यदादिपु यत्परं तच्छिष्यते’ इस वचनसे जैसे ‘रा च अयं च इमौ’ होता है, वैसे ही ‘अस्मन्प्र-
त्ययगोचरयो.’ होना चाहिये ।

समाधान—‘युष्मदस्मदोरनादेशे’ इस सूत्रमें जैसे ‘युष्मत्’ का प्रयोग ‘अस्मद्’ के पूर्व
किया है, एवं एकशेष भी नहीं मिया है, इसी प्रकार भाष्यकारने भी किया है । यदि एकशेष हो
जाता तो पूर्वोक्त विरोधका भान भी नहीं होता ।

वृद्ध टीकाकार कहते हैं कि ‘युष्मत्’ शब्दके अर्थ जो अध्यारोपित अनात्म पदार्थ हैं, उनसे

(१) ‘इमे विदेहा वषेठ भुञ्जन्तामयमहमलि दासमावे’ इस वाक्यका पक्षदेव ‘अयमद्’ इस
अशको उदाहरण जानना चाहिये । (२) मिथ्या ।

रत्नप्रभा

तत्र युष्मदस्मात्पदाभ्यां पराक्प्रत्ययत्वेन आत्मानात्मनोर्बस्तुतो विरोध उक्तः । प्रत्ययपदेन प्रतीतितो विरोध उक्तः । प्रतीयत इति प्रत्ययोऽहङ्कारादिरनात्मा दृश्यतया भाति, आत्मा तु प्रतीतित्वात् प्रत्ययः स्वप्रकाशतया भाति । गोचरपदेन व्यवहारतो विरोध उक्तः । युष्मदर्थः प्रत्यगात्मतिरस्कारेण कर्ताऽहमित्यादिव्यवहार-गोचरः, अस्मदर्थस्तु अनात्मप्रविलापेन “अहं ब्रह्म” इति व्यवहारगोचर इति त्रिधा विरोधः स्फुटीकृतः । युष्मच्च अस्मच्च युष्मदस्मदी, ते एव प्रत्ययौ च तौ गोचरौ चेति युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरौ तयोस्त्रिधा विरुद्धस्वभावयोरितरेतरभावोऽत्यन्ता-भेदस्तादात्म्यं वा तदनुपपत्तौ सिद्धायामित्यन्वयः । ऐक्यासम्भवेऽपि शुक्लो घट

रत्नप्रभाका अनुवाद

अध्यारोपापवादस्याय द्वारा शुद्ध चैतन्यको पृथक् कर ग्रहण करना चाहिए, इसे सूचित करनेके लिए ही ‘अस्मत्’ के प्रयोगसे पूर्व ‘युष्मत्’ का प्रयोग किया है ।

‘युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयो’ पदमें भाष्यकारने आत्मा और अनात्मामें तीन तरहका विरोध प्रकट किया है । प्रथम तो ‘तुम्’ और ‘हम्’ शब्दों द्वारा स्वरूपसे विरोध बतलाया है, क्योंकि युष्मत्का अर्थ वाह्यवस्तु है और अस्मत्का अर्थ प्रत्यगात्मा है । दूसरा विरोध प्रत्यय पदसे सूचित किया है । क्योंकि जिसका ज्ञान हो वह प्रत्यय है, इस कर्मव्युत्पत्तिसे भिन्न ‘प्रत्यय’ शब्दसे अहङ्कार आदि अनात्माका दृश्यरूपसे भान होता है । ‘प्रत्यय’ शब्दका दूसरा अर्थ प्रतीति अर्थात् ज्ञान है । आत्मा प्रतीतिरूप है और उसका भान स्वप्नशैरूपसे होता है । इस प्रकार ज्ञानसे भी आत्मा और अनात्मामें विरोध है । ‘गोचर’ पदके द्वारा तीसरा विरोध व्यवहारसे है ऐसा प्रकट किया है । ‘युष्मत्’ शब्दका वाच्य अनात्मा प्रत्यगात्माका तिरस्कार कर ‘मैं कर्ता भोक्ता हूँ’ ऐसे व्यवहारके योग्य है और ‘अस्मद्’ शब्दका वाच्य चिदात्मा अनात्माका तिरस्कार कर ‘मैं ब्रह्म हूँ’ ऐसे व्यवहारके योग्य है । इस प्रकार आत्मा और अनात्मामें स्वरूपसे, प्रतीतिसे और व्यवहार-से विरोध स्पष्ट है । ‘युष्मद्’ और ‘अस्मद्’ का द्वन्द्व समास करके उसका ‘प्रत्यय’ पदके साथ कर्मधारय समास करना चाहिए । इस प्रकार तीन तरहसे विरुद्ध स्वभाववाले आत्मा और अनात्माका अन्योन्यभाव अर्थात् अत्यन्त अभेद अथवा तादात्म्यकी अनुपपत्तिके सिद्ध होने पर ऐसा अन्वय है । आत्मा और अनात्मामें ऐक्य सम्भव नहीं है, तो भी ‘शुक्लो घट’ (सफेद घड़ा) यहाँ पर शुक्ल गुण है और घट द्रव्य है अर्थात् शुक्ल और घट ये भिन्न पदार्थ हैं, परन्तु शुक्लगुण घटद्रव्यमें

(१) ‘अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्च प्रपञ्च्यते ।’ (अध्यारोप—सृष्टिप्रवरण और अपवाद—‘नेह नानाऽलि किञ्चन’ इत्यादि निषेध द्वारा प्रपञ्चसे रहित प्रपञ्चका उपदेश किया जाता है) इस न्याय द्वारा ।

(२) अपने आपमें घा जिसका ज्ञान हो जो स्वयं प्रकाश (ज्ञान) स्वरूप हो ।

(३) गुण वा आश्रय । जिसमें गुण और क्रिया रहें । पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशाएँ, आत्मा और मन ये नीं द्रव्य हैं ।

रत्नप्रभा

इतिवत् तादात्म्यं किं न स्यादित्यत आह—विषयविषयिणोरिति । चिज्जडयोः विषयविषयित्वाद् दीपघटयोरिव न तादात्म्यमिति भावः । युष्मदस्मदी पराक्प्रत्यग्वस्तुनी, ते एव प्रत्ययश्च गोचरश्चेति वा विग्रहः । अत्र प्रत्ययगोचरपदाभ्यां आत्मानात्मनोः प्रत्यक्पराग्भावे चिदचित्त्वं हेतुरुक्तः । तत्र हेतुमाह—विषय-विषयिणोरिति । अनात्मनो ग्राह्यत्वादचित्त्वम्, आत्मनस्तु ग्राहकत्वाच्चित्त्वं वाच्यम् । अचित्त्वे स्वस्य स्वेन ग्रहस्य कर्मकर्तृत्वविरोधेन असम्भवात् अप्रत्यक्ष-त्वापत्तेरित्यर्थः । यथेष्टं वा हेतुहेतुमद्भावः ।

ननु एवमात्मानात्मनोः पराक्प्रत्यक्त्वेन चिदचित्त्वेन ग्राह्यग्राहकत्वेन च विरोधात्

रत्नप्रभाका अनुवाद

हे, इसलिये शुरु घटात्मक है । जैसे इन दोनों पदार्थोंमें ऐक्य नहीं है, किन्तु तादात्म्य है, वैसे ही आत्मा और अनात्मामें भी ऐक्य नहीं, किन्तु तादात्म्य है, ऐसी यदि कोई शब्द करे तो भाष्यकार कहते हैं—“विषयविषयिणो.” इत्यादि । अर्थात् अनात्मा जड़ है, इसलिये विषय है । आत्मा चैतन्य-रूप है, इसलिये विषयी है । जैसे दीपमें और घटमें तादात्म्य नहीं हो सकता, इसी प्रकार चित् (आत्मा) और जड़ (अनात्मा) का परस्पर तादात्म्य नहीं बन सकता । अथवा ‘युष्मत्’ पराक् अर्थात् बाह्य वस्तु ‘अस्मत्’ प्रत्यक् अर्थात् आन्तर वस्तु वे ही हुए प्रत्यय और गोचर ऐसा विग्रह है । यहाँ प्रत्यय और गोचर इन पदोंसे आत्माके प्रत्यग्भावमें चित्त्व (चैतन्य) और अनात्माके पराग्भावमें अचित्त्व (जडता) कारण है, ऐसा कहा गया है, अतः आत्मा चेतन है, अनात्मा जड़ है, इसका कारण बतलाते हैं—“विषय०” इत्यादिसे । अनात्मा ग्राह्य है, इसलिये जड़ है; आत्मा ग्राहक है, इसलिये चेतन है । यदि कोई शब्द करे कि ‘आत्मा जड़ क्यों नहीं है ? आत्माका गुण ज्ञान है, वह जैसे घटादि विषयका ग्रहण करता है, वैसे ही स्वाधय आत्माका भी ग्रहण करेगा ? उसका उत्तर यह है कि एकही वस्तु ग्राहक और ग्राह्य नहीं हो सकती, अपना ग्रहण अपनेसे नहीं हो सकता है । एक वस्तु में कर्मन्व, कर्तृत्वरूप निरुद्ध दो धर्म नहीं रह सकते हैं अर्थात् जो ग्रहण-कर्ता है वह ग्रहणका कर्म (विषय) नहीं हो सकता है । अतः आत्माका प्रयत्न नहीं होगा । आत्मा का प्रयत्न होता है अतः आत्मा जड़ नहीं है, चेतन है । प्रत्यक्त्वनाचित्त्व, चित्त्वना विषयित्व एवं पराक्त्वना अचित्त्व, अचित्त्वना विषयत्व कारण है, ऐसा पहले बतलाया गया है । प्रत्यक्त्व आदि तीन एवं पराक्त्व आदि तीन समव्याप्त हैं, अतः यथेष्ट कार्यकारणभाव भी यह सपने हैं अर्थात् चित्त्वका प्रयत्नत्व, विषयित्वका चित्त्व एवं अचित्त्व का पराक्त्व, विषयत्वका अचित्त्व कारण है इत्यादि रूपसे भी कार्यकारण भाव कह सकते हैं ।

शब्द—यह तो ठीक है कि आत्मा प्रयत्न, ग्राहक और चिद्रूप है, और अनात्मा पराक्, ग्राह्य और जड़रूप है, इसलिये अन्धकार और प्रकाशके समान दोनोंमें विरोध होनेसे ऐक्य

रत्नप्रभा

तमःप्रकाशवदैक्यस्य तादात्म्यस्य चानुपपत्तौ सत्यां तत्प्रमित्यभावेऽपि तद्धर्माणां चैतन्यसुखजाड्यदुःखादीनां विनिमयेन अध्यासोऽस्तु इत्यत आह—तद्धर्माणामपीति । तयोरात्मानात्मनोर्धर्मास्तेषामपि, इतरेतरभावानुपपत्तिः—इतरत्र धर्म्यन्तरे इतरेषां धर्माणां भावः संसर्गस्तस्य अनुपपत्तिरित्यर्थः । नहि धर्मिणोः संसर्गं विना धर्माणां विनिमयोऽस्ति । स्फटिके लोहितवस्तुसान्निध्यात् लौहित्यधर्मसंसर्गः । असंगात्म-धर्मिणः केनाऽप्यसंसर्गाद्धर्मिसंसर्गपूर्वको धर्मसंसर्गः कुतस्त्य इत्यभिप्रेत्योक्तम्—सुतरामिति ।

ननु आत्मानात्मनोस्तादात्म्यस्य तद्धर्मसंसर्गस्य चाभावेऽप्यध्यासः किं न स्यादित्यत आह—इत्यत इति । इति—उक्तरीत्या तादात्म्याद्यभावेन तत्प्रमाया अभावाद्, अतः—प्रमाजन्यसंस्कारस्य आध्यासहेतोरभावाद्, अध्यासो मिथ्येति भवितुं युक्तमित्यन्वयः । मिथ्याशब्दो द्वयर्थः—अपहववचनोऽनिर्वचनीयतावचनश्चेति । अत्र च अपहवार्थः । ननु कुत्र कस्याध्यासोऽपहन्यते इत्याशंक्य आत्मनि अनात्मतद्धर्मा-

रत्नप्रभाका अनुवाद

अथवा तादात्म्य नहीं हो सकता एवं तादात्म्यका यथार्थ ज्ञान न होनेसे अध्यास भी भले ही न हो परन्तु चैतन्य, सुख, जाड्य, दुःख आदि दोनोंके धर्मोंका विनिर्मेयरूपसे अध्यास क्यों न हो ?

इस शङ्का पर भगवान् भाष्यकार समाधान करते हैं—“तद्धर्माणाम्” इत्यादिसे । ‘उनके धर्मोंका भी अन्योन्यभाव अत्यन्त अयुक्त है, यह सिद्ध ही है । ‘आशय यह है कि दूसरे धर्मोंमें दूसरेके धर्मोंका संसर्ग नहीं बन सकता । धर्मियोंके संसर्गके विना धर्मोंका परस्पर संसर्ग नहीं हो सकता । स्फटिक और रक्त पदार्थ, इन दोनों धर्मियोंका जब संसर्ग हो, तभी स्फटिकमें रक्त पदार्थका धर्म रक्तता आ सकती है, असन्न आत्मारूप धर्मोंका किसी भी धर्मोंके साथ संसर्ग नहीं है, तो धर्मोंका संसर्ग कहां से हो ? इसी कारण “सुतराम्” ऐसा कहा है ।

शङ्का—आत्मा एवं अनात्माके तादात्म्यका तथा उनके धर्मोंके संसर्गका अभाव होने पर भी अध्यास क्यों नहीं हो ? अर्थात् वास्तविक तादात्म्यका अभाव होने पर भी आध्यासिक तादात्म्य मानकर अध्यास हो ही सकता है शङ्का करनेवालेका यह अभिप्राय है ।

समाधान—पूर्वोक्त रातिसे आत्मा और अनात्माने तादात्म्य नहीं है, इसलिए तादात्म्यका प्रमा अर्थात् यथार्थ ज्ञानके न होनेसे अध्यासका हेतु प्रमाजन्य संस्कार भी नहीं है, इसलिये ‘अध्यास युक्त नहीं है’ यह कहना ठीक है ऐसा अन्वय है । ‘मिथ्या, शब्द के दो अर्थ होते हैं, (१) अपहव (निषेध) और (२) अनिर्वचनायता । यहां अपहव अर्थ विवक्षित है । किसमें किसके अध्यासका अपहव किया है ऐसी शङ्का पर “अस्मत्प्रत्ययगोचर” इत्यादि भाष्यसे कहते हैं कि आत्माने अनात्मा और उसके धर्मोंके, और इसी प्रकार अनात्माने आत्मा और उसके

रत्नप्रभा

णाम् अनात्मनि आत्मतद्धर्माणामध्यासो निरस्यत इत्याह—अस्मत्प्रत्ययगोचर इत्यादिना । अहमिति प्रत्यययोग्यत्वं बुद्ध्यादेरप्यस्तीति मत्वा तत आत्मानं विवेचयति—विषयणीति । बुद्ध्यादिसाक्षिणीत्यर्थः । साक्षित्वे हेतुः—चिदात्मके इति । अहमिति भासमाने चिदंशात्मनीत्यर्थः । युष्मत्प्रत्ययगोचरस्येति । त्वंकारयोग्यस्य इदमर्थस्येति यावत् । नन्यहमिति भासमानबुद्ध्यादेः कथमिदर्थत्वमित्यत आह—विषयस्येति । साक्षिभास्यत्वस्वरूपलक्षणयोगाद् बुद्ध्यादेर्घटादिवदिदमर्थत्वं न प्रतिभासतः इति भावः । अथवा यदात्मनो मुख्यं सर्वान्तरत्वरूपं प्रत्यक्त्वं प्रतीतित्वं ब्रह्मास्मीति व्यवहारगोचरत्वं चोक्तं तदसिद्धम्, अहमिति प्रतीयमानत्वाद्, अहंकारवत्, इत्याशंक्याह—अस्मत्प्रत्ययगोचर इति । अस्मच्चासौ प्रत्ययश्चासौ गोचरश्च तस्मिन्नित्यर्थः । अहंवृत्तिव्यंग्यस्फुरणत्वं स्फुरणविषयत्वं वा हेतुः । आद्ये दृष्टान्ते हेत्वसिद्धिः, द्वितीये तु पक्षे तदसिद्धिरित्यात्मनो मुख्यं प्रत्यक्त्वादि युक्तमिति भावः । ननु

रत्नप्रभाका अनुवाद

धर्मोंके, अध्यासना अपढव किया है । बुद्धि आदि भी 'अहम्, ऐसे प्रत्ययके योग्य हैं ऐसा मानकर उनसे आत्माका भेद दिखानेके लिए "विषयिणि" कहा है । विषयी अर्थात् बुद्धि आदिका साक्षी । आत्मा बुद्धि आदिका साक्षी है इसके हेतु दिखलानेका है "चिदात्मक" पदसे । चिदात्मके अर्थात् 'मैं' ऐसा भासनेवाले चिदात्माने, "युष्मत्प्रत्ययगोचर" "तू" ऐसे प्रत्ययके योग्य अर्थात् 'यह' ऐसे भासनेवाले अनात्म पदार्थ । 'मैं' इस प्रत्ययसे भासित होनेवाले बुद्धि आदि 'यह' इस प्रत्ययके योग्य कैसे हो सकते हैं ? इस शङ्काको दूर करनेके लिए कहते हैं—"विषयस्य" विषय-साक्षिभास्य । 'यह' इस ज्ञानकी विषयता घट आदिकी तरह बुद्धि आदिमें मालूम नहीं होती है परन्तु, साक्षिभास्यत्व लक्षण होनेके कारण इदमर्थत्व उनमें भी है । अथवा आत्माका जो सर्वान्तरत्वरूप प्रत्यक्त्व है वह मुख्य है, आत्मा प्रतीतिस्वरूप है, और 'मैं ब्रह्म हूँ' इस व्यवहारके योग्य है ऐसा जो पहले कहा गया है, वह असिद्ध है, क्योंकि अहंकारकी तरह आत्मा भी 'अहम्' इस प्रतीतिका विषय है । इस शङ्का पर कहते हैं—"अस्मत्प्रत्ययगोचर" इत्यादि । यहाँ अस्मत्, प्रत्यय और गोचर इन तीनों पदोंके कर्मधारय समाससे 'अस्मत्प्रत्ययगोचर' शब्द बना है और यह उसका सप्तमी विभक्तिका रूप है । (हेत्वर्थमें दो विकल्प करके उक्त अनुमानका खण्डन करते हैं) 'अहम्' इस वृत्तिमें व्यक्त होनेवाला स्फुरणत्व हेतु है या स्फुरण-विषयत्व हेतु है ? प्रथम पक्षमें दृष्टान्तमें हेतु नहीं रहेगा, क्योंकि अहंकार स्फुरणरूप नहीं है । द्वितीय कल्पमें पक्षमें हेतु नहीं रहेगा, क्योंकि पक्ष आत्मा है, वह स्फुरण रूप ही है, स्फुरणका विषय नहीं है । दोनों अर्थोंके निर्दुष्ट न होनेमें हेतु नहीं बन सकता । हेतुके अभावमें अनुमान नहीं हो सकता, इसलिये आत्माका मुख्य प्रत्यक्त्व आदि सिद्ध है ऐसा अभिप्राय है । यदि कोई कहे कि आत्माका विषयित्व असिद्ध है, अहंकारकी तरह, क्योंकि

रत्नप्रभा

यदात्मानो विपर्यितं तदसिद्धम् “अनुभवामि” इति शब्दवत्त्वाद् अहंकारवदित्यत आह—विपर्यिणीति । वाच्यत्वं लक्ष्यत्वं वा हेतुः ? न आद्यः, पक्षे तदसिद्धेः । न अन्त्यः, दृष्टान्ते तद्वैकल्यादिति भावः । “देहं जानामि” इति देहाहङ्कार-योर्विपर्ययविपर्यित्वेऽपि मनुष्योऽइमित्यभेदाध्यासवद् आत्माहंकारयोरप्यभेदाध्यासः स्यादित्यत आह—चिदात्मके इति । तयोर्जीव्याल्पत्वाभ्यां सादृश्यादध्यासेऽपि चिदात्मनि अनवच्छिन्ने जडाल्पाहङ्कारादेर्न अध्यास इति भावः । “अहम्” इति भास्यत्वात् आत्मवदहङ्कारस्यापि प्रत्यक्त्वादिकं मुख्यमेव, ततः पूर्वोक्तपराक्त्वाद्य-सिद्धिरित्याशंक्याह—युष्मदिति । अहंश्रुतिभास्यत्वमहंकारे नास्ति, कर्तृकर्मत्व-विरोधात्, चिद्भास्यत्वं चिदात्मनि नास्ति इति हेतुसिद्धिः । अतो बुद्ध्यादेः प्रति-भासतः प्रत्यक्त्वेऽपि पराक्त्वादिकं मुख्यमेवेति भावः ।

युष्मत् पराक् तच्चासौ प्रतीयते इति प्रत्ययश्चासौ कर्तृत्वादिव्यहारगोचरश्च तस्येति विग्रहः । तस्य हेयत्वार्थमाह—विपर्यस्येति । पिन् वन्धने । विसिनोति वध्नाति इति विपर्यस्तस्येत्यर्थः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

‘मैं अनुभव करता हूँ’ ऐसा अभिमान उसमें देखा जाता है । इस शब्दाका निरास करनेके लिए कहा—“विपर्यिणि” । शब्दा करनेवालेके पृथना चाहिए कि हेतु अनुभवपदवाच्यत्व है या लक्ष्यत्व । पहला पक्ष सप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि पक्षमें हेतुकी स्वरूपासिद्धि हो जायगी । पक्ष आत्मा है, वह अनुभवपदवाच्य नहीं है । दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि दृष्टान्तमें हेतु असिद्ध हो जायगा । दृष्टान्त अहङ्कार है वह (अनुभवपद) लक्ष्य नहीं है । यद्यपि ‘शरीरको जानता हूँ’ इस प्रतीतिमें शरीर विपर्य है और अहङ्कार विपर्यी है तो भी “मैं मनुष्य हूँ” इस अभेदाध्यासके समान आत्मा और अहंकारका भी अभेदाध्यास हो सकता है, इस शब्दाको हटानेके लिए कहते हैं—“चिदात्मके” । शरीर तथा अहङ्कार जड़ और अल्प हैं, इसलिये उनका अभेदाध्यास हो भी सकता है, परन्तु अपरिच्छिन्न चिदात्मामें अल्प और जड़ अहङ्कारका अध्यास नहीं हो सकता है । आत्माकी तरह अहङ्कार ‘मैं’ ऐसा भासता है, इसलिए अहङ्कारमें भी प्रत्यक्त्व आदि मुख्य ही हैं, अतः पूर्वोक्त पराक्त्व आदिभी असिद्धि होती है, ऐसी शब्दा होने पर कहते हैं—“युष्मत्” इत्यादि । अहंश्रुतिभास्यत्व अहङ्कारमें नहीं है अर्थात् अहङ्कार ‘अहं’ इस श्रुतिसे नहीं भासता है, क्योंकि कर्तृत्व और कर्मत्वका विरोध है (एक ही वस्तु कर्ता और कर्म नहीं हो सकती है) । चिदात्मत्व चिदात्मामें नहीं है अतः हेतु असिद्ध है । इसलिए बुद्धि आदिमें प्रत्यक्त्वका भान होनेपर भी पराक्त्व आदि ही मुख्य है ।

युष्मत्—पराक्—बाह्य पदार्थ, प्रतीत होता है, इसलिए प्रत्यय, और कर्तृत्व आदि व्यवहारका गोचर, इन पदोंके कर्मधारय समाससे ‘युष्मत्प्रत्ययगोचर’ बना है । उसका युष्मत्प्रत्ययगोचरस्य पृथी विभक्तिका रूप है । वह हेय (लाज्य) है इस बातको दिखलते है—

रत्नप्रभा

आत्मनि अनात्मतद्धर्माध्यासो मिथ्या भवतु, अनात्मनि आत्मतद्धर्माध्यासः किं न स्यात् ? “अहं स्फुरामि, सुखी” इत्याद्यनुभवादित्याशंक्याह—तद्विपर्ययेणेति । तस्मादनात्मनो विपर्ययो विरुद्धस्वभावश्चैतन्यम्, इत्थम्भावे तृतीया । चैतन्यात्मना विपरिणस्तद्धर्माणां च योऽहङ्कारादौ विपर्येऽध्यासः स मिथ्येति—नास्तीति भवितुं युक्तम्, अध्याससामान्यभावात् । नहि अत्र पूर्वप्रमाहितसंस्कारः सादृश्यमज्ञानं वाऽस्ति । निरवयवनिर्गुणस्वप्रकाशात्मनि गुणावयवसादृश्यस्य च अज्ञानस्य चायोगात् ।

नन्यात्मनो निर्गुणत्वे ‘तद्धर्माणाम्’ इति भाष्यं कथमिति चेद्, उच्यते—बुद्धि-वृत्त्यभिव्यक्तं चैतन्यं ज्ञानम्, विपर्याभेदेन अभिव्यक्तं स्फुरणम्, शुभकर्मजन्यवृत्ति-व्यक्तमानन्द इत्येवं घृत्युपाधिकृतभेदात् ज्ञानादीनामात्मधर्मत्वव्यपदेशः । तदुक्तं टीकायाम्—“आनन्दो विपर्यानुभवो नित्यत्वं चेति सन्ति धर्मा अपृथक्त्वेऽपि चैतन्यात् पृथगिव अवभासन्ते” इति । अतो निर्गुणब्रह्मात्मत्वमते “अहङ्करोमि” इति प्रतीतेरर्थस्य च अध्यासत्वायोगात् प्रमात्वम्, सत्यत्वञ्च “अहं नरः” इति सामानाधि-

रत्नप्रभाका अनुवाद

“विपर्यय” पदसे । विपर्यय शब्दमें पिन् धातु है । उसका अर्थ है बन्धन । विशेष रूपसे अर्थात् दृढ़तासे बन्धन करता है, इसलिए उसका नाम विपर्यय है ।

कोई कहे कि आत्मामें अनात्मा और उसके धर्मोंका अध्यास भले ही हो, परन्तु अनात्मामें आत्मा और उसके धर्मोंका अध्यास क्यों नहीं होता ? क्योंकि ‘मैं भासता हूँ’ ‘मैं सुखी हूँ’ इत्यादि अनुभव होता है, इस शब्दा का निवारण करनेके लिए कहते हैं—“तद्विपर्ययेण” अर्थात् अनात्मासे चैतन्य विरुद्ध-स्वभाव है । यहां पर तृतीया अभेदसे है । चैतन्यरूपसे विपर्ययी (आत्मा) और उसके धर्मोंका अहंकार आदि विपर्ययों में अध्यास नहीं बन सकता ऐसा कहना युक्त है, क्योंकि अध्यासको सामग्री ही नहीं है । यहां पूर्व प्रमाजन्य संस्कार, सादृश्य और अज्ञान नहीं हैं, क्योंकि आत्मा अवयवबहिर्हित, निर्गुण और स्वप्रकाश है, इसलिए आत्मामें गुण या अवयव द्वारा सादृश्य या अज्ञानका योग नहीं है ।

कोई कहे कि आत्मा निर्गुण है तो ‘तद्धर्माणाम्’ यह कैसे संगत होगा ? इसका उत्तर यह है कि बुद्धिवृत्तिमें अभिव्यक्त चैतन्य ज्ञान, विपर्ययके अभेदसे अभिव्यक्त चैतन्य स्फुरण और शुभ-कर्मजन्य वृत्तिमें अभिव्यक्त चैतन्य आनन्द है । इस प्रकार वृत्तिरूप उपाधिके भेदसे ज्ञान आदि आत्माके धर्म कहे जाते हैं । आनन्द, विपर्ययका अनुभव और नित्यत्व ये तीन आत्माके धर्म चैतन्यसे भिन्न नहीं हैं, तो भी भिन्नसे भासते हैं, ऐसा टीकामें कहा है । जिनके मतमें निर्गुण ब्रह्म ही आत्मा है, उनके मतमें ‘मैं करता हूँ’ इस प्रतीतिका और उसके अर्थका अध्यासत्व नहीं हो सकता है । इसलिए अगत्या उस मतको तिलाजलि देकर न्यायमतानुसार वह प्रतीति प्रमा है, उसका अर्थ अबाधित है और ‘मैं मनुष्य हूँ’ ऐसी सामानाधिकरण्यकी प्रतीति गौण है, यह मानना पड़ेगा । पूर्वपक्षीका तात्पर्य यह कि बन्ध सत्य है, इसलिए ज्ञानसे उसका

भाष्य

युष्मत्प्रत्ययगोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यासः, तद्विपर्ययेण विषयि-
णस्तद्धर्माणां च विषये अध्यासो मिथ्येति भवितुं युक्तम्। तथापि अन्योन्य-
स्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्यधर्मांश्च अध्यस्य इतरेतराविवेकेन,

भाष्यका अनुवाद

उसमें 'तुम' ऐसी प्रतीति के योग्य जो विषय (देह, इन्द्रिय आदि जड़ अनात्म वस्तु)
है, उसका एवं उसके धर्मों का अध्यास और इसके विपरीत, विषयमें विषयी और
उसके धर्मोंका अध्यास नहीं बन सकता है, तो भी जाड्य, चैतन्य आदि धर्म और
अहङ्कार एवं आत्मरूपी धर्मा, जो अत्यन्त भिन्न हैं, इनका परस्पर भेद न समझ

रत्नप्रभा

करण्यस्य गौणत्वमिति मतमास्थेयम्। तथा च बन्धस्य सत्यतया ज्ञानात्
निवृत्तिरूपफलासम्भवाद् बद्धमुक्तयोः जीवब्रह्मणोः ऐक्यायोगेन विषयासम्भवात्
शास्त्रं न आरम्भणीयमिति पूर्वपक्षभाष्यतात्पर्यम्।

युक्तग्रहणात् पूर्वपक्षस्य दुर्बलत्वं सूचयति। तथाहि—किमध्यासस्य
नास्तित्वमयुक्तत्वाद्, अभानाद् वा, कारणाभावाद् वा? आद्य इष्ट इत्याह—
तथापीति। एतदनुरोधादादौ यद्यपीति पठितव्यम्। अध्यासस्य असङ्गत्व-
प्रकाशात्मनि अयुक्तत्वमलङ्कार इति भावः। न द्वितीय इत्याह—अयमिति।
“अज्ञः कर्ता मनुष्योऽहम्” इति प्रत्यक्षानुभवादध्यासस्य अभानमसिद्धमित्यर्थः।

रत्नप्रभाका अनुवाद

नाश नहीं हो सकता, अतः नाशरूप प्रयोजनका अभाव है। बद्ध जीवका और मुक्त ब्रह्मका
ऐक्य नहीं हो सकता, इसलिए विषयकी भी सम्भावना नहीं है। विषय और प्रयोजन दोनोंके
अभावसे वेदान्त-मीमांसाशास्त्र अनारम्भणीय है।

यह पूर्वपक्ष दुर्बल है, इसे भाष्यकार “युक्त” शब्द से प्रकट करते हैं। पूर्वपक्षसे पूछना
चाहिए कि अध्यासके न होनेका क्या कारण है? क्या अयुक्त है इसलिए? अथवा उसका
भान नही होता है इसलिए? अथवा उसके कारणका अभाव है इसलिए? प्रथम पक्ष तो
हमको इष्ट ही है, इस बातको “तथापि” पदसे दिखलते हैं। “तथापि” पदके अनुरोधसे प्रारम्भमें
‘यद्यपि’ पद जोड़ना चाहिए। असङ्ग स्वप्ननाश आत्मामें अध्यास अयुक्त है, यह कथन अल-
ङ्काररूप है। दूसरा पक्ष ठीक नहीं है, यह दिखलानेके लिए लोकव्यवहारमें “अयम्” विशेषण
दिया है। मैं अज्ञ, कर्ता, मनुष्य हूँ, ऐसा प्रत्यक्ष-अनुभव होनेसे यह सिद्ध नहीं होता कि
अध्यासका भान नहीं होता है, क्योंकि ‘मैं कर्ता हूँ’ इत्यादि अनुभवोंमें ‘मैं’ अर्थात् आत्मामें
अज्ञान्य, कर्तृत्व और मनुष्यत्व आदि अनात्माका भान ही सिद्ध होता है।

रत्नप्रभा

न चेदं प्रत्यक्षं कर्तृत्वाद्दी प्रमेति वाच्यम् । अपौरुषेयतया निर्दोषेण उपक्रम-
दिलिङ्गावधृततात्पर्येण च “तत्त्वमसि” (छा० ६।८।७) इत्यादिवाक्येन अकर्तृत्व-
ब्रह्मत्वबोधनेन अस्य भ्रमरनिश्चयात् । न च ज्येष्ठप्रत्यक्षविरोधाद् आगमज्ञान-
स्यैव बाध इति वाच्यम्, देहात्मवादप्रसङ्गात् । “मनुष्योऽहम्” इति प्रत्यक्षविरोधेन
“अथायमशरीरः” (वृ० ४।४।७) इत्यादिश्रुत्या देहादन्यात्मासिद्धेः । तस्मात्
“इदं रजतम्” इतिवत् सामानाधिकरण्यप्रत्यक्षस्य भ्रमरशक्काकलङ्कितस्य न आगमात्
प्राबल्यमित्यास्थेयम् । किञ्च, ज्येष्ठत्वं पूर्वभावित्वं वा, आगमज्ञानं प्रत्युपजीव्यत्वं
वा ? आद्ये न प्राबल्यम्, ज्येष्ठस्यापि रजतभ्रमस्य पश्चाद्भाविना शुक्तिज्ञानेन

रत्नप्रभाका अनुवाद

यदि कोई कहे कि आत्मामें कर्तृत्व आदिका अध्यास नहीं है, किन्तु प्रमा है, अर्थात् कर्तृत्व
आदि धर्म आत्माके न होते हुए उसके माने जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, किन्तु यथार्थ रीतिसे
ये धर्म आत्माके हैं, इसलिए कर्तृत्व आदि धर्मोंका यथार्थ ज्ञान है । यह कथन ठीक नहीं है,
क्योंकि उपक्रम आदि लिङ्गोंसे जिनके तात्पर्यका निश्चय किया गया है एवं अपौरुषेय होनेके
कारण निर्दोष ‘तत्त्वमसि’ आदि श्रुति-वाक्योंसे आत्मामें कर्तृत्व आदि धर्म-संसर्ग रहित ब्रह्मके
ऐक्यका बोध होता है, इसलिए ‘आत्मा कर्ता है’ यह प्रमा नहीं, किन्तु भ्रम है । कोई यह
शङ्का करे कि प्रत्यक्ष प्रमाण ज्येष्ठ है, अतः यदि इसके साथ श्रुति-वाक्यका विरोध हो तो
श्रुतिवाक्यका बाध होना चाहिए, यह शङ्का भी ठीक नहीं है, क्योंकि ‘मनुष्योऽहम्’ (मैं मनुष्य
हूँ) इस प्रत्यक्ष प्रमाणसे देह आत्मा है, ऐसा ज्ञान होता है और इस प्रत्यक्ष प्रमाणको
‘अथायमशरीर’ (और यह अशरीर है) इस श्रुति-वाक्यसे बलवत्तर मानें तो देहसे आत्मा
भिन्न है यह बात श्रुति-वाक्यसे सिद्ध न होगी, किन्तु देह ही आत्मा है, इस देहात्मवादी
चार्वाकके मतकी पुष्टि होगी । इसलिए जैसे ‘इदं रजतम्’ (सीपको ‘रजत’ समझना) भ्रम
है, वैसे ही ‘अज्ञ, कर्ता, मनुष्योऽहम्’ (मैं अज्ञ, कर्ता, मनुष्य हूँ) यह सामानाधिकरण्यवाला
प्रत्यक्ष भी भ्रम ही है, इसलिए श्रुति-वाक्यसे बलवान् नहीं है । सका करनेवालेसे यह भी पूछना
चाहिए कि प्रत्यक्ष प्रमाण श्रुति-वाक्यसे ज्येष्ठ है—यहाँ पर ज्येष्ठ शब्दका अर्थ पूर्वभावी है ?
अथवा आगमज्ञानके प्रति कारण होना ? ‘पूर्वभावी’ अर्थ करने पर प्रत्यक्षज्ञान आगमज्ञानसे
अधिक बलवान् नहीं ठहरता, क्योंकि पूर्वमें होनेवाला ज्ञान पश्चात् होनेवाले ज्ञानसे बलवान् हो,
ऐसा नियम नहीं है । पहले सीपमें चाँदीका भ्रम होता है, इस भ्रमका ‘इयं शुक्ति’ इस
सापकी प्रमासे बाध हो जाता है । अर्थात् जैसे यहाँ पर पूर्वभावी चाँदीका ज्ञान भ्रम है, उस
भ्रमज्ञानका पश्चाद्भावी सीपके ज्ञानसे बाध हो जाता है, वैसे ही ‘अज्ञ, कर्ता, मनुष्योऽहम्’
आत्मामें कर्तृत्व आदिका जो यह प्रत्यक्षज्ञान होता है, वह ज्येष्ठ अर्थात् पूर्वभावी होने पर भी

(१) अभेदसे अन्वयका बोधकत्व । जैसे—‘नीलो घट’ (नाला घट) यहा पर नील पदार्थ और
घट पदाथका परस्पर अभेद सम्बन्धसे अन्वय है ।

रत्नप्रभा

बाधदर्शनात् । न द्वितीयः, आगमज्ञानोत्पत्तौ प्रत्यक्षादिमूलवृद्धव्यवहारे संग-
तिग्रहद्वारा, शब्दोपलब्धिद्वारा च प्रत्यक्षादेः व्यावहारिकप्रामाण्यस्य उपजीव्यत्वेऽपि
तात्त्विकप्रामाण्यस्य अनपेक्षितत्वाद्, अनपेक्षितांशस्य आगमेन बाधसंभवादिति ।

यत्तु क्षणिकयागस्य श्रुतिबलात् कालान्तरभाविफलहेतुत्ववत् “तथा विद्वान्
नामरूपाद्विमुक्तः” (मु० ३।२।४) इति श्रुतिबलात् सत्यस्यापि ज्ञानाद् निवृत्तिसम्भ-
वादध्यासवर्णनं व्यर्थमिति, तन्न, ज्ञानमात्रनिवर्त्यस्य कापि सत्यत्वाददर्शनात्,
सत्यस्य चात्मनो निवृत्त्यदर्शनाच्च; अयोग्यतानिश्चये सति सत्यबन्धस्य ज्ञानात्
निवृत्तिश्रुतेर्वोधकत्वायोगात् । न च सेतुदर्शनात् सत्यस्य पापस्य नाशदर्शनाद्
न अयोग्यतानिश्चय इति वाच्यम्, तस्य श्रद्धानियमादिसापेक्षज्ञाननाशत्वात् ।
बन्धस्य च “नान्यः पन्था” (श्वे० ३।८) इति श्रुत्या ज्ञानमात्राद् निवृत्तिप्रतीतिः ।
अतः श्रुतज्ञाननिवर्त्यत्वनिर्वाहार्थम् अध्यस्तत्वं वर्णनीयम् । किञ्च, ज्ञानैकनिवर्त्यस्य

रत्नप्रभाका अनुवाद

‘तत्त्वमसि’ आदि कर्तृत्वादि-रहित ब्रह्म-बोधक वेदान्त-वाक्योंसे होनेवाले तत्त्वज्ञानसे बाधित
होता है । दूसरा ‘कारणरूप’ अर्थ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आगमजन्य ज्ञानकी उत्पत्तिमें
तथा प्रत्यक्ष आदि मूलक वृद्ध-व्यवहारमें सम्बन्ध-ग्रहण एवं शब्द-भावण-प्रत्यक्ष द्वारा
प्रत्यक्षादिके व्यावहारिक प्रामाण्यके कारण होनेपर भी तात्त्विक प्रामाण्यके लिए उसकी अपेक्षा
नहीं है । जिस अंशकी अपेक्षा नहीं है, उस अंशका आगमसे बाध हो सकता है । अतः
ज्येष्ठका अर्थ कारणरूप मानना भी ठीक नहीं है ।

कोई कहते हैं कि जैसे श्रुतिके चलने क्षणिक (तृतीय क्षणमें नष्ट होनेवाला) क्रियात्मक यज्ञ
कार्यन्तरमें (बहुत दिनोंके बाद) होनेवाले फलका कारण होता है, वैसे ही ‘तथा विद्वान्०’
(विद्वान् नाम और रूपसे मुक्त होता है) इस श्रुतिके चलने सत्यबन्धका भी ज्ञानसे नाश हो
सकता है, अतः अध्यासका वर्णन करना व्यर्थ है । यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि केवल
ज्ञानसे नष्ट होनेवाला पदार्थ कहाँ भी सत्य नहीं देखा गया है । जो सत्य आत्मा है, वह नाश
ही नहीं है । यदि यह निश्चय हो जाय कि सत्य बन्ध नाश होने योग्य नहीं है; तब ‘सत्य बन्ध,
ज्ञानसे नष्ट होता है’ ऐसा प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिसे अर्थका बोध भी नहीं होगा ।
‘सेतुके दर्शनसे सत्य पापका नाश होना देखनेमें आता है, अतः सत्य वस्तुमें ज्ञानसे नाश
होनेकी योग्यता है’ यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि श्रद्धा, नियम आदि सहकारियोंके
साहाय्य द्वारा ज्ञानसे पाप नष्ट होता है, न कि केवल ज्ञान से । बन्ध तो “नान्यः पन्था”
(दूसरा रास्ता नहीं है) इस श्रुतिके अनुसार केवल ज्ञानसे ही नष्ट होता है । अतः उक्त
श्रुतिके अर्थके निर्वाहके लिए बन्धको अध्यस्त मानना पड़ेगा । और, केवल ज्ञानसे नाश

भाष्य

अत्यन्तविविक्तयोर्धर्मधर्मिणोर्मिध्याज्ञाननिमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य,

भाष्यका अनुवाद

कर, अन्योन्य में अन्योन्य स्वरूप और अन्योन्य के धर्म का अध्यास कर, सत्य और अनृतका मिथुनीकरण करके 'मैं यह' 'यह मेरा' ऐसा मिध्याज्ञान-

रत्नप्रभा

किं नाम सत्यत्वम्? न तावद् अज्ञानाजन्यत्वम् । "मायां तु प्रकृतिम्" (श्वे० ४।१०) इति श्रुतिविरोधात् मायाऽविद्ययोरैक्यात् । नापि स्वाधिष्ठाने स्वाभाव-
शून्यत्वम्, "अस्थूलम्" (बृ० ३।८।८) इत्यादिनिषेधश्रुतिविरोधात् । नापि
ब्रह्मवद् बाधायोग्यत्वम्, ज्ञानाद् निवृत्तिश्रुतिविरोधात् । अथ व्यवहारकाले बाध-
शून्यत्वम्, तर्हि व्यावहारिकमेव सत्यत्वमित्यागतमध्यस्तत्वम् । तच्च श्रुत्यर्थे
योग्यताज्ञानार्थे वर्णनीयमेव, यागस्य अपूर्वद्वारत्ववत् । न च 'तदनन्यत्वाधिकरणे'
(ब्र० सू० २।१।१४) तस्य वर्णनात् पौनरुक्त्यम् । तत्र उक्ताध्यासस्यैव प्रवृत्त्य-
ङ्गविषयादिसिद्धयर्थमादौ स्मार्यमाणत्वादिति दिक् ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

होनेवाले बन्धका सत्यत्व क्या है? 'अज्ञानसे उत्पन्न न होना' सत्यत्व है ऐसा नहीं वह समते
हैं; क्योंकि "मायां तु०" (माया को प्रकृति जानना चाहिये) इस श्रुतिसे विरोध हो जायगा, कारण
कि माया, अविद्या दोनों एक ही हैं । 'अपने अधिष्ठानमें अपना अभाव न रहना' सत्यत्व है
ऐसा भी नहीं कह सकते हैं; क्योंकि 'अस्थूलम्' इस निषेधश्रुतिसे विरोध हो जायगा । 'ब्रह्मकी
तरह बाधका अयोग्य होना' सत्यत्व है, यह भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञानसे बंधका
निराकरण करनेवाली श्रुतिसे विरोध हो जायगा । यदि 'व्यवहारकालमें जिसका बाध नहीं होता
है, वह सत्य है' ऐसा कहा जाय तो केवल व्यावहारिक सत्यत्व ही कहा गया, वही अध्यस्तत्व
है । वह तो श्रुत्यर्थमें योग्यताज्ञान करनेके लिए वर्णनीय ही है, जैसे कि 'स्वर्गकामो यजेत' इस
श्रुतिके—स्वर्गसाधन यज्ञ है—अर्थमें योग्यता ज्ञानके लिये अपूर्वरूप द्वार वर्णनीय होता है ।
शब्दा—आगे 'तदनन्यत्व' अधिकरणमें अध्यासका वर्णन है, इसलिए पुनरुक्त दोष होगा ।
समाधान—विचार-प्रवृत्तिके अङ्गभूत (साधन) विषय आदिकी सिद्धिके लिए उस जगह
वर्णित अध्यासका स्मरण यहाँ कराया गया है ।

(१) आशय यह है कि शब्दजन्यबोधमें योग्यताज्ञान कारण है । अतः यदि कर्तृत्व आदि
सत्कारको सत्य मानें, तो 'तमेव विदित्वातिश्रुत्युमेति' श्रुतिसे सत्कारनिवृत्तिरूप मोक्षका कारण ज्ञान है,
ऐसा बोध नहीं होगा, क्योंकि सत्यकी निवृत्ति करनेकी योग्यता ज्ञानमें नही है । तथा 'स्वर्गकामो यजेत'
इस श्रुतिसे क्रियाकलापारम्भ यज्ञमें कालान्तरमें होनेवाले स्वर्गसाधनताका बोध नही होगा, क्योंकि

भाष्य

अहमिदं ममेदमिति नैसर्गिकोऽयं लोकव्यवहारः । आह—कोऽयमध्यासो

भाष्यका अनुवाद

निमित्त यह स्वभावसिद्ध' लोक-व्यवहार चलता है (पूर्व पक्षवादी) कहता है

रत्नप्रभा

अध्यासं द्वेषा दर्शयति—लोकव्यवहार इति । लोक्यते मनुष्योऽहमित्य-
भिमान्यते इति लोकोऽर्थाध्यासः । तद्विषयो व्यवहारोऽभिमान इति ज्ञानाध्यासो
दर्शितः । द्विविधाध्यासस्वरूपलक्षणमाह—अन्योन्यस्मिन् इत्यादिना धर्मधर्मिणोः
इत्यन्तेन । जाड्यचैतन्यादिधर्माणां धर्मिणौ अहङ्कारात्मानौ, तयोरत्यन्तं भिन्नयोः
इतरेतरभेदाग्रहेण अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यतादात्म्यमन्योन्यधर्माश्च व्यत्यासेन
अध्यस्य लोकव्यवहार इति योजना । अतः “सोऽयम्” इति प्रमाया न अध्या-
सत्वम्, तदिदमर्थयोः कालभेदेन कल्पितभेदेऽपि अत्यन्तभेदाभावात् इति वक्तु-
मत्यन्तेत्युक्तम् । न च धर्मितादात्म्याध्यासे धर्माध्याससिद्धेः ‘धर्माश्च’ इति व्यर्थमिति
वाच्यम् । अन्धत्वादीनामिन्द्रियधर्माणां धर्म्यध्यासास्फुटत्वेऽपि अन्धोऽहमिति

रत्नप्रभाका अनुवाद

“लोकव्यवहार” शब्दसे भाष्यकारने दो प्रकारका अध्यास दिखलाया है । ‘लोक’ शब्द
‘लोक’ धातुसे बना है । (मैं, मनुष्य हूँ) ऐसे अभिमानके विषयको लोक कहते हैं) यह
अर्थाध्यास है । लोकविषयक व्यवहार (अभिमान) लोकव्यवहार है, इसे ही ज्ञानाध्यास
कहते हैं । “अन्योन्यस्मिन्” इत्यादिसे लेकर “धर्मधर्मिणोः” पर्यन्त ग्रन्थसे दोनों प्रकारके
अध्यासका स्वरूपलक्षण कहते हैं । जाड्य, चैतन्य आदि धर्मोंके क्रमसे अहङ्कार और आत्मा
धर्मा हैं । आपसमें अत्यन्त भिन्न उन दोनों धर्मियोंका परस्पर भेदज्ञान न होनेसे परस्परमें
परस्परका तादात्म्य और परस्परके धर्मोंके विनिमयसे अध्यास करके लोकव्यवहार होता है
ऐसी योजना करनी चाहिए । ‘सोऽयम्’ (वह यह है) यह प्रमा है, अध्यास नहीं है । इसमें
‘यह’ और ‘यह’ पदार्थोंका कालके भेदसे कल्पित भेद है, अत्यन्त भेद नहीं है, ऐसा कहने-
के लिए ‘अत्यन्त भिन्न’ इसमें ‘अत्यन्त’ पद लगाया है । धर्मोंका अध्यास कहनेसे ‘धर्मका
अध्यास सिद्ध ही है, इसलिए ‘धर्मका अध्यास पृथक् कहना व्यर्थ है, यह शब्दा न करनी
चाहिए; क्योंकि अन्धत्व आदि इन्द्रियोंके धर्म हैं, इनके धर्मा इन्द्रियोंका अध्यास स्पष्ट नहीं
होता है, तो भी ‘अन्धोऽहम्’ (मैं अन्धा हूँ) इस प्रकार अन्धत्वरूप धर्मका अध्यास स्पष्ट है,

अध्यहितोत्तरवर्ती कार्यकी ही कारणमें साधनताकी योग्यता होती है । अतः श्रुतिप्रामाण्यके अनु-
रोधसे पहले स्थलमें सत्ताको अध्यस्तत्व और अनन्तर स्थलमें अपूर्वरूप द्वारको स्वाकार करना होगा ।

(१) पदार्थरूप अध्यास, यहाँ पर अध्यास शब्द कर्मभ्रमन्त है ।

रत्नप्रभा

स्फुटोऽध्यास इति ज्ञापनार्थत्वात् । ननु आत्मानात्मनोः परस्पराध्यस्तत्वे शून्यवादः स्यादिति आशङ्क्य आह—सत्यानृते मिथुनीकृत्येति । सत्यमनिदं चैतन्यम्, तस्य अनात्मनि संसर्गमात्राध्यासो न स्वरूपस्य । अनृतं युष्मदर्थः, तस्य स्वरूपतोऽपि अध्यासात् तयोर्मिथुनीकरणमध्यास इति न शून्यतेत्यर्थः ।

ननु अध्यासमिथुनीकरणलोकव्यवहारशब्दानामेकार्थत्वे अध्यस्यं मिथुनीकृत्येति पूर्वकालत्ववाचिकत्वाप्रत्ययादेशस्य ल्यपः कथं प्रयोग इति चेत्, न; अध्यासव्यक्तिभेदात् । तत्र पूर्वपूर्वाध्यासस्य उत्तरोत्तराध्यासं प्रति संस्कारद्वारा पूर्वकालत्वेन हेतुत्वद्योतनार्थं ल्यपः प्रयोगः । तदेव स्पष्टयति—नैसर्गिक इति । प्रत्यगात्मनि हेतुहेतुमद्भावेन अध्यासप्रवाहोऽनादिरित्यर्थः । ननु प्रवाहस्य अवस्तुत्वादध्यासव्यक्तीनां सादित्वात् कथमनादित्वमिति चेत्, उच्यते—अध्यासत्वावच्छिन्नव्यक्तीनां मध्ये अन्यतमया व्यक्त्या विना अनादिकालस्य अवर्तनं कार्या-

रत्नप्रभा का अनुवाद

ऐसा बोध करानेके लिए 'धर्मादय' पृथक् पद दिया है । आत्मा और अनात्माका परस्पर अध्यास करनेसे शून्यवादकी सिद्धि होती है, इस शंकाको दूर करनेके लिए कहते हैं—“सत्यानृते मिथुनीकृत्य” । सत्य अर्थात् चैतन्यरूप 'यह' इस प्रतीतिके अविषय आत्माके संसर्गमात्रका अनात्मामें अध्यास है, स्वरूपाध्यास नहीं है । और अनृत—असत्यरूप अनात्माका आत्मामें स्वरूप से भी अध्यास है, इसलिए आत्मा और अनात्माका मिथुनीकरण अध्यास है । इस प्रकार शून्यवादका प्रसंग नहीं आता ।

अध्यास, मिथुनीकरण और लोकव्यवहार ये शब्द पर्यायवाची हैं तो 'अध्यस्य' और 'मिथुनीकृत्य' इनमें पूर्वकालवाचक 'क्त्वा' प्रत्ययके स्थानमें हुए 'ल्यप्' का प्रयोग कैसे किया ? ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अध्यासोंका व्यक्तिभेद है अर्थात् वे तीन भिन्न भिन्न अध्यास हैं । पूर्व पूर्व अध्यास संस्कार द्वारा उत्तरोत्तर अध्यासके प्रति कारण हैं, इसे सूचित करनेके लिए पूर्वकालवाचक 'ल्यप्' का प्रयोग किया है और यही स्पष्ट करनेके लिए "नैसर्गिक" कहा है । तात्पर्य यह कि पूर्व-पूर्व अध्यास उत्तरोत्तर अध्यासके प्रति कारण हैं । इसीसे प्रत्यगात्मामें अध्यासका प्रवाह अनादि है । यदि कोई शका करे कि प्रवाह कोई वस्तु नहीं है और जिसका प्रवाह चलता है, ऐसी कोई अध्यास व्यक्ति अनादि नहीं है, किन्तु सब सादि हैं, तब अध्यासका प्रवाह अनादि किस प्रकार कहा जाय ? इस शङ्काका निराकरण इस प्रकार है—नाल अनादि है और अध्यास व्यक्तियोंमेंसे किसी भी व्यक्तिके बिना अनादि काल नहीं रहता, अध्यास व्यक्तियोंमेंसे कोई व्यक्ति अनादि कालमें अवद्य होती ही है यही कार्यके अनादिपनेका स्वरूप है ।

(१) जिनका युग्म (जोड़ा) न हो सवता हो उनका युग्म बना देना, इसका नाम मिथुनीकरण है ।

रत्नप्रभा

नादित्त्रमित्यङ्गीकारात् । एतेन कारणाभावादिति कल्पो निरस्तः । संस्कारस्य निमित्तस्य नैसर्गिकपदमेव उक्तत्वात् । न च पूर्वप्रमाजन्य एव संस्कारो हेतुरिति वाच्यम् । लाघवेन पूर्वानुभवजन्यसंस्कारस्य हेतुत्वात् । अतः पूर्वाध्यासजन्यः संस्कारोऽस्तीति सिद्धम् ।

अध्यासस्य उपादानमाह—मिथ्याज्ञाननिमित्त इति । मिथ्या च तदज्ञानं च मिथ्याज्ञानं तत् निमित्तम् उपादानं यस्य स तन्निमित्तस्तदुपादानक इत्यर्थः । अज्ञानस्य उपादानत्वेऽपि संस्फुरदात्मतत्त्वावरकतया दोषत्वेन अहंकाराध्यासकर्तुः ईश्वरस्य उपाधित्वेन संस्कार-काल-कर्म-आदिनिमित्तपरिणामित्वेन च निमित्तत्वमिति द्योतयितुं निमित्तपदम् । स्वप्रकाशात्मनि असंगे कथमविद्यासंगः संस्कारादिसामग्र्यभावात्; इति शंकानिरासार्थं मिथ्यापदम् । प्रचण्डमार्तण्डमण्डले पेचकानुभवसिद्धान्धकारवत् “अहमज्ञः” इत्यनुभवसिद्धमज्ञानं दुरपह्वम्, कल्पितस्य अधिष्ठानास्पर्शित्वात्,

रत्नप्रभाका अनुवाद

इस कथनसे ‘अध्यासका कोई कारण नहीं है, इसलिए वह नहीं है’ इस शङ्का भी निराकरण हो गया, क्योंकि नैसर्गिक पदसे सिद्ध होता है कि संस्कार अध्यासका कारण है । पूर्व प्रमासे उत्पन्न संस्कार ही अध्यासका कारण है ऐसा नियम नहा कर सकते, क्योंकि पूर्व प्रमाकी अपेक्षा लाघवसे पूर्वानुभवजन्य संस्कारको ही अध्यासका कारण कहना ठीक है । इसलिए पूर्वाध्याससे संस्कार उत्पन्न होता है, यह बात सिद्ध है ।

“मिथ्याज्ञाननिमित्त” इस शब्दसे अध्यासका उपादान कारण बतलाया है । मिथ्या-अज्ञान जिसका निमित्त (कारण) हो, उसका नाम मिथ्याज्ञाननिमित्त है । अज्ञान यद्यपि उपादान कारण है, तो भी उसको निमित्त कहा है, इसका कारण यह है कि स्फुरण होते हुए आत्मत्वका आवरण करनेसे मिथ्याज्ञान दोषरूप है, अहङ्काराध्यास करनेवाले ईश्वरका उपाधि है और यही मिथ्याज्ञान संस्कार, काल, कर्म आदि निमित्तरूपमें परिणत होकर अध्यासका निमित्त होता है, यह निमित्त पदसे दिखलाया है । यदि कोई शङ्का करे कि आत्मा स्वप्रकाश और असङ्ग है, इसमें अविद्याका सङ्ग कैसे ? क्योंकि संस्कार, सादृश्य आदि अध्यासकी सामग्री नहा है, तो इस शङ्काको दूर करनेके लिए ‘मिथ्या’ पद दिया है । जैसे प्रचण्ड सूर्यमण्डलमें, दिवान्ध होनेसे, उल्लू अन्धकारका अनुभव करता है, इसी प्रकार ‘अहमज्ञ’ (मैं अज्ञ हूँ) ऐसे अनुभवसे सिद्ध अज्ञानका अपह्व नहा हो सकता । कल्पित पदार्थ अधिष्ठानका स्पर्श नहीं कर सकता और निला स्वरूप ज्ञानका विरोधी

(२) कावसे अभिन्न कारणका नाम उपादान कारण है । जैसे—पटका उपादान कारण गृहिका, कुण्डलका शुक्ल, पटका तन्तु है । क्योंकि ये सब कारण कावसे अभिन्न हैं । इस उपादान कारणको नैयायिक समवायिकारण कहते हैं ।

रत्नप्रभा

नित्यस्वरूपज्ञानस्य अविरोधित्वाच्चेति । यद्वा, अज्ञानं ज्ञानाभाव इति शङ्कानिरासार्थं मिथ्यापदम् । मिथ्यात्वे सति साक्षात् ज्ञाननिवर्त्यत्वम् अज्ञानस्य लक्षणं मिथ्याज्ञानपदेन उक्तम् । ज्ञानेन इच्छाप्रगभावः साक्षान्निवर्त्यते इति वदन्तं प्रति मिथ्यात्वे सतीत्युक्तम् । अज्ञाननिवृत्तिद्वारा ज्ञाननिवर्त्यत्वन्ध्ये अतिव्याप्तिनिरामाय साक्षादिति । 'अनाद्युपादानत्वे सति मिथ्यात्वं वा लक्षणम् । ब्रह्मनिरासार्थं मिथ्यात्वमिति । मृदादिनिरासार्थमनादीति । अविद्यात्मनोः सम्बन्धनिरासार्थम् उपादानत्वे सतीति ।

सम्प्रति अध्यासं द्रढयितुमभिलषति—अहमिदं ममेदमिति । आध्यात्मिक-कार्याध्यासेषु अहमिति प्रथमोऽध्यासः । न च अधिष्ठानारोप्यांगद्वयानुपलम्भात् न अयमध्यास इति वाच्यम्, “अयो दहति” इतिवत् “अहमुपलभे” इति दृक्दृश्यांशयोरुपलम्भात् । इदंपदेन भोग्यः संघात उच्यते । अत्र “अहमिदम्” इत्यनेन “मनुष्योऽहम्” इति तादात्म्याध्यासो दर्शितः । “ममेदं शरीरम्” इति

रत्नप्रभाका अनुवाद

नहीं हो सकता, यह दिखलनेके लिए 'मिथ्या' पदका प्रयोग किया है । अथवा ज्ञानका अभाव अज्ञान है, इस शङ्काको दूर करनेके लिए 'मिथ्या' पदका प्रयोग किया है । मिथ्या होकर साक्षात् ज्ञानसे नष्ट हो गये, ऐसा अज्ञानका लक्षण मिथ्याज्ञान-पदसे कहा गया है । “ज्ञानमे इच्छाका प्रगभाव साक्षात् नष्ट होता है” ऐसा कहनेवाले वादीके प्रति 'मिथ्यात्वे सति' कहा है । ज्ञान अज्ञान-नाशके द्वारा बन्धका भी नाशक है, इसलिए बन्धमें अज्ञानके लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी । उसके निवारणके लिए 'साक्षात्' पद दिया है । अथवा 'जो अनादि उपादान होकर मिथ्या है, वह अज्ञान है' यह अज्ञानका लक्षण है । इस लक्षणमें 'मिथ्या' पद न देनेसे ब्रह्ममें अतिव्याप्ति हो जायगा, क्योंकि अनादि उपादान ब्रह्म भी है । उसका वारण करनेके लिए 'मिथ्या' पद दिया है । 'अनादि' पद न देनेसे मृदादि (मिट्टी आदि) में अतिव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि वह भी घट आदिका उपादान कारण है और मिथ्या भी है । उसका वारण करनेके लिए 'अनादि' पद दिया है । अविद्या और आत्माका जो सम्बन्ध है, उसमें अतिव्याप्ति वारण करनेके लिए 'उपादान' पद दिया है ।

अब अध्यासमें दृढ करनेके लिए 'अहमिदम्', 'ममेदम्' ऐसा कहते हैं । शरीरान्त-सम्बन्धी कार्याध्यासमें अहम् यह पहला अध्यास है । 'अहम्' इस अध्यासमें अधिष्ठानांश और आरोप्यांश इन दोनोंकी उपलब्धि नहीं होती है, इसलिए यह अध्यास नष्ट है, यह कहना ठीक नष्ट है, क्योंकि 'लोहा जलता है' इस प्रतीतिकी तरह 'मैं अनुभव करता हूँ' ऐसा दृक् और दृश्य अंशोंकी उपलब्धि होती है । 'इदम्' पदसे भोग्यसंघात (शरीर और इन्द्रिय-समूह) कहा जाता है । 'यह मैं' अर्थात् मनुष्य हूँ, इसमें 'मैं' और 'यह' का तादात्म्याध्यास दिखलाया है । 'ममेदम्' अर्थात् 'यह मेरा शरीर है' इसमें 'यह' और 'मेरा' का संसर्गाध्यास

रत्नप्रभा

संसर्गाध्यासः । ननु देहात्मनोस्तादात्म्यमेव संसर्ग इति तयोः को भेद इति चेत्, सत्यम् । सत्त्वैक्ये सति मिथो भेदस्तादात्म्यम् । तत्र “मनुष्योऽहम्” इति ऐक्यांश-भानम्, “ममेदम्” इति भेदांशरूपसंसर्गभानमिति भेदः । एवं सामग्रीसत्त्वात् अनुभवसत्त्वात् अध्यासोऽस्ति इत्यतो ब्रह्मात्मैक्ये विरोधाभावेन विषयप्रयोजनयोः सत्त्वात् शास्त्रम् आरम्भणीयमिति सिद्धान्तभाष्यतात्पर्यम् ।

एवं च सूत्रेण अर्थात् सूचिते विषयप्रयोजने प्रतिपाद्य तद्हेतुमध्यासं लक्षण-सम्भावनाप्रमाणैः साधयितुं लक्षणं पृच्छति—आहेति । किंलक्षणकोऽध्यास

रत्नप्रभाका अनुवाद

दिखलया है । कोई शंका करे कि देह और आत्माका जब तादात्म्य ही संसर्ग है, तब तादात्म्य और संसर्गमें भेद क्या है ? इस शंकाका निवारण इस प्रकार है—गत्ताके एक होने पर दो वस्तुओंका परस्पर भेद तादात्म्य है । ‘मैं मनुष्य हूँ’ इसमें ‘मैं’ (आत्मा) और ‘मनुष्य’ में ऐक्यरूप अंशका ही भान होता है, यह तादात्म्याध्यास कहलाता है । ‘यह मेरा’ इसमें ‘यह’ और ‘मेरा’ में भेदांशरूप संसर्गका भान होता है, इसलिए यह संसर्गाध्यास कहलाता है । इस प्रकार अध्यासकी सामग्री और अनुभव होनेसे अध्यास है, अर्थात् ब्रह्म और जीवात्माके ऐक्य-में विरोध न होनेसे शास्त्रके विषय और प्रयोजन बनते हैं । इसलिए शास्त्र आरम्भणीय है, यह सिद्धान्तभाष्यका तात्पर्य है ।

इस प्रकार सूत्रसे अर्थतः सूचित विषय और प्रयोजनका प्रतिपादन करके उसके हेतु अध्यास को लक्षण, सम्भावना और प्रमाणसे सिद्ध करनेके लिए लक्षण पूछता है—“आह” इत्यादि ग्रन्थसे । पूर्वपक्षी कहता है कि अध्यासका लक्षण क्या है ? इस शास्त्रमें तत्त्वका निर्णय

(१) जिसका लक्षण कहा जाता है, वह लक्ष्य है । जो धर्म लक्ष्यमें नियमन रहता है और अलक्ष्यमें नहीं रहता, वह लक्षण है अर्थात् लक्ष्यमात्रमें जो धर्म देखनेमें आवे, वह लक्षण है । ‘साक्षादिनत्वम्’ (साक्षा आदि होना [गायके गलेकी चमड़ीका नाम साक्षा है]) यह गायका लक्षण है, क्योंकि लक्ष्यमात्रमें यह धर्म है । लक्षणके तीन दोष होते हैं । अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असम्भव । लक्ष्यके एक देशमें जो धर्म देखनेमें न आता हो, यदि उसे लक्षण मानें तो वह अव्याप्ति दोषसे दूषित होता है । जैसे—‘कपिलत्वम्’ (कपिलवर्ण) यह लक्षण सब गायोंमें देखनेमें नहाने आता, हमसे हम लक्षणमें अव्याप्ति दोष है—जो धर्म लक्ष्य तथा अलक्ष्य दोनोंमें देखनेमें आवे, वह धर्मरूप लक्षण अतिव्याप्ति दोषयुक्त है । जैसे ‘शृङ्गित्वम्’ (सींग होना) इस गायके लक्षणमें अतिव्याप्ति दोष है, क्योंकि यह धर्म लक्ष्यमात्र गायमें नहीं है, किन्तु अलक्ष्य भैस आदिमें भी है । जो धर्म लक्ष्यके किन्हीं भी देशमें न हो, यदि उसे लक्षणका रूप दें तो वह असम्भवदोषसे युक्त होता है, जैसे कि ‘एकशफत्वम्’ (एक सुर होना) इस गायके लक्षणमें असम्भव दोष है, क्योंकि कोई भी गाय एक सुरवाली देखनेमें नहीं आती । इन तीनों दोषोंसे रहित असाधारण धर्म लक्षण है ।

भाष्य

नामेति । उच्यते—स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः । तं केचिदन्यत्रान्य-

भाष्यका अनुवाद

कि 'यह अध्यास क्या है ?' इसपर कहते हैं—स्मृतिरूप पूर्व दृष्टका दूसरेमें जो अवभास, वह अध्यास है । कोई लोग अन्यमें अन्य-धर्मके आरोपको अध्यास

रत्नप्रभा

इत्याह—पूर्ववादीत्यर्थः । अस्य शास्त्रस्य तत्त्वनिर्णयप्रधानत्वेन वादकथात्वद्योतनार्थम् आह इति परोक्तिः । “आह” इत्यादि “कथं पुनः प्रत्यगात्मनि” इत्यतः प्राग् अध्यास-लक्षणपरं भाष्यम्, तदारभ्य सम्भावनापरम्, “तमेतमविद्याख्यम्” इत्यारभ्य “सर्व-लोकप्रत्यक्षः” इत्यन्तं प्रमाणपरमिति विभागः । लक्षणगाह—उच्यते स्मृतिरूप इति । अध्यास इत्यनुपङ्गः । अत्र परत्र अवभास इत्येव लक्षणम्, शिष्टं पदद्वयं तदुपपादनार्थम् । तथाहि—अवभास्यते इति अवभासो रजताद्यर्थः, तस्य अयो-ग्यमधिकरणं परत्रपदार्थः । अधिकरणस्य अयोग्यत्वम् आरोप्यात्यन्ताभावत्वम् तद्वत्त्वं

रत्नप्रभाका अनुवाद

करना ही प्रधान है, इसलिए 'आह' इस प्रकार अन्यके कथनसे वादकथा सूचित की गई है, क्योंकि वादकथा निर्णय करनेका साधन है । 'आह' यहाँसे लेकर 'कथं पुनः प्रत्यगात्मनि' इससे पहले तकका भाष्य अध्यासलक्षणपरक है । 'कथं पुनः' यहाँसे आरम्भ करके 'तमेतम्' से पहले तकके भाष्यमें अध्यासकी सम्भावना है । 'तमेतम्' से आरम्भ कर 'सर्वलोकप्रत्यक्षः' यहाँ तकके भाष्यमें अध्यासका प्रमाण दिया है । “उच्यते, स्मृतिरूप.” इत्यादि वाक्यसे अध्यासका लक्षण कहते हैं । 'यह अध्यास है' इस प्रकार पूर्वपठित अध्यास पद की यहाँ पर अनुश्रुति की जाती है । इस वाक्यमें 'परत्रावभासः' (दूसरेमें अवभास होना) इतना ही लक्षण समझना चाहिए । शेष 'स्मृतिरूप' और 'पूर्वदृष्ट' ये दोनों पद लक्षणके उपपादक—साधक हैं । जो अवभासित होता है, वह अवभास है, अर्थात् चाँदी आदि पदार्थ । 'परत्र' पदमें सप्तमी विभक्ति अधिकरणकी वाचक है । सौपमें चाँदीका अवभास हो तो अयोग्य स्थलमें अवभास हुआ कहल्यता है, क्योंकि चाँदीके अवभासका योग्य स्थल चाँदी है, सौप नहीं । अयोग्य स्थल वह है, जिसमें आरोप्यका अत्यन्ताभाव हो, अर्थात्

(१) 'तत्त्वनिर्णयफलः कथाविशेषो वादः' जिससे तत्त्वका निर्णय हो, दो वक्ताओं द्वारा कहा गया पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षका प्रतिपादक वाक्य-समूह वादकथा है । (२) जिसका आरोप किया जाता है, सौपमें चाँदीका आरोप करें तो चाँदी आरोप्य होगी । (३) किसी स्थल पर कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा अनुभवसिद्ध निल सप्तर्गाभाव । जैसे 'भूतलमें घट नहीं है' ऐसा कहें तो भूतलमें घटका अभाव अत्यन्ताभाव है ।

रत्नप्रभा

वा ? तथा च एकावच्छेदेन स्वसंसृज्यमाने स्वात्यन्ताभाववति अवभास्यत्वमध्यस्त-
त्वमित्यर्थः । इदं च साधनाद्यध्याससाधारणं लक्षणम् । संयोगेऽतिव्याप्तिनिरासाय
एकावच्छेदेनेति । संयोगस्य स्वसंसृज्यमाने वृक्षे स्वात्यन्ताभाववति अवभास्यत्वेऽपि
स्वस्वात्यन्ताभावयोर्मूलाग्रावच्छेदकमेदात् नातिव्याप्तिः । पूर्वं स्वाभाववति भूतले
पश्चादानीतो घटो भातीति घटेऽतिव्याप्तिनिरासाय स्वसंसृज्यमाने इति पदम् । तेन
स्वाभावकाले प्रतियोगिसंसर्गस्य विद्यमानता उच्यते इति नातिव्याप्तिः । भूत्वावच्छे-
देन अवभास्यगन्धे अतिव्याप्तिवारणाय स्वात्यन्ताभाववतीति पदम् । शुभवतौ
इदन्त्वावच्छेदेन रजतसंसर्गकाले अत्यन्ताभावोऽस्ति इति न अव्याप्तिः । ननु अस्य
लक्षणस्य असम्भवः, शुक्तौ रजतस्य सामान्यभावेन संसर्गासत्त्वात् । न च स्मर्य-

रत्नप्रभाका अनुवाद

एक ही अवच्छेदसे एक ही कालमें जिसमें जिसके संसर्गका अवभास मालूम पड़े, किन्तु रहे
अत्यन्ताभाव, उस अधिकरणमें अवभासित होनेवाला वह पदार्थ अध्यास कहलाता है । सीपमें
इदन्ताके अवच्छेदसे एक ही कालमें रजतके संसर्गका अवभास होता है और उसका अत्यन्ता-
भाव भी है । इस प्रकार लक्ष्यमें लक्षणका समन्वय होता है । यह सादि एवं अनादि
अध्यासका साधारण लक्षण है । 'एकावच्छेदेन' यह पद संयोगमें लक्षणकी अतिव्याप्ति दूर
करनेके लिए जोड़ा गया है । यदि वृक्षकी शाखा पर बन्दर बैठा हो तो एक ही कालमें वृक्षमें
बन्दरके संयोगके संसर्गका अवभास होता है और अत्यन्ताभाव भी है । क्योंकि वृक्षके
अग्र भागसे बन्दरका संयोग है, एवं जिस समय इस संसर्गका अवभास होता है उस समय
वृक्षके मूलमें बन्दरके संयोगका अत्यन्ताभाव भी है । इस प्रकार अतिव्याप्ति दोष आता है ।
'एकावच्छेदेन' पद देनेसे अतिव्याप्ति नहीं होती है; क्योंकि भिन्न अवयवमें संसर्गका
अवभास होता है और भिन्न अवयवमें अत्यन्ताभाव है । अर्थात् मूल भागमें वृक्षसे बन्दरका
संयोग नहीं है और अग्र भागमें वृक्षसे बन्दरका संसर्ग है, इसलिए अवच्छेदके भेदसे
संयोगमें अतिव्याप्ति नहीं है । प्रथमतः घटाभावयुक्त भूतलमें पीछेसे लाये गए घटका भान होता
है, इसलिए घटमें अतिव्याप्ति हो जायगी, उसके वारणके लिए अध्यासके लक्षणमें 'स्वसंसृज्यमाने'
पद दिया है । इससे एक कालमें अभाव, और जिसका अभाव हो उसका संसर्ग दोनों अपेक्षित
हैं ऐसा कहा गया है । पृथिवीमें अवभासित होनेवाले गन्धमें अतिव्याप्ति हटानेके लिए
'स्वात्यन्ताभाववति' पद दिया है । अन्यथा गगनाभावयुक्त भूमिमें गन्ध भासता है, अतः गन्ध
मित्या हो जायगा । अत्यन्ताभावमें 'स्व' विशेषण देने पर स्व (गन्ध) का अत्यन्ताभाव
भूमिमें नहीं है, इससे गन्धमें अतिव्याप्ति नहीं होती है । शुक्तिमें इदन्त्वके अवच्छेदसे एक
कालमें रजतके संसर्गका अवभास एवं रजतका अत्यन्ताभाव दोनों रहते हैं, इसलिए लक्षणमें
अव्याप्तिरूप दोष नहीं है । यदि कोई कहे कि अध्यासका लक्षण तो बना, परन्तु उसमें
असम्भव दोष है, क्योंकि सीपमें चाँदीकी सामग्री ही नहीं है तो रजतसंसर्ग कहाँसे आवे ?

रत्नप्रभा

माणसत्यरजतस्यैव परत्र शुक्तौ अवभास्यत्वेन अध्यस्तत्वोक्तिरिति वाच्यम्, अन्यथाख्यातिप्रसङ्गात् इत्यत आह—स्मृतिरूप इति । स्मर्यते इति स्मृतिः—सत्यरजतादिः, तस्य रूपमिव रूपमस्य इति स्मृतिरूपः—स्मर्यमाणसदृश इत्यर्थः । सादृश्योक्त्या स्मर्यमाणात् आरोप्यस्य भेदाद्, न अन्यथाख्यातिरित्युक्तं भवति । सादृश्यमुपपादयति—पूर्वदृष्टेति । दृष्टं दर्शनम् । संस्कारद्वारा पूर्वदर्शनात् अवभास्यते इति पूर्वदृष्टावभासः । तेन संस्कारजन्यज्ञानविषयत्वं स्मर्यमाणारोप्ययोः सादृश्यमुक्तं भवति, स्मृत्यारोपयोः संस्कारजन्यत्वात् । न च संस्कारजन्यत्वात् आरोपस्य स्मृतिरूपत्वोक्तिरिति वाच्यम् । दोषसंप्रयोगजन्यत्वस्यापि विवक्षितत्वेन संस्कारमात्रजन्यत्वाभावात् । अत्र सम्प्रयोगशब्देन अधिष्ठानसामान्यज्ञानमुच्यते, अहङ्काराध्यासे इन्द्रियसम्प्रयोगालाभात् । एवं च दोषसंप्रयोगसंस्कारबलात् शुक्त्यादौ रजतशुत्पन्नमस्तीति परत्र अवभास्यत्वलक्षणमुपपन्नमिति स्मृतिरूपपूर्वदृष्टपदाभ्यामुप-

रत्नप्रभाका अनुवाद

स्मर्यमाण सत्य रजतका ही शुक्तिमें अवभास होता है, इसलिए यह अध्यस्त कहलता है, ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि ऐसा माननेसे अन्यथाख्यातिकी स्वीकृति हो जायगी । तस्मात् शुक्तिमें रजतकी सामग्री न होनेसे रजतका संसर्ग कैसे होगा? इस शङ्काके निवारण एवं लक्षणकी उपपत्तिके लिए “स्मृतिरूप” पद दिया है । जिसका स्मरण किया जाता है, वह स्मृति है—सत्य रजत आदि । उसके रूपके समान रूपवाला स्मृतिरूप अर्थात् स्मर्यमाण सदृश कहा जाता है । ‘सादृश्य’ कथन द्वारा स्मर्यमाणसे आरोप्यका भेद बतलाया है, अतः अन्यथाख्याति-स्वीकार रूप दोष नहीं है । सादृश्यकी बतलनेके लिए “पूर्वदृष्ट” पद दिया है । दृष्ट-दर्शन । अध्यास संस्कारके द्वारा पूर्वदर्शनसे भासता है, अतः पूर्वदृष्टावभास कहलता है । स्मर्यमाण और आरोप्य दोनों संस्कारजन्य ज्ञानके विषय हैं, यह उनका सादृश्य है, क्योंकि स्मृति और आरोप दोनों संस्कारजन्य हैं । यदि कोई शङ्का करे कि संस्कारजन्य ज्ञान स्मृति है और आरोप भी संस्कारजन्य ज्ञानही है, तो आरोपकी भी स्मृति संज्ञा क्यों नहीं है? इसका समाधान इस प्रकार है—स्मृति केवल संस्कारजन्य है और आरोप केवल संस्कारजन्य नहीं होता, किन्तु अविद्या आदि दोष, सम्प्रयोग और संस्कार तीनोंसे जन्य है, अतः आरोपकी स्मृति संज्ञा नहीं है । यहाँ पर ‘सम्प्रयोग’ शब्दसे अधिष्ठानका सामान्य ज्ञान कहा गया है, क्योंकि अहङ्काराध्यासमें इन्द्रिय-संसर्ग नहीं होता है । इस शब्दसे गिद्ध हो गया कि आरोप्य स्मर्यमाणके सदृश है, किन्तु उगमों अभिन्न नहीं है । इतने प्रकार दोष, सम्प्रयोग और संस्कारके बलसे रजतसे चाँदीकी उत्पत्ति होती है, इसलिए दूसरे

(१) ‘संस्कारजन्य ज्ञान स्मृतिः’ पदार्थका प्रथम प्रलम्ब होनेसे मनमें जो टाप पड़ती है, उसे संस्कार कहते हैं । सम्भार मनमें रहता है और किन्ती धारणसे जब जाग्रत होता है, तब उत्तमो उत्पन्न हुआ ज्ञान स्मृति कहलाता है । इस प्रकार प्रत्यक्ष संस्कार द्वारा स्मृतिको उत्पन्न करता है, इगण्डि प्रत्यक्ष ज्ञान कारण, सम्भार व्यापार और स्मृति फल है ।

रत्नप्रभा

पादितम् । अन्ये तु “ताभ्यां दोषादित्रयजन्यत्वं कार्याध्यासलक्षणमुक्तम्” इति आहुः । अपरे तु—“स्मृतिरूपः स्मर्यमाणसदृशः, सादृश्यं च प्रमाणाजन्य-ज्ञानविषयत्वम्, स्मृत्यारोपयोः प्रमाणाजन्यत्वात् पूर्वदृष्टपदं तज्जातीयपरम्, अभि-नवरजतादेः पूर्वदृष्टत्वाभावात् । तथा च प्रमाणाजन्यज्ञानविषयत्वे सति पूर्वदृष्ट-जातीयत्वं प्रातीतिकार्याध्यासलक्षणं ताभ्यामुक्तम् । परत्रावभासशब्दाभ्यामध्यासमात्र-लक्षणं व्याख्यातमेव । तत्र स्मर्यमाणगङ्गादौ अभिनवघटे च अतिव्याप्तिनिरासाय प्रमाणेत्यादि पदद्वयम्” इति आहुः । तत्र अर्थाध्यासे स्मर्यमाणसदृशः परत्र पूर्वदर्शनात् अवभास्यते इति योजना । ज्ञानाध्यासे तु स्मृतिसदृशः परत्र पूर्व-दर्शनात् अवभास इति वाक्यं योजनीयमिति संक्षेपः ।

ननु अध्यासे वादिविप्रतिपत्तेः कथमुक्तलक्षणसिद्धिः इत्याशङ्क्य अधिष्ठानारोप्य-स्वरूपविवादेऽपि “परत्र परावभासः” इति लक्षणे संवादाद्युक्तिभिः सत्याधिष्ठाने मिथ्यार्थावभाससिद्धेः सर्वतन्त्रसिद्धान्ते इदं लक्षणमिति मत्वा अन्यथात्मख्यातिवा-

रत्नप्रभाका अनुवाद

पदार्थमें अवभास होना यह अध्यासका लक्षण उत्पन्न होता है, यह बात स्मृतिरूप और पूर्वदृष्ट पदोंसे कही गई है । दूसरे व्याख्यानकार कहते हैं कि दोष, सम्प्रयोग और संस्कारसे उत्पन्न होना कार्याध्यासका लक्षण है, यह उन पदोंसे धोतित होता है । और लोग कहते हैं—स्मृतिरूप अर्थात् स्मर्यमाणसदृश । प्रमाणसे उत्पन्न न होनेवाले ज्ञानका विषय होना सादृश्य है, क्योंकि स्मृति और आरोप दोनों प्रमाणसे उत्पन्न नहीं होते । ‘पूर्वदृष्ट’ पद पूर्व-दृष्ट जातीय का बोधक है, क्योंकि नूतन उत्पन्न होनेवाले अनिर्वचनीय रजत आदि पूर्वदृष्ट नहीं हैं, अर्थात् स्मृतिरूप और पूर्वदृष्ट इन दो पदों द्वारा प्रमाणसे उत्पन्न न होनेवाले ज्ञानका विषय होकर पूर्वदृष्ट सजातीय होना यह प्रतीतिसिद्ध (शुक्तिरजत-रज्जुसर्प स्थलीय) अध्यासका लक्षण कहा गया है । परत्र और अवभास इन दो पदोंसे अध्यासमात्रका लक्षण कहा गया है । स्मर्यमाण गङ्गामें अतिव्याप्तिके कारणके लिए पूर्वदृष्टजातीय पद दिया है और नूतन घटमें अतिव्याप्ति-कारण करनेके लिए ‘प्रमाण’ इत्यादि पद जोड़ा गया है । अर्थाध्यासमें, स्मर्यमाणसदृश अन्य पदार्थ-में पूर्वदर्शनसे अवभासित होता है, ऐसी योजना करनी चाहिये । ज्ञानाध्यासमें तो स्मृति-सदृशका अन्य पदार्थमें पूर्वदर्शनसे अवभास होता है, ऐसी योजना करनी चाहिये ।

अध्यासके लक्षणमें भिन्न भिन्न वादियोंके भिन्न भिन्न मत हैं, तो यह लक्षण कैसे सिद्ध होगा ? ऐसा सोचकर भाष्यकार कहते हैं कि—अधिष्ठान और आरोप्यके स्वरूपमें विवाद (मत-भेद) होनेपर भी ‘अन्यमें अन्यका अवभास, इस लक्षणमें सप वादियोंका एक मत है । सत्य अधिष्ठानमें मिथ्या वस्तुका अवभास कैसे होता है ? इस सम्बन्धमें भिन्न-भिन्न वादा भिन्न-भिन्न युक्तियां दिरालते हैं । सब शास्त्रोंके सिद्धान्तमें ‘अन्यमें अन्यका अवभासही अध्यासका

भाष्य

धर्माध्यास इति वदन्ति । केचित्तु यत्र यदध्यासस्तद्विवेकाग्रहनिबन्धनो भ्रम

भाष्यका अनुवाद

कहते हैं । कुछ लोग कहते हैं—'जिसमें जिसका अध्यास है उसका भेद न

रत्नप्रभा

दिनोर्मतमाह—तं केचिदिति । केचित्—अन्यथाख्यातिवादिनोऽन्यत्र—शुक्त्यादौ
अन्यधर्मस्य—स्वावयवधर्मस्य देशान्तरस्थरूप्यादेः अध्यास इति वदन्ति । आत्म-
ख्यातिवादिनस्तु बाह्यशुक्त्यादौ बुद्धिरूपात्मनो धर्मस्य रजतस्य अध्यासः, आन्तरस्य
रजतस्य बहिर्वत् अवभास इति वदन्ति इत्यर्थः । अख्यातिमतमाह—केचिदिति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

लक्षण है ऐसा विचारकर अन्यथाख्यातिवादी और आत्मख्यातिवादीका मत "तं केचित्"
वाक्यसे कहते हैं । 'केचित्' अन्यथाख्यातिवादी (तार्किकों) का यह मत है कि 'अन्यमें'
अर्थात् सीप आदिमें 'अन्यके धर्मका'—स्वावयव धर्मका—देशान्तरस्थ चाँदी आदिका अध्यास
होता है । आत्मख्यातिवादी बौद्ध कहते हैं कि 'अन्यमें' अर्थात् बाह्य सीप आदिमें 'अन्यके
धर्मका' अर्थात् बुद्धिरूपी आत्माके धर्म चाँदी आदिका अध्यास होता है । अर्थात् आन्तर
चाँदीका बाह्य पदार्थके समान अवभास होता है । "केचित्" इत्यादि कहकर भाष्यकार अख्यातिवादी

(१) "आत्मख्यातिरसत्ख्यातिरख्यातिः ख्यातिरन्यथा ।

तथाऽनिर्वचनीयख्यातिरेतत्ख्यातिपञ्चकम् ॥"

आत्मख्याति, असत्ख्याति, अख्याति, अन्यथाख्याति और अनिर्वचनीयख्याति ये पांच
ख्यातियाँ हैं । ख्याति (भ्रम ज्ञान) में पांच प्राचीन मतभेद हैं । आत्मख्यातिवादी (क्षणिक-
विज्ञानवादी बौद्ध) के मतमें बुद्धि (विज्ञान) के सिवा दूसरा पदार्थ है ही नहीं, रजत आदि
बुद्धिरूप ही हैं । जेय, ज्ञाता और ज्ञानका जो पृथक् पृथक् अवभास होता है, यह भ्रम
है । अनादि वासनाओंके बलमें बुद्धि ही अनेक प्रकारोंसे भासती है ।
असत्ख्यातिवादी (न्यूनवादी बौद्ध) ऐसा मानते हैं कि 'इदं रजतम्' यह ज्ञान स्मृति और
अनुभवसे भिन्न है । यह अध्यास नामक ज्ञान है । इसमें असत् रजत आदिका भान होता है ।
अख्यातिवादी (मीमांसक) का मत है कि 'इदं रजतम्' इत्यादि स्वर्णमें रजतसे चक्षु आदिका
सन्निकर्ष न होनेसे रजतका स्पर्श होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता, इदमशका प्रत्यक्ष होता है । बुद्धि
और विषयोंमें भेदाग्रहसे व्यवहार होता है । अन्यथाख्यातिवादी (नैयायिकों) का मत है कि
देशान्तरगत और कालान्तरगत रजतका शुक्तिसे सयुक्त दोषयुक्त इन्द्रिय द्वारा ज्ञानलक्षणा प्रत्या-
सत्तिसे ग्रहण होता है । अनिर्वचनीयख्यातिवादी (वेदान्तियों) का मत है कि पुरोवर्ती पदार्थमें
रजतत्व सत् है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यह बाधित होता है । इसी प्रकार रजतत्व असत्
है, यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष भासता है । इस प्रकार रजतत्व, सत् और असत्से
विलक्षण होनेमें, अनिर्वचनीय कहलाता है । इन ख्यातियोंमें बहुत मतभेद है, यहाँ दिग्दर्शनमात्र
कराया है ।

भाष्य

इति । अन्ये तु यत्र यदध्यासस्तस्यैव विपरीतधर्मत्वकल्पनामाचक्षते इति । सर्वथापि त्वन्यस्यान्यधर्मावभासतां न व्यभिचरति । तथा च लोकेऽनुभवः

भाष्यका अनुवाद

समझनेसे होनेवाला भ्रम, अध्यास है । दूसरे लोग 'जिसमें जिसका अध्यास है, उसमें विरुद्ध धर्मवालेके भावकी कल्पना को अध्यास कहते हैं । परन्तु किसी भी मत में 'दूसरेमें दूसरेके धर्मकी प्रतीति होना' इस लक्षणका व्यभिचार नहीं होता । इसी प्रकार लोकव्यवहारमें भी ऐसा अनुभव है कि श्रुक्ति ही

रत्नप्रभा

यत्र यस्य अध्यासो लोकसिद्धस्तयोरर्थयोः, तद्धियोश्च भेदाग्रहे सति तन्मूलो भ्रमः, इदं रूप्यमिति विशिष्टव्यवहार इति वदन्ति इत्यर्थः । तैरपि विशिष्टव्यवहारान्यथानुपपत्त्या विशिष्टभ्रान्तेः स्वीकार्यत्वात् परत्र परावभाससम्भितिरिति भावः । शून्यमतमाह—अन्ये त्विति । तस्यैव अधिष्ठानस्य—श्रुक्त्यादेः विपरीतधर्मत्वकल्पनां विपरीतो विरुद्धो धर्मो यस्य तद्भावः तस्य रजतादेः अत्यन्तासतः कल्पनामाचक्षते इत्यर्थः । एतेषु मतेषु परत्र परावभासत्वलक्षणसंवादमाह—सर्वथापि तु इति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

मीमांसकका मत दिखलते हैं । उनका तात्पर्य यह है कि जिसमें अर्थात् सीप आदिमें जिसका अध्यास अर्थात् चाँदी आदिका अध्यास लोक-प्रसिद्ध है, उनका और उनकी बुद्धियोंका भेद न समझनेसे होनेवाला भ्रम, अर्थात् यह चाँदी है ऐसा विशिष्ट व्यवहार होता है । विशिष्ट व्यवहार उत्पन्न करनेके लिए उन्हें भी विशिष्ट भ्रान्ति माननी ही पड़ती है अर्थात् 'अन्यमें अन्यका अवभास' इस अध्यासके लक्षणमें उनकी भी सम्मति ही है । "अन्ये तु" इत्यादिसे दूसरे अर्थात् शून्यवादीका मत दिखलते हैं । उनका अभिप्राय यह है कि 'जिसमें' अर्थात् सीप आदिमें 'जिसका' अर्थात् चाँदी आदिका अध्यास है, उसमें अर्थात् सीप आदिमें विपरीतधर्मत्व विपरीत—अत्यन्त असत् धर्म—रजत आदि जिस श्रुक्ति आदिका है वह श्रुक्ति आदि विपरीतधर्मक है, उसके भाव—धर्म (असत् चाँदी आदि) की जो कल्पना वह अध्यास है । इस प्रकार इन मतोंमें 'अन्यमें अन्यका अवभास' इस लक्षणका संवाद अर्थात् एकमत्य है ।

(१) बौद्धोंमें चार भेद हैं : माध्यमिक (सर्वशून्यत्ववादी), योगाचार (बाह्यशून्यत्ववादी), सौत्रान्तिक (बाह्यार्थानुमेयत्ववादी) और वैभाषिक (बाह्यार्थप्रत्यक्षवाद) । माध्यमिकके मतानुसार भोतर और बाहरके सब पदार्थ शून्य हैं । योगाचारके मतमें बाह्य अर्थ शून्य है, आन्तर विज्ञान सत्य है, बाह्य पदार्थ ज्ञानस्वरूप है । ये क्षणिक विज्ञानवादी कहलाते हैं । सौत्रान्तिकके मतमें बाह्य पदार्थ है, परन्तु प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमानगम्य है । वैभाषिकके मतमें बाह्य अर्थ है और वह प्रत्यक्ष है । सौत्रान्तिक और वैभाषिक दोनों बाह्य और आन्तर पदार्थ मानते हैं, इनलिए सर्वास्तित्ववादी कहलाते हैं ।

भाष्य

शुक्तिका हि रजतवदवभासते, एकश्चन्द्रः सद्वितीयवदिति । कथं पुनः प्रत्यगात्मन्यविषयेऽध्यासो विषयतद्दर्माणाम् ? सर्वो हि पुरोऽवस्थिते भाष्यका अनुवाद

रजतके समान अवभासित होती है, एकही चन्द्रमा दो चन्द्रमाओंके समान भास्वम पड़ता है ।

शङ्का—अविषय प्रत्यगात्मामें विषय और विषयके धर्मका अध्यास कैसे हो ? सब लोग पुरोवर्ती विषयमें अन्य विषयका अध्यास करते हैं । 'तुम' ऐसे

रत्नप्रभा

अन्यथाख्यातित्वादिप्रकारविवादेऽपि अध्यासः परत्र परावभासत्वलक्षणं न जहाति इत्यर्थः । शुक्तौ अपरोक्षस्य रजतस्य देशान्तरे बुद्धौ वा सत्त्वायोगात्, शून्यत्वे प्रत्यक्षत्वायोगात्, शुक्तौ सत्त्वे बाधयोगात् मिथ्यात्वमेवेति भावः । आरोप्यमिथ्यात्वे न युक्त्यपेक्षा, तस्य अनुभवसिद्धत्वात् इत्याह—तथा चेति । बाधानन्तर-कालीनोऽयमनुभवः, तत्पूर्वं शुक्तिकात्वज्ञानायोगाद् रजतस्य बाधप्रत्यक्षसिद्धं मिथ्यात्वं वच्छब्देन उच्यते । आत्मनि निरुपाधिके अहङ्काराध्यासे दृष्टान्तमुक्त्वा ब्रह्मजीवावान्तरभेदस्य अविद्याद्युपाधिकस्य अध्यासे दृष्टान्तमाह—एक इति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

इसी बातको "सर्वथापि तु" इस वाक्यसे दिखलते हैं । यद्यपि सभी पक्षोंमें अधिष्ठान और आरोप्यका किस प्रकार अवभास होता है, इस सम्बन्धमें विवाद है, तो भी पुरोवर्ती सीप आदि चाँदीके रूपमें अवभासित होती है, यह जो अध्यासका लक्षण है, उसका व्यभिचार नहीं होता है । शुक्ति में प्रत्यक्ष दिखलाई देनेवाला रजत देशान्तरमें अथवा बुद्धिमें नहीं रह सकता । यदि उसे शून्य माने, तो उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा । यदि वह शुक्तिमें ही है कहें, तो उसका बाध नहीं होगा । इसलिए वह मिथ्या ही है । आरोप्य मिथ्या है, इस विषयमें शुक्तिकी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वह अनुभवसिद्ध है । इस बातको "तथा च" इस वाक्यसे दिखलते हैं । अध्यास का बाध होते ही 'सीप चाँदीके समान भासती थी, यह अनुभव तुरन्त ही उत्पन्न होता है । बाध होनेसे पहले, अध्यासके समयमें, सीपका सीपरूपसे ज्ञान नहीं हो सकता । इस प्रकार अध्यासके बाधरूप प्रत्यक्षज्ञानसे चाँदी मिथ्या सिद्ध होती है, यह बात चाँदीके समान, सद्वितीय चन्द्रके समान इन वाक्योंमें 'समान' पदके प्रयोगसे समझमें आती है । उपाधि-रहित आत्मामें अहङ्कारके अध्यासका दृष्टान्त दिखलकर अविद्या आदि उपाधियोंसे होनेवाले

(१) मूल 'अवभासते' इस प्रयोगमें भूतकालमें लट् है ।

(२) चाँदीके समान है, चाँदी नहीं है, इस पद्यनसे मिथ्या (अनिर्वचनीय) है, यह स्पष्ट भासता है ।

भाष्य

विषये विषयान्तरमध्यस्यति, युष्मत्प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनोऽविषयत्वं

भाष्यका अनुवाद

प्रत्ययके अयोग्य प्रत्यगात्मा अविषय है, ऐसा तुम कहते हो ।

रत्नप्रभा

चन्द्रसहितवदेक एव अङ्गुल्या द्विधा भाति इत्यर्थः । लक्षणप्रकरणोपसंहारार्थः 'इति' शब्दः ।

भवत्वध्यासः शुक्त्यादौ, आत्मनि तु न सम्भवति इति आक्षिपति—कथं पुनरिति । यत्र अपरोक्षाध्यासाधिष्ठानत्वं तत्र इन्द्रियसंयुक्तत्वं विषयत्वं च इति व्याप्तिः शुक्त्यादौ दृष्टा, तत्र व्यापकाभावाद् आत्मनोऽधिष्ठानत्वं न सम्भवति इति अभिप्रेत्य 'आह—प्रत्यगात्मनीति । प्रतीचि पूर्णे इन्द्रियाग्राह्ये विषयस्य अहंकारादेः तद्धर्माणां च अध्यासः कथमित्यर्थः । उक्तव्याप्तिमाह—सर्वो हीति । पुरोऽवस्थितत्वम्—इन्द्रियसंयुक्तत्वम् । ननु आत्मनोऽपि अधिष्ठानत्वार्थं विषयत्वादिकमस्तु इत्यत आह—युष्मदिति । इदंप्रत्ययानर्हस्य प्रत्यगात्मनो "न चक्षुषा गृह्यते" (मु० ३।१।८) इत्यादिश्रुतिमनुसृत्य त्वमविषयत्वं ब्रवीषि । सम्प्रति अध्यासलोभेन विषयत्वाङ्गीकारे

रत्नप्रभाका अनुवाद

ब्रह्म और जीवके भेदके अध्यासका दृष्टान्त 'एकः' इस वाक्यसे कहते हैं । चन्द्र एक ही है तो भी आँखमें अङ्गुली लगानेसे दोकी तरह मालूम पड़ता है । भाष्यमें स्थित 'इति' शब्द अध्यासलक्षण-प्रकरणके उपसंहारका द्योतक है ।

अध्यासको दृढ़ करनेके लिए 'कथं पुनः' इत्यादिसे आक्षेप करते हुए फिर कहते हैं कि सीप आदिमें अध्यास भले ही हो, परन्तु आत्मामें अध्यासका सम्भव नहीं है । सीप आदि जो जो प्रत्यक्ष अध्यासके अधिष्ठान हैं, वे इन्द्रियसंयुक्त होते हैं और विषय भी हैं ऐसी व्याप्ति श्रुति आदिमें देखी गई है, अर्थात् जो जो प्रत्यक्ष अध्यासका अधिष्ठान है, वह इन्द्रियसंयुक्त है और विषय है । इस व्याप्तिज्ञानमें प्रत्यक्षाध्यासाधिष्ठानत्व व्याप्य है और इन्द्रिय-संयुक्तत्व और विषयत्व व्यापक हैं । आत्मामें व्यापकका अभाव है, आत्मा इन्द्रियसंयुक्त नहीं है और विषय भी नहीं, इसलिए वह अधिष्ठान नहीं हो सकता, ऐसा विचारकर कहते हैं— "प्रत्यगात्मनि" । आशय यह है कि इन्द्रिय द्वारा ग्रहण होनेके अयोग्य प्रत्यग् आत्मामें अहङ्कार आदि विषय और उनके धर्मोंका अध्यास कैसे हो सकता है ? "सर्वो हि" आदि वाक्यसे पूर्वोक्त व्याप्तिको कहते हैं । पुरोवस्थित—इन्द्रियसंयुक्त । आत्मामें अधिष्ठान बनानेके लिए विषय मानेंगे, ऐसा यदि सिद्धान्ती कहे तो इस पर पूर्वपक्षी कहता है—"युष्मत्" इत्यादि । आत्मा 'इदम्' ऐसे ज्ञानका विषय नहीं है । 'न चक्षुषा गृह्यते' (चक्षु इन्द्रियसे आत्मामें ग्रहण नहीं होता) इस और ऐसे अन्य श्रुति-वाक्योंके अनुसार तुम ऐसा कहते हो कि आत्मा अविषय है और अब

भाष्य

ब्रवीषि । उच्यते—न तावदयमेकान्तेनाविषयः, अस्मत्प्रत्ययविषय-
त्वात्, अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्मप्रसिद्धेः । न चायमस्ति नियमः पुरोवस्थित

भाष्यका अनुवाद

समाधान—सुनो, पहले तो यह आत्मा अत्यन्त अविषय नहीं है, क्योंकि वह
'हम' ऐसे प्रत्यय का विषय है और स्वप्रकाश है, क्योंकि प्रत्यगात्मा प्रसिद्ध है । और
पुरोवर्ती विषयमें ही दूसरे विषयका अध्यास हो, ऐसा कोई नियम भी नहीं है ।

रत्नप्रभा

श्रुतिसिद्धान्तयोः बाधः स्यादित्यर्थः । आत्मनि अध्याससम्भावनां प्रतिजानीते—
उच्यते इति । अधिष्ठानारोप्ययोः एकस्मिन् ज्ञाने भासमानत्वमात्रम् अध्यास-
व्यापकम्, तच्च भानप्रयुक्तसंशयनिवृत्त्यादिफलभाक्त्वम्, तदेव भानभिन्नत्वघटितं
विषयत्वम्, तत्र व्यापकम्, गौरवात् इति मत्वा आह—न तावदिति ।
अयमात्मा नियमेन अविषयो न भवति । तत्र हेतुमाह—अस्मदिति । अस्म-
त्प्रत्ययोऽहमिति अध्यासः तत्र भासमानत्वाद् इत्यर्थः । अस्मदर्थः चिदात्मा प्रति-
बिम्बितत्वेन यत्र प्रतीयते सोऽस्मत्प्रत्ययोऽहंकारः तत्र भासमानत्वात् इति वा
अर्थः । न च अध्यासे सति भासमानत्वम्, तस्मिन् सति स इति परस्पराश्रयः

रत्नप्रभाका अनुवाद

अध्यासके लोभसे यदि आत्माको विषय मानो, तो श्रुति-वाक्य और तुम्हारे सिद्धान्तका बाध
होगा । इस प्रकार अध्यासका आशेष करके “उच्यते” ऐसा कहकर आत्मामें अध्यासकी
सम्भावनाकी प्रतिज्ञा करते हैं । अधिष्ठान तथा आरोपका एक ज्ञानमें भासना इतना मात्र ही
अध्यासका व्यापक (प्रयोजक) है । वह भासना है—भानसे होनेवाले संशयनिवृत्ति आदि
फलका भाजन होना । भानभेदघटित भासमानता विषयता है, यह किसीका मत है; परन्तु
वह अध्यासका प्रयोजक नहीं है, क्योंकि उसमें गौरव है, ऐसा मानकर “न तावत्” कहते
हैं । यह आत्मा नियमसे अविषय नहीं है अर्थात् विषय होता ही न हो, ऐसा नियम नहीं
है । “अस्मत्” इस वाक्यसे उसका हेतु बतलते हैं । “मैं ऐसे प्रत्यय” अर्थात् ‘मैं’ ऐसे
अध्यासका आत्मा विषय है । आशय यह है कि—‘मैं’ प्रतीतिमें आत्मा भासित होता है ।
अथवा ‘मैं’ का अर्थ जो चिदात्मा है, उसकी प्रतिबिम्ब रूपसे जिसमें प्रतीति होती है,
उस अहङ्कारका आत्मा विषय है । अभिप्राय यह है कि अहङ्कारमें आत्मा भासमान होता है
इसलिए अविषय नहीं है । अहङ्कारमें आत्माका अध्यास होनेसे आत्मा भासमान होता है
और आत्माके भासमान होनेसे आध्यास होता है, यह अन्योऽन्याश्रय दोष है । इस शंकाका

(१) दोनों परस्पर अपेक्षा रखें, ऐसा अनिष्ट प्रसंग अन्योन्याश्रय है । आत्माके भासनको

रत्नप्रभा

इति वाच्यम्, अनादित्वात्; पूर्वाध्यासे भासमानात्मन उत्तराध्यासाधिष्ठानत्व-
सम्भवात् । ननु अहमिति अहंकारविषयकभानरूपस्य आत्मनो भासमानत्वं
कथम् ? तद्विषयत्वं विना तत्फलमाकत्वायोगात् इत्यत आह—अपरोक्षत्वात्
च इति । चशब्दः शङ्कानिरासार्थः । स्वप्रकाशत्वात् इत्यर्थः । स्वप्रकाशत्वं
साधयति—प्रत्यगिति । आचालपण्डितम् आत्मनः संशयादिशून्यत्वेन प्रसिद्धेः
स्वप्रकाशत्वम् इत्यर्थः । अतः स्वप्रकाशत्वेन भासमानत्वात् आत्मनोऽध्यासा-
धिष्ठानत्वं सम्भवति इति भावः । यदुक्तम् अपरोक्षाध्यासाधिष्ठानत्वस्य इन्द्रिय-
संयुक्ततया ग्राह्यत्वं व्यापकमिति तत्र आह—न चायम् इति । तत्र हेतु-
माह—अप्रत्यक्षेऽपि इति । इन्द्रियग्राह्ये अपि इत्यर्थः । बाला अविवेकिनः
तलम् इन्द्रिनीलकटाहकल्पं नभो मलिनं पीतमित्येवम् अपरोक्षमध्यस्यन्ति । तत्र
इन्द्रियग्राह्यत्वं नाऽस्ति इति व्यभिचारात् न व्याप्तिः । एतेन आत्मानात्मनोः

रत्नप्रभाका अनुवाद

निवारण इस प्रकार है—अध्यास अनादि है । पूर्व पूर्व अध्यासमें भासमान आत्मा उत्तरोत्तर
अध्यासका अधिष्ठान होता है, इसलिए अन्योन्याध्यास दोष नहीं आता । ‘अहम्’ इत्याकारक
अहंकारका भान ही आत्मा है, वह भानका विषय नहीं है और भानके विषयत्वके विना सशय-
निवृत्तिरूप फलमागी कैसे होगा ? इसके वारणके लिए कहते हैं—“अपरोक्षत्वात्” इत्यादि । ‘च’
शब्द शंकाका निवारण करनेके लिए है । आत्मा अपरोक्ष—स्वप्रकाश है ऐसा अर्थ है ।
आत्मामें स्वप्रकाशत्व सिद्ध करनेके लिए हेतु दिखाते हैं—“प्रत्यग्” इत्यादि । अभिप्राय यह है
कि बालकसे लेकर पंडित तक किसीको भी आत्मामें संशय नहीं होता, क्योंकि सबको वह
प्रसिद्ध है, इसलिए स्वप्रकाश है । आत्मा स्वप्रकाशत्वेन भासमान होता है, इसलिए वह
अध्यासका अधिष्ठान हो सकता है । ऊपर जो व्याप्ति बही थी—‘जहाँ प्रत्यक्ष अध्यासका
अधिष्ठानत्व है, वहाँ इन्द्रियके संयोगसे जन्य ज्ञानका विषयत्व है’ इस व्याप्तिके त्यागमें हेतु देते
हैं—“न चायम्” इत्यादिसे । ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुरोवर्ती इन्द्रियसंयुक्त विषयमें ही दूसरे
विषयका अध्यास करें । इस बातको सिद्ध करनेके लिए हेतु बताते हैं—“अप्रत्यक्ष”
इत्यादि । अर्थात् इन्द्रियोंसे जिसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ऐसे आकाशमें भी अविवेकी
पुरुष पृथिवी-तलच्छायाका अध्यास करते हैं अर्थात् इन्द्रनीलमणिदी कर्बाईके समान मलिन
है, धुएं जैसा है, पीला है, ऐसा प्रत्यक्ष अध्यास करते हैं । आनाशका इन्द्रियसे
ग्रहण नहीं किया जा सकता । इस प्रकार व्यभिचार होनेसे नियम सिद्ध नहीं होता, व्याप्ति
दूषित उधरती है । इसलिए आत्मा और अनात्मामें सादृश्य न होनेसे अध्यास नहीं होता,

अध्यासकी अपेक्षा रहती है और अध्यासको आत्माके भासनीकी अपेक्षा रहती है । इस प्रकार
परस्पर अपेक्षा रहनेसे अन्योन्याध्यास होता है ।

भाष्य

एव विषये विषयान्तरमध्यसितव्यमिति । अप्रत्यक्षेऽपि ह्याकाशे चाला-
स्तलमलिनताद्यध्यस्यन्ति । एवमविरुद्धः प्रत्यगात्मन्यप्यनात्माध्यासः ।
तमेतमेवंलक्षणमध्यासं पण्डिता अविद्येति मन्यन्ते । तद्विवेकेन च वस्तु-
स्वरूपावधारणं विद्यामाहुः । तत्रैवं सति यत्र यदध्यासस्तत्कृतेन दोषेण

भाष्यका अनुवाद

क्योंकि अप्रत्यक्ष आकाशमें भी अविद्येकी पुरुष तलमलिनता आदिका अध्यास करते
हैं । इस प्रकार प्रत्यगात्मामें अनात्माका अध्यास भी अविरुद्ध है । उक्त लक्षणवाले इस
अध्यासको पण्डित 'अविद्या' मानते हैं और इससे विवेक करके वस्तुस्वरूपके
'निर्धारण को 'विद्या' कहते हैं । ऐसा होनेपर जिसमें जिसका अध्यास है, उसके
गुण अथवा दोषके साथ अणुमात्र भी उसका संबन्ध नहीं होता । उक्त अविद्या

रत्नप्रभा-

सादृश्याभावात् न अध्यास इति अपास्तम् । नीलनभसोः तदभावे अपि अध्यास-
दर्शनात् । सिद्धान्ते आलोकाकारचाक्षुपवृत्त्यभिन्न्यक्तसाक्षिवेद्यत्वं नभसि इति ज्ञेयम् ।
सम्भावनां निगमयति—एवमिति । ननु ब्रह्मज्ञाननाशयत्वेन सूत्रितामविद्यां हित्वा
अध्यासः किमिति वर्ण्यते इत्यत आह—तमेतमिति । आक्षिप्तं समाहितम्
उक्तलक्षणलक्षितम् अध्यासम् अविद्याकार्यत्वाद् अविद्या इति मन्यन्ते इत्यर्थः ।
विद्यानिवर्त्यत्वात् च अस्य अविद्यात्वमित्याह—तद्विवेकेनेति । अध्यस्तनिषेधेन
अधिष्ठानस्वरूपनिर्धारणं विद्याम् अध्यासनिवर्तिकाम् आहुरित्यर्थः । तथापि
कारणाविद्यां त्यक्त्वा कार्याविद्या किमिति वर्ण्यते तत्र आह—तत्र इति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

इस मत का खण्डन होता है, क्योंकि आकाश और नीलगुणमें सादृश्य नहीं है, तो भी
अध्यास देखनेमें आता है । सिद्धान्तमें प्रकाशाकार चाक्षुपवृत्तिसे अभिन्न्यक्त साक्षीका विषय
आकाश है, अर्थात् आकाश इन्द्रियप्राद्य न होने पर भी साक्षिम्राद्य है । "एवं" इस वाक्यसे
अध्यासकी सम्भावनाका उपसंहार करते हैं । कोई शङ्का करे कि ब्रह्मज्ञानसे जिस अविद्याका
नाश होता है, और जिस अविद्याका प्रथम सूत्रमें आर्थिक वर्णन किया है, उस अविद्याको
छोड़कर अध्यासके वर्णन करनेका क्या कारण है ? इस शंकाका "तमेतम्" इस वाक्यसे
समाधान करते हैं । अर्थात् जिस अध्यासका आशेष करके समाधान किया है, उस उक्त लक्षण-
वाले अध्यासको पण्डित अविद्या मानते हैं, क्योंकि वह अविद्याका कार्य है और विद्यासे
उसका नाश होता है, इसलिए भी इसको अविद्या कहते हैं । यह यात "तद्विवेकेन" इस
वाक्यसे दिखाते हैं । अध्यासका निषेध करके वस्तु अर्थात् अधिष्ठानके स्वरूपका निश्चय

भाष्य

गुणेन वाऽणुमात्रेणापि स न सम्वध्यते, तमेतमविद्याख्यमात्मानात्मनोः
इतरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाणप्रमेयव्यवहारा लौकिका वैदिकाश्च
प्रवृत्ताः सर्वाणि च शास्त्राणि विधिप्रतिषेधमोक्षपराणि । कथं पुनरविद्याव-

भाष्यका अनुवाद

नामक—आत्मा और अनात्माके परस्पर—अध्यासको निमित्त मानकर
सब लौकिक और वैदिक प्रमाण-प्रमेयका व्यवहार प्रवृत्त हुआ है
और सब विधि-निषेध बोधक एवं मोक्षपरक शास्त्र प्रवृत्त हुए हैं । फिर

रत्नप्रभा

तस्मिन् अध्यासे उक्तन्यायेन अविद्यात्मके सति इत्यर्थः । मूलाविद्यायाः सुषुप्तौ
अनर्थत्वादर्शनात् कार्यात्मना तस्या अनर्थत्वज्ञापनार्थं तद्गर्णनमिति भावः ।
अध्यस्तकृतगुणदोषाभ्याम् अधिष्ठानं न लिप्यते इति अक्षरार्थः ।

एवम् अध्यासस्य लक्षणसम्भावने उक्त्वा प्रमाणमाह—तमेतमिति । तं वर्णि-
तमेतं साक्षिप्रत्यक्षसिद्धं पुरस्कृत्य हेतुं कृत्वा लौकिकः कर्मशास्त्रीयो मोक्षशास्त्रीयश्च
इति त्रिविधो व्यवहारः प्रवर्तते इत्यर्थः । तत्र विधिनिषेधपराणि कर्मशास्त्राणि

रत्नप्रभाका अनुवाद

करनेको अध्यासका नाश करनेवाली विद्या कहते हैं । तो भी जिससे अध्यास उत्पन्न होता है,
उस कारण रूप अविद्याको छोड़कर कार्यरूप अध्यासके वर्णन करनेका क्या कारण है ? इसका
उत्तर “तत्र” इस वाक्यसे देते हैं । अर्थात् अध्यास उपर्युक्त प्रकारसे अविद्यात्मक है
इसलिए । तात्पर्य यह है कि कारणरूप अविद्या सुषुप्तिमें स्वरूपसे अनर्थरूप नहीं दीखती,
जाग्रत अवस्थामें कार्यरूपसे अर्थात् कर्तृत्व आदि अध्यासरूपसे अनर्थरूप है, यह बतानेके
लिए अध्यासका वर्णन किया है । अक्षरार्थ यह है कि आत्मामें जिस बुद्धि आदिका अध्यास
होता है, उस बुद्धि आदिके किए हुए ब्रह्महृत्य आदि और ध्रुवा आदि दोषोंसे तथा सर्वज्ञत्व
आदि गुणोंसे आत्माका निश्चित भी सम्बन्ध नहीं हाता । अर्थात् अध्यास-जनित गुण-दोषोंसे
अधिष्ठान तनिक भी लिप्त नहीं होता, इसलिए विद्यासे इसकी निश्चित होती है ।

इस प्रकार अध्यासका लक्षण और सम्भावना कहकर “तमेतम्” इत्यादिसे प्रमाण कहते
हैं । ‘तम्’ अर्थात् पूर्ववर्णित और ‘एतम्’ अर्थात् साक्षीभूत आत्माके प्रत्यक्ष-सिद्ध
अविद्या नामक अध्यासको ‘आगे करके’ अर्थात् अध्यासको लेकर सब लौकिक, कर्मशास्त्रीय
और मोक्षशास्त्रीय तान प्रकारके व्यवहार प्रवृत्त होते हैं । विधि-निषेध साधक शास्त्र अर्थात्

(१) प्रमाण अर्थात् ज्ञानका साधन । प्रमेय अर्थात् ज्ञेय वस्तु । प्रमाण—प्रमेयसे प्रमाता—
ज्ञाना आदि समझने चाहे। वेद पुरुष प्रणीत नहीं है, इसलिए शास्त्रोंका पृथक् प्रहण किया है ।

भाष्य

द्विपयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि चेति । उच्यते—देहेन्द्रियादि-
भाष्यका अनुवाद

अविद्यावाला आत्मा है आश्रय जिनका ऐसे प्रत्यक्ष आदि प्रमाण और शास्त्र कैसे ?
(अविद्यावान् आत्माको विषय करनेवाले प्रत्यक्ष आदि प्रमाण एवं शास्त्रोंमें
प्रामाण्य कैसे ?) कहते हैं—देह, इन्द्रिय आदिमें 'मैं' 'मेरा' इस अभिमान-

रत्नप्रभा

ऋग्वेदादीनि, विधिनिषेधशून्यप्रत्यग्रहपरणि मोक्षशास्त्राणि वेदान्तवाक्यानि इति
विभागः । एवं व्यवहारहेतुत्वेन अध्यासे प्रत्यक्षसिद्धेऽपि प्रमाणान्तरं पृच्छति—
कथं पुनरिति । अविद्यावानहम् इति अध्यासवान् आत्मा प्रमाता स विषयः
आश्रयो येषां तानि अविद्यावद्विपयाणि इति विग्रहः । तत्तत्प्रमेयव्यवहारहेतु-
भूतायाः प्रमाया अध्यासात्मकप्रमात्राश्रितत्वात् प्रमाणानामविद्यावद्विषयत्वं यद्यपि
प्रत्यक्षम्, तथापि पुनरपि कथं केन प्रमाणेन अविद्यावद्विषयत्वमिति योजना ।
यद्वा अविद्यावद्विपयाणि कथं प्रमाणानि स्युः ? आश्रयदोषात् अप्रामाण्यापत्तेः
इत्याक्षेपः । तत्र प्रमाणप्रश्ने व्यवहारार्थापत्तिं तल्लिङ्गकानुमानं च आह—

रत्नप्रभाका अनुवाद

कर्मशास्त्र, ऋग्वेद आदि । मोक्ष साधकशास्त्र अर्थात् वेदान्तशास्त्र, जो विधि-निषेधसे रहित
है और जिनमें प्रत्यक्ष ब्रह्मज्ञानका निर्धारण किया है । इस प्रकार तीन प्रकारके व्यवहारका
हेतु होनेसे अध्यास प्रत्यक्ष सिद्ध है, तो भी उसमें दूसरा प्रमाण "कथं पुन" आदिसे पूछते
हैं । अविद्यावान् अर्थात् शरीर आदिमें 'मैं' ऐसे अध्यासवाला आत्मा—प्रमाता जिनका
विषय—आश्रय है, वे (शास्त्र) अविद्यावद्विषय हैं—ऐसा इसका विग्रह है । जिस जिस
प्रमेयका व्यवहार होता है, उसका हेतु प्रमा है और प्रमाका आधार अध्यासवान् प्रमाता
है । यद्यपि इस प्रकार प्रत्यक्ष आदि प्रमाण और शास्त्र अविद्यावान् आत्माके आश्रित हैं,
यह प्रत्यक्ष सिद्ध है, तो भी दूसरे किस प्रमाणसे यह सिद्ध हो कि वे अविद्यावान् आत्माके
आश्रित हैं—इस प्रकार वाक्यकी योजना करनी चाहिये । अथवा इस प्रकार योजना करनी
चाहिये कि 'अविद्यावान् आत्माके आश्रित प्रमाण कैसे हों, क्योंकि आश्रयके दोषसे
प्रमाण अप्रमाण हो जाता है । इस प्रकार दूसरे पक्ष में आक्षेप है । 'प्रमाण
अविद्यावद्विषय है' इसमें क्या प्रमाण है ? इस प्रश्नके उत्तरमें "उच्यते" इत्यादि "तस्मात्"
इत्यन्त ग्रन्थसे व्यवहारार्थापत्ति (अर्थात् यदि प्रमाण अविद्यावद्विषय न हों तो कोई
व्यवहार ही नहीं हो सकता । व्यवहार संभवमें होता है इसलिए प्रमाण अविद्यावद्विषय है)
प्रमाण और व्यवहार हेतुक अनुमानको दिखल्यते हैं । अनुमानका प्रयोग इस प्रकार (भी) है—

भाष्य

प्वहंममाभिमानरहितस्य प्रमावृत्वानुपपत्तौ प्रमाणप्रवृत्त्यनुपपत्तेः । नहीन्द्रियाण्यनुपादाय प्रत्यक्षादिव्यवहारः सम्भवति । न चाधिष्ठानमन्तरेण

भाष्यका अनुवाद

रहित पुरुषका प्रमावृत्त्व असिद्ध होने पर प्रमाताकी उपपत्ति नहीं है और प्रमाता के अनुपपन्न होनेसे प्रमाणकी प्रवृत्ति भी अनुपपन्न होती है, इसलिए इन्द्रियोंका ग्रहण किए बिना प्रत्यक्ष आदि व्यवहार सम्भव नहीं है और अधिष्ठानके बिना

रत्नप्रभा

“उच्यते” इत्यादिना “तस्मात्” इत्यन्तेन । देवदत्तकर्तृको व्यवहारः तदीय-देहादिषु अहंममाध्यासमूलः, तदन्वयव्यतिरेकानुसारित्वात्, यदित्थं तत्तथा, यथा मृन्मूलो घट इति प्रयोगः । तत्र व्यतिरेकं दर्शयति—देहेति । देवदत्तस्य सुपुप्तौ अध्यासाभावे व्यवहाराभावो दृष्टः । जाग्रत्स्वप्नयोरध्यासे सति व्यवहार इत्यन्वयः स्फुटत्वात् न उक्तः । अनेन लिङ्गेन कारणतया अध्यासः सिद्धयति,

रत्नप्रभाका अनुवाद

देवदत्तकर्तृक व्यवहार, देह आदिमें ‘में’ ‘मेरा’ अध्यासमूलक है, क्योंकि वह देह आदि अध्यासके अन्वय और व्यतिरेकका अनुसारी होता है । जो जिसके अन्वय और व्यतिरेकका अनुसारी होता है, वह तन्मूलक होता है । जैसे घट मृत्तिकाके अन्वय और व्यतिरेकका अनुसारी होनेसे मृत्तिसामूलक है । उक्त अनुमानमें “देहेन्द्रियादिषु” इत्यादि भाष्यसे व्यतिरेक व्याप्ति दिखलाते हैं । जब देवदत्त सुपुप्ति अवस्थामें रहता है, तब अध्यासका अभाव रहता है और व्यवहारका भी अभाव रहता है । व्यतिरेक व्याप्तिका यह उपयोग है—जहाँ अध्यास नहीं है, वहाँ व्यापार नहीं होता है, जैसे सुपुप्तिमें । जाग्रत् और स्वप्न अवस्थामें व्यवहार होता है, इसलिए अध्यास है यह अन्वय व्याप्ति स्पष्ट है—इसलिए यहाँ उसका वर्णन नहीं

(१) व्याप्ति दो प्रकारकी है—अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति । हेतु और साध्यका साहचर्य अन्वय है, साध्यके अभाव और हेतुके अभावका साहचर्य व्यतिरेक है । हेतु और साध्यकी व्याप्ति अन्वय-व्याप्ति कहलाती है । जैसे—‘पर्वत वह्निमान्’ है, क्योंकि धूमवान् है, इस अनुमानमें जो जो धूमवान् है, वह वह्निमान् है; (जहाँ जहाँ धूम है, वहाँ वह्नि है), जैसे महानस (रसोई घर), यह अन्वय व्याप्ति है । जो जो बद्धपभाववान् है, वह धूमाभाववान् है, (जहाँ जहाँ वह्नि नहीं है, वहाँ धूम नहीं है) जैसे—हर, यह व्यतिरेक व्याप्ति है । अन्वय व्याप्तिमें हेतु व्याप्य है और साध्य व्यापक है । व्यतिरेक व्याप्तिमें साध्याभाव व्याप्य है हेत्वभाव व्यापक है । जहाँ जहाँ वह्नि नहीं है, वहाँ धूम नहीं, यह व्याप्ति है । जहाँ जहाँ धूम नहीं है, वहाँ वह्नि नहीं, यह व्याप्ति नहीं है, क्योंकि तत्रापि द्रुप लोहेमें धूम नहीं है, परन्तु वह्नि है । इसलिए व्यतिरेक व्याप्तिमें साध्याभाव और हेत्वभावका साहचर्य है ।

रत्नप्रभा

व्यवहाररूपकार्यानुपपत्त्या चेति भावः । ननु मनुष्यत्वादिजातिमति देहेऽहमिति अभिमानमात्राद् व्यवहारः सिद्धयत्तु, किमिन्द्रियादिषु ममाऽभिमानेन इत्याशङ्क्य आह—नहीति । इन्द्रियपदं लिङ्गादेरपि उपलक्षणम्, प्रत्यक्षादीत्यादिपदप्रयोगात् । तथा च प्रत्यक्षलिङ्गादिप्रयुक्तो यो व्यवहारो द्रष्टा अनुमाता श्रोताऽहमित्यादिरूपः स इन्द्रियादीनि ममतास्पदानि अगृहीत्वा न सम्भवतीत्यर्थः । यद्वा, तानि ममत्वेन अनुपादाय यो व्यवहारः स नेति योजना । पूर्वत्र अनुपादानासम्भव-क्रिययोरेको व्यवहारः कर्ता इति क्त्वाप्रत्ययः साधुः । उत्तरत्र अनुपादानव्यवहारयोरेकात्मकर्तृकत्वात् तत्साधुत्वमिति भेदः । इन्द्रियादिषु मम इत्यध्यासाभावे अन्धादेरिव द्रष्टृत्वादिव्यवहारो न स्यात् इति भावः । इन्द्रियाध्यासेनैव

रत्नप्रभाका अनुवाद

किया । इस हेतुसे व्यवहारकारणत्वेन अध्यासकी सिद्धि होती है । अथवा व्यवहाररूप कार्यकी अनुपपत्तिसे अध्यासकी सिद्धि होती है । कोई शंका करे कि—मनुष्यत्व आदि जातिमान् देहमें 'मैं' ऐसे अभिमान-मात्रसे व्यवहार सिद्ध हो, इन्द्रिय आदिमें 'मेरा' इस अभिमानका क्या प्रयोजन है ? इस शंकापर "नहि" इत्यादि कहते हैं । 'इन्द्रिय' पद लिंग आदिवा भी उपलक्षण है; क्योंकि 'प्रत्यक्षादीनि' इस अभिम प्रत्ययमें आदि पद दिया है । 'द्रष्टा' (मैं देखनेवाला हूँ) यह व्यवहार प्रत्यक्ष ज्ञानसे उत्पन्न होता है और 'अनुमाता' (मैं अनुमान करनेवाला हूँ) यह व्यवहार अनुमिति-ज्ञानसे होता है तथा 'श्रोता' (मैं श्रवण करनेवाला हूँ) यह व्यवहार पदज्ञानसे उत्पन्न होता है । आशय यह है कि प्रत्यक्ष और लिंग आदिसे युक्त जो व्यवहार द्रष्टा, अनुमाता, श्रोता आदि रूपसे देखनेमें आता है, वह ममताके विषय इन्द्रिय आदिका ग्रहण किये बिना नहीं हो सकता है । अथवा ममतासे इन्द्रियोंका ग्रहण किये बिना व्यवहार नहीं हो सकता है, ऐसी योजना करनी चाहिए । प्रथम योजनामें अग्रहण और असंभव रूप दो क्रियाओंका कर्ता एक व्यवहार है, अतः 'अनुपादाय' शब्दमें 'धरवा' प्रत्यय ठीक है । दूसरी योजनामें अग्रहण और व्यवहार दोनों क्रियाओंका कर्ता एक आत्मा है, अतः 'क्त्वा' प्रत्यय ठीक है । यही दोनों योजनाओंमें भेद है । आशय यह है कि इन्द्रिय आदिमें 'मेरा' ऐसा अध्यास न होनेसे 'मैं द्रष्टा हूँ' इत्यादि व्यवहार नष्ट हो सकता है, जैसे कि अन्धोंको नहीं होता है । कोई शंका करे कि तब तो इन्द्रियाध्याससे ही काम चल

(१) समानावार बुद्धिको उत्पन्न करने योग्य । अर्थात् एक वर्गके सब पदार्थोंमें रहनेवाले धर्मको जाति कहते हैं ।

(२) हेतु, साधक ।

(३) 'उपलक्ष्यते स्व स्वतर च अनेनेति—उपलक्षणम् ।' अर्थात् अपने अर्थका और अपनेसे दूसरे अर्थका बोधक पद । यहाँ 'इन्द्रिय' पद अपने अर्थ और दूसरोंका यानी लिंग आदिवा भी बोध कराता है । इसलिए 'इन्द्रिय' पद उपलक्षण है ।

भाष्य

इन्द्रियाणां व्यवहारः सम्भवति । न चानध्यस्तात्मभावेन देहेन कश्चिद्वा-
प्रियते । न चैतस्मिन्सर्वस्मिन्नसति असङ्गस्य आत्मनः प्रमातृत्वमुपपद्यते ।

भाष्यका अनुवाद

इन्द्रियोंसे कृत घट, पट आदिका व्यवहार सम्भव नहीं है । जिसमें आत्मभाव अध्यस्त नहीं है, उस शरीरसे कोई व्यापार नहीं कर सकता । और ये सब अध्यास न हों, तो असंग आत्मा प्रमाता नहीं हो सकता और प्रमाताके बिना प्रमाणकी प्रवृत्ति नहीं होती ।

रत्नप्रभा

व्यवहारादरुं देहाध्यासेन इत्यत आह—न चेति । इन्द्रियाणामधिष्ठानम्
आश्रयः शरीरमित्यर्थः । ननु अस्तु आत्मना संयुक्तं शरीरं तेषामाश्रयः किमध्या-
सेन इत्यत्र आह—न च अनध्यस्तात्मभावेन इति । अनध्यस्त आत्मभावः
आत्मतादात्म्यं यस्मिन् तेन इत्यर्थः । “असङ्गो हि (वृ० ४।३।१५) इति श्रुतेः
आध्यासिक एव देहात्मनोः सम्बन्धो न संयोगादिः इति भावः । ननु आत्मनो
देहादिभिः आध्यासिकसम्बन्धोऽपि मा अस्तु, स्वतश्चेतनतया प्रमातृत्वोपपत्तेः ।
न च सुप्तसौ प्रमातृत्वापत्तिः, करणोपरमात् इति तत्राह—न चैतस्मिन्निति ।
प्रमाश्रयत्वं हि प्रमातृत्वम् । प्रमा यदि नित्यचिन्मात्रं तर्हि आश्रयत्वायोगः,
करणवैयर्थ्यं च । यदि वृत्तिमात्रम्, जगदानध्यप्रसङ्गः वृत्तेर्जडत्वात् । अतो

रत्नप्रभाका अनुवाद

जायगा, देहाध्यासना क्या प्रयोजन है ? “न च” इत्यादिसे इस शंकाका निवारण करते हैं ।
इन्द्रियोंके आश्रय-स्थान शरीरका नाम—अधिष्ठान है । अब कोई शंका करे कि आत्मासे
संयुक्त शरीर इन्द्रियोंका आश्रय—स्थान रहे, अध्यासका क्या प्रयोजन है ? इस शंकाको दूर
करनेके लिए कहते हैं—“न चानध्यस्तात्मभावेन” इत्यादि । जिसमें आत्मतादात्म्य अध्यस्त
नहीं है, वह अनध्यस्तात्मभाव कहलगाता है । “असङ्गो हि” (आत्मा संसर्ग रहित है) इस
श्रुति वाक्यसे देह और आत्माका संयोग आदि संबन्ध नहीं बनता, किंतु अध्याससे ही इन
दोनों का संबन्ध होता है । यदि यह शंका हो कि ‘आत्माका देह आदिके साथ आध्यासिक
संबन्ध भी न हो, तो भी आत्मा चेतन होनेके कारण प्रमाता हो जायगा । यदि कहे कि
सुप्तिसमें आत्माके प्रमाता होनेकी आपत्ति होगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सुप्तिसकालमें
मनके साथ सब इन्द्रियों अविद्यामें लीन हो जाती है, अतः सुप्तिसमें ज्ञान उत्पन्न नहीं
होता । इस शंकाको दूर करनेके लिए “न चैतस्मिन्” इत्यादि कहते हैं । प्रमा—यथार्थज्ञान ।
प्रमाके आश्रयको प्रमाता कहते हैं । प्रमा यदि नित्यज्ञान-स्वरूप हो, तो उसका कोई
आश्रय नहीं होगा और इन्द्रिय आदि व्यर्थ हो जायेंगे । यदि वृत्तिमात्रको प्रमा कहें,
तो वृत्तिके जड़ होनेसे समस्त जगत् ज्ञानशून्य हो जायगा, इसलिए वृत्तिव्यक्त ज्ञान ही प्रमा

भाष्य

न च प्रमातृत्वमन्तरेण प्रमाणप्रवृत्तिरस्ति । तस्मादविद्यावद्विषयाण्येव
भाष्यका अनुवाद

इसलिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाण और शास्त्रका आश्रय अविद्यावान् पुरुष ही हैं । और

रत्नप्रभा

वृत्तीद्धो बोधः प्रमा, तदाश्रयत्वमसङ्गस्य आत्मनो वृत्तिमन्मनस्तादात्म्याध्यासं विना
न सम्भवति इति भावः । देहाध्यासे, तद्धर्माध्यासे चाऽसति इत्यक्षरार्थः । तर्हि
आत्मनः प्रमातृत्वं मा अस्तु इति वदन्तं प्रत्याह—न चेति । तस्मात् आत्मनः
प्रमातृत्वादिव्यवहारार्थम् अध्यासोऽङ्गीकर्तव्य इति अनुमानार्थापत्त्योः फलमुपसंह-
रन्ति—तस्मादिति । प्रमाणसत्त्वात् इत्यर्थः । यद्वा, प्रमाणप्रज्ञं समाधायाक्षेपं
परिहरति—तस्मादिति । अहमित्यध्यासस्य प्रमात्रन्तर्गतत्वेन अदोपत्त्वात् अविद्या-
वदाश्रयाण्यपि प्रमाणानि एव इति योजना । सति प्रमातरि पश्चाद् भवन् दोष
इति उच्यते, यथा काचादिः । अविद्या तु प्रमात्रन्तर्गतत्वात् न दोषः, येन
प्रत्यक्षादीनाम् अप्रामाण्यं भवेत् इति भावः । ननु यदुक्तमन्वयव्यतिरेकाभ्यां
व्यवहारोऽध्यास कार्य इति, तदयुक्तम्, विदुषाम् अध्यासाभावेऽपि व्यवहारदृष्टेः इत्यत

रत्नप्रभाका अनुवाद

है । आशय यह है कि वृत्तिमान् अन्तःकरणमें तादात्म्याध्यासके विना असंग आत्मा उस
प्रमाका आश्रय नहीं हो सकता । देहाध्यास और उसके धर्मका अध्यास न होनेपर—यह
अक्षरार्थ है । यदि कोई कहे कि आत्मा प्रमाता मत हो, उसके विना हानि ही क्या है ?
उसके प्रति भाष्यकार “न च” इत्यादि कहते हैं । आत्मामें प्रमाताके व्यवहारके लिए
अध्यासका अंगीकार करना चाहिए इस आशयसे अनुमान एवं अर्थापत्ति प्रमाणका फलोप-
संहार करते हैं—“तस्मात्” इत्यादिसे । तस्मात्—प्रमाणके होनेसे । अथवा प्रत्यक्ष आदि प्रमाण
और शास्त्र अविद्यावान् आत्माके आश्रित किस प्रमाणसे हैं इस प्रश्नका समाधान करके
‘अविद्यावान् आत्मा आश्रय हो तो प्रत्यक्ष आदि किस प्रकार प्रमाण हो सकेंगे’ इस आशेपका
खण्डन करते हैं—“तस्मात्” इत्यादि भाष्यसे । अध्यासके विना आत्मा प्रमाता नहीं हो सकता और
अध्यास, प्रमाताके स्वरूपके अन्तर्गत होनेसे, दोषरूप नहीं है, इसलिए अविद्यावान्—अध्यासवान्के
आश्रय होते हुए भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण ही हैं । तात्पर्य यह है कि प्रमाताके स्वरूपसे पृथक्
यदि दोष हो, तो वह दोष कहलावे, जैसे नेत्र-रोग आदि । अविद्या तो प्रमाताके स्वरूपके
अन्तर्गत है, इसलिए दोषरूप नहीं है और ऐसा होनेसे प्रत्यक्ष आदिके प्रमाण होनेमें कुछ
रुकावट नहीं है । ‘अध्यास होता है तभी व्यवहार सिद्ध होता है, अध्यास न हो तो
व्यवहार सिद्ध नहीं होता, इस प्रकारके अन्वय-व्यतिरेकसे व्यवहार अध्यासका कार्य है
अर्थात् अध्याससे ही उत्पन्न होता है’ यह ऊपरका कथन अयुक्त है, क्योंकि विद्वानोंमें

भाष्य

प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च । पश्चादिभिश्चाविशेषात् । यथा हि पश्वादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां सम्बन्धे सति शब्दादिविज्ञाने प्रति-
कूले जाते ततो निवर्तन्ते, अनुकूले च प्रवर्तन्ते । यथा दण्डोद्यतकरं पुरुष-

भाष्यका अनुवाद

पशु आदिके व्यवहारसे विद्वान्के व्यवहारमे विशेषता नहीं है । इससे भी सिद्ध है कि प्रमाण और शास्त्रके आश्रय अविद्वान् ही हैं । जैसे पशु आदि शब्द आदिका श्रोत्र आदिके साथ सम्बन्ध होनेपर शब्द आदिका ज्ञान प्रतिकूल हो, तो उससे निवृत्त होते हैं और अनुकूल हो, तो उसकी ओर प्रवृत्त होते हैं । जैसे किसी पुरुष-

रत्नप्रभा

आह—पश्चादिभिश्चेति । 'च' शब्दः शङ्कानिरासार्थः । किं विद्वत्त्वं "ब्रह्मास्मि" इति साक्षात्कारः, उत यौक्तिकम् आत्मानात्मभेदज्ञानम् ? आधे बाधिताध्यासानुवृत्त्या व्यवहारः इति समन्वयसूत्रे वक्ष्यते । द्वितीये—परोक्ष-
ज्ञानस्य अपरोक्षभ्रान्त्यनिवर्तकत्वाद्, विवेकिनामपि व्यवहारकाले पश्चादिभिः अवि-
शेषात् अध्यासवत्त्वेन तुल्यत्वाद् व्यवहारोऽध्यासकार्य इति युक्तमित्यर्थः । अत्रायं प्रयोगः—विवेकिनोऽध्यासवन्तः, व्यवहारवत्त्वात्, पश्चादिवत् इति । तत्र संग्रह-
वाक्यं व्याकुर्वन् दृष्टान्ते हेतुं स्फुटयति—यथा हीति । विज्ञानस्य अनुकूलत्वं

रत्नप्रभाका अनुवाद

अध्यासके बिना भी व्यवहार देखनेमें आता है ऐसी कोई शङ्का करे, तो उस शङ्काका समा-
धान करनेके लिए कहते हैं—“पश्चादिभिश्चाविशेषात्” । 'च' शब्द शङ्काकी निवृत्ति करनेके लिए
है । शङ्काकारको यहाँ पर कौन-सी विद्वत्ता अभीष्ट है ? 'मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा साक्षात्कार अथवा
आत्मा और अनात्माका युक्तिसिद्ध भेदका परोक्ष ज्ञान २ प्रथम पक्षमें बाधित अध्यासकी
अनुवृत्तिसे व्यवहार होता है ऐसा समन्वय सूत्रमें कहेंगे । द्वितीय पक्षमें केवल युक्तिसिद्ध
परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष भ्रान्तिका निवर्तक नहीं हो सकता है, क्योंकि जिनको ऐसा परोक्ष ज्ञान
है कि शरीर, इन्द्रिय आदि अनात्मासे आत्मा भिन्न है, उन विवेकियोंमें भी व्यवहार कालमें
पशुओंकी अपेक्षा विशेषता नहीं है, वे भी पशु आदिके समान ही अध्यासवान् होते हैं,
इसलिए उनका व्यवहार भी अध्यासका कार्य है । यहाँ अनुमानका प्रयोग इस प्रकार होता
है—'विवेकी अध्यासवान् है, पशुओंकी तरह व्यवहारवान् होनेके कारण । 'पशु आदिके
विशेष नहीं है' इस संग्रह-वाक्यको स्पष्ट करते हुए दृष्टान्तमें हेतुका स्पष्टीकरण करते हैं—“यथा हि”

(१) 'वदर्थेयवाक्यानामेवत्र सवलन समग्र.' बहुतसे अर्थवाले वाक्योंको एक वाक्यमें एवत्र करना समग्र है । जिस वाक्यमें बहुत वाक्योंसे कहा हुआ अर्थ एकशिवत किया हो, वह समग्र वाक्य है ।

भाष्य

मभिमुखमुपलभ्य मां हन्तुमयमिच्छतीति पलायितुमारभन्ते, हरित-
तृणपूर्णपाणिमुपलभ्य तं प्रत्यभिमुखीभवन्ति । एवं पुरुषा अपि व्युत्पन्न-
चित्ताः क्रूरदृष्टीनाक्रोशतः खड्गोद्यतकरान् बलवत उपलभ्य ततो निवर्तन्ते,
तद्विपरीतान् प्रति प्रवर्तन्ते । अतः समानः पश्चादिभिः पुरुषाणां प्रमाण-

भाष्यका अनुवाद

को हाथमें दण्ड उठाए हुए देखकर, 'यह मुझे मारना चाहता है' ऐसा समझकर
भागने लगते हैं, यदि उसके हाथमें हरी घास होती है' तो उसके संमुख हो
जाते हैं। इसी प्रकार विवेकी पुरुष भी, क्रूरदृष्टिवाले, हाथमें खड्ग उठाये हुए,
चिह्नाते हुए बलवान् पुरुषोंको देखते हैं, तो उनसे हट जाते हैं और उनसे
विपरीत पुरुषोंकी ओर प्रवृत्त होते हैं। इसलिए पुरुषोंका प्रमाण और प्रमेय व्यवहार

रत्नप्रभा

प्रतिकूलत्वं च इष्टानिष्टसाधनगोचरत्वम्, तदेव उदाहरति—यथेति । अयं दण्डो
मदनिष्टसाधनम्, दण्डत्वाद्, अनुभूतदण्डवद् । इदं तृणम्, इष्टसाधनम्, अनु-
भूतजातीयत्वात्, अनुभूततृणवद् इत्यनुमाय व्यवहरन्ति इत्यर्थः । अधुना हेतोः
पक्षधर्मतामाह—एवमिति । व्युत्पन्नचित्ता अपि इत्यन्वयः । विवेकिनोऽपि इत्यर्थः ।
फलितमाह—अत इति । अनुभवबलाद् इत्यर्थः । समान इति । अध्यासकार्यत्वेन
तुल्य इत्यर्थः । ननु अस्माकं प्रवृत्तिरध्यासादिति न पश्चादयो भ्रुवन्ति, नापि परेषा-

रत्नप्रभाका अनुवाद

इत्यादिसे । यह मेरा इष्टसाधन है, ऐसा ज्ञान अनुकूलगोचर है । यह मेरा अनिष्टकारक
है ऐसा ज्ञान प्रतिकूलगोचर है । इसी बातका "यथा" इत्यादिसे उदाहरण देते हैं । यह
दण्ड मेरा अनिष्टकारक है, दण्ड होनेसे, प्रथम अनुभूत दण्डके समान । ये तृण मेरे इष्ट-
साधक हैं, अनुभूत तृणके सजातीय होनेके कारण, पूर्वमक्षित तृणकी तरह । ऐसा अनुमान
करके पशु आदि प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप व्यवहार करते हैं । अब पूर्वोंके हेतुमें पक्षवृत्तित्ता दिखलते
हैं—“एवम्” इत्यादिसे । 'पुरुषा अपि व्युत्पन्नचित्ता.' इमें 'व्युत्पन्नचित्ता अपि पुरुषाः' ऐसा
अन्वय करना चाहिए । विवेकी लोग भी ऐसा अर्थ है । "अतः" आदिसे फलित कहते हैं ।
अनुभव बलसे यह अर्थ है । "समान" इति । पुरुषोंके प्रमाण-प्रमेय-व्यवहार पशुओंके समान
हैं, क्योंकि दोनोंके व्यवहार अध्यासके कार्य हैं । कोई ऐसी धंका करे कि पशु बोल नहीं

विस्तरेणोपदिष्टानामर्थानां सूत्र-भाष्ययोः ।

निबन्धो यः समासेन संग्रहं सं विदुर्भाः ॥

(सूत्र और भाष्यमें विलारमे शर्गित अर्थका जो सक्षेपमे बहना, उसको विद्वान् संग्रह करते हैं ।

भाष्य

प्रमेयव्यवहारः । पश्वादीनां च प्रसिद्धोऽविवेकपुरःसरः प्रत्यक्षादिव्यवहारः । तत्सामान्यदर्शनाद् व्युत्पत्तिमतामपि पुरुषाणां प्रत्यक्षादिव्यवहारः

भाष्यका अनुवाद

पशु आदि के समान ही व्यवहार है । और पशु आदिका प्रत्यक्ष आदि व्यवहार अविवेकपूर्वक है, यह प्रसिद्ध ही है । पशु आदिके साथ सादृश्य दिखाई देता है, इसलिए विवेकी पुरुषोंका भी प्रत्यक्ष आदि व्यवहार तत्कालमें (व्यवहार कालमें)

रत्नप्रभा

मेतत् प्रत्यक्षम्, अतः साध्यविकलो दृष्टान्त इति, नेत्याह—पश्वादीनां चेति । तेषाम् आत्मानात्मनोर्ज्ञानमात्रमस्ति, न विवेकः, उपदेशाभावात् । अतः सामग्री-सत्त्वात् अध्यासः तेषां प्रसिद्ध इत्यर्थः । निगमयति—तत्सामान्येति । तैः पश्वादिभिः सामान्यं व्यवहारवत्त्वं तस्य दर्शनाद् विवेकिनामपि अयं व्यवहारः समान इति निश्चीयते इति सम्बन्धः । समानत्वं व्यवहारस्य अध्यासकार्यत्वेन-इति उक्तं पुरस्तात् । तत्र उक्तान्वयव्यतिरेकौ स्मारयति—तत्काल इति । तस्य अध्यासस्य काल एव कालो यस्य सः तत्कालः । यदा अध्यासः, तदा व्यवहारः, तदभावे सुप्तौ तदभाव इति उक्तान्वयादिमान् इति यावत् । अतो व्यवहारलिङ्गाद् विवेकिनामपि देहादिषु अहंममाभिमानोऽस्ति इत्यनवधम् । ननु लौकिकव्यवहारस्य आध्यासिकत्वेऽपि ज्योतिष्टोमादिव्यवहारस्य न अध्यासजन्यत्वं,

रत्नप्रभाका अनुवाद

समते कि हमारी प्रवृत्ति आध्यासिक है, और दूसरोंको भी मालूम नहीं होता है, इसलिए दृष्टान्त अध्यासरूप साध्य रहित होनेसे नहा मनता । इस शङ्काका निराकरण करनेके लिए कहते हैं—“पश्वादीनां च” इत्यादि । पशुओंको आत्मा और अनात्माका ज्ञानमात्र है, विवेक नहीं है, क्योंकि उनको कोई उपदेश नहीं कर सकता । विवेकके बिना पशु आदिमें व्यवहार देखनेमें आता है, इसलिए सामग्री होनेसे उनका व्यवहार आध्यासिक है, यह प्रसिद्ध है । अतः पशुरूप दृष्टान्त अध्यासरूप साध्यसे विकल नहीं है । उक्तानुमानका उपसंहार करते हैं—“तत्सामान्य” इत्यादिसे । पशु आदिके साथ व्यवहार सादृश्य दिखाई देता है, इसलिए विवेकियोंका भी व्यवहार तत्काल समान—आध्यासिक है, ऐसा निश्चय होगा है । व्यवहारकी समानता अध्यासकार्य होनेसे है—यह पहले कहा गया है । उक्त अन्वय और व्यतिरेकका स्मरण करते हैं—“तत्काल” इत्यादिसे । अध्यासका काल ही काल है जिसका अर्थात् जब अध्यास है, तब व्यवहार है । सुप्तिसमें जब अध्यास नहीं होता, तब व्यवहार भी नहा होता है, ऐसा अन्वय और व्यतिरेकसे शुद्ध व्यवहार समान है । इस प्रकार

रत्नप्रभा

तत्कालः समान इति निश्चीयते । शास्त्रीये तु व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्व-
कारी नाविदित्वात्मनः परलोकसम्बन्धमधिक्रियते, तथापि न वेदान्तवेद्य-
मशनायाद्यतीतमपेतब्रह्मक्षत्रादिभेदमसंसार्यात्मतत्त्वमधिकारेऽपेक्ष्यते, अनु-
भाष्यका अनुवाद

समान है, ऐसा निश्चय होता है । शास्त्रीय व्यवहारमें तो परलोकके साथ आत्माका
सम्बन्ध जाने बिना यद्यपि विवेकी पुरुष अधिकृत नहीं होता, तो भी जिस आत्म-
तत्त्वका ज्ञान वेदान्तसे प्राप्त होता है, जिसका क्षुधा आदिके साथ सम्बन्ध नहीं
है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि भेद नहीं है, ऐसे असंसारी आत्मतत्त्वकी कर्मा-
धिकारमें अपेक्षा नहीं है; क्योंकि उसमें आत्मतत्त्वका अनुपयोग है और अधि-

रत्नप्रभा

तस्य देहातिरिक्तात्मज्ञानपूर्वकत्वात् इत्याशङ्क्य हेतुममङ्गीकरोति—शास्त्रीये त्विति ।
तर्हि कथं वैदिककर्मणोऽध्यासजन्यत्वसिद्धिः इत्याशङ्क्य किं तत्र देहान्यात्म-
धीमात्रम् अपेक्षितमुत आत्मतत्त्वज्ञानम् ? आद्ये तस्य अध्यासाबाधकत्वात्
तत्सिद्धिरित्याह—तथापीति । न द्वितीय इत्याह—न वेदान्तेति ।
क्षुत्पिपासादिग्रस्तो जातिविशेषवान् अहं संसारी इति ज्ञानं कर्मण्यपेक्षितं, न तद्वि-
परीतात्मतत्त्वज्ञानम्, अनुपयोगात्, प्रवृत्तिबाधात् च इत्यर्थः । शास्त्रीयकर्मणोऽ-
ध्यासजन्यत्वं निगमयति—प्राक्चेति । अध्यासे आगमं प्रमाणयति—

रत्नप्रभाका अनुवाद

व्यवहाररूप हेतुसे विवेकियोंको देह आदिमें 'मैं' 'मेरा' ऐसा अभिमान है, यह सिद्ध होता है ।
यद्यपि लौकिक व्यवहार आध्यासिक है, तो भी ज्योतिष्टोम आदि व्यवहार अध्यासजन्य
नहीं है, क्योंकि देहसे भिन्न आत्माके ज्ञानकी उसमें आवश्यकता है, ऐसी शङ्का करके इस
शङ्काके हेतुका अङ्गीकार करते हैं—“शास्त्रीये तु” इत्यादिके । कोई शङ्का करे कि ऐसी अवस्थामें
वैदिक कर्म अध्यासजन्य कैसे हैं ? उससे कहना चाहिए कि उन कर्मोंमें देहसे अतिरिक्त
आत्मा है, यह ज्ञानमात्र अपेक्षित है या आत्माका तत्त्वज्ञान—साक्षात्कार ? यदि प्रथम पक्ष
अभीष्ट हो, तो वह अध्यासका बाधक नहीं है, अतः उमकी सिद्धि हो जायगी । इसी बातको
“तथापि” पदसे कहते हैं । द्वितीय पक्ष नहीं हो सकता, इसको “न वेदान्त” इस ग्रन्थसे कहते
हैं । मे भूत, प्याग आदिके ग्रन्थ हैं, ब्राह्मण आदि जातिसे विशिष्ट हैं, और संसारी हैं ऐसे
ज्ञानकी कर्ममें अपेक्षा है, इसमें विपरीत आत्मतत्त्व ज्ञानकी अपेक्षा नहीं है; क्योंकि ऐसा ज्ञान
यज्ञ-कर्ममें उपयोगी नहीं है । और आत्मतत्त्वके ज्ञानसे सब अभिमानों—मिथ्याज्ञानोंके नष्ट हो
जानेसे यज्ञ-कर्ममें प्रवृत्ति ही रुक जाती है । शास्त्रीय कर्म अध्याससे जन्य है, इस बातका
उपसंहार “प्राक् च” इत्यादिके करते हैं । “तथा हि” आदिके अध्यासमें प्रायः प्रमाण देते हैं ।

भाष्य

पयोगाद् अधिकारविरोधाच्च । प्राक्च तथाभूतात्मविज्ञानात् प्रवर्तमानं शास्त्रमविद्यावद्विषयत्वं नातिवर्तते । तथा हि—‘ब्राह्मणो यजेत’ इत्यादीनि शास्त्राणि आत्मनि वर्णाश्रमवयोर्वंस्यादिनिशेषाध्यासमाश्रित्य प्रवर्तन्ते ।

भाष्यका अनुवाद

कारका विरोध है । इस प्रकारके आत्म-ज्ञानके पूर्वमे प्रवर्तमान शास्त्र अविद्यावान-का ही आश्रय करता है । जैसे कि—‘ब्राह्मणो यज्ञ करना चाहिए’ आदि शास्त्र आत्मामे भिन्न भिन्न वर्ण, आश्रम, वय, अवस्था आदिना अध्यास करके ही प्रवृत्त होते हैं । ‘जिसमें वह नहीं है, उसमे वह है’ ऐसी बुद्धि अध्यास है, यह पहले बतला

रत्नप्रभा

तथा हीति । यथा प्रत्यक्षानुमानार्थापत्तयोऽध्यासे प्रमाणं तथा आगमोऽपि इत्यर्थः । “ब्राह्मणो यजेत” “न ह वै स्नात्वा भिक्षेत” अष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनयीत” “कृष्णकेशोऽग्नीनादर्घीत” इति आगमो ब्राह्मणादिपदैरधिकारिणं वर्णाद्यभिमानी-नमनुदन् अध्यासं गमयति इति भावः ।

एवमध्यासे प्रमाणसिद्धेऽपि कस्य कुत्र अध्यास इति जिज्ञासायां तमुदाहर्तुं लक्षणं स्मारयति—अध्यासो नामेति । उदाहरति—तद्यथेति । तल्लक्षणं यथा

रत्नप्रभाका अनुवाद

तात्पर्य यह कि जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान और अर्थापत्ति अध्यासमें प्रमाण हैं, वैसे ही शास्त्र भी प्रमाण हैं । ‘ब्राह्मणो यजेत’ (ब्राह्मण यज्ञ करे) [यह विधि-वाक्य आत्मामे वर्णका अध्यास करता है] ‘न ह वै स्नात्वा भिक्षेत’ (ब्राह्मणचारी समावर्तनके पश्चात् गृहस्थाश्रममें आकर भिक्षाशन न करे) [इस वाक्यसे आत्मामे आश्रमका अध्यास सिद्ध होता है ।] ‘अष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनयीत’ (आठ वर्षमे ब्राह्मणका उपनयन संस्कार करना चाहिए) [यह विधि वाक्य आत्मामे वर्ण और वयका अध्यास सिद्ध करता है ।] ‘जातपुत्र कृष्णकेशोऽग्नीनादर्घीत’ (पुत्र होनेपर कृष्ण केशवालेको अग्निका आधान करना चाहिए) [यहां अवस्था विशेषका अध्यास है] । इत्यादि धृतिया ब्राह्मण आदि पदोंसे वर्ण आदिके अभिमानी अधिकारीका अनुवाद करती हुई अध्यासकी सूचना देती हैं ।

इस प्रकार अध्यास प्रमाण सिद्ध है, तो भी किसका किसमें अध्यास है—इस जिज्ञासाकी पूर्तिके लिए उसका उदाहरण देनेके लिए लक्षणना स्मरण कराते हैं—“अध्यासो नाम” इत्यादिसे । “तद्यथा” इत्यादिसे उसका उदाहरण देते हैं । आशय यह है कि उसका लक्षण जैसे स्पष्ट हो,

(१) ‘अवस्थादिविशेषाध्यासम्’ यथा आदि शब्दसे ‘जीवन् जुहुयात्’ (जीवन पर्यन्त होम करे) इसमें जीवनका अध्यास है । ‘स्वर्गं कामो यजेत’ (स्वर्गकी इच्छावाला यज्ञ करे) इसमें कामित्वका अध्यास है ।

भाष्य

अध्यासो नाम अतस्मिंस्तद्वुद्धिरित्यवोचाम। तद्यथा—पुत्रभार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलो वेति बाह्यधर्मानात्मन्यध्यस्यति। तथा देहधर्मान्—स्थूलोऽहं, कृशोऽहं, गौरोऽहं, तिष्ठामि, गच्छामि, लङ्घयामि चेति। तथेन्द्रियधर्मान्—मूकः, काणः, क्लीबः, वधिरः, अन्धोऽहम्

भाष्यका अनुवाद

चुके हूँ। वह अध्यास इस प्रकार है—पुत्र, भार्या आदिके अपूर्ण और पूर्ण होनेपर मैं ही अपूर्ण और पूर्ण हूँ ऐसा बाह्य पदार्थोंके धर्मोंका अपनेमें अध्यास करता है। इसी प्रकार आत्मामें देहके धर्मोंका अध्यास करके कहते हैं कि 'मैं मोटा हूँ', 'मैं कृश हूँ', 'मैं गोरा हूँ', 'मैं खडा हूँ', 'मैं जाता हूँ', 'मैं लंग्घता हूँ।' इसी प्रकार इन्द्रियोंके धर्मोंका अध्यास करके कहते हैं कि 'मैं गूंगा हूँ', 'मैं काना हूँ', 'मैं नपुंसक हूँ', 'मैं बहुरा हूँ', 'मैं अन्धा हूँ', इसी प्रकार काम, संकल्प, संशय, निश्चय आदि अन्तःकरणके धर्मोंका आत्मामें अध्यास करते हैं एवं 'मैं'

रत्नप्रभा

स्पष्टं भवति, तथा उदाह्रियते इत्यर्थः। स्वदेहाद् भेदेन प्रत्यक्षाः पुत्रादयो बाह्याः, तद्धर्मान् साकल्यादीन् देहविशिष्टात्मनि अध्यस्यति, तद्धर्मज्ञानात् स्वस्मिन् तत्तुल्यधर्मानध्यस्यतीत्यर्थः। भेदापरोक्षज्ञाने तद्धर्माध्यासायोगाद् अन्यथाख्यात्यनङ्गीकाराच्चेति द्रष्टव्यम्। देहेन्द्रियधर्मान् मनोविशिष्टात्मनि अध्यस्यतीत्याह—तथेति। कृशत्वादिधर्मवतो देहादेरात्मनि तादात्म्येन कल्पितत्वात् तद्धर्माः साक्षादात्मनि अध्यस्ता इति मन्तव्यम्। अज्ञातप्रत्यग्रूपे साक्षिणि मनोधर्माध्यासमाह— तथाऽन्तः-

रत्नप्रभाका अनुवाद

वैसा उदाहरण दिया जाता है। अपने शरीरमें भिन्न भार्या, पुत्र आदि बाह्य पदार्थ हैं, उनके धर्म साकल्य, कृशत्व आदिवा देहविशिष्ट आत्मामें अध्यास करता है, अर्थात् उन धर्मोंका ज्ञान होनेपर उनके धर्मगुण धर्मोंका अपनेमें अध्यास करता है, यह आशय है। पुत्र, भार्या आदि स्वदेहमें भिन्न हैं ऐसा प्रत्यक्षज्ञान है, इसलिए उनके धर्मोंका अध्यास नही हो सकता है, और वेदान्तमतमें अन्यथाख्यातिका स्वीकार भी नहीं है, अतः इनके तुल्य धर्मोंका अध्यास करता है, यह कहना उचित है। देह और इन्द्रियोंके धर्मोंका मनोविशिष्ट आत्मामें अध्यास करना है इस भावसे "तथा" इत्यादिये वतते हैं। आत्मामें शृणव आदि धर्मवाले देह आदिकी तादात्म्यमें रूपना भी है, अतः उनके धर्म आत्मामें साक्षात् ही अध्यस्त हैं ऐसा समझना चाहिए। जैसे देह और इन्द्रियोंके धर्मोंका आत्मामें अध्यास करते हैं, उसी प्रकार अज्ञान प्रत्यग्रूपमें साक्षिभूत आत्मामें अन्तःकरणके अर्थात् अन्तःइन्द्रिय मनके धर्मोंका

भाष्य

इति । तथाऽन्तःकरणधर्मान् कामसङ्कल्पविचिकित्साध्यवसायादीन् । एवमहंप्रत्ययिनमशेषस्वप्रचारसाक्षिणि प्रत्यगात्मन्यध्यस्य तं च प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं तद्विपर्ययेणान्तःकरणादिष्वध्यस्यति । एवमयमनादिर-

भाष्यका अनुवाद

ऐसा ज्ञान उत्पन्न करनेवाले अन्तःकरणका—अन्तःकरणकी सब वृत्तियोंके साक्षी प्रत्यगात्माके—अध्यास करते हैं और इसके विपरीत उस सर्वसाक्षी प्रत्यगात्माका अन्तःकरण आदिमें अध्यास करते हैं । इस प्रकार अनादि, अनन्त, नैसर्गिक,

रत्नप्रभा

करणेति । धर्माध्यासमुक्त्वा तद्वदेव धर्म्यध्यासमाह—एवमिति । अन्तःकरणं साक्षिणि अभेदेन अध्यस्य तद्धर्मान् कामादीन् अध्यस्यति इति मन्तव्यम् । स्वप्रचारा मनोवृत्तयः । प्रति—प्रातिलोम्येन असज्जडदुःखात्मकाहङ्कारादिविलक्षणतया सच्चित्तुखात्मकत्वेन अञ्चति—प्रकाशते इति प्रत्यक् । एवमात्मनि अनात्मतद्धर्माध्यासमुदाहृत्य अनात्मनि आत्मनोऽपि ससृष्टत्वेन अध्यासमाह—तं चेति । अहमिति अध्यासे चिदात्मनो भानं वाच्यम्, अन्यथा जगदान्ध्यापत्तेः । न च अनध्यस्तस्य अध्यासे भानमस्ति । तस्माद्रजतादौ इदम इव आत्मनः ससर्गाध्यास एष्टव्यः । तद्विपर्ययेणेति । तस्य अध्यस्तस्य जडस्य विपर्ययोऽधिष्ठानत्वम्, चैतन्यं च तदात्मना स्थितमिति यावत् । तत्र अज्ञाने केवलान्तरः संसर्गः, मनसि अज्ञानोपहितस्य, देहादौ मन-

रत्नप्रभाका अनुवाद

अध्यास करते हैं । इस बातको “तथान्तःकरण” इत्यादि भाष्यसे कहते हैं । धर्मका अध्यास कहकर इसी प्रकार धर्मोंका अध्यास होता है, इस बातको “एव” इत्यादि ग्रन्थसे कहते हैं । ‘में’ ऐसे ज्ञानको उत्पन्न करनेवाले अन्तरिन्द्रिय मनका साक्षीभूत आत्मामें अभेदाध्यास करके मनके धर्म—काम आदिका अध्यास करते हैं । स्व—मनकी प्रचार—श्रुति । ‘प्रातिलोम्येन अञ्चतीति प्रत्यक्’ प्रातिलोम्य अर्थात् विपरीत रीतिसे—असत्, जड़, दुःखात्मक अहङ्कार आदिसे विलक्षण स्वरूप अर्थात् सत्, चित्त, सुखात्मक स्वरूपसे—जो प्रकाशता है, वह प्रत्यक् है । ऐसा प्रत्यक् आत्मा प्रत्यगात्मा है । इस प्रकार आत्मामें अनात्मा और उसके धर्मोंके अध्यासका उदाहरण देकर अनात्मामें आत्माका भी संसर्गाध्यास कहते हैं—“तं च” आदिसे । ‘अह’ इस अध्यासमें चिदात्माका भान कहना आवश्यक है । अन्यथा जगत् अन्ध अर्थात् भानशून्य हो जायगा । जिसका अध्यास नहीं होता, उसका अध्यासमें भान नहीं होता है । इसलिए आरोपित रजत आदिका जैसे ‘इदं’ अशमें भान होता है, उसी तरह आत्माका अहङ्कार आदिमें संसर्गाध्यास ही कहना चाहिए । “तद्विपर्ययेण” उस अध्यस्त जड़का विपर्यय—अधिष्ठानत्व, चैतन्य तद्रूपसे स्थित है ऐसा तात्पर्य है । यहाँ विशेषरूपसे

भाष्य

नन्तो नैसर्गिकोऽध्यासो मिथ्याप्रत्ययरूपः कर्तृत्वभोक्तृत्वप्रवर्तकः सर्व-

भाष्यका अनुवाद

मिथ्याज्ञानस्वरूप और (आत्मामें) कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि उत्पन्न करनेवाला यह

रत्नप्रभा

उपहितस्य इति विशेषः । एवमात्मनि बुद्ध्याद्यध्यासात् कर्तृत्वादिलाभः ।
बुद्ध्यादौ च आत्माध्यासात् चैतन्यलाभ इति भावः । वर्णिताध्यासमुपसंहरति—
एवमयमिति । अनाद्यविद्यात्मकतया कार्याध्यासस्य अनादित्वम् । अध्यासात्
संस्कारः ततोऽध्यास इति प्रवाहतो नैसर्गिकत्वम् । एवमुपादानं निमित्तं चोक्तं भवति ।
ज्ञानं विना ध्वसाभावाद् आनन्त्यम् । तदुक्तं भगवद्गीतासु—

“न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा ।” [१५।३] इति ।

हेतुमुक्त्वा स्वरूपमाह—मिथ्येति । मिथ्या माया तथा प्रतीयते इति
प्रत्ययः—कार्यप्रपञ्चः तत्प्रतीतिश्चेत्येवंस्वरूप इत्यर्थः । तस्य कार्यमाह—
कर्तृत्वेति । प्रमाणं निगमयति—सर्वेति । साक्षिप्रत्यक्षमेव अध्यासधर्मि-
ग्राहकं मानम्, अनुमानादिकं तु सम्भावनार्थमिति अभिप्रेत्य प्रत्यक्षोपसंहारः कृतः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

ज्ञातव्य यह है कि अज्ञानमें केवल आत्माका संसर्ग है, मनमें अज्ञानरूप उपाधिसे विशिष्ट
आत्माका और देह आदिमें मनरूप उपाधिसे विशिष्ट आत्माका संसर्ग है । इस प्रकार
बुद्धि आदिके अध्याससे आत्मामें कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदिका भान होता है । आत्माके अध्याससे
बुद्धि आदिमें चैतन्यका भान होता है । अथ वर्णित अध्यासका उपसंहार करते हैं—
“एवमयम्” इत्यादिसे । अविद्या अनादि है और अविद्याका कार्य होनेसे अध्यास अविद्यात्मक
है, इसलिए अध्यासको ‘अनादि’ कहा है । अध्याससे संस्कार उत्पन्न होते हैं और संस्कारोंसे
अध्यास उत्पन्न होता है । इस प्रकार अविच्छिन्न धारा चलती रहती है, इसलिए अध्यासको
‘नैसर्गिक’ कहा है । नैसर्गिकका अर्थ अविच्छिन्न है । इस प्रकार अध्यासके उपादान और
निमित्त दोनों कारण बड़े गये । ज्ञानके बिना अध्यासका नाश नहीं होता, यह जाननेके
लिए अध्यासको ‘अनन्त’ कहा है । यही बात भगवद्गीतामें भी कहा गई है—“इस सत्कार-
रूप माया-मृशवा यहाँ पर वैरा रूप उपलब्ध नहा होता, जैसा कि वर्णित है, न दृगका
अन्त है, न आदि है और न स्थिति ।” अध्यासके हेतुको कहकर “मिथ्याप्रत्ययरूप” इस
विशेषणसे उक्तका स्वरूप कहते हैं । मिथ्या (माया) से जो प्रतीत होता है, वह मिथ्या-
प्रत्यय अर्थात् कार्यप्रपञ्च और उसका प्रतीति तत्स्वरूप है, यह भावार्थ है । “कर्तृत्व-
भोक्तृत्व-प्रवर्तक” दृग विशेषणसे अध्यासके धर्मों को कहते हैं । “सर्वलोकप्रत्यय” इससे

भाष्य

लोकप्रत्यक्षः । अस्यानर्थहेतोः प्रहाणाय आत्मैकत्वविद्याप्रतिपत्तये सर्वे

भाष्यका अनुवाद

अध्यास सब लोगोंके प्रत्यक्ष है । इस अनर्थके हेतु अध्यासका समूल नाश करनेके लिए एवं ब्रह्म और आत्माके ऐक्यका ज्ञान उत्पन्न करनेके लिए सब वेदान्त आरम्भ

रत्नप्रभा

एवमध्यासं वर्णयित्वा तत्साध्ये विषयप्रयोजने दर्शयति—अस्येति । कर्तृत्वाद्यनर्थहेतोरध्यासस्य समूलस्य आत्यन्तिकनाशो मोक्षः, स केनेत्यत आह—आत्मेति । ब्रह्मात्मैक्यसाक्षात्कारस्य प्रतिपत्तिः श्रवणादिभिरप्रतिबन्धेन लामः तस्या इत्यर्थः । विद्यायां कारणमाह—सर्वे इति । आरभ्यन्ते—अधीत्य विचार्यन्ते इत्यर्थः । विचारितवेदान्तानां ब्रह्मात्मैक्यं विषयः, मोक्षः फलमित्युक्तं भवति । अर्थात् तद्विचारात्मकशास्त्रस्याऽपि ते एव विषयप्रयोजने इति ज्ञेयम् । ननु वेदान्तेषु प्राणाद्युपास्तीनां भानात् आत्मैक्यमेव तेषाम् अर्थ इति कथमित्यत आह—यथा चेति । शरीरमेव शरीरकं, कुत्सितत्वात्, तन्निवासी शरीरको जीवः तस्य

रत्नप्रभाका अनुवाद

प्रमाणका उपसंहार करते हैं । साक्षिप्रत्यक्ष ही अध्यासको प्रहण करनेवाला प्रमाण है । अनुमान आदि प्रमाण तो अध्यास की संभावना दिखलानेके लिए हैं, ऐसा मनमें रखकर प्रत्यक्ष प्रमाणसे उपसंहार किया है ।

इस प्रकार अध्यासका वर्णनकर उस अध्याससे साध्य (कृत) विषय और प्रयोजनको “अस्य” इत्यादि ग्रन्थसे दिखलते हैं । कर्तृत्व आदि अनर्थको उत्पन्न करनेवाला जो अध्यास है, उसका समूलनाश अर्थात् आत्यन्तिक नाश मोक्ष है । वह मोक्ष किस प्रकार होता है, इसके लिए कहते हैं—“आत्मा” इत्यादिसे । अर्थात् श्रवण आदिसे “ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं” ऐसा ज्ञान उत्पन्न होनेके लिए । ज्ञानका कारण कहते हैं—“सर्वे” इत्यादिसे । ‘आरभ्यन्ते’ अर्थात् अभ्यसनपूर्वक विचारे जाते हैं । तात्पर्य यह है कि विचार किए हुए वेदान्तका विषय ब्रह्म और आत्माका ऐक्य है और फल मोक्ष है, इसलिए वेदान्तविचारात्मक शास्त्रके भी वे ही विषय और प्रयोजन हैं, ऐसा समझना चाहिए । कोई कहे कि वेदान्तमें प्राण आदिकी उपासना भी है, उनसे ब्रह्म और आत्माका ऐक्य कैसे जाननेमें आता है ? इसका उत्तर “यथा च” इत्यादिसे करते हैं । कुत्सित (निन्दित) होनेसे शरीर ही शरीरक

(१) ‘विस्तरेण निरूपितस्य पदार्थस्य साराशकथनेन तत्रिरूपणममापनमुपसंहार’ (विस्तारसे निरूपित पदार्थका साराश बहकर निरूपणकी समाप्ति करना उपसंहार कहलाता है ।)

(२) आत्मामें कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अनर्थको उत्पन्न करके उनक द्वारा सुख-दुःख, राग द्वेष आदि अनेक अनर्थका हेतु अध्यास है ।

भाष्य

वेदान्ता आरभ्यन्ते । यथा चायमर्थः सर्वेषां वेदान्तानां तथा वयमस्यां शारीरकमीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः ।

भाष्यका अनुवाद

किए जाते हैं । सब वेदान्तोंका जिस प्रकार ब्रह्मात्मैकत्व विषय है, उस प्रकारको हम इस शारीरक मीमांसामें बतायेंगे ।

रत्नप्रभा

ब्रह्मत्वविचारो मीमांसा तस्यामित्यर्थः । उपास्तीनां चित्तेकाग्र्यद्वारा आत्मैक्य-ज्ञानार्थत्वात् तद्वाक्यानामपि महातात्पर्यमैक्ये इति वक्ष्यते । एवमध्यासोक्त्या ब्रह्मात्मैक्ये विरोधाभावेन विषयप्रयोजनवत्त्वात् शास्त्रमारम्भणीयमिति दर्शितम् ॥

इति प्रथमवर्णकम् ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

कहलाता है । ['कुतिसते' (पा० ५।३।७४) इस सूत्रके अनुसार 'शरीर' शब्दके आगे निन्दाके अर्थमें 'क' प्रत्यय लगा है ।] 'शरीरक' जिसका निवास है, वह शारीरक अर्थात् जीव है । ['सोऽस्य निवासः' (पा० ४।३।८९) इस सूत्रसे 'जिसका वह निवास है' इस अर्थमें 'शरीरक' शब्दके आगे 'अण्' प्रत्यय लगाने एवं 'आदिच्छुद्धि' करने पर 'शारीरक' शब्दकी निष्पत्ति होती है ।] शारीरककी मीमांसा अर्थात् जीव ब्रह्म है ऐसे ब्रह्मत्व-विचारका नाम शारीरक-मीमांसा है । चित्तकी एकाग्रता द्वारा ब्रह्म और आत्माके ऐक्यका ज्ञान उत्पन्न करनेका साधन उपासना है, इसलिए उपासना वाक्योंका भी महातात्पर्य ऐक्यमें ही है, ऐसा आगे कहा जायगा । इस प्रकार अध्यासकी उचितसे ब्रह्म और आत्माके ऐक्यमें विरोध नहीं है, ऐसा दिखलाने पर विषय और प्रयोजनके होनेसे शास्त्र आरम्भणीय है, ऐसा दिखलाया गया है ।

* प्रथम वर्णक समाप्त *



(२) जिस प्रकरणमें गहन अर्थका वर्णन किया हो उसे 'वर्णक' अर्थात् व्याख्यान कहते हैं । प्रथम सूत्रके चार वर्णक हैं । (i) अध्यासवर्णक, (जिसमें अध्यासका विचार किया गया है) (ii) अग्रतार्थ-वर्णक (ब्रह्म अग्रतार्थ नहीं है, देवा प्रतिपादन जिसमें किया गया है), (iii) अधिकारिवर्णक (जिसमें अधिकारीका वर्णन किया गया है) और (iv) ब्रह्मरा आपातप्रतिदिवर्णक (जिसमें ब्रह्म स्पष्ट दृष्टिमें प्रगट है, देवा बतलाया गया है) इनमें प्रथम (अध्यास) वर्णक समाप्त हुआ ।

भाष्य

वेदान्तमीमांसाशास्त्रस्य व्याचिख्यासितस्येदमादिर्म सूत्रम्—

भाष्यका अनुवाद

जिसकी हम व्याख्या करना चाहते हैं, उस वेदान्त-मीमांसाशास्त्रका यह प्रथम सूत्र है—

रत्नप्रभा

विचारस्य साक्षाद्विषया वेदान्ताः, तेषां गतार्थत्वागतार्थत्वाभ्यामारम्भ-सन्देहे कृत्स्नस्य वेदस्य विधिपरत्वाद्, विधेश्च “अथातो धर्मजिज्ञासा” [जै० सू० १।१।१] इत्यादिना पूर्वतन्त्रेण विचारितत्वात्, अवगतार्था एव वेदान्ता इत्यव्यवहितविषयाभावात् न आरम्भ इति प्राप्ते ब्रूते—वेदान्तेति । वेदान्त-विषयकपूजितविचारात्मकशास्त्रस्य व्याख्यातुमिष्टस्य सूत्रसन्दर्भस्य इदं प्रथम-सूत्रमित्यर्थः । यदि विधिरेव वेदार्थः स्यात्, तदा सर्वज्ञो वादरायणो ब्रह्म-जिज्ञासां न ब्रूयात्, ब्रह्मणि मानाभावात् । अतो ब्रह्मणो जिज्ञास्यत्वोक्त्या केनापि तन्त्रेण अनवगतब्रह्मपरवेदान्तविचार आरम्भणीय इति सूत्रकृत् दर्शयति । तच्च “व्याचिख्यासितस्य” इति पदेन भाष्यकारो बभाषे ॥

इति द्वितीयवर्णकम् ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

विचारका साक्षात् विषय वेदान्त पूर्वमीमांसासे गतार्थ हो, तो शास्त्र अनारम्भणीय है और यदि अगतार्थ हो, तो शास्त्र आरम्भणीय है ऐसा सन्देह उत्पन्न होता है । यहाँ पर पूर्वपक्ष होता है कि समग्र वेदका तात्पर्य विधिमें है, और विधिका विचार ‘अथातो धर्मजिज्ञासा’ इत्यादि पूर्वतन्त्र (पूर्वमीमांसा) में हो चुका है, इसलिए गतार्थ होनेके कारण वेदान्त अनारम्भणीय है । इस पूर्व पक्षके उत्तरमें भगवान् भाष्यकार कहते हैं—“वेदान्त” इत्यादि । अर्थात् वेदान्तविषयक पूजित विचारात्मक शास्त्र, जिसकी हम व्याख्या करना चाहते हैं और जो भगवान् वादरायणका सूत्र-सन्दर्भ है, उसका यह प्रथम सूत्र है । ऊपरके पूर्वपक्षका निराकरण इस प्रकार है—यदि विधिको ही वेदोंका अर्थ माना जाता, तो ब्रह्ममें प्रमाण न होनेके कारण सर्वज्ञ वादरायण ब्रह्मजिज्ञासा नहीं कहते । ब्रह्म जिज्ञास्य—विचार करने योग्य—है, ऐसी उक्तिसे ब्रह्मज्ञान जिसमें प्रतिपादित किया गया है, ऐसा वेदान्त-विचार किसी तन्त्रसे गतार्थ नहीं है, इसलिए आरम्भणीय है, ऐसा सूत्रकार दर्शाते हैं । भाष्यकार भी ‘व्याचि-ख्यामितस्य’ (जिसकी हम व्याख्या करना चाहते हैं) ऐसा कहकर, अगतार्थ होनेसे शास्त्र आरम्भणीय है, ऐसा दिखलाते हैं ।

* द्वितीय वर्णक समाप्त *

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥१॥

पदच्छेद—अथ, अतः, ब्रह्मणः, जिज्ञासा [मोक्षप्राप्तेन फलवत्या] ।

पदार्थोक्ति—अथ—साधनचतुष्टयसम्पत्त्यनन्तरम्, अतः—फलफलस्य अनित्यत्वात् ज्ञानफलस्य मोक्षस्य च नित्यत्वात् मोक्षप्राप्तेन ब्रह्मज्ञानाय वेदान्त-वास्यानां विचारः (तात्पर्यनिर्णय) फलवत्यः ।

भाषार्थ—साधनचतुष्टय-सम्पत्तिके बाद फलफलके अनित्य होने एवं ज्ञान-फल मोक्षके नित्य होनेसे मोक्षकी अभिप्राया फलनेवाले समझनेको, ज्ञानके लिए, वेदान्त वास्यानां विचार करना चाहिये ।

[१ जिज्ञासाधिकरण]

अविचार्यं विचार्यं वा ब्रह्माध्यासानिरूपणात् । असन्देहापत्त्वान्म्यां न विचारं तदर्हति ॥
अध्यासोऽहंशुद्धिरिदोऽसंगं ब्रह्म धूर्तिरितम् । सन्देहान्मुक्तिभाषाद्य विचार्यं ब्रह्म येदतः ॥

(१) दु राववाभिधाताभिज्ञासा तदप्यातके हेतौ । दृष्टे साऽपार्था चेभ्रैकान्ताल-त्रोऽभावात् ॥
आध्यात्मिक—शारीरिक और मानसिक (शारीरिक—वात, पित्त और कफकी विषमतासे उत्पन्न, मानसिक—वाम, मोष आदिसे उत्पन्न), आधिदैविक—(यज्ञ, राक्षस, ब्रह्म आदिसे उत्पन्न), आधिभौतिक—(मनुष्य, पशु, यज्ञ आदि तथा स्वप्न आदिके निमित्तमे उत्पन्न) तीन प्रकारके दु सौंवा आत्मज होनेसे उनकी निश्चितिके लिए जिज्ञासा वर्तव्य है । यदि ब्रह्म कि दृष्ट उपायो औपधि, मनोऽह स्त्री, मोचन आदि, गणि, मन्त्र आदि तथा नीति शास्त्रमें सुशुद्धता आदि से उनका प्रतीकार हो सकता है । ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इन उपायोसे अन्वय निश्चित नहीं होती और निश्चित होकर फिर ब्रह्म दु ख न हो यह भी बात नहीं है ।

दृष्टवदानुभविक स द्वाविशुद्धियथातिशययुक्त । तद्विपरीत भवान् स्वकाव्यक्तविज्ञानात् ॥
वैदिककर्मवहाय (याग आदि) भी उपयुक्त दृष्ट उपायोके ही तुल्य है । और वह आधिभौतिक (यज्ञमें होनेवाली हिंसा आदि), दय (पुण्य क्षीण होने पर स्वर्गसे पतन) और अतिशय (ज्योतिष्टोम यज्ञ करने वालोंको स्वर्ग होता है और वाजपेय करने वाले ब्रह्मके उच्च अधिवारी होते हैं) से युक्त है । इस प्रकार ऐश्वर्यमें तारतम्य है । ब्रह्माण मार्ग इन सबमें पृथक् है, और उसकी प्राप्ति ब्यक्त (महत्त्व, अहङ्कार, पाँच तन्मात्राएँ, पाँच महाभूत, दस इन्द्रियों और एक मन ये २३ तत्त्व) अव्यक्त (प्रधान—मूल प्रकृति) और स (पुरुष—चेतन) के विशेष ज्ञानसे होती है ।

आ ब्रह्मजुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन ! ।

मासुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ (गी० ८।१६)

हे अर्जुन, ब्रह्मलोकपर्यन्त सब लोक पुनरावर्तीस्वभाववाले हैं, परन्तु हे कुन्तीपुत्र, मुझको प्राप्त होकर फिर जन्म नहीं होता ।

[अधिकरणसार]

संशय—ब्रह्मविचारात्मक यह शास्त्र आरम्भ करने योग्य है अथवा नहीं ?

पूर्वपक्ष—परस्पर विरुद्ध स्वभावनाले देह, इन्द्रिय आदि तथा आत्मामें परस्पर अप्यास नहीं बन सकता, अपना आपा ही तो ब्रह्म है, अपने आपमें किसीको सन्देह नहीं होता और अपने आपका निश्चय होनेपर मुक्ति नहीं देसी जाती। इसलिए यह शास्त्र आरम्भ करने योग्य नहीं है।

सिद्धान्त—श्रुतिमें असङ्ग ब्रह्म ही आत्मा कहा गया है, लोकमें प्रायः सभी लोगोंकी देहमें आत्मबुद्धि देसी जाती है। अतः असङ्ग ब्रह्म आत्मा है या देह आदि ही आत्मा है ऐसा सन्देह हो सकता है। मुक्तिमें श्रुति और विद्वानोंका अनुभव प्रसिद्ध है, इसलिए सिद्ध हुआ कि ब्रह्मके अपरोक्ष ज्ञानके लिए वेदान्त वाक्योंके तात्पर्यका निर्णय करनेवाला प्रस्तुत शास्त्र आरम्भ करने योग्य है। अर्थात् मुमुक्षुओंको ब्रह्मज्ञानके लिए वेदान्त विचार करना चाहिये।



(१) “अह ब्रह्मासि” (मैं ब्रह्म हूँ) “अयमात्मा ब्रह्म” (यह आत्मा ब्रह्म है) ।

(२) “अमज्ञो ह्यय पुरुष.” (यह पुरुष अज्ञ है) “अयमारमा ब्रह्म” (यह आत्मा ब्रह्म है) ।

“सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म” (सत्य, ज्ञान और अनन्तरूप ब्रह्म है)

“भिषते हृदयमग्निदिष्ठयन्ते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य वर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥”-

उस परम पुरुषके साक्षात्कारके बाद हृदयमग्नि खुल जाती है, सब सन्देह मिट जाते हैं और सब कर्म क्षीण हो जाते हैं।

(३) “अह मनुरस्य सूर्यश्च” (बृह० १।४।१०) (मैं मनु हुआ और मैं ही सूर्य हुआ ।)

तदुक्तमृषिणा गर्भे नु सन्नन्वेपामवेदमह देवाना जनिमानि विश्वा । शत मा पुर आय-
सीररक्षत्रथ. श्येनो जवसा निरदीयमिति । गर्भे पवैतच्छयानो वामदेव पवमुवाच (ऐ० उ० २।४।५)

अर्थ—गर्भमें रहते हुए ऋषि वामदेवने कहा कि मैं गर्भमें रहता हुआ भी इन सम्पूर्ण देवताओंकी उत्पत्तिको जानता हूँ और औपनिषद् आत्मज्ञान मुझको प्राप्त हो गया है। ज्ञानोदयके पूर्व छोड़-निर्मित सैबडों शृङ्खलाओंसे मैं बँधा हुआ था, अब जिस प्रकार जालको काटकर पक्षी शीम निकल जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञानके प्रभावसे मैं बंधनमुक्त हुआ हूँ ।

भाष्य

अत्र अथशब्दः आनन्तर्यार्थः परिगृह्यते नाधिकारार्थः, ब्रह्मजिज्ञासाया

भाष्यका अनुवाद

यहां पर 'अथ' शब्द आनन्तर्यवाचक लिया जाता है। आरम्भवाचक नहीं, क्योंकि ब्रह्मजिज्ञासाका आरम्भ नहीं किया जा सकता और मद्गलका

रत्नप्रभा

एवं वर्णकद्वयेन वेदान्तविचारस्य कर्तव्यतायां विषयप्रयोजनवत्त्वम् अगतार्थत्वं चेति हेतुद्वयं सूत्रस्य आर्थिकार्थं व्याख्याय अक्षरव्याख्यामारम्भमाणः पुनरपि अधिकारिभावाभावाभ्यां शास्त्रारम्भसन्देहे सति अथशब्दस्य आनन्तर्यार्थकत्वोक्त्या अधिकारिणं साधयति—अत्र अथशब्द इति । सूत्रे इत्यर्थः । “मद्गलानन्तरारम्भप्रश्नकात्स्न्येष्वथो अथ” इति [अमरकोशे अव्ययवर्गे] अथशब्दस्य बहवोऽर्थाः सन्ति । तत्र “अथ योगानुशासनम्” [यो० सू० १।१] इत्यत्र सूत्रे यथा अथशब्द आरम्भार्थकः, योगशास्त्रमारभ्यते इति तद्वदत्र किं न स्यात् इत्यत आह—नाधिकारार्थ इति । अयमाशयः—किं जिज्ञासापदं

रत्नप्रभाका अनुवाद

इस प्रकार दो वर्णकोंमें बतलया है कि वेदान्त-विचार करनेके दो हेतु हैं। प्रथम तो यह कि उनके (वेदान्त-वाक्योंके) विषय और प्रयोजन हैं अर्थात् ब्रह्म और जीवात्माका ऐक्यरूप विषय है और मोक्षरूप प्रयोजन है। दूसरा यह कि अन्य तन्त्रसे यह विषय गतार्थ नहीं है। सूत्रके आर्थिक—अर्थसिद्ध अर्थकी ऐसी व्याख्या करके अब भाष्यकार अक्षरार्थ कहना आरम्भ करते हैं। शास्त्रके आरम्भ करनेमें यह और भी सन्देह उत्पन्न होता है कि अधिकारी हो तो शास्त्रका आरम्भ करना चाहिए और अधिकारी न हो तो आरम्भ नहीं करना चाहिए। अधिकारीके भाव और अभावसे शास्त्रके आरम्भ करनेमें सन्देह उत्पन्न होनेपर 'अथ' शब्दको आनन्तर्यवाचक मानकर “तत्राय” इत्यादिसे अधिकारीकी सिद्धि करते हैं। 'तत्र' अर्थात् सूत्रमें 'अथो' और 'अथ' शब्दके बहुत अर्थ हैं—मद्गल, अनन्तर आरम्भ, प्रश्न और कात्स्न्य (पूर्णता)। इनमें जैसे 'अथ योगानुशासनम्' (योगानुशासन अर्थात् योगशास्त्रका आरम्भ किया जाता है) इस सूत्रमें 'अथ' शब्द आरम्भवाचक है, वैसे ही यहाँ पर भी 'अथ' शब्द आरम्भवाचक क्यों न लिया जाय ? इसके उत्तरमें कहते

(१) 'नास्ति अनन्तर यस्य सः अनन्तरः । अनन्तरस्य भावः आनन्तर्यम्' एकके पीछे ही दूसरा लगा आवे, वह अर्थात् व्यवधानरहित अनन्तर कहलाता है। अनन्तरका भाव आनन्तर्य है। अनन्तर विशेषण है, इसलिए इस विशेषणसे आनन्तर्य यह भाववाचक नाम हुआ है।

(२) 'अथ भगवान् कुशलं काश्यपः ?' (भगवान् काश्यप कुशलसे तो है ?) इसमें 'अथ' शब्द प्रश्नार्थक है। 'अथ धर्मं व्याख्यास्यामः' (अब धर्मकी व्याख्या करूंगा) इसमें 'अथ' शब्द आनन्तर्य अर्थ में है।

भाष्य

अनधिकार्यत्वात्'। मङ्गलस्य च वाक्यार्थं समन्वयाभावात् । अर्थान्तर-

भाष्यका अनुवाद

वाक्यार्थमें समन्वय नहीं होता, इसलिए अन्य अर्थमें (आनन्तर्य अर्थमें) प्रयुक्त

रत्नप्रभा

ज्ञानेच्छापरम्, उत विचारलक्षकम् ? आद्ये अथशब्दस्य आरम्भार्थत्वेन ब्रह्मज्ञाने-
च्छा आरम्भ्यते इति सूत्रार्थः स्यात्, स च असङ्गतः, तस्या अनारम्भ्यत्वात् ।
नहि प्रत्यधिकरणम् इच्छा क्रियते, किन्तु तया विचारः । न द्वितीयः,
कर्तव्यपदाध्याहारं विना विचारलक्षकत्वायोगात्, अध्याहते च तेनैवारम्भोक्तेः
अथशब्दवैयर्थ्यात् किन्त्वधिकारसिद्धयर्थमानन्तर्यार्थतैव युक्ता इति ।

अधुना सम्भावितमर्थान्तरं दूषयति—मङ्गलस्येति । वाक्यार्थो विचार-
कर्तव्यता । नहि तत्र मङ्गलस्य कर्तृत्वादिना अन्वयोऽस्तीत्यर्थः । ननु सूत्रकृता
शास्त्रादौ मङ्गलं कार्यमिति अथशब्दः प्रयुक्त इति चेत्, सत्यम्, न तस्य अर्थः मङ्गलं
किन्तु तच्छब्दणम् उच्चारणं च मङ्गलकृत्यं करोति । तदर्थस्तु आनन्तर्यमेव इत्याह—

रत्नप्रभाका अनुवाद

हैं—“नाधिकारार्थः” अर्थात् आरम्भवाचक नहीं है । ‘जिज्ञासा’ शब्दका अर्थ ‘ज्ञानकी इच्छा’
है अथवा लक्षणासे विचार ? प्रथम पक्षमें ‘अथ’ शब्दके आरम्भवाचक होनेसे ब्रह्मज्ञानकी
इच्छा आरम्भ की जाती है, ऐसा सूत्रका अर्थ होगा । परन्तु यह अर्थ असङ्गत है, क्योंकि
इच्छा आरम्भ करने योग्य नहीं है । प्रत्येक अधिकरणमें इच्छाका आरम्भ नहीं होता,
अपितु इच्छासे विचार किया जाता है । दूसरे पक्षमें, कर्तव्यपदका अध्याहार किए विना यह
अर्थ सिद्ध नहीं होता । सूत्रमें कर्तव्य पदके अध्याहार करने पर उससे ही आरम्भरूप
अर्थ निकल आता है । ‘ब्रह्म-विचार करना चाहिए’ इसका अर्थ यही है कि ‘ब्रह्म-विचार
आरम्भ करना चाहिए’ । इस प्रकार ‘कर्तव्य’ पदसे ‘अथ’ शब्दके अर्थके निकल आनेसे
‘अथ’ शब्द व्यर्थ हो जाता है, इसलिए दूसरा पक्ष भी नहीं बनता । अतः अधिकारीकी
सिद्धिके लिए आनन्तर्यरूप अर्थ ही युक्त है ।

अथ मङ्गलरूप जो दूसरा अर्थ सम्भावित है, इसमें दोष दिखलते हैं—“मङ्गलस्य” इत्यादिसे ।
‘विचार करना चाहिए’ ऐसा वाक्यार्थ होता है । इसमें मङ्गलका कर्तृत्वरूपसे अथवा अन्य
किसी प्रकारसे अन्वय नहीं हो सकता । इसलिए ‘अथ’ शब्द मङ्गलके अर्थमें नहीं लिया जा
सकता । सूत्रकारको शास्त्रके आरम्भमें मङ्गलाचरण करना चाहिए, इस हेतु ‘अथ’ शब्द
लगाया है, ऐसी शङ्का करना ठीक नहीं है । क्योंकि ‘अथ’ शब्दका अर्थ मङ्गल है, यह न
समझना चाहिए, किन्तु उसके श्रवण और उच्चारणसे मङ्गलकार्य होता है, ऐसा समझना

भाष्य

प्रयुक्त एव हाथशब्दः श्रुत्या मङ्गलप्रयोजनो भवति । पूर्वप्रकृतापेक्षायाश्च
भाष्यका अनुवाद

हुआ ही 'अथ' शब्द श्रवणद्वारा मङ्गलका प्रयोजक होता है । फल (विचार) की

रत्नप्रभा

अर्थान्तरेति । अर्थान्तरम्—आनन्तर्यम् । श्रुत्या—श्रवणेन, शङ्खवीणादिनाद-
श्रवणवद् ओङ्काराथशब्दयोः श्रवणं मङ्गलफलकम् ।

“उँकारश्चाथशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा ।

कण्ठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकाविमौ ॥”

इति स्मरणात् इति भावः ।

ननु प्रपञ्चो मिथ्येति प्रकृते सति, अथैतन्मतं प्रपञ्चः सत्य इत्यत्र पूर्वप्रकृता-
र्थात् उत्तरार्थस्य अर्थान्तरत्वार्थोऽथशब्दो दृष्टः, तथा अत्र किं न स्यात् इत्यत
आह—पूर्वेति । फलतः फलस्येत्यर्थः । ब्रह्मजिज्ञासायाः पूर्वमर्थविशेषः प्रकृतो
नास्ति, यस्मात्तस्या अर्थान्तरत्वमथशब्देन उच्येत । यतः कुतश्चिदर्थान्तरत्वं
सूत्रकृता न वक्तव्यम्, फलभावात् । यदि फलस्य जिज्ञासापदोक्तकर्त्तव्यविचारस्य
हेतुत्वेन यत्पूर्वं प्रकृतं तदपेक्षा अस्ति इति अपेक्षाबलात् प्रकृतहेतुमाक्षिप्य ततोऽ

रत्नप्रभाका अनुवाद

प्पाहिए । उसका अर्थ तो आनन्तर्य ही है, इस बातको “अर्थान्तर” इत्यादिसे कहते हैं ।
शंख, वीणा आदिके शब्द सुननेके समान ‘अथ’ और ‘ओंकार’ के सुननेसे ही
मङ्गलरूप फल होता है । जैसा कि कहा है—“सृष्टिके आदि कालमें, ‘ओंकार’ और ‘अथ’
ये दोनों शब्द ब्रह्माजीके कण्ठसे प्रथम निकले हैं, इसलिए दोनों ही मात्रालिक हैं ।”

शङ्खा—‘अथ’ शब्दका ‘अर्थान्तर’ अर्थ क्यों न लिया जाय । जब एक कहता है—
प्रपञ्च-संसार मिथ्या है, तब दूसरावादी कहता है कि ‘अथैतन्मतं प्रपञ्चः सत्य’ (प्रपञ्च
सत्य है, यह मत है ।) इसमें जैसे ‘अथ’ शब्द प्रथम प्रस्तुत अर्थसे पिछला अर्थ भिन्न है,
ऐसा दिखलाता है अर्थात् जैसे पहले ‘प्रपञ्च मिथ्या है’ यह बात कही है, उसके पीछे
‘प्रपञ्च सत्य है’ ऐसा अर्थान्तर दिखलानेके लिए ‘अथ’ शब्दका प्रयोग किया है, इसी प्रकार
इस सूत्रमें ‘अथ’ शब्दका ‘अर्थान्तर’ अर्थ क्यों न हो ?

समाधान—ब्रह्म-जिज्ञासाके पूर्व कोई भी अर्थ प्रकृत नहीं है । यदि होता तो उससे भिन्न
अर्थ ‘अथ’ शब्दका होता । चाहे जिस किसीसे भिन्न अर्थका ‘अथ’ शब्द वाचक है, ऐसा
सूत्रकार नहीं कह सकते; क्योंकि ऐसा कहनेमें कोई फल नहीं है ।
यदि ‘जिज्ञासा’ शब्दका अर्थ विचार मानकर उसको फल मानें, तो फलके पूर्वमें हेतुकी

रत्नप्रभा

र्थान्तरत्वम् उच्यते, तदा अर्थान्तरत्वमानन्तर्ये अन्तर्भवति हेतुफलभावज्ञानाय आनन्तर्यस्य अवश्यं वाच्यत्वात् । तस्मात् इदमर्थान्तरमित्युक्ते तस्य हेतुत्वाप्रतीतिः । तस्माद् इदमनन्तरमित्युक्ते भवत्येव हेतुत्वाप्रतीतिः । न च अश्वादनन्तरो गौः इत्यत्र हेतुत्वाभावापत्तिरिति वाच्यम् । तयोर्देशतः कालतो वा व्यवधानेन आनन्तर्यस्य अमुख्यत्वात् । अतः सामग्रीफलयोरेव मुख्यम् आनन्तर्यम्, अव्यवधानात् । तस्मिन् उक्ते सति अर्थान्तरत्वं न वाच्यम् । ज्ञातत्वाद् वैफल्यात् च इति भावः । फलस्य विचारस्य पूर्वप्रकृतहेत्वपेक्षया बलाद् यदर्थान्तरत्वं तस्य आनन्तर्याभेदात् न पृथगथशब्दार्थत्वमिति अध्याहृत्य भाष्यं योजनीयम् । यद्वा, पूर्वप्रकृतेऽर्थे अपेक्षा यस्या अर्थान्तरतायाः, तस्याः फल ज्ञानं तद्द्वारा आनन्तर्याव्यतिरेकात् तज्ज्ञाने तस्या ज्ञानतोऽन्तर्भावात् न अथशब्दार्थता इत्यर्थः ।

ननु आनन्तर्यार्थकत्वेऽपि आनन्तर्यस्य अवाधिः क इत्याशङ्क्य आह—

रत्नप्रभाका अनुवाद

अवश्य अपेक्षा रहती है । इसलिए इस अपेक्षाके बलसे हेतुका आक्षेप कर इस हेतुसे अर्थान्तर 'अथ' शब्द बताया है, ऐसा मानें तो ऐसे अर्थान्तरका आनन्तर्य में समावेश होता है, क्योंकि हेतुफलभाव अर्थात् कार्यकारणभाव जाननेके लिए आनन्तर्य अवश्य कहना चाहिए । 'इससे यह अर्थान्तर है, ऐसा कहनेसे हेतुका भान नष्ट होता, किन्तु इससे यह अनन्तर है, इस प्रकार हेतुकी प्रतीति अवश्य होती है । कोई कहे कि 'इससे यह अनन्तर है' ऐसा कहनेसे हेतुका भान हो, तो 'अवश्ये गाय अनन्तर है' इसमें भा हेतुका भान होना चाहिए, अर्थात् कार्यकारणभाव होना चाहिए । यह कथन ठाढ़ नष्ट है । यह आनन्तर्य है, परन्तु मुख्य नहीं है, गौण है । गाय और अश्वके बीचमें देश अथवा कालका कहीं २ व्यवधान (अन्तर) भी रहता है, इसलिए इनमें मुख्य आनन्तर्य नहीं है । सामग्री और फल अर्थात् कारण और कार्यका ही आनन्तर्य मुख्य है, क्योंकि दोनोंके बीचमें व्यवधान नष्ट रहता है । कारणके पाछे किसी भी व्यवधानके बिना कार्य अवश्य होता है । इसलिए आनन्तर्यका मुख्य अर्थ सामग्री और फलका आनन्तर्य है, यहाँ यही अर्थ 'अथ' शब्दका लेना चाहिए । अथ शब्द अर्थान्तरवाचक है, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आनन्तर्यरूप अर्थ कहनेसे ही अर्थान्तरत्वका ज्ञान हो जायगा और कोई विशेष फल भी नष्ट है । फल (विचार) का पूर्वप्रकृत (साधनचतुष्टय) जो हेतु, उसकी अपेक्षा अर्थान्तरका आनन्तर्यमें भेद न होनेके कारण अर्थान्तर आनन्तर्यसे पृथक् अर्थ नष्ट है, भाष्यकी यह योजना अर्थान्तर पदका अध्याहारकर करनी चाहिए । अथवा अध्याहार के बिना—जिम अर्थान्तरताकी पूर्वप्रकृत अर्थमें अपेक्षा है, उसका ज्ञान द्वारा आनन्तर्यमें अन्तर्भाव होनेसे पृथक् अर्थान्तर अर्थ नहीं है, क्योंकि आनन्तर्यके ज्ञानमें अर्थान्तरका ज्ञान हो जाता है, अतः ज्ञान द्वारा दोनों एक हैं ।

आनन्तर्यरूप अर्थ तो लिया, परन्तु आनन्तर्यका अवाधि क्या है अर्थात् किससे

भाष्य

फलत आनन्तर्याव्यतिरेकात् । सति चानन्तर्यार्थत्वे यथा धर्मजिज्ञासा पूर्ववृत्तं वेदाध्ययनं नियमेनापेक्षते, एवं ब्रह्मजिज्ञासापि यत्पूर्ववृत्तं नियमेनापेक्षते तद्वक्तव्यम् । स्वाध्यायानन्तर्यं तु समानम् । नन्विह कर्माव-

भाष्यका अनुवाद

हेतुभूत पूर्वप्रकृतके साथ जो अपेक्षा है, उसका आनन्तर्यसे भेद नहीं है । 'आनन्तर्य' अर्थ होने पर जैसे धर्मजिज्ञासा नियमसे पूर्वमें होनेवाले वेदाध्ययनकी अपेक्षा रखती है, उसी प्रकार ब्रह्मजिज्ञासा भी नियमसे पूर्वमें रहनेवाली जिस वस्तुकी अपेक्षा रखती है, उसे कहना चाहिए । स्वाध्यायका आनन्तर्य तो दोनोमें समान

रत्नप्रभा

सति चेति । यत् नियमेन पूर्ववृत्तं पूर्वभावि असाधारणकारणम्, पुष्कलकारणमिति यावत्, तदेव अवधिरिति वक्तव्यमित्यर्थः । ननु अस्तु धर्मविचारे इव ब्रह्मविचारेऽपि वेदाध्ययनं पुष्कलकारणम् इत्यत आह—स्वाध्यायेति । समानम्—ब्रह्मविचारे साधारणकारणम्, न पुष्कलकारणमित्यर्थः । ननु संयोगपृथक्न्यायेन “यज्ञेन दानेन” (बृ० ४।४।२२) इत्यादिश्रुत्या “यज्ञादिकर्माणि ज्ञानाय विधीयन्ते” इति सर्वापेक्षाधिकरणे (ब्र० सू० ३।४।२६) वक्ष्यते । तथा च पूर्वतन्त्रेण तदवबोधः पुष्कलकारणमिति शङ्कते—नन्विति । इह ब्रह्मजिज्ञासायाम् । विशेषो असाधारणकारणम् । [एकस्य तु उभयार्थत्वे

रत्नप्रभाका अनुवाद

आनन्तर्य लेना चाहिए इस शंकापर 'सति च' इत्यादि कहते हैं । नियमपूर्वक जो पूर्वभावी वस्तु है, उसके ही अवधि मानना चाहिए, अर्थात् पुष्कलकारण अथवा असाधारण कारणको ही अवधि समझना चाहिए । जैसे धर्म विचारमें वेदाध्ययन पुष्कल कारण है, वैसे ब्रह्मविचारमें भी हो, इस शंका पर कहते हैं—“स्वाध्याय” इत्यादि । समान—ब्रह्मविचारमें साधारण कारण है, पुष्कल कारण नहीं है । संयोग पृथक्त्व न्यायके अनुसार स्वर्गका साधन यागकर्म “यज्ञेन विविदिपन्ति” इस श्रुतिसे ब्रह्मदानका भी साधन है यह सर्वापेक्षाधिकरणमें कहेंगे । तब तो पूर्वमीमांसासे बोधित बर्म भी ब्रह्मज्ञानमें पुष्कल ही कारण है । इस शंकाका “नन्विह” इत्यादिसे उत्तर करते हैं । इसमें अर्थात् ब्रह्मजिज्ञासामें । विशेष अर्थात् असाधारण कारण । [‘एकस्य तू०’ एक याग आदिके अनेक फलोंके साथ सम्बन्धमें संयोग (अनेक फलोंके साथ सम्बन्धबोधक वाक्य) का भेद कारण है, तब तो यहाँ भी स्वर्ग आदि

(१) ब्रह्मसाक्षात्कार स्वर्गाश्रमधर्मकी सहायतासे होता है, क्योंकि जैसे योग्यताके अनुसार अथवा रथ चलानेमें योग्य होता है वैसे ही याग आदिका 'यज्ञेन विविदिपन्ति' इस श्रुतिके अनुसार ब्रह्मसाक्षात्कारमें विनियोग हो सकता है ।

भाष्य

बोधानन्तर्यं विशेषः । न, धर्मजिज्ञासायाः प्रागप्यधीतवेदान्तस्य ब्रह्म-
भाष्यका अनुवाद

है । यदि कहो कि इसमें कर्मज्ञानका आनन्तर्य विशेष है, तो ऐसा नहीं है ।
जिसने वेदान्तका अध्ययन किया है, उसे धर्मजिज्ञासाके पूर्व में भी ब्रह्मजिज्ञासा

रत्नप्रभा

संयोगपृथक्त्वम्” इति जैमिनिसूत्रम्, तदर्थस्तु—एकस्य कर्मण उभयार्थत्वे
अनेकफलसम्बन्धे संयोगः उभयसम्बन्धबोधकं वाक्यं तस्य पृथक्त्वं भेदः स
हेतुः । ततश्च अत्रापि ज्योतिष्टोमादिकर्मणां स्वर्गादिफलकानामपि
“यज्ञेन दानेन” इत्यादिवचनात् ज्ञानार्थत्वं चेति ।] परिहरति—न इत्यादिना ।
अयमाशयः—न तावत् पूर्वतन्त्रस्थं न्यायसहस्रं ब्रह्मज्ञाने तद्विचारे वा पुष्कल-
कारणम्, तस्य धर्मनिर्णयमात्रहेतुत्वात् । नापि कर्मनिर्णयः, तस्य अनुष्ठानहेतु-
त्वात् । नहि धूमान्योरिव धर्मब्रह्मणोर्व्याप्तिरस्ति, यथा धर्मज्ञानाद् ब्रह्मज्ञानं
भवेत् । यद्यपि शुद्धिविवेकादिद्वारा कर्माणि हेतवः, तथापि तेषां नाधिकारि-
विशेषणत्वम्, अज्ञातानां तेषां जन्मान्तरकृतानामपि फलहेतुत्वात् । अधिकारि-
विशेषणं ज्ञायमानं प्रवृत्तिपुष्कलकारणम् आनन्तर्यावधित्वेन वक्तव्यम् । अतः
कर्माणि, तदवबोधः, तन्न्यायविचारो वा न अवधिरिति न ब्रह्मजिज्ञासाया धर्मजिज्ञासा-
नन्तर्यमिति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

फलके साधक ज्योतिष्टोम आदि याग “यज्ञेन दानेन” आदि वचनके अनुसार ज्ञानके लिए
भी हैं ।] “न” इत्यादिसे शङ्कना समाधान करते हैं । उसका तात्पर्य इस प्रकार
है । पूर्वमीमांसामें जो एक सहस्र न्याय कहे गए हैं, वे ब्रह्मज्ञान अथवा उसके विचारके
असाधारण कारण नहीं हैं, क्योंकि वे न्याय तो धर्म-निर्णय मात्रके ही कारण हैं । इसी
प्रकार कर्म-निर्णय भी ब्रह्मज्ञान या उसके विचार का पुष्कल कारण नहीं है; क्योंकि वह तो
अनुष्ठानमानका ही कारण है । धूम और आगिके समान धर्म और ब्रह्म साधक तथा साध्य नहीं
है, अतः उन दोनोंमें व्याप्ति नहीं है, जिससे कि धर्मज्ञानसे ब्रह्मज्ञान हो जाय । कर्मसे मनकी
शुद्धि होती है । मनमें विवेक आदि गुण उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार चित्त शुद्धि द्वारा कर्म यद्यपि
कारण है, तो भी वह अधिकारीका विशेषण नहीं है । जिसने कर्म किया है, वही अधिकारी
हो ऐसा नियम नहीं है । जन्मान्तरकृत कर्मोंका ज्ञान न होने पर भी उनसे फल उत्पन्न
होता है । ब्रह्मजिज्ञासामें प्रवृत्ति होनेके असाधारण कारण जो कि अधिकारीके विशेषणरूपसे
शात होते हैं, उन्हींको आनन्तर्यकी अवाधि कहना चाहिए । इस प्रकार कर्म, उनका ज्ञान

भाष्य

जिज्ञासोपपत्तेः । यथा च हृदयाद्यवदानानामानन्तर्यनियमः, क्रमस्य विवक्षितत्वात्, न तथेह क्रमो विवक्षितः, शेषशेषित्वेऽधिकृताधिकारे वा प्रमाणाभाष्यका अनुवाद

उत्पन्न हो सकती है । और जैसे हृदय आदिके अवदानमें आनन्तर्य (क्रम) का नियम है, क्योंकि क्रमकी विवक्षा है, वैसे यहां क्रमकी विवक्षा नहीं है; धर्म-जिज्ञासा और ह्यजिज्ञासामें शेषशेषिभाव अथवा अधिकृताधिकार माननेमें

रत्नप्रभा

ननु धर्मब्रह्मजिज्ञासयोः कार्यकारणत्वाभावेऽपि आनन्तर्योक्तिद्वारा क्रमज्ञानार्थोऽथशब्दः । “हृदयस्याग्रेऽवद्यत्यथ जिह्वाया अथ वक्षसः” (तै० सं०) इत्यवदानानां क्रमज्ञानार्थशब्दवत् इत्याशङ्क्य आह—यथा इति । अवदानानाम् आनन्तर्यनियमः क्रमो यथा अथशब्दार्थः तस्य विवक्षितत्वाद् न तथेह धर्मब्रह्मजिज्ञासयोः क्रमो विवक्षितः, एककर्तृकत्वाभावेन तयोः क्रमानपेक्षणात् । अतो न क्रमार्थोऽथशब्द इत्यर्थः । ननु तयोरेककर्तृकत्वं कुतो नास्तीत्यत आह—शेषेति । येषामेकप्रधानशेषता यथा अवदानानां प्रयाजादीनां च । ययोश्च

रत्नप्रभाका अनुवाद

अथवा कर्म-मीमांसान्याय-विचार आनन्तर्यकी अवधि नहीं है, इसलिए धर्म जिज्ञासासे ब्रह्मजिज्ञासाका आनन्तर्य नहीं है ।

पूर्वपक्षी कहता है कि “धर्मजिज्ञासा और ब्रह्मजिज्ञासाका कार्यकारणभाव नहीं है तो भी धर्म-जिज्ञासासे ब्रह्मजिज्ञासाका आनन्तर्य कहकर क्रमका ज्ञान करनेके लिए ‘अथ’ शब्द प्रयुक्त है । जैसे ‘हृदयस्याग्रेऽवद्यत्यथ जिह्वाया अथ वक्षसः’ हृदयके अग्रभागका खण्डन करता है, फिर जीभका, फिर छातीका वाक्यमें जैसे ‘अथ’ शब्द अवदानके क्रमका ज्ञान कराने के लिये प्रयुक्त है, इसी प्रकार सूत्रमें ‘अथ’ शब्द धर्म-विचार और ब्रह्म-विचारका क्रम दिखलाने के लिए लगाया है।” इस शंकाका उत्तर देते हैं—यथा इत्यादिसे । सिद्धान्ती कहता है कि अवदानोंके आनन्तर्यका क्रम विवक्षित होने के कारण जैसे अथ शब्दका अर्थ है; वैसे यहाँ नहीं है; क्योंकि धर्मजिज्ञासा और ब्रह्म-जिज्ञासामें क्रमकी विवक्षा नहीं है । उन दोनोंमें क्रमकी अपेक्षा भी नहीं है; क्योंकि दोनोंका कर्ता एक नहीं है । इसलिए यहाँ ‘अथ’ शब्द क्रमरूप अर्थमें नहीं है । शंका होती है कि दोनोंका कर्ता एक क्यों नहीं है? इसपर कहते हैं ‘शेष’ इत्यादि । जो एक प्रधानके अंग हैं, जैसे अवदान (खण्डन)

(१) जहाँ एक प्रधानके अनेक अंग हों, जहाँ शेषशेषिभाव अथवा अपेक्षताधिकार हो वहाँ कर्ता एक होता है । शेष और अंग पर्यायवाचक हैं । शेषी, अंग और प्रधान पर्यायवाचक हैं । श्रीमन्निके ‘शेषः परार्थत्वात्’ (२।१२) इस सूत्रपर शाबरभाष्यमें कहा है कि- ‘यः परस्वोपकारे

रत्नप्रभा

शेषशेषित्वम्, यथा प्रयाजदर्शयोः । यस्य चाधिकृताधिकारत्वम्, यथा अपां प्रणयनं दर्शपूर्णमासाङ्गमाश्रित्य “गोदोहनेन पशुकामस्य” इति विहितस्य गोदोहनस्य । यथा वा “दर्शपूर्णमासाभ्यामिष्ट्वा सोमेन यजेत” इति दर्शाद्युत्तरकाले विहितस्य सोमयागस्य दर्शाद्यधिकृताधिकारत्वं तेषामेककर्तृकत्वं भवति । ततश्चैकप्रयोगवचनगृहीतानां तेषां युगपदनुष्ठानासम्भवात् क्रमाकांक्षायां श्रुत्यादिभिर्हि क्रमो बोध्यते; नैवं जिज्ञासयोः शेषशेषित्वे श्रुतिलिङ्गादिकं मानमस्ति । ननु “ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेद् गृहाद्वनी भूत्वा प्रव्रजेद्” (जा ३० ४) इति श्रुत्या,

“अधीत्य विधिवद्वेदान्पुत्रांश्चोत्पाद्य धर्मतः ।

इष्ट्वा च शक्तितो यजैर्मनो मोक्षे निवेशयेत् ॥ १ ॥”

इति स्मृत्या च अधिकृताधिकारत्वं भातीति तन्न, “ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्” (जा० ३० ४)

रत्नप्रभाका अनुवाद

और प्रयोज, जिन दो पदार्थोंमें अंगाङ्गभाव है, जैसे प्रयाज और दर्श का जिसमें अधिकृताधिकारत्व है, जैसे दर्शपूर्णमासके अंगभूत अप्रणयनका आश्रयकरके ‘गोदोहनेन पशुकामस्य’ (पशु की इच्छावाला पुरुष गोदोहन पात्रमें जल पूरण करे) इस धाम्यसे विहित गोदोहन, और ‘दर्शपूर्ण०’ (दर्शपूर्णमास याग करके सोमयाग करे) इसमें दर्शके बाद विहित सोमयागके प्रति दर्श आदिमें अधिकृत पुरुषका अधिकार है, उनका कर्ता एक होता है । कर्ताके एक होनेसे एक प्रयोग वाक्यमें कहीं गई क्रियाओंका अनुष्ठान एक ही समयमें नहीं हो सकता है, इसलिए वहाँ क्रम की आकांक्षा है, वह क्रम श्रुत्यादि से जानने में आता है । परन्तु धर्म-जिज्ञासा और ब्रह्म-जिज्ञासा में शेष शेषीभाव अथवा अधिकृताधिकार दिखलानेवाले श्रुति, लिङ्ग आदि प्रमाण नहीं हैं ।

शङ्का—श्रुति और स्मृति से अधिकृताधिकार जाना जाता है । जैसे कि ब्रह्मचर्य को समाप्त कर गृही हो, गृहस्थ होनेके पश्चात् वानप्रस्थाश्रम ग्रहण कर सन्यासी बने तथा विंधके अनुसार वेदोंका अध्ययन कर, धर्मानुसार पुन उत्पन्न कर एवं यथाशक्ति यज्ञ करके मोक्षमें मन लगावे । इन श्रुति-स्मृति के अर्थ बोधक वाक्यों से यही जानने में आता है कि जिसको धर्मका अधिकार हुआ होता है, उसे ही ब्रह्मका अधिकार होता है, इसलिए धर्म-विचार और ब्रह्म-विचारमें अधिकृताधिकार है ।

वर्तते स शेष.’ जो दूसरेका उपकार करे वह शेष है, अथवा दूसरेके उद्देशसे जो वर्तमान है, वह शेष है, अथवा गुणभूत अर्थात् अगभूत पदार्थ शेष है । और उक्त अंग जिसका उपकारक हो वह शेषी अर्थात् अंगी है ।

(२) दर्शपूर्णमासके अग्ररूप याग ।

(३) अमावास्या और पूर्णिमामें किये जानेवाले याग ।

(४) सोमलताको खरीदकर, उसका रस निकालकर उसके होमसे सपन्न होनेवाला याग ।

भाष्य

भावात्, धर्मब्रह्मजिज्ञासयोः फलजिज्ञास्यभेदाच्च । अभ्युदयफलं धर्म,

भाष्यका अनुवाद

प्रमाण नहीं है और दोनोंके फल और विषयमें भेद है । धर्म-ज्ञानका फल

रत्नप्रभा

“आसादयति शुद्धात्मा मोक्षं वै प्रथमाश्रमे ॥”

इति श्रुतिस्मृतिभ्यां तस्या उदाहृतश्रुतिस्मृत्योरशुद्धचित्तविषयत्वावगमाद् ।

एतदुक्तं भवति यदि जन्मान्तरकृतकर्मभिः शुद्धं चित्तम्, तदा ब्रह्मचर्यादेव संन्यस्य ब्रह्म जिज्ञासितव्यम् । यदि न शुद्धमिति रागेण ज्ञायते, तदा गृही भवेत्, तत्राप्यशुद्धौ, वनी भवेत्, तत्राप्यशुद्धौ, तथैव कालमाकलयेत्, वने शुद्धौ प्रवृत्ति । तथा च श्रुतिः—“यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रवृत्ते” (जा० उ० ४) इति । तस्माद् न अनयोरधिकृताधिकारत्वे किञ्चित् मानमिति भावः ।

ननु मीमांसयोः शेषशेषित्वमधिकृताधिकारत्वं च मास्तु, एकमोक्षफलकत्वेन एककर्तृकत्वं स्यादेव । वदन्ति हि—“ज्ञानकर्मभ्या मुक्तिः” इति समुच्चयवादिनः । एवमेकवेदार्थजिज्ञास्यकत्वात् च एककर्तृकत्वम् । तथा च आग्नेयादिपंड्यागानामेकस्वर्गफलकानां द्वादशाध्यायानां चैकधर्मजिज्ञास्यकानां क्रमवत्तयोः

रत्नप्रभाका अनुवाद

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्यसे ही संन्यास ग्रहण करे, इस अर्थके बोधक श्रुति-वाक्य और शुद्ध-अन्त करणवाला प्रथम आश्रममें मोक्षका सम्पादन करता है, इस अर्थके बोधक स्मृति वाक्यसे ऐसा सिद्ध होता है कि तुमने जिन श्रुति और स्मृतियों का उदाहरण दिया है, वे अशुद्ध चित्तजालोंके लिए हैं । तात्पर्य यह है कि यदि जन्मान्तरमें किए हुए कर्मोंसे चित्त शुद्ध हो गया हो, तो ब्रह्मचर्यके बाद ही संन्यास लेकर ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए । और संसारमें राग होनेसे यदि शुद्ध हुआ प्रतीत न हो, तो गृहस्थाश्रममें प्रवेश करे, इसमें भी चित्त अशुद्ध रहे, तो वानप्रस्थाश्रमको ग्रहण करे, वहां भी चित्त अशुद्ध रहे, तो उसी आश्रममें कालान्यतीत करे और चित्तके शुद्ध होने पर संन्यास ले । श्रुति भी इसी प्रकार कहती है—‘जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो, उसी दिन संन्यास धारण करले’ इसलिए धर्म-जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासामें अधिकृताधिकार माननेमें कोई भी प्रमाण नहीं है ।

शुद्ध होती है कि धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासामें शेषशेषिभाव अथवा अधिकृतधिकार सम्बन्ध भले ही मत हो, परन्तु इन दोनों मीमांसाओंका मोक्षरूप फल एकही है, इसलिए दोनोंका कर्ता एकही होना चाहिए । केवल ज्ञानसे अथवा केवल कर्मसे मुक्ति नहीं होती, किन्तु ज्ञान और कर्म दोनोंसे मुक्ति होती है, ऐसा समुच्चयवादी कहते हैं । और दोनों मीमांसाओंमें जिज्ञासाका एकही विषय वेदार्थ है, इसलिए भी दोनोंका कर्ता एकही है, जैसे एही स्वर्गरूप फल

भाष्य

ज्ञानं तच्चानुष्ठानापेक्षम् । निःश्रेयसफलं तु ब्रह्मविज्ञानं न चानुष्ठानान्त-

भाष्यका अनुवाद

अभ्युदय है और वह अनुष्ठानकी अपेक्षा रखता है, ब्रह्मज्ञानका फल तो मोक्ष है

रत्नप्रभा

क्रमो विवक्षित इति क्रमार्थोऽथशब्द इत्याशङ्क्य आह—फलेति । फलभेदात् जिज्ञास्यभेदात् च न क्रमो विवक्षित इत्यनुपपन्नः । यथा सौर्यार्यम्णप्राजापत्य-चरूणां ब्रह्मवर्चसस्वर्गायुःफलभेदात्, यथा वा कामचिकित्सातन्त्रयोजिज्ञास्य-भेदात् न क्रमापेक्षा, तद्वन्मीमांसयोर्न क्रमापेक्षेति भावः । तत्र फलभेदं विवृणोति—अभ्युदयेति । विषयाभिमुख्येन उदेतीत्यभ्युदयो विषयाधीनं सुखं स्वर्गादिकम्, तच्च धर्मज्ञानहेतोर्मीमांसायाः फलमित्यर्थः । न केवलं फलस्य स्वरूपतो भेदः, किन्तु हेतुतोऽपीत्याह—तचेति । ब्रह्मज्ञानहेतोर्मीमांसायाः फलं तु तद्विरुद्धमित्याह—निःश्रेयसेति । नित्यं निरपेक्षं श्रेयो निःश्रेयसम्—मोक्षः, तत्फलमित्यर्थः । ब्रह्मज्ञानं च स्वोत्पत्तिव्यतिरिक्तमनुष्ठानं नापेक्षते इत्याह—न चेति । स्वरूपतो हेतुतश्च फलभेदाद् न समुच्चय इति भावः । जिज्ञास्यभेदं

रत्नप्रभाका अनुवाद

उत्पन्न करनेवाले आग्नेय आदि छः यज्ञोंमें क्रम है और धर्मरूप एकही वस्तु, जिनमें जिज्ञास्य है, ऐसे धर्ममीमांसाके चारह अध्यायोंमें क्रम है, इसी प्रकार धर्म-जिज्ञासा और ब्रह्म-जिज्ञासामें भी क्रम की विवक्षा है, इसलिए 'अथ' शब्द क्रमका वाचक है । इस शंकाका निवारण करते हैं—“फल” इत्यादिसे । दोनोंके फल और विषयमें भेद है, इसलिए क्रमकी विवक्षा नहीं है, जैसे सूर्य, अर्यमा और प्रजापतिके चरुके फल—ब्रह्मजैज, स्वर्ग और आयुष्य भिन्न भिन्न हैं, इसलिए इनमें क्रमकी अपेक्षा नहीं है । और जैसे कामशास्त्र तथा चिकित्साशास्त्रोंमें जिज्ञासाके विषयमें भेद है, इसलिए वहाँ क्रमकी अपेक्षा नहीं है, इसी प्रकार धर्म-मीमांसा और ब्रह्म-मीमांसामें क्रमकी अपेक्षा नहीं है । फलका भेद दिखलाते हैं—“अभ्युदय” इत्यादिसे । अभ्युदय अर्थात् विषयके साथ अव्यवहित सम्बन्धसे जिनका उदय हो विषयके अधीन सुख, स्वर्ग आदि । वह सुख धर्मजिज्ञासासे उत्पन्न होनेवाले धर्म-ज्ञानका फल है । दोनों मीमांसाओंका फल स्वरूपमात्रसे ही भिन्न हो, ऐसा नहीं है, किन्तु हेतु से भी भिन्न है । अर्थात् दोनोंके हेतु भिन्न भिन्न हैं, ऐसा “तच्च” से कहते हैं । ब्रह्म-ज्ञान-साधक मीमांसाका फल—निःश्रेयस तो धर्ममीमांसाका फल जो स्वर्ग आदि सुख—अभ्युदय है, उससे विरुद्ध है ऐसा कहते हैं—“निःश्रेयस” इत्यादिसे । नित्य निरपेक्ष श्रेय—मोक्ष

(१) आग्नेय, अश्विपोमीय, उषानुयाग ये तीन यागकर्म पूर्णमामें किये जाते हैं । आग्नेय, ऐन्द्र, उषानुयाग ये तीन यागकर्म अनावारयामें किये जाते हैं । ये छः आग्नेयादिषड्याग कहलाते हैं ।

भाष्य

रापेक्षम् । भव्यश्च धर्मो जिज्ञास्यो न ज्ञानकालेऽस्ति, पुरुषव्यापारतन्त्रत्वात् । इह तु भूतं ब्रह्म जिज्ञास्यम्, नित्यत्वात् न पुरुषव्यापारतन्त्रम् । चोदनाप्रवृत्तिभेदाच्च । या हि चोदना धर्मस्य लक्षणं सा स्वविषये

भाष्यका अनुवाद

और उसे अन्य अनुष्ठानकी अपेक्षा नहीं है । धर्मजिज्ञासाका विषय जो धर्म है, वह साध्य है, ज्ञान-कालमें नहीं है; क्योंकि वह पुरुषव्यापारके अधीन है । यहाँ तो जिज्ञासाका विषय जो ब्रह्म है, वह नित्य होनेसे पुरुषव्यापारके अधीन नहीं है और बोध करानेवाले प्रमाणकी प्रवृत्तिके भेदसे भी जिज्ञास्य-भेद है । जो विधि धर्ममें प्रमाण है, वह पुरुषको स्वविषय (धर्म) में प्रवृत्त कराती हुई ही

रत्नप्रभा

विवृणोति—भव्यश्चेति । भवतीति भव्यः साध्य इत्यर्थः । साध्यत्वे हेतुमाह—नेति । तर्हि तुच्छत्वम्, न इत्याह—पुरुषेति । पुरुषव्यापारः प्रयत्नः तन्त्रं हेतुर्यस्य तत्त्वात् इत्यर्थः । कृतिसाध्यत्वात् कृतिजनकज्ञानकाले धर्मस्य असत्त्वम्, न तुच्छत्वात् इत्यर्थः । ब्रह्मणो धर्माद् वैलक्षण्यमाह—इह त्विति । उत्तरमीमांसायामित्यर्थः । भूतम्—असाध्यम् । तत्र हेतुः—नित्येति । सदा सत्त्वाद् इत्यर्थः । साध्यासाध्यत्वेन धर्मब्रह्मणोः स्वरूपभेदमुक्त्वा हेतुतोऽपि आह—नेति । धर्मवत् कृत्यधीनं नेत्यर्थः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

ब्रह्मज्ञानका फल है । ब्रह्मज्ञान अपनी उत्पत्तिसे भिन्न अनुष्ठानकी अपेक्षा नहीं रखता है ऐसा कहते हैं—“न च” इत्यादिसे । अभिप्राय यह है कि धर्म और ब्रह्मज्ञानके फल स्वरूपसे और हेतुसे भिन्न भिन्न हैं, इसलिए उनका समुच्चय नहीं हो सकता है । धर्मजिज्ञासा और ब्रह्मजिज्ञासाके विषयमें किस प्रकार भेद है, इसका स्पष्टीकरण करते हैं—“भव्यश्च” इत्यादिसे । धर्मजिज्ञासाका विषय जो धर्म है, वह साध्य है अर्थात् उत्पन्न होनेवाला है, ज्ञानकालमें नहीं है अर्थात् जिस समय उसका ज्ञान होता है, उस समय नहीं रहता है, क्योंकि ज्ञानसे इच्छा होती है, इच्छासे प्रयत्न होता है और प्रयत्न से धर्म निष्पाद्य है । धर्म पुरुषके व्यापार (कृति) के अधीन है अर्थात् कृतिसाध्य है । इससे कृतिको उत्पन्न करनेवाले ज्ञानके समय धर्म नष्ट रहता है । उस समय धर्मकी असत्तामें यही कारण है, तुच्छता कारण नहीं है । ब्रह्मही धर्मसे विलक्षणता बतलाते हैं—“इह तु” इत्यादिसे । यहाँ अर्थात् उत्तरमीमांसामें । सिद्ध है अर्थात् धर्मके समान साध्य नहीं है, असाध्य है । असाध्यतामें हेतु बतलाते हैं—“नित्येति” अर्थात् सदा रहनेके कारण धर्मको साध्य और ब्रह्मको असाध्य कहकर दोनोंके स्वरूपमें भेद दिखलाया । अब हेतुसे भेद दिखलानेके लिए कहते हैं—“न” इत्यादि । जैसे धर्म कियाने

भाष्य

नियुञ्जानैव पुरुषमवबोधयति । ब्रह्मचोदना तु पुरुषमवबोधयत्येव केवलम्, अवबोधस्य चोदनाञ्जन्यत्वान्न पुरुषोऽवबोधे नियुज्यते । यथाक्षार्थसंनि-

भाष्यका अनुवाद

बोध कराती है । ब्रह्मबोधक प्रमाण तो पुरुषको बोधमात्र ही कराता है, प्रवृत्ति कराता हुआ बोध नहीं कराता । बोध (प्रवृत्ति-सहित बोध) ब्रह्मप्रमाणसे जन्य नहीं है । इसलिए (विधि द्वारा) पुरुषको बोधमें प्रवृत्त नहीं करता ।

रत्नप्रभा

मानतोऽपि भेदमाह—चोदनेति । अज्ञातज्ञापकं वाक्यमत्र चोदना । तस्याः प्रवृत्तिः बोधकत्वं तद्वैलक्षण्याच्च जिज्ञास्यभेद इत्यर्थः । संग्रहवाक्यं विवृणोति—या हीति । लक्षणं प्रमाणम् । “स्वर्गकामो यजेत” इत्यादिवाक्यं हि स्वविषये धर्मे यागादिकरणकस्वर्गादिफलकभावनारूपे फलहेतुयागादिगोचरनियोगे वा हितसाधने यागादौ वा पुरुषं प्रवर्तयद् एव अवबोधयति । “अयमात्मा ब्रह्म” (बृ० २। ५।१९) इत्यादि वाक्यन्तु त्वमर्थं केवलम् अप्रपञ्चं ब्रह्म बोधयत्येव न प्रवर्तयति, विषयाभावात् इत्यर्थः । ननु अवबोध एव विषयस्तत्राह—न पुरुष इति । ब्रह्मचोदनया

रत्नप्रभाका अनुवाद

अधीन है, वैसे ब्रह्म किसी क्रिया के अधीन नहीं है । धर्म और ब्रह्ममें प्रमाणसे भी भेद दिखलाते हैं—“चोदना” इत्यादिसे । जिसे लोग जानते न हों, उसे जतानेवाला वैदिक शब्दमान यहाँ पर चोदना है । अभिप्राय यह है कि चोदनाकी प्रवृत्ति अर्थात् बोधजनकता के भेद से भी जिज्ञास्य धर्म और ब्रह्ममें भेद है । संग्रह-वाक्यका विवरण करते हैं—“या हि” इत्यादिसे । लक्षण—प्रमाण । ‘स्वर्गकामो’ (स्वर्गकी इच्छा करनेवाला यज्ञ करे) इत्यादि विधिवाक्य अपने विषय-धर्ममें अर्थात् याग आदि जिसका साधन है, उस स्वर्गादि फलकी भावनामें, अथवा फलके कारण जो याग आदि हैं उन यागादि विषयक अपूर्वमें, अथवा हितके साधक याग आदिमें पुरुषको प्रवृत्त कराते ही बोध कराते हैं । ‘अयमात्मा’ इत्यादि वाक्य तो ‘त्वं ब्रह्मो-भिन्न’ इस प्रकार जीवमें अप्रपञ्च ब्रह्मके अभेदका बोध ही कराते हैं । पुरुषको किसी काममें प्रवृत्त नहीं कराते, क्योंकि जब विषय ही नहीं है तो किसमें प्रवृत्त करावें ? यदि कोई कहे कि बोध ही विषय है, तो इस संबंधमें कहते हैं—“न पुरुष” इत्यादि । ब्रह्मचोदनासे पुरुष बोधमें

(१) मामासावाधिककार भावनाको, प्रभाकर अपूर्वको और वेदान्ती हितसाधनत्वको लिङ्ग्य मानते हैं । यद्यपि वे ही तीन मत क्रमसे दिखलाये गये हैं ।

(२) शङ्का—भ्रुतिमें ‘अयम्’ पाठ है रत्नप्रभामें ‘त्वम्’ अनुवाद कैसे किया ?

समाधान—उपदेश वाक्य परार्थ होता है, इससे भ्रुतिपटक ‘अयम्’ पद सम्बोध्य त्वमर्थपरक है, इस अभिप्रायसे त्व परसे कथन किया है ।

भाष्य

कर्पेणार्थावबोधे तद्वत् । तस्मात् किमपि वक्तव्यं यदनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासोप-
दिश्यते इति । उच्यते—नित्यानित्यवस्तुविवेकः, इहामुत्रार्थभोग-
भाष्यका अनुवाद

जैसे इन्द्रिय और विषयके सन्निकर्षसे पदार्थ-ज्ञान होता है, किन्तु प्रवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार । इसलिए जिसके अनन्तर ब्रह्म-जिज्ञासाका उपदेश किया जाता है, ऐसा कोई असाधारण कारण कहना चाहिए । असाधारण कारण बतलाते हैं—नित्य और अनित्य वस्तुका विवेक, इस लोकमें और परलोकमें

रत्नप्रभा

पुरुषोऽवबोधे न प्रवर्त्यते इत्यत्र हेतुं पूर्ववाक्येन आह—अवबोधस्येति ।
स्वजन्यज्ञाने स्वयं प्रमाणं न प्रवर्तकमित्यत्र दृष्टान्तमाह—यथेति ।
मानादेव बोधस्य जातत्वात्, जाते च विध्ययोगात् न वाक्यार्थज्ञाने
पुरुषप्रवृत्तिः । तथा च प्रवर्तकमानमेयो धर्मः, उदासीनमानमेयं ब्रह्म,
इति जिज्ञास्यभेदात् न तन्मीमांसयोः क्रमार्थो अथशब्द इति भावः ।
एवमथशब्दस्य अर्थान्तरासम्भवात् आनन्तर्यवाचित्वे सति तदवधित्वेन पुष्कल-
कारणं वक्तव्यमित्याह—तस्मादिति । उपदिश्यते । सूत्रकृतेति शेषः ।
तत्किमित्यत आह—उच्यते इति । विवेकादीनाम् आगमिकत्वेन प्रामाणिकत्वं
पुरस्तात् एव उक्तम् । लौकिकव्यापारात् मनस उपरमः शमः । बाह्यकरणानाम्

रत्नप्रभाका अनुवाद

नहीं प्रवृत्त होता है, इसका कारण “अवबोधस्य” इत्यादि पूर्ववाक्यसे दिखलाया है । जो ज्ञान जिससे उत्पन्न होता है, उस ज्ञानमें वह स्वयं प्रमाण होता है, किन्तु प्रवर्तक नहीं होता है । इसमें दृष्टान्त देते हैं—“यथा” इत्यादिसे । प्रमाणसे ही बोध उत्पन्न हो गया है और उत्पत्तिके अनन्तर उस विषयमें विधि नहीं हो सकती, इसलिए वाक्यार्थ-ज्ञानमें पुरुषकी प्रवृत्ति नहीं होती । तात्पर्य यह है कि धर्म प्रवर्तक प्रमाणसे गम्य है और ब्रह्म उदासीन अर्थात् प्रवर्तकसे भिन्न प्रमाणसे गम्य है । इस प्रकार धर्म और ब्रह्म इन दोनों जिज्ञास्योंमें भेद है, इसलिए ‘अथ’ शब्द धर्ममीमांसा और ब्रह्ममीमांसाके क्रमका वाचक नहीं है । इस प्रकार अथ शब्दका कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता है, अतः आनन्तर्यरूप अर्थ लेना चाहिए । परन्तु आनन्तर्यकी अवधि क्या है ? किसकी अपेक्षा आनन्तर्य बतलाया है ? उस अवधिरूप पूर्ण कारणको बतलाना चाहिए ऐसा कहते हैं—“तस्मात्” इत्यादिसे । उपदेश किया जाता है के पहले ‘सूत्रकारसे’ इतना भाष्यमें शेष रामझना चाहिए । ‘उच्यते’ इत्यादिसे आनन्तर्यकी अवधि बतलाते हैं । विवेक, वैराग्य, क्षमादिपदक और सुमुखा ये चार अवधि हैं—विवेक आदि ध्रुतिसिद्ध होनेसे

भाष्य

विरागः, शमदमादिसाधनसम्पत्, मुमुक्षुत्वं च । तेषु हि सत्सु प्रागपि धर्म-
जिज्ञासाया ऊर्ध्वं च शक्यते ब्रह्म जिज्ञासितुं ज्ञातुं च न विपर्यये । तस्मात्
अथशब्देन यथोक्तसाधनसम्पत्त्यानन्तर्यमुपदिश्यते । अतः शब्दो हेत्वर्थः ।

भाष्यका अनुवाद

विषय-भोगके प्रति विराग, शम, दम आदि साधन-सम्पत्ति और मोक्षकी इच्छा-
इतना हो, तो धर्मजिज्ञासाके पहले और पीछे भी ब्रह्मज्ञानकी इच्छा हो सकती
है और ब्रह्मज्ञान भी हो सकता है । इन चार साधनोंके विना दोनों नहीं
हो सकते, इसलिए 'अथ' शब्दसे पूर्वोक्त साधन-संपत्तिसे आनन्तर्यका

रत्नप्रभा

उपरमो दमः । ज्ञानार्थं विहितनित्यादिकर्मसंन्यास उपरतिः । शीतोष्णादिद्वन्द्व-
सहन तितिक्षा । निद्रालस्यप्रमादत्यागेन मनःस्थितिः समाधानम् । सर्वत्र आस्ति-
कता श्रद्धा । एतत्पट्कप्राप्तिः शमादिसम्पत् । अत्र विवेकादीनामुत्तरोत्तरहेतु-
त्वेनाधिकारिविशेषणत्वं मन्तव्यम् । तेषामन्वयव्यतिरेकाभ्यां ब्रह्मजिज्ञासाहेतु-
त्वमाह—तेष्विति । अथ कथंचित् कुतूहलितया ब्रह्मविचारप्रवृत्तस्यापि फलपर्यन्तं
तज्ज्ञानानुदयाद् व्यतिरेकसिद्धिः । अथशब्दव्याख्यानमुपसंहरति—तस्मादिति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

प्रामाणिक हैं, यह पहले कह चुके हैं । शैथिल्य व्यापारसे मनकी निश्चिन्ता 'शम' है । बाह्य
इन्द्रियोंको वशमें रखना 'दम' है । आत्मज्ञान प्राप्त करनेके लिए शास्त्रमें विधान किये हुए
नित्य आदि कर्मोंका त्याग 'उपरति' है । शांत-उष्ण, सुख-दुख आदि द्वन्द्वोंका सहन करना तितिक्षा
है । निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदिका त्याग करके मनको एकाग्र करना 'समाधान' है । सर्वत्र वेद,
शास्त्र आदिमें आस्तिकता 'श्रद्धा' है । शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा
ये शमदमादिसाधनसम्पत्तियाँ हैं । यहाँ विवेक आदि उत्तरोत्तरके हेतु होकर अधिकारीके विशेष
पण हैं अर्थात् विवेकसे वैराग्य प्राप्त होता है, वैराग्यसे शम, दम आदि साधन सम्पत्तियाँ
उत्पन्न होती हैं और उनसे मोक्षकी इच्छा उत्पन्न होती है । जो इन साधनोंसे युक्त है, वह
अधिभारी है । अन्वय-व्यतिरेकसे ये चारों साधन ब्रह्म जिज्ञासाके कारण हैं, इस बातको
'तेषु' इत्यादिसे दिखलते हैं । यदि कोई साधन चतुष्टय सम्पत्तिसे हान पुरुष इतूहलते
किसी प्रकार ब्रह्मविचारमें प्रवृत्त हो भी जाय तो उसको फलपर्यन्त अपरोक्ष अनुभवरूप
ब्रह्मज्ञान नहीं होता है । इसलिए विवेक, वैराग्य आदिके अभावमें ब्रह्मज्ञान नहीं होता यह

(१) आत्मा नित्य है और ऐहिक या स्वर्गादि मुख अनित्य हैं ऐसा विवेक जिसको नहीं है,
उसको मुख साधन—रूप, रस आदि विषयोंसे वैराग्य कैसे होगा, और जिसको वैराग्य नहीं है,
वह विषयसे मन और बहिरिन्द्रियोंका निग्रह कैसे कर सवेगा ? जब तक शम और दम न हों
तब तक उसको मोक्षकी इच्छा कैसे हो सकती है इस प्रकार ये उत्तरोत्तरके पूर्व पूर्व साधन हैं ।

भाष्य

यस्माद्धेद एवाग्निहोत्रादीनां श्रेयःसाधनानामनित्यफलतां दर्शयति—
‘तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते’
भाष्यका अनुवाद

उपदेश होता है। ‘अतः’ शब्द हेतुवाचक है। “तद्यथेह०” जैसे खेती आदिसे उपार्जित भोग्य पदार्थ क्षीण हो जाते हैं, इसी प्रकार परलोकमें पुण्यसे सम्पादन किए हुए लोकोंका क्षय हो जाता है) इत्यादि श्रुति-वाक्य कल्याणके साधक अग्निहोत्र आदिके फल स्वर्ग आदिमें अनित्यता दर्शाते हैं।

रत्नप्रभा

ननु उक्तविवेकादिकं न सम्भवति, “अक्षय्यं ह वै चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतम्” इत्यादिश्रुत्या कर्मफलस्य नित्यत्वेन ततो वैराग्यासिद्धेः। जीवस्य ब्रह्मस्वरूप-मोक्षश्च अयुक्तः, भेदात्; तस्य लोष्टादिवत् पुरुषार्थत्वायोगाच्च। ततो न मुमुक्षा-सम्भव इत्याक्षेपपरिहारार्थः—अतः शब्दः। तं व्याचष्टे—अतःशब्द इति। अथ-शब्देन आनन्तर्यवाचिना तदवधित्वेन अर्थात् विवेकादिचतुष्टयस्य ब्रह्मजिज्ञासाहेतुत्वं यदुक्तं तस्य आर्थिकहेतुत्वस्य आक्षेपनिरासाय अनुवादकोऽतःशब्द इत्यर्थः। उक्तं विवृणोति—यस्मादिति। तस्मादिति उत्तरेण सम्बन्धः। “यदल्पं तन्मर्त्यम्,

रत्नप्रभाका अनुवाद

व्यतिरेकं सिद्ध होता है। अब ‘अथ’ शब्दकी व्याख्याका उपसंहार करते हैं “तस्मात्” इत्यादिसे।

यहां कोई ऐसी शंका करे कि उक्त चार साधन हो नहीं सकते; क्योंकि ‘अक्षय्यं०’ (चातुर्मास्यं यज्ञ करनेवालेका सुकृत नाशरहित है) इत्यादि श्रुतियोंसे कर्मफल नित्य है, इसलिए स्वर्ग आदि सुखसे वैराग्य सिद्ध नहीं होता, जीव ब्रह्मसे भिन्न है, अतः जीवको ब्रह्मस्वरूप मोक्ष भी प्राप्त होना अयुक्त है; क्योंकि जीव और ब्रह्म भिन्न-भिन्न हैं और मोक्ष हेतु और उपादेय न होनेके कारण लोष्ट (डेल्टा) आदिके समान पुरुषार्थ भी नहीं हो सकता, इसलिए मुमुक्षाकी संभावना नहीं है। इस शंकाका समाधान करनेके लिए सूत्रमें ‘अतः’ शब्दका उपादान किया है। अब भाष्यकार उसका व्याख्यान “अतःशब्दः” इत्यादिसे करते हैं। ‘अथ’ शब्द आनन्तर्य वाचक है, ऐसा कहा और आनन्तर्यके अवाधिरूप विवेक आदि चार साधन भी कहे अर्थात् चार साधन ब्रह्मजिज्ञासाके हेतु हैं, इस आर्थिक हेतुमें शंका हो तो उसे दूर करनेके लिए अथ शब्दसे अर्थात् उक्त हेतुत्वका अनुवादक अतः शब्द है ऐसा अभिप्राय है। इन संक्षिप्त यात्रयका “यस्मात्” इत्यादिसे विवरण करते हैं। ‘यस्मात्’ पदका सम्बन्ध अग्नि ‘तस्मात्’ पदसे है। ‘यदल्पं तन्मर्त्यम्’

(१) कारण हो तो कार्य हो, यह अन्वय है। कारण न हो, तो कार्य भी न हो, यह व्यतिरेक है। (२) चार मर्दाने अर्थात् कारिक, पाच्यन और आपाद मांसोंमें आरम्भ किये जानेवाले यज्ञ विशेष।

भाष्य

(छा० ८।१।६) इत्यादिः । तथा ब्रह्मविज्ञानादपि परं पुरुषार्थं दर्शयति—
‘ब्रह्मविदाप्नोति परम्’ (तै० २।१) इत्यादिः तस्माद् यथोक्तसाधनसंप-
त्त्यनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या । ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा । ब्रह्म च

भाष्यका अनुवाद

इसी प्रकार ‘ब्रह्मविदा०’ (ब्रह्म को जाननेवाला मोक्ष प्राप्त करता है)
इत्यादि श्रुतियाँ ब्रह्म-ज्ञानसे ही परम पुरुषार्थको दिसलाती हैं, इसलिए उपर्युक्त
साधन-सम्पत्ति प्राप्त करनेके पश्चात् ब्रह्म-जिज्ञासा करनी चाहिए । ब्रह्मकी

रत्नप्रभा

यत्कृतकं तदनित्यम्” इति न्यायवती “तद्यथेह” (छा० ८।१।६) इत्यादिश्रुतिः
कर्मफलाक्षयत्वश्रुतेर्वाधिका । तस्माद् “अतोऽन्यदार्तम्” (बृ० ३।४।२) इति
श्रुत्याऽऽनात्ममात्रस्य अनित्यत्वविवेकाद् वैराग्यलाभ इति भावः । मुमुक्षां सम्भाव-
यति—तथेति । यथा वेदः कर्मफलानित्यत्वं दर्शयति, तथा ब्रह्मजानात् प्रशान्त-
शोकानलमपारं स्वयंज्योतिरानन्दं दर्शयति इत्यर्थः । जीवत्वादेरध्यासोक्त्या ब्रह्मत्व-
सम्भव उक्त एव इति भावः । एवमथात्.शब्दाभ्यां पुष्कलकारणवतोऽधिका-
रिणः समर्थनात् शास्त्रमारब्धव्यमित्याह—तस्मादिति । सूत्रवाक्यपूरणार्थम्
अध्याहृतकर्तव्यपदान्वयार्थं ब्रह्मजिज्ञासापदेन विचारं लक्षयितुं तस्य स्वा-
भिमतसमासकथनेन अवयवार्थं दर्शयति—ब्रह्मण इति । ननु “धर्माय
जिज्ञासा” इतिवद् ‘ब्रह्मणे जिज्ञासा’ इति चतुर्थीसमासः किं न स्यादिति

रत्नप्रभाका अनुवाद

(जो अल्प है, वह नाशवान् है, जो उत्पन्न हुआ है वह अनित्य है) इस न्यायसे गृहकृत
‘तद्यथेह’ इत्यादि कर्म फलको अनित्य बतानेवाली श्रुतियाँ पूर्वपक्षी द्वारा दिखलाई गईं कर्म फलको
नित्य बतानेवाली श्रुतियोंकी वाधिका हैं । इसलिए ‘अतोऽन्यदार्तम्’ (इस आत्मासे अन्य
वस्तुएँ अनित्य हैं) इस श्रुतिसे अनात्मा-भावन अनित्य है, ऐसा विवेक उत्पन्न होने पर
वैराग्य उत्पन्न होता है । “तथा” इत्यादिसे मुमुक्षाकी सम्भावना दिखलाते हैं । जैसे वेद
कर्म फलकी अनित्यता दिसलाता है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान द्वारा जिसमें शोकरूपी अग्नि शान्त हो
गई है, ऐसे अपार स्वयं-प्रकाश आनन्दको दिखलाता है । जीवत्व आदि अभ्यस्त हैं, इसलिए
जीव ब्रह्म ही है, ऐसा कहा ही गया है । इस प्रकार ‘अथ’ और ‘अत’ शब्दोंसे चार साधन-
युक्त अधिकारीके समर्थन होनेसे शास्त्रना आरम्भ करना चाहिए ऐसा सिद्ध हुआ, यह बात
“तस्मात्” इत्यादिसे कहते हैं । सूत्र-वाक्यको पूरा करनेके लिए ‘कर्तव्या’ पदका अध्याहार
आवश्यक है और इस अध्याहृत पदका अन्वय करनेके लिए ‘जिज्ञासा’ पदका लक्षणाद्युक्तिसे
विचाररूप अर्थ करनेके लिये स्वाभिमत समासके कथनसे अवयवार्थ दिसलाते हैं—“ब्रह्मण.”

भाष्य

वक्ष्यमाणलक्षणं 'जन्माद्यस्य यतः' इति । अत एव न ब्रह्मशब्दस्य जात्या-
भाष्यका अनुवाद

जिज्ञासा ब्रह्म-जिज्ञासा है । 'जन्माद्यस्य यतः' इस सूत्रमें जिसका लक्षण कहा जायगा, वह ब्रह्म है । इसी कारणसे ऐसी शङ्का न करनी चाहिए कि 'ब्रह्म'

रत्नप्रभा

चेत्, उच्यते—जिज्ञासापदस्य हि मुख्यार्थः इच्छा । तस्याः प्रथमं कर्मकारकम् अपेक्षितम् । पश्चात् फलम् । ततश्चादौ कर्मज्ञानार्थं पृष्ठीसमासो युक्तः । कर्मणि उक्ते सति अर्थात् फलमुक्तं भवति । इच्छायाः कर्मण एव फलत्वात् ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

इत्यादिसे । यहां ऐसी शङ्का होती है कि धर्मके लिए जिज्ञासा इसमें जैसे चतुर्थी समास है, इसी प्रकार ब्रह्मके लिए जिज्ञासा ऐसा चतुर्थी समास क्यों न हो ? इस पूर्वपक्षका समाधान इस प्रकार है । 'जिज्ञासा' पदका मुख्य अर्थ 'इच्छा' है । इस इच्छाको कर्म कारक ही की प्रथम अपेक्षा होती है और पीछे फलकी अपेक्षा होती है, इसलिए प्रथम कर्मज्ञानके लिए पृष्ठी समास युक्त है । कर्मके कहने पर फल भी अर्थात् कथित होता है, क्योंकि इच्छाका जो कर्म है वही फल है । जैसे स्वर्गकी इच्छा ऐसा कहने पर स्वर्ग इच्छाका फल है, यह अर्थात्

(१) प्रथम तो व्याकरण के नियमानुसार चतुर्थी समास हो नहीं सकता । चतुर्थी तत्पुरुष समास के लिए पाणिनिका यह सूत्र है—'चतुर्थी तदर्थाभेवलिहितसुखरक्षितै' । अर्थात् चतुर्थ्यन्त शब्दका तदर्थावाचक शब्दके साथ और अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित शब्दोंके साथ समास होता है । चतुर्थ्यन्त शब्दका जो अर्थ होता हो, उस अर्थके लिए जो हो, वह तदर्थावाचक है । अर्थात् जिन दो शब्दोंमें तादर्थ्य सम्बन्ध हो उन दोनों शब्दोंका समास होता है, परन्तु ऐसा अर्थ करनेमें वाध है । यदि ऐसा अर्थ होता तो 'बलि' और 'रक्षित' इन दो शब्दोंको सूत्रकार अलग नहीं कहते, क्योंकि 'भूतेभ्यो बलि, भूतबलि.' (भूतोंके लिए जो बलि है, वह भूत-बलि है) 'गवे रक्षितम्, गो रक्षितम्, (गायके लिए जो रक्षित वह गोरक्षित है) इनमें चतुर्थी तादर्थ्यावाचक ही है । पाणिनिने सूत्रमें इन दो शब्दोंका अलग उच्चारण किया है, इसलिए तदर्थरूप अर्थवा प्रकृति विहृतिभाव अर्थ करना चाहिए, जैसे कि 'यूपय दार, यूपदार' (यूप—यज्ञस्तम्भके लिए दार—पवडी यूपदार है) इसमें 'यूप' विहृति अर्थात् विकारवा प्राप्त है और दार प्रकृति अर्थात् अपनी सामान्य स्थितिसे है । इन दोनों शब्दोंमें प्रकृतिविहृतिभाव है, इसलिए इनका समास इन सूत्रके अनुसार है । 'रत्ननाय रयाली' (रत्ननेत्रे लिये वाली) यहा प्रकृतिविहृतिभाव नहीं है, इसलिए चतुर्थी समास नहीं है । 'रत्ननरयाली' पद दो, तो पृष्ठी समास हो । अदवपाम' (घोड़ेके लिए पाम) ये पृष्ठी समासके उदाहरण हैं । इस व्याकरणके नियमानुसार 'ब्रह्मजिज्ञासा' पदमें चतुर्थी समास नहीं हो सग्या, क्योंकि ब्रह्म और जिज्ञासामें प्रकृतिविहृतिभाव नहीं है । इन प्रकार व्याकरणकी दृष्टिसे पृष्ठी समास युक्त है । अन्य रीतियों विचारने पर भी पृष्ठी समास ही युक्त है ।

भाष्य

घर्धान्तरमाशङ्कितव्यम् । ब्रह्मण इति कर्मणि पष्ठी, न शेषे, जिज्ञास्यापेक्ष-

भाष्यका अनुवाद

शब्दका जाति आदि दूसरा अर्थ है । 'ब्रह्मणः' यह कर्मवाचक पष्ठी है, शेषवाचक पष्ठी नहीं है; क्योंकि जिज्ञासाको जिज्ञास्यकी अपेक्षा रहती है और (ब्रह्मके सिवा)

रत्नप्रभा

यथा स्वर्गस्य इच्छा इत्युक्ते स्वर्गस्य फलत्वं लभ्यते, तद्वत् । अत एव धर्म-जिज्ञासा इत्यत्रापि 'सा हि तस्य ज्ञातुमिच्छा' इति इच्छां गृहीत्वा पष्ठीसमासो दर्शितः । विचारलक्षणायां तु विचारस्य क्लेशात्मकतया प्रथमं फलाकांक्षत्वाद् "धर्माय-जिज्ञासा" इति चतुर्थीसमास उक्तः । तथा वृत्तिकारैः "ब्रह्मणे जिज्ञासा" इत्युक्तं चेदस्तु ज्ञातत्वेन ब्रह्मणः फलत्वादिति । अधुना ब्रह्मपदार्थमाह—ब्रह्म-चेति । ननु "ब्रह्म क्षत्रम्, इदं ब्रह्म आयाति, ब्रह्म स्वयम्भूः, ब्रह्म प्रजापतिः" इति श्रुतिषु, लोके च ब्राह्मणत्वजातौ जीवे वेदे कमलासने च ब्रह्मशब्दः प्रयुज्यते इत्या-शङ्क्य आह—अत एवेति । जगत्कारणत्वलक्षणप्रतिपादकसूत्रासाङ्गत्यप्रसङ्गात् एवे-त्यर्थः । वृत्त्यन्तरे शेषे पष्ठीति उक्तं दूषयति—ब्रह्मण इतीति । सम्बन्धसामान्यं शेषः । जिज्ञासेत्यत्र सन्प्रत्ययवाच्याया इच्छाया ज्ञानं कर्म । तस्य ज्ञानस्य ब्रह्म

रत्नप्रभाका अनुवाद

उक्त होता है, इसी प्रकार ब्रह्म इच्छाका कर्म है और फल भी है । इसी कारण धर्म-जिज्ञासा इस समस्त पदमें भी 'साहि तस्य०' ('वह उसके जाननेकी इच्छा है') इस शबरभाष्यमें जिज्ञासा पदका मुख्य अर्थ इच्छाको मानकर पष्ठीसमास दिखलाया है । लक्षणा करके 'जिज्ञासा' पदके अर्थ 'विचार' को लेकर, विचार क्लेशरूप होता है, इसलिए प्रथम फलकी इच्छा होनेसे 'धर्मके लिए जिज्ञासा'—ऐसा चतुर्थीसमास कहा है । इसी प्रकार श्रुतिकारने 'ब्रह्मके लिए जिज्ञासा' ऐसा चतुर्थीसमास कहा है ऐसा यदि कहो तो ठीक ही है, क्योंकि ब्रह्मज्ञान होने पर ब्रह्म ही फल हो जाता है, इसलिए ऐसा कहा है । अब 'ब्रह्म' पदका अर्थ कहते हैं—“ब्रह्म च” इत्यादिसे । कोई नहे कि 'ब्रह्म क्षत्रम्' इत्यादि श्रुतियों और लोक-व्यवहारमें 'ब्रह्म' शब्दके ब्राह्मण-जाति, जीव, वेद, ब्रह्मा आदि अनेक अर्थ हैं, तब कौनसा अर्थ लेना चाहिए ? इस शङ्काको दूर करनेके लिए कहते हैं—“अत एव” अर्थात् ब्रह्म इस जगत् का कारण है, ऐसा प्रतिपादन करनेवाला सूत्र असंगत होगा, इसलिए यहाँ पर ब्रह्मसे जगत्कारण ही लेना चाहिए । ब्रह्म-सूत्रकी दृश्यते वृत्तिमें 'ब्रह्मणः' यहाँ पर शेषपष्ठी कही गई है, उसमें दोष दिखलते हैं—“ब्रह्मणः” आदिसे । शेष अर्थात् सम्बन्ध-सामान्य । 'जिज्ञासा' पदमें 'सन्' प्रत्ययवाच्य 'इच्छा'

(१) कर्मवाचक पष्ठी माननेमें 'ब्रह्मत्वरूपकी ही जिज्ञासा है' यह अर्थ होता है ।

(२) शेषपष्ठी माननेमें 'ब्रह्मसम्बन्धिनी जिज्ञासा है' यह अर्थ होता है ।

भाष्य

त्वाद् जिज्ञासायाः, जिज्ञास्यान्तरानिर्देशाच्च । ननु शेषपट्टीपरिग्रहेऽपि ब्रह्मणो जिज्ञासाकर्मत्वं न विरुध्यते, सम्बन्धसामान्यस्य विशेषनिष्ठत्वात् । एवमपि प्रत्यक्षं ब्रह्मणः कर्मत्वमुत्सृज्य सामान्यद्वारेण परोक्षं कर्मत्वं

भाष्यका अनुवाद

दूसरे जिज्ञास्यका निर्देश भी नहीं है । यदि ऐसा कहो कि शेष पट्टीके ग्रहण करनेमें भी ब्रह्मके जिज्ञासाका कर्म होनेमें कुछ विरोध नहीं है; क्योंकि जो सम्बन्ध सामान्यका वाचक है, वह विशेष सम्बन्धको भी दिसलाता ही है ? तो इस प्रकार भी ब्रह्मके प्रत्यक्ष कर्मत्वको छोड़कर सामान्य-संबन्ध द्वारा परोक्ष

रत्नप्रभा

कर्म । तत्र सकर्मकक्रियायाः कर्मज्ञानं विना ज्ञातुमशक्यत्वात्, इच्छाया विषय-ज्ञानजन्यत्वात् च प्रथमापेक्षितं कर्मैव पठ्वा वाच्यम्, न शेष इत्यर्थः । ननु प्रमाणादिकमन्यदेव तत्कर्म अस्तु, ब्रह्म तु शेषितया सम्बध्यतां तत्र आह— जिज्ञास्यान्तरेति । श्रुतं कर्म त्यक्त्वा अन्यद् अश्रुतं कल्पयन् “पिण्डमुत्सृज्य करं लेढि” इति न्यायमनुसरति इति भावः । गूढाभिसन्धिः शङ्कते—नन्विति । “पट्टी शेषे” (पा० सू० २।३।५०) इति विधानात् पट्टया सम्बन्धमात्रं प्रतीतमपि विशेषाकांक्षायां सकर्मकक्रियासन्निधानात् कर्मत्वे पर्यवस्यति इत्यर्थः । अभिसन्धि-मजानन् इव उत्तरमाह—एवमपीति । कर्मलाभेऽपि प्रत्यक्षं “कर्तृकर्मणोः कृति” (पा० सू० २।३।५) इति सूत्रेण जिज्ञासापदस्य अकारप्रत्ययान्तत्वेन कृदन्तस्य

रत्नप्रभाका अनुवाद

का कर्म ‘ज्ञान’ है और ज्ञानका कर्म ब्रह्म है । कर्मका ज्ञान हुए बिना सकर्मक क्रियाका अर्थ समझमें नहीं आता । और इच्छा विषय-ज्ञानसे पैदा होती है, इसलिए प्रथम कर्मकी अपेक्षा होती है । अतः पट्टी कर्मवाचक ही होनी चाहिए, न कि शेषवाचक । कोई ऐसी शङ्का करे कि इच्छाके कर्म अन्य प्रमाण आदि—वेदान्तवाच्य हों, ब्रह्मका तो इच्छाके साथ शेषशेषी-भाव सम्बन्ध हो, इसपर कहते हैं—“जिज्ञास्यान्तरा” इत्यादि । अर्थात् जो कर्म घतल्यया गया है, उसे छोड़कर अश्रुत कर्मकी कल्पना नहीं करनी चाहिए । यह ‘तो प्राप्तको छोड़कर हाथ चाटना’ इस न्यायके समान है । पूर्वपक्षी अपना विचार गूढ़ रखकर “ननु” इत्यादिसे शङ्का करता है । ‘पट्टी शेषे’ इस सूत्रके अनुसार पट्टीमें सम्बन्धसामान्य प्रतीत होता है और सम्बन्धसामान्यका ज्ञान होने पर विशेष सम्बन्धमें आकांक्षा रहती है, इसलिए सकर्मक क्रियाके समीप रहनेसे कर्मत्वरूप विशेषसम्बन्धका बोध होता है । पूर्वपक्षीके गूढ़ अभिप्रायको सिद्धान्ती समझकर भी अनजानकी तरह “एवमपि” इत्यादिसे उत्तर देता है । तात्पर्य यह है कि ऐसे कर्मरूप अर्थरा लाभ हो, तो भी ‘कर्तृ०’ (कृदन्तके योगमें कर्तृवाचक और कर्मवाचक पदसे पट्टी विभक्ति

भाष्य

कल्पयतो व्यर्थः प्रयासः स्यात् । न व्यर्थः, ब्रह्माश्रिताशेषविचारप्रति-
ज्ञानार्थत्वादिति चेत्, न; प्रधानपरिग्रहे तदपेक्षितानामर्थाक्षिप्तत्वात् ।

भाष्यका अनुवाद

कर्मत्वकी कल्पना करनेमें प्रयास व्यर्थ होगा। यदि ऐसा कहो कि यह प्रयास व्यर्थ नहीं है, क्योंकि ब्रह्मके आश्रित सब पदार्थोंके विचारकी प्रतिज्ञा करना प्रयोजन है ? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि प्रधानका परिग्रह होने पर, उसकी अपेक्षा

रत्नप्रभा

योगे विहितं प्रथमापेक्षितं कर्मत्वं त्यक्त्वा परोक्षम्—अशाब्दं कल्पयत इत्यर्थः ।
शेषवादी स्वाभिसन्धिमुद्धाटयति—न व्यर्थ इति । शेषपष्ठ्यां ब्रह्मसम्बन्धिनी
जिज्ञासा प्रतिज्ञाता भवति । तत्र यानि ब्रह्माश्रितानि लक्षणप्रमाणयुक्तिज्ञानसाधन-
फलानि, तेषामपि विचारः प्रतिज्ञातो भवति । तज्जिज्ञासाया अपि ब्रह्मज्ञानार्थत्वेन
ब्रह्मसम्बन्धित्वात् । कर्मणि पष्ठ्यां तु ब्रह्मकर्मक एव विचारः प्रतिज्ञातो भवति
इति अभिसन्धिना शेषपष्ठीति उच्यते । अतो मत्प्रयासो न व्यर्थः । ब्रह्म,
तत्सम्बन्धिनां सर्वेषां विचारप्रतिज्ञानमर्थः फलं यस्य तत्त्वात् इत्यर्थः । त्वत्प्रया-
सस्य इदं फलं न युक्तम्, सूत्रेण मुखतः प्रधानस्य ब्रह्मणो विचारे प्रतिज्ञाते सति
तदुपकरणानां विचारस्य आर्थिकप्रतिज्ञाया उदितत्वात् इत्याह सिद्धान्ती—

रत्नप्रभाका अनुवाद

होती है) इस सूत्रसे कृदन्तके योगमें प्रथम अपेक्षित प्रत्यक्ष कर्मत्वको छोड़कर परोक्ष—
अशाब्द कर्मकी कल्पना करनेका प्रयास व्यर्थ है। यहाँ पर अप्रत्ययान्त 'जिज्ञासा' पद
कृदन्त है। अब शेष-वादी पूर्वपक्षी अपना गूढ अभिप्राय स्पष्ट करके कहता है—“न व्यर्थ” ।
शेषपष्ठी माननेसे ब्रह्मसम्बन्धी जिज्ञासाकी प्रतिज्ञा होती है अर्थात् ब्रह्म-सम्बन्धी लक्षण,
प्रमाण, युक्ति, ज्ञान, साधन और फल इन सबके विचारकी प्रतिज्ञा होती है; क्योंकि उनकी
जिज्ञासासे ही ब्रह्मज्ञान होता है, इसलिए ये भी ब्रह्मसम्बन्धी हैं। कर्मवाचक पष्ठी माननेसे
ब्रह्मकर्मवन्मात्र ही विचार होता है अर्थात् ब्रह्मसम्बन्धी लक्षण आदिका विचार नहीं होता ।
किन्तु ब्रह्म-भात्रके विचारकी ही प्रतिज्ञा होती है, इस अभिप्रायसे शेष पष्ठी कही गई है, अतः
मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं है, क्योंकि इससे ब्रह्म और ब्रह्मके सम्बन्धी सब प्रमाण, लक्षण आदिके
विचारकी प्रतिज्ञा होती है। “न प्रधान” इत्यादि ग्रन्थसे इसका उत्तर सिद्धान्ती देता है कि
तुम्हारे प्रयासका यह फल युक्त नहीं है। जब सूत्र शब्दतः प्रधान ब्रह्मके विचारकी प्रतिज्ञा
करता है, तब ब्रह्मके प्रमाण, लक्षण आदि सब उपकरणोंके विचारकी प्रतिज्ञा अर्थात् की गई,
ऐसा समझना चाहिए। संगृहीत अर्थका “ब्रह्म हि” इत्यादिसे दृष्टान्तपूर्वक व्याख्यान करते हैं।

भाष्य

ब्रह्म हि ज्ञानेनाप्तुमिष्टतमत्वात् प्रधानम् । तस्मिन् प्रधाने जिज्ञासां कर्मणि परिगृहीते यैर्जिज्ञासितैर्विना ब्रह्म जिज्ञासितं न भवति तान्यर्थाक्षिप्तान्येवेति न पृथक्सूत्रयितव्यानि । यथा राजासौ गच्छतीत्युक्ते सपरिवारस्य राज्ञो गमनमुक्तं भवति तद्वत् । श्रुत्यनुगमाच्च । 'यतो वा इमानि भूतानि

भाष्यका अनुवाद

रखनेवाले सब पदार्थोंका अर्थतः आक्षेप हो जाता है । ब्रह्म ज्ञानसे प्राप्त करनेके लिए इष्टतम (अत्यन्त इष्ट) है, अतः वह प्रधान है । जिज्ञासाके कर्म उस प्रधानका ग्रहण होते ही जिनकी जिज्ञासा हुए विना ब्रह्मकी जिज्ञासा नहीं होती, उन सबका अर्थतः आक्षेप हो ही जाता है, इसलिए सूत्रमें उनको अलग कहनेकी आवश्यकता नहीं है । जैसे 'यह राजा जाता है' ऐसा कहनेसे ही परिवारसहित राजाके गमनका कथन हो जाता है, इसके अनुसार । इसी प्रकार श्रुतिके साथ सूत्रका सम्बन्ध करनेसे भी कर्मवाचक पट्टी है । 'यतो वा०' (जिससे ये

रत्नप्रभा

'न प्रधानेति । संगृहीतमर्थं सट्टधान्तं व्याकरोति—ब्रह्म हीत्यादिना । "तद्विजिज्ञासस्व" इति मूलश्रुत्यनुसाराच्च कर्मणि पट्टीति आह—श्रुत्यनुगमाच्च इति । श्रुतिसूत्रयोरेकार्थत्वलाभात् च इत्यर्थः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

और 'तद्विजिज्ञासस्व' (उस ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर) इस मूल श्रुतिके अनुसार भी 'ब्रह्मकी जिज्ञासा' इसमें 'ब्रह्मकी' यह कर्मवाचक पट्टी माननी चाहिए । इस बातको "श्रुत्यनुगमाच्च" इससे कहते हैं । ऐसा करनेसे ही श्रुति और सूत्रकी एकरूपाभ्यता होती है ।

(१) अर्धाक्षिप्त अर्धाद्य सूचना होती है—प्रधान ब्रह्मके ग्रहण होनेसे ब्रह्म और ब्रह्मके साथ अपेक्षा रखनेवाले उसके लक्षण ऐसा समझा जाता है । 'कर्तुरीप्सिततम कर्म' (पा० १ । ४ । ४९) (कर्ताको क्रियासे प्राप्त होने योग्य इष्टतम कारककी कर्म सदा होती है) इस सूत्रके अनुसार ज्ञानसे प्राप्त करनेके लिए इष्टतम होनेसे ब्रह्म प्रधान है । 'मापेपु अदव वभाति' (उड़दमें घोड़ेको बांधता है) यहाँ माप—कर्म घोड़ेको इष्ट है, कर्ता (देवदत्त) को इष्ट नहीं है, इसलिए 'माप' शब्दके आगे द्वितीया विभक्ति नहीं आवेगी, ऐसा दिखलानेके लिए सूत्रमें 'कर्तुः' यह पद दिया है । 'पयमा ओदन मुहृक्ते' (दूधसे भात खाता है) यहाँ पयस् (दूध) इष्ट तो है, पर इष्टतम (सबसे अधिक इष्ट) नहीं है, प्रस्युत ओदन इष्टतम है, इसलिए ओदनसे द्वितीया विभक्ति हुई । यदि सूत्रमें 'इप्सिततमम्' पदमें 'तमप्' प्रत्ययका ग्रहण न किया होता, तो भोजन-वत्ताकी इष्ट जो 'पयस्' है, उससे भी द्वितीया विभक्ति होने लगती ।

भाष्य

जायन्ते' (तै० ३।१) इत्याद्याः श्रुतयः, 'तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म' इति प्रत्यक्षमेव ब्रह्मणो जिज्ञासाकर्मत्वं दर्शयन्ति । तच्च कर्मणि पृष्ठीपरिग्रहे सूत्रेणानुगतं भवति । तस्माद् 'ब्रह्मणः' इति कर्मणि पृष्ठी । ज्ञातुमिच्छा

भाष्यका अनुवाद

प्राणी उत्पन्न होते हैं) इत्यादि श्रुतियों 'तद्विजिज्ञासस्व०' (उसको जाननेकी इच्छा कर, वह ब्रह्म है) इस प्रकार ब्रह्म ही जिज्ञासाका कर्म है, ऐसा प्रत्यक्ष दिखलाती हैं और कर्मवाचक पृष्ठी माननेसे ही सूत्रके साथ श्रुतिकी एकवाक्यता होती है, इसलिए 'ब्रह्मणः' यह कर्मवाचक पृष्ठी है । जाननेकी इच्छा—जिज्ञासा है । अवग-

रत्नप्रभा

जिज्ञासापदस्य अवयवार्थमाह—ज्ञातुमिति । ननु अनवगते वस्तुनि इच्छाया अदर्शनात् तस्या मूलं विषयज्ञानं वक्तव्यम्, ब्रह्मज्ञानं तु जिज्ञासायाः फलम्, तदेव मूलं कथमिति आशंक्य आह—अवगतीति । आवरणनिवृत्तिरूपाभिव्यक्तिमच्चैतन्यमवगतिः पर्यन्तोऽवधिर्यस्य अखण्डसाक्षात्कारवृत्तिज्ञानस्य तदेव जिज्ञासायाः कर्म, तदेव फलम् । मूलं त्वापातज्ञानमित्यधुना वक्ष्यते इति फलमूलज्ञानयोर्भेदात् न जिज्ञासानुपपत्तिरित्यर्थः । ननु गमनस्य प्राप्तिः कर्म, तत्प्राप्तिः फलमिति भेदात्

रत्नप्रभाका अनुवाद

'ज्ञातुम्' इत्यादिसे जिज्ञासा पदका अवयवार्थ दिखलाते हैं । जाननेकी इच्छा जिज्ञासा है । पूर्वपक्षी कहता है कि अज्ञात वस्तुमें इच्छा नहीं होती है, इसलिए इच्छाका कारण विषयज्ञान है, ऐसा कहना चाहिए । ब्रह्म ज्ञान तो जिज्ञासाका फल है, वह कारण कैसे हो सकता है ? इस शङ्काका समाधान करनेके लिए सिद्धान्ती—'अवगति' इत्यादि कहता है । ['जिज्ञासा' पदमें 'सन्' प्रत्यय इच्छा-वाचक है । इस इच्छाका कर्म अवगति पर्यन्त ज्ञान है] आवरण-रहित अभिव्यक्तिमत् ब्रह्म चैतन्य ही अवगति है । वही जिज्ञासाका कर्म है और वही फल है । ब्रह्मसा सामान्यज्ञान इच्छाका कारण है ऐसा अभी कहा जायगा । इस प्रकार फलज्ञान और कारणज्ञानके भिन्न होनेसे जिज्ञासाकी अनुपपत्ति नहीं है । पूर्व पक्षी कहता है कि वह गौंको जाता है इसमें गौं कर्म है और प्राप्ति फल है, इस प्रकार फल और कर्मका भेद है, इसलिए जो कर्म हो वही फल हो यह अयुक्त है । इसका उत्तर कहते हैं—'फल' इत्यादिसे । दूसरी क्रियाओंमें फल और कर्म भले ही भिन्न भिन्न हों, परन्तु इच्छाकी क्रियामें ऐसा नहीं है । मनुष्य जिसकी इच्छा करता है वही इच्छाका फल होता है, इसलिए कर्म ही फल है । परन्तु 'अवगति पर्यन्त ज्ञान' कहनेका क्या अर्थ है ? क्योंकि ज्ञान और अवगति एक ही हैं, इसलिए दोनोंका भेद कहना अयोग्य है । इसका उत्तर कहते हैं—'ज्ञानेन' इत्यादिसे । आशय यह कि ज्ञान अन्त करणकी श्रुति है और अवगति उसका फल है, इस प्रकार दोनोंमें परस्पर

भाष्य

जिज्ञासा । अवगतिपर्यन्तं ज्ञानं सन्वाच्याया इच्छायाः कर्म । फल-
विषयत्वादिच्छायाः । ज्ञानेन हि प्रमाणेनावगन्तुमिष्टं ब्रह्म । ब्रह्माव-
गतिर्हि पुरुषार्थः, निःशेषसंसारबीजाविद्याद्यनर्थनिवर्हणात् । तस्माद् ब्रह्म
विजिज्ञासितव्यम् ।

भाष्यका अनुवाद

तिपर्यन्त ज्ञान सन्वाच्य इच्छाका कर्म है, क्योंकि इच्छाका विषय फल है । ब्रह्म
ज्ञानरूप प्रमाणसे जाननेके योग्य है, क्योंकि ब्रह्मकी अवगति पुरुषार्थ है । कारण
कि उससे निःशेष संसारके बीजरूप अविद्या आदि अनर्थोंका नाश होता है ।
इसलिए ब्रह्मकी जिज्ञासा करनी चाहिए ।

रत्नप्रभा

कर्मैव फलमिति अयुक्तं तत्र आह—फलेति । क्रियान्तरे तयोर्भेदेऽपि इच्छायाः
फलविषयत्वात् कर्मैव फलमित्यर्थः । ननु ज्ञानावगत्योरैक्याद् भेदोक्तिरयुक्ता इत्यत
आह—ज्ञानेनेति । ज्ञानं वृत्तिः, अवगतिस्तत्फलमिति भेद इति भावः । अव-
गन्तुम्—अभिव्यञ्जयितुम् । अवगतेः फलत्वं स्फुटयति—ब्रह्मेति । हिशब्दोक्तं
हेतुमाह—निश्शेषेति । बीजमविद्या आदिर्यस्य अनर्थस्य तन्नाशकत्वादित्यर्थः ।
अवयवार्थमुक्त्वा सूत्रवाक्यार्थमाह—तस्मादिति । अत्र सन्प्रत्ययस्य विचार-
लक्षकत्वं तव्यप्रत्ययेन सूचयति । अथातः शब्दाभ्यामधिकारिणः साधितत्वात्तेन
ब्रह्मज्ञानाय विचारः कर्तव्य इत्यर्थः ॥

इति तृतीयवर्णकम् ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

भेद है । अवगमन करनेके लिए—अभिव्यञ्जन करनेके लिए । अवगति फल है इसी बातको
अधिक स्पष्ट करनेके लिए “ब्रह्म” इत्यादि कहते हैं । ‘हि’ शब्दसे कथित हेतुको दिखाते हैं—
“नि शेष” इत्यादिसे । आशय यह है कि समस्त संसारका बीजरूप अज्ञान जिस अनर्थका मूल-
कारण है, उसके नाशक होनेसे । सूत्रका अवयवार्थ कहकर “तस्मात्” इत्यादिसे उसका
वाक्यार्थ कहते हैं । ‘जिज्ञासितव्यम्’ इस पदमें ‘सन्’ प्रत्यय लक्षणावृत्तिसे विचारका बोध
कराता है, ऐसा ‘तव्य’ प्रत्ययसे सूचित होता है । ‘अथ’ और ‘अत’ शब्दोंसे अधिकारी-
की सिद्धि होती है, इसलिए अधिकारीको ब्रह्मज्ञानके लिए विचार करना चाहिए यह तात्पर्य
निकलता है ।

* तृतीयवर्णक समाप्त *

भाष्य

तत्पुनर्ब्रह्म प्रसिद्धमसिद्धं वा स्यात् । यदि प्रसिद्धं न जिज्ञासितव्यम् ।
अथाप्रसिद्धं नैव शक्यं जिज्ञासितुमिति । उच्यते—अस्ति तावद्ब्रह्म नित्यशुद्ध-

भाष्यका अनुवाद

वह ब्रह्म प्रसिद्ध है या अप्रसिद्ध है ? यदि प्रसिद्ध है तो उसकी जिज्ञासा करनेकी आवश्यकता नहीं है, यदि अप्रसिद्ध है, तो उसकी जिज्ञासा ही नहीं सकती । इस शङ्काका समाधान करते हैं—नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव,

रत्नप्रभा

प्रथमवर्णके बन्धस्य अध्यासत्वोक्त्या विषयादिसिद्धावपि ब्रह्मप्रसिद्ध्यप्रसिद्धयोः
विषयादिसम्भवासम्भवाभ्यां शास्त्रारम्भसन्देहे पूर्वपक्षमाह—तत्पुनरिति । पुनः-
शब्दो वर्णकान्तरद्योतनार्थः । यदि वेदान्तविचारात् प्रागेव ब्रह्म ज्ञातम्, तर्हि-
अज्ञातस्वरूपविषयत्वं नास्ति । अज्ञानाभावेन तन्नित्यवृत्तिरूपफलमपि नास्तीति न
विचारयितव्यम् । अथ अज्ञातं केनापि तर्हि तदुद्देशेन विचारः कर्तुं न शक्यते,
आज्ञातस्य उद्देशायोगात् । तथा च बुद्धौ अनारूढस्य विचारात्मकशास्त्रेण वेदान्तैश्च
प्रतिपादनायोगात् तत्प्रतिपाद्यत्वरूपः सम्बन्धो नास्ति इति ज्ञानानुत्पत्तेः फलमपि
नास्ति इत्यनारभ्यं शास्त्रमित्यर्थः । आपातप्रसिद्ध्या विषयादिलाभाद् आरम्भणीय-
मिति सिद्धान्तयति—उच्यते इत्यादिना । प्रसिद्धं तावदित्यर्थः । अस्तित्वस्य
अप्रकृतत्वेन अस्तित्वस्य प्रसिद्धिपरत्वात् ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

यद्यपि प्रथम वर्णकमें बन्धको अध्यस्त (आरोपित) कहकर विषय आदिकी सिद्धि की गई है, तो भी ब्रह्म प्रसिद्ध हो तो शास्त्रका विषय बनता है, यदि प्रसिद्ध न हो तो शास्त्रका विषय नहीं बन सकता ऐसा शास्त्रके आरम्भमें संदेह होनेपर पूर्वपक्ष कहते हैं—“तत्पुनः” इत्यादिसे । यहाँ पर ‘पुनः’ शब्द अग्रिम वर्णकके आरंभका द्योतक है । यदि वेदान्ताकों विचार करनेके पहले ही ब्रह्मज्ञान हो जाय तो ब्रह्मके अज्ञात न होनेसे वह विषय नहीं होगा और अज्ञानका अभाव होनेसे अज्ञाननिवृत्तिरूप फलका भी अभाव है, इसलिए ब्रह्म-विचार करना अयोग्य है । यदि ब्रह्म अप्रसिद्ध हो अर्थात् अज्ञात हो तो उसके संबंधमें कोई भी विचार नहीं कर सकता । अज्ञात पदार्थ विचारका विषय नहीं होता, क्योंकि जो बुद्धिमें न आवे, उसका विचारारम्भ शास्त्रसे अथवा वेदान्तसे प्रतिपादन नहीं हो सकता है । विषय और शास्त्रमें प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध न होनेसे ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता और इसी कारण फल भी उत्पन्न नही होगा, इसलिए शास्त्रका आरम्भ उचित नहीं है ऐसा तात्पर्य है । सामान्य ज्ञानसे ब्रह्म प्रसिद्ध है, इसलिए विषय आदिका लाभ होनेसे शास्त्र आरंभणीय है, इस अभिप्रायसे सिद्धान्ती “उच्यते” इत्यादि ग्रंथसे उक्त पूर्वपक्षका समाधान

भाष्य

बुद्धमुक्तस्वभावम्, सर्वज्ञम्, सर्वशक्तिसमन्वितम्। ब्रह्मशब्दस्य हि व्युत्पाद्य-

भाष्यका अनुवाद

सर्वज्ञ और सर्वशक्तिसम्पन्न ब्रह्म प्रसिद्ध है। 'ब्रह्म' शब्दकी व्युत्पत्तिसे 'बृह'

रत्नप्रभा

ननु केन मानेन ब्रह्मणः प्रसिद्धिः। न च "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इति श्रुत्या सा इति वाच्यम्। ब्रह्मपदस्य लोके सङ्गतिग्रहाभावेन तद्वदितवाक्यस्य अबोधकत्वात् इत्याशङ्क्य ब्रह्मपदव्युत्पत्त्या प्रथमं तस्य निर्गुणस्य सगुणस्य च प्रसिद्धिरित्याह—ब्रह्मशब्दस्य हीति। अस्यार्थः—श्रुतौ सूत्रे च ब्रह्मपदस्य प्रयोगान्यथानुपपत्त्या कश्चित् अर्थोऽस्ति इति ज्ञायते। प्रमाणवाक्ये निरर्थकशब्द-प्रयोगादर्शनात्। स च अर्थो महत्त्वरूप इति व्याकरणात् निश्चीयते, "बृहि बृद्धौ" (पा० धा० भ्रा०) इति स्मरणात्। सा च वृद्धिः निरवधिकमहत्त्वमिति, संकोचकाभावात्, श्रुतावनन्तपदेन सह प्रयोगाच्च ज्ञायते। निरवधिकमहत्त्वं चान्तवत्त्वादिदोषवत्त्वे सर्वज्ञत्वादिगुणहीनत्वे च न सम्भवति। लोके गुणहीन-दोषवतोरूपत्वप्रसिद्धेः। अतो बृहणाद् ब्रह्मेति व्युत्पत्त्या देशकालवस्तुतः

रत्नप्रभाका अनुवाद

करते हैं। भाष्यगत 'अस्ति' पद प्रसिद्धिपरक है, क्योंकि प्रसिद्धि ही पूर्व-प्रकृत है, अस्तित्व नहीं।

यहाँ कोई शंका करे कि ब्रह्मकी प्रसिद्धि किस प्रमाणसे है? 'सत्यं' इस श्रुतिसे प्रसिद्धि है ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि व्यवहारमें 'ब्रह्म' पदका शक्तिग्रह नहीं होता अर्थात् 'ब्रह्म' शब्द अमुक अर्थका वाचक है, ऐसी व्यावहारिक रूढि नहीं है, इसलिए 'ब्रह्म' शब्दसे घटित वाक्यद्वारा अर्थबोध नहीं हो सकता। इस शंकाके उत्तरमें प्रथम ब्रह्म पदकी व्युत्पत्तिसे निर्गुण और सगुण ब्रह्मकी प्रसिद्धि है ऐसा कहते हैं—“ब्रह्मशब्दस्य हि” इत्यादिसे। इसका अर्थ—श्रुतिमें और सूत्रमें ब्रह्म शब्दका प्रयोग है, यदि ब्रह्म शब्दका अर्थ न हो तो वह प्रयोग अनुपपन्न होगा, अतः 'ब्रह्म' शब्दका कुछ अर्थ भी है ऐसा मालूम होता है, क्योंकि प्रमाण-वाक्योंमें निरर्थक शब्दका प्रयोग देखनेमें नहीं आता। "ब्रह्म" शब्दका यह अर्थ महत्त्वरूप है ऐसा व्याकरणसे निश्चय होता है, क्योंकि 'ब्रह्म' शब्द 'बृहि बृद्धौ' (बृह अर्थात् घटना) धातुसे व्युत्पन्न हुआ है। (इय व्युत्पत्तिसे 'ब्रह्म' शब्दका अर्थ वृद्धि-रूप होता है।) यह वृद्धि अवाधिरहित महत्त्वरूप है, क्योंकि संकोचका अभाव है, और श्रुतिमें 'अनन्त' (अन्त रहित, अवाधिरहित) शब्दके साथ 'ब्रह्म' शब्दका प्रयोग है। अन्तवत्त्व आदि दोषसे युक्त और सर्वज्ञत्व आदि गुणरहित पदार्थोंमें निरवधिक महत्त्व संभव नहीं है, क्योंकि लोकमें जो गुणहीन और दोषयुक्त होता है, वह

भाष्य

मानस्य नित्यशुद्धत्वादयोऽर्थाः प्रतीयन्ते, बृहतेर्धातोरर्थानुगमात् । सर्वस्यात्मत्वाच्च ब्रह्मास्तित्वप्रसिद्धिः । सर्वो ह्यात्मास्तित्वं प्रत्येति, न

भाष्यका अनुवाद

धातुके अर्थके अनुसार नित्य, शुद्ध इत्यादि अर्थोंकी प्रतीति होती है । और सबकी आत्मा होनेसे ब्रह्मका अस्तित्व प्रसिद्ध है । सबको आत्माके अस्तित्वका

रत्नप्रभा

परिच्छेदाभावरूपं नित्यत्वं प्रतीयते । अविद्यादिदोषशून्यत्व शुद्धत्वम्, जाड्य-
राहित्यम् बुद्धत्वम्, बन्धकालेऽपि स्वतो बन्धाभावः मुक्तत्वं च प्रतीयते । एवं
सकलदोषशून्यं निर्गुणं प्रसिद्धम् । तथा सर्वज्ञत्वादिगुणकं च तत्पदवाच्य प्रसि-
द्धम् । ज्ञेयस्य कार्यस्य वा परिशेषे अल्पत्वप्रसङ्गेन सर्वज्ञत्वस्य सर्वकार्यशक्तिमत्त्वस्य
च अलाभादिति । एवं तत्पदात् प्रसिद्धेऽप्रमाणत्वेन आपातत्वात् अजानानिवर्तकत्वात्
जिज्ञासोपपत्तिः इत्युक्त्वा त्वम्पदार्थात्मनापि ब्रह्मणः प्रसिद्ध्या तदुपपत्तिरित्याह—
सर्वस्येति । सर्वस्य लोकस्य योऽयमात्मा तदभेदाद् ब्रह्मणः प्रसिद्धिरित्यर्थः ।
ननु आत्मनः प्रसिद्धिः का इत्यत आह—सर्वो हीति । ‘अहमस्मि इति न
प्रत्येति इति न, किन्तु प्रत्येत्येव । सैव सच्चिदात्मनः प्रसिद्धिरित्यर्थः । आत्मनः

रत्नप्रभाका अनुवाद

‘अल्प’ होता है, यह प्रसिद्ध है । इस प्रकार ‘बृहणात् ब्रह्म’ (व्यापक होनेसे ब्रह्म
कहलाता है) इस व्युत्पत्तिसे ब्रह्ममें देश, काल, वस्तु आदिके अपरिच्छिन्नतारूप
नित्यता प्रतीत होती है । शुद्ध अर्थात् अविद्या आदि दोषोंसे शून्य । शुद्ध
अर्थात् जडतारहित । बन्ध-कालमें भी जिसमें बन्धका स्वतः अभाव है, वह मुक्त है ।
इस प्रकार सकल दोषोंसे शून्य निर्गुण ब्रह्म प्रसिद्ध है । इसी प्रकार सर्वज्ञत्व आदि गुणोंसे युक्त
तत्पदवाच्य—सगुण ब्रह्म भी प्रसिद्ध है । यदि ब्रह्ममें किसी ज्ञेय वस्तु या कार्य वस्तुका परि-
शेष रह जाय, अर्थात् यदि ब्रह्मसे कोई वस्तु अज्ञेय या अकार्य्य हो तो ब्रह्ममें अल्पत्वका प्रसंग
होनेसे वह सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् नहीं हो सकता । इस प्रकार तत्पद (ब्रह्मपद) से
होनेवाला ब्रह्मका ज्ञान अप्रमाण तथा सामान्य ज्ञान है, और सामान्य ज्ञानसे अज्ञानकी
निश्चिन्ता नहीं हो सकती, अतः सामान्यतः प्रसिद्ध ब्रह्मकी जिज्ञासा युक्त ही है ऐसा कहकर
त्वम्पदार्थ आत्मासे भी ब्रह्म प्रसिद्ध है इसलिए जिज्ञासा युक्त है ऐसा कहते हैं—“सर्वस्य”
इत्यादिके । ब्रह्म सब लोगोंकी आत्मा है, आत्मासे भिन्न नहीं है, इसलिए ब्रह्म प्रसिद्ध है ।
कोई कहे कि आत्मा प्रसिद्ध कैसे है ? तो इसपर “सर्वो हि” आदिके उत्तर देते हैं । ऐसा
कोई अपनेको नहीं समझता है कि ‘मैं नहीं हूँ’ किन्तु सब लोगोंको ‘मैं हूँ’ ऐसा ज्ञान होता
है, वही सच्चिदात्माकी प्रसिद्धि है । ‘तप शून्य है अतः आत्माकी सत्ता (स्थिति)

भाष्य

नाहमस्मीति । यदि हि नात्मास्तित्वप्रसिद्धिः स्यात्, सर्वो लोको नाहमस्मीति प्रतीयात् । आत्मा च ब्रह्म । यदि तर्हि लोके ब्रह्म आत्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति

भाष्यका अनुवाद

ज्ञान होता है, 'मैं नहीं हूँ' ऐसा ज्ञान किसी को नहीं होता । यदि आत्माका अस्तित्व प्रसिद्ध न होता, तो सब लोगोंको 'मैं नहीं हूँ' ऐसा ज्ञान होता । आत्मा ही ब्रह्म है । यदि लोगोंमें ब्रह्म आत्मारूपसे प्रसिद्ध है, तो वह ज्ञात ही है,

रत्नप्रभा

कुतः सत्ता इति शून्यमतमाशंक्य आह—यदि हीति । आत्मनः शून्यस्य प्रतीतौ 'अहं नास्मि' इति लोको जानीयात् । लोकस्तु 'अहमस्मि' इति जानाति, तस्मादात्मनोऽस्तित्वप्रसिद्धिरित्यर्थः । आत्मप्रसिद्धौ अपि ब्रह्मणः किमायातं तत्र आह—आत्मा चेति । "अयमात्मा ब्रह्म" (वृ० २।५।१९) इत्यादि-श्रुतेरिति भावः ।

प्रसिद्धिपक्षोक्तं दोषं पूर्वपक्षेण स्मारयति—यदीति । अज्ञातत्वाभावेन विषयाद्यभावाद् अविचार्यत्वं प्राप्तमित्यर्थः । यथा इदं रजतमिति वस्तुतः शुक्ति-प्रसिद्धिः, तद्वदहमस्मीति सत्त्वचैतन्यरूपत्वसामान्येन वस्तुतो ब्रह्मणः प्रसिद्धिः, नेयं पूर्णानन्दब्रह्मत्वरूपविशेषगोचरा, वादिनां विवादाभावप्रसङ्गात् । नहि शुक्ति-त्वविशेषदर्शने सति रजतं रङ्गमन्यद् वा इति विप्रतिपत्तिरस्ति । अतो विप्रति-

रत्नप्रभाका अनुवाद

सिद्ध नहीं होती' इस शून्यमतकी शंकापर कहते हैं—“यदि हि” इत्यादि । यदि आत्मा शून्य हो तो 'मैं नहीं हूँ' ऐसा लोगोंको ज्ञान होना चाहिए, परन्तु सबको तो 'मैं हूँ' ऐसा ज्ञान होता है, इसलिए आत्माका अस्तित्व प्रसिद्ध है । परन्तु आत्माके प्रसिद्ध होनेपर भी ब्रह्मकी प्रसिद्धिमें क्या आया ? इस शङ्काका उत्तर देते हैं—“आत्मा च” इत्यादिसे । 'अयमात्मा०' (यह आत्मा ब्रह्म है) इत्यादि श्रुतियोंसे आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा सिद्ध होता है ।

पूर्व प्रसिद्धिपक्षमें कहे गए दोषोंका पूर्वपक्षसे स्मरण करते हैं—“यदि” इत्यादिसे । आशय यह है कि ब्रह्म अज्ञात नहीं, किन्तु ज्ञात है; इससे विषय आदिका अभाव है, विषय आदिके अभावसे ब्रह्म अविचार्य है, इसलिए शास्त्र अनारम्भणीय है । ऐसा पूर्वपक्ष होनेपर सिद्धान्ती “न” इत्यादिसे उत्तर कहता है कि जैसे 'इदं रजतम्' यहाँपर वस्तुतः (इदन्त्वसे) शुक्ति प्रसिद्ध है, उसी प्रकार 'अहमस्मि' (मैं हूँ) ऐसे सत्त्व और चैतन्यरूप आत्माके सामान्य धर्मसे ब्रह्म प्रसिद्ध है, तो भी पूर्ण, आनन्द ब्रह्मत्वरूप विशेष धर्मसे प्रसिद्ध नहीं है । यदि विशेष धर्मसे प्रसिद्ध होता, तो मतभेद नहीं होता । 'यह शुक्ति है' ऐसा विशेष दर्शन होने पर यह रजत है, या रंग है अथवा और कोई चीज है ? ऐसा विप्रतिपत्ति

भाष्य

ततो ज्ञातमेवेत्यजिज्ञास्यत्वं पुनरापन्नम् । न, तद्विशेषं प्रति विप्रतिपत्तेः ।
देहमात्रं चैतन्यविशिष्टमात्मेति प्राकृता जना लोकायतिकाश्च प्रतिपन्नाः ।
इन्द्रियाण्येव चैतनान्यात्मेत्यपरे । मन इत्यन्ये । विज्ञानमात्रं

भाष्यका अनुवाद

इसलिए उसकी जिज्ञासा नहीं बनती ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि
उसके विशेष ज्ञानमें मतभेद है । चैतन्य-विशिष्ट देहमात्र आत्मा
है, ऐसा प्राकृत जन और लोकायतिक (चार्वाक) मानते हैं । दूसरे कहते
हैं कि चेतन इन्द्रियाँ ही आत्मा हैं । अन्य कहते हैं कि मन ही आत्मा है,

रत्नप्रभा

पत्त्यन्यथानुपपत्त्या सामान्यतः प्रसिद्धौ अपि विशेषस्य अज्ञातत्वाद् विषयादिसिद्धिः
इति सिद्धान्तयति—नेत्यादिना । सामान्यविशेषभावः स्वात्मनि सच्चित्पूर्णादि-
पदवाच्यभेदात् कल्पित इति मन्तव्यम् । तत्र स्थूलसूक्ष्मक्रमेण विप्रतिपत्तीः
उपन्यस्यति—देहमात्रमित्यादिना । शास्त्रज्ञानशून्याः—प्राकृताः । वेदवाह्यमतानि

रत्नप्रभाका अनुवाद

किसीको नहीं होती है । अतः विप्रतिपत्तिकी अन्यथानुपपत्तिसे सामान्यतः प्रसिद्धी
प्रसिद्धि होनेपर भी उसका विशेष ज्ञान नहीं है, इसलिए विषय आदि सिद्ध होते हैं । सत्,
चित्, पूर्ण आदि पदोंका भिन्न अर्थ होता है, इसलिए आत्मामें जो सामान्य और विशेषभाव
हैं, वे कल्पित हैं, ऐसा समझना चाहिए । अब स्थूल और सूक्ष्मके क्रमसे
मतभेद दिखाते हैं—“देहमात्रम्” इत्यादिसे । जिन्हें शास्त्रका कुछ भी ज्ञान नहीं है, उनको
प्राकृत कहते हैं । वेद-वाह्य मतोंको कहकर अब तार्किकोंके मतको “अस्ति” इत्यादिसे

(१) लोकायतिक अर्थात् चार्वाक मतके अनुसार । स्वतन्त्र अथवा अस्वतन्त्र चैतन्य है
हो नहीं, किन्तु देहके आकारमें परिणामको प्राप्त हुए चार भूतोंमें ही चैतन्य अन्तर्भूत है,
जैसा देखें वैसा ही कइने और माननेवाले, चार भूत ही तत्त्व पदार्थ हैं, ऐसा कइनेवाले लोकायतिक
है । त्वगिन्द्रियके आधारभूत देहमें ‘मि मनुष्य हूँ’ ऐसी बुद्धि होनेसे देह ही आत्मा है,
ऐसा देहात्मवादी लोकायतिकोंका मत है ।

(२) नेत्र आदि एक एक इन्द्रिय न हो, तो जैसे अन्ध, बधिर और मूकको रूप, शब्द आदिका
ज्ञान नहीं होता, इसलिए चैतन्य इन्द्रियोंका ही अनुसारी है और अहम्बुद्धि इन्द्रियोंमें ही
होती है, इसलिए इन्द्रियों ही आत्मा है, इस दूसरे पक्षकी ‘इन्द्रियाण्येव’ इत्यादिसे कहते हैं ।

(३) स्वममें नेत्र आदिके न रहने पर भी केवल मनमें ही ज्ञान देखनेमें आता है और
अहम्बुद्धि मनमें सम्पूर्ण प्रकृतिसे देखनेमें आती है, इसलिए मन ही आत्मा है, इस मतान्तर को
‘मन’ इत्यादिसे कहते हैं ।

भाष्य

क्षणिकमित्येके । शून्यमित्यपरे । अस्ति देहादिव्यतिरिक्तः संसारी कर्ता, भोक्तृत्यपरे । भोक्तृत्वं केवलं न कर्तृत्येके । अस्ति तद्व्यतिरिक्त ईश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्तिरिति केचित् । आत्मा स भोक्तुरित्यपरे । एवं बहवो

भाष्यका अनुवाद

कोई कहते हैं कि क्षणिक-विज्ञानमात्र आत्मा है । दूसरोंके मतमें आत्मा शून्य है । देहादिसे भिन्न, संसारी, कर्ता, और भोक्ता आत्मा है, ऐसा और मानते हैं । कोई कहते हैं कि आत्मा केवल भोक्ता ही है, कर्ता नहीं । किसीका कहना है कि जीवसे भिन्न ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिसम्पन्न है । वह ईश्वर भोक्ता (जीव)

रत्नप्रभा

उक्त्वा तार्किकादिमतमाह—अस्तीति । सांख्यमतमाह भोक्तेति । किमात्मा देहादिरूपः उत तद्भिन्न इति विप्रतिपत्तिकोटित्वेन देहेन्द्रियमनोबुद्धिशून्यानि उक्त्वा तद्भिन्नोऽपि कर्तृत्वादिमान् न वा इति विप्रतिपत्तिकोटित्वेन तार्किकसांख्यपक्षौ उपन्यस्य अकर्तापि ईश्वराद् भिन्नो न वेति विवादकोटित्वेन योगिमतमाह—अस्ति तद्व्यतिरिक्त ईश्वर इति । निरतिशयत्वं गृहीत्वा ईश्वरः सर्वज्ञत्वादिसम्पन्न इति योगिनो वदन्ति । भेदकोटिम् उक्त्वा सिद्धान्तकोटिमाह—आत्मा स भोक्तु-

रत्नप्रभाका अनुवाद

कहते हैं । “भोक्ता” इत्यादिसे सांख्य मतको कहते हैं । आत्मा देह आदिरूप है या देह आदिसे भिन्न है, ऐसे मतभेद होनेपर प्रथम देह आदिरूपकी भिन्न भिन्न कोटियों (विभागों) के कथन द्वारा क्रमसे देह, इन्द्रिय, मन, विज्ञान और शून्य ये भेद दिखलाए हैं । अब देह आदिसे भिन्न होने पर कर्ता, भोक्ता है अथवा नहै ? ऐसा मतभेद होता है, इनमेंसे एक कोटिरूपसे तार्किक और सांख्य मत कहकर आत्मा अकर्ता है, तो भी ईश्वरसे भिन्न है या नहीं इसमें योगियोंका मत कहते हैं—“अस्ति तद्व्यतिरिक्त ईश्वर” इत्यादिसे । योगी कहते हैं कि पुरुषोंमें निरतिशयत्वको स्वीकारकर ईश्वर सर्वज्ञत्वादि-गुणसम्पन्न है । भेद-कोटियोंको कहकर “आत्मा स भोक्तु” इत्यादिसे सिद्धान्त कोटि कहते हैं । भोक्ता

(१) अब ‘विज्ञानमात्र’ इत्यादिसे योगचार बौद्धोंके मतको कहते हैं । वाद्य पदार्थ है ही नहीं, आन्तर विज्ञानमात्र ही है, वही आत्मा है और वह क्षणिक है, वाद्यपदार्थमात्र विज्ञानके आकाररूप है, यह योगाचारका मत है ।

(२) आन्तर अथवा वाद्य पदार्थ है ही नहीं, सब शून्य है, आत्मा भी शून्य है, ऐसा शून्यवादी माध्यमिक बौद्धोंका मत है ।

(३) केवल देह आदिसे ही भिन्न नहीं है, बल्कि देह आदिसे भिन्न जो भोक्ता, जीवात्मा है, उससे भी भिन्न है ।

रत्नप्रभा

रिति । भोक्तुर्जीवस्य अकर्तुः साक्षिणः स ईश्वर आत्मा स्वरूपमिति वेदान्ति-
नो वदन्तीत्यर्थः । विप्रतिपत्तीरुपसंहरति—“एवं बहवः” इति । विप्रतिपत्तीनां
प्रपञ्चो निरासश्च विवरणोपन्यासेन दर्शितः सुखबोधाय इति इह उपरम्यते ।

तत्र युक्तिवाक्याश्रयाः सिद्धान्तिनः “जीवो ब्रह्मैव, आत्मत्वाद्, ब्रह्मवत्”
इत्यादियुक्तेः “तत्त्वमसि” (छा० ६।८।१६) इत्यादिश्रुतेश्च अवाधितायाः सत्त्वात् ।
अन्ये तु देहादिरात्माऽहंप्रत्ययगोचरत्वाद् व्यतिरेकेण घटादिवदित्यादियुक्त्याभासम्,
“स वा एष पुरुषोऽक्षरसमयः” (तै० आ० २।१।१) इन्द्रियसंवादे “चक्षुरा-
दयः ते ह वाचमूचुः” (बृ० १।३।२) “मन उवाच” “योऽयं विज्ञानमयः”
(बृ० ४।४।२२) “असदेवेदमत्र आसीत्” (छा० २।१।३।१) “कर्ता”
“बोद्धा” (प्र० ४।९) “अनश्नन्नन्यः” (श्वे० ४।६) “आत्मानमन्तरो यम-
यति” इति वाक्याभासं च आश्रिता इति विभागः । देहादिरनात्मा भौतिकत्वाद्
दृश्यत्वाद् इत्यादिन्यायैः “आनन्दमयोऽभ्यासाद्” (ब्र० सू० १।१।१२) इत्यादि-
सूत्रैश्च आभासत्वं वक्ष्यते ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

अर्थात् जीव जो कि कर्ता नहीं है, साक्षिरूप है, उसका वह ईश्वर आत्मा—स्वरूप है ऐसा
वेदान्ती लोग कहते हैं । भिन्न भिन्न मतोंका “एवं बहवः” इत्यादिसे उपसंहार करते हैं ।
विभिन्न मतोंका विस्तारसे उपपादन और परिहार सुखपूर्वक बोधके लिए विवरण ग्रन्थके
उपन्यास द्वारा दिखाया गया है, इनसे अब हम इस विचारको यहां समाप्त करते हैं । इन
वादियोंमें सिद्धान्तोंका मत युक्ति और वाक्यके आधार पर है । वाक्य अर्थात् श्रुतिवाक्य ।
क्योंकि उनके मतमें ‘आत्मा होनेसे जीव ब्रह्म ही है ब्रह्मकी तरह’ इत्यादि युक्तियों और
‘तत्त्वमसि’ आदि अवाधित श्रुतियों हैं । और अहं प्रतीतिका विषय होनेसे देह आदि ही
आत्मा हैं, जो अहं प्रतीतिका विषय नहीं है, वह आत्मा नहीं है, जैसे घटादि इत्यादि
युक्त्याभास एवं ‘स वा एष०’ (यह यही पुरुष है जो कि अक्षरसमय है) इत्यादि वाक्या-
भासका देहात्मवादी, इन्द्रिय सम्वादमें ‘चक्षुरादयः०’ (चक्षुरादि इन्द्रियोंने वागिन्द्रियसे
कहा) इत्यादि वाक्याभासका इन्द्रियात्मवादी, ‘मन०’ (मनने कहा) इत्यादि वाक्या-
भासका मनको आत्मा माननेवाले, ‘योऽयं विज्ञान०’ (वह, जो कि विज्ञानमय है) इत्यादि
वाक्याभासका बुद्धिको आत्मा माननेवाले, ‘असदेवेदम्’ (पहले यह असत् ही था) इस
वाक्याभासका शून्यवादी, एवं ‘कर्ता’ ‘बोद्धा’ (वह कर्ता है जाननेवाला है) ‘अनश्नन्नन्यः’
(अन्य अर्थात् परमात्मा नहीं भोगता हुआ) ‘आत्मानम्०’ (भीतर रहनेवाला आत्मा
आत्माका नियमन करता है) इत्यादि वाक्याभासोंका तार्किक और मीमांसक आश्रय लेते हैं ।
[उनकी युक्ति अर्थात् साधक-बाधक प्रमाणमात्र प्रमाणाभास हैं अर्थात् प्रमाणसे देखते हैं,
परन्तु, प्रमाण है नहीं] भौतिक और दृश्य होनेसे देह आदि अनात्मा हैं । इत्यादि न्यायोंसे

भाष्य

विप्रतिपन्ना युक्तिवाक्यतदाभासमाश्रयाः सन्तः । तत्राविचार्यं
यत्किञ्चित् प्रतिपद्यमानो निःश्रेयसात् प्रतिहन्येत, अनर्थं चेयात् ।

भाष्यका अनुवाद

का आत्मा—स्वरूप ही है, ऐसा कोई मानते हैं। इस प्रकार युक्ति, वाक्य और उनके आभासके आधारपर बहुतसे मतभेद हैं। उनका विचार किए बिना चाहे जिस मतको ग्रहण करनेवाले मोक्षसे हट जायँगे और उन्हें अनर्थ प्राप्त

रत्नप्रभा

ननु सन्तु विप्रतिपत्तयस्तथापि यस्य यन्मते श्रद्धा तदाश्रयणात् तस्य स्वार्थः
सेत्स्यति, किं ब्रह्मविचारारम्भेण इत्यत आह—तत्राविचार्येति । ब्रह्मात्मैक्यज्ञानादेव
मुक्तिरिति वस्तुगतिः । मतान्तराश्रयणे तदभावाद् मोक्षासिद्धिः । किञ्च, आत्मा-
नमन्यथा ज्ञात्वा तत्पापेन संसारान्धकूपे पतेत्, “अन्धं तमः प्रविशन्ति” (ई० १२)
“ये के चात्महनो जनाः” (ई० ३) इति श्रुतेः,

“योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते ।

किं तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा ॥ १ ॥”

इति वचनाच्चेत्यर्थः । अतः सर्वेषां मुमुक्षूणां निःश्रेयसफलाय वेदान्त-
विचारः कर्तव्य इति सूत्रार्थमुपसंहरति—तस्मादिति । बन्धस्य अध्यस्तत्वेन

रत्नप्रभाका अनुवाद

और ‘आनन्दमयोऽभासात्’ इत्यादि सूत्रोंके द्वाारोंके मत किस प्रकार युक्ति और धृतिके
आभासके आधारपर हैं यह अगि दिखलाया जायगा ।

कोई शंका करे कि मतभेद भले हों, परन्तु जिस मतपर जिसकी श्रद्धा होगी, वह उसका
आश्रय लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा, ब्रह्म विचार करनेका क्या प्रयोजन है ? इस शंकाके
उत्तरमें कहते हैं—“तत्राविचार्यं” इत्यादिसे । ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं, ऐसे ऐक्यज्ञानसे
ही मुक्ति होती है, यह तत्त्व है । अन्य मतोंका आश्रय करनेसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता,
क्योंकि उन मतोंमें जीव और ब्रह्मका ऐक्यज्ञान नहीं है । परन्तु इसके विपरीत आत्माका
मिथ्याज्ञान होनेसे उस पापसे संसाररूपी अन्धकूपमें पडता है । ‘अन्धं तम’ (अविद्यारूप
अन्धतममें प्रवेश करते हैं) ‘ये के चात्महनो जना’ (जो आत्मघाती होते हैं, वे असुर योग्य
लोकमें जाते हैं) इन धृतिया,क्योंसे और ‘योऽन्यथा’ (जो पुरुष आत्माका जैसा सत्य स्वरूप
है, उससे अन्य प्रकारका समझता है, उस आत्मघाती चोरने बौन-सा पाप नहीं किया ?) इस
वचनसे आत्माके सत्य स्वरूपको न समझनेवाला आत्मघाती, महापापी और नरकगामी समझा
जाता है । इसलिए सब मुमुक्षुओंको कल्याणके लिए वेदान्तका विचार करना चाहिए, इस
प्रकार सूत्रार्थका उपसंहार करते हैं—“तस्मात्” इत्यादिसे । आशय यह है कि बंध अध्यस्त

भाष्य

तस्माद् ब्रह्मजिज्ञासोपन्यासमुखेन वेदान्तवाक्यमीमांसा तदविरोधितर्को-
पकरणा निःश्रेयसप्रयोजना प्रस्तूयते ॥ १ ॥

भाष्यका अनुवाद

होने लगेगा, इसलिए ब्रह्म-जिज्ञासाके कथन द्वारा जिसमें अविरुद्ध तर्क साधन-
भूत हैं और जिसका प्रयोजन मोक्ष है, ऐसी वेदान्त-वाक्योंकी मीमांसाका
आरम्भ करते हैं ।

रत्नप्रभा

विषयादिसद्भावात्, अगतार्थत्वाद्, अधिकारिभावात्, आपातप्रसिद्ध्या विषयादि-
सम्भवाच्च वेदान्तविषया मीमांसा पूजिता विचारणा, वेदान्ताविरोधिनी ये तर्काः
तन्त्रान्तरस्थाः तानि उपकरणानि यस्याः सा नि श्रेयसाय आरभ्यते इत्यर्थः ।

ननु सूत्रे विचारवाचिपदाभावात् तदारम्भः कथं सूत्रार्थ इत्यत आह—ब्रह्मेति ।
ब्रह्मज्ञानेच्छोक्तिद्वारा विचारं लक्षयित्वा तत्कर्तव्यतां ब्रवीति इति भावः । एवं
प्रथमसूत्रस्य चत्वारोऽर्था व्याख्यानचतुष्टयेन दर्शिताः । सूत्रस्य च अनेकार्थत्वं
भूषणम् । ननु इदं सूत्रं शास्त्राद् बहिः स्थित्वा शास्त्रमारम्भयति अन्तर्भूत्वा वा ?
आद्ये तस्य हेयता, शास्त्रासम्बन्धात् । द्वितीये तस्य आरम्भकं वाच्यम् । न च

रत्नप्रभाका अनुवाद

• है, इसलिए विषय और प्रयोजन हैं, अन्य तन्त्रोंसे वेदान्तविचार गतार्थ नहा है,
अधिकारिका भी लाभ है, सामान्य प्रासिद्धिसे भी विषय आदिका संभव है, इसलिए वेदान्त
विषयक मीमांसा-पूज्य विचार—मोक्षके लिए आरम्भ की जाती है । वेदान्तके आविरोधा
शास्त्रान्तरोंमें रहनेवाले तर्क भी इसके उपकरण—साधन हैं ।

कोई शक करे कि सूत्रमें विचारवाचक पद नहा है, तो विचारका आरम्भ किस प्रकार
सूत्रका अर्थ है ? इस शकाका समाधान करनेके लिए “ब्रह्म” इत्यादि कहते हैं । तात्पर्य
यह है कि [‘जिज्ञासा’का मुख्य अर्थ ज्ञानकी इच्छा है, परन्तु मुख्य अर्थका ‘कर्तव्या’ (करने
योग्य) के साथ योग नहीं होता, क्योंकि इच्छा की नहीं जाती, इसलिए लक्षणाके आश्रयसे
‘जिज्ञासा’ पदका अर्थ विचार किया है ।] जिज्ञासाका रक्षार्थ विचार है—इसलिए ब्रह्मजिज्ञासा—
ब्रह्मविचार करना चाहिए ऐसा कहा है । इस प्रकार प्रथम सूत्रके चार अर्थ चार व्याख्यानोंसे
दिसलाए गए । अनेक अर्थ होना सूत्रका भूषण है । कोई शक करे कि यह सूत्र शास्त्रके
बाहर रहकर शास्त्रका आरम्भ करता है, या भीतर रहकर ? यदि शास्त्रके बाहर रहकर
आरम्भ करता है, तो इसका शास्त्रसे सम्बन्ध न होनेसे यह त्याज्य है, यदि भीतर रह-

रत्नप्रभा

स्वयमेव आरम्भकम्, स्वस्मात् स्वोत्पत्तेः इति आत्माश्रयात् । न च आरम्भकान्तरं पश्याम इति उच्यते—श्रवणविधिना आरब्धमिदं सूत्रं शास्त्रान्तर्गतमेव शास्त्रारम्भं प्रतिपादयति, यथाऽध्ययनविधिर्वेदान्तर्गत एव कृत्स्नवेदस्य अध्ययने प्रयुङ्क्ते तद्वद् इति अनवद्यम् ॥ १ ॥

प्रथमसूत्रं समाप्तम् ॥ १ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

कर आरम्भ करता है तो इसका आरम्भक दूसरा कहना चाहिए । यह सूत्र स्वयं अपना आरम्भक नहीं हो सकता, क्योंकि अपनेसे यदि अपनी उत्पत्ति मानें तो आत्माश्रय दोष हो जायगा । और दूसरा आरम्भक दिखाई नहीं देता । इसका समाधान इस प्रकार है कि श्रवणौदि विधिसे आरम्भ किया हुआ यह सूत्र शास्त्रके भीतर ही रहकर शास्त्रारम्भका प्रतिपादन करता है । जैसे अध्ययनविधि वेदके भीतर रहकर ही समग्र वेदके अध्ययनमें प्रयोजक है, उसी प्रकार यहां पर भी समझना चाहिए, अतः कुछ दोष नहीं है ।

प्रथमसूत्र समाप्त ॥ १ ॥



(२) 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः' यह श्रवण विधि 'अथातो०' इति सूत्रकी मूल अवश्य है, परन्तु इस सूत्रकी आरम्भक है यह बात विचारने पर भी समझमें नहीं आती । हाँ, यह बात समझमें आती है कि जैसे अध्ययनविधि स्वके साथ ही वेदाध्ययनका विधान करती है, क्योंकि वह भी वेद है, देने ही 'अथातो०' सूत्र स्वके साथ ही ब्रह्म गीमासा शास्त्रके आरम्भका प्रयोजक है, क्योंकि इस सूत्रमें भी ब्रह्म-सम्बन्धी गीमामा ही है ।

जन्माद्यस्य यतः ॥२॥

पदच्छेद—जन्मादि, अस्य, यतः [तद् ब्रह्म]

पदार्थोक्ति—अस्य—जगतः, जन्मादि—जन्मस्थितिभङ्गम्, यतः—यस्मात्,
तद् ब्रह्म ।

भाषार्थ—इस जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और लय जिम्मे होते हैं, वह ब्रह्म है ।

—:०:—

[२ जन्माद्यधिकरण]

लक्षणं ब्रह्मणो नास्ति किं वास्ति, नहि विद्यते । जन्मादेरन्यनिष्ठत्वात्सत्यादेःश्राप्रसिद्धितः॥
ब्रह्मानिष्टं कारणत्वं स्यात्तद्वत् स्रग्भुजंगयत् । लौकिकान्येव सत्यादान्यखण्डं लक्षयन्ति हि॥

[अधिकरणमार]

संशय—ब्रह्मका लक्षण होकरता है अथवा नहीं ?

पूर्वपक्ष—जन्म आदि जगत्के धर्म हैं, ब्रह्मसे उनका क्या सम्बन्ध है और
लोक प्रसिद्ध सत्य आदि भिन्न भिन्न अर्थोंके वाचक है, उनसे भी अस्पष्ट ब्रह्म कैसे
सिद्ध हो ? इसलिये ब्रह्मके तटस्थ और स्वल्प दोनों लक्षण नहीं बन सकते ।

(१) यह वाक्य शेष है ।

(२) त्वत्तोऽस्य जन्मादिवृत्तिगमयमान् विभो ' वदन्त्यनीहादगुणादविक्रियात् ।

(मा० १० । ३ । १९)

(हे सर्वव्यापिन् ' आपसो जाननेवाले कहते हैं कि निरीह, निर्गुण तथा निर्विकार—
आपसे हा हम जगत्की उत्पत्ति, पालन और संहार होने हैं ।)

(३) इस अधिवरणका विषय—'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' इत्यादि वाक्य है । पूर्व
अधिवरणसे इसकी आक्षेपित्ता मगति है ।

(४) (क) 'तद्विब्रत्त्वे मनि तद्वोधवत्त्वम्' (उसके स्वरूपसे पृथक् होता हुआ, उसका बोधक)

(ग) 'दादृश्यकारणमनवद्विजित्त्वे सति व्यावर्तयत्वम्' (जब तब लक्ष्य रहे, तबतक
न रहता हुआ भी अन्य पदार्थोंसे लक्ष्यका भेद करनेवाला ।)

(५) स्वरूप सद् व्यावर्तयम्, यथा पृथिव्याः पृथिवीत्वम् ।

(स्वरूप होता हुआ अन्य पदार्थोंसे भेद करनेवाला, जैसे पृथिवीका पृथिवीत्व है ।)

(६) 'सजातीयविजातीययोरे हि व्यावर्तकं लक्षणम्' । सजातीयों और विजातीयोंसे लक्ष्यका
भेद करनेवाला लक्षण कहलाता है । जैसे 'गन्धवर्ती पृथिवी' । यहाँ पृथिवीका गन्धवत्त्वलक्षण
भूतत्वेन सजातीय बल आदि चारों भूतोंसे पृथिवीका भेद करता है और विजातीय आत्मा
आदिसे भी पृथिवीका भेद करता है ।

सिद्धान्त—यद्यपि जन्म आदि जगत्के धर्म हैं, तथापि उनका कारण ब्रह्म है। जो सर्प है, वही माला है—इस बाध-सर्मानाधिकरणसे ब्रह्मका तटस्थ लक्षण सिद्ध होता है। तथा सत्य, ज्ञान आदि यद्यपि भिन्नार्थक हैं, तो भी उनका पर्यवसान ब्रह्ममें है। इससे स्वरूप लक्षण सिद्ध है। अर्थात् प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे प्रतीयमान इस जगत्का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है।

(१) समान—एक ही अधिकरण—अर्थरूप आश्रय जिनका ऐसे जो दो शब्द, वे समानाधिकरण कहलाते हैं। उक्त ममानाधिकरण दो प्रकारका होता है—मुख्यसमानाधिकरण और बाधसमानाधिकरण। एक सत्ता और स्वरूपवाले वास्तवभेदरहित दो अर्थोंके बोधक वाक्यगत दो पदोंका मुख्य समानाधिकरण होता है। जैसे घटाकाश और महाकाशका, कूटस्थ और ब्रह्मका। भिन्न सत्तावाले दो पदार्थोंकी एक विभक्तिके बलसे एकताके बोधक वाक्यगत दो पदोंका बाध समानाधिकरण है। जैसे स्थाणु और पुरुषका (स्थाणुरय नाय पुरुष), सप और मालाका (यो मुञ्ज सा लक्ष्) तथा ब्रह्म और जातका (यद् जगत्कारण तद् ब्रह्म)।

(२) जिस प्रकार एक ही देवदत्तको पुत्र, पौत्र, पितामह, भाई, जामाता, श्वशुर, पति आदि भिन्नार्थक शब्दोंसे पुकारनेमें कोई विरोध नहीं है, इसी प्रकार लोकप्रसिद्ध भिन्नार्थक सत्य आदि शब्दोंका अखण्ड ब्रह्ममें कोई विरोध नहीं है।

(३) स्मृतिसे भिन्न अवाचित अर्थको विषय करनेवाले ज्ञानको प्रमा कहते हैं। प्रमाज्ञानका जो करण है, वह प्रमाण कहलाता है। असाधारण कारणको करण कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाके असाधारण कारण नेत्र आदि इन्द्रियाँ हैं। इस रीतिसे नेत्र आदि इन्द्रियोंको प्रत्यक्षप्रमाण कहते हैं। प्रमाण पूर्वमीमांसा तथा वेदान्तशास्त्रमें छ प्रकारके माने गये हैं। (I) प्रत्यक्ष, (II) अनुमान, (III) उपमान, (VI) शब्द, (V) अर्थापत्ति और (VI) अनुपलब्धि।

(४) कारण दो प्रकारके होते हैं—(I) उपादान और (II) निमित्त। जिसका कार्यके स्वरूपमें प्रवेश हो, जिसके बिना कार्यकी स्थितिका सम्भव ही न हो, ऐसा जो कार्यकी उत्पत्तिमें हेतु, उसे उपादान-कारण कहते हैं। जैसे श्रुतिका घटका, सुवर्ण गहनोंका उपादान कारण है। जिसका कार्यके स्वरूपमें प्रवेश नहीं होता, जो पृथक् स्थित रक्षक कार्यकी उत्पत्ति करता है, उसे निमित्त कारण कहते हैं। जैसे घटके कुलाल, दण्ड, चक्र आदि, गहनोंके सुगार, शूरी, मट्टी आदि। जिस कार्यके अभिन्न—एक ही उपादान और निमित्त कारण हो, उसे अभिन्न-निमित्तोपादान कहते हैं। जैसे मक्की जालेकी, साड़ी चेतन स्वप्नप्रपञ्चवा, जीवात्मा ज्ञान आदि शृणोंका, इसी प्रकार ब्रह्म जगत्का अभिन्न निमित्तोपादान-कारण है। इसमें प्रमाण है—

‘सोऽकामयत बहु स्वां प्रत्नयेति’ (तै० २।६)

(उसने इच्छा की, मैं बहुत होऊँ, प्रज्ञारूपमें उत्पन्न होऊँ ।)

‘स तपोऽतप्यत, स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत यदिदं विभ्रं’ (तै० २।६)

(उसने तप—विचार किया, तप करके जो कुछ वहाँ विषयमान है, इस सपकी सृष्टि की ।)

‘तद्देशत बहु स्वां प्रत्नयेय’ (छा० ६।२।३)

(उसने इच्छा किया कि मैं बहुत होऊँ, प्रज्ञारूपमें उत्पन्न होऊँ ।)

भाष्य

ब्रह्म जिज्ञासितव्यमित्युक्तम् । किञ्चक्षणकं पुनस्तद् ब्रह्म इत्यत आह भगवान् सूत्रकारः—‘जन्माद्यस्य यतः’ इति ।

भाष्यका अनुवाद

प्रथम अधिकरण में कहा है कि ब्रह्मकी जिज्ञासा करनी चाहिये । प्रश्न होता है कि ब्रह्मका क्या लक्षण है ? इसपर भगवान् सूत्रकार कहते हैं—‘जन्माद्यस्य०’

रत्नप्रभा

प्रथमसूत्रेण शास्त्रारम्भमुपपाद्य शास्त्रमारभमाणः पूर्वोत्तराधिकरणयोः सङ्गतिं वक्तुं वृत्तं कीर्तयति—ब्रह्मेति । मुमुक्षुणा ब्रह्मज्ञानाय वेदान्तविचारः कर्तव्य इत्युक्तम् । ब्रह्मणो विचार्यत्वोक्त्या अर्थात् प्रमाणादिविचाराणां प्रतिज्ञातत्वेऽपि ब्रह्मप्रमाणं ब्रह्मयुक्तिरित्यादिविशिष्टविचाराणां विशेषब्रह्मज्ञानं विना कर्तुमशक्यत्वात् तत्स्वरूपज्ञानाय

रत्नप्रभाका अनुवाद

प्रथम सूत्रसे शास्त्रके आरम्भकी उपपत्ति दिखलाकर शास्त्रका आरम्भ करते हुए भाष्यकार पूर्व और पर अधिकरणकी संगतिको सूचित करनेके लिए पूर्व उक्तका पुनः प्रतिपादन करते हैं—‘ब्रह्म’ इत्यादिसे । पहले कहा है—मुमुक्षुओंको ब्रह्मज्ञानके लिए वेदान्त-विचार करना चाहिये । ब्रह्म विचारके योग्य है—इस कथनसे प्रमाण, लक्षण, युक्ति आदि विचारोंकी प्रतिज्ञा यद्यपि हो जाती है, तो भी ब्रह्मप्रमाण, ब्रह्मयुक्ति आदि विशिष्ट विचार, विशेष ब्रह्मज्ञानके बिना नहीं हो

जब ब्रह्मज्ञाने बछड़े और ग्वाल-बाल सब चुरा लिये, तब भगवान् श्रीकृष्णने—

‘ततः कृणोत मुद कर्तुं तन्मातृणां च कस्य च । उभयायितमात्मानं चक्रे विश्वकृदीश्वरः ॥’

तदनन्तर जगतके रचायिता कृष्ण भगवान् बछड़ों और ग्वाल-बालोंकी माताओं और ब्रह्मके सन्तोषके लिए उतने बछड़ों और ग्वाल-बालोंके रूपमें आप ही हो गये ।

‘यावद्ब्रह्मपनस्तकाल्यकवपुर्यावत्कराद्ब्रह्ममादिक यावद्यष्टिविपाणवेषुदलशिग्यावद्विभूषाम्बरम् ।

यावद्दृशीलगुणाभिधाकृतिययो यावद्विहारादिक सर्वं विष्णुमयं गिरोऽद्भवदजः सर्वस्वरूपो बभौ ॥’

‘बछड़े और ग्वाल-बालोंका जैसा छोटा-सा शरीर था, जैसे हाथ-पाँव थे, जैसे उनके लाठी, सींग, बाँसुरी आदि थे, जैसे उनके भूषण-वसन थे, जैसे उनके शील, गुण, नाम, आकृति, अवस्था आदि थे, जैसा उनका आहार-विहार आदि था, ‘यह सारा संसार विष्णुरूप है’ इस वाणीके अनुसार सर्वस्वरूप अब ठीक उसी रूपमें हो गये ।’

सप्रमात्मात्मगोवत्सत्वात् प्रतिवायांत्वत्सत्पैः । क्रीडन्नात्मविहारैश्च सखांत्मा प्राविशद् ब्रजम् ॥

‘सर्वात्मा श्रीकृष्ण आप ही बत्सपालरूपसे बत्सरूप अपनेको धरकर आप अपने ही साथ विहार करते हुए ब्रजमें प्रविष्ट हुए ।’

१—सापक-बापक प्रमाणोंके सहकारी तर्क । २—ब्रह्म विचारणीय है, इससे ब्रह्मका सामान्य ज्ञान होता है और ब्रह्म क्या है—येसा ज्ञान प्राप्त करनेसे ब्रह्मका विशेष ज्ञान होता है ।

रत्नप्रभा

आदौ लक्षणं वक्तव्यं, तन्न सम्भवति इत्याक्षिप्य सूत्रकृतं पूजयन्नेव लक्षणसूत्रमवता-
रयति—किंलक्षणकमिति । किमाक्षेपे । नाऽस्त्येव लक्षणमित्यर्थः । आक्षेपेणास्योत्था-
नात् आक्षेपसङ्गतिः । लक्षणद्योतिवेदान्तानां स्पष्टब्रह्मलिङ्गानां लक्ष्ये ब्रह्मणि समन्व-
योक्तेः श्रुतिशास्त्राध्यायपादसङ्गतयः । तथा हि—‘यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’
इत्यादि वाक्यं विषयः । तत् किं ब्रह्मणो लक्षणं वक्ति न वेति सन्देहः ? तत्र
पूर्वपक्षे ब्रह्मस्वरूपासिद्ध्या भुवत्यसिद्धिः फलम्, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरितिः भेदः ।
यद्यपि आक्षेपसङ्गतौ पूर्वाधिकरणफलमेव फलमिति कृत्वा पृथग् न वक्तव्यम्,

‘आक्षेपे चाऽपवादे च प्राप्यां लक्षणकर्मणि ।

प्रयोजनं न वक्तव्यं यच्च कृत्वा प्रवर्तते ॥’

रत्नप्रभाका अनुवाद

समते हैं, इसलिए ब्रह्म-स्वरूपके ज्ञानके लिए पहले ब्रह्मका लक्षण कहना चाहिये । परन्तु वह
सम्भव नहीं है—ऐसा आक्षेप करके सूत्रकारका आदर करते हुए लक्षणसूत्रकी अवतरणिका
देते हैं—“किंलक्षणकम्” इत्यादिसे । ‘किम्’ पद आक्षेपका वाचक है । तात्पर्य यह कि ब्रह्मका
लक्षण नहीं है—इस आक्षेपसे इस अधिकरणका उत्थान होता है, इसलिए पूर्व-अधिकरणसे
इसकी आक्षेपसंगति है । स्फुटताया ब्रह्मके अभिज्ञानसे युक्त एवं ब्रह्मके लक्षणका द्योतन करने-
वाली श्रुतियोंका लक्ष्यरूप ब्रह्ममें समन्वय किया है, इसलिए सूत्रके साथ श्रुतिसंगति, शास्त्रसंगति,
अध्यायसंगति और पादसंगति हैं । यह अधिकरण इस प्रकार है—‘यतो वा इमानि’ इत्यादि
वाक्य इस अधिकरणका विषय है । उक्त वाक्य ब्रह्मके लक्षणको कहता है या नहीं, यह
सन्देह है । पूर्वपक्षमें ब्रह्मस्वरूपके सिद्ध न होनेसे मुक्तिनी असिद्धि फल है । सिद्धान्त-
में ब्रह्मस्वरूप सिद्ध होता है, अतः मुक्ति सिद्धि फल है । पूर्वपक्ष और सिद्धान्तमें यह अन्तर
है । “यद्यपि जहाँ आक्षेप संगति होती है, वहाँ पूर्व-अधिकरणका फल ही उत्तर-अधिकरणका
फल माना जाता है, अतः पृथग् फल कहनेका आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आक्षेपाधिकरणमें,

१—जिस सूत्रमें ब्रह्मके लक्षणका निर्देश है अर्थात् दूसरा सूत्र ।

(२) जहाँ पूर्व अधिकरणके सिद्धान्तपर उत्तर अधिकरणमें आक्षेप करके पूर्वाधिकरणके सिद्धान्तकी
ही सिद्धि की जाती है, वहाँ पृथग् फल कहनेकी आवश्यकता नहीं रहती । जैसे कि पूर्व मीमांसके
प्रथम अध्यायके प्रथम पादके पञ्चम अधिकरणमें सिद्धान्त लिया गया है कि शब्द और अर्थका
सम्बन्ध नित्य है, उसका फल है—वेदमें स्वतः प्रामाण्यकी सिद्धि । बाद षष्ठ अधिकरणमें ‘शब्द
नित्य नष्ट है, क्योंकि उसका नाश होना प्रत्यक्ष देखनेमें आता है’ ऐसा आक्षेप करके शब्दकी
नित्यता सिद्ध की गई है । यह बात पूर्वाधिकरणसे सिद्ध ही है, क्योंकि शब्द और अर्थका सम्बन्ध
नित्य है ऐसा कहनेसे अर्थात् सिद्ध हो गया कि शब्द नित्य है । यदि शब्द अनित्य होता, तो
उसका अर्थके साथ सम्बन्ध भी अनित्य ही होता । अतः इस (षष्ठ) अधिकरणका फल भी
शब्दनित्यत्वसिद्धि द्वारा वेदमें स्वतः प्रामाण्यसिद्धि करना ही है । इसलिए पृथग् फल कहनेकी
आवश्यकता नहीं है ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

अपवादविपरणमें, प्राप्तिमूर्धमें, लक्षणकर्ममें एवं कृत्याचिन्ताधिकरणमें, प्रयोजन

(१) जहाँ पूर्व अधिकरणके सिद्धान्तका अपवाद उत्तर अधिकरणमें होता है, वहाँ पूर्वाधिकरणके फलमें विपरित फल अर्थन सिद्ध होता है, अतः उसे पृथक् कहनेकी आवश्यकता नहीं रहती। जैसे कि पूर्व-मीमांसाके प्रथम अध्यायके तृतीय पादके प्रथम अधिकरणमें सिद्धा त किया गया है कि 'स्मृतियों वेदमूलक होनेके कारण प्रमाण हैं।' उत्तरा प्रयोजन है—'अष्टवा वर्तव्या' इत्यादि रग्लुक्त कर्मोंमें भा रग आदि फल होता है ऐसा ज्ञान करना। बाद द्वितीय अधिकरणमें श्रुतिविरुद्ध रगति प्रमाण नहीं है ऐसा रगतिप्रामाण्यका अपवाद किया गया है। तो इस (द्वितीय) अधिकरणका फल अतः सिद्ध हो गया कि श्रुतिविरुद्ध रगतिसे प्रतिपादित कर्मोंका अनुष्ठान करनेसे रग आदि फल नहीं होता, अतः पृथक् फल कहनेकी आवश्यकता नहीं है।

(२) जिस विधी विषयको समझानेके लिए ही जिस प्रकरणका आरम्भ होता है, उस प्रकरणके फलको पृथक् कहनेकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वही विषय फल हो जाता है। जैसे कि पूर्व-मीमांसाके पहले छ अध्यायोंसे उपदेशका विचार करके उत्तर छ अध्यायोंसे अतिदेशका विचार करते हैं। वहाँ सप्तम अध्यायके प्रथमाधिकरणमें विचार किया गया है कि दशपूर्णमास आदि प्रकरणमें कथित धर्म प्रयाज आदि, सब यागोंके लिए कहे गये हैं अथवा जिन यागोंके प्रकरणमें कथित हैं उन्हीं यागोंके लिए? यदि सब यागोंके लिए है तो सौर्य आदि कृतितियागोंमें भी उपदेशसे ही प्रयाज आदि अह्नोवा टाभ होनेसे अतिदेश विचार आरम्भ करना व्यर्थ हो जायगा। यदि तिन यागोंके प्रकरणमें पठित हैं केवल उन्हीं यागोंके लिए हा तो सौर्य आदि कृतितियागोंमें अन्न न होनेसे अतिदेशसे प्रयाज आदि अन्न प्राप्त हो जायगे, अतः अतिदेश विचार आरम्भ करना टाभ है, ता सौर्य आदि यागोंमें अन्नप्राप्तिके लिए ही अतिदेश विचारका आरम्भ है अतः उनमें अन्नप्राप्ति ही फल है इसलिए पृथक् फल कहनेकी आवश्यकता नहीं है।

(३) प्रसङ्गात् किमी पदार्थका जहाँ लक्षण कहा जाय, वहाँ पृथक् फल कहनेकी आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि पूर्व-मीमांसाके द्वितीय अध्यायके प्रथम पादके पञ्चम अधिकरणमें मन्त्र विधायक है अथवा अभिधायक है? इसका विचार किया गया है। बाद षष्ठाधिकरणमें मन्त्रप्रवृत्तात् मन्त्र लक्षण कहा गया है। इससे केवल लक्ष्यका स्वरूप ज्ञान होता है, लक्ष्यका ज्ञान तो पहले ही है। अतः पृथक् फल कहनेकी आवश्यकता नहीं है।

(४) विधी अतिदान्त विषयको कुछ देरक लिए मानकर उत्तर उन्हा विचार किया जाता है, उस स्थलमें उस विचारके फलको पृथक् कहनेकी आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि पूषमार्गासाके तृतीय अध्यायक द्वितीय पादके पञ्चदशाधिकरणमें भक्ष्यमन्त्रका विनियोग केवल इन्द्रदेवताक भक्ष्यमें है? तद्विन्देवताव भक्ष्य अमन्त्रक होना चाहिए अथवा ऊह करना चाहिए? अथवा सर्वत्र उसी मन्त्रको (विना ऊहके) कहना चाहिए? ऐसा सन्देह करके विचार किया है। इसका सिद्धान्त यद्यपि 'सर्वत्र एव ही मन्त्र समान है, ऊह आदि नहीं है।' ऐसा है, तथापि विचारके बीचमें कुछ देरके लिए 'ऊह करना चाहिए' इस पक्षको मानकर पञ्चदश अधिकरणमें विचार किया है कि यदि ऊह हो तो किस प्रकार करना चाहिए इत्यादि। अतः इस अधिकरणके फलको पृथक् कहनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्वाधिकरणका फल ही इस अधिकरणका भी फल है।

रत्नप्रभा

इति, तथापि स्पष्टार्थमुक्तमिति मन्तव्यम् । यत्र पूर्वाधिकरणसिद्धान्तेन पूर्वपक्षः, तत्र आपवादिकी सङ्गतिः । प्राप्तिसूतार्था चिन्ता । तत्र न वक्षीति प्राप्तम् । जन्मादेर्जगद्धर्मत्वेन ब्रह्मलक्षणत्यायोगात् । न च जगदुपादानत्वे सति कर्तृत्वं लक्षणमिति वाच्यम्, कर्तुरुपादानत्वे दृष्टान्ताभावेनाऽनुमानाप्रवृत्तेः न च श्रौतस्य ब्रह्मणः श्रुत्यैव लक्षणसिद्धेः किमनुमानेनेति वाच्यम्, अनुमानस्य श्रुत्यनुग्राहकत्वेन तदभावे तद्विरोधे वा श्रुत्यर्थसिद्धेः । न च जगत्कर्तृत्वमुपादानत्वं वा प्रत्येकं लक्षणमस्तु इति वाच्यम्, कर्तृत्वमात्रस्य उपादानाद् भिन्नस्य ब्रह्मत्वायोगात् वस्तुतः परिच्छेदादिति प्राप्ते पुरुषाभ्यूहमात्रस्य अनुमानस्य अप्रतिष्ठितस्य अतीन्द्रियार्थे स्वातन्त्र्यायोगात् । अपौरुषेयतया निर्दोषश्रुत्युक्तोभयकारणत्वस्य सुखादिदृष्टान्तेन सम्भावयितुं शक्यत्वात्, तदेव लक्षणमिति सिद्धान्तयति—‘जन्माद्यस्य यतः’ इतीति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

कहनेकी आवश्यकता नहीं है—ऐसा उद्धेने कहा है, तो भी यहाँ स्पष्टीकरणार्थ प्रयोजन कहा गया है । जहाँ पूर्व-अधिकरणके सिद्धान्तपर उत्तर-अधिकरणमें पूर्वपक्ष होता है, वहाँ अपवादसंगति होती है । जहाँ उरका विचार होता है, उसे प्राप्ति कहते हैं । पूर्वोक्त सन्देह होने पर उक्त वाक्य ब्रह्मका लक्षण नहीं कहता है ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होता है; क्योंकि जन्म आदि जगत्के धर्म होनेसे ब्रह्मके लक्षण नहीं हो सकते, कारण कि अनित्य वस्तु नित्य वस्तुका लक्षण नहीं हो सकती । ब्रह्म जगत्का उपादान होता हुआ कर्ता है—यह लक्षण भी नहीं हो सकता, कारण कि कर्ता उपादान हो ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं है, अतः अनुमानकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी । धृतिसे ही धृतिप्रतिपादित ब्रह्मके लक्षणकी सिद्धि हो जायगी, अनुमानका क्या प्रयोजन ? ऐसा भी नहीं कहना चाहिये, क्योंकि अनुमान धृतिका सहायक है, इसलिए अनुमानके अभावमें अथवा विरोधमें धृतिके अर्थकी सिद्धि नहीं होगी । ‘जगत्का कर्ता ब्रह्म है’ या ‘जगत्का उपादान ब्रह्म है’ ऐसा ब्रह्मका प्रत्येक लक्षण है, यह भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उपादानसे भिन्न कर्तामात्र ब्रह्म नहीं हो सकता । इत्यादि पूर्वपक्ष होनेपर सिद्धान्तों कहता है—पुरुषके तर्कमात्रपर निर्भर अत एव अप्रतिष्ठित अनुमान अतीन्द्रिय पदार्थकी सिद्धि करनेमें स्वतन्त्र नहीं हो सकता, इसलिए अपौरुषेय होनेके कारण निर्दोष धृति द्वारा उक्त जगत्के प्रति ब्रह्मकी उपादान-कारणता तथा निमित्त-कारणता श्रुत्यादिके दृष्टान्तसे मान लेना ठीक है । अर्थात् जैसे तार्किक आत्मामें श्रुतवा उपादान और निर्मित दोनों कारण मानते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म भी जगत्का उपादान और निमित्त-कारण दोनों हो सकता है । परी ब्रह्मका लक्षण है “जन्माद्यस्य” से ऐसा सिद्धान्त करने हैं ।

भाष्य

जन्मउत्पत्तिः आदिरस्येति तद्गुसंविज्ञानो बहुव्रीहिः। जन्मस्थितिर्ब्रह्म

भाष्यका अनुवाद

जन्म अर्थात् उत्पत्ति है आदिमें जिनके, वे जन्म आदि, यह तद्गुण-संविज्ञान बहुव्रीहि है। इस समासका अर्थ है—जन्म, स्थिति और नाश।

रत्नप्रभा

अत्र यद्यपि 'जगज्जन्मस्थितिलयकारणत्वम्' लक्षणं प्रतिपाद्यते, तथाप्यग्रे 'प्रकृतिश्च प्रतिजादृष्टान्तानुरोधत्' (ब्र० सू० १।४।२३) इत्यधिकरणे तत्कारणत्वं न कर्तृत्वमात्रं किन्तु कर्तृत्वोपादनत्वोभयरूपमिति वक्ष्यमाणं सिद्ध-वत्कृत्य उभयकारणत्वं लक्षणमित्युच्यते इति न पौनरुक्त्यम्। ननु जिज्ञास्यनि-र्गुणब्रह्मणः कारणत्वं कथं लक्षणम् इति चेद्, उच्यते—यथा रजतं शुक्ललक्षणं यद्भजतं सा शुक्तिरिति, तथा यद् जगत्कारणम् तद् ब्रह्मेति कल्पितं कारणत्वं तदस्थं सदेव ब्रह्मणो लक्षणमित्यनवद्यम्। सूत्रं व्याचष्टे—जन्मेत्यादिना। बहुव्रीहौ

रत्नप्रभाका अनुवाद

यहाँ यद्यपि जगत्के जन्म, स्थिति और लयका कारण ब्रह्म है, इस प्रकार ब्रह्मका लक्षण कहा गया है, तो भी आगे चलकर 'प्रकृतिश्च' इस अधिकरणमें ब्रह्म जगत्का केवल निमित्त-कारण ही नहीं है, किन्तु निमित्त और उपादान दोनों कारण है ऐसा कहा जायगा। इसको सिद्धवत् मानकर कहते हैं—उभयै-कारणत्व ब्रह्मका लक्षण है, इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं है। यदि यहाँ कोई ऐसी शंका करे कि जिज्ञास्यै, निर्गुण ब्रह्मका जगत्कारणत्व लक्षण कैसे हो सकता है, तो इस शंकाका निरास इस प्रकार किया जाता है—जो चाँदी है, वह सोप है, इस प्रकार जैसे चाँदी सोपका लक्षण है, इसी प्रकार जो जगत्का कारण है, वह ब्रह्म है—ऐसा कल्पित जगत्कारणत्व तदस्थं होकर ही ब्रह्मका लक्षण होता है, इसलिए दोष नष्ट है। भाष्यकार

१—इसका अर्थ व्याख्यामें समझाया है—'लम्बवर्णमानव' (लम्बे धानवालेको लामो) यहाँ पर 'लम्बकर्म' में तद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहि है, क्योंकि लम्बकर्म (गददे) के साथ उसके धान भी आ जायेंगे। 'दृष्टसागरमानव' (जिसने सागर देखा है, उसे लामो) 'चित्रगुमानव' (चित्रकवरी गाववालेको लामो) इसमें सागर या चित्रगोयें मनुष्यके साथ नहीं आयेंगी। इसलिए यह अतद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहि है।

(२) सिद्ध हुआ—नैसा, सिद्धकी तरह। (३) जगत्का उपादान और निमित्त कारण। (४) जाननेकी इच्छाका विषय।

(५) लक्षण दो प्रकारके होते हैं—(I) तदस्थ और (II) स्वरूप। जो धर्म कभी धर्मके साथ सम्बद्ध हो, वह तदस्थ लक्षण है, जैसे छत्र, चामर आदि रागके तदस्थ लक्षण हैं। इसी प्रकार जगद्-गन्मादिकारणत्व ब्रह्मका तदस्थ लक्षण है, 'सच्चिदानन्द' ब्रह्मका स्वरूप लक्षण है।

भाष्य

समासार्थः । जन्मनश्च आदित्वं श्रुतिनिर्देशापेक्षं वस्तुवृत्तापेक्षश्च । श्रुति-
भाष्यका अनुवाद
श्रुतिनिर्देश और वस्तुस्थिति की अपेक्षा जन्मका पहले उपादान किया है ।

रत्नप्रभा

पदार्थाः सर्वे वाक्यार्थस्य अन्यपदार्थस्य विशेषणानि । यथा चित्रगोर्देवदत्तस्य
चित्रा गावः, तद्ब्रह्मणाऽपि जन्मादीति नपुंसकैकवचनद्योतितस्य समाहारस्य
जन्मस्थितिभङ्गस्य जन्म विशेषणम् । तथा च जन्मनः समासार्थैकदेशस्य गुणत्वेन
संविज्ञानं यस्मिन् बहुव्रीहौ स तद्गुणसंविज्ञान इत्यर्थः । तत्र यद् जन्मकारणम्,
तद् ब्रह्म इति ब्रह्मत्वविधानमयुक्तम्, स्थितिलयकारणाद् भिन्नत्वेन ज्ञाते ब्रह्मत्वस्य
ज्ञातुमशक्यत्वात् । अतो जन्मस्थितिभङ्गैर्निरूपितानि त्रीणि कारणत्वानि मिलि-
तान्येव लक्षणमिति मत्वा सूत्रे समाहारो द्योतित इति ध्येयम् । ननु आदित्वं जन्मनः
कथं ज्ञातव्यं संसारस्याऽनादित्वात् इत्यत आह—जन्मनश्चेति । मूलश्रुत्या वस्तुगत्या
च आदित्वं ज्ञात्वा तदपेक्ष्य सूत्रकृता जन्मन आदित्वमुक्तमित्यर्थः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

सूत्र का व्याख्यान करते हैं—“जन्म” इत्यादिसे । बहुव्रीहि-समासमें सब पदार्थ वाक्यार्थ-
भूत अन्य पदार्थके विशेषण होते हैं । जैसे ‘चित्रगुर्देवदत्त’ (चितकनरी गायवाला
देवदत्त) इसमें चितकनरी गाय देवदत्तके विशेषण हैं, वैसे ‘जन्मादि’ में नपुंसक एकवचन-
से द्योतित जन्म-स्थिति-भङ्गरूप समुदाय का जन्म विशेषण है । इस प्रकार बहुव्रीहि-समास-
के अर्थके एक देश—भाग जन्मना बहुव्रीहिमें विशेषणरूपसे संविज्ञान होता है, अतः
यह तद्गुण-संविज्ञान बहुव्रीहि है । जन्मादिसूत्रमें जो जन्मका कारण है, वह ब्रह्म है—
ऐसा ब्रह्मत्वका विधान करना उचित नहीं है, क्योंकि स्थिति-कारण तथा लयकारणसे जन्म
कारणकी पृथक्त्वेन प्रतीति होने पर अद्वितीय ब्रह्मना ज्ञान नहीं हो सकेगा । इसलिए
जन्म, स्थिति और लयसे निरूपित तीनों कारण मिलकर ही ब्रह्मके लक्षण हैं—ऐसा
विचार कर सूत्रमें जन्मादि पदसे ‘जन्मादिस्थितिभङ्गम्’ समुदायको सूचित किया है । यदि
कोई संशय करे कि संसार अनादि है, अतः जन्मकी आदितानकी प्रतीति कैसे की जाय ?
इसके उत्तरमें कहते हैं—“जन्मनश्च” इत्यादि । तात्पर्य यह है कि मूल श्रुति एवं वस्तुस्थिति
से जन्मकी आदितानको जानकर उताके अनुरोधसे सूत्रकारने जन्मना प्राथम्येन
निर्देश किया है ।

१—बहुव्रीहि समासमें समस्त पदार्थ अन्य पदार्थके विशेषण होंगे है और गौण होंगे है ।
जो अन्य पदार्थ विशेषण होना है वही वाक्यार्थमें प्रधान रहता है । जैसे ‘पीताम्बरो हरिः ।’
यहाँ ‘पीताम्बरः’ विशेषण है और ‘हरिः’ विशेष्य और वही प्रधान है, पीताम्बर गौण है ।

भाष्य

निर्देशस्तावत्—‘यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’ (तै० ३।१)
इत्यस्मिन् वाक्ये जन्मस्थितिप्रलयानां क्रमदर्शनात्। वस्तुवृत्तमपि,
जन्मना लब्धसत्ताकस्य धर्मिणः स्थितिप्रलयसम्भवात्।

अस्येति प्रत्यक्षादिसन्निधापितस्य धर्मिण इदमा निर्देशः। पृष्ठी
जन्मादिधर्मसम्बन्धार्था। यत इति कारणनिर्देशः। अस्य जगतो नाम-
भाष्यका अनुवाद

श्रुतिनिर्देश है—‘यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’ इस वाक्यमें जन्म, स्थिति
और लयका क्रमशः दर्शन होता है। वस्तु-स्थिति भी ऐसी ही है, क्योंकि जन्म-
से सत्ताको प्राप्त हुए धर्माकी स्थिति और लयका होना सम्भव है।

‘अस्य’ इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान आदिसे संवेदित धर्मा (जगत्-वियत्
आदि) का ‘इदम्’ शब्दसे निर्देश है। पृष्ठी विभक्ति जन्म आदि धर्मसे
धर्माके सम्बन्धका द्योतन करती है। ‘यतः’ से कारणका निर्देश है। नाम-रूपसे

रत्नप्रभा

इदमः प्रत्यक्षार्थमात्रवाचित्वमाशङ्क्य उपस्थितसर्वकार्यवाचित्वमाह—अस्येतीति।
वियदादिजगतो नित्यत्वात् न जन्मादिसम्बन्ध इत्यत आह—पृष्ठीति। वियदादिभूतानां
जन्मादिसम्बन्धो वक्ष्यते इति भावः। ननु जगतो जन्मादेर्वा ब्रह्मसम्बन्धाभावात् न
लक्षणत्वमित्याशङ्क्य तत्कारणत्वं लक्षणमिति पञ्चम्यर्थमाह—यत इतीति। यच्छ-
ब्देन सत्यं ज्ञानमनन्तमानन्दरूपं वस्तुच्यते। ‘आनन्दाद्वैयव’ (तै० आ० ३।६।१)
इति निर्णयित्वात्, तथा च स्वरूपलक्षणसिद्धिरिति मन्तव्यम्। पदार्थमुक्त्वा पूर्व-

रत्नप्रभाका अनुवाद

‘इदम्’ पद केवल प्रत्यक्ष अर्थना ही बोधक है, ऐसी आशङ्का कर “अस्य” आदिसे
भाष्यकारने कहा है—उक्त पद केवल प्रत्यक्षना ही वाचक नहीं है। निन्तु उपस्थित सब
वाक्योंका वाचक है। आशङ्का आदि जगत् नित्य है, अतः उसमें जन्म आदिका सम्बन्ध
नहीं हो सकता, इस शङ्कापर भाष्यकार कहते हैं—“पृष्ठी” इत्यादि। अर्थात् आकाश आदि
महाभूतोंका जन्म आदि धर्मोंसे सम्बन्ध है, यह आगे चलकर कहेंगे। जगत् और जन्म
आदिका ब्रह्मके साथ सम्बन्ध न होनेसे वह ब्रह्मका लक्षण नहीं हो सकता—ऐसी शङ्का
होनेपर ब्रह्मना लक्षण जगज्जन्मादिकारणत्व है, यह दिखलानेके लिए “यत” इत्यादिसे
पञ्चम्यर्थ कहते हैं। ‘यत्’ शब्दसे सत्य, ज्ञान, अनन्त, आनन्दरूप वस्तु कही जाती है;
क्योंकि ‘आनन्दाद्वैयव सत्त्वित्त्वानि’ इत्यादि श्रुतिमें ऐसा ही निर्णय किया है। इसीसे ब्रह्मका
स्वरूप-लक्षण सिद्ध होता है। पदोका अर्थ दिखलानेके पूर्व सूत्रमें कहे गये ‘ब्रह्म’ पदकी
अनुश्रुति करके एवं ‘तत्’ शब्दका अन्वयाहार करके सूत्रका वाक्यार्थ “अस्य” इत्यादिसे कहते

भाष्य

रूपाभ्यां व्याकृतस्य अनेककर्तृभोक्तृसंयुक्तस्य प्रतिनियतदेशकालनिमित्त-
भाष्यका अनुवाद

प्रकट हुआ, अनेक कर्ता-भोक्तासे संयुक्त जिस क्रिया और फलके देश, काल

रत्नप्रभा

सूत्रस्थब्रह्मपदानुपज्ञेण तच्छब्दाध्याहारेण च सूत्रवाक्यार्थमाह—अस्येत्यादिना ।
कारणस्य सर्वज्ञत्वादिसम्भावनार्थानि जगतो विशेषणानि यथा कुम्भकारः प्रथमं
कुम्भशब्दाभेदेन विकल्पित पृथुवुध्नोदराकारस्वरूपं बुद्ध्वावालिख्य तदात्मना कुम्भं
व्याकरोति—वहिः प्रकटयति, तथा परमकारणमपि स्वेक्षितं नामरूपात्मना व्या-
करोति इत्यनुमीयते इति मत्वाऽऽह—नामरूपाभ्यामिति । इत्थम्भावे तृतीया ।
आद्यकार्यं चेतनजन्यम्, कार्यत्वात्, कुम्भवदिति प्रधानशून्ययोर्निरासः । हिरण्य-
गर्मादिजीवजन्यत्वं निरस्यति—अनेकेति ।

श्राद्धवैश्वानरेष्ट्यादौ पितापुत्रयोः कर्तृभोक्तोर्भेदात् पृथगुक्तिः ‘यो ब्रह्माणं
विदधाति पूर्वम्’ (श्वे० ६।१८) ‘सर्व एत आत्मनो व्युच्चरन्ति’ इति श्रुत्या
स्थूलसूक्ष्मदेहोपाधिद्वारा जीवानां कार्यत्वेन जगन्मध्यपातित्वात् जगत्कारणत्वम्
इत्यर्थः । कारणस्य सर्वज्ञत्वं सम्भावयति—प्रतिनियतेति । प्रतिनियतानि—

रत्नप्रभाका अनुवाद

हैं । जगत्के विशेषण, हेतुभूत ब्रह्ममें सर्वज्ञत्व आदि धर्म दिखलानेके लिए हैं । जैसे कुम्हार
शब्द और अर्थका अभेद होनेसे विकल्पित गोल पेट आदि आकारवाले घटका बुद्धिमें विचार
करके कल्पित घटके तादात्म्यसे घटको बाहर प्रकट करता है, उसी प्रकार परमकारण ब्रह्म
भी अपनेमें प्रत्यक्ष किये हुए जगत्को नाम-रूपसे प्रकट करता है, यह अनुमान होता है—
ऐसा मनमें विचारकर कहते हैं—“नामरूपाभ्याम्” इत्यादि । यहाँपर तृतीया इत्यम्भावेमें है ।
आदि कार्यं चेतनजन्य है, कार्य होनेसे, घटके समान, इस अनुमानसे प्रधान, शून्य आदिमें
जगत्की कारणताका निरास हो गया । हिरण्यगर्भ आदि जाव जगत्को उत्पन्न करते होंगे,
इस श्राद्धको दूर करनेके लिए कहते हैं—“अनेक” इत्यादि ।

श्राद्धमें पुत्र कर्ता है और पिता भोक्ता है । वैश्वानरेष्टिमें पिता कर्ता है और पुत्र भोक्ता
है । इसलिए जो कर्ता है, वही भोक्ता है—ऐसा नियम नही है । इस बातको स्पष्ट करनेके
लिए कर्ता और भोक्ता दो पदोंका पृथक्-पृथक् उपादान किया है । ‘यो ब्रह्माणम्’ ‘सर्व एत’
इन धृतियोंसे स्थूल एवं सूक्ष्म देहरूप उपाधिद्वारा जाव कार्य हैं, इसलिए ये भी जगत् (कार्य)
के अन्तर्गत ही हैं, जगत्के कारण नही हैं । कारणमें सर्वज्ञता दिखानेके लिए कहते हैं—
“प्रतिनियत” इत्यादि । धर्मसे प्राप्त होनेवाले सभा फणोंका देश, काल और निमित्त ध्ययारियत

भाष्य

क्रियाफलाश्रयस्य मनसा अपि अचिन्त्यरचनारूपस्य जन्मस्थितिभङ्गं यतः सर्वज्ञात् सर्वशक्तेः कारणाद् भवति, तद् ब्रह्म इति वाक्यशेषः । अन्ये-

भाष्यका अनुवाद

और निमित्त नियमित—व्यवस्थित हैं, उसका आश्रय—आधार, मनसे भी जिसकी रचनाके स्वरूपका विचार नहीं हो सकता ऐसे जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और नाश जिस सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् कारणसे होते हैं, 'यह ब्रह्म है'—

रत्नप्रभा

व्यवस्थितानि देशकालनिमित्तानि येषां क्रियाफलानां तदाश्रयस्येत्यर्थः । स्वर्गस्य क्रियाफलस्य मेरुपृष्ठं देशः, देहपातादूर्ध्वं कालः, उत्तरायणमरणादिनिमित्तं प्रतिनियतम् । एवं राजसेवाफलग्रामादेर्देशादिव्यवस्था ज्ञेया । तथा च—यथा सेवाफलं देशाद्यभिज्ञदातृकम्, तथा कर्मफलम्, फलत्वादिति सर्वज्ञत्वसिद्धिरिति भावः । सर्वशक्तित्वं सम्भावयति—मनसाऽर्पीति । ननु अन्येऽपि वृद्धिपरिणामादयो भावविकाराः सन्तीति किमिति जन्मादीत्यादिपदेन न गृह्यन्ते । तत्राह—अन्येषामिति । वृद्धिपरिणामयोर्जन्मनि, अपक्षयस्य नाशेऽन्तर्भाव इति भावः । ननु 'देहो जायते-अस्ति-वर्द्धते-विपरिणमते-अपक्षीयते-नश्यति' (नि० नि० १।१।१)

रत्नप्रभाका अनुवाद

हैं, यह जगत् उन्हीं कर्मफलोंका आधार है । जैसे स्वर्गरूप क्रिया-फलके लिए मेरुपृष्ठ—देश, देहपातके अनन्तर—काल, उत्तरायण मरण आदि निमित्त प्रतिनियत हैं । इससे सिद्ध हुआ कि स्वर्गसुख नियत देश, नियत काल और नियत निमित्तसे ही मिलता है । इसी प्रकार राजाकी सेवाके फलस्वरूप ग्राम आदिकी व्यवस्था जाननी चाहिये । अर्थात् राजसेवाके फल—ग्राम आदिकी प्राप्तिमें भूमि—देश, देहपातसे पूर्वकाल, राजाका हर्ष आदि—निमित्त नियत हैं । आशय यह है कि जैसे सेवा-फल ग्राम आदि देश, काल आदिको जाननेवालेसे प्राप्त होता है, वैसे ही कर्मफल भी उसको जाननेवाले चेतनसे प्राप्त होता है, क्योंकि फलत्व दोनोंमें समान है, इस अनुमानसे ब्रह्ममें सर्वज्ञत्वकी सिद्धि होती है । "मनसाऽपि" इत्यादि प्रत्यसे ब्रह्ममें सर्व-शक्तिमत्ताकी सम्भावना करते हैं ।

यहाँपर शङ्का होती है कि वृद्धि, परिणाम, अपक्षयरूप अन्य विकार भी तो हैं, उनका 'जन्मादि' में विद्यमान 'आदि' पदसे ग्रहण क्यों नहीं किया गया ? इसपर कहते हैं—'अन्येषाम्' इत्यादि । [वृद्धि—अवयवोंका बढ़ना है, अतः वह उत्पत्तिरूप ही है । परिणाम भी अवस्थान्तर होनेसे उत्पत्तिरूप ही है । अपक्षय है अवयवोंका घटना, इसलिये नाशरूप है ।] तात्पर्य यह है कि वृद्धि और परिणामका जन्ममें और अपक्षयका नाशमें अन्तर्भाव

भाष्य

पामपि' भावविकाराणां त्रिष्वेवाऽन्तर्भाव इति जन्मस्थितिनाशानामिह ग्रहणम् । यास्कपरिपठितानां तु 'जायते अस्ति' इत्यादीनां ग्रहणे तेषां जगतः स्थितिकाले सम्भाव्यमानत्वाद् मूलकारणाद् उत्पत्तिस्थितिनाशा जगतो न गृहीताः स्युरित्याशङ्क्येत, तन्मा

भाष्यका अनुवाद

यह वाक्य-शेष है । अन्य भाव-विकारोंका भी इन तीनोंमें ही अन्तर्भाव है, इसलिए जन्म, स्थिति और नाशका यहाँ ग्रहण किया है । यास्कमुनिसे पठित 'जायते, अस्ति,' इत्यादि छः भाव-विकारोंका यदि ग्रहण किया जाय, तो जगत्के स्थितिकालमें उनकी सम्भावना होनेसे मूल-कारणसे जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और लयका ग्रहण नहीं होगा—ऐसी कोई शङ्का करेगा । यह शङ्का कोई न करे, इसलिए जिस ब्रह्मसे इस जगत्की जो उत्पत्ति, उसीमें जो स्थिति और उसीमें जो लय श्रुतिमें कहे गये, वे ही जन्म, स्थिति और लय यहाँ गृहीत होते हैं ।

रत्नप्रभा

इति यास्कमुनिवाक्यमेतत्सूत्रमूलं किं न स्यात् ? अत आह—यास्केति । यास्कमुनिः किल महाभूतानामुत्पन्नानां स्थितिकाले भौतिकेषु प्रत्यक्षेण जन्मादिपट्क-मुपलभ्य निरुक्तवाक्यं चकार, तन्मूलीकृत्य जन्मादिपट्ककारणत्वं लक्षणं सूत्रार्थ इति ग्रहणे सूत्रकृता ब्रह्मलक्षणं न संगृहीतम्, किन्तु महाभूतानां लक्षणमुक्तमिति शङ्का स्यात्, सा मा भूदिति ये श्रुत्युक्ता जन्मादयस्त एव गृह्यन्ते इत्यर्थः । यदि निरुक्तस्याऽपि श्रुतिर्मूलमिति महाभूतजन्मादिकमर्थः, तर्हि सा श्रुतिरेव सूत्रस्य मूलमस्तु, किमन्तर्गडुना निरुक्तेनेति भावः । यदि-जगतो ब्रह्मातिरिक्तं कारणं

रत्नप्रभाका अनुवाद

हे । 'शरीर पैदा होता है, विद्यमान है, बढ़ता है, अवस्थान्तरको प्राप्त होता है, क्षीण होता है, नष्ट होता है' यह यास्कमुनिका वाक्य ही इस सूत्रका मूल क्यों नहीं माना जाय ? इस शङ्काको दूर करनेके लिए कहते हैं—“यास्क” इत्यादि । अर्थात् उत्पन्न हुए महाभूतोंके स्थितिकालमें प्रत्यक्ष-प्रमाणसे भौतिक पदार्थोंमें जन्म आदि छः विकारोंको देखकर यास्कमुनिने उपर्युक्त निरुक्तवाक्यकी रचना की है । इस वाक्यको जन्मादि सूत्रका मूल मानकर जन्मादि-पट्ककारणत्व ब्रह्मका लक्षण है—ऐसा सूत्रार्थ माननेपर सूत्रकारने ब्रह्मके लक्षणका संग्रह नहीं किया, किन्तु महाभूतोंके लक्षणका कथन किया, यह शङ्का होगी, वह न हो, इसलिए कहा—जो श्रुतिमें उक्त जन्मादि है, उन्हींका यहाँ ग्रहण किया गया है । यदि बहिये कि पूर्वोक्त निरुक्त-वाक्यका मूल भी श्रुति ही है, इसलिये महाभूतोंके जन्म आदि का कारण ब्रह्म है—ऐसा अर्थ है, तो यह श्रुति ही सूत्रका मूल क्यों न मानी जाय ? व्यर्थ निरुक्तो मूल

भाष्य

शङ्कीति योत्पत्तिर्ब्रह्मणस्तत्रैव स्थितिः प्रलयश्च त एव गृह्यन्ते । न यथोक्तविशेषणस्य जगतो यथोक्तविशेषणमीश्वरं मुक्त्वा अन्यतः प्रधानादचेतनादणुभ्योऽभावात् संसारिणो वा उत्पत्त्यादि सम्भावयितुं शक्यम् । न च स्वभावतः, विशिष्टदेशकालनिमित्तानामिहोपादानात् ।

भाष्यका अनुवाद

पूर्वोक्त विशेषणोंसे युक्त जगत्की उक्त विशेषण-विशिष्ट ईश्वरके सिवा अन्यसे—अचेतन प्रधानसे, अचेतन परमाणुओंसे, अभाव (शून्य) से, अथवा संसारी (हिरण्यगर्भ) से, उत्पत्ति आदिकी सम्भावना नहीं की जा सकती । इसी प्रकार स्वभावसे भी जगत्की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ कार्यार्थी पुरुषों द्वारा विशेष देज, काल और निमित्तका ग्रहण किया जाता है ।

रत्नप्रभा

स्यात्, तदा ब्रह्मलक्षणस्य तत्राऽतिव्याप्यादिदोषः स्यात्, अतस्तन्निरासाय लक्षण-सूत्रेण ब्रह्म विना जगज्जन्मादिकं न सम्भवति, कारणान्तरासम्भवदिति युक्तिः सूत्रिता । सा तर्कपादे (२।२) विस्तरेण वक्ष्यते । अधुना सङ्क्षेपेण ता दर्शयति—न यथोक्तेत्यादिना । नामरूपाभ्या व्याकृतस्येत्यादीनां चतुर्णां जगद्विशेषणानां व्याख्यानावसरे प्रधानशून्ययोः संसारिणश्च निरासो दर्शितः । परमाणु-नामचेतनानां स्वतः प्रवृत्त्ययोगाद् जीवादन्वयस्य ज्ञानशून्यत्वनियमेनाऽनुमानात् सर्वज्ञेश्वरासिद्धौ तेषां प्रेरकाभावाद् जगदारम्भकत्वासम्भव इति भावः । स्वभावा-देव विचित्रं जगदिति लोकायतः । त प्रत्याह—न चेति । जगत उत्पत्त्यादि

रत्नप्रभाका अनुवाद

माननेका क्या प्रयोजन है ? यदि जगत्का ब्रह्मसे अतिरिक्त कोई अन्य कारण होता तो ब्रह्मके लक्षणकी उसमें अतिव्याप्ति होती, अतः अतिव्याप्ति आदि दोष दूर करनेके लिए लक्षणसूत्रसे युक्ति दिखलायी है कि ब्रह्मके विना जगत्के जन्म आदि नहा हो सकते, क्योंकि अन्य कारण सम्भव नहीं है । इस सूत्रमें संक्षेपसे कही गयी इस युक्तिका तर्कपादमें विस्तारसे स्पष्टीकरण किया जायगा । इस समय “न यथोक्त” इत्यादिसे संक्षेपमें उस युक्तिको दिखलाते हैं । ‘नामरूपाभ्या व्याकृतस्य’ आदि जगत्के चार विशेषणोंका व्याख्यान करते समय प्रधान, शून्य और संसारी (हिरण्यगर्भ आदि जीव) जगत्की उत्पत्ति आदिके कारण नहा हो सकते—यह दिखलाया है । परमाणु अचेतन हैं, अतः उनमें स्वतः प्रवृत्ति नहीं हो सकती । जावसे अन्य सभी ज्ञानशून्य हैं, इस नियमसे अनुमानद्वारा सर्वज्ञ ईश्वरकी असिद्धि होनेपर परमाणुओंकी प्रेरणा करने-वाले अभावसे परमाणु जगत्के आरम्भक नहा हो सकते । चार्वाक कहते हैं—स्वभावसे ही विचित्र जगत्की उत्पत्ति होती है । उनके प्रति कहते हैं—“न च” इत्यादि अर्थात्

भाष्य

एतदेवाऽनुमानं संसारिव्यतिरिक्तेश्वरास्तित्वादिसाधनं मन्यन्ते ईश्वरकार-
भाष्यका अनुवाद

ईश्वरको जगत्का कारण माननेवाले (नैयायिक) इसी अनुमानको संसारी
(जीव) से पृथक् ईश्वरकी सत्ता है इसका साधन मानते हैं । तो इस जन्मादि-

रत्नप्रभा

सम्भावयितुं न शक्यमित्यन्वयः । किं स्वयमेव स्वस्य हेतुरिति स्वभावः, उत
कारणानपेक्षत्वम् ? नाऽऽद्यः, आत्माश्रयात् । न द्वितीयः, इत्याह—विशिष्टेति ।
विशिष्टानि असाधारणानि देशकालनिमित्तानि तेषां कार्यार्थभिरुपादीयमानत्वात्
कार्यस्य कारणानपेक्षत्वं न युक्तमित्यर्थः । अनपेक्षत्वे धान्यार्थिनां भूविशेषे वर्षा-
दिकाले बीजादिनिमित्ते च प्रवृत्तिर्न स्यादिति भावः । पूर्वोक्तसर्वज्ञत्वादिविशेषणकम्
ईश्वरं मुक्त्वा जगत् उत्पत्त्यादिकं न सम्भवतीति भाष्येण कर्तारं विना कार्यं
नास्तीति व्यतिरेक उक्तः । तेन यत् कार्यं, तत्सकर्तृकमिति व्याप्तिर्ज्ञायते । एवदेव
व्याप्तिज्ञानं जगति पक्षे कर्तारं साधयत् सर्वज्ञेश्वरं साधयति, किं श्रुत्येति तार्कि-
काणां भ्रान्तिमुपन्यस्यति—एतदेवेति । एतदेव—अनुमानमेव साधनं न श्रुतिः
इति मन्यन्ते इति योजना । अथवा, एतद् व्याप्तिज्ञानमेव श्रुत्यनुग्राहकयुक्तिमात्रत्वेन

रत्नप्रभाका अनुवाद

स्वभावमेव जगत्की उत्पत्ति आदिकी सम्भावना नहीं की जा सकती है । स्वभावका क्या अर्थ
है ? क्या जो आप ही अपना कारण हो वह स्वभाव है ? अथवा कारणकी अपेक्षाके
अभावका नाम स्वभाव है ? इन दो पक्षोंमें प्रथम पक्ष नहीं बन सकता, क्योंकि अपनी
उत्पत्तिमें अपनी अपेक्षा होनेके कारण आत्माश्रयदोष होगा । द्वितीय पक्ष भी नहीं बनता
है—यह दिखलानेके लिए कहते हैं—“विशिष्ट” इत्यादि । अर्थात् कार्यार्थी पुरुष अपने कार्यके
लिए असाधारण देश, काल और निमित्तकी अपेक्षा करता है, इसलिए कार्यको कारणकी
अपेक्षा नही है—ऐसा नहीं कह सकते । यदि कार्यको कारणकी अपेक्षा नहीं होती, तो
धान्यार्थी पुरुष विशिष्ट (उपजाऊ) भूमि, विशिष्टकाल (वर्षाकाल), विशिष्ट निमित्त अर्थात्
बीजेके सम्पादनमें प्रवृत्त न होता । पूर्वोक्त सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट ईश्वरको छोड़कर जगत्के
जन्म आदि नहीं हो सकते—इस भाष्यसे कर्ताके विना कार्य नहीं हो सकता, यह व्यतिरेक
कहा गया है । इससे जो कार्य है उसका कोई-न-कोई कर्ता होता है, इस व्याप्तिकी प्रतीति
होती है । यह व्याप्तिज्ञानात्मक अनुमान ही जगत्के पक्षमें कर्ताकी सिद्धि करता हुआ
सर्वज्ञ ईश्वरकी सिद्धि करता है, श्रुतिका क्या प्रयोजन है ? ऐसी तार्किकोंकी भ्रान्तिका उपन्यास
“एतदेव” इत्यादिसे करते हैं । ये इसी अनुमानको साधन मानते हैं, श्रुतिको साधन नहीं
मानते, ऐसी योजना करनी चाहिये । अथवा जिस व्याप्तिज्ञानको हम (वेदान्ती) भ्रुत्यनुमा-

रत्नप्रभा

असत्सम्भूतं सदनुमानं स्वतन्त्रमिति मन्यन्ते इत्यर्थः । सर्वज्ञत्वम् आदिशब्दार्थः । यद्वा, व्याप्तिज्ञानसदकृतमेतत् लक्षणमेवाऽनुमानं स्वतन्त्रं मन्यन्ते इत्यर्थः । तत्राऽयं विभागः—व्याप्तिज्ञानाद् जगतः कर्ताऽस्ति इति अस्तित्वसिद्धिः, पश्चात् स कर्ता सर्वज्ञो जगत्कारणत्वाद् व्यतिरेकेण कुलालादिवद् इति सर्वज्ञत्वसिद्धिः लक्षणादिति । अत्र 'मन्यन्ते' इत्यनुमानस्य आभासत्वं सूचितम् । तथा हि—अङ्कुरादौ तावद् जीवः कर्ता न भवति, जीवाद् भिन्नस्य घटवदचेतनत्वनियमादन्यः कर्ता नाऽस्त्येवेति व्यतिरेकनिश्चयात्, यत् कार्यम्, तत् सकर्तृकमिति व्याप्तिज्ञानसिद्धिः । लक्षणालिङ्गकानुमाने तु बाधः, अगरीरस्य जन्यज्ञानायोगात्, यज्जानं तन्मनोजन्यमिति व्याप्तिविरोधेन नित्यज्ञानसिद्धेर्ज्ञानाभावनिश्चयात् । तस्मादतीन्द्रियार्थे श्रुतिरेव शरणम् । श्रुत्यर्थसम्भावनार्थत्वेन अनुमानं युक्तिमात्रं न स्वतन्त्रमिति भावः । ननु इदमयुक्तं श्रुतेरनुमानान्तर्भावमभिप्रेत्य भवदीयसूत्रकृता अनुमानस्य एव उपन्यस्तत्वादिति वैशेषिकः शङ्कते—नन्विति । अतो 'मन्यन्ते' इत्यनुमानस्य आभासोक्तिः अयुक्ता

रत्नप्रभाका अनुवाद

इह युक्तिमात्र मानते हैं, उसीसे नैयायिक ईश्वरमें स्वतन्त्र प्रमाण मानते हैं यह अर्थ है । 'आदि' शब्दसे सर्वज्ञत्वका समावेश समझना चाहिये । अथवा व्याप्तिज्ञान सहसृत यह लक्षण ही अनुमान है, ऐसा मानते हैं, यह अर्थ है । यहाँ इस प्रकार विभाग करना चाहिये—व्याप्तिज्ञानमे जगत्का कर्ता है, इस प्रकार कर्ताका अस्तित्व सिद्ध होता है । वह कर्ता सर्वज्ञ है, जगत्का कारण होनेसे, कुलाल आदि व्यतिरेक दृष्टान्तके समान, इस प्रकार लक्षणसे कर्तामें सर्वज्ञत्व सिद्ध होता है । यहाँ 'मन्यन्ते' ऐसा कहकर अनुमान आभास (असत्) है—ऐसा जताया है । वह इम प्रकार है—अङ्कुर आदिका कर्ता जीव नहा हो सकता है तथा जीवसे भिन्न वस्तुके घटकी भाँति नियमत अचेतन होनेसे अन्य कर्ता नहा है, ऐसा व्यतिरेक निश्चय होता है । ऐसा निश्चय होनेसे जो कार्य है, वह सकर्तृक है, इस व्याप्ति ज्ञानकी असिद्धि होती है । लक्षणसे बोधित जन्मादिकारण स्वरूप लिङ्गसे सर्वज्ञत्वका अनुमान करें, तो वह बाधित होता है, क्योंकि शरीररहित पदार्थ (ब्रह्म) में ज्ञान उत्पन्न नहा होता है । ज्ञानमात्र मनोजन्य है—इस व्याप्तिके साथ विरोध होनेसे नित्यज्ञान सिद्ध नहीं हो सकता, अत ज्ञानाभावका निश्चय हो जाता है । इसलिए अतीन्द्रिय वस्तुमें श्रुति हा शरण है । श्रुतिके अर्थका सम्भव है, इस बातको दिखानेके लिए अनुमान केवल युक्तिरूपसे उपयोगी हो सकता है, किन्तु स्वतन्त्र प्रमाण नहा है । "ननु" इत्यादिसे वैशेषिक शङ्का करता

(१) जो जगत्कारण नहीं है, वह सर्वज्ञ नहीं है, जैसे कुलाल ।

(२) वैशेषिक सूत्रके रचयिता कणादमुनिके मतमें प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो ही प्रमाण है । शब्द अनुमानरूपसे अर्थका बोधक होता है । उन्हींके मतसे यह शङ्का है ।

भाष्य

णिनः । नन्विहापि तदेवोपन्यस्तं जन्मादिसूत्रे । न, वेदान्तवाक्यकुसुम-
ग्रथनार्थत्वात् सूत्राणाम् । वेदान्तवाक्यानि हि सूत्रैरुदाहृत्य विचार्यन्ते ।
वाक्यार्थविचारणाध्यवमाननिर्वृत्ता हि ब्रह्मावगतिर्नाऽनुमानादिप्रमा-
भाष्यका अनुवाद

सूत्रमें भी उसी अनुमानका उपन्यास किया है ? नहीं, वेदान्त-वाक्यरूपी फूलों-
को गूँथना ही सूत्रोंका प्रयोजन है । सूत्रोंसे वेदान्त-वाक्योंका उदाहरण देकर
विचार किया जाता है । वाक्यार्थ-विचारसे जो तात्पर्य निश्चय होता है, उससे
ब्रह्मज्ञान निष्पन्न होता है, अनुमान आदि प्रमाणान्तरसे निश्चय नहीं होता ।

रत्नप्रभा

इति भावः । यदि श्रुतीनां स्वतन्त्रमानत्वं न स्यात्, तर्हि 'तत्तु समन्वयात्' (१।१।४)
इत्यादिना तासां तात्पर्यं सूत्रकृत्त्र विचारयेत्, तस्मात् उत्तरसूत्राणां श्रुतिविचा-
रार्थत्वाद् जन्मादिसूत्रेऽपि श्रुतिरेव स्वातन्त्र्येण विचार्यते नाऽनुमानमिति परि-
हरति—नेति । किञ्च, मुमुक्षुर्ब्रह्मावगतिरमीष्टा, यदर्थमस्य शास्त्रस्याऽऽरम्भः,
सा च नानुमानात्, 'तन्त्वौपनिषदम्' (बृ० ३।९।२६) इति श्रुतेः, अतो
नाऽनुमानं विचार्यमित्याह—वाक्यार्थेति । वाक्यस्य तदर्थस्य च विचाराद्
यदध्यवसानं तात्पर्यनिश्चयः प्रमेयसम्भवनिश्चयश्च तेन जाता ब्रह्मावगतिर्मुक्तये
भवति इत्यर्थः । अत्र सम्भवो बाधाभावः । ननु किमनुमानमुपेक्षितमेव, नेत्याह—
सत्सु त्विति । विमतमम् अभिन्ननिमित्तोपादानकम्, कार्यत्वात्, ऊर्णनाभ्यारब्ध-

रत्नप्रभाका अनुवाद

है, यह अयुक्त है, क्योंकि श्रुतिका अनुमानमें अन्तर्भाव मानकर सूत्रकारने अनुमानका ही
उपन्यास किया है । इसलिए 'मन्यन्ते' इस शब्दसे अनुमानको आभास कहना योग्य नहीं
है । इस शब्दका समाधान करते हैं—“न” इत्यादिसे । श्रुतिवाक्य स्वतन्त्र प्रमाण न होते
तो 'तत्तु समन्वयात्' इत्यादि सूत्रोंसे उनका तात्पर्य सूत्रकार न विचारते । इसलिए श्रुति-
वाक्योंका विचार ही उत्तर-सूत्रोंका प्रयोजन होनेसे जन्मादि-सूत्रमें भी श्रुति ही स्वतन्त्र रीतिसे
विचारी गयी है, अनुमान नही । फिर, मुमुक्षुको ब्रह्मज्ञान इष्ट है, ब्रह्मज्ञानके लिए ही इस
शास्त्रका आरम्भ है । ब्रह्मज्ञान अनुमानसे प्राप्त नहीं होता, किन्तु यह उपनिषद्ग्रन्थ है, ऐसा
श्रुति कहती है, इसलिए अनुमान विचारने योग्य नही है, ऐसा “वाक्यार्थ” इत्यादिसे कहते हैं ।
वाक्य और उनके अर्थके विचारसे जो तात्पर्य-निश्चय एवं ब्रह्मसम्भवका निश्चय होता है, उससे
ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होता है । ब्रह्मज्ञानसे मुक्ति होती है । 'प्रमेयसम्भवनिश्चयश्च' इस वाक्यमें 'सम्भव'
पदका अर्थ बाधाभाव है । तब क्या अनुमान सर्वथा उपेक्षणीय ही है ? इन शब्दोंके दूर करनेके
लिए कहते हैं—“सत्सु तु” इत्यादि । अर्थात् विमत कार्य, अभिन्न निमित्तोपादानक है, कार्य होनेसे,

भाष्य

णान्तरनिर्वृत्ता । सत्सु तु वेदान्तवाक्येषु जगतो जन्मादिकारणवादिषु तदर्थग्रहणदाढ्यायाऽनुमानमपि वेदान्तवाक्याविरोधि ग्रमाणं भवन्न निवार्यते; श्रुत्यैव च सहायत्वेन तर्कस्याऽभ्युपेतत्वात् । तथा हि—‘श्रोतव्यो

भाष्यका अनुवाद

जगत्के जन्म आदिका निर्देश करनेवाले वेदान्त-वाक्योंके रहनेपर उनके अर्थकी दृढ़ताके लिए वेदान्त-वाक्योंसे अनुमत अनुमान भी प्रमाण होता हो, तो उसका निवारण नहीं किया जाता; क्योंकि श्रुतिने ही सहायताके लिए तर्कको भी अङ्गीकार किया है । जैसे कि—(ब्रह्म) श्रवण करनेयोग्य है,

रत्नप्रभा

तन्त्रादिवत्; विमतं चेतनप्रकृतिकं कार्यत्वात् सुखादिवदित्यनुमानं श्रुत्यर्थदाढ्याय अपेक्षितमित्यर्थः । दाढ्यम्—संशयविपर्यासनिवृत्तिः । ‘मन्तव्यः’ (वृ० २।४।५) इति श्रुतार्थस्तरकेण सम्भावनीय इत्यर्थः । यथा—कश्चिद् गन्धारदेशेभ्यः चौरैः अन्यत्र अरण्ये बद्धनेत्र एव त्यक्तः केनचिद् मुक्तबन्धस्तदुक्तमार्गग्रहण-समर्थः पण्डितः स्वयं तर्ककुशलो मेधावी स्वदेशानेव प्राप्नुयाद्, एवमेव इह अविद्याकामादिभिः स्वरूपानन्दात् प्रच्याव्य अस्मिन्नरण्ये संसारे क्षिप्तः केनचिद् दयापरवशेन आचार्येण ‘नाऽसि त्वं संसारी’ किन्तु ‘तत्त्वमसि’ (छा० ६।८।७) इत्युपदिष्टस्वरूपः स्वयं तर्ककुशलश्चेत् स्वरूपं जानीयात् नाऽन्यथेति श्रुतिः

रत्नप्रभाका अनुवाद

मकड़ीसे आरब्ध तन्तुके समान और विमत कार्य, चैतन-प्रकृतिक है, कार्य होनेसे, सुखादिके समान—के अनुमान श्रुत्यर्थकी दृढ़ताके लिए अपेक्षित है । दृढ़ता अर्थात् संशय और विपर्यास (भूल) की निवृत्ति । ‘मन्तव्यः’ अर्थात् तर्कसे श्रुतिके अर्थकी सम्भावना करनी चाहिये । जैसे किसी पुरुषने गन्धारदेशसे आँसोंमें पड़ी बाँधकर चोर ले जायँ और दूसरे स्थानपर अरण्यमें छोड़ दें, कोई दूसरा कृपाल पुरुष उसकी पट्टी खोल दे और उसको स्वदेश जानेका मार्ग बता दे तो पण्डित अर्थात् उस मार्गके ग्रहण करनेमें समर्थ और मेधावी अर्थात् तर्क करनेमें कुशल वह पुरुष अपने देशमें ही पहुँच जाता है । इसी प्रकार अविद्या, काम आदिने जिस पुरुषको आनन्दात्मक आत्मस्वरूपसे दूर ले जाकर इस संसाररूप अरण्यमें फँक दिया है, उसको किसी दयालु आचार्यसे ‘तू संसारी नहीं, किन्तु वह (ब्रह्म) तू है’ इस प्रकार आत्मस्वरूपके ज्ञानका उपदेश मिल जाता है । यदि वह तर्ककुशल होता है; तो स्वरूपको जान जाता है, नहीं तो नहीं यह श्रुति अपने प्रति पुरुषमातिरूप तर्करी

भाष्य

मन्तव्यः' (वृ० २।४।५) इति श्रुतिः, 'पण्डितो मेधावी गन्धारानेवोप-
सम्पद्येतैवमेवेहाचार्यवान् पुरुषो वेद' (छा० ६।१४।२) इति च पुरुष-
बुद्धिसाहाय्यमात्मनो दर्शयति । न धर्मजिज्ञासायामिव श्रुत्यादय एव
प्रमाणम्, ब्रह्मजिज्ञासायाम्; किन्तु श्रुत्यादयोऽनुभवादयश्च यथासम्भ-
भाष्यका अनुवाद

मनन करनेयोग्य है—यह श्रुति है और जैसे पण्डित और मेधावी गन्धार
देशको ही प्राप्त करता है, उसी प्रकार आचार्यवान् पुरुष ज्ञान प्राप्त करता
है यह श्रुति भी अपने प्रति पुरुष-बुद्धिको सहायक दिखलाती है ।
धर्मजिज्ञासाकी तरह ब्रह्मजिज्ञासामे श्रुति आदि ही प्रमाण नहीं हैं, किन्तु श्रुति
आदि और अनुभव आदि यथा सम्भव यहाँ प्रमाण हैं; क्योंकि ब्रह्मज्ञान

रत्नप्रभा

स्वस्य पुरुषमतिरूपतकपिक्षां दर्शयति इत्याह—पण्डित इति । आत्मनः—श्रुतेः
इत्यर्थः । ननु ब्रह्मणो मननाद्यपेक्षा न युक्ता, वेदार्थत्वाद्, धर्मवत् किन्तु
श्रुतिलिङ्गवाक्यादय एव अपेक्षिता इत्यत आह—नेति । जिज्ञास्ये धर्मे इव जिज्ञास्ये
ब्रह्मणि इति व्याख्येयम् । अनुभवः ब्रह्मसाक्षात्काराख्यो विद्वदनुभवः । आदि-
पदात् मनननिदिध्यासनयोग्रहः । तत्र हेतुमाह—अनुभवेति । मुक्त्यर्थं
ब्रह्मज्ञानस्य शाब्दस्य साक्षात्कारावसानत्वापेक्षणात् प्रत्यग्भूतसिद्धब्रह्मगोचरत्वेन
साक्षात्कारफलकत्वसम्भवात् । तदर्थं मननाद्यपेक्षा युक्ता । धर्मे तु नित्यपरोक्षे
साध्ये साक्षात्कारस्याऽनपेक्षितत्वादसम्भवाच्च श्रुत्या निर्णयमात्रमनुष्ठानाय अपेक्षि-

रत्नप्रभाका अनुवाद

अपेक्षा करती है, ऐसा "पण्डितो" आदिसे कहते हैं । 'आत्मनः' अर्थात् श्रुतिका । यहाँ
बाह्य होती है कि जैसे धर्म वेदप्रतिपादित होनेसे मननादिकी अपेक्षा नहीं करता है, उसी
प्रकार ब्रह्म भी वेदप्रतिपादित है, अतः उसे भी मनन आदिकी अपेक्षा नहीं होनी चाहिये ।
धर्मके समान श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाप्त्यादी हा उसे शपेक्षा है । इस
शब्दपर "न" इत्यादि कहते हैं । 'धर्मजिज्ञासायामिव' अर्थात् जिज्ञास्ये धर्मे की तरह जिज्ञास्ये
ब्रह्ममे ऐसा व्याख्यान करना चाहिये । अनुभव अर्थात् ब्रह्मसाक्षात्काररूप विद्वानोंना अनुभव ।
अनुभवादिमें आदिपदसे मनन और निदिध्यासनका ग्रहण है । इसमें कारण कहते हैं—"अनुभव"
इत्यादि । मुक्तिके लिए शाब्द अर्थात् श्रुतिप्रतिपादित ब्रह्मज्ञानके अन्तर्गमें साक्षात्कारकी अपेक्षा
है और प्रत्यग्भूत सिद्ध ब्रह्म ज्ञानना विषय है, इसलिए ब्रह्मसाक्षात्कार ज्ञानका फल है, ऐसा
सम्भव होनेसे इसके लिए मनन आदिकी अपेक्षा उचित है । किन्तु धर्म तो नित्यपरोक्ष और
साध्य है, उसको साक्षात्कारका अपेक्षा नही है और उसका साक्षात्कार असम्भव भी है, इसलिए

(१) श्रुतिके अर्थका दीर्घरालोक निरन्तर अनुष्ठान करना ।

भाष्य

वमिह प्रमाणम्, अनुभवावसानत्वाद् भूतवस्तुविषयत्वाच्च ब्रह्मज्ञानस्य ।
कर्तव्ये हि विषये नाऽनुभवापेक्षाऽस्तीति श्रुत्यादीनामेव प्रामाण्यं स्यात्

भाष्यका अनुवाद

सिद्धवस्तु (ब्रह्म) विषयक है और ब्रह्मज्ञानकी चरम सीमा अनुभव (ब्रह्म-
साक्षात्कार) है । धर्मके विषयमें अनुभवकी अपेक्षा नहीं है, किन्तु उसमें

रत्नप्रभा

तम् । लिङ्गादयस्तु श्रुत्यन्तर्भूता एव श्रुतिद्वारा निर्णयोपयोगित्वेन अपेक्ष्यन्ते, न
मननादयः, अनुपयोगादित्यर्थः । निरपेक्षः शब्दः श्रुतिः । शब्दस्याऽर्थ-
प्रकाशसामर्थ्यं लिङ्गम् । पदं योग्येतरपदाकाङ्क्षं वाक्यम् । अङ्गवाक्यसा-
पेक्षं प्रधानवाक्यं प्रकरणम् । क्रमपठितानामर्थानां क्रमपठितैर्यथाक्रमं सम्बन्धः
स्थानम् । यथा ऐन्द्राग्न्यादय इष्टयो दश क्रमेण पठिताः, दश मन्त्राश्च
'इन्द्रामी रोचना दिवः' इत्याद्याः । तत्र प्रथमेष्टौ प्रथममन्त्रस्य विनियोग
इत्याद्यहनीयम् । संज्ञासाम्यं समाख्या । यथाऽऽध्वर्यवसंज्ञकानां मन्त्राणा-
माध्वर्यवसंज्ञके कर्मणि विनियोग इति विवेकः । एवं तावत्, ब्रह्म न मननाध-
पेक्षम्, वेदार्थत्वाद्, धर्मवदित्यनुमाने साध्यत्वेन धर्मस्याऽनुभवायोग्यत्वम्, अन-

रत्नप्रभाका अनुवाद

श्रुतिसे केवल उसका निर्णय अनुष्ठानके लिए अपेक्षित है । लिङ्गादि तो श्रुतिमें अन्तर्भूत हैं और
श्रुतिद्वारा निर्णयके लिए उपयोगी हैं । इसलिए उनकी अपेक्षा होती है, मनन आदिकी अपेक्षा
नहीं होती, क्योंकि उनका यहाँ उपयोग नहीं है । श्रुति—निरपेक्ष शब्द । लिङ्ग—शब्दकी
अर्थ-प्रकाशन-सामर्थ्य । वाक्य—अन्य योग्यपदकी आकाङ्क्षा करनेवाला पद । प्रकरण—
अङ्गे वाक्यकी अपेक्षा रखनेवाला प्रधान वाक्य । स्थान—क्रमपठित अर्थका क्रमपठित अर्थके
साथ यथाक्रम सम्बन्ध । जैसे कि 'ऐन्द्राग्न्ये' आदि दस इष्टियाँ क्रमसे पढ़ी गयी हैं और
'इन्द्रामी रोचना दिवः' इत्यादि दस मन्त्र भी क्रमसे पढ़े गये हैं । यहाँ प्रथम मन्त्रका प्रथम
इष्टिमें विनियोग (उपयोग) है, ऐसी तर्कना करनी चाहिये । 'समाख्या' संज्ञाका सादृश्य । जैसे
आध्वर्यवसंज्ञक मन्त्रोंका आध्वर्यवसंज्ञक कर्ममें विनियोग । इस प्रकार ब्रह्म मनन आदिकी अपेक्षा
नहीं करता है, वेदार्थ होनेसे, धर्मकी तरह, इस अनुमानमें धर्म साध्य होनेसे अनुभवके
अयोग्य है और उसके लिए अनुभव अपेक्षित भी नहीं है, अनुभवायोग्यत्व और अनपेक्षिता-

१—अनुमानकी अपेक्षा भले ही श्रुतिको न हो, किन्तु श्रुति, लिङ्ग, वाक्य आदिकी अपेक्षा तो है ही; अतः श्रुति परापेक्ष है इस आशङ्कापर कहते हैं । २—जिसे किसी दूसरेकी अपेक्षा नहीं होता । ३—गौण वाक्य । ४—यज्ञ-भेद (एक प्रकारका यज्ञ) । ५—यज्ञ ।

भाष्य

पुरुषाधीनात्मलाभत्वाच्च कर्तव्यस्य । कर्तुमकर्तुमन्यथा वा कर्तुं शक्यं
लौकिकं वैदिकञ्च कर्म, यथाऽश्वेन गच्छति, पद्भ्यामन्यथा वा, न वा
गच्छति । तथा 'अतिरात्रे पोडशिनं गृह्णाति,' 'नातिरात्रे पोडशिनं
गृह्णाति,' 'उदिते जुहोति,' 'अनुदिते जुहोति,' इति विधिप्रतिषेधा-

भाष्यका अनुवाद

श्रुति आदि ही प्रमाण हैं । इसके अतिरिक्त कर्तव्यकी उत्पत्ति पुरुषाधीन है,
इसलिए लौकिक और वैदिक कर्म करना, न करना और दूसरे प्रकारसे करना
अपने अधीन है—कर्ताके अधीन है । जैसे घोड़ेपर जाता है, पैदल अथवा
अन्य प्रकारसे जाता है अथवा नहीं जाता, इसी प्रकार 'अतिरात्रमें पोडशीको
ग्रहण करता है,' 'अतिरात्रमें पोडशीको ग्रहण नहीं करता,' 'सूर्य उदय
होने पर होम करता है,' 'सूर्योदयसे पूर्व होम करता है ।' इस प्रकार
विधि और प्रतिषेध तथा विकल्प, उत्सर्ग और अपवाद यहाँ (धर्ममें)

रत्नप्रभा

पेक्षितानुभवत्वं चोपाधिरित्युक्तम्, उपाधिव्यतिरेकाद् ब्रह्मणि मननाद्यपेक्षित्वं
चोक्तम् । तत्र यदि वेदार्थत्वमात्रेण ब्रह्मणो धर्मेण साम्यं त्वयोच्येत, तर्हि
कृतिसाध्यत्वं विधिनिषेधविकल्पोत्सर्गापवादाश्च ब्रह्मणि धर्मवत् स्फुरिति । विपक्षे
बाधकमाह—पुरुषेत्यादिना । पुरुषकृत्यधीनः आत्मलाभः उत्पत्तिर्यस्य तद्भा-
वाच्च धर्मं श्रुत्यादीनामेव प्रमाण्यमित्यन्वयः । धर्मस्य साध्यत्वं लौकिककर्मदृष्टा-
न्तेन स्फुटयति—कर्तुमिति । लौकिकवदित्यर्थः । दृष्टान्तं स्फुटयति—
यथेति । दार्ष्टान्तिकमाह—तथेति । तद्वद् धर्मस्य कर्तुमकर्तुं शक्यत्वमुक्त्वा

रत्नप्रभाका अनुवाद

नुभवत्व उपाधि है इससे उक्त अनुमान नहीं होगा । ब्रह्ममें यह उपाधिद्वय नहीं है, अतः उभय
मनन आदिकी अपेक्षा है यह अर्थात् कहा गया है । यदि श्रुतिप्रतिपादित होनेसे ब्रह्मसा धर्मके
साथ सादृश्य कहेंगे, तो धर्मकी तरह ब्रह्ममें भी कृतिसाध्यत्व, विधि, निषेध, विकल्प, उत्सर्ग और
अपवाद होंगे । विपक्षमें बाधक कहते हैं—“पुरुष” इत्यादिसे । धर्मकी उत्पत्ति पुरुषकृतिके अधीन
है, अतः धर्ममें केवल श्रुतियाँ ही प्रमाण हैं ऐसा वाच्ययोजना है । धर्म साध्य है—यह बात
लौकिक कर्मके दृष्टान्तसे स्पष्ट करते हैं—“कर्तुम्” इत्यादिसे । “यथा” इत्यादिसे दृष्टान्त स्पष्ट
करते हैं । “तथा” इत्यादिसे दार्ष्टान्तिक कहते हैं । लौकिक कर्मके समान धर्म करने और न
करनेके योग्य है, ऐसा कहकर दूसरी रीतिसे भी शक्यता कहते हैं—“उदितः” इत्यादिसे ।

(१) याग-भेद । (२) एक प्रकारका यज्ञ-पात्र । (३) जो पुरुषकारसे निष्पन्न किया जा सके ।

(४) जिसके लिये दृष्टान्त दिया हो ।

भाष्य

धाऽत्रार्थवन्तः स्युः, विकल्पोत्सर्गापवादाश्च । न तु वस्तुत्वेवं नैवमस्ति

भाष्यका अनुवाद

सावकाश होते हैं । परन्तु सिद्ध पदार्थ इस प्रकार है अथवा इस प्रकार

रत्नप्रभा

अन्यथा कर्तुं शक्यत्वमाह—उदित इति । धर्मस्य साध्यत्वमुपपाद्य तत्र विध्यादि-
योग्यतामाह—विधीति । विधिप्रतिषेधाश्च विकल्पादयश्च धर्मे साध्ये ये अर्थवन्तः
सावकाशा भवन्ति ते ब्रह्मण्यपि स्युरित्यर्थः । 'यजेत' 'न सुरां पिबेद्' इत्यादयो
विधिनिषेधाः । 'त्रीहिभिर्यवैर्वा यजेत' इति सम्भावितो विकल्पः । ग्रहणा-
ग्रहणयोरैच्छिकः । उदितानुदितहोमयोर्व्यवस्थितविकल्पः । 'न हिंस्यात्' इत्यु-
त्सर्गः । 'अग्नीषोमीयं पशुमालभेत' इत्यपवादः । तथा 'आहवनीये जुहोति'
इत्युत्सर्गः । 'अश्वस्य पदे पदे जुहोति' इत्यपवाद इति विवेकः । एते ब्रह्मणि
स्युरित्यत्रेष्टापत्तिं वारयति—न त्वित्यादिना भूतवस्तुविषयत्वादित्यन्तेन ।
इदं वस्तु, एवम्, नैवम्, घटः पटो वेति प्रकारविकल्पः । अस्ति नास्ति वेति
सत्तास्वरूपविकल्पः । ननु वस्तुन्यपि आरमादौ वादिनामस्ति नाऽस्तीत्यादिविकल्पा
दृश्यन्ते तत्राह—विकल्पनास्त्विति । अस्तित्वादिकोटिस्मरणं पुरुषबुद्धिः,

रत्नप्रभाका अनुवाद

धर्मका साध्यत्व युक्तिसे दिखलाकर धर्ममें विधि आदिकी योग्यता दिखलाते हैं—“विधि” इत्यादिसे ।
विधि, प्रतिषेध, विकल्प, उत्सर्ग और अपवाद साध्य धर्ममें सावकाश हैं, वे ब्रह्ममें भी हो
जायेंगे ऐसा अर्थ है । 'यजेत' (यज्ञ करे), 'न सुरां पिबेद्' (मद्य न पीवे) इत्यादि क्रमसे
विधि निषेध हैं । 'त्रीहिभिर्यवैर्वा यजेत' (धानोंसे या यवोंसे यज्ञ करे) यह सम्भावित विकल्प
है । अतिग्रहमें पौडशोमा ग्रहण करता है, ग्रहण नहीं करता है—यह ऐच्छिक विकल्प है ।
सूर्यके उदय होनेपर हवन करता है, उदयके पूर्व हवन करता है—यह व्यवस्थित विकल्प
है । 'न हिंस्यात्' (हिंसा न करे) यह उत्सर्ग है । 'अग्नीषोमीयं पशुमालभेत' (अग्नि और
सोमके यज्ञमें पशुमा बध करे) यह अपवाद है । एव 'आहवनीये जुहोति' (आहवनीय अग्निमें
हवन करता है) यह उत्सर्ग है 'अश्वस्य पदे पदे जुहोति' (घोड़ेके प्रत्येक पाँवमें होम करता
है) यह अपवाद है । ये विधि, प्रतिषेध आदि ब्रह्ममें भी सावकाश हों, यहाँ इष्ट्यापत्तिको निवारण
करते हैं—“न तु” इत्यादिसे लेकर “भूत वस्तुविषयत्वात्” पर्यन्त ग्रन्थमें । यह वस्तु ऐसी है या
नहीं, घट है या पट यह प्रकार-विकल्प है । यह वस्तु है या नहीं यह सत्तास्वरूप-विकल्प

(१) जो वस्तु प्रयत्नसे सिद्ध किया जा सके । (२) सामान्य शास्त्र ।

(३) पदान्तरबोधक शब्द या वाक्य । (४) वादीकी यह शक्ति या वचन जो प्रतिपक्षीको भी शक्त हो । आशय—प्रसङ्ग, ऐसा प्रसङ्ग जो प्रतिवादीको भी शक्त हो ।

भाष्य

नाऽस्तीति वा विकल्प्यते । विकल्पनास्तु पुरुषबुद्ध्यपेक्षाः । न वस्तु-
याथात्म्यज्ञानं पुरुषबुद्ध्यपेक्षम् । किं तर्हि ? वस्तुतन्त्रमेव तत् ।
नहि स्थाणावेकस्मिन् स्थाणुर्वा पुरुषोऽन्यो वेति तत्त्वज्ञानं भवति । तत्र

भाष्यका अनुवाद

नहीं है, है अथवा नहीं है, ऐसे विकल्पोंका विषय नहीं है । विकल्प तो
पुरुष-बुद्धिकी अपेक्षा करते हैं । सिद्ध वस्तुका यथार्थ ज्ञान पुरुष-बुद्धिकी
अपेक्षा नहीं करता; किन्तु वह तो सिद्ध पदार्थके ही अधीन है । एक
स्थाणु—दूठमें स्थाणु है, या पुरुष है, या अन्य है, ऐसा ज्ञान यथार्थ ज्ञान

रत्नप्रभा

तन्मूला मनःस्पन्दितमात्राः संशयविपर्ययविकल्पाः, न प्रमारूपा इत्यक्षरार्थः ।
अयं भावः—धर्मो हि यथा यथा ज्ञायते, तथा तथा कर्तुं शक्यते इति
यथाशास्त्रं पुरुषबुद्ध्यपेक्षाः विकल्पाः सर्वे प्रमारूपा एव भवन्ति । तत्साम्ये
ब्रह्मण्यपि सर्वे विकल्पा यथार्थाः स्युरिति । तत्रोपि ओमिति वदन्तं प्रत्याह—
नेति । यदि सिद्धवस्तुज्ञानमपि साध्यज्ञानवत् पुरुषबुद्धिमपेक्ष्य जायेत, तदा
सिद्धे विकल्पा यथार्थाः स्युः न सिद्धवस्तुज्ञानं पौरुषम् । किं तर्हि ? प्रमाण-
वस्तुजन्यम् । तथा च वस्तुन एकरूपत्वादेकज्ञानमेव प्रमा, अन्ये विकल्पा
अयथार्था एवेत्यर्थः । अत्र दृष्टान्तमाह—नहि स्थाणाविति । स्थाणुरेवे-
त्यवधारणे सिद्धे सर्वे विकल्पा यथार्था न भवन्तीत्यर्थः । तत्र यद्वस्तुतन्त्रं ज्ञानं

रत्नप्रभाका अनुवाद

है । यदि कोई कहे कि आत्मा आदि वस्तुमें भी यादियोंके, है या नहीं, इत्यादि विकल्प देखनेमें
आते हैं ? इस शङ्काको दूर करनेके लिए कहते हैं—'विकल्पनास्तु' इत्यादि । है, या नहीं,
ऐसी यादियोंका स्मरण पुरुष-बुद्धि है । उक्त विरुद्ध-कोटिक स्मरणसे उत्पन्न हुए मनके
परिस्पन्दमात्र संशय, विपर्यय और विकल्प पुरुष-बुद्धिके अधीन हैं, प्रमारूप नहीं हैं ।
तात्पर्य यह है कि धर्म जैसे-जैसे जाननेमें आता है, वैसे-वैसे किया जा सकता है । इसलिए
शास्त्रके अनुसार पुरुष-बुद्धिरी अपेक्षा करनेवाले सब विकल्प प्रमारूप ही होते हैं । ब्रह्म धर्म-
सदृश है, अतः ब्रह्ममें भी ये सब विकल्प यथार्थ हों, ऐसा माननेवाले पूर्वपक्षसे कहते
हैं—“न” इत्यादि । यदि सिद्धवस्तुका ज्ञान भी साम्यवस्तुके ज्ञानके समान पुरुष-बुद्धिरी
अपेक्षासे उत्पन्न हो, तो सिद्धवस्तुमें विकल्प यथार्थ हों, किन्तु सिद्धवस्तुका ज्ञान पुरुष-बुद्धिके
अधीन नहीं है । यह प्रमाणसे अबाधित जो वस्तु उमने जन्य है । इसलिए प्रमाणवस्तु
एकरूप है, अतः उरवा एक ही ज्ञान प्रमा है । अन्य विकल्प अयथार्थ ही हैं । यहाँपर
इसका दृष्टान्त देते हैं—“नहि स्थाणौ” इत्यादिये । स्थणु ही है—ऐसा निवय होने पर सब

भाष्य

पुरुषोऽन्यो वेति मिथ्याज्ञानम् । स्थाणुरेवेति तत्त्वज्ञानम्, वस्तुतन्त्र-
त्वात् । एवं भूतवस्तुविषयाणां प्रामाण्यं वस्तुतन्त्रम् । तत्रैवं सति
ब्रह्मज्ञानमपि वस्तुतन्त्रमेव; भूतवस्तुविषयत्वात् । ननु भूतवस्तुत्वे

भाष्यका अनुवाद

नहीं होता । उसमें पुरुष है या अन्य कुछ है, यह मिथ्या ज्ञान है । स्थाणु ही है,
यह तत्त्व-ज्ञान है, क्योंकि वह वस्तुके अधीन है; उसी प्रकार सिद्ध वस्तुका प्रामाण्य
वस्तुके अधीन है । अतः सिद्ध हुआ कि ब्रह्मज्ञान भी वस्तुके अधीन ही है, क्योंकि
उसका विषय सिद्ध वस्तु है । कोई शङ्का करे कि ब्रह्म सिद्धवस्तु होनेसे अन्य

रत्नप्रभा

तद् यथार्थम्, यत् पुरुषतन्त्रं तन्मिथ्येति विभजते—तत्रेति । स्थाणावित्यर्थः ।
स्थाणावुक्तन्यायं घटादिष्वतिदिशति—एवमिति । प्रकृतमाह—तत्रैवं सतीति ।
सिद्धे अर्थे ज्ञानप्रमाद्यस्य वस्तुधीनत्वे सति ब्रह्मज्ञानमपि वस्तुजन्यमेव यथार्थम्, न
पुरुषतन्त्रम्, भूतार्थविषयत्वात्, स्थाणुज्ञानवदित्यर्थः । अतः साध्येऽर्थे सर्वे
विकल्पाः पुंस्तन्त्राः, न सिद्धेऽर्थे, इति वैलक्षण्यात् न धर्मसाम्यं ब्रह्मण इति नन-
नाद्यपेक्षा सिद्धेति भावः । ननु तर्हि ब्रह्म प्रत्यक्षादिगोचरं, धर्मविलक्षणत्वाद्,
घटादिवत् । तथा च जन्मादिसूत्रे जगत्कारणानुमानं विचार्यम् । सिद्धार्थे
तस्य मानत्वात्, न श्रुतिः, सिद्धार्थे तस्या अमानत्वेन तद्विचारस्य निष्फलत्वादिति
शङ्कते—नन्विति । प्रमाणान्तरविषयत्वमेव प्राप्तमिति कृत्वा प्रमाणान्तरस्यैव

रत्नप्रभाका अनुवाद

विकल्प (ज्ञान) यथार्थ नहीं होते हैं । उनमें जो वस्तुतन्त्रज्ञान है, वह यथार्थ है और
जो पुरुषतन्त्रज्ञान है, वह मिथ्या है, इस प्रकार भ्रम-प्रमाज्ञानका विभाग करते हैं—“तत्र”
इत्यादिसे । ‘तत्र’ अर्थात् स्थणुमें । स्थणुमें जो न्याय दिखलया है उसका “एवम्”
इत्यादिसे घटादिमें अतिदिश करते हैं । प्रस्तुत विषय कहते हैं—“तत्रैवं सति” इत्यादिसे ।
सिद्धवस्तुके ज्ञानमें प्रामाण्य वस्तुके अधीन है, ऐसी स्थितिमें ब्रह्मज्ञान भी वस्तुजन्य ही है,
अतः यथार्थ है, पुरुषतन्त्र नहीं है, क्योंकि स्थाणुज्ञानके समान ब्रह्मज्ञानका विषय सिद्धवस्तु
है । इस प्रकार साध्यवस्तु (धर्म) में सब विकल्प पुरुषके अधीन हैं । सिद्धवस्तु (ब्रह्म)
में विकल्प पुरुषके अधीन नहीं हैं । इस प्रकार धर्म और ब्रह्मका वैलक्षण्य—भेद होनेसे ब्रह्म
धर्म-मदृश नहीं है, इसलिए गगन आदिकी अपेक्षा ब्रह्मके लिए सिद्ध है, यह तात्पर्य है ।
यहाँ कोई शङ्का करे कि ब्रह्म प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका विषय है, धर्म-भिन्न होनेसे घटादिके
समान । इसलिए जन्मादिसूत्रमें ब्रह्मकी जगत्-कारणताका अनुमान विचारनेयोग्य है ।

भाष्य

ब्रह्मणः प्रमाणान्तरविषयत्वमेवेति वेदान्तवाक्यविचारणाऽनर्थिकैव प्राप्ता, न; इन्द्रियाविषयत्वेन सम्बन्धाग्रहणात् । स्वभावतो विषयविषयाणीन्द्रियाणि, न ब्रह्मविषयाणि । सति हि इन्द्रियविषयत्वे ब्रह्मणः, इदं

भाष्यका अनुवाद

प्रमाणका विषय है ही, इसलिए वेदान्त-वाक्योंके विचारकी अनर्थकता ही प्राप्त होती है, यह शङ्का ठीक नहीं है; क्योंकि ब्रह्म इन्द्रियोंका विषय नहीं है, इसलिए अन्य प्रमाणोंसे उसका जगत्-रूप कार्यके साथ सम्बन्धका ग्रहण नहीं होता । इन्द्रियोंस्वभावसे विषयोन्मुख हैं, ब्रह्मको विषय नहीं करतीं । ब्रह्म इन्द्रियोंका विषय हो, तो इस जगत्-रूप कार्यका ब्रह्मके साथ सम्बन्ध है, ऐसा जाना जा सके ।

रत्नप्रभा

विचारप्राप्ताविति शेषः । अत्र पूर्वपक्षी प्रष्टव्यः । किं यत्कार्यं, तद् ब्रह्मजमित्यनुमानं ब्रह्मसाधकम्, किं वा यत्कार्यम्, तत्सकारणमिति ? न आद्यः, व्याप्त्यसिद्धेरित्याह—नेति । ब्रह्मण इन्द्रियाग्राहत्वात् प्रत्यक्षेण व्याप्तिग्रहायोगाद् न प्रमाणान्तरविषयत्वमित्यर्थः । इन्द्रियाग्राहत्वं कुत इत्यत आह—स्वभावत इति । 'पराञ्चि खानि व्यतृणत् स्वयम्भूः (क० ४ । १) इति श्रुतेः, ब्रह्मणो रूपादिहीनत्वाच्चेत्यर्थः । इन्द्रियाग्राहत्वेऽपि व्याप्तिग्रहः किं न स्यादत आह—सति हीति । तन्नास्तीति शेषः । इदं कार्यम्, ब्रह्मजम्—इति व्याप्तिप्रत्यक्षं ब्रह्मणोऽस्तीन्द्रि-

रत्नप्रभाका अनुवाद

क्योंकि सिद्धवस्तुमें अनुमान प्रमाण है, श्रुति प्रमाण नहीं है। सिद्धवस्तुमें श्रुति अप्रमाण है, अतः उसका—श्रुतिका विचार निष्फल है, ऐसी शङ्का "ननु" इत्यादिसे करते हैं। 'ब्रह्म अन्य प्रमाणका विषय है ही'—मान लेनेपर प्रमाणान्तरका ही विचार प्राप्त होनेपर, इतना शेष समझ लेना चाहिये। यहाँ पूर्वपक्षीसे पूछना चाहिये कि 'जो कार्य है वह ब्रह्ममें जायमान है'—यह अनुमान ब्रह्मका साधक है अथवा 'जो कार्य है, वह सकारण है'—यह अनुमान ब्रह्मका साधक है ? प्रथम अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि व्याप्ति असिद्ध है। इसे "न" इत्यादिसे कहते हैं। ब्रह्म इन्द्रियोंसे ग्रहण करनेयोग्य नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष-प्रमाणसे व्याप्ति-ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए ब्रह्म दूसरे प्रमाणोंका विषय नहीं है। इन्द्रियोंसे ब्रह्मका ग्रहण क्यों नहोता ? इसका उत्तर देते हैं—“स्वभावतः” इत्यादिसे 'पराधि०' (ईश्वरने इन्द्रियोंको बहिर्मुख उत्पन्न किया) इस श्रुतिसे और ब्रह्ममें रूपादिके न होनेसे ब्रह्म दूसरे प्रमाणोंका विषय नहीं है। ब्रह्मका इन्द्रियोंसे ग्रहण भले ही न हो, पर व्याप्तिज्ञान क्यों नहीं होगा ? इसका उत्तर देते हैं—“सति हि” इत्यादिसे। इस पाठ्यमें 'ब्रह्म इन्द्रियका विषय नहीं होता' इतना शेष समझना चाहिये। यह कार्य ब्रह्म-

भाष्य

ब्रह्मणा सम्बद्धं कार्यमिति गृह्येत । कार्यमात्रमेव तु गृह्यमाणं किं ब्रह्मणा सम्बद्धं किमन्येन केनचिद्वा सम्बद्धमिति न शक्यं निश्चेतुम् । तस्माद् जन्मादिसूत्रं नाऽनुमानोपन्यासाथं किं तर्हि वेदान्तवाक्यप्रदर्शनार्थम् ।

भाष्यका अनुवाद

परन्तु कार्यमात्र अर्थात् यह जगत् ही इन्द्रियोंसे गृहीत होता है । लेकिन उसका सम्बन्ध ब्रह्मके साथ है अथवा किसी अन्यके साथ है, यह निश्चय नहीं किया जा सकता । इसलिए 'जन्मादि सूत्र' अनुमानके उपन्यासके लिए नहीं है, किन्तु वेदान्त-वाक्योंके प्रदर्शनके लिए है । वे कौनसे वेदान्त-वाक्य हैं,

रत्नप्रभा

यत्वाद् न सम्भवतीत्यर्थः । द्वितीये कारणसिद्धावपि कारणस्य ब्रह्मत्वं श्रुतिं विना ज्ञातुमशक्यमित्याह—कार्यमात्रमिति । सम्बद्धं कृतं यस्मात् श्रुतिमन्तरेण जगत्कारणं ब्रह्मेति निश्चयालाभः, तस्मात् तरलाभाय श्रुतिरेव प्राधान्येन विचारणीया । अनुमानं तूपादानत्वादिसामान्यद्वारा मृदादिवद् ब्रह्मणः स्वकार्यात्मकत्वादिश्रैतार्थसम्भावनार्थं गुणतया विचार्यमित्युपसंहरति—तस्मादिति । एतत्सूत्रस्य विषयवाक्यं पृच्छति—किं पुनरिति । इह ब्रह्मणि लक्षणार्थत्वेन विचारयितुमिष्टं वाक्यं किमित्यर्थः । अत्र हि प्रथमसूत्रे विशिष्टाधिकारिणो ब्रह्म-विचारं प्रतिज्ञाय ब्रह्म ज्ञातुकामस्य द्वितीयसूत्रे लक्षणमुच्यते, तथैव श्रुतावपि मुमुक्षोर्ब्रह्म ज्ञातुकामस्य जगत्कारणत्वोपलक्षणानुवादेन ब्रह्म ज्ञाप्यते इति श्रैतार्थ-

रत्नप्रभाका अनुवाद

जन्य है, ऐसा व्याप्ति-प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है, क्योंकि ब्रह्म अतीन्द्रिय है । दूसरे अनुमानमें यद्यपि कारण सिद्ध है, तो भी वह कारण ब्रह्म ही है, यह श्रुतिके बिना नहीं जाना जा सकता, इमे "कार्यमात्रम्" इत्यादिसे कहते हैं । सम्बद्ध—उत्पादित । श्रुतिके बिना जगत्का कारण ब्रह्म है, ऐसे निश्चयका लाभ नहीं होता, अतः निश्चय प्राप्त करनेके लिए श्रुति ही प्रधानरूपसे विचारणीय है । अनुमान, उपादान कारण होनेसे मिथ्या आदिके समान ब्रह्म स्वकार्यात्मक है ऐसे, श्रुतिके अर्थकी सम्भावनाके लिए गौणरूपसे विचारणीय है, इस प्रकार उपसंहार करते हैं—“तस्मात्” इत्यादिसे । इस सूत्रके विषयवाक्यों पृच्छते हैं—“किं पुनः” इत्यादिसे । इह—ब्रह्ममें, ब्रह्मका लक्षणरूपसे विचार करनेके लिए इष्ट वाक्य बौन हैं ? ऐसा अर्थ है । यहाँ प्रथम सूत्रमें विशिष्ट अधिकारीके लिए ब्रह्मविचारकी प्रतिज्ञा करके दूसरे सूत्रमें ब्रह्मज्ञान प्राप्त करनेवालेके लिए ब्रह्मका लक्षण कहा गया है । इसी प्रकार श्रुतिमें भी ब्रह्मको जाननेकी इच्छा करनेवाले मुमुक्षुको जगत्कारणत्वरूप उपलक्षणके अनुवादपूर्वक ब्रह्मका ज्ञान कराया

भाष्य

किं पुनस्तद्वेदान्तवाक्यं यत्सूत्रेणेह लिलक्ष्यपितम् । 'भृगुर्वैवारुणिः
वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति' इत्युपक्रम्याऽऽह—'यतो
वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंवि-
शन्ति तद्विजिज्ञासस्व । तद् ब्रह्मेति' (तै० ३।१) तस्य च निर्णयवाक्यम्—

भाष्यका अनुवाद

जिनका सूत्रद्वारा ब्रह्मके लक्षणरूपसे विचार करना अभीष्ट है ? 'भृगुर्वै०' (भृगु
वारुणि पिता वरुणके पास गया और कहा—'भगवन् ! ब्रह्मका उपदेश कीजिये')
ऐसा उपक्रम—आरम्भ करके कहते हैं—'यतो वा०' (जिससे ये भूत उत्पन्न होते
हैं, उत्पन्न होकर जिससे जीते हैं, जिसके प्रति जाते हैं और जिसमें प्रवेश करते
हैं, उसको ठीक-ठीक जाननेकी इच्छा कर, वह ब्रह्म है) उसका निर्णय-वाक्य यह

रत्नप्रभा

क्रमानुसारित्वं सूत्रस्य दर्शयितुं सोपक्रमं वाक्यं पठति—भृगुरिति । अधीहि
स्मारय उपदिशेत्यर्थः । अत्र 'येन' इति एकत्वं विवक्षितम्, नानात्वे ब्रह्मत्वविधाना-
योगात् । यद् जगत्कारणं तदेकम् इति अवान्तरवाक्यम्, यदेकं कारणं तद्ब्रह्म
इति वा, यत् कारणं तदेकं ब्रह्म इति वा महावाक्यमिति भेदः । किं तर्हि
स्वरूपलक्षणम् इत्याशङ्क्य वाक्यशेषात् निर्णीतो यतश्शब्दार्थः सत्यज्ञानानन्द
इत्याह—तस्य चेति । 'यः सर्वज्ञः' (मु० १।१।१०) 'तस्मादेतद्
ब्रह्म नामरूपमन्नं च जायते' (मु० १।१।१०) 'विज्ञानमानन्दं
ब्रह्म' (वृ० ३।९।२८) इत्यादिशास्त्रान्तरीयवाक्यानि अपि अस्य विषय

रत्नप्रभाका अनुवाद

जाता है, इस प्रकार सूत्र श्रुत्यर्थके क्रमके अनुसार है—इसे दिखलानेके लिए सोपक्रम
(आरम्भरहित) वाक्य पढ़ते हैं—'भृगुर्वै०' इत्यादि । 'अधीहि' अर्थात् स्मरण कराओ,
उपदेश करो । 'येन' यहाँपर एकत्व विवक्षित है, क्योंकि ब्रह्म नाना अर्थात् अनेक रूप नहीं
है, इसलिए नानात्व-अनेकत्व-विषयक ब्रह्मविधान उचित नहीं है । जो जगत्का कारण है,
यह एक है यह अवान्तरवाक्य है, 'जो एक कारण है' यह ब्रह्म है' अथवा 'जो कारण है, यह
एक ब्रह्म है' यह महावाक्य है । अवान्तरवाक्य और महावाक्यमें यह भेद है । तब ब्रह्मका
स्वरूप-लक्षण क्या है ? ऐसी शङ्का करके वाक्यशेषमें निर्णीत 'यतः' शब्दका अर्थ जो सत्य
ज्ञानानन्द है, यह स्वरूपलक्षण है, ऐसा कहते हैं—'तस्य च' इत्यादिये । 'यः सर्वज्ञः' (जो
सर्वज्ञ है), 'तस्मादेतद् ब्रह्म' 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' (परब्रह्मके हिरण्यगर्भ तथा नाम, रूप और
अक्ष उत्पन्न होते हैं । ब्रह्म विज्ञान-स्वरूप एवं आनन्दस्वरूप है) इत्यादि अन्य शास्त्राओंके

भाष्य

‘आनन्दाद्व्येष खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति’ इति । (तै० ३ । ६) अन्यान्य-प्येवंजातीयकानि वाक्यानि नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावसर्वज्ञस्वरूपकारण-विषयाण्युदाहर्तव्यानि ॥

इति द्वितीयं जन्माद्यधिकरणम् ॥ २ ॥

भाष्यका अनुवाद

हे—‘आनन्दाद्व्येष (आनन्दसे ही नि सन्देह भूत उत्पन्न होते हैं, जन्म लेकर आनन्द (ब्रह्म) से पालित होते हैं और आनन्दमे लीन होते हैं) । नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त सर्वज्ञस्वरूप जो कारण (ब्रह्म) है, उसके विषयमे इस प्रकारके स्वरूप तथा तटस्थ लक्षणका निर्देश करनेवाले दूसरे वाक्य भी उद्धृत करने चाहिये ॥ २ ॥

❀ जन्माद्यधिकरण समाप्त ❀

रत्नप्रभा

इत्याह—अन्यान्यपीति । एवञ्जातीयकत्पमेवाह—नित्येति । तदेव सर्वासु शाखासु लक्षणद्वयवाक्यानि जिज्ञास्ये ब्रह्मणि समन्वितानि तद्विया मुक्तिरिति सिद्धम् ।

इति द्वितीयसूत्रम् ॥ २ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

वाक्य भी इस सूत्रके विषय है, ऐसा कहते हैं—“अन्यान्यपि” इत्यादिसे । अन्य वाक्य भी इसी प्रकारके हैं इस बातको दिखलते हैं—“नित्य” इत्यादिसे । इस प्रकार सब शाखाओंमें तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षणके वाक्य जिज्ञास्य ब्रह्ममें समन्वित हैं और ब्रह्मज्ञानसे मुक्ति है, ऐसा सिद्ध है ।


* जन्माद्यधिकरण समाप्त *



शास्त्रयोनित्वात् ॥ ३ ॥

पदार्थोक्ति—शास्त्रं प्रति कारणत्वात्, शास्त्रगम्यत्वात्, सर्वज्ञं ब्रह्म ।

भावार्थ—ऋग्वेद आदि शास्त्रका कारण होनेसे ब्रह्म सर्वज्ञ है । यह पहला वर्णक है । ब्रह्म केवल ऋग्वेद आदि शास्त्रगम्य होनेसे प्रमाणान्तरवेद्य नहीं है । यह दूसरा वर्णक है ।



[३ शास्त्रयोनित्वाधिकरण]

(प्रथम वर्णक)

न कर्तृ ब्रह्म वेदस्य किं वा कर्तृ, न कर्तृ तत् । विरूप नित्यया वाचेत्येवं नित्यत्ववर्णनात् ॥
कर्तृ निःश्वसिताद्युक्तेर्नित्यत्वं पूर्वसाम्यतः । सर्वाविभासिवेदस्य कर्तृत्वात्सर्वाविज्ञवेत् ॥

[अधिकरणसार]

संशय—वेदका कर्ता ब्रह्म है अथवा नहीं है ?

पूर्वपक्ष—‘विरूप नित्यया वाचा’ इस श्रुतिमें वेदके नित्यत्वका वर्णन होनेसे ब्रह्म वेदका कर्ता नहीं है ।

सिद्धान्त—वेद ब्रह्मका निःश्वसित है ऐसा वर्णन होनेसे ब्रह्म वेदका कर्ता है । पूर्वरूपके समान ही प्रकट होनेसे वेद नित्य कहा जाता है । सम्पूर्ण जगत्की व्यवस्थाको प्रकाशित करनेवाले वेदका कर्ता होनेसे ब्रह्म सर्वज्ञ है ।

(१) सूत्रगत ‘शास्त्र’ शब्दका अर्थ ।

(२) व्याख्यान (पशान्तरथ्याख्यानरूपे—वाचस्पत्यकोश)

(३) इसका विषय—‘अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः’ इत्यादि वाक्य है । पूर्व अधिकरणसे इसकी एकविषयत्व संगति है ।

(४) हे विरूप नित्यया वाचा स्तुति प्रेरय—हे विरूप ! (देवताका संबोधन) नित्य वाचासे स्तुति कर । नित्यवाचा वेद ही है—“अनादिनिधना नित्या यापुत्रयुष्ठा स्वयम्भुवा ।

आदौ वेदमयी दिव्या यनः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥” (स्तुति)

प्रदाने प्रथम अनादि और अनन्त नित्य धीमि नित्य वेदरूप की सृष्टि की जिससे सारा व्यवहार प्रचलित हुआ ।

(५) “अस्य महतो भूतरय निःश्वसितम्” (५० २।४।२०)

“यस्य निःश्वसितं वेदाः” (मायणाचार्य) वेद त्रिमके निःश्वसितरूप है ।

(द्वितीय वर्णक)

अस्त्यन्यमेयताप्यस्य किं वा वेदैकमेयता । घटवत्सिद्धवस्तुत्वाद् ब्रह्मान्येनापि मीयते ॥
रूपलिङ्गादिराहित्याच्चास्य मान्तरयोग्यता । तं त्वौपनिषदेत्यादौ प्रोक्ता वेदैकमेयता ॥

[अधिकरणसार]

संशय—ब्रह्म अन्य प्रमाणोंसे भी जाना जाता है अथवा केवल वेदसे ही जाना जाता है ?

पूर्वपक्ष—घड़ेकी तरह सिद्धवस्तु होनेसे ब्रह्म अन्य प्रमाणोंसे भी जाना जाता है ।

सिद्धान्त—रूप और लिंग आदिसे रहित ब्रह्म अन्य प्रमाणोंसे नहीं जाना जा सकता । 'तं त्वौपनिषदम्' इत्यादि श्रुतियोंमें ब्रह्म केवल वेदसे ही जाना जाता है ऐसा कहा गया है ।


(१) इसका विषय—“त त्वौपनिषद पुरुष पृच्छामि” यह वाक्य है । पूर्वाधिकरणसे इसकी एकफलकत्व संगति है ।

(२) रूप, रस आदिसे रहित ब्रह्म इन्द्रियों द्वारा जानने योग्य नहीं है ।

(३) लिंग, सादृश्य आदिसे रहित ब्रह्म अनुमान आदि प्रमाणों द्वारा भी जानने योग्य नहीं है ।

(४) 'नानवेदविग्ममुते त वृहन्तम्' । (तै० ब्रा० ३ । १२ । ९) वेद को न जाननेवाला पुरुष उस परिपूर्ण परमात्मा को नहीं जान सकता ।

(५) 'वेदहेतुरपि ब्रह्म तद्वेदादेव मीयते ।' (लघुवातिक १ । १ । ३) ब्रह्म यद्यपि वेद का हेतु है, तो भी उसका ज्ञान वेद से ही होता है ।



भाष्य

जगत्कारणत्वप्रदर्शनेन सर्वज्ञं ब्रह्मेत्युपक्षिप्तं तदेव द्रढयन्नाह—
'शास्त्रयोनित्वात्' इति ।

भाष्यका अनुवाद

ब्रह्म में जगत्कारणता दिखलाने से सर्वज्ञता सूचित हुई अथ उसीको दृढ़ करते हुए कहते हैं—

रत्नप्रभा

यस्य निःश्वसितं वेदाः सर्वार्थज्ञानशक्तयः ।

श्रीरामं सर्ववेत्तारं वेदवेद्यमहं भजे ॥ १ ॥

वृत्तानुवादेन सङ्गतिं वदन् उत्तरसूत्रमवतारयति—जगदिति । चेतनस्य ब्रह्मणो जगत्कारणत्वोक्त्या सर्वज्ञत्वमर्थात् प्रतिज्ञातं सूत्रकृता, चेतनस्येष्टेर्ज्ञानपूर्वकत्वात् । तथा च ब्रह्म सर्वज्ञम्, सर्वकारणत्वात्, यो यत्कर्ता स तज्ज्ञः, यथा कुलाल इति स्थितम्, तदेवार्थिकं सर्वज्ञत्वं प्रधानादिनिरासाय वेदकर्तृत्वहेतुना द्रढयन् आहेत्यर्थः । हेतुद्वयस्य एकार्थसाधनत्वाद् एकविषयत्वमवान्तरसङ्गतिः । यद्वा, वेदस्य नित्यत्वाद् ब्रह्मणः सर्वहेतुता नास्ति इत्याक्षेपसङ्गत्या वेदहेतुत्वमुच्यते । “अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यद्गवेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः” (बृ० २।४।१०) इति वाक्यं विषयः । तत् किं वेदहेतुत्वेन ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वं साधयति, उत न साधयति इति सन्देहः । तत्र व्याकरणादिवत् रत्नप्रभाका अनुवाद

भगवान् भाष्यकार पूर्व अधिकरणमें कहे गये विषयका अनुवाद करके संगतिको दिखलाने हुए अगले सूत्रकी अवतरणिका देते हैं—“जगत्” इत्यादिसे । चेतन ब्रह्म जगत्का कारण है इस कथनसे अर्थत सूत्रकारने ब्रह्म सर्वज्ञ है ऐसी प्रतिज्ञा की है, क्योंकि चेतनै ज्ञानपूर्वक ही सृष्टि करता है । अतः अनुमान होता है कि ब्रह्म सर्वज्ञ है, क्योंकि वह सबका कारण है । जो जिसका कर्ता होता है वह उसको सर्वत्मना जानता है, जैसे कुम्हार घड़ेको । सारांश यह है कि प्रधान आदि अन्य कारणोंका सण्डन करनेके लिए ब्रह्ममें अर्थत सिद्ध सर्वज्ञताको वेदकर्तृत्व रूप हेतुसे दृढ़ करते हुए कहते हैं—(शास्त्रयोनित्वात्) । जगत्कारणत्व और वेदकर्तृत्व ये दो हेतु एक ही विषयके साधक हैं, इसलिए इन दो अधिकरणोंकी एकविषयत्व अवान्तर संगति है । अथवा वेद नित्य है इसलिए ब्रह्म सबका कारण नहीं है ऐसा आक्षेप करके ब्रह्म वेदका कर्ता है ऐसा कहते हैं । अस्य महतो० (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इस महान् सत्य ब्रह्मके श्वासमात्र हैं) यह वाक्य सूत्रप्रतिपाद्य अधिकरणका विषय है । यह वाक्य वेदकर्तृत्वरूप हेतुसे ब्रह्ममें सर्वज्ञत्व सिद्ध करता है या नहीं ऐसा सन्देह होता है, पूर्वपक्षी

(१) पुनः कथन । (२) सूत्र उतारनेका कारण । (३) चैतन्ययुक्त ।

रत्नप्रभा

वेदस्य पौरुषेयत्वे मूलप्रमाणसापेक्षत्वेन अप्रामाण्यापातात् न साधयतीति पूर्वपक्षे जगद्धेतोश्चेतनत्वासिद्धिः फलम् । सिद्धान्ते तत्सिद्धिः । अस्य वेदान्तवान्यस्य स्पष्टब्रह्मलिङ्गस्य वेदकर्तारि समन्वयोक्तेः श्रुतिशालाध्यायपादसङ्गतयः । एवमापादं श्रुत्यादिसङ्गतय उच्चाः । वेदे हि सर्वार्थप्रकाशनशक्तिरुपलभ्यते, सा तदुपादानब्रह्मगतशक्तिपूर्विका तद्गता वा प्रकाशनशक्तित्वात् ; कार्यगतशक्तित्वाद् वा, प्रदीपशक्तिवत् इति वेदोपादानत्वेन ब्रह्मणः स्वसम्बद्धाशेषार्थप्रकाशनसामर्थ्यरूपं सर्वसाक्षित्वं सिद्धयति । यद्वा, यथा अध्येतारः पूर्वक्रमं ज्ञात्वा वेदं कुर्वन्ति, तथा विचित्रगुणमायासहायोऽनावृतानन्तस्वप्रकाशचिन्मात्रः परमेश्वरः स्वकृतपूर्वकल्पीयक्रमसजातीयक्रमवन्तं वेदराशिं तदर्थान् च युगपत् जानन् एव करोतीति न वेदस्य पौरुषेयता । यत्र अर्थज्ञानपूर्वकं वाक्यज्ञानं वाक्यसृष्टौ कारणं तत्र पौरुषेयता, अत्र च यौगपद्वात् न सा, अतो वेदकर्ता वेदमिव तदर्थमपि स्वसम्बद्धं नान्तरीयकतया जानातीति सर्वज्ञ इति सिद्धान्तयति—शास्त्रेति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

कहता है कि व्याकरण आदिके समान वेद पौरुषेय—पुरुषप्रणीत है और मूलप्रमाणकी अपेक्षा रखता है, इसलिए वेद अप्रमाण है, अतः यह वाक्य ब्रह्ममें सर्वज्ञत्वकी सिद्धि नहीं कर सकता । इस पूर्वपक्षका फल जगत्कारण ब्रह्ममें चेतनत्वकी असिद्धि करना है । सिद्धान्तमें यह वाक्य ब्रह्ममें सर्वज्ञत्वकी सिद्धि करता है और ब्रह्मके चेतनत्वकी सिद्धि इसका फल है । इस वेदान्त-वाक्यमें ब्रह्मलिङ्ग स्पष्ट है, इस सूत्र तथा वेदान्त वाक्यका वेदके कर्ता ब्रह्ममें समन्वय कहा है, इसलिए इस सूत्रके साथ श्रुति, शास्त्र, अप्याय और पादकी एकार्थप्रतिपादकत्वरूप संगति है । इस प्रकार पादके अन्त तक श्रुति आदिकी सूत्रके साथ संगति समझ लेनी चाहिए । वेदमें सब अर्थोंकी प्रकाशित करनेकी शक्ति पाई जाती है, वह शक्ति उसके उपादान कारण—ब्रह्ममें रहनेवाली शक्तिते प्राप्त हुई है, क्योंकि प्रदीप शक्तिके समान वह प्रकाश करनेवाली है । अथवा ब्रह्मगत ही है, क्योंकि कार्यमें रहनेवाली है । इन अनुमानोंसे ब्रह्म वेदका उपादान है, इसलिए उसमें अपने संबन्धके समस्त पदार्थोंके प्रकाशनकी सामर्थ्यरूप सर्वसाक्षिता सिद्ध होती है । अथवा जैसे अध्ययन करनेवाले पूर्वक्रम (वेदानुपूर्वी) का स्मरणकर वेद पढ़ते हैं, इसी प्रकार अघटित घटना पटीयसी मायाकी सहायतासे आवरण रहित अनन्त, स्वप्रकाश, चिन्मात्र, परमेश्वर पूर्वकल्पके क्रम—आनुपूर्वीके अनुसार वेदराशि और उसके अर्थोंका एक साथ ही ज्ञान करके प्रकाश करता है, इसलिए वेद पौरुषेय नहीं है । जहाँ अर्थज्ञानपूर्वक वाक्यज्ञान वाक्यकी उत्पत्तिमें कारण होता है वहाँ पौरुषेयता होती है । ईश्वरको एक समय ही अर्थज्ञान और वाक्यज्ञान होता है, इसलिए वेदमें पौरुषेयता नहीं है । इस कारण वेदकर्ता स्वर्णित वेदके समान उसके अर्थको भी बिना व्यवधान जानता है इसलिए ब्रह्म सर्वज्ञ है, ऐसा सिद्धान्त करते हैं—“शास्त्रयोनि” इत्यादिये ।

भाष्य

महतः ऋग्वेदादेः शास्त्रस्थानेकविद्यास्थानोपचृंहितस्य प्रदीपवत्सर्वार्था-
वद्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म । न हीदृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादि-

भाष्यका अनुवाद

अनेक विद्यास्थानोंसे उपकृते, प्रदीपके समान सब अर्थोंके प्रकाशनमें समर्थ
और सर्वज्ञकल्प महान् ऋग्वेद आदि शास्त्रका योनि अर्थात् कारण ब्रह्म है ।
ऋग्वेद आंवरूप सर्वज्ञगुणसम्पन्न शास्त्रकी उत्पत्ति सर्वज्ञको छोड़कर दूसरेसे

रत्नप्रभा

शास्त्रं प्रति हेतुत्वात् ब्रह्म सर्वज्ञं सर्वकारणं च इति संगतिद्वयानुसारेण सूत्र-
योजनामभिप्रेत्य पदानि व्याचष्टे—महत इति । हेतोः सर्वज्ञत्वसिद्धये वेदस्य
विशेषणानि । तत्र ग्रन्थतोऽर्थतश्च महत्त्वम्, हितशासनात् शास्त्रत्वम् । शास्त्र-
शब्दः शब्दमात्रोपलक्षणार्थ इति मत्वा आह—अनेकेति । “पुराणन्यायभीमांसा-
धर्मशास्त्राणि शिक्षाकल्पव्याकरणनिरुक्तच्छन्दोज्योतिषाणि षडङ्गानि” इति दश
विद्यास्थानानि वेदार्थज्ञानहेतवः, तैरुपकृतस्य इत्यर्थः । अनेन मन्वादिभिः परि-
गृहीतत्वेन वेदस्य प्रामाण्यं सूचितम् । अबोधकत्वाभावादिपि प्रामाण्यमित्याह—
प्रदीपवदिति । सर्वार्थप्रकाशनशक्तिमत्त्वेऽपि अचेतनत्वात् सर्वज्ञकल्पत्वं योनिरुपादानं

रत्नप्रभाका अनुवाद

ब्रह्म शास्त्रके प्रति हेतु है इसलिए एकार्थविषयत्व तथा आक्षेप इन दो संगतियोंके अनुसार
वह सर्वज्ञ और सबका कारण है ऐसी सूत्रकी योजना करनेके अभिप्रायसे पदोंका व्याख्यान
करते हैं—“महत” इत्यादिसे । ऋग्वेदादिका हेतु ब्रह्म सर्वज्ञ है, यह सिद्ध करनेके लिए वेदके
विशेषण दिये हैं । ‘महान्’ अर्थात् शब्दोंसे और अर्थसे बड़ा । हितका उपदेश करता है इसलिए
उसे ‘शास्त्र’ कहते हैं । शास्त्र शब्द हितशासन शब्दमात्रका द्योतक है, ऐसा विचारकर
हितशासन मन्वादिकी व्यावृत्तिके लिए कहते हैं—“अनेक” इत्यादि । पुराण, न्याय, भीमांसा,
धर्मशास्त्र, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष ये दस विद्याएँ वेदके अर्थ-
ज्ञानमें कारण हैं । आशय यह है कि उनसे वेदकी व्याख्या होती है । इस विशेषणसे यह
सूचित होता है कि मनु आदिने वेदको स्वीकार किया है, इसलिए वेद प्रमाण है, सब अर्थोंका
बोध करनेसे भी वेद प्रमाण है ऐसा कहते हैं—“प्रदीपवत्” इत्यादिसे । सब अर्थोंको प्रकाशित
करनेकी वेदमें शक्ति है, तो भी अचेतन होनेके कारण वेद ‘सर्वज्ञत्व’ (सर्वज्ञसदृश) है,

- (१) अर्थ जाननेके हेतु, वेदका अर्थ जाननेमें सहायक शक्ति । (२) अन्यमें जिसका उद्धार
हुआ हो, अर्थ समझानेमें जिसको दूसरेसे सहायता मिले । (३) सर्वज्ञता गुणमें युक्त । (४) अबोधकत्व
बोधक न होना, अबोधकत्वका अभाव—बोधक होना । (५) शब्दविरहण । (६) दित्तलनेवाला ।
(७) ईषदून अर्थमें कल्प प्रचय है ।

भाष्य

लक्षणस्य सर्वज्ञगुणान्वितस्य सर्वज्ञादन्यतः सम्भवोऽस्ति । यद्यद्विस्तरार्थं शास्त्रं यस्मात्पुरुषविशेषात्सम्भवति, यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेर्ज्ञेयैकदेशार्थ-

भाष्यका अनुवाद

नहीं है । जो जो विस्तरार्थं शास्त्र जिस पुरुषविशेषसे रचे जाते हैं, जैसे ज्ञेयैका एकदेश जिनका अर्थ है, ऐसे भी व्याकरण आदि पाणिनि आदिसे, वह (पुरुष विशेष) उससे (शास्त्रसे) अधिकतर ज्ञानवान् है, यह लोकेमें प्रसिद्ध है,

रत्नप्रभा

कर्तुं च । ननु सर्वज्ञस्य यो गुणः सर्वार्थज्ञानशक्तिमत्त्वं वेदस्य तदन्वितत्वेऽपि तद्योनेः सर्वज्ञत्वं कुत इत्यत आह—नहीति । उपादाने तच्छक्तिं विना कार्ये तदयोगात् वेदोपादनस्य सर्वज्ञत्वम् । अनुमानं तु पूर्वं दर्शितम् । न च अविद्यायाः तदापत्तिः, शक्तिमत्त्वेऽपि अचेतनत्वात् इति भावः । वेदः स्वविषयादधिकार्थज्ञानवज्जन्यः, प्रमाणवाक्यत्वात्, व्याकरणरामायणादिवत् इति अनुमानान्तरम् । तत्र व्याप्तिमाह—यद्यदिति । विस्तरः—शब्दाधिक्यम् । अनेन अर्थतोऽरूपत्वं वदन् कर्तुर्नानिस्वार्थाधिक्यं सूचयति । दृश्यते चार्थवादाधिक्यं वेदे ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

सर्वज्ञ नहीं है । 'योनि' अर्थात् उपादान कारण और 'कर्ता' निमित्त कारण । यद्यपि सर्वज्ञता गुण सर्वार्थज्ञानशक्तिमत्त्वं वेदमें अन्वित है, तो भी उसके कारणमें सर्वज्ञत्व कहाँसे है ? यह शंका दूर करनेके लिए कहते हैं—“नहि” इत्यादि । उपादानमें यदि वह शक्ति न होती तो कार्यमें उस शक्तिका योग नहीं बनता, इसलिए वेदके उपादान कारण ब्रह्ममें सर्वज्ञत्व सिद्ध होता है । इस विषयमें अनुमान पहले दिखलाया गया है । यदि कहिए कि उस अनुमानसे अविद्यामें भी सर्वज्ञत्वकी प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अविद्यामें यद्यपि सर्वार्थ-शक्तिमत्त्वं है तो भी चेतनत्व नहीं है इसलिए वह सर्वज्ञ नहीं है । वेद अपने विषयसे अधिक अर्थसे रचा गया है, प्रमाणवाक्य होनेसे, व्याकरण, रामायण आदिके समान, यह दूसरा अनुमान है । इस अनुमानमें व्याप्ति दिखलाते हैं—“यद्यत्” इत्यादिसे । विस्तर अर्थात् शब्दविस्तर । इससे शब्दमें अर्थतः अर्थकी अल्पता दिखाकर शास्त्रकी अपेक्षा उसका रचयिता अधिक अर्थ जानता है यह सूचित करते हैं और वेदमें बहुतसे अर्थवाद हैं इसलिए वहाँ शब्दाना आधिक्य है ही ।

(१) जिसमें बहुत शब्द हों अर्थात् विस्तरार्थ । (२) विशिष्टपुरुष, अनाधारण पुरुष । (३) जानने योग्य । (४) एकभाग । (५) व्याकरणके कर्ता पाणिनि आदि । (६) अधिक अर्थमें तरप् (तर) प्रत्यय लगाया है । (७) सब अर्थोंके ज्ञानकी शक्ति होना । (८) युक्त, पोया हुआ ।

भाष्य

मपि, स ततोऽप्यधिकतरविज्ञान इति प्रसिद्धं लोके, किमु वक्तव्यमनेक-
शाखाभेदभिन्नस्य देवतिर्यङ्मनुष्यवर्णाश्रमादिप्रविभागहेतोः ऋग्वेदाद्या-

भाष्यका अनुवाद

तो अनेक शाखाभेदसे भिन्न, देव, पशु, मनुष्य, वर्ण, आश्रम आदि विभागका
हेतु, सर्वज्ञानका आर्कर, ऋग्वेद आदि संज्ञकका अनायास ही लीलान्यायसे पुरुष-

रत्नप्रभा

अत्रैषा योजना—यद्यत् शास्त्रं यस्मात् आसात् सम्भवति स ततः शास्त्रादधि-
कार्थज्ञान इति प्रसिद्धम्, यथा शब्दसाधुत्वादिः ज्ञैयैकदेशोऽर्थो यस्य तदपि
व्याकरणादि पाणिन्यादेरधिकार्थज्ञात् सम्भवति । यद्यल्पार्थमपि शास्त्रमधिकार्थज्ञात्
सम्भवति तदा “अस्य महतः” (वृ० २।४।१०) इत्यादिश्रुतेर्यस्मान्महतोऽ-
परिच्छिन्नाद् भूतात् सत्याद् योनेः सकाशाद् अनेकशास्त्रेत्यादिविशिष्टस्य वेदस्य
पुरुषनिश्चासवत् अप्रयत्नेनैव सम्भवः, तस्य सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तिमत्त्वं च इति किमु
वक्तव्यमिति । तत्र वेदस्य पौरुषेयत्वशङ्कानिरासार्थं श्रुतिस्थनिश्चसितपदार्थमाह—
अप्रयत्नेनेति । प्रमाणान्तरेण अर्थज्ञानप्रयासं विना निमेषादिन्यायेन इत्यर्थः । अत्र

रत्नप्रभाका अनुवाद

यहाँ ऐसी योजना है—जो जो शास्त्र जिस आर्षे पुरुषसे रचा जाता है, वह पुरुष उस
शास्त्रसे अधिक अर्थका ज्ञाता होता है, यह प्रसिद्ध है । जैसे शब्दसाधुत्व आदि ज्ञेयके
एकदेशका प्रतिपादन करनेवाले व्याकरण आदिकी रचना उनसे विशेष अर्थज्ञ पाणिनि
आदिसे हुई है । यदि अल्पार्थ शास्त्र भी अधिकज्ञानवालेसे उत्पन्न होता है तो ‘अस्य महतः’
इत्यादि श्रुतियोंके प्रमाणसे जिस अपरिच्छिन्न, निःसीम और सत्य कारणसे, ‘अनेक शाखाओंमें
विभक्त’ आदि विशेषणविशिष्ट वेदकी पुरुष निःस्वासके समान प्रयत्नके बिना ही उत्पत्ति हुई है,
उसके सर्वज्ञत्व और सर्वशक्तिमत्त्वमें तो कहना ही क्या है । वेद पौरुषेय है यह शंका दूर
करनेके लिए श्रुतिमें स्थित निश्चित पदका “अप्रयत्नेन” इत्यादिसे अर्थ करते हैं । अभिप्राय
यह है कि आँसुके पलक मारनेमें जैसे ध्रम नुहना होता और न यत्न ही करना पड़ता है, उसी
प्रकार ईश्वरने अन्य प्रमाणसे अर्थज्ञाननेका प्रयास किए बिना ही वेदकी रचना की है । यहाँ

(१) भिन्न भिन्न भाग । (२) खान, खजाना । महान् विरतीर्ण प्रमाणरूप ग्रन्थ भावर
ग्रन्थ नदहाना है । (३) ऋग्वेदादि विनकी सञ्ज्ञा है । (४) संज्ञके समानः । (५) प्रामाणिक,
विश्वासयोग्य । (६) शब्दकी शुद्धि व्याकरणसे स्पष्ट समझमें आती है कि कौन-सा शब्द शुद्ध है
और कौन-सा अशुद्ध है ।

भाष्य

ख्यस्य सर्वज्ञानाकरस्याग्रयत्नेनैव लीलान्यायेन पुरुषनिःश्वासवद् यस्माद् महतो भूताद्योनेः सम्भवः, 'अस्य महतो भूतस्य निःश्वासितमेतद्यद्वेदः' (वृ० २।४।१०) इत्यादिश्रुतेः, तस्य महतो भूतस्य निरतिशयं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्ति-
भाष्यका अनुवाद

निःश्वासके समान जिस महान् सत्ययोनिसे संभव है 'अस्य महतो' (इस महान् भूतका जो निःश्वासित है वह ऋग्वेद है) इत्यादि श्रुतिसे जाना जाता है । उस महान् सत्ययोनिके निरतिशय सर्वज्ञत्व और सर्वशक्तिमत्त्वमें तो कहना ही क्या

रत्नप्रभा

अनुमानेन "यः सर्वज्ञः" (मु० १।१) इति श्रुत्युक्तसर्वज्ञत्वदाढ्याय पाणिन्या-
दिवद् वेदकर्तारि अधिकार्थज्ञानसत्तामात्रं साध्यते, न तु अर्थज्ञानस्य वेदहेतुत्वम्,
निःश्वासितश्रुतिविरोधात्, वेदज्ञानमात्रेण अध्येतृवत् वेदकर्तृत्वोपपत्तेश्च । इयान्
विशेषः—अध्येता परापेक्षः ईश्वरस्तु स्वकृतवेदानुपूर्वी स्वयमेव स्मृत्वा तथैव
कल्पादौ ब्रह्मादिषु आविर्भावयन् अनावृतज्ञानत्वात् तदर्थमपि अवर्जनीयतया
जानातीति सर्वज्ञ इति अनवद्यम् । इति प्रथमवर्णकम् ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

अनुमानसे 'यः सर्वज्ञः' इस श्रुतिमें कहे हुए सर्वज्ञत्वकी दृढ़ता करनेके लिए पाणिनि आदिके
समान वेदकर्तामें केवल अधिक अर्थ ज्ञानकी सत्ता सिद्ध की गई है, अर्थज्ञान वेदका हेतु है,
ऐसा सिद्ध नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा करनेसे निःश्वासित श्रुतिसे विरोध होता है और वेद-
ज्ञानमात्रसे अध्येताकी तरह वेदकर्तृत्वकी उपपत्ति भी हो सकती है । भेद इतना ही है कि
अध्येताको दूसरे गुरु आदिकी अपेक्षा रहती है, किन्तु ईश्वर स्वयं रचे हुए वेदकी आनुपूर्वीका
स्मरण करके उसी क्रमसे कल्पके आरंभमें ब्रह्मा आदिमें उसका आविर्भाव करता है और
ईश्वरके ज्ञानमें अविषण न होनेके कारण उसके अर्थको भी अवश्य जानता है, इसलिए वह सर्वज्ञ है ।

(१) 'स यथाऽर्धाग्नेरभ्याहितात् पृथग्भूमा विनिश्चरन्लेवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वासित-
मेतद्यद्वेदे यजुर्वेदः सामनेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराण विद्या उपनिषदः श्लोकाः सृष्ट्याप्यनुव्या-
ख्यानानि व्याख्यानान्यस्यैवैतानि सर्वाणि निःश्वासितानि' [वृ० २।४।१०] (जिस प्रकार गीले
इन्धनसे चिनगारी, अगार, प्रकाश आदि बाहर निकलते हैं, वही प्रकार मैंने ! इस महान्
सत्यस्वरूप परमात्माका यह निःश्वासित है, अर्थात् निःश्वासित जैसा है, जैसे बिना प्रवल ही
पुरपका श्वास चलता है ऐसा है । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वाङ्गिरस, इतिहास, पुराण,
विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्यान और व्याख्यान इन सबकी अभिव्यक्ति पुरुषके
निःश्वासके समान है, पुरुषजुद्धि प्रयत्नपूर्वक नहीं है) इसलिए वेद पौरुषेय है ऐसी शंका न करनी
चाहिए । (२) सत्यस्वरूप ब्रह्मका । (३) शासमान । (४) भेद । (५) हजार चौदुगीका ब्रह्माका एक
दिन जो ४३२००००००० हैतालीस करोड़ बीसलाख हमारे वर्षोंके बराबर है । (६) पदार्थ, द्रव्य ।

भाष्य

मत्त्वं चेति । अथवा यथोक्तमृगवेदादिशास्त्रं योनिः कारणं प्रमाणमस्य ब्रह्मणो यथावत्स्वरूपाधिगमे । शास्त्रादेव प्रमाणाद् जगतो जन्मादिकारणं ब्रह्म अधिगम्यते इत्यभिप्रायः । शास्त्रमुदाहृतं पूर्वसूत्रे—‘यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’ इत्यादि । किमर्थं तर्हीदं सूत्रम् ? यावता पूर्वसूत्रे भाष्यका अनुवाद

है । अथवा पूर्वोक्त ऋग्वेद आदि शास्त्र ब्रह्मके यथार्थ स्वरूपके ज्ञानमें योनि—कारण अर्थात् प्रमाण हैं, इसलिए ब्रह्म केवल वेदसे जाना जाता है । शास्त्ररूप प्रमाणसे ही ऐसा समझा जाता है कि ब्रह्म जगत्के जन्म आदिका कारण है यह अभिप्राय है । पूर्वसूत्रमें ‘यतो वा’ इत्यादि शास्त्रोंका उदाहरण

रत्नप्रभा

अधुना ब्रह्मणो लक्षणानन्तरं प्रमाणजिज्ञासायां वर्णकान्तरमाह—अथवेति । लक्षणप्रमाणयोर्ब्रह्मनिर्णयार्थत्वाद् एकफलकत्वं सद्गतिः । “तन्त्वौपनिषदं पुरुषम्” (बृ० ३।१।२६) इति श्रुतिर्ब्रह्मणो वेदैकवेद्यत्वं ब्रूते न वेति संशये, कार्यलिङ्गेनैव लघवात् कर्तुरेकस्य सर्वज्ञस्य ब्रह्मणः सिद्धेर्न ब्रूते इति प्राप्ते वेदप्रमाणकत्वात् ब्रह्मणो न प्रमाणान्तरवेद्यत्वम् इति सिद्धान्तयति—शास्त्रयोनित्वादिति । तद्व्याचष्टे—यथोक्तमिति । सर्वत्र पूर्वोत्तरपक्षयुक्तिद्वयं संशयबीजं द्रष्टव्यम् । अत्र पूर्वपक्षे अनुमानस्य एव विचार्यतासिद्धिः फलम्, सिद्धान्ते वेदान्तानामिति भेदः । अनुमानादिना ब्रह्मसिद्धिः पूर्वसूत्रे प्रसङ्गात् निरस्ता । किञ्च, विचित्रप्रपञ्चस्य रत्नप्रभाका अनुवाद

अब ब्रह्मके लक्षणके अनन्तर ब्रह्मके प्रमाणकी जिज्ञासा होनेपर “अथवा” इत्यादिसे दूसरा वर्णक आरम्भ करते हैं । लक्षण और प्रमाण ब्रह्मके निर्णायक हैं इससे इन दोनों सूत्रोंकी एकफलकत्व संगति है । ‘तं त्वौपनिषदं’ यह श्रुति ब्रह्म केवल वेदसे ही वेद्य है, ऐसा प्रतिपादन करती है या नहीं, ऐसा संशय होने पर कार्यत्वरूप लिंगद्वारा लघवसे एक वर्ता सर्वज्ञ ब्रह्मकी सिद्धि होती है । इस कारण अनुमानसे भी वेद्य ब्रह्मको श्रुति केवल वेदवेद्य नहीं कहती है ऐसा पूर्वपक्ष होने पर वेद ब्रह्ममें प्रमाण है इसलिए ब्रह्म अन्य प्रमाणोंसे वेद्य नहीं है ऐसा सिद्धान्त करते हैं—“शास्त्रयोनित्वात्” इस सूत्रसे । “यथोक्तम्” इत्यादिसे सूत्रका व्याख्यान करते हैं । सर्वत्र पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षकी युक्तियोंको संशयका कारण समझना चाहिए । यहाँ पूर्वपक्षमें अनुमान ही विचार्य है और अनुमानका विचार करना चाहिए, यह फल है, और उत्तरपक्षमें वेदान्त विचार्य है और वेदान्तकी विचार्यतासिद्धि फल है, यह भेद है । पूर्वसूत्रमें प्रसङ्गवशा कहा गया है कि अनुमान आदिते ब्रह्मकी सिद्धि नहीं होती है । और

भाष्य

एव एवंजातीयकं शास्त्रमुदाहरता शास्त्रयोनित्वं ब्रह्मणो दर्शितम् । उच्यते—
तत्र पूर्वसूत्राक्षरेण स्पष्टं शास्त्रस्यानुपादानात् जन्मादि केवलमनुमान-
मुपन्यस्तमित्याशङ्क्येत, तामाशङ्कां निवर्तयितुमिदं सूत्रं प्रवृत्ते—‘शास्त्र-
योनित्वात्’ इति ॥ ३ ॥

भाष्यका अनुवाद

दिया है । जब पूर्वसूत्रमें ही ऐसे शास्त्रका उदाहरण देते हुए सूत्रकारने ब्रह्म
शास्त्रयोनि है ऐसा कह दिया है, तब फिर इस सूत्रका प्रयोजन ही क्या है ?
इस विषयमें कहा जाता है—पूर्वसूत्रके अक्षरोंसे शास्त्रका स्पष्ट उपादान नहीं
किया गया है, इसलिए जगत्के जन्म आदिका केवल अनुमान रूपसे उपन्यास
किया है ऐसी कोई शंका करे तो उस आशंकाको दूर करनेके लिए ‘शास्त्र-
योनित्वात्’ यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है ।

रत्नप्रभा

प्रासादादिवत् एककर्तृकतावाधात् न लाघवावतारः । न च सर्वज्ञत्वात् कर्तुः एक-
त्वसम्भवः, एकत्वज्ञानात् सर्वज्ञत्वज्ञानं ततः तत् इत्यन्योन्याश्रयमभिप्रेत्य आह—
शास्त्रादेवेति । किं तत् शास्त्रमिति तद् आह—शास्त्रमिति । पृथगारम्भमाक्षिपति—
किमर्थमिति । येन हेतुना दर्शितं ततः किमर्थमित्यर्थः । जन्मादिलिङ्गकानु-
मानस्य स्वातन्त्र्येण उपन्यासशङ्कानिरासार्थं पृथक् सूत्रमित्याह—उच्यते इति ।

इति तृतीयसूत्रम् ॥ ३ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

प्रासाद आदिका एक कर्ता नहीं होता तो विचित्र जगत्का एक कर्ता कैसे हो सकता है ?
इस प्रकार एक कर्ताके व्यापित होनेमें लाघवका भी अवगता नहीं है । सर्वज्ञ होनेके कारण
ही कर्ता एक है ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि एकत्वज्ञानसे सर्वज्ञत्वका ज्ञान होता है
और सर्वज्ञत्वके ज्ञानसे एकत्वका ज्ञान होता है, इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष आता है
इस अभिप्रायसे “शास्त्रादेव” इत्यादि कहते हैं । वह शास्त्र कौन है ? इस प्रश्नके उत्तरमें
कहते हैं—“शास्त्रम्” इत्यादि । पूर्वसूत्रमें शास्त्रका उदाहरण दिया है तो फिर पृथक् सूत्रके
आरंभका आशेष करते हैं—“किमर्थम्” इत्यादिसे । अभिप्राय यह है कि पूर्वसूत्रमें शास्त्रका
उल्लेख कर सूत्रकारने जब ब्रह्मको शास्त्रयोनि कह दिया है, तब फिर इस सूत्रकी क्या
आवश्यकता है ? जगत्के जन्म आदि जिसके लिए हैं ऐसा स्वतन्त्र अनुमानका ही पूर्वसूत्रमें
उपन्यास किया है यह शंका दूर करनेके लिए पृथक् सूत्र है ऐसा “उच्यते” इत्यादिसे कहते हैं ।


* तृतीय सूत्र समाप्त *

तत्तु समन्वयात् ॥४॥

पदच्छेद—तत् तु समन्वयात् ।

पदार्थोक्ति—किन्तु तत् ब्रह्म वेदान्तात् स्वातन्त्र्येण एव अवगम्यते न तु कर्तृ-देवादिप्रतिपादनद्वारा कर्मशेषतया उपासनांगतया वा ।

भाषार्थ—वेदान्तवाक्य उस ब्रह्मका स्वतन्त्र ही बोध कराते हैं । कर्ता और देवताके प्रतिपादन द्वारा कर्म वा उपासनाके अङ्ग होकर नहीं कराते ।



[४ समन्वयाधिकरण]

(प्रथम वर्णक)

वेदान्ताः कर्तृदेवादिपरा ब्रह्मपरा उत । अनुष्ठानोपयोगित्वात् कर्त्रादिप्रतिपादकाः ॥
भिन्नप्रकरणात् लिंगपदकाच्च ब्रह्मबोधकाः । सति प्रयोजनेऽनर्थहानेऽनुष्ठानतोऽत्र किम् ॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—वेदान्त कर्ता, देवता आदिके प्रतिपादन द्वारा कर्मके अङ्गतया ब्रह्मका प्रतिपादन करते हैं अथवा स्वतन्त्रतया प्रतिपादन करते हैं ?

पूर्वपक्ष—वेदान्त ब्रह्मका प्राधान्येन प्रतिपादन नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रह्मप्रतिपादनमें कोई फल नहीं है; किन्तु परम्परया स्वर्गादि फल होनेसे कर्मापेक्षित कर्ता, देवता आदिका प्रतिपादन द्वारा ही ब्रह्मका प्रतिपादन करते हैं ।

सिद्धान्त—वेदान्त कर्मकाण्डके अन्तर्गत नहीं है, किन्तु कर्मकाण्डसे उनका प्रकरण भिन्न है । और तात्पर्य परिचायक उपक्रम आदि पङ्क्तिविध हेतुसे भी वेदान्त ब्रह्मना ही प्राधान्येन प्रतिपादन करते हैं और अनर्थनिवृत्तिरूप प्रयोजन होनेसे ब्रह्मका प्राधान्येन प्रतिपादन निष्फल भी नहीं है ।

(१) 'सदेव भोग्येऽयम आसीत् सत्यं ज्ञानमानन्द ब्रह्म' इत्यादि वाक्यायं इतः अधिकरणका विषय है । पूर्व सूत्रके द्वितीय वर्णकसे इतकी आशय संगति है ।

(द्वितीय वर्णक)

प्रतिपत्तिं विधित्तन्ति ब्रह्मण्यवसिता उत ।

शास्त्रत्वात्ते विधातारो मननादेश्च कीर्तनात् ॥ १ ॥

नाकर्तृतन्त्रेऽस्ति विधिः शास्त्रत्वं शंसनादपि ।

मननादिः पुरा बोधात् ब्रह्मण्यवसितास्ततः ॥ २ ॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—वेदान्त ('आत्मौ वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः' इत्यादि वाक्य) उपासनाका विधान करते हैं अथवा आत्मावगोचरमें उनका तात्पर्य है ?

पूर्वपक्ष—वेदान्त शास्त्र हैं (शासनसे ही शास्त्रत्व होता है) और 'श्रोतव्य' से श्रवणका विधान कर 'मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः' से अनुभवस्वरूप मननादिका स्पष्ट विधान करते हैं, अतः 'श्रोतव्यः' इत्यादि वाक्य उपासनाका विधान करते हैं ।

सिद्धान्त—जो 'कर्ताके अधीन नहीं है, उसमें विधि नहीं हो सकती । सिद्ध वस्तुके कथनसे भी शास्त्रत्वकी उपपत्ति है । शान्दयोगके पूर्व असभावना और विपरीत भावनाकी निवृत्तिके लिए ध्यापाररूप कर्तृतन्त्र मनने, निदिध्यासनका विधान है । इससे सिद्ध हुआ कि वेदान्तोंका साक्षात् ब्रह्ममें तात्पर्य है ।

(१) सम्पूर्ण वेदान्त इस अधिकरणके विषय है, पूर्वाधिकरणसे इस द्वितीय वर्णककी प्रमग संगति है ।

(२) 'आत्मेत्येवोपासीत' इस प्रतिपत्तिविधिमें आत्माका स्वरूप अपेक्षित है, उसका प्रतिपादन 'सत्यं ज्ञानम्' इत्यादि वाक्यसे किया गया है, अतः अपेक्षित आत्मस्वरूपसमर्पकत्वेन ये वाक्य विधायक वाक्यमें अपेक्षित अर्थका समर्पण करनेवाले हैं, जैसे कि 'यूपमद्याशीकरोति' 'यूप तक्षति' ये वाक्य 'यूपे पशु बध्नाति' इस विधायक वाक्यमें अपेक्षित अर्थका समर्पण करनेवाले हैं, अथवा स्वार्थमें पर्यवसित है ।

(३) 'आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थव्यमतदर्शानाम्' पृ० १५३ में देखिए ।

(४) कर्ताके अधीन जो कर्म है उनकी विधि होती है । लौकिक और वैदिक कर्म करना, न करना और दूसरे प्रकारसे करना कर्ताके अधीन है—जैसे घोड़ेपर चढ़कर जाता है, पैदल अथवा अन्य प्रकारसे जाता है या नहीं जाता । इसी प्रकार 'अतिरात्रमें घोड़ीका ग्रहण करता है', 'अतिरात्रमें घोळीका ग्रहण नहीं करता', 'स्योदय होनेपर होम करता है' और 'स्योदयसे पूर्व होम करता है' इन प्रकार विधि, निषेध आदि कर्ताके अधीन हैं, किन्तु सिद्ध पदार्थ 'इम प्रकार है' अथवा 'इस प्रकार नहीं है', 'है' अथवा 'नहीं है' इस तरह विधि, निषेध आदिका विषय नहीं है ।

(५) 'दशमस्त्वमसि' (दशम तुम हो) जैसे यद्वापर सिद्ध वस्तुके उपदेशसे शास्त्रत्व है ।

(६) न प्रतीचि ब्रह्मदृष्टिं विधत्ते तत्रमादिगी ।

नाऽप्युपासितविधे शेष ब्रह्मात्मैक्यं प्रमापयेत् ॥ (लघुवार्तिक)

'तत्रत्वमसि' आदि सुतियां प्रत्यगात्मा (जीव) में ब्रह्मदृष्टिका विधान नहीं करती और ब्रह्मकी उपासनाविधिका अंग भी नहीं बतलाती, किन्तु जीव और ब्रह्मकी एकताका ज्ञान कराती है, यह भाव है ।

भाष्य

कथं 'पुनर्ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वमुच्यते ? यावता 'आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्शानाम्' (जै० सू० १।२।१) इति क्रियापरत्वं शास्त्रस्य

भाष्यका अनुवाद

शास्त्र ब्रह्ममें प्रमाण है, यह कैसे कहते हो ? क्योंकि 'आम्नायस्य०' (वेद क्रियार्थक है, इसलिए अक्रियार्थक वाक्य अनर्थक हैं) इससे शास्त्र क्रियापरक है

रत्नप्रभा

वेदान्ताः सिद्धब्रह्मपरा उक्त कार्यपरा इति निष्फलत्वसापेक्षत्वयोः प्रसङ्गा-
प्रसङ्गाभ्यां संशये पूर्वसूत्रे द्वितीयवर्णकेन आक्षेपसङ्गत्या पूर्वपक्षमाह—कथं
पुनरित्यादिना । "सदेव सोम्य" (छा० ६।२।१) इत्यादीनां सर्वात्मत्वा-
दिस्पष्टब्रह्मलिङ्गानां ब्रह्मणि समन्वयोक्तेः श्रुत्यादिसङ्गतयः । पूर्वपक्षे वेदान्तेषु
सुसुक्ष्मवृत्त्यसिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति विवेकः । कथमिति आक्षेपे
हेतुः—यावतेति । यतो जैमिनिसूत्रेण शास्त्रस्य वेदस्य क्रियापरत्वं दर्शितमतोऽ-
क्रियार्थत्वाद् वेदान्तानाम् आनर्थक्यं फलवदर्थशून्यत्वं प्राप्तमिति - अन्वयः ।
सूत्रस्य अयमर्थः—प्रथमसूत्रे तावद् वेदस्य अध्ययनकरणकभावनाविधिभाष्यस्य
फलवदर्थपरत्वमुक्तम् "चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः" । (जै० सू० १।१।२) इति,

रत्नप्रभाका अनुवाद

वेदान्त सिद्धब्रह्मपरक है या क्रियापरक है, इस प्रकार निष्फलत्व और सापेक्षत्वकी प्राप्ति और अप्राप्तिके योग्ये संशय होनेपर पूर्वसूत्रके दूसरे वर्णकसे आक्षेपसंगतिसे पूर्वपक्ष कहते हैं—"कथं पुन" इत्यादिसे । इस सूत्रमें सर्वात्मत्वादि स्पष्टब्रह्मलिङ्गवाली 'सदेव सोम्य' इत्यादि श्रुतियोंका ब्रह्ममें समन्वय किया है, इसलिए यहाँपर श्रुत्यादि संगतियाँ हैं । वेदान्तमें सुसुक्ष्मओंकी प्रवृत्तिकी अधिद्धि पूर्वपक्षका फल है और उसकी सिद्धि सिद्धान्तका फल है । 'कथं' यह आक्षेपमें है । आक्षेपका कारण "यावता" इत्यादिसे कहते हैं । जैमिनिसूत्रसे शास्त्र अर्थात् वेदका क्रियापरत्व दिखलाया है, इसलिए वेदान्त क्रियापर न होनेसे अनर्थक हैं अर्थात् उनमें फलवदर्थशून्यत्व प्राप्त होता है । सूत्रका अर्थ यह है—प्रथम सूत्रमें अध्ययन रूप साधनसे साध्य जो भावना उसका प्रतिपादक जो विधि उससे भाष्य—अर्थात् धर्म

(१) किंवा ब्रह्मका प्रयोजन है । (२) ब्रह्ममें क्रियाका विचार है । (३) ब्रह्मका फल न हो वह निष्फल । (४) वेदान्त सिद्धब्रह्मप्रतिपादक हो, तो 'वे आम्नायस्य०' एवके अनुसार निष्फल हो जायेगे और सिद्धब्रह्मके प्रमाणान्तरणय होनेके कारण वेदान्तकी भी प्रमाणान्तरकी अपेक्षा होगी, यदि कार्यपरक हो, तो निष्फलत्वका प्रसङ्ग नहीं है, क्योंकि क्रियापरक वाक्य उच-यापन होते है, और धर्ममें प्रत्यय आदि प्रमाण नहीं है, अतः कार्यपरक होनेके कारण वेदान्तकी भी प्रमाणान्तरकी अपेक्षा नहीं है ।

भाष्य

प्रदर्शितम् । अतो वेदान्तानामानर्थक्यम्, अक्रियार्थत्वात् । कर्तृदेवतादि-

भाष्यका अनुवाद

इस कारण वेदान्त अनर्थक हैं, क्योंकि क्रियार्थक नहीं हैं । अथवा कर्ता, देवता

रत्नप्रभा

द्वितीयसूत्रे धर्मे—कार्ये चोदना प्रमाणमिति वेदप्रामाण्यव्यापकं कार्यपरत्वमव-
सितम् । तत्र “वायुर्वै क्षेपिष्ठा” इत्याद्यर्थवादानां धर्मे प्रामाण्यमस्ति न वेति
संशये आम्नायप्रामाण्यस्य क्रियार्थत्वेन व्याप्तत्वात्, अर्थवादेषु धर्मस्य अप्रतीतिः
अक्रियार्थानां तेषाम् आनर्थक्यं निष्फलार्थत्वम्, न च अध्ययनविध्युपादानां निष्फले
सिद्धेऽर्थे प्रामाण्यं युक्तम्, तस्मात् अनित्यमेषां प्रामाण्यमुच्यते । व्यापकाभावाद्
व्याप्यं प्रामाण्यं नास्ति एव इति यावत् । एवं पूर्वपक्षे अपि “विधिना त्वेकवाक्यत्वात्
स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः” (जै० सू० १।२।७) इति सूत्रेण सिद्धान्तमाह—
क्रियापरत्वमिति । अनित्यमिति प्राप्ते दर्शितमित्यर्थः । ‘वायुर्वै क्षिप्रतमगामिनी
देवता, तद्देवताकं कर्म क्षिप्रमेव फलं दास्यति’ इत्येवं विधेयार्थानां स्तुतिरूपायार्थेन
द्वारेण “वायव्यं श्वेतमालभेत” इत्यादिविधिवाक्येन एकवाक्यत्वात् अर्थवादा-
सफलाः स्युः । स्तुतिलक्षणया सफलकार्यपरत्वात् प्रमाणमर्थवादा इति यावत् ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

अर्थात् कर्मवेदका फलवदर्थपरत्व बहा गया है । ‘चोदना०’ इस द्वितीय सूत्रमें कार्य-धर्ममें विधि प्रमाण
है ऐसा कहा गया है, इसलिए कार्यपरत्व वेदप्रामाण्यका व्यापक है अर्थात् जहाँ जहाँ वेदप्रामाण्य
है, वहाँ कार्यपरत्व अवश्य है ऐसी व्याप्ति है । वेदमें ‘वायुर्वै०’ (वायु अतिशय क्षिप्रगति
देवता है) इत्यादि अर्थवाद वाक्य हैं । उनका धर्ममें प्रामाण्य है या नहीं यह संशय होनेपर
जो धृति विचार्यक है, वह प्रमाण है ऐसी व्याप्ति है, इसलिए अर्थवादमें धर्मकी अप्रतीति
होनेसे अक्रियार्थक अर्थवाद अनर्थक अर्थात् निष्फल हैं । अध्ययन विधिसे गृहीत वाक्योंका
निष्फल और सिद्ध अर्थमें प्रामाण्य ठीक नहीं है, इसलिए उनमें प्रामाण्य अनित्य है ऐसा
कहा जाता है । अर्थात् क्रियापरत्वरूप व्यापकके न होनेसे प्रामाण्य रूप व्याप्य
भी नहीं है ऐसा पूर्वपक्ष होनेपर ‘विधिना०’ इस सूत्रसे सिद्धान्त कहते हैं—
“क्रियापरत्वम्” इत्यादिसे । भावार्थ यह है कि क्रियापरक न होनेसे अर्थवाद वाक्य अनित्य हैं
ऐसा पूर्वपक्ष होनेपर उनका कार्यपरत्व दिखलया है । ‘वायु अतिशय क्षिप्र जानेवाला
देवता है, जिस कर्मका यह देवता है, वह कर्म क्षिप्र ही फल देगा’ इत्यादि विधेय अर्थका
स्तुतिरूप अर्थद्वारा ‘वायव्यं०’ इत्यादि विधिवानयके साथ एकवाक्यता होनेसे अर्थवाद सफल
होते हैं । अर्थवाद स्तुतिमें लक्षणासे सफल कार्यपरक हैं, इसलिए प्रमाण है ऐसा अर्थ है ।

भाष्य

प्रकाशनार्थत्वेन वा क्रियाविधिशेषत्वम्, उपासनादिक्रियान्तरविधानार्थत्वं

भाष्यका अनुवाद

आदिका प्रकाश करना वेदान्तोंका प्रयोजन है, इसलिए वेदान्त क्रियाविधि-वाक्योंके अङ्ग है। अथवा उपासना आदि अन्य क्रियाओंका विधान वेदान्तोंका प्रयोजन

रत्नप्रभा

ननु अध्ययनविधिगृहीतानां वेदान्तानामानर्थक्यं न युक्तमिति अत आह—
कर्त्रिति । न वयं वेदान्तानामानर्थक्यं साधयामः, किन्तु लोके सिद्धस्य माना-
न्तरवेद्यत्वात् निष्फलत्वात् च सिद्धब्रह्मपरत्वे तेषां मानान्तरसापेक्षत्वनिष्फलत्वयोः
प्रसङ्गात् अप्रामाण्यापातात् कार्यशेषकर्तृदेवताफलानां प्रकाशनद्वारा कार्यपरत्वं
वक्तव्यमिति ब्रूमः । तत्र त्वन्तत्पदार्थवाक्यानां कर्तृदेवतास्तावकत्वम्, विविदि-
पादिवाक्यानां फलस्तावकत्वम् । ननु कर्मविशेषमनारभ्य प्रकरणान्तराधीतानां
वेदान्तानां कथं तच्छेषत्वम् ? मानाभावाद् इति अरुच्या पक्षान्तरमाह—उपास-
नेति । मोक्षकामोऽसद्ब्रह्माभेदमारोप्य “अहं ब्रह्मास्मि” (बृ० १।४।१०)
इत्युपासीत, इत्युपासनाविधिः । आदिशब्दात् श्रवणादयः, तत्कार्यपरत्वं वा
वक्तव्यमित्यर्थः । ननु श्रुतं ब्रह्म विहाय अश्रुतं कार्यपरत्वं किमर्थं वक्तव्यमिति तत्र

रत्नप्रभाका अनुवाद

अध्ययन विधिमें ग्रहण किए हुए वेदान्त अनर्थक हैं यह बात ठीक नहीं है इसलिए कहते हैं—
“कर्तृ” इत्यादि । हम वेदान्तकी अनर्थकता सिद्ध नहीं करते । किन्तु लोकमें सिद्ध बस्तु अन्य
प्रमाणसे जानी जा सकती है और निष्फल है, इसलिए वेदान्त सिद्ध ब्रह्मके प्रतिपादक हैं तो उनमें
अन्य प्रमाण सापेक्षत्व और निष्फलत्व प्राप्त होता है और अप्रामाण्यका प्रसंग भी आता है,
इसलिए कार्यके (अंग) कर्ता, देवता और फलका प्रकाश करनेसे वेदान्त क्रियापरक हैं ऐसा हम
कहते हैं । वेदोंमें ‘त्वम्’ (तू) ‘तत्’ (वह) पदोंके अर्थवाले वाक्य कर्ता और देवताकी स्तुति
करते हैं और ‘विविदिपा’ (जानने की इच्छा) आदि पदोंके अर्थवाले वाक्य फलकी स्तुति
करते हैं । परन्तु कर्मविशेषका आरम्भ किए बिना अन्य प्रकरणमें पठित वेदान्त कर्मके
अंग कैसे हों, क्योंकि उन विषयमें कोई प्रमाण नहीं है, इस प्रकार इस पक्षमें अपनी अर्थकी
दियाकर भाष्यकार दूसरा पक्ष कहते हैं—“उपासना” इत्यादिसे । मोक्षार्थी पुरुषको अपनेमें
असत् ब्रह्मके अभेदका आरोप करके ‘अहं ब्रह्मास्मि’ (मैं ब्रह्म हूँ) इस प्रकार उपासना करनी
चाहिए, यह उपासना विधि है । ‘आदि’ शब्दसे श्रवण आदि विधियां ग्रहण करना चाहिए । तात्पर्य
यह है कि वेदान्त उपासनादि कार्यपरक हैं ऐसा कहना चाहिए । परन्तु श्रुतिप्रतिपादित ब्रह्मको
छोड़कर श्रुतिसे अप्रतिपादित कार्यपरक क्या हों कहा जाय ? इस शंकाके उत्तरमें कहते हैं—“नहि”

(१) वेदान्त कार्यपर है ऐसा वेदान्तमें प्रतिपादन नहीं किया है, ऐसा वेदान्तका कार्यपरत्व ।

भाष्य

वा । नहि परिनिष्ठितवस्तुप्रतिपादनं सम्भवति प्रत्यक्षादिविषयत्वात्
परिनिष्ठितवस्तुनः । तत्प्रतिपादने च हेयोपादेयरहिते पुरुषार्थाभावात् ।

भाष्यका अनुवाद

हे । सिद्ध वस्तुका प्रतिपादन करना तो (वेदान्तोंका प्रयोजन) नहीं हो सकता है, क्योंकि सिद्ध वस्तु प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका विषय है और उसका प्रतिपादन न हेय है और न उपादेय, अतः उसमें पुरुषार्थका अभाव है । इसी कारणसे

रत्नप्रभा

आह—नहीति । परितः समन्तात् निश्चयेन स्थितम्—परिनिष्ठितम्, कृत्यनपेक्षं
सिद्धमिति यावत् । तस्य प्रतिपादनम् अज्ञातस्य वेदेन ज्ञापनं तत् न सम्भवति,
मानान्तरयोग्ये अर्थे वाक्यस्य संवादे सति अनुवादकत्वाद् “अग्निर्हिमस्य भेषजम्”
इति वाक्यवद् । विसंवादे च अवोधकत्वाद्, “आदित्यो यूपः” इति वाक्यवत् इत्यर्थः ।
सिद्धो न वेदार्थः, मानान्तरयोग्यत्वात्, घटवदित्युक्त्वा निष्फलत्वात् च तथेत्याह—
तदिति । सिद्धज्ञापने हेयोपादेयागोचरे फलाभावात् च तत् न सम्भवतीत्यर्थः ।
फलं हि सुखावाप्तिः दुःखहानिश्च । तत् च प्रवृत्तिनिवृत्तिभ्यां साध्यम्, ते च उपा-
देयस्य प्रवृत्तिप्रयत्नकार्यस्य हेयस्य निवृत्तिप्रयत्नकार्यस्य ज्ञानाभ्यां जायेते, न
सिद्धज्ञानात् इति भावः । तर्हि सिद्धबोधिवेदवादानां साफल्यं कथम् इत्याशङ्क्य

रत्नप्रभाका अनुवाद

इत्यादि । सब ओरसे निश्चयसे रहा हुआ ‘परिनिष्ठित’ है, अर्थात् जिसको क्रियाकी
अपेक्षा नहीं है अर्थात् सिद्ध वस्तु । उस अज्ञातका वेदसे ज्ञान करना संभव नहीं है,
क्योंकि दूसरे प्रमाणोंसे ज्ञातव्य अर्थमें संवाद होनेपर वाक्य अनुवादक होता
है, ‘अग्निर्हिमस्य’ (अग्नि जाड़ेकी ओषधि है) इस वाक्यकी तरह । और
अन्य प्रमाणोंसे वेदवाक्यका विसंवाद होनेपर वेदवाक्य बोधक नहीं होता है,
‘आदित्यो’ (सूर्य यूप है) इस वाक्यकी तरह, ऐसा भावार्थ है । सिद्ध पदार्थ वेदार्थ नहीं
है, क्योंकि दूसरे प्रमाणके योग्य है, घटके समान । ऐसा कहकर सिद्ध पदार्थ-निष्फल
होनेसे भी वेदार्थ नहीं है, ऐसा कहते हैं—“तत्” इत्यादि से । तात्पर्य यह है कि यह हेय है
इस बुद्धिका और यह उपादेय है इस बुद्धिका अविषय सिद्धवस्तुके बोधनमें कुछ फल नहीं
है, इसलिए वेदान्तोंसे सिद्धवस्तु ब्रह्मना प्रतिपादन संभव नहीं है । फल अर्थात् सुखकी
प्राप्ति और दुःखका त्याग । वे दोनों प्रवृत्ति और निवृत्तिसे साध्य हैं । अपने प्रयत्नसे ग्रहण
करने योग्य वस्तुके ज्ञानसे प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और अपने प्रयत्नसे त्यागने योग्य वस्तुके
ज्ञानसे निवृत्ति उत्पन्न होती है । तात्पर्य यह है कि सिद्ध वस्तुके ज्ञानसे प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति
नहीं होती । तब सिद्ध पदार्थका बोध करानेवाले वेदवाक्योंकी सफलता किस प्रकार है ? यह

भाष्य

अत एव 'सोऽरोदीत्' इत्येवमादीनामानर्थक्यं मा भूदिति 'विधिना त्वेकवाक्यत्वात्स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः' (जै० सू० १।२।७) इति स्ताव-
कत्वेनार्थवच्चमुक्तम् । मन्त्राणां च 'इपेत्वा' इत्यादीनां क्रियातत्साधना-

भाष्यका अनुवाद

'सोऽरोदीत्' (वह रोया) इत्यादि वाक्य अनर्थक न हों, इसलिए 'विधिना०' (विधिवाक्योंके साथ अर्थवाद आदि वाक्योंकी एकवाच्यता है क्योंकि अर्थवाद वाक्य विधेय की स्तुति करते हैं ।) इस प्रकार स्तुत्यर्थक होनेसे वे ('सोऽरोदीत्' इत्यादि वाक्य) सार्थक कहे गये हैं और 'इपेत्वा' (अन्नके लिए तुझे काटता हूँ) इत्यादि मंत्र क्रिया और उसके साधनोंका

रत्नप्रभा

“आम्नायस्य” (जै० सू० १।२।१) इत्यादिसंग्रहवाक्यं विवृणोति—अत एवेति । सिद्धवस्तुज्ञानात् फलभावाद् एवेत्यर्थः । “देवैर्निरुद्धः सोऽग्निररोदीत्” इति वाक्यस्य अश्रुजत्वेन रजतस्य निन्दाद्वारा “वर्हिषि न देयम्” इति सफल-
निषेधशेषत्ववत् वेदान्तानां विध्यादिशेषत्वं वाच्यम् इत्यर्थः ।

ननु तेषां मन्त्रवत् स्वातन्त्र्यमस्तु, न अर्थवादवत् विध्येकवाक्यत्वम् इत्याशङ्क्य
दृष्टान्तासिद्धिमाह—मन्त्राणां चेति । प्रमाणलक्षणे अर्थवादचिन्तानन्तरं मन्त्र-
चिन्ता कृता, “इपेत्वा” (तै० सं० १।१।१) इति मन्त्रे छिन्धि इति अध्याहारात्

रत्नप्रभाका अनुवाद

आशंका करके 'आम्नायस्य' इत्यादि संग्रह वाक्यका विवरण करते हैं—“अत एव” इत्यादिसे । अर्थात् गिद्ध वस्तुके ज्ञानसे कोई फल निष्पन्न नहीं होता इसलिए । 'देवैर्निरुद्धः०' (देवोंसे रोका हुआ वह अग्नि रोया) यह वाक्य अश्रुसे उत्पन्न हुए रजतकी निन्दा द्वारा 'वर्हिषि०' (यज्ञमें रजत नहीं देना चाहिए) इस सफल निषेध वाक्यका अंग है, इसी प्रकार वेदान्त विधिवाक्य आदिके अंग हैं, ऐसा कहना चाहिए, यह अर्थ है ।

वेदान्तोंका मन्त्रोंके समान स्वातंत्र्य हो, अर्थवादके समान विधिके साथ एकवाच्यता न हो, ऐसी शंका करके दृष्टान्तकी सिद्धि कहते हैं—“मन्त्राणां च” आदिसे । पूर्वमीमांसाके प्रथमाध्यायमें प्रमाण-लक्षणके निरूपणके अन्तर्गत् पर अर्थवाद-विचारके पश्चात् मन्त्र विचार किया गया है, 'इपेत्वा' इस मन्त्रमें 'छिन्धि' या अध्याहार होनेसे शाखाके पाठनेकी

(१) परोंमें अथवा वाक्योंमें संबन्ध । 'सोऽरोदीत्' इस अर्थवादके परभी विधि वरके साथ एकरावदात्ता और 'इपेत्वा' मन्त्राणां स्वयंकारो यत्रेव' (इपेत्वा का प्रमाणशाखा दर्शनीयभाग यह करे) इत्यादि वाक्योंकी 'मन्त्रिणे यत्रति' (मन्त्र नामक भाग करे) इत्यादिवाक्योंके साथ अर्थात्साधना- संबंधमें एकरावदात्ता ।

भाष्य

भिधायित्वेन कर्मसमवायित्वमुक्तम् । न क्वचिदपि वेदवाक्यानां विधि-

भाष्यका अनुवाद

अभिधान करते हैं, इसलिए (मन्त्र) कर्मसे नित्य सम्बन्धी कहे गये हैं । किसी भी स्थलपर विधिवान्वयोंके सम्बन्धके बिना वेदवान्वयोंकी अर्थवत्ता न देखनेसे

रत्नप्रभा

शाखाच्छेदनक्रियाप्रतीते, “अग्निर्मूर्धा” इत्यादौ च क्रियासाधनदेवतादिप्रतीते मन्त्रा श्रुत्यादिभि क्रतौ विनियुक्ता, ते किमुच्चारणमात्रेण अदृष्ट कुर्वन्तः क्रतो उपकुर्वन्ति, उत दृष्टेनेव अर्थस्मरणेन इति सन्देहे चिन्तादिना अपि अध्ययनकालावगतमन्त्रार्थस्य स्मृतिसम्भवाददृष्टार्था मन्त्रा इति प्राप्ते सिद्धान्तः । “अविशिष्टस्तु वाक्यार्थः” (जै० सू० १।२।४०) इति लोकवेदयो वाक्यार्थस्य अविशेषात् मन्त्रवाक्याना दृष्टेनैव स्वार्थप्रकाशनेन क्रतूपकारकत्वसम्भवाद दृष्टे सम्भवति अदृष्टकल्पनानुपपत्ते, फलरदनुष्ठानापेक्षितेन क्रियातत्साधनस्मरणेन द्वारेण मन्त्राणा कर्माङ्गत्वम् । “मन्त्रैरेवार्थ स्मर्तव्यः” इति नियमस्तु अदृष्टार्थ इति । तथा च अर्थवादाना स्तुतिपदार्थद्वारा पदैकवाक्यत्व विधिभि, मन्त्राणा तु वाक्यार्थज्ञानद्वारा तै वाक्यैकवाक्यत्वम् इति विभागः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

क्रिया प्रतीत होती है, ‘अग्निर्मूर्धा’ इत्यादि मन्त्रोंमें क्रिया के साधनभूत देवता आदिकी प्रतीति होती है, इसलिए श्रुति आदिसे क्रतुमें मन्त्रोंका विनियोग किया गया है । मन्त्र उच्चारण-मात्रसे अदृष्टको उत्पन्न करके क्रतुमें उपकारक होते हैं, अथवा दृष्ट अर्थके स्मरणसे उपकारक होते हैं, ऐसा सन्देह होता है । पर उसमें अध्ययन कालमें जताये हुए मन्त्रोंके अर्थकी स्मृतिका समर्थ चिन्ता आदिसे भी होता है, इसलिए मन्त्र अदृष्टार्थ हैं, अर्थात् उच्चारण-मात्रसे अदृष्ट उत्पन्न करके क्रतुमें उपकारक होते हैं, ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर इस प्रकार सिद्धान्त होता है—‘अविशिष्टस्तु०’ (वाक्यार्थ—लौकिक और अलौकिक वाक्यका अर्थ अविशिष्ट है अर्थात् इन दोनों वाक्यार्थोंमें भेद नही है) और लोकमें फलवत् उच्चारण देखते हैं, इसलिए मन्त्रोच्चारण भी वैसा ही होना चाहिए । अतः मन्त्रवाक्य भी दृष्टफलरूप अपने अर्थके प्रकाशनसे यज्ञके उपकारक हो सकते हैं, क्योंकि जब दृष्टका समर्थ है तब अदृष्टकी कल्पना करना ठीक नहीं है, इसलिए फलवाले अनुष्ठानसे अपेक्षित क्रिया और उसके साधनसे स्मरणद्वारा मन्त्र कर्माङ्ग हों । मन्त्रोंसे ही उनके अर्थका स्मरण करना चाहिए यह नियम अदृष्टके लिए है । स्तुतिरूप पदार्थद्वारा

(१) दश । (२) प्रथम । (३) जिसका अर्थ—फल, अदृष्ट है अर्थात् शक्त नहीं है ।

(४) अपेक्षा । ५। ६। ७। ८। ९। १०। ११। १२। १३। १४। १५। १६। १७। १८। १९। २०। २१। २२। २३। २४। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। ३२। ३३। ३४। ३५। ३६। ३७। ३८। ३९। ४०। ४१। ४२। ४३। ४४। ४५। ४६। ४७। ४८। ४९। ५०। ५१। ५२। ५३। ५४। ५५। ५६। ५७। ५८। ५९। ६०। ६१। ६२। ६३। ६४। ६५। ६६। ६७। ६८। ६९। ७०। ७१। ७२। ७३। ७४। ७५। ७६। ७७। ७८। ७९। ८०। ८१। ८२। ८३। ८४। ८५। ८६। ८७। ८८। ८९। ९०। ९१। ९२। ९३। ९४। ९५। ९६। ९७। ९८। ९९। १००।

भाष्य

संस्पर्शमन्तरेणार्थवत्ता दृष्टोपपन्ना वा । न च परिनिष्ठिते वस्तुस्वरूपे विधिः सम्भवति, क्रियाविषयत्वाद् विधेः । तस्मात्कर्मापेक्षितकर्तृदेवतादि-स्वरूपप्रकाशनेन क्रियाविधिशेषत्वं वेदान्तानाम् । अथ प्रकरणान्तर-

भाष्यका अनुवाद

आई है और न उपपन्न ही है । सिद्ध वस्तुके स्वरूपमें विधि भी नहीं हो सकती है, क्योंकि विधि क्रियाविषयक है । इसलिए कर्मके लिए अपेक्षित कर्ताके स्वरूप, देवता आदिका प्रकाशन करनेसे वेदान्त क्रियाविधिके अङ्ग हैं । यदि अन्य प्रकरणके भयसे यह स्वीकार न किया जाय तो भी अपने (वेदान्तके)

रत्नप्रभा

ननु अस्तु कर्मप्रकरणस्थवाक्यानां विध्येकवाक्यत्वम्, वेदान्तानां तु सिद्धे प्रामाण्यं किं न स्यादिति तत्र आह—न क्वचिदिति । वेदान्ताः विध्येक-वाक्यत्वेन एवार्थवन्तः सिद्धार्थावेदकत्वात् मन्त्रार्थवादादिवत् इत्यर्थः । अन्यत्र अदृष्टापि वेदान्तेषु कल्प्यतामिति तत्र आह—उपपन्ना वेति । न इत्यनुपङ्गः । सिद्धे फलभावस्य उक्तत्वादिति भावः । तर्हि ब्रह्मण्येव स्वार्थे विधिः कल्प्यतां कृतं वेदान्तानां विध्यन्तरशेषत्वेन इत्यत आह—न चेति । ननु “दध्ना जुहोति” इति सिद्धे दधनि विधिः दृष्टः, तत्र आह—क्रियेति । दध्नः क्रिया-

रत्नप्रभाका अनुवाद

विधिके साथ अर्थवादकी पदैकवाक्यता है, और विधिवाक्योंके साथ वाक्यार्थ ज्ञान द्वारा मंत्रोंकी वाक्यैकवाक्यता है ऐसा विभाग जानना चाहिए ।

कर्म प्रकरणमें आये हुए वाक्योंकी विधिके साथ एकवाक्यता हो, वेदान्तोंका सिद्ध ब्रह्ममें प्रामाण्य क्यों नहा है, इस शंकाको दूर करनेके लिए कहते हैं—“न क्वचित्” इत्यादि । वेदान्तोंकी विधिके साथ एकवाक्यता होनेसे ही सार्थकता है, क्योंकि वे मन्त्र अर्थवादके समान सिद्ध अर्थका ज्ञान कराते हैं । विधिके साथ एकवाक्यताके बिना वेद वाक्योंकी अर्थवत्ता कहीं भी देखनेमें नहीं आती, तो भी वेदान्तोंमें उनकी कल्पनाकी जाय एमा कोई कहे तो उसके लिए कहते हैं—“उपपन्ना वा” । यहाँ पर ‘न’ की अनुवृत्ति करनी चाहिए । सिद्ध पदार्थके प्रतिपादनमें फलका अभाव कहा है ऐसा अभिप्राय है । तब वेदान्तोंको अन्य विविका शेष करनेके बदले वेदान्तोंका अर्थ जो ब्रह्म है, उसमें ही विधिही कल्पना करो अर्थात् वेदान्त ब्रह्मरूप विधिका प्रतिपादन करता है ऐसी कल्पना करो । इसके उत्तरमें कहते हैं—“न च” इत्यादि । ‘दध्ना’ (दहीसे होम करे) इसमें सिद्ध दहीमें विधि देखनेमें आती है, इस शंकाको दूर करनेके लिए कहते हैं—“क्रिया” इत्यादि । अर्थात् ‘अग्निहोत्र’ (अग्निहोत्र करे) इस वाक्यसे विहित होमसे

भाष्य

भयान्नैतदभ्युपगम्यते तथापि स्ववाक्यगतोपासनादिकर्मपरत्वम् । तस्मान्न ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वमिति प्राप्ते उच्यते—‘तत्तु समन्वयात्’ इति ।

तुशब्दः पूर्वपक्षव्यावृत्त्यर्थः । तद् ब्रह्म सर्वज्ञं सर्वशक्ति जगदुत्पत्ति-स्थितिलयकारणं वेदान्तशास्त्रादेवावगम्यते । कथम् ? समन्वयात् ।

भाष्यका अनुवाद

वाक्योंमें उपलब्ध उपासना आदि कर्मपरक (वेदान्त) है । इसलिए ब्रह्म शास्त्र-प्रमाणक नहीं है, ऐसा (पूर्वपक्ष) प्राप्त होने पर कहते हैं—‘तत्तु समन्वयात्’ । ‘तु’ शब्द पूर्वपक्षके रण्डनके लिए है । सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमत्, और जगत्की उत्पत्ति, स्थिति तथा लयका कारण, वह ब्रह्म वेदान्तशास्त्रसे ही जाना

रत्नप्रभा

साधनस्य प्रयुज्यमानतया साध्यत्वाद् विधेयता, निष्क्रियब्रह्मणः कथमप्यसाध्यत्वात् न विधेयत्वमित्यर्थः । भाट्टमतमुपसहरति—तस्मादिति । स्वयमेवारुचि वदन् पक्षान्तरमाह—अथेति । सिद्धान्तसूत्रं व्याचष्टे तुशब्द इति । तद् ब्रह्म वेदान्तप्रमाणकम् इति प्रतिज्ञाते अर्थे हेतुं पृच्छति—कथमिति । हेतुमाह—समिति । अन्वय—तात्पर्यविषयत्वम्, तस्मात् इत्येव हेतु, तात्पर्यस्य सम्यक्त्वम् अखण्डार्थविषयकत्वं सूचयितु सपदं प्रतिज्ञान्तर्गतमेव । तथा च अखण्ड ब्रह्म वेदान्तजप्रमाविषय, वेदान्ततात्पर्यविषयत्वात्, यो यद्वाक्यतात्पर्यविषय, स तद्वाक्यप्रमेय, यथा कर्मवाक्यप्रमेयो धर्म इति प्रयोगः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

उपर्युक्त वाक्योंमें क्रियाके साधनरूप दहीका प्रयोग किया गया है, इसलिए दही साध्य होनेसे विधेय है, परन्तु निष्क्रिय ब्रह्म किसी प्रकारसे भी साध्य नहीं है, इसलिए विधेय नहीं है । भट्टके मतका उपरहार करते हैं—‘तस्मात्’ इत्यादिसे । इस मतमें स्वय अर्घ्यि बताकर मतान्तर कहते हैं—‘अथवा’ इत्यादिसे । सिद्धान्त सूत्रका व्याख्यान करते हैं—‘तुशब्द’ इत्यादिसे । ब्रह्मका प्रमाण वेदान्त है यह जो सिद्धान्तमें प्रतिज्ञा की है उसका हेतु पूछते हैं—‘कथम्’ से । हेतु कहते हैं—‘समन्वयात्’ से । अन्वय अर्थात् तात्पर्यविषयता, उससे, इतना ही हेतु है । तात्पर्यकी सम्यक्ता अखण्डार्थविषयकत्व, उसे जतानेके लिए ‘अन्वय’ के पूर्व ‘सम्’ पद लगाया है । अर्थात् अखण्ड ब्रह्म वेदान्तसे उत्पन्न हुए सत्य ज्ञानका विषय है, क्योंकि ब्रह्म वेदान्तके तात्पर्यका विषय है । जो जिस वाक्यके तात्पर्यका विषय है, वह उस वाक्यका प्रमेय है, जैसे कर्मवाक्यका प्रमेय धर्म है, ऐसा अनुमानका प्रयोग होता है । वाक्यका

भाष्य

सर्वेषु हि वेदान्तेषु वाक्यानि तात्पर्येणैतस्यार्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनु-
गतानि—‘सदेव सोम्येदमग्र आसीत्’, ‘एकमेवाद्वितीयम्’ (छा०
६।२।१) । आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्’ (ऐ० १।१।१)

भाष्यका अनुवाद

जाता है। किस प्रकार (जाना जाता है), समन्वयसे। ‘सदेव०’ (हे प्रियदर्शन !
यह सब जगत् उत्पत्तिके पूर्वमें अव्यौकृत ब्रह्म ही था), ‘एकमे०’ (एक ही
अद्वितीय) ‘आत्मा वा०’ (यह एक ही आत्मा उत्पत्तिके पूर्वकालमें था),

रत्नप्रभा

वाक्यार्थस्य अखण्डत्वम्—असंसृष्टत्वम्, वाक्यस्य च अखण्डार्थकत्वम्, स्वपदोपस्थिताः
ये पदार्थाः तेषां यः संसर्गः तद्गोचरप्रमाणजनकत्वम् । न च इदमप्रसिद्धम्,
प्रकृष्टप्रकाशश्चन्द्र इत्यादिलक्षणवाक्यानां लोके लक्षणया चन्द्रादिव्यक्तिमात्रप्रमा-
हेतुत्वात् । सर्वपदलक्षणा च अविरोद्धा । सर्वैरर्थवादपदैरेकस्याः स्तुतेर्लक्ष्यत्वा-
ङ्गीकारात् । तथा सत्यज्ञानादिपदैरखण्डं ब्रह्म भातीति न पक्षासिद्धिः । नापि
हेत्वसिद्धिः, उपक्रमादिलिङ्गैः वेदान्तानाम् अद्वितीयाखण्डब्रह्मणि तात्पर्यनिर्णयात् ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

अखण्डत्व—असंसृष्टत्व अर्थात् अन्य पदार्थका संसर्ग-राहित्य है। वाक्यका अखण्डार्थकत्व-
वाक्यगत पदोंसे उपस्थित पदार्थका जो संसर्ग वह जिसका विषय न हो ऐसा यथार्थ ज्ञानका
जनक होना है। ऐसा यथार्थज्ञानजनकत्व अप्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि ‘प्रकृष्टप्रकाश०’
(चन्द्रमा अतिशय प्रकाश है) इत्यादि लक्षण-वाक्य व्यवहारमें लक्षणासे केवल चन्द्र आदि
व्यक्तिका ही यथार्थज्ञान कराते हैं। सब पदोंकी एक अर्थमें लक्षणा करनेमें कोई विरोध
नहीं है; क्योंकि अर्थवादके सब पदोंका लक्ष्य केवल स्तुति ही है, ऐसा मीमांसकोंने अङ्गीकार
किया है। अतः सत्य ज्ञान आदि पदोंसे एक अखण्ड ब्रह्म भासता है। इसलिए पूर्वोक्त
अनुमानमें पक्षकी असिद्धि नहीं है, क्योंकि उपक्रमोपादि लिङ्गोंसे वेदान्तोंका अद्वितीय

(१) सम्यक् अन्वय । (२) जिसका दर्शन प्रिय है । (३) नाम रूपसे प्रगट नहीं हुआ ।

(४) “उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूर्वता फलम् ।

अर्थवादोपपत्ती च लिङ्ग तात्पर्यनिर्णये ॥”

उपक्रम (आरम्भ) उपसंहार (अत) इन दोनोंकी एकरूपता, अभ्यास (पुनराक्ति), अपूर्वता
(अन्य प्रमाणकी अविषयता), फल (मोक्ष), अर्थवाद (अद्वैतकी स्तुति या द्वैतकी निन्दान्ते वाचक
वाक्य) और उपपत्ति (शुक्ति) ये तात्पर्यके निर्णय करनेमें हेतु हैं ।

भाष्य

‘तदेतद् ब्रह्मापूर्वमनपरमनन्तरमवाहाम्’ ‘अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः’
(वृ० २।५।१९) ‘ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्तात्’ (मु० २।२।११) इत्या-

भाष्यका अनुवाद

‘तदेत०’ (वह, यह ब्रह्म अकारण, अकार्य, एकरस और अद्वितीय है) ‘अय-
मात्मा०’ (यह आत्मा—ब्रह्म सबका अनुभव—चिन्मात्र है), ‘ब्रह्मैवेदं०’ (यह
जो पूर्वमें भासता है, वह अमृतरूप ब्रह्म ही है) इत्यादि वान्य सब वेदान्तोंमें
तात्पर्यसे इसी अर्थका प्रतिपादन करनेके लिए ब्रह्ममें समन्वित हैं । वेदान्तमें

रत्नप्रभा

तत्र छान्दोग्यपठे उपक्रमं दर्शयति—सदेवेति । उद्दालकः पुत्र-
मुवाच—‘हे सोम्य प्रियदर्शन ! इदं सर्वं जगद् अग्रे उत्पत्तेः प्राक्काले सत्—अवाधितं
ब्रह्मैवासीत्’ । एवकारेण जगतः पृथक्सत्ता निपिध्यते । सतः सजाती-
यविजातीयस्वगतभेदनिरासार्थम् “एकमेवाद्वितीयम्” (छा० ६।२।९) इति
पदत्रयम् । एवमद्वितीयं ब्रह्मोपक्रम्य “एतदात्म्यमिदं सर्वम्” (छा० ६।८।७)
इत्युपसंहरति । इदमुपक्रमोपसंहारैकरूप्यं तात्पर्यलिङ्गम् (१) । तथा
“तत्त्वमसि” (छा० ६।८।७) इति नवकृत्वोऽभ्यासः (२) ।
रूपादिहीनाद्वितीयब्रह्मणो मानान्तरायोग्यत्वाद् अपूर्वत्वमुक्तम् (३) । “अत्र
वाव किल सत् सौम्य न निमालयसे” इति । संघाते स्थितं प्रत्यग्रह्य न जाना-

रत्नप्रभाका अनुवाद

असत्तद् ब्रह्ममें तात्पर्य निर्णय होता है । छान्दोग्य उपनिषद्के छोटे अध्यायमें उपक्रम
दिखलाया है—“सदेव सोम्य” इत्यादि से । उद्दालक अपने पुत्र श्वेतकेतुसे कहते हैं—‘हे
प्रियदर्शन ! यह सब जगत् सृष्टिके पूर्वकालमें सत् था अर्थात् अवाधित ब्रह्म ही
था । ‘एव’ शब्द अवधारणका वाचक है, इससे जगत्की पृथक् सत्ताका निषेध
किया है । सजातीय, विजातीय एवं स्वगत भेदका निराकरण करनेके लिए ‘एवम्,
एव और अद्वितीय’ ये तीन पद दिये हैं । (अद्वितीय अर्थात् जिसमें द्वितीय—अन्य
वस्तु नहीं है, जैसे शक्तिकैसे भिन्न घट आदि आकार बनानेवाले कुलार्थदि निमित्त-कारण
देखनेमें आते हैं, वैसे सत्से भिन्न सत्का सहसारी कारण दूसरा कोई नहीं था ।) इस प्रकार
अद्वितीय ब्रह्मका उपक्रम करके ‘एतदात्म्य०’ यह सब आत्मस्वरूप है एसा उपसंहार किया
है । उपक्रम और उपसंहार दोनोंकी एक रूपता प्रथम तात्पर्यलिंग है । इसी प्रकार ‘तत्त्वमसि’
यह नौ बार किया हुआ अभ्यास द्वितीय तात्पर्यलिङ्ग है । रूप आदिसे रहित अद्वितीय ब्रह्म
अन्य प्रमाणका विषय नहीं है, यही उसकी अपूर्वता है । ‘अत्र वाव०’ (लक्षण उदकेंगे
रहता हुआ भी जैगे तुम्हें नहीं दिखाई देता, वैसे ही इस शरीरमें विद्यमान सत्

भाष्य

दीनि । न च तद्गतानां पदानां ब्रह्मस्वरूपविषये निश्चिते समन्वयेऽवगम्य-
भाष्यका अनुवाद

आये हुए पदोंका ब्रह्मस्वरूपके विषयमें निश्चित समन्वय अवगत होनेपर अन्य

रत्नप्रभा

सीत्यर्थः । “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ संपत्त्ये”
(छा० ६ । १४ । २) इति ब्रह्मज्ञानात् फलमुक्तम् विदुषः (४) । तस्य
यावत् कालं देहो न विमोक्ष्यते, तावदेव देहपातपर्यन्तो विलम्बः । अथ
देहपातानन्तरं विद्वान् ब्रह्म सम्पत्स्यते, विदेहकैवल्यमनुभवतीत्यर्थः । “अनेन
जीवेनात्मनानुभवित्वा” (छा० ६ । ३ । २) इत्याद्यद्वितीयज्ञानार्थाऽर्धवादः (५) ।
मृदादिदृष्टान्तैः प्रकृत्यतिरेकेण विकारो नास्तीत्युपपत्तिः (६) उक्ता ।
एवं पदविधानि तात्पर्यलिङ्गानि व्यस्तानि समस्तानि वा प्रतिवेदान्तं दृश्यन्त
इत्यैतरेयकोपक्रमवाक्यं पठति—आत्मा वेति । बृहदारण्यके मधुकाण्डोपसंहार-
वाक्यं सदात्मनो निर्विशेषत्वार्थमाह—तदेतदिति । मायाभिर्वहुरूपं तद् ब्रह्म ।
एतद् अपरोक्षम् । अपूर्वं कारणशून्यम् । अनपरं कार्यरहितम् । अनन्तरं
जात्यन्तरमस्य नास्ति इत्यनन्तरम्, एकरसमित्यर्थः । अवाह्यम् अद्वितीयम् ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

भी उपलब्ध नहीं होता है) अर्थात् संपातमें रहनेवाले प्रत्यग् ब्रह्मको तू जानता नहीं
है । ‘तस्य तावदेव’ (उसको अर्थात् आचार्यवान् पुरुषको उतना ही विलम्ब आत्म-
स्वरूपकी प्राप्तिमें है, जितने कालतक शरीरपात नहीं हो पाता) इसमें ब्रह्मज्ञानका फल
कहा है । जब तक विद्वान्का देहपात नहीं होता तभी तक विलम्ब है । देहपातके
पीछे विद्वान् ब्रह्म हो जायगा—विदेह मुक्तिका अनुभव करेगा, यह अर्थ
है । ‘अनेन जीवे’ (इस जीवात्मरूपसे प्रवेश करके) इत्यादि अद्वितीय
ज्ञानके लिए अर्धवाद है । मुक्तिका आदिके दृष्टान्तोंसे प्रकृतिसे भिन्न विकार नहीं
है, ऐसी उपपत्ति वही है । इस प्रकार छ- तात्पर्यलिङ्ग व्यस्त—अलग अलग अथवा समस्त
वेदान्तोंमें देखनेमें आते हैं । ऐतरेयका उपक्रम वाक्य कहते हैं—“आत्मा वा” इत्यादि ।
सत् आत्मामें निर्विशेषत्व दिखानेके लिए बृहदारण्यकके मधुकाण्डके उपसंहार वाक्यको कहते
हैं—“तदेतत्” इत्यादि । मायासे ब्रह्म बहुरूप है । ‘एतद्’ अर्थात् अपरोक्ष । ‘अपूर्वम्’
अर्थात् जिसका पूर्व—कारण नहीं है । ‘अनपरम्’ जिसका कार्य नहीं है । ‘अनन्तरम्’
अर्थात् जिसका दूसरा जाति नहीं, एकरस । ‘अवाह्यम्’ जिसके बाहर कुछ न हो—अद्वितीय ।

भाष्य

मानेऽर्धान्तरकल्पना युक्ता, श्रुतहान्यश्रुतकल्पनाप्रसङ्गात् । न च तेषां

भाष्यका अनुवाद

अर्थकी कल्पना करना ठीक नहीं है, क्योंकि (ऐसा करने से) श्रुत-श्रुतिप्रति-
पादित अर्थकी हानि और अश्रुत-श्रुतिसे अप्रतिपादित अर्थकी कल्पना करनी

रत्नप्रभा

तस्य अपरोक्षत्वमुपपादयति—अयमिति । सर्वमनुभवतीति सर्वानुभूः चिन्मात्र-
मित्यर्थः । ऋग्यजुःसामवाक्यानि उक्त्वां आधर्वणवाक्यमाह—ब्रह्मैवेदमिति । यत्
पुरस्तात् पूर्वदिग्बस्तुजातम् इदम् अब्रह्मैव अविदुषां भाति तद् अमृतं ब्रह्मैव
वस्तु विदुषामित्यर्थः । आदिपदेन “सत्यं ज्ञानम्” (तै० २।१।१)
इत्यादिवाक्यानि गृह्यन्ते । ननु अस्तु ब्रह्मणस्तात्पर्यविषयत्वं वेदान्तानां
कार्यमेवार्थः किं न स्यादिति तत्र आह—न चेति । वेदान्तानां ब्रह्मणि
तात्पर्ये निश्चीयमाने कार्यार्थत्वं न युक्तम्, “यत्परः शब्दः स शब्दार्थः” इति
न्यायात् इत्यर्थः । यदुक्तम् अर्थवादन्यायेन वेदान्तानां कर्त्रादिस्तावकत्वमिति तत्राह—
न च तेषामिति । तेषां कर्मशेषस्तावकत्वं न भाति, किन्तु ज्ञानद्वारा कर्मतत्साधन-
नाशकत्वमेव, तत् तत्र विद्याकाले ‘कः कर्ता केन करणेन कं विषयं पश्येत्’
इति श्रुतेरित्यर्थः । अर्थवादानां तु स्वार्थे फलाभावात् स्तुतिलक्षणतेति भावः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

उसकी अपरोक्षताका प्रतिपादन करते हैं—“अयम्” आदिसे । सबका अनुभव अर्थात् चिन्मात्र ।
ऋग्, यजु और सामके वाक्योंको कहकर अधर्वण वाक्य कहते हैं—“ब्रह्मैवेदम्” इत्यादिसे । पूर्व
दिशामें जो यह वस्तुसमूह अविद्वान्को अब्रह्म भासता है वह अमृतरूप ब्रह्म ही है ।
भाष्यस्थ ‘इत्यादि’ के आदि पदसे ‘सत्यं ज्ञानम्’ इत्यादि वाक्यका ग्रहण करना चाहिए । वेदान्तोंका
तात्पर्यविषय ब्रह्म भले ही हो, किन्तु उनका कार्यरूप ही अर्थ क्यों न होगा ? इसके उत्तरमें कहते
हैं—“न च” इत्यादि । वेदान्तोंके तात्पर्यका ब्रह्ममें निश्चय होनेपर यह कहना युक्त नहीं है कि
वेदान्तोंको अर्थ कार्य है, क्योंकि ‘यत्परः’ (शब्दका जिसमें तात्पर्य है, वही उसका अर्थ
है) ऐसा न्याय है । कर्ता, देवता आदिका प्रकाश करनेसे अर्थवाद न्यायके अनुसार वं
वेदान्त कर्ता आदिकी स्तुति करते हैं, यह जो कहा है, उसका खण्डन करते हैं—“न च तेषाम्”
इत्यादिसे । वेदान्त धर्म के अज्ञभूत कर्ता, देवता आदिके स्तावक नहीं हैं, किन्तु ज्ञान द्वारा
क्रिया और क्रियाके साधनोंका नाश करनेवाले हैं । तत्-तत्र अर्थात् विद्याकालमें कौन कर्ता
किस साधनसे किसको देखेगा ऐसा श्रुतिका अर्थ है । अर्थवादोंका स्वार्थमें फल नहीं है,
इसलिए उनकी स्तुतिमें लक्षणा होती है । पूर्वपक्षीने जो कहा है कि ब्रह्म सिद्ध वस्तु होनेके

भाष्य

कर्तृस्वरूपप्रतिपादनपरता अवसीयते, 'तत्केन कं पश्येत्' (वृ० २।४।१३) इत्यादि क्रियाकारकफलनिराकरणश्रुतेः । न च परिनिष्ठितवस्तुस्वरूपत्वेऽपि प्रत्यक्षादिविषयत्वं ब्रह्मणः, 'तत्त्वमसि' (छा० ६।८।७) इति ब्रह्मात्मभावस्य शास्त्रमन्तरेणानवगम्यमानत्वात् । यत्तु हेयोपादेयरहितत्वाद्

भाष्यका अनुवाद

पड़ेगी । उग चाम्पोंका, कर्ताके स्वरूपके प्रतिपादनमें तात्पर्य है, ऐसा निश्चय नहीं हो सकता, क्योंकि 'तत्केन०' (उस कालमें—विद्याकालमें कौन कर्ता किस करणसे किस विषयको देखे) इत्यादि क्रिया, कारक और फलका निराकरण करनेवाली श्रुतियाँ हैं । ब्रह्म यद्यपि सिद्धवस्तु है, तो भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि 'तत्त्वमसि' इस शास्त्रके विना ब्रह्मात्मभाव समझमें नहीं आता । (ब्रह्म) हेय और उपादेयसे भिन्न है, अतः उसका उपदेश अनर्थक है,

रत्नप्रभा

यदुक्तं सिद्धत्वेन मानान्तरवेद्यं ब्रह्म न वेदार्थ इति, तत्र आह—न च परीति । "तत्त्वमसि" (छा० ६।८।७) इति शास्त्रमन्तरेणेति सम्बन्धः । धर्मो न वेदार्थः, साध्यत्वेन पाकवत् मानान्तरवेद्यत्वात् । यदि वेदं विना धर्मस्य अनिर्णयात् न मानान्तरवेद्यता, तदा ब्रह्मण्यपि तुल्यम् । यच्च उक्तं निष्फलत्वाद् ब्रह्म न वेदार्थ इति तदनूद्य परिहरति—यत्वि-
त्यादिना । रहितत्वाद् भिन्नत्वाद्, ब्रह्मण इति शेषः । यद्यपि उक्तम्—'उपासनापरत्वं वेदान्तानाम्' इति, तत्र किं प्राणपञ्चाग्न्यादि-
वाक्यानाम्, उत सर्वेषामिति ? तत्र आद्यम् अङ्गीकरोति—देवतादीति । ज्येष्ठत्वादिगुणः फलं च आदिशब्दार्थः । न द्वितीयः, विधिशून्यानां "सत्यं

रत्नप्रभाका अनुवाद

कारण मानान्तरवेद्य है अर्थात् अन्य प्रमाणसे जाना जा सकता है, यह वेदका अर्थ नहीं है, इसका खण्डन करते हैं—“न च परि०” इत्यादिसे । 'तत्त्वमसि' इति शास्त्रम् अन्तरेण' ऐसा अन्वय है । धर्म वेदका अर्थ नहीं है, क्योंकि पाकके समान साध्यत्वरूपसे मानान्तरसे वेद्य है । यदि कहो कि वेदके विना धर्मका निर्णय नहीं होता, इसलिए धर्म मानान्तरसे वेद्य नहीं है, तो ब्रह्ममें भी ऐसा ही है । पूर्वपक्षीने यह जो कहा है कि निष्फल होनेके कारण ब्रह्म वेदका अर्थ नहीं है, उसका अनुवाद करके परिहार करते हैं—“यत्तु” इत्यादिसे । रहितत्वात्—भिन्न होनेसे यहाँ पर 'ब्रह्मणः' ऐसा शेष है । और यह भी जो पूर्वपक्षीने कहा है कि 'वेदान्त उपासना परक है' तो उससे पूछना चाहिए कि कुछ (प्राण पञ्चाग्नि आदि) वेदान्तवाक्य उपासना परक हैं या सद्य ? प्रथम पक्ष अंगीकार करके कहते हैं—“देवतादि” इत्यादिसे । 'आदि'

भाष्य

उपदेशानर्थक्यमिति । नैष दोषः । हेयोपादेयशून्यब्रह्मात्मतावगमादेव सर्वकेशप्रहाणात् पुरुषार्थसिद्धेः । देवतादिप्रतिपादनस्य तु स्ववाक्यगतोपासनास्यार्थत्वेऽपि न कश्चिद्विरोधः । न तु तथा ब्रह्मणः उपासनाविधिशेषत्वं सम्भवति, एकत्वे हेयोपादेयशून्यतया क्रियाकारकादिद्वैतविज्ञानोपमर्दो-

भाष्यका अनुवाद

यह जो पूर्वपक्ष किया है । (उस संबन्धमें कहना चाहिए कि) यह दोष नहीं है, क्योंकि हेय और उपादेयसे शून्य ब्रह्मात्मभावके समझनेसे ही सब छेड़ोंका नाश होकर पुरुषार्थसिद्धि होती है । यदि देवता आदिका प्रतिपादन करनेवाले वाक्य वेदान्तवाक्यगत उपासनाके अंग हों तो भी कोई विरोध नहीं है । परन्तु उस प्रकार ब्रह्म उपासनाविधिका अङ्ग नहीं हो सकता है । एकत्वका ज्ञान प्राप्त

रत्नप्रभा

ज्ञानम्" (तै० आ० २।१।१) इत्यादीनां स्वार्थे फलवतामुपासनापरत्वकल्पना-योगात् । किञ्च तदर्थस्य ब्रह्मणस्तच्छेषत्वं ज्ञानात् प्राग् ऊर्ध्वं वा ? आद्ये अध्यस्तगुणवतः तस्य तच्छेषत्वे अपि न द्वितीय इत्याह—न तु तथेति । प्राणादिदेवतावदित्यर्थः । अहं ब्रह्म अस्मि इति एकत्वे ज्ञाते सति हेयोपादेय शून्यतया ब्रह्मात्मनः फलाभावादुपास्योपासकद्वैतज्ञानस्य कारणस्य नाशात् च न उपासनाशेषत्वमिति आह—एकत्वे इति । द्वैतज्ञानस्य संस्कारबलात् पुनरुदये

रत्नप्रभाका अनुवाद

शब्दसे श्रेष्ठत्व आदि गुण और फलका ग्रहण करना चाहिए । दूसरा पक्ष योग्य नहीं है, विधिशून्य 'सर्वं ज्ञानं' आदि वेदान्तवाक्य स्वार्थे प्रतिपादन करनेमें सफल है, इसलिए यह करपना करना ठीक नहीं है कि ऐसे वाक्य उपासनापरक हैं । किञ्च, उन वाक्योंके अर्थ-रूप ब्रह्मको उपासनाका अङ्ग ज्ञानसे पूर्व मानते हैं या पश्चात् । ज्ञानसे पहले अध्यस्त आदि गुणयुक्त ब्रह्म उपासनाङ्ग भले ही हो किन्तु ज्ञानके अनन्तर उपासनाङ्ग नहीं हो सकता ऐसा कहते हैं—“न तु तथा” अर्थात् प्राणादि देवताओंके समान । ‘अहं ब्रह्मास्मि’ (मैं ब्रह्म हूँ) इस प्रकार एकत्वका ज्ञान होनेपर ब्रह्म हेय या उपादेय कुछ नहीं रहता, इसलिए उपासना का कोई फल नहीं रहनेसे तथा उपासनाके कारण उपास्य और उपासकरूप द्वैतज्ञान नाश होनेसे उपासनाविधि न होनेसे ब्रह्म उपासनाका शेष नहीं है ऐसा कहते हैं—“एकत्व” इत्यादिसे । संस्कारके बलसे द्वैतज्ञानका फिर उदय होनेपर उपासनाका विधान हो इस शब्दके निवारणके

भाष्य

पपत्तेः । नह्येकत्वविज्ञानेनोन्मथितस्य द्वैतविज्ञानस्य पुनः सम्भवोऽस्ति, येनोपासनाविधिशेषत्वं ब्रह्मणः प्रतिपाद्येत । यद्यप्यन्यत्र वेदवाक्यानां विधिसंस्पर्शमन्तरेण प्रमाणत्वं न दृष्टं, तथाप्यात्मविज्ञानस्य फलपर्यन्त-
भाष्यका अनुवाद

होनेपर ब्रह्म हेय और उपादेय न होनेसे क्रिया, कारक आदि द्वैतविज्ञानका नाश होना सर्वथा युक्त है । एकत्वके विज्ञानसे नष्ट हुए द्वैतज्ञानका फिर संभव नहीं है । जिससे कि ब्रह्म उपासना विधिका शेष है ऐसा प्रतिपादन किया जाय । यद्यपि अन्य स्थलोंमें विधिके साथ संबंधके विना वेदवाक्योंकी प्रामाण्यता देखनेमें नहीं

रत्नप्रभा

विधानमिति न इति आह—न हीति । दृढस्येति शेषः । भ्रान्तिव्यानिश्चयो दाढ्यम्, संस्कारोत्थं तु भ्रान्तिव्येन निश्चितं न विधिनिमित्तम् । येनेति । उपासनायां कारणस्य सत्त्वेन इत्यर्थः । वेदप्रामाण्यस्य व्यापकं क्रियार्थकत्वम् अनुवदति—यद्यपीति । कर्मकाण्डे अर्थवादादीनाम् इत्यर्थः । तथा च व्यापकाभावाद् वेदान्तेषु व्याप्याभावानुमानमिति भावः । वेदान्ताः न स्वार्थे मानम् अक्रियार्थत्वात्, “सोऽरोदीद्” इत्यादिवत् इत्यनुमाने निष्फलार्थकत्वम् उपाधिरिति आह—तथापीति । अर्थवादानां निष्फल-

रत्नप्रभाका अनुवाद

लिए कहते हैं—“नहि” इत्यादि । ‘द्वैतविज्ञान’ का—‘दृढ’ ऐसे विशेषणका अध्याहार करना चाहिए । यह भ्रम नहीं है ऐसा निश्चय होना दृढता है । संस्कारसे उत्पन्न हुआ द्वैतज्ञान भ्रान्ति-रूप है ऐसा निश्चित होता है, इसलिए वह विधिका निमित्त नहीं है अर्थात् उससे विधि आदि प्राप्त नहीं होंगी । “येन” अर्थात् उपासनामें कारण होनेसे—द्वैतविज्ञानका फिर संभवरूप कारण होनेसे । जहाँ वेदप्रामाण्य है, वहाँ क्रियार्थत्व है इस व्याप्तिमें वेदप्रामाण्यका व्यापक जो क्रियार्थत्व है, उसका अनुवाद करते हैं—“यद्यपि” इत्यादिसे । तात्पर्य यह है कि कर्मकाण्डमें अर्थवाद आदिका [विधि-संबन्धके विना प्रामाण्य नहीं देखा गया है] । अतः क्रियार्थत्वरूप व्यापकके न होनेसे वेदप्रामाण्यरूप व्याप्य भी वेदान्तोंमें नहीं है ऐसा अनुमान होता है । वेदान्त स्वार्थमें प्रमाण नहीं है, क्योंकि अक्रियार्थक है—“सोऽरोदीत्” (वह रोया) इत्यादि वाक्योंके समान इस अनुमानमें निष्फलार्थत्व उपाधि है ऐसा कहते हैं—“तथापि” इत्यादिसे ।

(१) रत्नप्रभाके पूर्वापर ग्रन्थ तथा अर्थके आलोचनसे सात होता है कि ‘अदृढस्येति’ पाठ है ।

(२) ‘साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापनरत्नम् उपाधिः’ साध्यका व्यापक होकर साधनका अव्यापक हो, वह उपाधि है । जैसे कि परंतु भूमवाला है, क्योंकि बढिशला है; इस अनुमानमें आर्द्रन्धनसंयोग (गाली एकट्टीका संयोग) उपाधि है, क्योंकि वह साध्य भूमका व्यापक है ‘जहाँ जहाँ भूम है वहाँ वहाँ आर्द्रन्धनसंयोग है’ ऐसा नियम होनेसे, और बढिया आर्द्रन्धन संयोग अव्यापक है,

भाष्य

त्वान्न तद्विषयस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यं शक्यं प्रत्याख्यातुम् । न चानुमान-
गम्यं शास्त्रप्रामाण्यं, येनान्यत्र दृष्टं निदर्शनमपेक्षेत । तस्मात्सिद्धं ब्रह्मणः
शास्त्रप्रमाणकत्वम् ।

भाष्यका अनुवाद

आती, तो भी आत्मविज्ञानका मोक्ष फल है, अतः ब्रह्मविषयक शास्त्रके
प्रामाण्यका निराकरण नहीं किया जा सकता । शास्त्रका प्रामाण्य अनुमानगम्य
नहीं है, जिससे कि वह अन्य स्थलोंपर देखे हुए दृष्टान्तोंकी अपेक्षा करे ।
इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्म शास्त्रप्रमाणक है ।

रत्नप्रभा

स्वार्थमानत्वेऽपि इत्यर्थः । तद्विषयस्य तत्करणस्य । स्वार्थे ब्रह्मात्मनीति शेषः ।
सफलज्ञानकरणत्वेन वेदान्तानां स्वार्थे मानत्वसिद्धेर्न क्रियार्थकत्वं तद्व्यापकमिति
भावः । ननु भा मूद्वेदप्रामाण्यस्य व्यापकं क्रियार्थकत्वम्, व्याप्यं तु भविष्यति,
तदभावाद् वेदान्तानां प्रामाण्यं दुर्ज्ञानमिति न इत्याह—न चेति । येन वेद-
प्रामाण्यं स्वस्य अनुमानगम्यत्वेन अन्यत्र क्वचिद् दृष्टं दृष्टान्तमपेक्षेत तदेव नास्ती-
त्यर्थः । चक्षुरादिबद् वेदस्य स्वतः प्रामाण्यज्ञानात् न तद्व्याप्तिलिङ्गाद्यपेक्षा ।
प्रामाण्यसंशये तु फल्यदज्ञाताबाधितार्थतात्पर्यात् प्रामाण्यनिश्चयो न क्रियार्थत्वेन,

रत्नप्रभाका अनुवाद

तथापि—अर्थवादवाच्योंके निष्फल स्वार्थमें प्रामाण्य न होनेपर भी । तद्विषयकका—आत्मज्ञानके
कारणका । “तद्विषयक शास्त्रके” पीछे “स्वार्थ ब्रह्ममें” इतना अध्याहार समझना चाहिए ।
वेदान्त-वाक्य आत्मज्ञानके कारण हैं, इसलिए उनका अपने अर्थमें प्रामाण्य सिद्ध है, अतः
क्रियार्थकत्व वेदप्रामाण्यका व्यापक नहीं हो सकता । क्रियार्थकत्व वेदप्रामाण्यका व्यापक
भले ही न हो व्याप्य तो हो सकता है । व्याप्य क्रियार्थकके अभावसे व्यापक वेदप्रामाण्यका
ज्ञान होना कठिन है ऐसी शंका कोई न करे इसलिए कहते हैं—“न च” इत्यादि । आशय
यह है कि यदि वेदप्रामाण्य अनुमानगम्य हो तो दूसरे किसी स्थलपर देखे हुए दृष्टान्तकी
अपेक्षा करें परन्तु ऐसा नहीं है । चक्षु आदिके समान वेदके प्रामाण्यका ज्ञान स्वतः होता
है, इसलिए उसमें व्याप्ति, लिंग आदिकी अपेक्षा नहीं है । प्रामाण्यका संशय हो, तो
फलवत्, अज्ञात और अबाधित अर्थके तात्पर्यसे प्रामाण्यका निश्चय करना चाहिए,
क्रियार्थकत्वसे नहीं, क्योंकि कृपे पतेत् (जुँमें गिरे) इस वाक्यमें व्यभिचार (नियमभंग)

क्योंकि जहाँ जहाँ बहि है, वहाँ वहाँ आर्द्र-धन है ऐसा नियम नहीं है, (लोहेके तपे हुए गोलेमें
बहि है वहाँ आर्द्र-धन संयोग नहीं है) इसलिए टीफामेंके अनुमानमें जहाँ जहाँ आक्रियाफल है वहाँ
वहाँ निष्फलत्व है यह नियम नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान आक्रियार्थक है, तो भी सफल है ।

भाष्य

अत्रापरे प्रत्यवतिष्ठन्ते—यद्यपि शास्त्रप्रमाणकं ब्रह्म तथापि प्रति-
पत्तिविधिविषयतयैव शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते । यथा यूपाहवनीयादीन्य-

भाष्यका अनुवाद

यहाँ दूसरे पूर्वपक्ष करते हैं—यद्यपि शास्त्र ब्रह्ममें प्रमाण है, तो भी शास्त्र
विधिके विषय उपासनाका ब्रह्म अंग है ऐसा बोध कराता है । जैसे यूप, आह-

रत्नप्रभा

कूपे पतेत् इति वाक्ये व्यभिचारात् इति भावः । वर्णकार्थमुपसंहरति—तस्मादिति ।
समन्वयादित्यर्थः । विधिवाक्यानामपि फलवदज्ञातार्थत्वेन प्रामाण्यं तत्तुल्यं
वेदान्तानामपि इति स्थितम् ।

एवं पदानां सिद्धेऽर्थे व्युत्पत्तिमिच्छतां ब्रह्मनास्तिकानां मतं ब्रह्मणो माना-
न्तरायोग्यत्वात् सफलत्वात् च वेदान्तैकमेयत्वमिति उक्त्या निरस्तम् ।
सम्प्रति सर्वेषां पदानां कार्यान्वितार्थे शक्तिमिच्छतां विधिशेषत्वेन प्रत्यग्रह
वेदान्तैर्बोध्यते न स्वातन्त्र्येण इति वदतां वृत्तिकाराणां मतनिरासाय सूत्रस्य
वर्णकान्तरमारभ्यते । तत्र वेदान्ताः किम् उपासनाविधिशेषत्वेन ब्रह्म बोधयन्ति,
उत स्वातन्त्र्येण ? इति सिद्धे व्युत्पत्त्यभावभावाभ्यां संशये, पूर्वपक्ष-
माह—अत्रापरे इति । ब्रह्मणो वेदान्तवेद्यत्वोक्तौ वृत्तिकाराः पूर्वपक्षयन्ति
इत्यर्थः । उपासनातो मुक्तिः पूर्वपक्षे, तत्त्वज्ञानादेव इति सिद्धान्ते फलम् ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

होता है । इस वर्णकके अर्थका उपसंहार करते हैं—“तस्मात्” इत्यादिसे । तस्मात् अर्थात्
गमन्ययसे । विधिवाक्य भी फलवत् और अज्ञात अर्थके बोधक होनेसे ही प्रमाणभूत होते
हैं और वेदान्तवाक्योंका भी प्रामाण्य इसी प्रकारका है ऐसा सिद्ध हुआ ।

इस प्रकार ब्रह्मज्ञान अन्य प्रमाणसे अयोग्य है और सफल है, इसलिए वेदान्तसे ही
गम्य प्राप्त होने योग्य है ऐसा कहकर पदोंकी इतरान्वित सिद्ध अर्थमें व्युत्पत्ति चाहनेवाले
ब्रह्मनास्तिकोंके मतका खण्डन किया । अब पदमात्रकी कार्यान्वित अर्थमें शक्ति चाहनेवाले,
वेदान्त प्रत्यग्रहका विधिपरत्वसे बोध कराता है, स्वतन्त्रतासे नहीं कराता ऐसा कहनेवाले
वृत्तिशरके मतका खण्डन करनेके लिए सूत्रका दूसरा वर्णक आरम्भ करते हैं । वेदान्त
उपासनाविधिशेषत्वसे अर्थात् उपासनाविधिके अग्रहपसे ब्रह्मका बोध करते हैं अथवा
स्वतन्त्रतासे, इस विषयमें सिद्ध अर्थमें पदोंकी शक्ति है या नहीं, ऐसा संशय होनेपर
पूर्वपक्ष करते हैं—“अत्रापरे” इत्यादि । ‘ब्रह्म वेदान्तवेद्य है’ इस कथन पर वृत्तिशर पूर्वपक्ष
करते हैं ऐसा समझना चाहिए । उपासनासे मुक्ति होती है यह पूर्वपक्षमें और तत्त्वज्ञानसे

भाष्य

लौकिकान्यपि विधिशेषतया शास्त्रेण समर्प्यन्ते तद्वत् । कुत एतत् ? प्रवृत्ति-

भाष्यका अनुवाद

वनीय आदि अलौकिक पदार्थ भी विधि के अंग हैं ऐसा शास्त्र बोध कराता है,

रत्नप्रभा

विधिर्नियोगः तस्य विषयः प्रतिपत्तिः—उपासना । अस्याः को विषयः, इत्याकाङ्क्षायां सत्यादिवाक्यैर्विधिपरैरेव ब्रह्म समर्प्यते इत्याह—प्रतिपत्तीति । विधिविषयप्रतिपत्तिविषयतया इत्यर्थः । विधिपराद् वाक्यात् तच्छेषलभे दृष्टान्तमाह—यथेति । “यूपे पशुं वध्नाति”, “आहवनीये जुहोति”, “इन्द्रं यजेत” इति विधिषु के यूपदय इत्याकाङ्क्षायां “यूपं तक्षत्यष्टास्त्रीकरोति” इति तक्षणादिसंस्कृतं दारु यूपः, “अग्नीनादधीत” इति आधानसंस्कृतोऽग्निः आहवनीयः, “वज्रहस्तः पुरन्दरः” इति विधिपरैरेव वाक्यैः समर्प्यन्ते, तद्वद् ब्रह्म इत्यर्थः । विधिपरवाक्यस्य अपि अन्यार्थबोधित्वे वाक्यभेदः स्यादिति शङ्कानिरासार्थम्

रत्नप्रभाका अनुवाद

ही मुक्ति होती है, यह सिद्धान्तमें फल है । विधि अर्थात् नियोग, उसका विषय प्रतिपत्ति अर्थात् उपासना है । उपासनाका विषय क्या है ऐसी आकांक्षा होनेपर विधिपरक सत्य, ज्ञान इत्यादि वाक्य ही ब्रह्मका बोध कराते हैं ऐसा कहते हैं—“प्रतिपत्ति” इत्यादिसे । अर्थात् विधि विषय जो उपासना उसके विषयरूपसे ब्रह्मका बोध कराते हैं । विधिपरक ‘सत्यं ज्ञानम्’ इत्यादि वाक्यसे ब्रह्मकी अज्ञता किस प्रकार प्राप्त होती है, इसके लिए दृष्टान्त कहते हैं—“यथा” इत्यादिसे । “यूपे पशुं०” (यज्ञस्तम्भमें पशुको बाधे) “आहवनीये०” (आहवनीय अग्निमें होम करे) “इन्द्र०” (इन्द्रका यजन करे) इन विधियोंमें यूप आदि क्या है, ऐसी आकांक्षा होने पर—“यूप तक्षति०” (लकड़ीको छीलता है, आठ कोण-वाली बनता है) इस प्रकार छालने आदिसे संस्कार की हुई लकड़ी यूप है, “अग्नीना०” (अग्निना आधान करे) इस प्रकार आधानसे संस्कृत जो अग्नि है, वह आहवनीय है । “वज्रहस्त०” (वज्र है हाथमें जिसके यह इन्द्र है) इस प्रकार विधिपरक वाक्योंसे ही [यूप आदिका] बोध होता है । इसी प्रकार ब्रह्मका भी बोध होता है । विधिपरक वाक्य भी अन्य अर्थका बोध करावे, तो वाक्यभेद हो, यह शंका दूर करनेके लिए—“अलौ-

(१) एक प्रकारकी अग्नि । ‘पिता ये गार्हपत्योऽग्निमांताऽग्निर्दक्षिणः स्मृतः । गुरुराहवनीयस्तु साऽग्निमेता गरीयसी ।’ (मनु २।२।२१) पिता गार्हपत्य अग्नि है, माता दक्षिण अग्नि है, गुरु (आचार्य) आहवनीय अग्नि है, ये तीन अग्नियों सबसे बड़ी हैं । इसमें तीन अग्नियों बड़ी हैं । गृहपति घरमें निल जिते रहते, वह गार्हपत्य अग्नि है, इसमेंसे दूसरी अग्नियों ब्रह्म की जाती है । ‘गार्हपत्यादाहवनीयं ज्वलन्मुद्धरेत्’ (आश्व० शौ० २।२) गार्हपत्यसे आहवनीय अग्निको जलती हुई लवे ।

भाष्य

निवृत्तिप्रयोजनत्वाच्छास्त्रस्य । तथाहि शास्त्रतात्पर्यविद आहुः—

भाष्यका अनुवाद

वैसे ही । यह किस कारण से ? इससे कि प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति यह शास्त्रका प्रयोजन है, क्योंकि शास्त्रका तात्पर्य जाननेवाले कहते हैं, 'दृष्टो हि०' (उसका

रत्नप्रभा

अपिशब्दः । मानान्तराज्ञातानि अपि शेषतया उच्यन्ते, न प्रधानत्वेन इति न वाक्यभेदः, प्रधानार्थभेदस्यैव वाक्यभेदकत्वात् इति भावः । ननु उक्तपङ्क्तिविधालिङ्गैः तात्पर्यविषयस्य ब्रह्मणः कुतो विधिशेषत्वमिति शङ्कते— कुत इति । वृद्धव्यवहारेण हि शास्त्रतात्पर्यनिश्चयः । वृद्धव्यवहारे च श्रोतुः प्रवृत्तिनिवृत्ती उद्दिश्य आप्तप्रयोगो दृश्यते । अतः शास्त्रस्य अपि ते एव प्रयोजने । ते च कार्यज्ञानजन्ये इति कार्यपरत्वं शास्त्रस्य, ततः कार्य-शेषत्वं ब्रह्मण इति आह—प्रवृत्तीति । शास्त्रस्य नियोगपरत्वे वृद्धसम्मति-माह—तथाहीत्यादिना । क्रिया, कार्यम्, नियोगो, विधिः, धर्मो, अपूर्वमिति अनर्थान्तरम् । को वेदार्थः, इत्याकांक्षायां शबरभाष्यकृता उक्तम्—दृष्टो हीति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

किकान्यपि" यहाँ "अपि" शब्दका प्रयोग किया है । अन्य प्रमाणसे अज्ञात होनेपर भी विधिपरत्वसे वेदान्तवाक्य कहे गये हैं, प्रधानतासे नहीं कहे गये, इसलिए वाक्यभेद नहीं है, क्योंकि जब प्रधान अर्थका भेद होता है, तभी वाक्यभेद होता है । परंतु पूर्वोक्त छ. प्रकारके लिंगोंसे तात्पर्यका निर्णय होता है और उस तात्पर्यका विषय ब्रह्म है, तो ब्रह्म विधिपरक कैसे है ? ऐसी शंका करते हैं—“वृत्त” इत्यादिसे । शास्त्रके तात्पर्यका निश्चय वृद्धव्यवहारसे होता है और वृद्धव्यवहार देखनेसे प्रतीत होता है कि आप्त पुरुष श्रोताकी प्रवृत्ति और निवृत्तिके उद्देशसे शब्दका प्रयोग करते हैं । इसलिए शास्त्रके भी प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो ही प्रयोजन हैं और वे प्रवृत्ति और निवृत्ति भी कार्यज्ञानसे जन्य हैं इससे शास्त्रका कार्यमें ही तात्पर्य है और इसी लिए ब्रह्म भी कार्यका शेष है ऐसा पूर्वपक्षी कहता है—“प्रवृत्ति” इत्यादिसे । शास्त्रका कार्यमें तात्पर्य है इसमें वृद्धोंकी सम्मति कहते हैं—“तथाहि” इत्यादिसे । क्रिया, कार्य, कर्म, नियोग, विधि, धर्म और अपूर्व ये सब पर्यायवाची शब्द हैं । वेदार्थ क्या है ऐसी आकांक्षा होनेपर मीमांसा दर्शनके भाष्यकार शबरस्वामीने कहा है—

(१) किसी भी विषयमें मन लगाना । (२) किसी भी विषयसे मन हट जाना ।

(३) प्रवृत्तिनिवृत्तिपरक ही शास्त्र है । विद्वान् कहते हैं 'प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा । पुसा येनोपदिश्येते तच्छास्त्रमभिधीयते ॥' नित्य अपौरुषेय वेद अथवा अनित्य पौरुषेय मन्वादि, जो पुरुषोंको प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिका उपदेश करें, वे शास्त्र कहलाते हैं ।

भाष्य

‘दृष्टो हि तस्यार्थः कर्मावबोधनम्’ इति । ‘चोदनेति क्रियायाः प्रवर्तकं वचनम्’ । ‘तस्य ज्ञानमुपदेशः’—(जै० सू० १।१।५) ‘तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायः’—(जै० सू० १।१।२५) ‘आम्नायस्य क्रियार्थत्वा-

भाष्यका अनुवाद

अर्थ है क्रियाका ज्ञान कराना) यह और ‘चोदनेति०’ (चोदना क्रियाका प्रवर्तक वचन है) ‘तस्य ज्ञान०’ (उसका ज्ञापक—निमित्त उपदेश है) ‘तद्भूतानां०’ (उसमें भूतार्थक पदोंका कार्यवाची पदोंके साथ उच्चारण करना चाहिए) ‘आम्नायस्य०’ (वेद क्रियार्थक है, अतः अक्रियार्थक वाक्य निष्फल हैं)

रत्नप्रभा

तस्य वेदस्य । कार्यं वेदार्थः इत्यत्र चोदनासूत्रस्थं भाष्यमाह—चोदनेति । क्रियाया नियोगस्य ज्ञानद्वारा प्रवर्तकं वाक्यं चोदना इति उच्यत इत्यर्थः । शबरस्वामिसमतिम् उक्त्वा जैमिनिसमतिम् आह—तस्य ज्ञानमिति । तस्य धर्मस्य ज्ञानं ज्ञापकम् अपौरुषेयविधिवाक्यम् उपदेशः, तस्य धर्मेण-अव्यतिरेकात् इत्यर्थः । पदानां कार्यान्वितार्थे शक्तिरित्यत्र सूत्रं पठति—तद्भूतानामिति । तत् तत्र वेदे भूतानां सिद्धार्थनिष्ठानां पदानां क्रियार्थेन कार्यवाचिना लिङादिपदेन समाम्नायः सहोच्चारण कर्तव्यम् । पदार्थज्ञानस्य वाक्यार्थरूपकार्यधीनिमित्तत्वात् इत्यर्थः । कार्यान्वितार्थे शक्तानि पदानि कार्यवाचिपदेन सह पदार्थस्मृतिद्वारा कार्यमेव वाक्यार्थं बोधयन्ति इति भावः । फलितम्

रत्नप्रभाका अनुवाद

“दृष्टो हि०” इत्यादि । उसका—वेदका । कार्य—वेदार्थ है, यहां पर यह मीमांसादर्शनके ‘चोदना’ इस सूत्रका भाष्य कहते हैं—“चोदना०” इत्यादिसे । क्रिया-नियोग अर्थात् विधिके ज्ञानद्वारा प्रवर्तकवाक्य चोदना कहलता है, ऐसा अर्थ है । शबरस्वामीकी संमति दिखलाकर जैमिनीकी संमति दिखलाते हैं—“तस्य ज्ञानम्” इत्यादि से । उसका—धर्मका ज्ञापक अपौरुषेय विधिवाक्य उपदेश है, क्योंकि वह धर्मसे व्यतिरिक्त—भिन्न नहीं है । पदोंकी शक्ति कार्यान्वित अर्थमें है, इसके लिए जैमिनिसूत्र पढ़ते हैं—“तद्भूतानां” इत्यादि । तत्—यहाँ—वेदमें । भूतोंका—मिद्धार्थवाचक पदोंका । क्रियार्थके साथ—क्रियावाची लिङ् आदि पदोंके साथ उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि पदार्थज्ञान वाक्यार्थरूप कार्यके ज्ञानमें निमित्त है । पदोंकी कार्यान्वित अर्थमें शक्ति है, इसलिए पद कार्यवाची पदके साथ अर्थ स्मरण द्वारा कार्यरूप वाक्यार्थका

(१) लिङ्, लोट्, तव्य प्रत्यय घटित पद जिस वाच्यमें हों, वह चोदना—प्रेरणा वाक्य कहलाता है ।

भाष्य

दानर्थक्यगतदर्थानाम्—(जै० सू० १।२।१) इति च । अतः पुरुषं क्वचिद्विषयविशेषे प्रवर्तयत्कुतश्चिद्विषयविशेषान्निवर्तयत्तार्थवच्छास्त्रम्, तच्छेपतया चान्यदुपयुक्तम्, तत्सामान्याद्वेदान्तानामपि तथैवार्थवत्त्वं स्यात् । सति च विधिपरत्वे यथा स्वर्गादिकामस्याग्निहोत्रादि साधनं विधीयते एवममृतत्वकामस्य ब्रह्मज्ञानं विधीयत इति युक्तम् । नन्विह जिज्ञास्य-

भाष्यका अनुवाद

इसलिए पुरुषको किसी एक विषयमें प्रवृत्त करानेवाला और किसी एक विषयसे निवृत्त करानेवाला शास्त्र सार्थक है और दूसरे वाक्य उसके अंगभूत होकर उपयोगी होते हैं । उनके साथ सादृश्य होनेसे वेदान्त वाक्य भी उसी प्रकार सार्थक होते हैं, यदि (वेदान्तवाक्य) विधिपरक हों तो जैसे स्वर्ग आदिकी कामनावालेके लिए अग्निहोत्र आदि साधनोंका विधान किया गया है, इसी प्रकार अमृतत्वकी कामनावालेके लिए ब्रह्मविज्ञानका विधान किया गया है, ऐसा युक्त है । यदि कहो कि यहाँ जिज्ञास्यका भेद कहा है । कर्मकाण्डमें

रत्नप्रभा

आह—अत इति । यतो वृद्धा एवमाहुः, अतो विधिनिषेधवाक्यमेव शास्त्रम् । अर्थवादादिकं तु तच्छेपतया उपक्षीणम्, तेन कर्मशास्त्रेण सामान्यं शास्त्रत्वम्, तस्माद् वेदान्तानां कार्यपरत्वेनैव अर्थवत्त्वं स्यात् इत्यर्थः । ननु वेदान्तेषु नियोज्यस्य विधेयस्य च अदर्शनात् कथं कार्यधीरिति तत्र आह—सति चेति । ननु धर्मब्रह्मजिज्ञासासूत्रकाराभ्यामिह काण्डद्वये अर्थभेद उक्तः एककार्यार्थत्वे शास्त्रभेदानुपपत्तेः । तत्र काण्डद्वये जिज्ञास्यभेदे सति फलवैलक्षण्यं

रत्नप्रभाका अनुवाद

ही बोध कराते हैं । फलितार्थ कहते हैं—“अतः” इत्यादिसे । तात्पर्य यह है कि पृष्ठ पुरुष ऐसा कहते हैं, इसलिए विधिनिषेध वाक्य ही शास्त्र हैं, अर्थवादादि विधिनिषेध वाक्योंके अंगभूत होकर उपक्षीण—सप्रयोजन है । कर्मशास्त्रके साथ वेदान्तका सादृश्य है, क्योंकि दोनों शास्त्र हैं । इसलिए वेदान्त कार्यपरक होकर ही सार्थक है । परंतु वेदान्तोंमें नियोज्य और विधेय देखनेमें नहीं आते हैं, तो उनसे कार्यज्ञान किस प्रकार हो, इस शंकाका निराकरण करनेके लिए “सति च” इत्यादि कहते हैं । यहाँ शंका होती है कि धर्मविज्ञासा और ब्रह्मजिज्ञासाके सूत्रकार जैमिनि और वादरायणने कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड दोनों काण्डोंमें अर्थभेद कहा है, क्योंकि यदि एक ही अर्थ कहा हो, तो शास्त्रभेद युक्त न हो । दोनों काण्डोंमें भिन्न भिन्न जिज्ञास्य होनेसे दोनों काण्डोंका फल विलक्षण—भिन्न ही कहना चाहिए, इसलिए मुक्तिफलके

भाष्य

वैलक्षण्यमुक्तम्—कर्मकाण्डे भव्यो धर्मो जिज्ञास्यः, इह तु भूतं नित्यनिर्वृतं ब्रह्म जिज्ञास्यमिति । तत्र धर्मज्ञानफलादनुष्ठानापेक्षाद्विलक्षणं ब्रह्मज्ञानफलं भवितुमर्हति । नार्हत्येवं भवितुम् । कार्यविधिप्रयुक्तस्यैव ब्रह्मणः प्रतिपाद्यमानत्वात् । 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः' (वृ० २।४।५) 'य आत्माऽपहतपाप्मा सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः' (छा० ८।७।१) 'आत्मेत्येवोपासीत' (वृ० १।४।७) 'आत्मानमेव लोकमुपासीत' (वृ०

भाष्यका अनुवाद

साध्य धर्म जिज्ञास्य है और यहाँ तो सिद्ध और अविनाशी ब्रह्म जिज्ञास्य है । उनमें अनुष्ठानकी अपेक्षावाले धर्मज्ञानके फलसे ब्रह्मज्ञानका फल विलक्षण होना चाहिए । ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कार्यविधिमें प्रयुक्त हुआ ब्रह्म ही प्रतिपाद्य है । 'आत्मा वा०' (अरे मैत्रेयि ! आत्माका साक्षात्कार करना चाहिए) 'य आत्मा०' (जो आत्मा पापरहित है, उसकी खोज करनी चाहिए, उसका विशेष ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा करनी चाहिए) 'आत्मेत्ये०' (आत्मा है इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए) 'आत्मानमेव०' (आत्माकी ही

रत्नप्रभा

वाच्यम् । तथा च न मुक्तिफलाय ज्ञानस्य विधेयता, मुक्तेर्विधेयक्रियाजन्यत्वे कर्मफलात् अविशेषप्रसङ्गात्, अविशेषे जिज्ञास्यभेदासिद्धेः । अतः कर्मफल-विलक्षणत्वात् नित्यसिद्धमुक्तेः तद्व्यञ्जकज्ञानविधिः अयुक्त इत्याशङ्कते—नन्विहेति । मुक्तेः कर्मफलाद् वैलक्षण्यम् असिद्धमिति तदर्थं ज्ञानं विधेयम् । न च तर्हि सफलं कार्यमेव वेदान्तेषु अपि जिज्ञास्यमिति तद्भेदासिद्धिरिति वाच्यम्, इष्टत्वात् । न च ब्रह्मणो जिज्ञास्यत्वसूत्रविरोधः, ज्ञानविधिशेषत्वेन सूत्रकृता ब्रह्मप्रतिपादनाद्

रत्नप्रभाका अनुवाद

लिए ज्ञान विधेय न होना चाहिए, क्योंकि यदि मुक्ति क्रियाजन्य हो, तो कर्मफलसे मुक्तिमें कुछ विशेष—भेद नहीं है, ऐसा प्रसंग आवेगा, और मुक्ति और कर्मफलमें भेद न हो, तो जिज्ञास्यका भेद सिद्ध न होगा । इसलिए कर्मफलसे मुक्ति भिन्न होनेके कारण नित्य सिद्ध मुक्तिको दिखानेवाली ज्ञानकी विधि युक्त नहीं है यह शंका 'नन्विह' इत्यादिसे दिखलते हैं । मुक्ति कर्मफलसे विलक्षण है यह बात असिद्ध है, अतः मुक्तिके लिए ज्ञानका विधान उचित है । तो वेदान्तोंमें भी सफल कार्य ही जिज्ञास्य होनेसे कर्मकाण्डसे भेद सिद्ध नहीं होगा ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दोनोंका अभेद इष्ट ही है । ब्रह्म जिज्ञास्य है यह प्रतिपादन करनेवाले सूत्रसे विरोध होगा ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सूत्रकार ब्रह्मका ज्ञान

भाष्य

१।४।१५) 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' (मु० ३।२।९) इत्यादिविधानेषु सत्सु 'कौऽसावात्मा किं तद् ब्रह्म' इत्याकाङ्क्षायां तत्स्वरूपसमर्पणेन सर्वे वेदान्ता उपयुक्ताः—'नित्यः सर्वगतः, (भ० गी० २।२४) नित्यशुद्धबुद्ध-मुक्तस्वभावः, (नृ० गी० ९) विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' (वृ० ३।१।२८) इत्येवमादयः । तदुपासनात् शास्त्रदृष्टोऽदृष्टो मोक्षः फलं भविष्यतीति ।

भाष्यका अनुवाद

स्वलोकरूपसे उपासना करे) 'ब्रह्म वेद०' (ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता है) इत्यादि विधान हैं, इसलिए वह आत्मा कौन है, वह ब्रह्म क्या है ऐसी आकाङ्क्षा होनेपर ब्रह्मके स्वरूपका बोध करानेके लिए 'नित्यः सर्वगतः०' (ब्रह्म नित्य, सर्वव्यापक, नित्यशुद्ध, मुक्तस्वभाव, विज्ञानस्वरूप और आनन्दस्वरूप है) ये और दूसरे सब वेदान्तवाक्य उपयुक्त हैं । उस ब्रह्मकी उपासना द्वारा शास्त्रसे अवगत अदृष्ट मोक्षरूप फल होगा । परंतु वेदान्तवाक्योंको कर्तव्यविधिका शेष न मानें और वे वस्तुमात्रका कथन करते हैं ऐसा समझें तो

रत्नप्रभा

इति परिहरति—नार्हत्येवमिति । ब्रह्मणो विधिप्रयुक्तत्वं स्फुटयति—आत्मा वा इति । 'ब्रह्म वेद' इत्यत्र ब्रह्मभावकामो ब्रह्मवेदनं कुर्यात् इति विधिः परिणम्यते इति द्रष्टव्यम् । लोकं ज्ञानस्वरूपम् । वेदान्तानेव अर्थतो दर्शयति—नित्य इति । ननु किं विधिफलम् इति तदाह—तदुपासनादिति । प्रत्यग्ब्रह्मोपासनाद् 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्' इति शास्त्रोक्तो मोक्षः स्वर्गवल्लोकाप्रसिद्धः फलमित्यर्थः । ब्रह्मणः कर्तव्योपासनाविषयकविधिशेषत्वानङ्गीकारे वाधकमाह—कर्तव्येति । विध्यसम्बद्धसिद्धबोधे प्रवृत्त्यादिफलाभावाद् वेदान्तानां वैफल्यं

रत्नप्रभाका अनुवाद

विधिके अंगत्वरूपसे प्रतिपादन करते हैं, इस प्रकार शंकाका परिहार करते हैं—“न” इत्यादिसे । ब्रह्म उपासना विधिका शेष किस प्रकार है, यह स्पष्ट करते हैं—“आत्मा वा” इत्यादिसे । 'ब्रह्म वेद' इसमें ब्रह्मभावकी कामनावालोंको ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए ऐसा विधिमें परिणाम होता है यह समझना चाहिए । वेदान्तोंको ही अर्थत दिखलाते हैं—“नित्य.” इत्यादिसे । परंतु विधिसा फल क्या है, इसके उत्तरमें कहते हैं—“तदुपासनात्” इत्यादि । प्रत्यग्-ब्रह्मकी उपासनासे “ब्रह्म जाननेवाला श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करता है” ऐसा शास्त्रोक्त मोक्ष जो स्वर्गके समान लोकमें प्रसिद्ध नहीं है, वह फल है । ब्रह्मको कर्तव्य-उपासनारूप विधिका अंग न माननेमें वाधक कहते हैं—“कर्तव्य” इत्यादिसे । आशय यह है कि यदि विधिके साथ असंबद्ध सिद्ध वस्तु ब्रह्मका बोध वेदान्त करवें, तो प्रवृत्ति आदि फलके अभावसे

भाष्य

कर्तव्यविध्यननुप्रवेशे तु वस्तुमात्रकथने हानोपादानासम्भवात्, 'सप्तद्वीपा वसुमती' 'राजासौ गच्छति' इत्यादिवाक्यवद् वेदान्तवाक्यानामानर्थक्यमेव स्यात् । ननु वस्तुमात्रकथनेऽपि 'रज्जुरियं नायं सर्पः' इत्यादौ भ्रान्ति-जनितभीतिनिवर्तनेनार्थवच्चं दृष्टम्, तथेहाप्यसंसार्यात्मवस्तुकथनेन संसारित्वभ्रान्तिनिवर्तनेनार्थवच्चं स्यात् । स्यादेतदेवं, यदि रज्जुस्वरूपश्रवण इव सर्पभ्रान्तिः संसारित्वभ्रान्तिर्ब्रह्मस्वरूपश्रवणमात्रेण निवर्तेत, न तु निवर्तते, श्रुतब्रह्मणोऽपि यथापूर्वं सुखदुःखादिसंसारिधर्मदर्शनात् । 'श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः' (बृ० २।४।५) इति च श्रवणोत्तर-

भाष्यका अनुवाद

हान और उपादानका असंभव होनेसे 'सप्तद्वीपा०' (सात द्वीपवाली पृथिवी) 'राजाऽसौ०' (यह राजा जाता है) इत्यादि वाक्योंके समान वेदान्तवाक्य अनर्थक हो जायेंगे । यदि कहो कि 'रज्जुरियं०' (यह रज्जु है यह सर्प नहीं है) इत्यादि वस्तुमात्र कथन भी भ्रान्तिसे उत्पन्न हुए भयकी निवृत्ति करके सार्थक होता है, ऐसा देखनेमें आता है । इसी प्रकार यहाँ भी असंसारी आत्म-वस्तुका कथन संसारित्वकी भ्रान्तिकी निवृत्ति करके सार्थक होता है । यह तभी हो सकता है जब कि जैसे वस्तुस्वरूपके श्रवणसे सर्पका भय निवृत्त हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मस्वरूपके श्रवणमात्रसे संसारित्वकी भ्रान्ति दूर हो जाय, परन्तु वह (भ्रान्ति) निवृत्त नहीं होती, क्योंकि जिन्होंने ब्रह्मका श्रवण किया है, उनमें भी पूर्वके समान सुख, दुःख आदि सांसारिक धर्म देखनेमें आते हैं । 'श्रोतव्यो०' (श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए और निदिध्यासन करना चाहिए)

रत्नप्रभा

स्यात् इत्यर्थः । ननु इति शङ्का स्पष्टार्था । दृष्टान्तवैषम्येण परिहरति—स्यादिति । एतद्—अर्थवत्त्वम् एवं चेत् स्यात् इति अर्थः । एवंशब्दार्थमाह—यदीति । किञ्च, यदि ज्ञानादेव मुक्तिः, तदा श्रवणजन्यज्ञानानन्तरं मननादिविधिर्न स्यात्, तद्विधेश्च कार्यसाध्या मुक्तिरित्याह—श्रोतव्य इति । शब्दानां कार्यान्वितशक्तेः

रत्नप्रभाका अनुवाद

वेदान्त निष्फल हो जायेंगे । "ननु" इत्यादिसे की हुई शंकाका अर्थ स्पष्ट है । दृष्टान्त विषम होनेसे शंकाका परिहार करते हैं—"स्यात्" इत्यादिसे । ऐसा हो तो सार्थक हो सकता है ऐसा अर्थ है । "यदि" इत्यादिसे 'एवं' शब्दका अर्थ कहते हैं । यदि ज्ञानसे मुक्ति होती, तो श्रवण-जन्य ज्ञानके बाद मनन आदिका विधान न होता, किन्तु विधान है, अतः मुक्ति कार्यमाध्य है ऐसा कहते हैं—"श्रोतव्यः" इत्यादिसे । शब्दोंकी शक्ति

(१) 'धृतस्वार्थस्य नैरन्तरेण दीर्घकालानुमन्थानम्' निरन्तर दीर्घकाल तक झुनी हुई वस्तुका चिन्तन ।

भाष्य

कालयोर्मनननिदिध्यासनयोर्विधिदर्शनात् । तस्मात् प्रतिपत्तिविधिविषयतयैव शास्त्रप्रमाणकं ब्रह्माभ्युपगन्तव्यमिति । अत्राजमिधीयते । न । कर्म-ब्रह्मविद्याफलयोर्विलक्षण्यात् । शारीरं वाचिकं मानसं च कर्म श्रुतिस्मृतिसिद्धं

भाष्यका अनुवाद

इसमें श्रवणके उत्तरकालमें मनन और निदिध्यासन देखनेमें आते हैं, इसलिए ऐसा अंगीकार करना चाहिए कि उपासनाविधिका विषय होनेसे ही ब्रह्म शास्त्रप्रमाणक है । [यहाँ तक पूर्वपक्ष ग्रन्थ है ।] इसपर कहा जाता है । नहीं, क्योंकि कर्म और ब्रह्मविद्याके फल विलक्षण हैं । कायिक, वाचिक और

रत्नप्रभा

प्रवृत्त्यादिफलस्यैव शास्त्रत्वात्, सिद्धे फलाभावात्, मननादिविधेश्च कार्यपरा वेदान्ता इति पूर्वपक्षम् उपसंहरति—तस्मादिति । वेदान्ता न विधिपराः, स्वार्थे फलवत्त्वे सति नियोज्यविधुरत्वात्, 'गायं सर्पः' इति वाक्यवत् । "सोऽरोदीत्" "स्वर्गकामो यजेत" इति वाक्ययोर्निरासाय हेतौ विशेषणद्वयमिति सिद्धान्तयति—अत्रेति । यदुक्तं मोक्षकामस्य नियोज्यस्य ज्ञानं विधेयम् इति, तत् न इत्याह—नेति । मोक्षः न विधिजन्यः, कर्मफलविलक्षणत्वाद् आत्मवत् इत्यर्थः । उक्तहेतुज्ञानाय कर्मतत्फले प्रपञ्चयति—शारीरमित्यादिना वर्णितं संसाररूपमनुवदतीत्यन्तेन । अथ वेदाध्ययनानन्तरम्, अतः वेदस्य

रत्नप्रभाका अनुवाद

कार्यान्वित अर्थमें है, और प्रवृत्ति आदि फल जिससे हो वही शास्त्र है, तथा सिद्धवस्तु—ब्रह्मके ज्ञानमें फलका अभाव है और श्रवणके बाद मनन आदिकी विधि है, इसलिए वेदान्त कार्यपर है ऐसा पूर्वपक्षका उपसंहार करते हैं—“तस्मात्” इत्यादिसे । वेदान्त विधिपरक नहीं है, क्योंकि स्वार्थमें फलवत् होकर नियोज्यरहित हैं, यह सर्प नहीं है इस वाक्यके समान । इस अनुमानमें हेतुमें 'स्वार्थमें फलवत्' विशेषण लगानेका प्रयोजन 'सोऽरोदीत्' (वह रोया) इत्यादि वाक्योंमें व्यभिचारका निरास करना है । नियोज्य रहित विशेषण लगानेका प्रयोजन 'स्वर्गकामो यजेत' इत्यादि वाक्योंमें व्यभिचारका निरास करना है । इस पूर्वपक्ष पर सिद्धान्त करते हैं—“अत्र” इत्यादिसे । मोक्षकामनावाले नियोज्यके लिए ज्ञान विधेय है, यह जो पूर्वपक्षनि कहा है वह युक्त नहीं है ऐसा कहते हैं—“न” इत्यादिसे । मोक्ष विधिजन्य नहीं है, क्योंकि कर्मफलसे विलक्षण है, आत्माके समान । इस अनुमानमें जो हेतु दिया है, उसके ज्ञानके लिए कर्म और कर्मके फलका विस्तारसे कथन करते हैं—“शारीरं” इत्यादि “वर्णितं संसाररूपमनुवदति” इत्यन्त ग्रन्थसे । अथ—वेदाध्ययनके पश्चात्, अतः—वेदके फलवत्

भाष्य

धर्माख्यम्, यद्विषया जिज्ञासा 'अथातो धर्मजिज्ञासा' (जै० सू० १।१।१) इति सूत्रिता । अधर्मोऽपि हिंसादिः प्रतिषेधचोदनालक्षणत्वाजिज्ञास्यः परिहाराय । तयोश्चोदनालक्षणयोरर्थानर्थयोर्धर्माधर्मयोः फले प्रत्यक्षे सुखदुःखे शरीरवाङ्मनोभिरेन्द्रोपभुज्यमाने विषयेन्द्रियमयोगजन्ये ब्रह्मादिषु स्थावरान्तेषु प्रसिद्धे । मनुष्यत्वादारभ्य ब्रह्मान्तेषु देहवत्सु सुखतारतम्य-

भाष्यका अनुवाद

मानसिक कर्म श्रुति और स्मृतिमें प्रसिद्ध, धर्मसंज्ञक है, जिसकी जिज्ञासा 'अथातो०' (वेदाध्ययनके पश्चात् धर्मका निर्णय करनेके लिए धर्मजिज्ञासा करनी चाहिए) इस सूत्रमें प्रतिपादित है । प्रतिषेधवाक्योंसे लक्षित होनेके कारण परिहारके लिए हिंसादिरूप अधर्मकी भी जिज्ञासा करनी चाहिए । चोदना जिसका लक्षण है, ऐसा अर्थ और अनर्थरूप धर्म एवं अधर्मके फल सुख और दुःख प्रत्यक्ष हैं, उनका उपभोग शरीर, वाणी और मनसे होता है, विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे वे उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मासे लेकर स्थावर तक समीमे प्रसिद्ध हैं । मनुष्यसे लेकर ब्रह्मा तक समी शरीरधारियोंमें सुखका तारतम्य

रत्नप्रभा

फलवदर्थपरत्वात्, धर्मनिर्णयाय कर्मवाक्यविचारः कर्तव्य इति सूत्रार्थः । न केवलं धर्माख्यं कर्म, किन्तु अधर्मोऽपि इति आह—अधर्मोऽपीति । निषेध-वाक्यप्रमाणकत्वात् इत्यर्थः । कर्म उक्त्या फलमाह—तयोरिति । मोक्षस्तु अतीन्द्रियो विशोकः शरीराद्यभोग्यो विषयाद्यजन्योऽनात्मविस्तु अप्रसिद्ध इति वैलक्षण्यज्ञानाय प्रत्यक्षत्वादीनि विशेषणानि । सामान्येन कर्मफलम् उक्त्वा धर्म-फलं पृथक् प्रपञ्चयति—मनुष्यत्वादिति । "स एको मानुष आनन्दः" (तै०

रत्नप्रभाका अनुवाद

अर्थके बोधक होनेसे, धर्मनिर्णयके लिए कर्मबोधक वाक्योंका विचार करना चाहिए, ऐसा सूत्रार्थ है । धर्मसंज्ञक ही कर्म नहा है, किन्तु अधर्मसंज्ञक भी है ऐसा कहते हैं—“अधर्मोऽपि” इत्यादिसे । निषेधवाक्य अधर्ममें प्रमाण है, अतः वह भा विचार करने योग्य है । धर्म और अधर्मरूप कर्म कहकर उसका फल कहते हैं—“तयो ” इत्यादिसे । मोक्ष न तो इन्द्रियोंका गोचर है, न शरीर आदिसे भोग्य है और न विषय आदिसे जन्य है, वह तो शोकजन्य आनन्दमय है, आत्माको न जाननेवाले उसका आस्वाद नहा ले सकते, इस प्रकार कर्म-फलसे मोक्षका भेद दिखानेके लिए सुख और दुःखके 'प्रत्यक्ष' आदि विशेषण दिये हैं । सामान्यरीतितसे कर्मफल कहकर धर्मफलका पृथक् विस्तारसे वर्णन करते हैं—“मनुष्यत्वात्”

भाष्य

मनुश्रूयते । ततश्च तद्वेतोर्धर्मस्य तारतम्यं गम्यते, धर्मतारतम्यादधिकारि-
तारतम्यम् । प्रसिद्धं चार्थित्वसामर्थ्यादिकृतमधिकारितारतम्यम् । तथा च
यागाद्यनुष्ठायिनामेव विद्यासमाधिविशेषादुत्तरेण पथा गमनम् । केवलैरि-
ष्टापूर्तदत्तसाधनैर्धूमादिक्रमेण दक्षिणेन पथा गमनम् । तत्रापि सुखतारतम्यं
तत्साधनतारतम्यं च शास्त्रात् 'यावत्संपातमुपित्वा' (छा० ५।१०।५)

भाष्यका अनुवाद

श्रुतिमें वर्णित है, सुखतारतम्यसे उसके हेतु धर्मका तारतम्य भी ज्ञात होता है और
धर्मके तारतम्यसे अधिकारीका तारतम्य सूचित होता है । फलकामना, सामर्थ्य
आदि कारणोंसे अधिकारीका तारतम्य प्रसिद्ध है । इस प्रकार याग आदि अनुष्ठान
करनेवाले लोग ही विद्या (उपासना) रूप समाधि विशेषके धलसे उत्तरमार्गसे
जाते हैं । केवल इष्ट, पूर्त और दत्तरूप साधनोंसे सम्पन्न पुरुष धूम आदि
क्रमसे दक्षिण मार्गसे जाते हैं । वहाँ भी सुख और उसके साधनोंका तारतम्य
'यावत्' (भोग्य कर्मोंके निश्चय होने तक वहाँ रहकर पीछे लौटता है) इस

रत्नप्रभा

२।८।१) ततः शतगुणो गन्धर्वादीनामिति श्रुतेः अनुभवानुसारित्वम् अनु-
शब्दार्थः । ततश्च सुखतारतम्यात् इत्यर्थः । मोक्षस्तु निरतिशयः, तत्साधनं
च तत्त्वज्ञानमेकरूपमिति वैलक्षण्यम् । किञ्च, साधनचतुष्टयसम्पन्न एकरूप एव
मोक्षविद्याधिकारी, कर्मणि तु नानाविध इति वैलक्षण्यमाह—धर्मेति । गम्यते
न केवलं किन्तु प्रसिद्ध च इत्यर्थः । अर्थित्वं फलकामित्वम् । सामर्थ्यं लौकिकं
पुत्रादि । आदिपदाद् विद्वत्तम्, शास्त्रानिन्दितत्वं च । किञ्च, कर्मफलं मार्गप्राप्त्यम्,

रत्नप्रभाका अनुवाद

इत्यादिसे । 'स एको' (वह मनुष्यका आनन्द है । मनुष्य-गन्धर्वाका आनन्द उसके
सौगुना है) यह श्रुति अनुभवके अनुसार है ऐसा बतलानेके लिए 'अनुश्रूयते' पदमें 'अनु'
उपसर्ग जोड़ा है । 'ततश्च'—मुझके तारतम्यसे । मोक्ष तो निरतिशय है और उसका
साधन तत्त्वज्ञान एक ही है, इस प्रकार भेद है । चार साधनोंसे युक्त एक-से ही मोक्ष-
विद्याके अधिकारी है और कर्ममें नाना प्रकारके अधिकारी हैं ऐसा भेद कहते हैं—“धर्म”
इत्यादिसे । आशय यह है कि इस प्रकारका धर्मतारतम्य केवल प्रतीत ही नहीं होता, किन्तु
प्रसिद्ध भी है । अर्थित्व—फलकी इच्छा करना । सामर्थ्य—लौकिक साधन पुत्र, धन आदि ।
'आदि' पदसे विद्वत्ता—शास्त्रज्ञान रखना और शास्त्रसे अनिन्दित होना लिये गये हैं । और
कर्मका फल अचिरादि मार्ग द्वारा प्राप्य है और मोक्ष तो नित्य प्राप्त है, ऐसा भेद कहते हैं—

भाष्य

इत्यस्माद् गम्यते । तथा मनुष्यादिषु नारकस्थावरान्तेषु सुखलवधोदना-
लक्षणधर्मसाध्य एवेति गम्यते तारतम्येन वर्तमानः । तथोर्ध्वं गतेष्वधोगतेषु

भाष्यका अनुवाद

शास्त्रसे जाना जाता है । इस प्रकार अनुमान होता है कि मनुष्यसे लेकर
नारकीय और स्थावर पर्यन्त जीवोंमें तारतम्यसे विद्यमान सुखलेश प्रवर्तक

रत्नप्रभा

भोक्षस्तु नित्याप्त इति भेदमाह—तथेति । उपासनायां चित्तस्थैर्यप्रकर्षात् अर्चि-
रादिमार्गेण ब्रह्मलोकगमनं “तेऽर्चिषम्” (छा० ४ । १५ । ५) इत्यादिना
श्रूयते इत्यर्थः ।

अग्निहोत्रं तपस्सत्यं वेदानां चानुपालनम् ।

आतिथ्यं वैश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ॥ १ ॥

वापीकूपतडागादिदेवतायतनानि च ।

अन्नप्रदानमारामः पूर्तमित्यभिधीयते ॥ २ ॥

शरणागतसन्त्राणं भूतानां चाप्यर्हिसनम् ।

बहिर्वेदि च यद्दानं दत्तमित्यभिधीयते ॥ ३ ॥

तत्रापि—चन्द्रलोकेऽपि इत्यर्थः । सम्पतति गच्छति अस्माल्लोकादमुं लोक-
मनेनेति सम्पातः—कर्म, यावत् कर्म भोक्तव्यं तावत् स्थित्वा पुनरायान्ति इत्यर्थः ।
मनुष्यत्वात् ऊर्ध्वं गतेषु सुखस्य तारतम्यम् उक्त्या अधोगतेषु तद् आह—
तथेति । इदानीं दुःखतद्वेतुतदनुष्ठायिनां तारतम्यं वदन् अधर्मफलं प्रपञ्चयति—

रत्नप्रभाका अनुवाद

“तथा” इत्यादिसे । उपासनामे चित्तश्री अत्यन्त स्थिरतासे अर्चिर्वादि मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक
गमनं “तेऽर्चिषम्” इत्यादि धृतिसे सुना जाता है । ‘अग्निहोत्र, तप, सत्य,
वेदका संरक्षण, अतिथिसत्कार और वैश्वदेव ये ‘इष्ट’ कहलाते हैं । वावडी,
कुआँ, तालाब, देवालय और वाग बनवाना तथा अन्नदान करना ‘पूर्त’ कहलाता है ।
शरणागतकी रक्षा करना, प्राणियोंको पीडा न पहुँचाना और वेदोंके बाहर दान देना ‘दत्त’
कहलाता है । वहाँ भी—चन्द्रलोकमें भी । प्राणी जिससे इस लोकमें परलोकमें गमन करें
वह सम्पात—कर्म, जब तक शेष रहता है, तबतक परलोकमें रहकर फिर लौटते हैं । इस
प्रकार मनुष्यत्वसे ऊपर गये हुए जीवोंमें सुखका तारतम्य चतलकर अब उरासे नाचे गिरे

(१) उत्तरादि । (२) जो यशमें यज्ञवेदी पर यजमान ऋत्विजोंको देता है, वह दक्षिणा है,
दान नहीं है ।

भाष्य

च देहवत्सु दुःखतारतम्यदर्शनात्तद्वेतोरधर्मस्य प्रतिषेधचोदनालक्षणस्य तदनुष्ठायिनां च तारतम्यं गम्यते । एवमविद्यादिदोषवतां धर्माधर्मतारतम्यनिमित्तं शरीरोपादानपूर्वकं सुखदुःखतारतम्यमनित्यं संसाररूपं श्रुतिस्मृतिन्यायप्रसिद्धम् । तथा च श्रुतिः—‘न ह वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति’ (छा० ८।१२।१) इति यथावर्णितं संसाररूपमनुवदति ।

भाष्यका अनुवाद

धर्मसे ही जन्य है । इसी प्रकार स्वर्गीय और नारकीय जीवोंमें दुःखका तारतम्य देखनेमें आता है, उससे उसके हेतु प्रतिषेध-प्रवर्तक वाक्योंसे लक्षित अधर्मका और उसके अनुष्ठान करनेवालोंका तारतम्य जाना जाता है । इस प्रकार अविद्या आदि दोषवालोंके धर्म और अधर्मके तारतम्यसे शरीर-ग्रहणपूर्वक उत्पन्न हुए सुख-दुःखका तारतम्य अनित्य और संसाररूप है, ऐसा श्रुति, स्मृति और न्यायमें प्रसिद्ध है । इसी प्रकार ‘न ह वै’ (सशरीर आत्माके सुख और दुःखका विनाश नहीं होता है) यह श्रुति पूर्व वर्णित संसाररूपका

रत्नप्रभा

तथोर्ध्वमिति । द्विविधं कर्मफलं मोक्षस्य तद्वैलक्षण्यज्ञानाय प्रपञ्चितम् उपसंहरति—एवमिति । अस्मिताकामक्रोधभयानि आदिशब्दार्थः । “ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्” (गी० ९।२१) इत्याद्या स्मृतिः । काष्ठोपचयात् ज्वालोपचयदर्शनात् फलतारम्येन साधनतारतम्यानुमानं न्यायः । श्रुतिमाह—तथा चेति । मोक्षो न कर्मफलम्, कर्मफलविरुद्धातीन्द्रियत्वविशोक्तवशरीराद्यभोग्यरनादिधर्मवत्त्वात्, व्यतिरेकेण स्वर्गादिवत् इति न्यायानुग्राह्यां श्रुति-

रत्नप्रभाका अनुवाद

हुए जीवोंमें सुखका तारतम्य घटताते हैं—“तथा” इत्यादिसे । अब दुःख, उसके हेतु और उसके करनेवालोंके भेद कहकर अधर्मका फल कहते हैं—“तथोर्ध्वम्” इत्यादिसे । मुक्ति कर्मफलसे अत्यन्त भिन्न है ऐसा ज्ञान करानेके लिए विस्तारपूर्वक वर्णित दो तरहके कर्मफलोंका उपसंहार करते हैं—“एवम्” इत्यादिसे । आदि शब्दसे अस्मिता, काम, क्रोध, और भयका ग्रहण किया गया है । ‘ते तं’ (वे उन विशाल स्वर्गलोकका भोग करके) इत्यादि स्मृति है । देखा जाता है कि काष्ठकी वृद्धिसे ज्वालालोककी वृद्धि होती है । अतः फलके तारतम्यसे साधनके तारतम्यका अनुमान न्याय है । “तथा च” इत्यादिसे श्रुति कहते हैं । मोक्ष कर्मफल नहीं है, क्योंकि मोक्ष कर्मफलसे विपरीत अतीन्द्रिय, शोकरहित, शरीर आदिसे अभोग्य है, व्यतिरेकसे स्वर्ग आदिके समान—इस अनुमानसे अनुग्राह्य श्रुति कहते

भाष्य

‘अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः’ (छा० ८।१२।१) इति प्रियाप्रियस्पर्शनप्रतिषेधाद्योदनालक्षणधर्मकार्यत्वं मोक्षारख्यस्याशरीरत्वस्य प्रतिषिध्यत इति गम्यते । धर्मकार्यत्वे हि प्रियाप्रियस्पर्शनप्रतिषेधो नोपपद्यते । अशरीरत्वमेव धर्मकार्यमिति चेत्, न; तस्य स्वाभाविकत्वात् ।

‘अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेष्ववस्थितम् ।

महान्तं विशुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥’

भाष्यका अनुवाद

अनुवाद करती है । ‘अशरीरं’ (प्रिय और अप्रिय वस्तुतः शरीर-रहित आत्माका स्पर्श नहीं करते) इस श्रुतिसे प्रिय और अप्रियके स्पर्शके प्रतिषेधसे मोक्षसंज्ञक शरीररहित स्थितिके चोदनालक्षण धर्मसे उत्पन्न होनेका प्रतिषेध किया है, ऐसा अनुमान होता है, क्योंकि मोक्षको धर्मसे उत्पन्न मानें तो उसमें प्रिय और अप्रियके स्पर्शका प्रतिषेध संगत न होगा । तब शरीर-रहित स्थिति ही धर्मसे उत्पन्न हो, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ‘अशरीरं’ (स्थूल देहरहित, अनेक अनित्य शरीरोंमें स्थित महान और विशु आत्माको जानकर विद्वान्

रत्नप्रभा

माह—अशरीरमिति । वावेति—अवधारणे । तत्त्वतो विदेहं सन्तम् आत्मानं वैपयिके सुखदुःखे नैव स्पृशत इत्यर्थः । मोक्षश्चेत् उपासनारूपधर्मफलं तदेव प्रियमस्ति इति तन्निषेधायोग इत्याह—धर्मकार्यत्वे हीति । ननु प्रियं नाम वैपयिकं सुखं तन्निषिध्यते, मोक्षस्तु धर्मफलमेव कर्मणां विचित्रफलदानसामर्थ्यात् इति शङ्कते—अशरीरत्वमेवेति । आत्मनो देहासङ्गित्वमशरीरत्वम्, तस्य अनादित्वात् न कर्मसाध्यता इत्याह—नेति । अशरीरं स्थूलदेहशून्यं देहेषु

रत्नप्रभाका अनुवाद

है—“अशरीरम्” इत्यादि । वाव अवधारणं वाचक है । भावार्थ यह है कि यथार्थ विदेह आत्माको वैपयिक सुख दुःख स्पर्श करते ही नहीं । यदि मोक्ष उपासनारूप धर्मका फल हो तो वही प्रिय है, इसलिए प्रियस्पर्शनका निषेध योग्य नहीं है, ऐसा कहते हैं—“धर्मकार्यत्वे हि” इत्यादिसे । परन्तु प्रिय अर्थात् वैपयिक सुखका निषेध है, मोक्ष तो धर्मफल ही है, क्योंकि कर्ममें विचित्र फल देनेकी सामर्थ्य है, ऐसी शङ्का करते हैं—“अशरीरत्वमेव” इत्यादिसे । आत्माका देहके साथ संग न होना शरीर रहित स्थिति है । यह स्थिति अनादि होनेसे कर्मसाध्य नही है, इस बातको “न” इत्यादिसे दिखलाते हैं ।

भाष्य

(क० १।२।२१) 'अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः' (मु० २।१।२) 'असङ्गो ह्ययं पुरुषः' (बृ० ४।३।१५) इत्यादिश्रुतिभ्यः । अत एव अनुष्ठेयकर्मफलविलक्षणं मोक्षारूपमशरीरत्वं नित्यमिति सिद्धम् । तत्र किञ्चित्परिणामिनित्यं यस्मिन्विक्रियमाणेऽपि तदेवेदमिति बुद्धिर्न विहन्यते ।

भाष्यका अनुवाद

शोक नहीं करता) 'अप्राणो' (प्राणरहित, मनरहित, शुद्ध) 'असंगो हि' (यह पुरुष सङ्गरहित है) इत्यादि श्रुतियोंसे यह स्थिति स्वाभाविक ज्ञात होती है । इसी कारण अनुष्ठेय कर्मके फलसे विलक्षण मोक्षसंज्ञक शरीररहित स्थिति नित्य है यह बात सिद्ध है । (नित्य भी दो प्रकारका होता है परिणामी नित्य और पारमार्थिक नित्य) परिणामी नित्य वह कहलाता है, जिसके विकृत होनेपर भी 'वही यह है' ऐसी बुद्धिका नाश नहीं होता, जैसे कि जगत् नित्य है

रत्नप्रभा

अनेकेषु अनित्येषु एकं नित्यम् अवस्थितं महान्तं व्यापिनम् । आपेक्षिकमहत्त्वं वारयति—विभुमिति । तमात्मानं ज्ञात्वा धीरः सन् शोकोपलक्षितं संसारं न अनुभवति इत्यर्थः । सूक्ष्मदेहाभावे श्रुतिमाह—अप्राण इति । प्राणमनसोः क्रियाज्ञानशक्त्यो. निषेधात्, तदधीनानां कर्मज्ञानेन्द्रियाणां निषेधो हि यतः अतः शुद्ध इत्यर्थः । देहद्वयामावे श्रुतिः—“असङ्गो हि” (बृ० ४ । ३ । १५) इति, निर्देहात्मस्वरूपमोक्षस्य अनादिभावत्वे सिद्धे फलितमाह—अत एवेति । नित्यत्वेऽपि परिणामितया धर्मकार्यत्वं मोक्षस्य इत्याशङ्क्य नित्यं द्वेषा विभजते— तत्र किञ्चिदिति । नित्यवस्तुमध्ये इत्यर्थः । परिणामि च तत् नित्यं च इति

रत्नप्रभाका अनुवाद

अशरीर—स्थूलदेहशून्य अनेक अनित्य शरीरोंमें रहनेवाला, महान्—व्यापक । अपेक्षासहित महत्त्वके निवारण करनेके लिए फिर कहते हैं—“विभुम्” । ऐसे आत्मस्वरूपको जानकर धैर्य पाकर शोकयुक्त संसारका अनुभव नहीं करता, यह अर्थ है । सूक्ष्म देहके अभावको दिखलानेके लिए श्रुतिका निर्देश करते हैं—“अप्राण.” इत्यादि से । प्राण और मनका अर्थात् क्रिया-शक्ति और ज्ञानशक्तिका निषेध करनेसे उनके अधीन कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रियोंका निषेध हो गया, इसलिए शुभ्र अर्थात् शुद्ध है । दोनों देहोंके अभावमें श्रुतिका प्रमाण देते हैं—“असङ्गः” इत्यादि । देहरहित आत्मस्वरूप ही मोक्ष है, उसकी अनादिता सिद्ध होनेपर फलितार्थ कहते हैं—“अत एव”-इत्यादिसे । मोक्ष नित्य होनेपर भी परिणामी होनेके कारण धर्मकार्य है ऐसी शङ्का करके नित्यके दो भेद दिखलते हैं—“तत्र किञ्चित्” इत्यादिसे । 'उसमें' अर्थात् नित्य

भाष्य

यथा पृथिव्यादि जगन्नित्यत्ववादिनाम्, यथा च सांख्यानां गुणाः । इदं तु पारमार्थिकं कूटस्थं नित्यं व्योमवत्सर्वव्यापि सर्वविक्रियारहितं नित्यतृप्तं

भाष्यका अनुवाद

ऐसा कहनेवालोंके मतमें पृथिवी आदि, और जैसे कि सांख्योंके मतमें गुण । परन्तु यह वास्तविक कूटस्थं नित्य है, आकाश के समान सर्वव्यापी है, सब विक्रियाओंसे रहित, नित्यतृप्त, निरवयव एवं स्वयंप्रकाशस्वभाव है, जहाँ

रत्नप्रभा

परिणामिनित्यम्, आत्मा तु कूटस्थनित्य इति न कर्मसाध्य इत्याह—इदं त्विति । परिणामिनो नित्यत्वं प्रत्यभिज्ञाकल्पितं मिथ्यैव, कूटस्थस्य तु नाशकाभावात् नित्यत्वं पारमार्थिकम् । कूटस्थत्वासिद्धयर्थं परिस्पन्दाभावमाह—व्योमवदिति । परिणामाभावमाह—सर्वविक्रियारहितमिति । फलानपेक्षित्वात् न फलार्थापि क्रिया इत्याह—नित्यतृप्तमिति । तृप्तिरनपेक्षत्वम्, विशोकं सुखं वा । निरवयत्वात् न क्रिया । तस्य भानार्थमपि न क्रिया स्वयंज्योतिष्त्वात् । अतः

रत्नप्रभाका अनुवाद

वस्तुमें । जो परिणामी भी हो और नित्य भी हो वह परिणामी नित्य है । आत्मा तो कूटस्थ नित्य है अतः मोक्ष कर्मसाध्य नहीं है, ऐसा कहते हैं—“इदं तु” इत्यादिसे । परिणामी पदार्थकी नित्यता प्रत्यभिज्ञासे कल्पित होनेके कारण वस्तुतः मिथ्या है । मोक्ष कूटस्थ है, यह सिद्ध करनेके लिए परिस्पन्द (क्रिया) का अभाव कहते हैं—“व्योमवत्” । परिणामका अभाव कहते हैं—“सर्वविक्रियारहितम्” । फलकी अपेक्षा न होनेसे फलार्थ भी क्रिया नहीं है, ऐसा कहते हैं—“नित्यतृप्तम्” । तृप्ति अर्थात् अपेक्षाका अभाव अथवा शोकरहित सुख । निरवयव होनेसे मोक्ष क्रिया नहीं है । उसके प्रकाशके लिए भी क्रियाको अपेक्षा नहीं है,

(१) 'कूटवत् निश्चलः सन् तिष्ठतीति कूटस्थः' निश्चल रहनेवाला ।

(२) आप ही अपना प्रकाश करना जिसका स्वभाव है ।

(३) 'पूर्वरूपपरित्यागे सति नानाकारप्रतिभासः परिणामः' । पूर्वरूपका परित्याग होनेपर नाना प्रकारसे दिखावे देना परिणाम है । उत्पत्ति और नाश विहित अवस्था परिणाम है । पृथिवी किसी समय वृण, वृक्ष आदि अवस्था प्राप्त करती है और वृण आदिका नाश होनेपर सृष्टिका आदिकी अवस्था प्राप्त करती है । दोनों अवस्थाओंमें पृथिवी अनुस्यूत (पोरं दुर्दं) हा है । इसलिये वह परिणामी नित्य है । इसी प्रकार सब द्रव्य परिणामी नित्य समझने चाहिये । सत्, रज और तम ये तान गुण हैं । ये प्रलय कालमें साम्यात्मक प्रधान अवस्थाको प्राप्त करते हैं, सृष्टिमें गुणोंकी प्रधानताके अनुसार सत्, इ रज और मोह आदि अवस्थाओंको प्राप्त करते हैं । दोनों अवस्थाओंमें गुण अनुस्यूत ही हैं ।

भाष्य

निरवयं स्वयंज्योतिःस्वभावम् । यत्र धर्माधर्मौ सह कार्येण कालत्रयं च नोपावर्तते । तदेतदशरीरत्वं मोक्षाख्यम् । 'अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च' (क० २।१४) इत्यादि-श्रुतिभ्यः । अतस्तद्ब्रह्म यस्येयं जिज्ञासा प्रस्तुता । तद्यदि कर्तव्य-भाष्यका अनुवाद

धर्म और अधर्म अपने कार्य (सुप्त-दु.र) के साथ तीनों कालमें भी सम्बन्ध नहीं रख सकते । वह 'अन्यत्र धर्मा०' (धर्मसे, अधर्मसे, कार्यसे, कारणसे, भूतसे, भविष्यसे, और वर्तमानसे पृथक् है) इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध शरीर-रहित स्थिति मोक्ष है । इसलिए कर्मफलसे विलक्षण होनेके कारण वह मोक्ष ब्रह्म है, जिसकी जिज्ञासा प्रस्तुत है । यदि वह कार्यशेष है ऐसा शास्त्रसे उपदेश

रत्नप्रभा

कूटस्थत्वात् न कर्मसाध्यो मोक्ष इत्युक्तम् । कर्मतत्कार्यासंगित्वात् च तथा इत्याह—यत्रेति । कालानवच्छिन्नत्वात् च इत्याह—कालेति । कालत्रयं च न उपावर्तते इति योग्यतया सम्बन्धनीयम् । धर्माद्यनवच्छेदे मानमाह—अन्यत्रेति । अन्य-दित्यर्थः । कृतात् कार्यात् । अकृतात् च कारणात् । भूतात्, भव्याच्च । चकारात् वर्तमानात् च । अन्यद् यत् पश्यसि तत् वह इत्यर्थः । ननुक्ताः श्रुतयो ब्रह्मणः कूटस्थासङ्गित्वं वदन्तु मोक्षस्य नियोगफलत्वं किं न स्यात् इति तत्राह—अत इति । तत् कैवल्यं ब्रह्मैव, कर्मफलविलक्षणत्वात् इत्यर्थः । ब्रह्मामेदाद्

रत्नप्रभाका अनुवाद

क्योंकि वह स्वयंप्रकाश है । इससे अर्थात् कूटस्थ होनेसे मोक्ष कर्मसाध्य नहीं है, ऐसा पहले कहा गया है । कर्म और कर्मके फलका संग न होनेसे भी मोक्ष कर्मसाध्य नहीं है, ऐसा कहते हैं—'यत्र' इत्यादिसे । कालसे अवच्छिन्न नहीं है, इसलिए भी कर्मसाध्य नहीं है, ऐसा कहते हैं—'काल' इत्यादिसे । 'धर्माधर्मौ नोपावर्तते' ऐसा अन्वय लगाकर 'कालत्रयं च नोपावर्तते' ऐसा अन्वय करना चाहिए, क्योंकि 'कालत्रयम्' यह एवंचनान्त शब्द है । धर्म आदिसे अवच्छिन्न नहीं है, इसमें प्रमाण देते हैं—'अन्यत्र' इत्यादिसे । 'अन्यत्र'—अन्यत्, दूसरा । कृत—कार्य । अकृत—कारण । भूत—गत काल । भव्य—भविष्यत् काल । 'च' कारसे वर्तमान काल समझना चाहिए । इन रूपसे विलक्षण जिसे देखते हो, उसे वही ऐसा तात्पर्य है । उक्त श्रुतिया भले ही कहें कि ब्रह्म कूटस्थ और असङ्ग है, परन्तु मोक्ष कर्मफल क्यों न हो, इस शङ्कापर कहते हैं—'अत' इत्यादि । 'वह' अर्थात् कैवल्य—मोक्ष ब्रह्म ही है, कर्मफलसे विलक्षण होनेसे, ऐसा अर्थ है । मोक्ष ब्रह्ममे भिन्न नहीं है, इसलिए

भाष्य

शेषत्वेनोपदिश्येत तेन च कर्तव्येन साध्यश्चेन्मोक्षोऽभ्युपगम्येत, अनित्य एव स्यात् । तत्रैवं सति यथोक्तकर्मफलेष्वेव तारतम्यावस्थितेष्वनित्येषु कश्चिदतिशयो मोक्ष इति प्रसज्येत । नित्यश्च मोक्षः सर्वमोक्षवादिभि-

भाष्यका अनुवाद

हो और मोक्ष कार्यसाध्य है ऐसा अंगीकार किया जाय तो वह अनित्य ही होगा । मोक्षमें अनित्यता सिद्ध होनेपर न्यूनाधिक भावसे स्थित यथोक्त अनित्य कर्मफलोंमें ही कुछ अतिशय मोक्ष है ऐसा मानना पड़ेगा । परन्तु

रत्नप्रभा

मोक्षस्य कूटस्थत्वं धर्माद्यसङ्गित्वं च इति भावः । यद्वा, यद् जिज्ञास्यं तद् ब्रह्म अतः पृथक् जिज्ञास्यत्वात् धर्माद्यसंपृष्टमित्यर्थः । अतश्शब्दाभावपाठेऽपि अयमेव अर्थः । ब्रह्मणो विधिस्पर्शे शास्त्रपृथक्त्वं न स्यात्, कार्यविलक्षणानधिगत-विषयालाभात् । नहि ब्रह्मात्मैक्यं भेदप्रमाणे जाग्रति विधिपरवाक्यात् लब्धुं शक्यम्, न वा तद्विना विधेरनुपपत्तिः, योपिदग्न्यैक्योपास्तिविधिदर्शनात् इति भावः । अथवा मोक्षस्य नियोगासाध्यत्वे फलितं सूत्रार्थमाह—अत इति । यदत्र जिज्ञास्यं ब्रह्म तत् स्वतन्त्रमेव वेदान्तरूपदिश्यते, समन्वयादित्यर्थः । विपक्षे दण्डं पातयति—तद्यदीति । तत्रैवं सतीति । मोक्षे साध्यत्वेन अनित्ये सति इत्यर्थः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

कूटस्थ और धर्म आदिके संगसे रहित है ऐसा समझना चाहिए । अथवा इस प्रकार भाष्यकी योजना करनी चाहिए—जो जिज्ञास्य है वह ब्रह्म है, अतः—ब्रह्मजिज्ञासा पृथक् कही गई है, इसलिए ब्रह्म धर्म आदिके स्पर्शसे रहित है । यदि भाष्यमें 'अतः' शब्दका पाठ न हो, तो भी उस वाक्यका यही अर्थ समझना चाहिए । आशय यह है कि यदि ब्रह्मका क्रियासे संसर्ग होता तो उत्तरमीमांसा शास्त्र पूर्वमीमांसासे पृथक् न होता, क्योंकि तब उत्तरमीमांसा द्वारा क्रियासे विलक्षण कोई अज्ञात विषय प्रतीत हो न होता । भेद-प्रमाणके रहते हुए विधिपरक वाक्यसे ब्रह्मात्मैकरूप विषय प्राप्त नहीं हो सकता है । वास्तव ऐक्यके बिना विधिकी अनुपपत्ति तो नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक ऐक्य न रहनेपर भी आरोपित ऐक्यसे उपासना द्वारा विधिकी उपपत्ति हो सकती है, यह बात योपि और अग्निके ऐक्यकी उपासनामें देरी गई है । अथवा मोक्षके कर्ममें जन्य न होनेके कारण सूत्रका जो फलितार्थ होता है, उसे "अतः" इत्यादिमें कहते हैं । तात्पर्य यह है कि वेदान्तशास्त्रमें जिसकी जिज्ञासा होती है, वह ब्रह्म स्वतन्त्र ही वेदान्त वाक्योंसे उपादेय होता है, क्योंकि उन वाक्योंका समन्वय ब्रह्ममे ही है । विपरीत पक्ष स्वीकार करनेमें हानि दिखाते हैं—"तद्यदि" इत्यादिसे । "तत्रैवं सति" मोक्षके साध्य होनेमें अनित्य होनेपर ।

भाष्य

रभ्युपगम्यते, अतो न कर्तव्यशेषत्वेन ब्रह्मोपदेशो युक्तः । अपि च 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' (मु० ३।२।९), 'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे' (मु० २।२।८), 'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्, न विभेति कुतश्चन' (तै० २।९), 'अभयं वै जनक प्राप्नोऽसि' (वृ० ४।२।४),

भाष्यका अनुवाद

सब मोक्षवादी अंगीकार करते हैं कि मोक्ष नित्य है । इस कारण कार्यके अङ्गरूपसे ब्रह्मका उपदेश करना संगत नहीं होता । और 'ब्रह्म वेद०' (जो ब्रह्मको जानता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है) क्षीयन्ते चास्य०' (पर-सम्पूर्ण देवताओंकी अपेक्षा उत्कृष्ट हिरण्यगर्भ आदि भी जिससे अवर-निकृष्ट हैं, उसको देखनेपर अथवा कारण और कार्यके अधिष्ठानरूप ब्रह्मको देखनेपर द्रष्टाके प्रारब्धेतर संचित और आगामी सब कर्म नष्ट हो जाते हैं) 'आनन्दं०' (ब्रह्मके स्वरूप आनन्द-को जाननेवाला किसीसे भय नहीं करता) 'अभयं०' (हे जनक ! तू अभय-

रत्नप्रभा

अत इति । मुक्तेर्नियोगासाध्यत्वेन नियोज्याभावात् कर्तव्यनियोगाभावात् इत्यर्थः । प्रदीपात् तमोनिवृत्तिवत् ज्ञानात् अज्ञाननिवृत्तिरूपमोक्षस्य दृष्टफलत्वात् च न नियोग-साध्यत्वम् इत्याह—अपि चेति । यो 'ब्रह्म अहम्' इति वेद, स ब्रह्मैव भवति । परं कारणम्, अवरं कार्यम्, तद्रूपे तदधिष्ठाने तस्मिन् दृष्टे सति अस्य द्रष्टु अना-रब्धफलानि कर्माणि नश्यन्ति । ब्रह्मणः स्वरूपमानन्दं विद्वान् निर्भयो भवति, द्वितीयाभावात् । 'अभयं ब्रह्म प्राप्नोऽसि' अज्ञानहानात् । तत् जीवाख्य ब्रह्म गुरुपदेशात् आत्मानमेव अहं ब्रह्मास्मि इति अवेद् विदितवत् । तस्मात् वेद-नाद् ब्रह्म पूर्णमभयत्, परिच्छेदभ्रान्तिहानादेकत्वम्, "अहं ब्रह्म" इत्यनुभवतः

रत्नप्रभाका अनुवाद

"अत " अर्थात् मुक्ति नियोग (अपूर्व) जन्य नहा है, इसलिए नियोज्य पुरुषमा लभ नहीं होता, और नियोज्यकेन होनेसे कर्तव्य नियोग ही न रहेगा । प्रदीपसे अन्धकारकी निवृत्तिकी तरह ज्ञानसे अज्ञाननिवृत्तिरूप मोक्ष दृष्टफल है, इसलिए मुक्ति नियोगसाध्य नहीं है ऐसा कहते हैं—"अपि च" इत्यादिसे । जो 'मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा समझता है वह ब्रह्म ही हो जाता है । पर-कारण, अवर-कार्य, तद्रूप-उत्तरेके अधिष्ठान आत्माका साक्षात्कार होनेपर द्रष्टाके अनारब्धफल (जिनके फलका आरम्भ नहा हुआ है) कर्म नष्ट हो जाते हैं । ब्रह्मके स्वरूप आनन्दको जाननेवाला द्वितीय पदार्थ न होनेके कारण भयरहित होता है । अज्ञानका नाश होनेसे अभय—ब्रह्मको प्राप्त हुए हो । उस जीवसत्त्व ब्रह्मने ब्रह्मवेत्ता गुरुके उपदेशसे अपनेको 'अहं ब्रह्मास्मि' इस प्रकार जाना । उस ज्ञानमे वह ब्रह्म पूर्ण हुआ । जीव ब्रह्ममे भिन्न है इस ध्रमका नाश

भाष्य

‘तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति’ ‘तस्मात्तत्सर्वमभवत्’ (बृ० १।४।१०),
 ‘तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः’ (ई० ७) इत्येव-
 माद्याः श्रुतयो ब्रह्मविद्यानन्तरं मोक्षं दर्शयन्त्यो मध्ये कार्यान्तरं
 वारयन्ति । तथा ‘तद्वैतत् पश्यन्वृषिर्वाग्मदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूर्यथ’
 (बृ० १।४।१०) इति ब्रह्मदर्शनसर्वात्मभावयोर्मध्ये कर्तव्यान्तरवारणाय

भाष्यका अनुवाद

ब्रह्मको प्राप्त हुआ है) ‘तदात्मानमेव०’ (अज्ञान के नाश होने के कारण जीवसंज्ञक
 ब्रह्मने गुरुके उपदेशसे अपनेको ही ‘मैं ब्रह्म हूँ’ ऐसा जाना) ‘तस्मान्०’ (उस ज्ञानसे
 वह पूर्ण हुआ) ‘तत्र को मोहः०’ (एकत्वके अनुभवसे विद्वानको अनुभव समयमें शोक
 और मोह नहीं होते हैं) इत्यादि श्रुतियाँ ब्रह्मज्ञानके अनन्तर मोक्ष दिखलाती हुई
 ब्रह्मज्ञान और मोक्षके मध्यमें कार्यान्तरका कारण करती हैं। इसी प्रकार ‘तद्वैतत्०’
 (वह ब्रह्म मैं (प्रत्यगात्मा) हूँ, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर उस ज्ञानसे वामदेव मुनीन्द्र शुद्ध
 ब्रह्म हुए, उन्होंने मैं मनु हूँ, मैं सूर्य हूँ ऐसा देखा) इस श्रुतिको ब्रह्मदर्शन और
 सर्वात्मभावके मध्यमें कार्यान्तरका प्रतिपेध करनेके लिए उदाहरण रूपसे कहना

रत्नप्रभा

तत्र अनुभवकाले मोहशोकौ न स्त इति श्रुतीनामर्थः । तासां तात्पर्यमाह—
 ब्रह्मेति । विद्यातत्फलयोर्मध्ये इत्यर्थः । मोक्षस्य विधिफलत्वे स्वर्गादिवत्
 कालान्तरभावित्वं स्यात् । तथा च श्रुतिबाध इति भावः । इतश्च मोक्षो
 वैधो न इत्याह—तथेति । तद् ब्रह्म एतत् प्रत्यगस्मि इति पश्यन् तस्मात्
 ज्ञानाद् वामदेवो मुनीन्द्रः शुद्धं ब्रह्म प्रतिपेदे ह तत्र ज्ञाने तिष्ठन् दृष्टवान् आरम-
 मन्त्रान् स्वस्य सर्वात्मत्वप्रकाशकान् ‘अहं मनुः’—इत्यादीन् ददर्श इत्यर्थः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

होनेसे ऐक्यज्ञान होता है । ‘मैं ब्रह्म हूँ’ इस अनुभवसे अनुभव करनेवालेको अनुभव कालमें
 मोह और शोक नहीं होते । ऐसा श्रुतियोंका अर्थ है । “ब्रह्म” इत्यादिसे उन श्रुतियोंका
 तात्पर्य कहते हैं । ‘मध्ये’ का अर्थ ब्रह्मज्ञान और उसके फलके बीचमें, ऐसा समझना
 चाहिए । यदि मोक्ष विधिका फल हो तो स्वर्ग आदिके समान कालान्तरमें होनेवाला हो,
 और यदि ऐसा मानें, तो श्रुति बाधित हो जायगी । और इस दूसरे कारणसे भी मोक्ष
 विधिकार्य नहीं है ऐसा कहते हैं—‘तथा’ इत्यादिसे । तात्पर्य यह है कि “ब्रह्म मैं हूँ” ऐसा
 ज्ञान प्राप्त कर वामदेव मुनीन्द्र शुद्ध ब्रह्मस्वरूप हुए, उस ज्ञानमें स्थित होकर उन्होंने अपनी
 सर्वात्मताके प्रकाशक ‘अहं मनुः’ ‘अहं सूर्यः’ इत्यादि मन्त्रोंको देखा । यद्यपि ‘तिष्ठन् गायति’

भाष्य

उदाहार्यम् । यथा तिष्ठन् गायतीति तिष्ठतिगायत्योर्मध्ये तत्कर्तृकं कार्यान्तरं नास्तीति गम्यते । 'त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः परं पारं

भाष्यका अनुवाद

चाहिए । जैसे कि 'खड़ा होकर गाता है' इसमें खड़े होने और गानेकी क्रियाके बीचमें उस कर्ताका कार्यान्तर नहीं है ऐसा मालूम होता है । 'त्वं हि नः पिता०' (आप हमारे पिता हैं जो आप हमको अविद्यारूप महासागरके

रत्नप्रभा

यद्यपि स्थितिर्गानक्रियाया लक्षणम्, ब्रह्मदर्शनं तु ब्रह्मप्रतिपत्तिक्रियाया हेतुः इति वैपम्यमस्ति, तथापि "लक्षणहेत्वोः क्रियायाः" (पा० सू० ३।२।१२६) इति सूत्रेण क्रियां प्रति लक्षणहेत्वोः अर्थयोः वर्तमानात् धातोः परस्य लटः शतृ-ज्ञानचौ आदेशौ भवत इति विहितशतृप्रत्ययसामर्थ्यात् तिष्ठन् गायति इत्युक्ते तत्कर्तृकं कार्यान्तरं मध्ये न भातीत्येतावता पश्यन् प्रतिपेदे इत्यस्य दृष्टान्तमाह— यथेति । किञ्च, ज्ञानात् अज्ञाननिवृत्तिः श्रूयते, ज्ञानस्य विधेयत्वे कर्मत्वात् अविद्यानिवर्तकत्वं न युक्तम्, अतो बोधका एव वेदान्ता न विधायका इत्याह— त्वं हीति । भारद्वाजादयः पङ्कपयः पिप्पलादं गुरुं पादयोः प्रणम्य ऊचिरे— त्वं खलु अस्माकं पिता यस्त्वम् अविद्यामहोदधेः परं पुनरावृत्तिशून्यं पारं ब्रह्म

रत्नप्रभाका अनुवाद

(खड़ा होकर गाता है) इसमें 'खड़ा होना' गान क्रियाका लक्षण है और ब्रह्मदर्शन ब्रह्मप्राप्ति-रूप क्रियाका कारण है, इस प्रकार दृष्टान्त (तिष्ठन् गायति) और दार्ष्टान्तिक (पश्यन् प्रतिपेदे) में वैपम्य है, तो भी 'लक्षण०' इस सूत्रके अनुसार क्रियाका लक्षण और हेतुके अर्थमें वर्तमान धातुसे पीछे लटके स्थानपर शतृ और ज्ञानच् आदेश होते हैं, इस शतृ प्रत्ययकी सामर्थ्यसे 'तिष्ठन् गायति' ऐसा कहा अर्थात् यही कर्ताका कार्यान्तर, स्थिति और गान, इन दो क्रियाओंके बीचमें नहीं है, इतनेसे ही 'पश्यन् प्रतिपेदे' इनका दृष्टान्त होता है, ऐसा कहते हैं—'यथा' इत्यादिसे । और ज्ञानसे अज्ञानकी निवृत्ति धृति प्रतिपादित है, ज्ञानको यदि विधेय मानें तो वह कर्म हो जायगा, और कर्मसे और अज्ञानसे विरोध न होनेके कारण वह अविद्याकी निवृत्ति करनेवाला नहीं हो सकता, इसलिए वेदान्त बौद्ध ही हैं, विधायक नहीं हैं ऐसा कहते हैं—'त्वं हि' इत्यादिसे । भारद्वाज आदि छ. ऋषियोंने पिप्पलाद गुरुके चरणोंमें नमस्कार करके कहा—'वस्तुतः आप हमारे पिता हैं आप अविद्यारूप

(१) जिसके लिए दृष्टान्त दिया जाय वह दार्ष्टान्तिक । (२) भेद, विपमता । (३) दूसरा कार्य ।

(४) वेदान्तवाक्य महाका बोध कराते हैं, विधान नहीं करते ।

भाष्य

तारयसि' (प्र० ६।८) 'श्रुत होव मे भगवद्दृशेभ्यस्तरति शोकमात्म-
विदिति सोऽहं भगवः शोचामि तन्मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयतु'
(छा० ७।१।३) 'तस्मै मृदितकपायाय तमसः पारं दर्शयति
भगवान् सनत्कुमारः' (छा० ७।२६।२) इति चैवमाद्याः श्रुतयो

भाष्यका अनुवाद

पर पार पहुँचाते हैं) 'श्रुतं होव०' (आत्माको जाननेवाला शोकसे तर जाता है, ऐसा मैंने भगवत्तुल्य पुरुषोंसे केवल सुना है, (देखा नहीं अर्थात् मुझे अनुभव नहीं है) हे भगवन् ! वह मैं शोक करता हूँ । शोक करते हुए मुझको भगवान् ज्ञानरूपी नावसे शोकसागरके पार उतार दीजिए) 'तस्मै मृदित०' (भगवान् सनत्कुमारने उस दग्धपाप नारदको अज्ञानसे परे अर्थात् ब्रह्म दिखलाया) इत्यादि

रत्नप्रभा

विद्याप्लवेन अस्मान् तारयसि प्रापयसि, ज्ञानेन अज्ञानं नाशयसि इति यावत् । प्रश्नवाक्यम् उक्त्वा छान्दोग्यमाह—श्रुतमिति । अत्र तारयतु इत्यन्तम् उपक्रमस्थम्, शेषम् उपसंहारस्थमिति भेदः । आत्मवित् शोकं तरति इति 'भगवत्तुल्येभ्यो मया श्रुतमेव हि न दृष्टम्, सोऽहमज्ञत्वात् हे भगवः शोचामि, तं शोचन्तं मां भगवानेव ज्ञानप्लवेन शोकसागरस्य परं पारं प्रापयतु इति नारदेन उक्तः सनत्कुमारस्तस्मै तपसा दग्धकिल्बिषाय नारदाय तमसः शोकनिदानाज्ञानस्य ज्ञानेन निवृत्तिरूपं परं पारं ब्रह्म दर्शितवानित्यर्थः । 'एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रन्थि विकिरति' इति वाक्यम् आदिशब्दार्थः । एवं श्रुतेस्तत्त्व-

रत्नप्रभाका अनुवाद

महासागरसे पर पार आवागमन रहित ब्रह्मको विद्यारूपी नावसे हमें प्राप्त कराओगे अर्थात् आप ज्ञानके उपदेशसे हमारे अज्ञानका नाश करोगे' । प्रश्नोपनिषद्का वाक्य कहकर छान्दोग्यका वाक्य कहते हैं—“श्रुतम्” इत्यादि । इसमें 'तारयतु' पर्यन्त उपक्रम वाक्य है और शेष उपसंहार वाक्य है, यह भेद है । नारदने सनत्कुमारसे कहा—मैंने आप रारीसे ज्ञानियोंसे सुना है कि आत्मज्ञ शोकको पार कर जाता है, परन्तु देखा नहीं है, मैं अज्ञ हूँ, इसलिए हे भगवन् ! शोच करता हूँ, शोक करते हुए मुझको आप ज्ञानरूपी नाव द्वारा शोक सागरसे पार ले जाइये । तब सनत्कुमारने तपसे निष्पाप हुए नारदको शोकके मूलकारणभूत अज्ञानना ज्ञानगे निवृत्तिरूप परपार अर्थात् ब्रह्म दर्शाया । 'एतद्यो०' (जो हम गुहामें स्थित—गुप्त ब्रह्मसे जानता है, वह अविद्याकी गोंठको तोड़ता है) यह वाक्य 'आदि शब्द' का अर्थ है । इस प्रकार श्रुतिसे तत्त्वज्ञान सुफेका देतु है, कर्म नहा ऐसा कहा है । इसमें गौतम

भाष्य

मोक्षप्रतिबन्धनिवृत्तिमात्रमेवात्मज्ञानस्य फलं दर्शयन्ति । तथा चाचार्य-
प्रणीतं न्यायोपबृंहितं सूत्रम्—‘दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरो-
त्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः’ [न्या० सू० १ । १ । २] इति ।

भाष्यका अनुवाद

श्रुतियाँ दिखलाती हैं कि मोक्षके प्रतिबन्धकी निवृत्ति ही आत्मज्ञानका फल है ।
इसी प्रकार न्यायसे पुष्ट हुआ आचार्य (गौतम) रचित सूत्र है—‘दुःखजन्म०’
(दुःख, जन्म, प्रवृत्ति—धर्म और अधर्म, दोष एवं मिथ्याज्ञान, इनमें कारणरूप
उत्तरोत्तरका नाश होनेसे उसके पूर्व पूर्व कार्यका नाश होकर मोक्ष प्राप्त होता है)

रत्नप्रभा

प्रमा मुक्तिहेतुर्न कर्म इत्युक्तम् । तत्र अक्षपादगौतममुनिसम्प्रतिमाह—तथा चेति ।
गैरोऽहमिति मिथ्याज्ञानस्य अपाये रागद्वेषमोहादिदोषाणां नाशः, दोषापायाद्
धर्मधर्मस्वरूपप्रवृत्तेरपायः, प्रवृत्त्यपायात्पुनर्देहप्राप्तिरूपजन्मापायः, एवं पाठक्रमेण
उत्तरोत्तरस्य हेतुनाशात् नाशे सति तस्य प्रवृत्तिरूपहेतोः अनन्तरस्य कार्यस्य जन्म-
नोऽपायात् दुःखध्वंसरूपोऽपवर्गो भवति इत्यर्थः । ननु पूर्वसूत्रे “तत्त्वज्ञानात् निः-
श्रेयसाधिगमः” (गौ० सू० १।१।२) इत्युक्ते सति इतरपदार्थभिन्नात्मतत्त्वज्ञानं
कथं मोक्षं साधयति इत्याकाङ्क्षायां मिथ्याज्ञाननिवृत्तिद्वारेण इति वक्तुमिदं
सूत्रं प्रवृत्तम् । तथा च भिन्नात्मज्ञानात् मुक्तिं वदत्सूत्रं सम्मतं चेत् परमतानुज्ञा
स्यात् इत्यत आह—मिथ्येति । तत्त्वज्ञानात् मुक्तिरित्यंशे सम्प्रतिः उक्ता ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

मुनिकी सम्प्रति कहते हैं—“तथा च” इत्यादिसे । मैं गौरा हू इत्यादि मिथ्याज्ञानके नाशसे राग,
द्वेष, मोह आदि दोषोंका नाश होता है । दोषोंके नाशसे धर्म और अधर्मरूप प्रवृत्तिका नाश
होता है । प्रवृत्तिके नाशसे पुनः देहप्राप्तिरूप जन्मका नाश होता है । इन प्रकार पाठके
क्रमसे उत्तरोत्तर स्थित कारणके नाशसे पूर्व पूर्व स्थित कार्यका नाश होनेपर प्रवृत्तिरूप कारणके
नाशसे कार्यरूप जन्मका नाश होता है, उससे दुःखध्वंसरूप मोक्ष प्राप्त होता है, यह अर्थ
है । यहाँ कोई शङ्का करे कि गौतम महर्षिने पूर्वसूत्रमें ‘तत्त्व०’ (तत्त्वज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति
होती है) ऐसा कहा है, तो इतर पदार्थोंसे भिन्न आत्मतत्त्वके ज्ञानसे मोक्षकी सिद्धि किस
प्रकार सिद्ध होती है ? ऐसी आकाङ्क्षा होनेपर मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति द्वारा ऐसा कहनेके लिए
यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है । यदि भिन्नात्मज्ञानसे अर्थात् भेदज्ञानसे मुक्तिका प्रतिपादन करनेवाला
यह सूत्र सम्मत हो, तो परमत—गौतममतका स्वीकार हो जायगा, इस सम्यन्धमें कहते
हैं—“मिथ्या” इत्यादि । तत्त्वज्ञानसे मुक्ति होती है इतने ही अंशमें सम्प्रति कहें

भाष्य

मिथ्याज्ञानापायश्च ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानाद्भवति । न चेदं ब्रह्मात्मैकत्व-
विज्ञानं सम्पद्रूपम्, यथा 'अनन्तं वै मनोऽनन्ता विश्वेदेवा अनन्तमेव स

भाष्यका अनुवाद

और मिथ्याज्ञानका नाश तो ब्रह्म और आत्माके एकत्वज्ञानसे होता है ।
ब्रह्म और आत्माका यह एकत्वज्ञान सपद्रूप नहीं है जैसे 'अनन्तं वै०' (मन

रत्नप्रभा

भेदज्ञान तु "यत्र हि द्वैतमिव भवति" (वृ० २।४।१४) इति श्रुत्या भ्रान्तित्वात्
"मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति" (वृ० ४।४।१९) इति श्रुत्या
अनर्थहेतुत्वात् च न मुक्तिहेतुरिति भाव । ननु ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानमपि भेद-
ज्ञानवत् न प्रमा सम्पन्नदिरूपत्वेन भ्रान्तित्वात् इत्यत आह—न चेदमित्यादिना ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

है । भेदज्ञान तो 'यत्र हि०' (जहाँ द्वैतकी तरह होता है) इस धृतिसे भ्रान्तिरूप है, और
'मृत्यो स०' (जो यहाँ भेदघटि रखता है वह जन्म-मरण परम्परामें पड जाता है) इस धृतिसे
अनर्थका कारण भी है, इसलिए भेदज्ञान मुक्तिका कारण नहा है, यह तात्पर्य है । यहाँ शङ्का
होती है कि ब्रह्म और आत्माका एकत्वज्ञान भी भेदज्ञानके समान प्रमा नहा है, क्योंकि
मपदादिरूप है, इसलिए भ्रान्तिरूप है । इससे उत्तरमें कहते हैं—"न चेदम्" इत्यादि ।

(१) अनन्त होनेके कारण अथ मन महान् विश्वेदेवों का है, इसलिए मनमें विश्वेदेवोंका सम्पा-
दन करके मनरूप आलम्बनको आविष्टमान सा करके प्रधानरूपसे सपथमान विश्वेदेवोंका अनु-
चिन्तन करना और उसमें अनन्तलोक प्राप्तिकरूप फल प्राप्त करना, यह जैसे धृतिप्रतिपादित है,
उस प्रकार चैतन्यरूप साम्यमें अल्प जीवको महान् ब्रह्मरूप संपादन करके जीवरूप आलम्बनको
आविष्टमान सा करके प्रधान रूपमें ब्रह्मका अनुचिन्तन करना सपथ और उससे अमृतत्व प्राप्त
करना फल है । यह शङ्काका तात्पर्य है । सिद्धान्तका तात्पर्य यह है कि उसकी सम्पद्रूपता
कर्मसम्बद्ध उपासनारूप है । कर्मसम्बद्ध उपासना 'अथ सम्पद' इम धृतिके स्वार्थानके
अन्तरमें बृहदारण्यकभाष्यमें और उसके वार्तिकमें सम्पद्रूपसे वर्णित है । अग्निहोत्र आदि
अल्प कर्मोंमें शास्त्रानुसार महान् कर्मोंकी बुद्धिसे सम्पादन, महान् कर्मके फलका कामनासे क्रिय
माण उपासना सम्पद है । अथवा अश्वमेध आदि महान् कर्मोंको पूण रीतिसे करनेमें असमर्थ पश्य
उसके अङ्गरूप मादित्यवा अनुष्ठान करे, उसमें अङ्गलापसे होनेवाले दोषक परिहारके लिए और
शास्त्रानुसार फलसिद्धिके लिए उम अङ्गके आश्रयसे जो उपासना की जाती है, वह साङ्ग कर्मकी फल
संपादक है, इसलिए उसे सपद कहते हैं । इस विषयमें वार्तिक—'फलवत्त्वमेणां षापि विञ्जिता
भाष्यसम्पदात् । सम्पत्तिर्मेहनां सम्पद अन्वीय कर्मवृत्त्यते ॥ यदि वा तत्फलस्यैव किञ्चित्तामान्य
वर्धना । सम्पादन भवेत् सम्पदमिहोपादिवर्गणि ॥ नातिभारोऽस्ति नो बुद्धे शास्त्र चैत्त्पर

रत्नप्रभा

अल्पालम्बनतिरस्कारेण उत्कृष्टवस्त्वभेदध्यानं सम्पद्, यथा मनः स्वघृत्त्यानन्त्यात् अनन्तम्, तत उत्कृष्टा विश्वेदेवा अपि अनन्ता इत्यनन्तत्वसाम्याद् 'विश्वेदेवा एव मनः' इति सम्पत्, तथाऽनन्तफलप्राप्तिर्भवति तथा चेतनत्वसाम्यात् जीवे ब्रह्माभेदः सम्पद् इति न चेत्यर्थः । आलम्बनस्य प्राधान्येन ध्यानम्, प्रतीकोपास्तितः अध्यासः । यथा ब्रह्मदृष्ट्या मनसः, आदित्यस्य वा । तथा अहं ब्रह्म

रत्नप्रभाका अनुवाद

अल्प आलम्बनके तिरस्कारसे उत्कृष्टवस्तुके साथ अभेदज्ञान संपत् है । जैसे कि श्रुति अनन्त होनेसे मन अनन्त है, मनसे उत्कृष्ट विश्वेदेव भी अनन्त हैं, इस प्रकार अनन्ततारूप सादृश्यसे विश्वेदेव ही मन हैं यह संपत् है और इससे अनन्त फलकी प्राप्ति होती है । इसी प्रकार चेतनत्वरूप सादृश्यसे जीवमें ब्रह्मका अभेद संपत् है, यह कथन ठीक नही है । प्रधानतासे आलम्बनका ध्यान करना प्रतीकोपासना है, उसीको अध्यास कहते हैं । जैसे ब्रह्म भावनासे मनकी अथवा सूर्यकी उपासना करना अध्यास है, जैसे 'अहं ब्रह्म' यह ज्ञान

भवेत् । त्रिदुपा भ्रयसोऽतोऽध्या न कश्चित्प्रतिहन्त्यते ।" (अधिक फलवाले अश्वमेध आदि कर्मोंका कर्मत्व आदि कुछ सादृश्यसे अग्निहोत्र आदि किसी अत्यल्प कर्ममें सम्पादन अर्थात् यथाशक्ति अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए 'मैं अश्वमेध आदि कर्म कर रहा हूँ' ऐसा ध्यान करना सम्पत् कहलाता है । अथवा अग्निहोत्र आदि किसी कर्मके आलम्बनसे अश्वमेध आदि कर्मोंके फलका सम्पादन करना सम्पत् है । यदि शास्त्रका तात्पर्य हो कि सम्पत्से भी अश्वमेध आदि कर्मका फल प्राप्त होता है तो 'अश्वमेध आदि कर्मका उच्च फल अत्यल्प अग्निहोत्र आदि कर्ममें सम्पत्से कैसे प्राप्त हो सकता है ?' जेमी शङ्का न करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र शङ्कनीय नहीं है, इसलिए उस मार्गमें विद्वानोंके कल्याणमें कोई रुकावट नहीं है अर्थात् जो ब्राह्मण आदि अश्वमेध आदि यज्ञ नहीं कर सकते हैं, वे भी संपत्से यज्ञका फल प्राप्त कर सकेंगे) इसलिए जैसे 'याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरयमथ ब्रह्मा यज्ञ दाक्षिणतो देवताभिर्गापायतीत्येकयेति कतमा सैकेति मन एवेत्यनन्त वै मनोऽनन्ता विश्वेदेवा अनन्तमेव स तेन लोक जयति, (इ० ३।१।९) (याज्ञवल्क्यसे अथल नामक होताने पूछा कि हे याज्ञवल्क्य ! यह ऋत्विग् ब्रह्मा जो दाक्षिणमें आसनपर बैठकर यज्ञका रक्षण करता है, वह कितने देवताओं द्वारा रक्षण करता है ? याज्ञवल्क्यने कहा—एक देवता द्वारा । अथल—कौन एक देवता है ? याज्ञवल्क्य मन ही वह देवता है, मनसे ही ब्रह्मा ध्यान द्वारा व्यापार करता है । ['तस्य यज्ञस्य मनश्च वाक् च वर्तनी तयोरन्यतरा मनसा सरस्वरोति ब्रह्मा' (उम यज्ञके मन और वाणी दो' मार्ग हैं, उन दोनोंमें वाणीका ब्रह्मा मनसे सरस्वार करता है] इसलिए मनरूपी देवता द्वारा ब्रह्मा यज्ञका रक्षण करता है । यह मन वृत्तिभेदसे अनन्त है । 'वै' शब्द प्रसिद्धिवाचक है । उस अनन्तताके अभिमानी देव अनन्त विश्वेदेव हैं । जन मनमें विश्वेदेवोंकी दृष्टिसे अनन्तलोककी प्राप्ति होती है) इस वचनमें विहित उपासना सम्पदरूप है, उसी प्रकार ब्रह्मात्मैक्यज्ञान भी सम्पदरूप है ।

भाष्य

तेन लोकं जयति, (वृ० ३।१।९) इति । न चाध्यासरूपम्, यथा 'मनो ब्रह्मेत्युपासीत' (छा० ३।१८।१) 'आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः' (छा० ३।१९।१) इति च मनआदित्यादिषु ब्रह्मदृष्ट्यध्यासः । नापि विशिष्टक्रियायोगनिमित्तम्, 'वायुर्वाव संवर्गः' 'प्राणो वाव संवर्गः'

भाष्यका अनुवाद

अनन्त है, यह प्रसिद्ध है, विश्वेदेव भी अनन्त है, इसलिए मनमे अनन्त विश्वेदेवोंकी दृष्टि करनेके कारण अनन्त लोक जीतता है ।) इस श्रुतिके अनुसार मनमे विश्वेदेवदृष्टि सम्पद्रूप है । यह एकत्वविज्ञान अध्यासरूप भी नहीं है, जैसे 'मनो०' (अन्त करण परब्रह्म है ऐसी उपासना करनी चाहिए) 'आदित्यो०' (आदित्य ब्रह्म है ऐसा उपदेश है) इस प्रकार मन, आदित्य आदिमे ब्रह्मदृष्टिका अध्यास है । जिसका निमित्त-कारण

रत्नप्रभा

इति ज्ञानमध्यासो, न इत्याह—न चेति । आदेश उपदेश । क्रियाविशेषो विशिष्टक्रिया तथा योगो निमित्त यस्य ध्यानस्य तत्तथा । यथा प्रलयकाले वायु अग्न्यादीन् संबृणोति—संहरति इति संवर्ग, स्वापकाले प्राणो वागादीन् सहरति इति सहारक्रियायोगात् संवर्ग इति ध्यान छान्दोग्ये विहितम्, तथा वृद्धिक्रियायोगात् जीवो ब्रह्मेति ज्ञानमिति नेत्याह—नार्पीति । यथा "पत्न्यवेक्षितमाज्य भवति" इति उपाशुयागाद्यङ्गस्य आज्यस्य सस्कारकमवेक्षण विहितम्, तथा कर्मणि कर्तृत्वेन

रत्नप्रभाका अनुवाद

अध्यास नहा है, इस बातको "न च" इत्यादिसे कहते हैं । आदेश-उपदेश । क्रियाविशेष—एक प्रकारकी क्रिया, उक्त क्रियाका सम्बन्ध जिस ध्यानका निमित्तकारण है, वह विशिष्ट-क्रियायोगनिमित्त कहलाता है । जैसे प्रलयकालमें वायु अग्नि आदि देवताओंका उपसंहार करता है, और सुप्तसमयमें प्राण, वाक् आदि इन्द्रियोंका उपसंहार करता है, अतः सहाररूप क्रियाके योगसे वायु देवताओंका और प्राण वाक् आदि इन्द्रियोंका संवर्ग कहलाता है । जैसे इस प्रकारके ध्यानका छान्दोग्यमें विधान किया गया है, वैसे ही वृद्धिरूप क्रियाके योगसे 'जीव ब्रह्म है' यह ज्ञान विशिष्टक्रियायोगजन्य है, इसका "नापि" इत्यादिसे निवारण करते हैं । घादी कहता है कि जैसे 'पत्न्यवे०' (पत्नीको घृतका ईक्षण करना चाहिए) इस वाक्यसे पत्नीका ईक्षण उपाशुयागके

(१) 'अनाशिनं तद्बुद्धि' जिसमें वह न हो, उसमें वह है ऐसी बुद्धि अध्यास है । सम्पद्रूप सम्पद्यमान पदार्थवा चिन्तन मुख्य है और अध्यासमें आत्मनका चिन्तन मुख्य है । 'आरोप्यप्रधाना सम्पद्रु, अपिष्ठानप्रधानोऽध्यास' । जैसे आदित्य आदिमे ब्रह्मबुद्धिका आरोप किया जाता है, उसी प्रकार जीवमें ब्रह्मना आरोप होता है । इस प्रकार 'अहं ब्रह्म' यह पश्य-ज्ञान अध्यासरूप है ।

भाष्य

(छा० ४।३।१) इतिवत् । नाप्याज्यावेक्षणादि कर्मवत्कर्मार्हसंस्काररूपम्, संपदादिरूपे हि ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानेऽभ्युपगम्यमाने 'तत्त्वमसि'

भाष्यका अनुवाद

विशिष्टक्रियायोग हो, जैसे कि 'वायुर्वाव संवर्गः' (वायु ही संवर्ग है) 'प्राणो वाव०' (प्राण ही संवर्ग है । इसी प्रकार आज्यका अवेक्षण आदि कर्मोंके समान जो आत्मा कर्ममें अङ्ग है, उसका संस्काररूप भी आत्मज्ञान नहीं है, क्योंकि ब्रह्म और आत्माके एकत्वविज्ञानको सम्पदादिरूप मानें तो

रत्नप्रभा

अङ्गस्य आत्मनः संस्कारार्थं ब्रह्मज्ञान, न इत्याह—नाप्याज्येति । प्रतिज्ञाचतुष्टये हेतुमाह—सम्पदादीति । उपक्रमादिलिङ्गैर्ब्रह्मात्मैकत्ववस्तुनि प्रामितिहेतुर्यः

रत्नप्रभाका अनुवाद

अङ्गभूत आज्यका संस्कारक होता है, उसी प्रकार कर्ममें कर्तारूपसे अङ्गभूत आत्माके संस्कारके लिए ब्रह्मज्ञान विहित है । इस कथनका निराकरण करते हैं—“नाप्याज्य” इत्यादिते । ब्रह्म और आत्मा एक हैं, यह विज्ञान संपद्, अध्यास, विशिष्ट क्रियायोगनिमित्त अथवा कर्माङ्ग संस्कार नहीं है, ऐसी जो प्रतिज्ञा की है, उसका कारण कहते हैं—“सम्पदादि” इत्यादिते ।

(१) 'वायुर्वाव संवर्गो यदा वा असिर्ब्रह्मायति वायुमेवाप्येति यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति संवर्गो वायुरेव देवेषु प्राण प्राणेषु' (छा० ४।३।१-४)

अग्नि आदि देवताओंको वायु संवर्जन—महरण अथवा सग्रमन करता है अथात् आत्मभावमें लाता है, इसलिये वायु संवर्ग कहलाता है । जब अग्नि शान्त होती है, जब सूर्य अस्त होता है, जब चन्द्र अस्त होता है, जब जल सूख जाता है, तब सब वायुके स्वरूपको प्राप्त करते हैं अर्थात् वायुमें लीन हो जाते हैं, इस प्रकार अग्नि आदि बलवान् देवोंका वायु संवरण करता है इसलिये वायु संवर्ग गुणवाला है । वह अपिदैवत—देवताओंमें संवर्ग दर्शन कहा गया । अब अध्यात्म संवर्ग दर्शन कहते हैं । प्राण संवर्ग है । जब पुरुष सोता है तब वाणी, चक्षु, श्रोत्र और मन प्राणस्वरूप हो जाते हैं । वाणी आदि सबका संवरण करनेके कारण प्राण संवर्ग है । प्रलयकालमें अग्नि आदि निवृत्त हो जाते हैं, तो भी वायु विद्यमान रहता है और स्वापकालमें वाणी आदि निवृत्त हो जाते हैं, तो भी प्राण विद्यमान रहता है । इसलिये 'वृजा वर्जने' इस धातुसे निष्पन्न हुआ वर्जन—सहरण क्रियाका कर्ता होनेसे संवर्ग कहलाता है । इसी प्रकार जीव और ब्रह्मका वृद्धण क्रियाके योगसे जो ऐक्यज्ञान है, वह विशिष्ट क्रियायोगसे जन्य ध्यान है । इस रूपसे जीवमें ब्रह्मदृष्टि अमृतत्वरूप फल देनेमें समर्थ होती है ।

(२) जैसे धृतिप्रतिपादित अवेक्षण उपाधुयागके अङ्गभूत आज्यका संस्कारक—गुणाधायक होता है, उसी प्रकार कर्ता रूपसे अङ्गभूत आत्मामें 'द्रष्टव्य' आदि वान्वयोंसे दर्शनको गुणाधायक कहा है, इसलिये ऐक्यज्ञान कर्मके अङ्गभूत आत्माका संस्काररूप है ।

भाष्य

(छा० ६।८।७) 'अहं ब्रह्मास्मि' (वृ० १।४।१०) 'अयमात्मा ब्रह्म'
(वृ० २।५।१९) इत्येवमादीनां वाक्यानां ब्रह्मात्मैकत्ववस्तुप्रतिपादन-
परः पदसमन्वयः पीडयेत् । 'भिद्यते हृदयग्रन्थिशिच्छद्यन्ते सर्वसंशयाः'
(मुं० २।२।८) इति चैवमादीन्यविद्यानिवृत्तिफलश्रवणान्युपरोधेरन् ।
'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' (मु० ३।२।९) इति चैवमादीनि तद्भावाप-
त्तिवचनानि संपदादिपक्षे न सामञ्जस्येनोपपद्येरन् । तस्मान्न संपदादि-
रूपं ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानम् । अतो न पुरुषण्यापारतन्त्रा ब्रह्मविद्या ।

भाष्यका अनुवाद

'तत्त्वमसि' (वह तू है) 'अहं ब्रह्मास्मि' (मैं ब्रह्म हूँ) 'अयमात्मा ब्रह्म'
(यह आत्मा ब्रह्म है) इत्यादि वाक्य जिनका तात्पर्य ब्रह्म और आत्माकी एकता-
का प्रतिपादन करना है, उनके पदोंका अन्वय बाधित होगा । 'भिद्यते०' (हृदयकी
रागादि ग्रन्थियां टूट जाती हैं और सब संशय दूर हो जाते हैं) इत्यादि अज्ञान-
निवृत्तिरूप फलके बोधक वाक्योंका बाध हो जायगा । 'ब्रह्म वेद०' (जो ब्रह्मको
जान लेता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है) ऐसे वाक्य जो आत्माका ब्रह्मभाव
प्रतिपादन करते हैं, वे संपदादिपक्षोंमें उपपन्न नहीं होते हैं, इसलिए ब्रह्म
और आत्माका एकत्व विज्ञान संपदादिरूप नहीं है । इस कारण ब्रह्मात्मविद्या

रत्नप्रभा

समानाधिकरणवाक्यानां पदनिष्ठः समन्वयः—तात्पर्यं निश्चितम्, तत् पीडयेत् । किञ्च,
एकरत्नज्ञानाद् आज्ञानिकस्य हृदयस्य अन्तःकरणस्य यो रागादिग्रन्थिः चिन्मनस्तादा-
त्म्यरूपाहङ्कारग्रन्थिर्वा नश्यति इत्यज्ञाननिवृत्तिफलवाक्यबाधः स्यात्, संपदादिज्ञानस्य
अप्रमात्वेन अज्ञानानिवर्तकत्वात् । किञ्च, जीवस्य ब्रह्मत्वसंपदा कथं तद्भावः ।
पूर्वरूपे स्थिते नष्टे वा अन्यस्य अन्यात्मतायोगात् । तस्मात् न संपदादिरूप-

रत्नप्रभाका अनुवाद

उपक्रम आदि लिङ्गोंसे ब्रह्म और आत्माकी एकताके यथार्थज्ञानमें कारणभूत जो समानाधिकरण
('तत्त्वम्' 'अहं ब्रह्म' इत्यादि) वाक्योंके पदोंका समन्वय—तात्पर्यनिश्चय है, उसका बाध
हो जायगा । और एकत्वके ज्ञानसे अज्ञानी पुरुषके अन्तःकरणकी जो राग आदि ग्रन्थियां
हैं अथवा चैतन्यकी और मनकी जो तादात्म्यरूप अहङ्कारग्रन्थि है, उसका नाश हो जाता
है अर्थात् अज्ञाननिवृत्तिरूप फल होता है इन फलबोधक वाक्योंका बाध हो जायगा,
क्योंकि संपदादिज्ञान यथार्थ न होनेसे अज्ञानकी निवृत्ति नहीं कर सकेंगे । और जीवमें
ब्रह्म भावनासे ब्रह्मभाव किस प्रकार प्राप्त होगा ? वस्तुका पूर्वरूप रहे अथवा नष्ट हो
जाय तो वह वस्तु अन्य वस्तुका रूप प्राप्त नहीं कर सकती है । इसलिए एकत्वविज्ञान

(१) यद्यपि समानाधिकरण पदनिष्ठ है, तथापि 'अग्निर्माणवक' के समान यहाँ उपचरसे वाक्यमें
कहा गया है ।

भाष्य

किं तर्हि ? प्रत्यक्षादिप्रमाणविषयवस्तुज्ञानवद्वस्तुतन्त्रा । एवंभूतस्य ब्रह्मणस्तज्ज्ञानस्य च न कयाचिद् युक्त्या शक्यः कार्यानुप्रवेशः कल्पयितुम् । न च विदिक्रियाकर्मत्वेन कार्यानुप्रवेशो. ब्रह्मणः, 'अन्यदेव तद्विदितादथोऽविदितादधि' (के० १।३) इति विदिक्रियाकर्मत्वप्रतिषेधात्, 'येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात्' (घृ० २।४।१३)

भाष्यका अनुवाद

पुरुषव्यापारके अधीन नहीं है । किन्तु प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंके विषय वस्तुज्ञानके समान वस्तुके ही अधीन है । ऐसे ब्रह्म और उसके ज्ञानका किसी भी युक्तिसे कार्यके साथ सम्बन्धकी कल्पना नहीं की जा सकती । 'विदि' (जानना) क्रियाके कर्मरूपसे भी कार्यके साथ ब्रह्मका संबन्ध नहीं है, क्योंकि 'अन्यदेव०' (वह जाने हुएसे अन्य और न जाने हुएसे भी अन्य है) और 'येनेदं०' (जिस आत्मासे इस सारे प्रपञ्चको लोक जानते हैं, उसको किस साधनसे जानें) इत्यादि श्रुतियोंसे ब्रह्म विदि-क्रियाका का कर्म नहीं है ऐसा प्रतिपादन किया

रत्नप्रभा

मित्यर्थः । सम्पदादिरूपत्वाभावे फलितमाह—अत इति । प्रमात्वात् न कृतिसाध्या । किं तर्हि नित्यैव ? न, प्रमाणसाध्या इत्यर्थः । उक्तरीत्या सिद्धब्रह्मरूपमोक्षस्य कार्यसाध्यत्वं तज्ज्ञानस्य नियोगविषयत्वं च कल्पयितुमशक्यं कृत्यसाध्यत्वात् इत्याह—एवंभूतस्येति । ननु ब्रह्म कार्याङ्गम्, कारकत्वात्, पत्न्यवेक्षणकर्मकारकाज्यवत् इति चेत्, किं ज्ञाने ब्रह्मणः कर्मकारकत्वम्, उत उपासनायाम् ? न आद्य इत्याह—न चेति । शब्दज्ञानं विदिक्रियाशब्दार्थः । विदितं कार्यम्, अविदितं कारणम्,

रत्नप्रभाका अनुवाद

संपदादिरूप नहीं है । सम्पदादिरूप नहीं है इससे फलित कहते हैं—“अत.” इत्यादिसे । ब्रह्मविद्या प्रमा है, इससे वह कार्यसाध्य नहीं है । तब क्या नित्य है ? नहीं, प्रमाणसाध्य है । उक्त रीतिसे सिद्ध ब्रह्मरूप मोक्ष कार्यसाध्य है अथवा उसका ज्ञान विधिना विषय है ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि वह कृतिसे साध्य नहीं है, ऐसा कहते हैं—“एवंभूतस्य” इत्यादिसे । यहाँ कोई शंका करे कि ब्रह्म कार्यका अंग है, क्योंकि कारक है, पत्नी की ईशानक्रियाके कर्म-कारक आज्यके समान, इस अनुमानसे सिद्ध होता है कि ब्रह्म कार्यका अंग है । यह शंका ठीक नहीं है । शंका करनेवालेसे पूछना चाहिए कि ब्रह्म ज्ञानक्रियाका कर्म-कारक है अथवा उपासना मियाका ? प्रथम पक्षका अर्थापत्त्य “न च” इत्यादिसे दूररहते हैं । शब्दज्ञान—शब्दजन्यज्ञान 'विदिक्रिया' शब्दका अर्थ है । 'अन्यदेव' श्रुतिका अर्थ है विदित—कार्य, अविदित—कारण, उन दोनोंसे विलक्षण ।

भाष्य

इति च । तयोपास्तिक्रियाकर्मत्वप्रतिषेधोऽपि भवति 'यद्वाचानभ्यु-
दितं येन वागभ्युद्यते' इत्यविषयत्वं ब्रह्मण उपन्यस्य, 'तदेव ब्रह्म त्वं
विद्धि नेदं यदिदमुपासते' (के० १ । ४) इति । अविषयत्वे ब्रह्मणः
शास्त्रयोनित्वानुपपत्तिरिति चेत्, न; अविद्याकल्पितभेदनिवृत्तिपरत्वा-
भाष्यका अनुवाद

गया है । इसी प्रकार उपास्ति-क्रियाके कर्मरूपसे भी ब्रह्ममें कार्यसंबन्धका
प्रतिषेध होता है—'यद्वाचा०' (जो वाणीसे अनुक्त है अर्थात् वागिन्द्रियका विषय
नहीं है और जिससे वाणी प्रेरित होती है ।) इस प्रकार ब्रह्म इन्द्रियोंका अविषय
है, यह कहकर 'तदेव०' (उसीको तू ब्रह्म जान, उसको नहीं,
जिसकी लोक उपासना करते हैं) ऐसा कहा है । यदि ब्रह्म विषय न हो तो
ब्रह्मको शास्त्रप्रमाणक कहना अयुक्त होगा ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि अवि-
द्यासे कल्पित भेदकी निवृत्ति करना ही शास्त्रका प्रयोजन है । शास्त्र ब्रह्मका 'इदं'

रत्नप्रभा

तस्मात् अधि अन्यदित्यर्थः । येन आत्मना इदं सर्वं दृश्यं लोको विजानाति, तं केन
करणेन जानीयात्, तस्मात् अविषय आत्मा इत्यर्थः । न द्वितीय इत्याह—तथेति ।
"यन्मनसा न मनुते" (के० १।६) इति श्रुत्या लोको मनसा यद् ब्रह्म न
जानाति इति अविषयत्वम् उक्त्वा 'तदेव अवेद्यं ब्रह्म त्वं विद्धि' यत्तूपाधिविशिष्टं
देवतादिकम् इति उपासते जनाः न इदं ब्रह्म इत्यर्थः । ब्रह्मणः शाब्दबोधविषयत्वे
प्रतिज्ञाहानिरिति शङ्कते—अविषयत्वे इति । वेदान्तजन्यवृत्तिकृताविद्यानिवृत्तिफल-
शालितया शास्त्रप्रमाणकत्वं वृत्तिविषयत्वेऽपि स्वप्रकाशब्रह्मणो वृत्त्यभिव्यक्तस्फुर-
णाविषयत्वात् अप्रमेयत्वमिति परिहरति—नेति । परत्वात् फलत्वात् इत्यर्थः । निवृ-
त्तिपरत्वात् अनुवाद

जिस आत्मासे इस सारे दृश्य—प्रपञ्चको लोक जानता है, वह किस साधनसे शान्त हो सकता है ।
इसलिए आत्मा विषय नहीं है, यह 'येनेदं' इस श्रुतिका अर्थ है । द्वितीय पक्षभी युक्त नहीं है
इस बातको "तया" इत्यादिसे दिखलते हैं । 'यन्मनसा०' इस श्रुतिसे यह कहकर कि
जिस ब्रह्मके लोग मनसे नहीं जानते, वह ब्रह्म इन्द्रियोंका अगोचर है, उसी इन्द्रियोंसे अवेद्यको
तू ब्रह्म जान, किन्तु जिन उपाधिविशिष्ट देवता आदिकी लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म
नहीं है । यदि ब्रह्मके शाब्दबोधका अगोचर मानें तो ब्रह्म शास्त्रप्रमाणक है इस प्रतिज्ञाकी
हानि होगी ऐसी शंका करते हैं—'अविषयत्वे' इत्यादिसे । वेदान्त-वानयजन्यश्रुतिसे अविद्याकी
निवृत्ति होती है, अविद्या निवृत्तिरूप फलका भाजन होनेसे ब्रह्म शास्त्रप्रमाणक है । इस
प्रकार श्रुतिका विषय होनेपर भी स्वप्रकाश ब्रह्म उस श्रुतिमें अभिव्यक्त होनेवाले स्फुरणका
विषय नहीं होता है, इसलिए प्रमेय नहीं है, इस प्रकार उपर्युक्त शंकाका निवारण करते

भाष्य

च्छास्त्रस्य । नहि शास्त्रमिदन्तया विषयभूतं ब्रह्म प्रतिपिपादयिषति । किं तर्हि ? प्रत्यगात्मत्वेनाविषयतया प्रतिपादयदविद्याकल्पितं वेद्य-वेदितृ-वेदनादिभेदमपनयति । तथा च शास्त्रम्—‘यस्याऽमतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः । अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्’

भाष्यका अनुवाद

इस प्रकार अर्थात् ज्ञानविषयत्वरूपसे प्रतिपादन करना नहीं चाहता, किन्तु ब्रह्म प्रत्यगात्मा होनेके कारण अविषय है ऐसा प्रतिपादन करता हुआ वेद्य (जानने योग्य वस्तु) वेदितृ (जाननेवाला), वेदना (ज्ञान) इत्यादि अविद्यासे कल्पित भेदोंको दूर करता है । इसमें प्रमाणवाक्य—‘यस्यामतं’ (जिसको ऐसा निश्चय है कि ‘ब्रह्म ज्ञात नहीं है’ उसने ब्रह्मको ठीक जाना है और जो ऐसा समझता है कि ‘मैंने ब्रह्मको जान लिया है, उसने ब्रह्मको जाना ही नहीं, क्योंकि जिनको ब्रह्मज्ञान हो गया है, उनके लिए ब्रह्म अविदित—विषयरूपसे अज्ञात है [क्योंकि ब्रह्म ज्ञानका विषय नहीं है] और जो अज्ञानी हैं, उनके लिए ब्रह्म विषयरूपसे विदित है, [क्योंकि वे ब्रह्मको

रत्नप्रभा

त्तिरूपब्रह्मतात्पर्यात् इति वा अर्थः । उक्तं विवृणोति—नहीति । चिद्विषयत्वम् इदन्त्वम् । अविषयतया—अनिदन्तया । अदृश्यत्वे श्रुतिमाह—तथा च इति । यस्य ब्रह्म अमतं चैतन्याविषय इति निश्चयस्तेन सम्यगवगतम् । यस्य तु अज्ञस्य ब्रह्म चैतन्यविषय इति मतम्, स न वेद । उक्तमेव दार्ढ्यार्थमनुवदति—अविज्ञातमिति । अविषयतया ब्रह्म विजानताम् अविज्ञातम्—अदृश्यमिति पक्षः, अज्ञानां तु ब्रह्म विज्ञातं

रत्नप्रभाका अनुवाद

हैं—“न” इत्यादिसे । फल होनेसे अथवा भेदनिश्चितिरूप ब्रह्ममें तात्पर्य होनेमें ऐसा परत्वात् शब्दका अर्थ है । “नहि” इत्यादिसे पूर्व उक्त अर्थका विवरण करते हैं । इदन्ता अर्थात् चैतन्यकी विषयता । अविषयता अर्थात् ‘इदं’ प्रतीतिकी अयोग्यता । ब्रह्म अदृश्य है, इसमें श्रुतिका प्रमाण देते हैं—‘तथा च’ इत्यादिसे । ‘अमतम्’—चैतन्यका अविषय । जिसको यह निश्चय है कि ब्रह्म चैतन्यका विषय नहीं है, उसे ब्रह्मका यथार्थ ज्ञान हुआ । परन्तु जिस अज्ञको ऐसा निश्चय है कि ब्रह्म चैतन्यका विषय है, उसने ब्रह्मको ठीक नही समझा । उक्त अर्थका ही दृढ़ताके लिए अनुवाद करते हैं—“अविज्ञातम्” इत्यादिसे । जो स्वयं समझते हैं कि ब्रह्म इन्द्रियोंका गोचर नहीं है, उनके मतमें यह अविज्ञात (अदृश्य) है, परन्तु अज्ञानियोंके मतमें ब्रह्म दृश्य है । तुम चाक्षुष और मानस

भाष्य

(के० २।३), 'न दृष्टेर्द्रष्टारं पश्येः' 'न विज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीयाः'
(वृ० ३।४।२) इति चैवमादि । अतोऽविद्याकल्पितसंसारित्वनिवर्तनेन
नित्यमुक्तात्मस्वरूपसमर्पणान्न मोक्षस्यानित्यत्वदोषः । यस्य तूत्पाद्यो
मोक्षस्तस्य मानसं वाचिकं कायिकं वा कार्यमपेक्षत इति युक्तम् ।
तथा विकार्यत्वे च । तयोः पक्षयोर्मोक्षस्य ध्रुवमनित्यत्वम् । नहि

भाष्यका अनुवाद

ज्ञानविषय समझकर मैंने ब्रह्मको जान लिया ऐसा कहते हैं] और 'न दृष्टे०' (दृष्टि—
इन्द्रियवृत्तिके साक्षीको तू देख नहीं सकेगा और बुद्धिवृत्तिके साक्षीको तू नहीं
जान सकेगा) इत्यादि हैं । अतः अविद्यासे कल्पित संसारित्वकी तत्त्वज्ञानसे निवृत्ति
होनेसे नित्यमुक्त आत्माका यथार्थ स्वरूपज्ञान होनेके कारण मोक्षमें अनित्यत्व
दोष नहीं आता । जिसके मतमें मोक्ष उत्पाद्य है, उसके मतमें मोक्ष मानसिक,
वाचिक और शारीरिक क्रियाओंकी अपेक्षा रजता है यह युक्त है । इसी प्रकार
जिसके मतमें मोक्ष विकार्य है, उसके मतमें भी । इन दोनों पक्षोंमें मोक्षकी

रत्नप्रभा

दृश्यमिति पक्ष इत्यर्थः । दृष्टेर्द्रष्टारं चाक्षुषमनोवृत्तेः साक्षिणमनया दृश्यया दृष्ट्या न
पश्येः । विज्ञातेर्वुद्धिवृत्तेर्निश्चयरूपायाः साक्षिणं तथा न विषयं कुर्या इत्याह—नेति ।
ननु अविद्यादिनिवर्तकत्वेन शास्त्रस्य प्रामाण्येऽपि निवृत्तेरागन्तुकत्वात् मोक्षस्य अनित्यत्वं
स्याद् इति न इत्याह—अत इति । तत्त्वज्ञानादित्यर्थः । ध्वंसस्य नित्यत्वात् आत्म-
रूपत्वाच्च न अनित्यत्वप्रसङ्ग इत्यर्थः । उत्पत्तिविकारासिसंस्काररूपं चतुर्विधमेव
क्रियाफलम्, तद्भिन्नत्वात् मोक्षस्य न उपासनासाध्यत्वम् इत्याह—यस्य त्वित्यादिना
तस्माज्ज्ञानमेकं मुक्तत्वेत्यन्तेन । तथोत्पाद्यत्ववद् विकार्यत्वे च अपेक्षते इति

रत्नप्रभाका अनुवाद

वृत्तिके साक्षीको इस दृश्य—चाक्षुष एवं मानस वृत्तिसे देख न सकेगे और निश्चयरूप
बुद्धिवृत्तिके साक्षीको उत (बुद्धिवृत्ति) से जान न सकेगे ऐसा कहते हैं—“न” इत्यादिसे ।
यद्यपि अविद्या आदिकी निवृत्ति करनेसे शास्त्रमें प्रामाण्य सिद्ध होता है तो भी निवृत्तिजन्य
होनेसे मोक्षअनित्य हो जायगा, इस शंकाको दूर करनेके लिए कहते हैं—“अतः”
इत्यादिसे । उससे—तत्त्वज्ञानसे । ध्वंस नित्य और आत्मरूप है, अतः मोक्षमें अनित्यता नहीं
आती । “यस्य तु” इत्यादिसे लेकर “तस्माज्ज्ञानमेकं मुक्त्वा” इत्यन्त ग्रन्थसे कहते हैं
कि उत्पत्ति, विकार, प्राप्ति और संस्कार भेदसे क्रियाफल चार प्रकारका ही है, मोक्ष

भाष्य

दध्यादि.विकार्यम् उत्पाद्यं वा घटादि नित्यं दृष्टं लोके । न चाऽऽप्यत्वे-
नापि कार्यपेक्षा, स्वात्मस्वरूपत्वे सत्यनाप्यत्वात् । स्वरूपव्यतिरिक्त-
त्वेऽपि ब्रह्मणो नाप्यत्वम्, सर्वगतत्वेन नित्याप्तस्वरूपत्वात् सर्वेण ब्रह्मणः
आकाशस्येव । नापि संस्कार्यो मोक्षः, येन व्यापारमपेक्षेत । संस्कारो
हि नाम संस्कार्यस्य गुणाधानेन वा स्याद् दोषापनयनेन वा । न
तावद् गुणाधानेन सम्भवति, अनाधेयातिशयब्रह्मस्वरूपत्वात् मोक्षस्य ।

भाष्यका अनुवाद

अनित्यता निश्चित है । लोकमें विकृत होनेवाले दही आदि, उत्पन्न होनेवाले
घट आदि नित्य देखनेमें नहीं आते । और जिस मतमें ब्रह्म प्राप्य है,
उस मतमें भी उसको कार्यकी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वह स्वात्मरूप
होनेके कारण प्राप्य ही नहीं है । यदि आत्मासे अतिरिक्त मानें तो भी प्राप्य
नहीं है, क्योंकि ब्रह्म आकाशके समान सर्वत्र व्यापक होनेके कारण सबको
ब्रह्मस्वरूप नित्य प्राप्त है । और मोक्ष संस्कार्य भी नहीं है कि जिससे
वह व्यापारकी अपेक्षा करे । संस्कार्य पदार्थमें गुण मिलानेसे अथवा दोष
दूरकरनेसे संस्कार होता है । मोक्षमें गुण मिलानेसे संस्कार होना संभव

रत्नप्रभा

युक्तम् इत्यन्वयः । दूषयति—तयोरिति । स्थितस्य अवस्थान्तरं विकारः । ननु
अनित्यत्वनिरासाय क्रियया स्थितस्यैव ब्रह्मणो भ्रामवत् प्राप्तिः अस्तु नृत्याह—न चेति ।
ब्रह्म जीवाभिन्नं न वा ? उभयथापि अनाप्यत्वात् न क्रियापेक्षा इत्याह—स्वात्मेत्या-
दिना । यथा व्रीहीणां संस्कार्यत्वेन प्रोक्षणापेक्षा, तथा मोक्षस्य न इत्याह—

रत्नप्रभाका अनुवाद

उससे भिन्न होनेके कारण उपासनासाध्य नहीं है । जैसे उत्पाद्यमें कायिक, वाचिक और
मानसिक क्रियाकी अपेक्षा होती है, उसी प्रकार विशार्यमें भी क्रियाकी अपेक्षा होती है,
ऐसा अन्वय करना चाहिए । मोक्ष उत्पाद्य है अथवा विकार्य है, इन दोनों पक्षोंका
खण्डन करते हैं—“तयोः” इत्यादिसे । वस्तुका प्रथम अवस्थासे द्वितीय अवस्थाको
प्राप्त होना विकार है । परन्तु मोक्षमें अनित्यताका निवारण करनेके लिए क्रियासे
नित्य ब्रह्मकी ही भ्रामरी प्राप्तिके समान प्राप्ति है, इन दोनोंका “न च” इत्यादिसे
निवारण करते हैं । ब्रह्म जीवसे अभिन्न है या नहीं ? दोनों पक्षोंमें ब्रह्मके अप्राप्य
होनेसे क्रियाकी अपेक्षा नहीं है, ऐसा कहते हैं—“स्वात्म” इत्यादिसे । जैसे धान संस्कार्य
है, अतः उन्हें प्रोक्षण—पानी छिड़कनेकी अपेक्षा है, ऐसे मोक्षको संस्कारकी अपेक्षा नहीं

भाष्य

नापि दोषापनयनेन, नित्यशुद्धब्रह्मस्वरूपत्वान्मोक्षस्य । स्वात्मधर्म एव सन् तिरोभूतो मोक्षः क्रिययाऽऽत्मनि संस्क्रियमाणेऽभिव्यज्यते, यथाऽऽदर्शे निर्घर्षणक्रियया संस्क्रियमाणे भास्वरत्वं धर्म इति चेत्, न; क्रियाश्रयत्वानुपपत्तेरात्मनः । यदाश्रया हि क्रिया तमविकुर्वती नैवात्मानं लभते । यदात्मा क्रियया विक्रियेतानित्यत्वमात्मनः प्रसज्येत । 'अविकार्योऽय-

भाष्यका अनुवाद

नहीं है, क्योंकि वह तो जिसमें अतिशय न किया जा सके ऐसे ब्रह्मका स्वरूप-भूत है । दोष दूर करनेसे भी उसका संस्कृत होना असम्भव है, क्योंकि मोक्ष नित्य शुद्ध ब्रह्मका स्वरूपभूत है । जैसे निर्घर्षण क्रियासे दर्पण साफ होता है, और उसका तिरोहित भास्वरत्व प्रकट होता है, उसी प्रकार क्रियासे आत्मा में संस्कार होनेसे उसका तिरोहित धर्म मोक्ष प्रकट होता है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आत्माको क्रियाका आश्रय मानना ठीक नहीं है । वस्तुतः जिस आश्रयमें क्रिया रहती है, उसको विकृत किये बिना स्वयं रह नहीं सकती । यदि आत्मा क्रियासे विकारको प्राप्त होता हो, तो अनित्य हो जायगा । और

रत्नप्रभा

नापीत्यादिना । गुणाधानं व्रीहिषु प्रोक्षणादिना, क्षालनादिना वस्त्रादौ मल-पनयः । शङ्कते—स्वात्मधर्म इति । ब्रह्मात्मस्वरूप एव मोक्षोऽनाद्यविद्या-मलावृत्तः उपासनया मले नष्टे अभिव्यज्यते इत्यत्र दृष्टान्तः—यथेति । संस्कारो मलनाशः । किमात्मनि मलः सत्यः, कल्पितो वा ? द्वितीये ज्ञानादेव तन्नाशो न क्रियया । आद्ये क्रिया किम् आत्मनिष्ठा, अन्यनिष्ठा वा ? न आद्य इत्याह— न क्रियेति । अनुपपत्तिं स्फुटयति—यदिति । क्रिया हि स्वाश्रये संयोगादिवि-

रत्नप्रभाका अनुवाद

है, ऐसा कहते हैं—“नापि” इत्यादिसे । धर्मोंमें गुणोंका आधान प्रोक्षण आदिसे होता है, घोंने आदिसे वस्त्र आदिका मैल निकल जाता है । “स्वात्मधर्म” इत्यादिसे पूर्वपक्षी शंका करता है । ब्रह्मके आत्मस्वरूपमें मोक्ष अनादि अविव्यारूपी मैलसे आवृत है, वह मैल उपासनासे नष्ट होता है, तब मोक्ष स्पष्ट दिखाई देता है, उत्पन्न नहीं होता, इसपर दृष्टान्त देता है—“यथा” इत्यादिसे । संस्कार—मलनाश । अब विचार करना चाहिए कि आत्मामें मैल सत्य है या कल्पित है ? यदि कल्पित है, तो ज्ञानसे ही उसका नाश होता है, क्रियासे नहीं होता । यदि सत्य हो तो क्रिया आत्मामें रहती है ? अथवा आत्मामें भिन्न दूसरी वस्तुमें रहती है ? “न क्रिया” इत्यादिसे कहते हैं कि क्रिया आत्म-निष्ठ नहीं है । आत्मामें क्रियाके अभावका स्पष्टीकरण करते हैं—“यद्” इत्यादिसे ।

भाष्य

मुच्यते' इति चैवमादीनि वाक्यानि वाध्येरन् । तच्चानिष्टम् । तस्मान्न स्वाश्रया क्रियाऽऽत्मनः सम्भवति । अन्याश्रयायास्तु क्रियाया अविषयत्वात् तयाऽऽत्मा संस्क्रियते । ननु देहाश्रयया स्नानाचमनयज्ञोपवीतादिक्रिया क्रियया देही संस्क्रियमाणो दृष्टः, न; देहादिसंहतस्यैवाविद्यागृहीतस्य आत्मनः संस्क्रियमाणत्वात् । प्रत्यक्षं हि स्नानाचमनादेर्देहसमवायित्वम् ।

भाष्यका अनुवाद

'अविकार्यो०' (यह आत्मा अविकारी है) इत्यादि वाक्यों का बाध होगा । श्रुतिका बाध होना ठीक नहीं है । इसलिए आत्माका आश्रय लेकर क्रियाका रहना संभव नहीं है । दूसरेका आश्रय करके रहनेवाली क्रियाका आत्मा विषय नहीं है अर्थात् संबन्धी नहीं है, अतः उस क्रियासे आत्माका संस्कार नहीं हो सकता । यदि कहो कि देहमें होनेवाली स्नान, आचमन, यज्ञोपवीत आदि क्रियाओंसे देही—आत्मा का संस्कृत होना देखनेमें आता है । यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि देह आदिसे युक्त अविद्यामें प्रतिविम्बित आत्माका संस्कार होता है । स्नान, आचमन आदि क्रियाओंका देहके साथ

रत्नप्रभा

कारमकुर्वती न जायते इत्यर्थः । तच्च वाक्यबाधनम् । न द्वितीय इत्याह—
अन्येति । अविषयत्वात् क्रियाश्रयद्रव्यसंयोगात् इति यावत् । दर्पणं तु सावयवं क्रियाश्रयेष्टकाचूर्णादिद्रव्यसंयोगित्वात् संस्क्रियते इति भावः । अन्यक्रियया अन्यो न संस्क्रियते इत्यत्र व्यभिचारं शङ्कते—नन्विति । आत्मनो मूलाविद्याप्रति-
बिम्बितत्वेन गृहीतस्य नरोऽहमिति भ्रान्त्या देहतादात्म्यमापन्नस्य क्रियाश्रयत्व-

रत्नप्रभाका अनुवाद

अर्थात् क्रिया अपने आश्रय द्रव्यमें संयोग आदि विकार किये बिना उत्पन्न नहीं होती । तत्—स्थिति आदि वाक्यका बाध । क्रिया अन्यानिष्ट नहीं है, इस विषयमें कहते हैं—
“अन्य” इत्यादिसे । ‘अविषय होनेमें’ अर्थात् क्रियाका आश्रय जो द्रव्य है, उसके साथ संयोग न होनेसे । दर्पण तो अवयव युक्त है, इसलिए क्रियाके आश्रय इष्टके चूर्ण आदि द्रव्यके साथ संयोग होनेसे उसका संस्कार हो सकता है । दूसरेकी क्रियामें दूसरेका संस्कार नहीं, होता, इस नियममें व्यभिचारकी शंका करते हैं—“ननु” इत्यादिमें गूढ अविद्यामें प्रतिविम्बित आत्मा ‘नरोऽहम्’ (मैं नर हूँ) इस भ्रान्तिमें देह ही को आत्मा समझकर उस क्रियाका आश्रय अपनेको मानता है, अतः उसे भ्रम होता है कि मैं संस्कार्य हूँ, इसलिए व्यभिचार नहीं है ऐसा कहते हैं—“न” इत्यादिसे । ‘बन्धित’ अर्थात् जिसको

भाष्य

तथा देहाश्रयया तत्संहत एव कश्चिद्विद्ययाऽऽत्मत्वेन परिगृहीतः संस्क्रियते इति युक्तम् । यथा देहाश्रयचिकित्सानिमित्तेन धातुगाम्येन तत्संहतस्य तदभिमानिन आरोग्यफलं 'अहमरोगः' इति यत्र बुद्धिरुत्पद्यते । एवं स्नानाचमनयज्ञोपवीतादिना 'अहं शुद्धः संस्कृतः' इति यत्र बुद्धिरुत्पद्यते स संस्क्रियते । स च देहेन संहत एव । तेनैव ह्यहंकाराऽहंप्रत्ययविषयेण प्रत्य-

भाष्यका अनुवाद

संबन्ध प्रत्यक्ष ही है । देहमें होनेवाली क्रियासे देहके साथ रहनेवाला ही संस्कृत होता है, जोकि अविद्यासे आत्मा समझा गया है । जैसे देहमें होनेवाली चिकित्सासे धातुओंकी समता होती है, उससे जिस आत्मामें 'मैं अरोग हूँ' ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है, देहके साथ सम्बद्ध और देहमें 'मैं' 'मेरा' अभिमान रखनेवाला वही आत्मा आरोग्यरूप फल पाता है । इसी प्रकार स्नान, आचमन, यज्ञोपवीत आदिसे 'मैं शुद्ध हूँ, संस्कृत हूँ' ऐसी बुद्धि जिसमें उत्पन्न हो, उसीका संस्कार होता है । वह तो देहके साथ संबद्ध ही है । उसी—'मैं' इस ज्ञानके

रत्नप्रभा

भ्रान्त्या-संस्कार्यत्वभ्रमात् न व्यभिचार इत्याह—नेति । कश्चिदिति । अनिश्चित-ब्रह्मस्वरूप इत्यर्थः । यत्र आत्मनि विषये आरोग्यबुद्धिरुत्पद्यते, तस्य देहसंहतस्य एव आरोग्यफलमिति अन्वयः । ननु देहाभिन्नस्य कथं संस्कारः, तस्य आमुष्मिकफल-भोक्तृत्वायोगात् इत्यत आह—तेनेति । देहसंहतेन एव अन्तःकरणप्रतिबिम्बात्मना कर्ताहमिति भासमानेन प्रत्ययाः कामादयौ मनस्तादात्म्यात् अस्य सन्तीति प्रत्ययिना क्रियाफलं भुज्यते इत्यर्थः । मनोविशिष्टस्य आमुष्मिकभोक्तुः संस्कारो युक्त इति

रत्नप्रभाका अनुवाद

ब्रह्मस्वरूपका निश्चय नहीं हुआ है । जिस आत्मामें आरोग्य बुद्धि उत्पन्न होती है, देह आदिसे संबद्ध उसी आत्माको आरोग्यफल होता है ऐसा अन्वय है । देहसे अभिन्नका संस्कार किस प्रकार हो सकता है ? क्योंकि उसे पारलौकिक फल भोगनेका अवसर ही नहीं है, हमपर कहते हैं—'तेन' इत्यादिसे । तात्पर्य यह है कि अन्तःकरणका प्रतिबिम्बरूप 'मैं कर्ता हूँ' इस तरह भासता हुआ देहके साथ जुड़ा हुआ ही आत्मा है, मनके साथ अभेद होनेसे उसमें काम आदि हैं, वह कामादिविशिष्ट आत्मा क्रियाका फल भोगता है । भावार्थ यह है कि मनसे विशिष्ट आमुष्मिक—पारलौकिक फलके भोक्ताका संस्कार युक्त है । विशिष्ट आत्मा भोक्ता

भाष्य

यिना सर्वाः क्रिया निर्वर्त्यन्ते, तत्फलं च स एवाश्नाति, 'तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अमिचाकशीति' (मृ० ३।१।१) इति मन्त्रवर्णात्, 'आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः' (क० १।३।४) इति च । तथा 'एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः

भाष्यका अनुवाद

विषय प्रत्ययी अहंकरतासे सब क्रियाएँ की जाती हैं और उनका फल वही भोगता है । प्रमाण—'तयोरन्यः०' (उनमें एक स्वादिष्ट कर्मफल भोगता है और दूसरा न भोगता हुआ स्वयंप्रकाशरूपसे रहता है) 'आत्मेन्द्रिय०' (शरीर, इन्द्रिय और मनसे युक्त जीवात्माको विद्वान् लोग भोक्ता कहते हैं) इत्यादि वाक्य हैं । इसी प्रकार 'एको देवः०' (सब भूतोंमें एक, स्वप्रकाश, गूढ, सर्व-

रत्नप्रभा

भावः । विशिष्टस्य भोक्तृत्वम्, न केवलस्य साक्षिण इत्यत्र मानमाह—तयोरिति । प्रमातृसाक्षिणोर्मध्ये सत्त्नसंसर्गमात्रेण कल्पितकर्तृत्वादिमान् प्रमाता पिप्पलं कर्मफलं भुङ्क्ते, स एव शोधितत्वेन अन्यः साक्षितया प्रकाशते इत्यर्थः । आत्मा देहः । देहादियुक्तम्—प्रमात्रात्मानम् इत्यर्थः । एवं सोपाधिकस्य चिद्धातोः मिथ्यासंस्कार्यत्वम् उक्त्वा निरुपाधिकस्य असंस्कार्यत्वे मानमाह—एक इति । सर्वभूतेषु अद्वितीय एको देवः स्वप्रकाशः । तथापि मायावृत्तत्वात् न प्रकाशते इत्याह—गूढ इति । ननु जीवेन असम्बन्धाद् भिन्नत्वात् वा देवस्य अमानं न तु मायागृहणात्

रत्नप्रभाका अनुवाद

होता है, केवल साक्षीरूप भोक्ता नहीं होता, इसमें प्रमाण देते हैं—“तयो ” इत्यादिसे । प्रमाता और साक्षी इन दोनोंमें अन्त करणके संबन्धसे कल्पित कर्ता—प्रमाता कर्म—फल भोगता है । आशय यह है कि वही शोधित—निरुपाधिक होनेसे अन्य होकर साक्षीरूपसे प्रकाशित होता है । 'आत्मेन्द्रियमनोयुक्तम्'में आत्माका अर्थ देह है । देह आदिसे युक्त प्रमाता आत्मा भोक्ता कहा जाता है । इस प्रकार संवृत और सोपाधिक आत्माका भोक्तृत्व और मिथ्यासंस्कार्यत्व कहकर निरुपाधिक आत्मा असंस्कार्य है, इसमें प्रमाण कहते हैं—“एको” इत्यादिसे । वह एक—सर्वभूतोंमें अद्वितीय एव देव—स्वप्रकाश है, तो भी मायाके आवरणसे प्रकाशित नहीं होता ऐसा कहते हैं—“गूढ ” इत्यादिसे । कोई शका करे कि जीवके साथ सम्बन्ध न होनेसे या भेदसे स्वप्रकाश आत्माका प्रकाश नहीं होता, न कि मायासे आवृत होनेसे, इस दावाका

(१) देह आदि उपाधिवाला । (२) लोटा सस्कार्य है ऐसी स्थिति । (३) उपाधिरहित ।

भाष्य

सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च' (श्वे० ६।११) इति, 'स पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्त्राविर २ शुद्धमपापविद्धम्' (ई० ८) इति च, एतौ मन्त्रावनाधेयातिशयतां नित्यशुद्धतां च ब्रह्मणो दर्शयतः । ब्रह्मभावश्च

भाष्यका अनुवाद

व्यापक, सत्र प्राणियोंका अन्तरात्मा, कर्मोंका साक्षी, सब भूतोंमें घास करनेवाला अर्थात् सबका अधिष्ठान होकर साक्षी, केवल जाननेवाला, निर्गुण एवं दोपरहित आत्मा है) 'स पर्यगात्' (वह आत्मा सर्वव्यापक, दीप्तिमान्, लिङ्गशरीर-रहित, अर्थात् गिरारहित अथवा अविनाशी, शुद्ध और पापसे अस्पृष्ट है) ये दोनों मंत्र यह दिखलाते हैं कि ब्रह्ममें किसी तरह के अतिशयका प्रवेश नहीं

रत्नप्रभा

इति नेत्याह—सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मेति । देवस्य विमुक्त्वात् सर्वप्राणिप्रत्य-
क्त्राच्च आवरणादेव अभानमित्यर्थः । प्रत्यक्त्वे कर्तृत्वं स्यादिति चेत्, न । कर्माध्यक्षः
क्रियासाक्षीत्यर्थः । तर्हि साक्ष्यमस्तीति द्वैतापत्तिः, न । सर्वभूतानामधिष्ठानं
भूत्वा साक्षी भवति । साक्ष्यमधिष्ठाने साक्षिणि कल्पितमिति भावः । साक्षिशब्दा-
र्थमाह—चेता केवल इति । बोद्धृत्वे सति अकर्ता साक्षी इति लोक-
प्रसिद्धम् । चकारः दोषाभावसमुच्चयार्थ, निर्गुणत्वात् निर्दोषत्वात् च । गुणो
दोषनाशो वा सस्कारो न इत्यर्थः । स इत्युपक्रमात् शुक्रादिशब्दाः पुस्त्वेन
वाच्याः । स एव आत्मा परि सर्वम् अगात् व्याप्तः, शुक्रो दीप्तिमान्, अकायो

रत्नप्रभाका अनुवाद

निराकरण करनेके लिए कहते हैं—“सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा” अर्थात् देव (स्वप्रकाश
आत्मा) विभु है और सब प्राणियोंका प्रत्यगात्मा है, अतः मायारूप आवरणसे ही उसका
प्रकाश नहीं होता । आत्मा प्रत्यक् है तो उसे कर्ता होना चाहिए, इस शंकाको दूर करनेके
लिए कहते हैं—“कर्माध्यक्ष ” अर्थात् वह क्रियाका साक्षी है, कर्ता नहीं है । तब उसका
साक्ष्य होनेसे द्वैतका प्रसङ्ग आवेगा, इस शंकाको हटानेके लिए कहते हैं—“सर्वभूताधिवास ”
सब भूतोंका अधिष्ठान होकर साक्षी होता है । अधिष्ठान साक्षीमें साक्ष्य कल्पित है । 'साक्षी'
शब्दका अर्थ कहते हैं—“चेता केवल ” जाननेवाला होकर जो अकर्ता हो, वह साक्षी है,
ऐसा लोकप्रसिद्ध है । “निर्गुणश्च” में “च” कार दोषके अभावका समुच्चय दिखलाता है ।
निर्गुण और निर्दोष है, अतः गुण या दोषका नाशरूप संस्कार नहीं है । “स पर्यगात्”
शब्दादिमें 'स' ऐसा उपक्रम किया है, इसलिए 'शुद्धम्' आदि शब्द लिंगविपर्यय—
विपरिणामसे पुत्रिण समझने चाहिए । वही आत्मा परितः—सर्वतः व्याप्त है, शुक्र-दीप्तिमान् है,

भाष्य

मोक्षः । तस्मान्न संस्कार्योऽपि मोक्षः । अतोऽन्यन्मोक्षं प्रति क्रियानुप्रवेश-
द्वारं न शक्यं केनचिद्दर्शयितुम् । तस्माद् ज्ञानमेकं मुक्त्वा क्रियाया गन्ध-
मात्रस्याप्यनुप्रवेश इह नोपपद्यते । ननु ज्ञानं नाम मानसी क्रिया ? न,

भाष्यका अनुवाद

हो सकता है और वह नित्य शुद्ध है । मोक्ष तो ब्रह्मरूप ही है, अतः वह संस्कार्य
भी नहीं है । इससे मोक्षमें उत्पत्ति, विकार, प्राप्ति और संस्कारसे भिन्न क्रिया-
संबन्धका मार्ग कोई नहीं दिया सकता । इस कारण मोक्षमें ज्ञानके सिवा
क्रियाके लेशमात्रका भी संबन्ध नहीं बनता । यदि ऐसा कोई कहे कि ज्ञान

रत्नप्रभा

लिङ्गशून्यः, अव्रणोऽक्षतः, अस्नाविरः शिराविधुरः अनश्वर इति वा । आभ्यां
पदाभ्यां स्थूलदेहशून्यत्वम् उक्तम् । शुद्धो रागादिमलशून्यः, अपापविद्धः पुण्य-
पापाभ्यामसंसृष्ट इत्यर्थः । अत इति । उत्पत्त्यासि विकारसंस्कारेभ्योऽन्यत् पञ्चमं
क्रियाफलं नास्ति यन्मोक्षस्य क्रियासाध्यत्वे द्वारं भवेत् इत्यर्थः । ननु मोक्षस्य
असाध्यत्वे शास्त्रारम्भो वृथा, न, ज्ञानार्थत्वाद् इत्याह—तस्मादिति । द्वाराभावात्
इत्यर्थः । व्याघातं शङ्कते—नन्विति । तथा च मोक्षे क्रियानुप्रवेशो नास्तीति
व्याहतमिति भावः । मानसमपि ज्ञानं न विधियोग्या क्रिया, वस्तुतन्त्रत्वाद्,

रत्नप्रभाका अनुवाद

अशय-लिङ्गशरीरशून्य है, अव्रण—अक्षत है, अस्नाविर—शिरारहित है अथवा अनश्वर है
इन दो पदोंसे स्थूलदेहरहित स्थिति कही है । शुद्ध-रागादिमलसे रहित है, अपापविद्ध-
पुण्यपापसे असंसृष्ट है । “अतः” इत्यादि, उत्पत्ति प्राप्ति, विकार अथवा संस्कारसे अतिरिक्त
पांचवाँ क्रियाफल नहीं है जो मोक्षको क्रियासाध्य सिद्ध करनेमें सहायक हो । कोई शंका करे
कि यदि मोक्ष असाध्य है तो उसके लिए शास्त्रका आरम्भ निरर्थक हो जायगा । इसपर
कहते हैं—नहीं, शास्त्रारम्भ निरर्थक नहीं होगा, क्योंकि वह ज्ञानके लिए है, ऐसा कहते हैं—
“तस्मात्” इत्यादिसे । तस्मात्—इससे कि पांचवाँ क्रियाफल मोक्षसिद्धि करनेमें हेतु नहीं
है । व्याघातकी शंका करते हैं—“ननु” इत्यादिसे । आशय यह है कि इस प्रकार मोक्षमें
क्रियाका अनुप्रवेश नहीं है, इस कथनमें व्याघात है । ज्ञान मानस है, तो भी विधियोग्य
क्रिया नहीं है, क्योंकि ज्ञान वस्तुतन्त्र है और कृतिसाध्य नहीं है, ऐसा “न” इत्यादिसे

(१) परस्पर विरुद्धार्थक बचन, जैसे कि ‘शिवजीवमह मीनी मद्गचारी च मे पिता । माता तु
मम वंध्यास्मादपुत्रश्च पितामहः’ जीवनपर्यन्त मे मीनी हूँ, मेरा पिता मद्गचारी है, माता बंध्या
है पुत्र नहीं है और पितामह हूँ ।

भाष्य

वैलक्षण्यात् । क्रिया हि नाम सा यत्र वस्तुस्वरूपनिरपेक्षैव चोद्यते, पुरुष-
चित्तव्यापाराधीना च, यथा 'यस्यै देवतायै हविर्गृहीतं स्यात्तां मनसा
ध्यायेद्वपद् करिष्यन्' इति, 'संध्यां मनसा ध्यायेत्' (ऐ० ब्र० ३।८।१)
इति चैवमादिषु ध्यानं चिन्तनं यद्यपि मानसम्, तथापि पुरुषेण कर्तुमक-

भाष्यका अनुवाद

मन की क्रिया है तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान उससे विलक्षण
है । क्रिया उसको कहते हैं जिसका वस्तुस्वरूपकी अपेक्षा के बिना ही
विधान किया जाता है और जो पुरुषके सङ्कल्पके अधीन है । जैसे कि 'यस्यै
देवतायै०' (जिस देवताके लिए अध्वर्युने हविका ग्रहण किया हो, उस देवताका
होता वपद्कार करता हुआ ध्यान करे) 'संध्यां०' (सन्ध्याका मनसे ध्यान करे)
इनमें और इसी प्रकार अन्य स्थलोंमें क्रियाका विधान है । ध्यान अर्थात् चिन्तन
यद्यपि मानसिक है, तो भी पुरुषके अधीन होनेके कारण वह करने न करने

रत्नप्रभा

कृत्यसाध्यत्वात् च इत्याह—नेति । वैलक्षण्यं प्रपञ्चयति—क्रिया हीति ।
यत्र विषये तदनपेक्षैव या चोद्यते, तत्र सा हि क्रियेति योजना । विषयवस्त्व-
नपेक्षा कृतिसाध्या च क्रिया इत्यत्र दृष्टान्तमाह—यथेति । गृहीतमध्वर्युणा इति
शेषः । "वपद् करिष्यन् होता, संध्यां देवताम्" इति चैवमादिवाक्येषु यथा
यादृशी ध्यानक्रिया वस्त्वनपेक्षा पुन्तन्त्रा च चोद्यते, तादृशी क्रिया इत्यर्थः ।
ध्यानमपि मानसत्वात् ज्ञानवत् न क्रिया इत्यत आह—ध्यानमित्यादिना ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

कहते हैं । वैलक्षण्यका विस्तार करते हैं—“क्रिया हि” इत्यादिसे । जिस विषयमें वस्तु
स्वरूपकी अपेक्षाके बिना जिसका विधान हो उस विषयमें वह क्रिया है ऐसी योजना
करनी चाहिए । क्रिया अपने विषयभूत वस्तुके स्वरूपकी अपेक्षा नहीं करती है और
कृतेसाध्य भी है, इस विषयमें दृष्टान्त देते हैं—“यथा” इत्यादिसे । 'गृहीतं' के बाद
'अध्वर्युणा' (अध्वर्युते) इतना शेष समझना चाहिए । होता वपद्कार करता हुआ सन्ध्या देवता-
का ध्यान करे इत्यादि वाक्योंमें जैसे वस्तुनिरपेक्ष एवं पुरुषाधीन ध्यानक्रिया विहित है वह क्रिया
है ऐसा अर्थ है । मानस ज्ञान जैसे क्रिया नहीं है, वैसे ही ध्यान भी मानस होनेके कारण

(१) 'स्वाहा देवहविर्दाने औषट् वीषट् वपद् स्वधा' देवको हविर्दान करते समय स्वाहा,
औषट्, वीषट्, वपद्, स्वधा, इनमेंमें किसी एक शब्दका मन्त्रके साथ प्रयोग होता है ।

भाष्य

प्रयुक्तक्षुरतैक्षण्यादिवत् अहेयानुपादेयवस्तुविषयत्वात् । किमर्थानि तर्हि 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः' इत्यादीनि विधिच्छायानि वचनानि ? स्वाभाविकप्रवृत्तिविषयविमुखीकरणार्थानीति ब्रूमः । यो हि वहिर्मुखः प्रवर्तते

भाष्यका अनुवाद

अखकी धारके समान कुण्ठित हो जाते हैं, (ज्ञेय ब्रह्म भी विधिका विषय नहीं है) क्योंकि ब्रह्म न हेय है और न उपादेय है । तब 'आत्मा वा०' (आत्माका दर्शन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए) इत्यादि विधितुल्य वाक्योंका क्या प्रयोजन है ? विषयमें मनुष्यकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, उससे उसको पराङ्मुख करना ही उनका प्रयोजन है । जो पुरुष बाह्य विषयोंमें 'इष्ट वस्तु

रत्नप्रभा

अनियोज्यं कृत्यसाध्यं नियोज्यशून्यं वा ज्ञानं तद्विषयकत्वात् इत्यर्थः । मम अयं नियोग इति बोद्धा—नियोज्यो विषयश्च विधेः नास्ति इति भावः । तर्हि ज्ञेयं ब्रह्म विधीयताम्, न इत्याह—अहेयेति । वस्तुस्वरूपो विषयः तत्त्वाद् । ब्रह्मणो निरतिशयस्य असाध्यत्वात् न विधेयत्वमित्यर्थः । उदासीनवस्तुविषयकत्वाच्च ज्ञानं न विधेयम्, प्रवृत्त्यादिफलाभावात् इत्यर्थः । विधिपदानां गतिं पृच्छति—किमर्थानीति । विधिच्छायानि—प्रसिद्धयागादिविधितुल्यानि इत्यर्थः । विधिप्रत्ययैरात्मज्ञानं परमपुरुषार्थसाधनमिति स्तूयते, स्तुत्या आत्यन्तिकेष्टहेतुत्वभ्रान्त्या या विषयेषु प्रवृत्तिः आत्मश्रवणादिप्रतिबन्धिका, तन्निवृत्तिफलानि विधिपदानीत्याह—

रत्नप्रभाका अनुवाद

करनेके लिए कहते हैं—“तद्विषये” इत्यादि । विधियाँ उस ज्ञानरूप विषयमें पुरुषको प्रवृत्त करनेमें समर्थ नहीं होती हैं, क्योंकि ये अनियोज्य—कृतिये असाध्य अथवा कृतिये उत्पन्न होनेवाले फलमें रहित जो ज्ञान उस ज्ञानको विषय करनेवाली हैं, ऐसा अर्थ है । 'यह मेरा कर्तव्य है' ऐसा समझनेवाला विधिका नियोज्य और विषय नहीं है । पूर्वपक्षी कहता है तब ज्ञेय ब्रह्मका विधान करो । “अहेय” इत्यादिये कहते हैं—नहीं, यह कथन युक्त नहीं है । विषय वस्तु-स्वरूप है, इसलिए निरतिशय ब्रह्मके साध्य न होनेसे ब्रह्म विधेय नहीं है । उदासीन वस्तु ब्रह्म ज्ञानका विषय है, इससे ज्ञान भी विधेय नहीं है, क्योंकि प्रवृत्ति आदि फलका अभाव है । पूर्वपक्षी विधिवाक्योंका प्रयोजन पूछता है—“किमर्थानि” इत्यादिये । विधितुल्य—प्रसिद्ध याग आदि विधिके समान । आत्मज्ञान परम पुरुषार्थका साधन है, विधिप्रत्ययोंमें इस प्रकार उसको स्तुतिकी गई है । स्तुतिके विषयमें प्रवृत्त होना आत्यन्तिक इष्टका हेतु है, इस भ्रान्तिये पुरुष विषयमें प्रवृत्त होता है और यह प्रवृत्ति आत्माके श्रवण आदिमें प्रतिबन्धक होती है, उसको निवृत्त करना विधिपदोंका फल है, ऐसा कहते हैं—

भाष्य

पुरुषः 'इदं मे भूयादनिष्टं मा भूत्' इति, न च तत्राऽऽत्यन्तिकं पुरुषार्थं लभते, तमात्यन्तिकपुरुषार्थनाञ्छिनं स्वाभाविककार्यकरणसङ्घातप्रवृत्तिगोचराद् विमुखीकृत्य प्रत्यगात्मस्रोतस्तया प्रवर्तयन्ति 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः' इत्यादीनि । तस्याऽऽत्मान्वेषणाय प्रवृत्तस्याऽहेयमनुपादेयं चाऽऽत्मतत्त्वमुपदिश्यते 'इदं सर्वं यद्यमात्मा' (बृ० २।४।६) 'यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत् केन कं विजानीयात् विज्ञातारमरे केन विजानीयाद्' (बृ० ४।५।१५) 'अयमात्मा ब्रह्म' (बृ० २।५।१९) इत्यादिभिः । यदप्य-

भाष्यका अनुवाद

मुझे प्राप्त हो, अनिष्ट प्राप्त न हो' इस प्रकार वहिर्मुख होकर प्रवृत्त होता है, वह उन विषयोंसे परम पुरुषार्थ प्राप्त नहीं कर सकता, उस परम पुरुषार्थकी इच्छा करनेवालेको 'आत्मा वा०' (आत्माका दर्शन करना चाहिए) इत्यादि वाक्य शरीर और इन्द्रिय-समूहकी स्वाभाविक प्रवृत्तिके विषय शब्द आदिसे निवृत्त करके उसकी चित्तवृत्तिके प्रवाहको प्रत्यगात्माकी तरफ जैसे हो सके वैसे प्रवृत्त कराते हैं । आत्मस्वरूपके अन्वेषणमें प्रवृत्त हुए उस पुरुषको 'इदं सर्वं०' (यह जो कुछ है सब आत्मस्वरूप है) 'यत्र त्वस्य०' (परन्तु जिस अवस्थामें उसके लिए सब आत्मरूपही हो गया, उस अवस्थामें वह किस साधनसे किसको देखे और किससे किसको जाने ।) 'विज्ञातार०' (जो जाननेवाला है, उसको किससे जाना जाय ।) 'अयमात्मा०' (यह आत्मा ब्रह्म है ।) इत्यादि श्रुतियां अहेय और अनुपादेय आत्मतत्त्वका उपदेश करती हैं । आत्मज्ञान होनेपर कर्तव्य कर्म कुछ नहीं

रत्नप्रभा

स्वाभाविकेति । विवृणोति—यो हीत्यादिना । तत्र विषयेषु संघातस्य या प्रवृत्तिः तद्गोचरात् शब्दादेरित्यर्थः । स्रोतः—चित्तवृत्तिप्रवाहः । प्रवर्तयन्ति ज्ञानसाधनश्रवणादौ इति शेषः । श्रवणस्वरूपमाह—तस्येति । अन्वेषणं ज्ञानम् । यत् इदं जगत्, तत् सर्वम् आत्मैवेति अनात्मबाधेन आत्मा बोध्यते । अद्वितीया-

रत्नप्रभाका अनुवाद

"स्वाभाविक" इत्यादिसे । इतीका स्पष्टीकरण करते हैं—'यो हि' इत्यादिसे । विषयोंमें इन्द्रियसंघातकी जो प्रवृत्ति है, उसके विषय शब्द आदि हैं ऐसा अर्थ है । स्रोतः—चित्तवृत्तिका प्रवाह । 'प्रवृत्त कराते हैं' यहाँ 'ज्ञानके साधन श्रवण आदिमें' इतनेका अध्याहार समझना चाहिए । श्रवणका स्वरूप कहते हैं—'तस्य' इत्यादिसे । अन्वेषण-ज्ञान । आत्म-ज्ञानकी प्राप्तिमें प्रवृत्त हुए पुरुषके लिए यह जगत् आत्मरूप ही है, इस प्रकार अनात्मके बाधसे आत्माका बोध कराया जाता है । अद्वितीय अदृश्य आत्मबोधमें बेचारी द्वैतबन्धमें

भाष्य

तुमन्यथा वा कर्तुं शक्यम्, पुरुषतन्त्रत्वात् । ज्ञानं तु प्रमाणजन्यम् प्रमाणं च यथाभूतवस्तुविषयम्, अतो ज्ञानं कर्तुमकर्तुमन्यथा वा कर्तुमशक्यं केवलं वस्तुतन्त्रमेव तत्, न चोदनातन्त्रम्, नापि पुरुषतन्त्रम्, तस्मात् मानसत्वेऽपि ज्ञानस्य महद्वैलक्षण्यम् । यथा च 'पुरुषो वाव गौतमाग्निः', 'योपा वाव गौतमाग्निः' (छा० ५।७, ८।१) इत्यत्र योषित्पुरुषयोरग्निबुद्धि-मानसी भवति, केवलचोदनाजन्यत्वात् क्रियैव सा पुरुषतन्त्रा च । या तु

भाष्यका अनुवाद

अथवा अन्यप्रकारसे-करनेके योग्य है । ज्ञान तो प्रमाणजन्य है । प्रमाण वस्तुके यथार्थ स्वरूपको ग्रहण करता है । इसलिए ज्ञान करने, न करने अथवा अन्य प्रकारसे करनेके योग्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह केवल वस्तुके अधीन है; विधिके योग्य नहीं है और पुरुषके अधीन भी नहीं है । अतः ज्ञानके मानसिक होने पर भी ध्यानसे उसका बड़ा भेद है । जैसे 'पुरुषो' (हे गौतम ! पुरुष अग्नि है) 'योपा' (हे गौतम ! स्त्री अग्नि है) इनमें स्त्री और पुरुषमें अग्निबुद्धि मानसिक है । वह केवल विधि-

रत्नप्रभा

तथापि क्रियैव इति शेषः । कृत्यसाध्यत्वमुपाधिरिति भावः । ध्यानक्रियाम् उक्त्वा ततो वैलक्षण्यं ज्ञानस्य स्फुटयति—ज्ञानन्विति । अतः प्रमात्वात् न चोदनातन्त्रं न विधेर्विषयः । पुरुषः कृतिद्वारा तन्त्रं हेतुर्यस्य तत्पुरुषतन्त्रम्, तस्माद् वस्त्वव्यभिचारात् अपुतन्त्रत्वात्-च ध्यानात् ज्ञानस्य महान् भेद इत्यर्थः—'भेदमेव दृष्टान्तान्तरेण आह—यथा चेति । अमेदासत्त्वेऽपि विधितो ध्यानं कर्तुं शक्यम्, न ज्ञानमित्यर्थः । ननु प्रत्यक्षज्ञानस्य विषयजन्यतया तत्तन्त्रत्वेऽपि

रत्नप्रभाका अनुवाद

क्रिया नहीं है, इस बातका निराकरण करते हैं—“ध्यान” इत्यादिसे । 'तथापि' के बाद 'क्रियैव' (क्रिया ही) इतना शेष समझना चाहिए । भाव यह है कि उपर्युक्त अनुमानमें कृत्यसाध्यत्व (कृतिसे साध्य न होना) उपाधि है । ध्यानक्रियाको कहकर उससे ज्ञानका भेद स्पष्ट करते हैं—“ज्ञानं तु” इत्यादिसे । ज्ञान प्रमारूप होनेसे चोदनातन्त्र नहीं है अर्थात् विधिका विषय नहीं है । पुरुष कृतिद्वारा जिसका हेतु हो वह पुरुषतन्त्र है (किन्तु ज्ञान ऐसा नहीं है) । वस्तुके अधीन होनेसे और पुरुषके अधीन न होनेसे ध्यानसे ज्ञानका महान् भेद है । दूसरा दृष्टान्त देकर ज्ञान और ध्यानके भेदको ही स्पष्ट करते हैं—“यथा च” इत्यादिसे । आशय यह है कि विधिसे ध्यान किया जा सकता है, ज्ञान नहीं

भाष्य

प्रसिद्धेऽग्निविद्युद्धिर्न सा चोदनातन्त्रा, नापि पुरुषतन्त्रा, किं तर्हि ? प्रत्यक्षविषयवस्तुतन्त्रैवेति ज्ञानमेवैतत्, न क्रिया । एवं सर्वप्रमाणविषयवस्तुषु वेदितव्यम् । तत्रैवं सति यथाभूतब्रह्मात्मविषयमपि ज्ञानं न चोदनातन्त्रम् । तद्विषये लिङादयः श्रूयमाणा अप्यनियोज्यविषयत्वात् कुण्ठीभवन्त्युपलादिषु

भाष्यका अनुवाद

जन्य होनेके कारण क्रिया ही है और पुरुषके अधीन है । प्रसिद्ध अग्निमें जो अग्निविद्युद्धि होती है, वह न तो विधिके अधीन है और न पुरुषके अधीन है; किन्तु प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाली वस्तु (अग्नि) के अधीन है, अतः वह ज्ञान ही है, क्रिया नहीं है । इसी प्रकार सब प्रमाणोंके अर्थान् अनुमान, शब्द आदि प्रमाणोंके विषयमें समझना चाहिए । जब व्यवहारमें ज्ञान विधेय नहीं है, ऐसा सिद्ध हो गया, तब यथाभूत—अवाधित ब्रह्मात्मविषयक ज्ञान भी विधिके अधीन नहीं है । यद्यपि ज्ञानके बारेमें लिङ्, लोट् आदि प्रत्यय देखे जाते हैं, तो भी नियोगके अयोग्य ज्ञानविषयक होनेके कारण पत्थर आदिमें प्रयुक्त

रत्नप्रभा

शब्दबोधस्य तदभावात् विधेयक्रियात्वम् इति, न इत्याह—एवं सर्वेति । शब्दानुमानाद्यर्थेष्वपि ज्ञानम् अविधेयक्रियात्वेन ज्ञातव्यम् । तत्रापि मानादेव ज्ञानस्य प्राप्तेर्विध्ययोगात् इत्यर्थः । तत्रैवं सति—लोके ज्ञानस्य अविधेयत्वे इत्यर्थः । यथाभूतत्वम्—अवाधितत्वम् । ननु “आत्मानं पश्येत्” “ब्रह्म त्वं विद्धि” (के० १।५) “आत्मा द्रष्टव्यः” (वृ० २।४।५) इति विज्ञाने लिङ् लोट् प्रत्ययप्रत्यया विधायकाः श्रयन्ते, अतो ज्ञानं विधेयमित्यत आह— तद्विषये इति । तस्मिन् ज्ञानरूपविषये विधयः पुरुषं प्रवर्तयितुमशक्ता भवन्ति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

क्रिया जा सकता । यहाँ शंका होती है कि प्रत्यक्ष ज्ञान विषयजन्य है, इसलिए विषयके अधीन है, परन्तु शब्दज्ञान विषयके अधीन नहीं है, इसलिए वह विधेय क्रिया है । इस शंकाका निराकरण करते हैं—“एवं सर्वं” इत्यादिसे । शब्द, अनुमान आदिमें भी ज्ञान अविधेय क्रिया है ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि उनमें भी प्रमाणसे ही ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए ज्ञान विधिके योग्य नहीं है । “तत्रैवं सति” अर्थात् लोकमें ज्ञानके अविधेय होनेपर । यथाभूत—अवाधित । कोई शंका करे कि ‘आत्मानं०’ (आत्माका साक्षात्कार करे) ‘ब्रह्म त्वं०’ (त्वुं ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करो) ‘आत्मा द्रष्टव्यः’ (आत्माका साक्षात्कार करो) इस प्रकार ज्ञानमें ‘लिङ्’ (विध्यर्थक प्रत्यय) ‘लोट्’ (आशार्थक प्रत्यय) और ‘तव्य’ (विधिवाचक कृत् प्रत्यय) प्रत्यय विधिवाचक हैं, अतः ज्ञान विधेय है । इस शंकाको दूर

भाष्य

पुरुषः 'इदं मे भूयादनिष्टं मा भूत्' इति, न च तत्राऽऽत्यन्तिकं पुरुषार्थं लभते, तमात्यन्तिकपुरुषार्थनाच्छिन्नं स्वाभाविककार्यकरणसङ्घातप्रवृत्तिगोचराद् विमुखीकृत्य प्रत्यगात्मस्रोतस्तया प्रवर्तयन्ति 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः' इत्यादीनि । तस्याऽऽत्मान्वेषणाय प्रवृत्तस्याऽहेयमनुपादेयं चाऽऽत्मतत्त्वमुपदिश्यते 'इदं सर्वं यदयमात्मा' (वृ० २।४।६) 'यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत् केन कं विजानीयात् विज्ञातारमरे केन विजानीयाद्' (वृ० ४।५।१५) 'अयमात्मा ब्रह्म' (वृ० २।५।१९) इत्यादिभिः । यदप्य-

भाष्यका अनुवाद

मुझे प्राप्त हो, अनिष्ट प्राप्त न हो' इस प्रकार वहिर्मुख होकर प्रवृत्त होता है, वह उन विषयोंसे परम पुरुषार्थ प्राप्त नहीं कर सकता, उस परम पुरुषार्थकी इच्छा करनेवालेको 'आत्मा वा०' (आत्माका दर्शन करना चाहिए) इत्यादि वाक्य शरीर और इन्द्रिय-समूहकी स्वाभाविक प्रवृत्तिके विषय शब्द आदिसे निवृत्त करके उसकी चित्तवृत्तिके प्रवाहको प्रत्यगात्माकी तरफ जैसे हो सके वैसे प्रवृत्त कराते हैं । आत्मस्वरूपके अन्वेषणमें प्रवृत्त हुए उस पुरुषको 'इदं सर्वं०' (यह जो कुछ है सब आत्मस्वरूप है) 'यत्र त्वस्य०' (परन्तु जिस अवस्थामें उसके लिए सब आत्मरूपही हो गया, उस अवस्थामें वह किस साधनसे किसको देखे और किससे किसको जाने ।) 'विज्ञातार०' (जो जाननेवाला है, उसको किससे जाना जाय ।) 'अयमात्मा०' (यह आत्मा ब्रह्म है ।) इत्यादि श्रुतियां अहेय और अनुपादेय आत्मतत्त्वका उपदेश करती हैं । आत्मज्ञान होनेपर कर्तव्य कर्म कुछ नहीं

रत्नप्रभा

स्वाभाविकेति । विवृणोति—यो हीत्यादिना । तत्र विषयेषु संघातस्य या प्रवृत्तिः तद्गोचरात् शब्दादेरित्यर्थः । स्रोतः—चित्तवृत्तिप्रवाहः । प्रवर्तयन्ति ज्ञानसाधनश्रवणादौ इति शेषः । श्रवणस्वरूपमाह—तस्येति । अन्वेषणं ज्ञानम् । यत् इदं जगत्, तत् सर्वम् आत्मैवेति अनात्मबाधेन आत्मा बोध्यते । अद्वितीया-

रत्नप्रभाका अनुवाद

"स्वाभाविक" इत्यादिसे । इतीका स्पर्शकरण करते हैं—'यो हि' इत्यादिसे । विषयोंमें इन्द्रियसंघातकी जो प्रवृत्ति है, उसके विषय शब्द आदि हैं ऐसा अर्थ है । स्रोतः—चित्तवृत्तिका प्रवाह । 'प्रवृत्त कराते हैं' यहाँ 'ज्ञानके साधन श्रवण आदिमें' इतनेका अप्याहार समझना चाहिए । श्रवणका स्वरूप कहते हैं—'तस्य' इत्यादिसे । अन्वेषण-ज्ञान । आत्म-ज्ञानकी प्राप्तिमें प्रवृत्त हुए पुरुषके लिए यह जगत् आत्मरूप ही है, इस प्रकार अनात्माके बाधसे आत्माका बोध कराया जाता है । अद्वितीय अहंकार आत्मबोधमें बेचारी द्वैतबोधमें

भाष्य

कर्तव्यप्रधानमात्मज्ञानं हानायोपादानाय वा न भवतीति तत्तथैवेत्यभ्युप-
गम्यते । अलंकारो ह्ययमस्माकं यद् ब्रह्मात्मावगतौ सत्यां सर्वकर्तव्यता-
हानिः कृतकृत्यता चेति । तथा च श्रुतिः—

‘आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुपः ।

‘किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत् ।’ (वृ० ४।४।१२) इति ।

‘एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भास्त ।’ (भ० गी० १।५।२०)

भाष्यका अनुवाद

रहता, इसलिए उस ज्ञानसे किसीका त्याग या ग्रहण नहीं होता ऐसा जो पूर्ववादीने
कहा है, सो ठीक ही है, हम भी उसका अंगीकार करते हैं । ब्रह्म और प्रत्यंगात्माके
ऐक्यज्ञान होनेपर सब कर्तव्य कर्मोंका नाश होजाता है, अर्थात् कुछ भी कर्तव्य
नहीं रह जाता और कृतार्थता हो जाती है यह कथन हम वेदान्तियोंके लिए
भूषण है । इस विषयमें ‘आत्मानं०’ (‘यह स्वयंप्रकाश आत्मा ‘मैं हूँ’ ऐसा जो
पुरुष जान लेता है, वह किस फलकी इच्छासे और किस भोक्ताके प्रेमके
लिए सन्तप्त होता हुआ शरीरके पीछे स्वयं सन्तप्त हो ।) यह श्रुति और
‘एतद् बुद्ध्वा०’ (हे अर्जुन ! इस गुह्यतम तत्त्वको जानकर पुरुष ज्ञानी और

रत्नप्रभा

इत्यात्मबोधे विधिः तपस्वी द्वैतवनोपजीवनः क स्थास्यति इति भावः ।
आत्मज्ञानिनः कर्तव्याभावे मानमाह—तथा चेति । ‘अयं स्वयंप्रभानन्दः
परमात्मा अहमस्मि’ इति यदि कश्चित् पुरुष आत्मानं जानीयात्, तदा
किं फलम् इच्छन् कस्य वा भोक्तुः प्रीतये शरीरं तप्यमानम् अनुसंज्वरेत्
तप्येत । भोक्तृभोग्यद्वैताभावात् कृतकृत्य आत्मवित् इति अभिप्रायः । ज्ञान-
दौर्लभ्यार्थः चेत्शब्दः । एतद् गुह्यतमं तत्त्वम् । वृत्तिकारमतनिरासमुपसंहरति—

रत्नप्रभाका अनुवाद

जानेवाली विधि कहीं रहेगी । आत्मज्ञानके लिए कर्तव्य कर्म नहीं है, इसमें प्रमाण कहते
हैं—“तथा च” इत्यादिसे । यदि कोई मनुष्य ‘यह स्वयंज्योति आनन्दस्वरूप ब्रह्म मैं हूँ’
ऐसा अपनेको जान ले, तो वह किस फलकी इच्छामें अथवा किस भोक्ताकी प्रीतिके लिए
सन्तप्त शरीरके पीछे आप सन्तप्त हो । अभिप्राय यह है कि भोक्ता और भोग्यरूप द्वैतके
अभावसे आत्मज्ञानी कृतार्थ हो जाता है । ‘आत्मानं चेद्विजानीयात्’ इस श्रुतिमें ‘चेत्’ शब्द ज्ञानकी
दुर्लभताका द्योतक है । ‘यह’—गुह्यतम तत्त्व । “तस्मात्” इत्यादिसे वृत्तिकारके मतके

भाष्य

इति च स्मृतिः । तस्मान्न प्रतिपत्तिविधिविषयतया ब्रह्मणः समर्पणम् । यदपि केचिदाहुः—‘प्रवृत्तिविधितच्छेषव्यतिरेकेण- केवल-वस्तुवादी वेदभागो नास्ति’ इति, तन्न, ‘औपनिषदस्य पुरुषस्य भाष्यका अनुवाद

कृतार्थ हो जाता है) यह स्मृति प्रमाण है । इस कारण वेदान्त उपासना विधिके विषयस्वरूपसे ब्रह्मका बोध नहीं कराते हैं । कोई जो यह कहते हैं कि प्रवृत्ति-विधि, निवृत्तिविधि और उनके अङ्गसे अतिरिक्त केवल वस्तुका प्रतिपादन करनेवाला वेदभाग नहीं है । उनका यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उपनिषदसे श्रेय पुरुष अन्यका श्रेय नहीं होता । केवल उपनिषदोंसे ही ज्ञात जो असंसारी

रत्नप्रभा

तस्मादिति । प्राभाकरोक्तमुपन्यस्यति—यदपि केचिदिति । कर्ता आत्मा लोकसिद्धत्वात् न वेदान्तार्थः । तदन्यद् ब्रह्म नास्ति एव वेदस्य कार्यपरत्वेन मानाभावात् इत्यर्थः । मानाभावोऽसिद्ध इत्याह—तत् नेति । अज्ञातस्य फलस्वरूपस्य आत्मन उपनिषदेकवेद्यस्य अकार्यशेषत्वात् कृत्स्नवेदस्य कार्यपरत्वमसिद्धम् । न च प्रवृत्तिनिवृत्तिलिङ्गाभ्यां श्रोतुस्तद्धेतुं कार्यबोधमनुमाय वक्तृवाक्यस्य कार्यपरत्वं निश्चित्य वाक्यस्थपदानां कार्यान्विते शक्तिग्रहात् न सिद्धस्य अपदार्थस्य वाक्यार्थत्वम् इति वाच्यम् । पुत्रस्ते जात इति वाक्यश्रोतुः पितुर्हर्षलिङ्गेन इष्टं पुत्रजन्म अनुमाय पुत्रादिपदानां सिद्धे सङ्गतिग्रहात् कार्यान्वितापेक्षया अन्वितार्थे शक्तिरिति अङ्गीकारे लाघवात् सिद्धस्य अपि वाक्यार्थत्वात् ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

निराकरणका उपसंहार करते हैं । प्राभाकरके मतका उपन्यास करते हैं—“यदपि केचित्” इत्यादिसे । कर्तारूप आत्मा लोकसिद्ध है, इसलिए वेदान्तवेद्य नहीं है, उससे भिन्न ब्रह्म है ही नहीं, क्योंकि वेदके कार्यपरक होनेसे ब्रह्ममें कोई प्रमाण नहीं है । प्रमाणाभाव असिद्ध है इस मतका खण्डन करते हैं—“न” इत्यादिसे । अन्य प्रमाणसे अज्ञात फलस्वरूप आत्माका ज्ञान उपनिषदसे ही होता है । आत्मा कार्यशेष नहीं है, इसलिए रामप्र वेद कार्यपरक है यह असिद्ध है और प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप हेतुगे श्रोता कार्यज्ञानका अनुमान कर, यत्तका वाक्य कार्यपरक है ऐसा निश्चय करके वाक्यस्थ पदोंका कार्यान्वितमें शक्तिग्रह करता है, इसलिए कार्यान्वित अर्थमें वाक्यस्थ पदोंको शक्ति है, सिद्ध अर्थमें नहीं है, अतः सिद्ध अर्थवाक्यार्थ नहीं हो सकता, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि तेरा पुत्र हुआ है इस वाक्य को मुननेवाले पिताके हर्षलिङ्गसे इष्ट पुत्रजन्मका अनुमान करके पुत्र आदि पदोंका सङ्गतिग्रह सिद्ध अर्थमें होनेसे

भाष्य

अनन्यशेषत्वात् । योऽसावुपनिपत्स्वेवाधिगतः पुरुषोऽसंसारी ब्रह्म उत्पाद्यादिचतुर्विधद्रव्यविलक्षणः स्वप्रकरणस्योऽनन्यशेषः, नासौ नास्ति

भाष्यका अनुवाद

पुरुष (ब्रह्म) है, यह उत्पाद्य, विकार्य आदि चार प्रकारके द्रव्योंसे विलक्षण है और अपने ही प्रकरणमें स्थित है, इसलिए यह अन्यशेष नहीं है, यह नहीं है अथवा नहीं जाना जाता, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 'स एष०'

रत्नप्रभा

इत्यलम् । किञ्च, ब्रह्मणो नास्तित्वादेव कृत्स्नवेदस्य कार्यपरत्वम्, उत वेदान्तेषु तस्य अभानाद्, अथवा कार्यशेषत्वात्, किं वा लोकसिद्धत्वात्, आहोस्वित् मानान्तरविरोधात् ? तत्र आद्यं पक्षत्रयं निराचष्टे—योऽसाविति । अनन्यशेषत्वार्थमसंसारी इत्यादि विशेषणम् । नास्तित्वाभावे हेतुं वेदान्तमानसिद्धत्वं

रत्नप्रभाका अनुवाद

और कार्यान्वितकी अपेक्षा अन्वित अर्थमें शक्ति है ऐसा माननेमें लक्ष्य होनेसे सिद्ध भी वाक्यार्थ है । और समग्र वेद कार्यपरक है ऐसा जो तुम कहते हो उसमें क्या कागण है ? क्या ब्रह्म नहीं ही है ? अथवा वेदान्तोंसे उसका भान नहीं होता ? अथवा ब्रह्म कार्यशेष है ? अथवा वह लोकसिद्ध है ? अथवा अन्य प्रमाणोंसे विरोध है ? प्रथम तीन पक्षोंका निराकरण करते हैं—“योऽसौ” इत्यादिसे । आत्मा अन्यका शेष नहीं है, यह दिखलानेके लिए असंसारी आदि विशेषण दिये हैं । वेदान्तप्रमाणोंसे सिद्ध होनेके कारण आत्माका

(१) वाक्यसे अर्थका बोध कैसे होता है, इसमें मीमांसकों और नैयायिकोंका भिन्न २ मत है । नैयायिकोंके मतानुसार प्रत्येक पदका अर्थ सामान्य है । वाक्यमें जो एक पद दूसरे पदके साथ जोड़े जाते हैं, वे अन्वयसे जोड़े जाते हैं और यह अन्वय आकांक्षा, योग्यता और संनिधिसे होता है । इस प्रकार आकांक्षा, योग्यता और संनिधिके बलसे एक दूसरेके साथ जुड़े हुए पदोंका जो अर्थ है, वही वाक्यार्थ है । पदार्थ नहीं है, क्योंकि पदोंका अर्थ सामान्य है । वाक्यार्थको तात्पर्यार्थ भी कहते हैं । इस मतमें पदकी शक्ति केवल पदार्थमें है, अन्वयार्थमें नहीं है । अभिहित हुए अर्थात् साधारण रीतिसे पदशक्तिसे प्रतिपादित हुए पदार्थोंका अन्वय आकांक्षा, योग्यता और संनिधिके बलसे होता है, यह जिन विद्वानोंका कथन है वे अभिहितान्वयवादी कहलाते हैं । भाट्ट मतानुयायियोंका मत भिन्न है । उनके मतानुसार पदका अर्थ सामान्य नहीं है, किन्तु विशिष्ट है अर्थात् परस्पर अन्वित (जुड़ा हुआ) है । पदशक्तिसे ही अन्वयका भी बोध होता है और अन्वय विशेषके बोधके लिए आकांक्षा, योग्यता और संनिधिकी भी अपेक्षा होती है । पद अन्वित अर्थका अभिधान करते हैं और पदोंका अन्वित अर्थ ही वाक्यार्थ है । ये अन्वितमिधानवादी कहलाते हैं ।

भाष्य

नाधिगम्यतं इति वा शक्यं वदितुम्, 'स एष नेति नेत्यात्मा' (बृ० ३।१।२६) इत्यात्मशब्दात्, आत्मनश्च प्रत्याख्यातुमशक्यत्वात् । य एव निराकर्ता तस्यैवात्मत्वप्रसङ्गात् । नन्वात्माहंप्रत्ययविषयत्वाद्दुपनिपत्स्वेव विज्ञायत इत्यनुपपन्नम्, न ; तत्साक्षित्वेन प्रत्युक्तत्वात् । न ह्यहंप्रत्ययविषयकर्तृव्यतिरेकेण तत्साक्षी सर्वभूतस्थः सम एकः कूटस्थ-

भाष्यका अनुवाद

(यह नहीं, यह नहीं, इस प्रकार जो आत्मा उपदिष्ट है, वह यह है) इस श्रुतिमें आत्मशब्द है, अतः आत्माका निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो निषेध करनेवाला है, वही आत्मा है । आत्मा 'मैं' इस प्रतीतिका विषय होनेसे उपनिषदोंसे ही जाना जाता है, यह कथन अयुक्त है । ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि आत्मा 'मैं' इस प्रतीतिका साक्षी है, विषय नहीं है । 'मैं' इस प्रत्ययका विषय जो कर्ता है, उससे भिन्न उसका साक्षी, सब भूतोंमें स्थित,

रत्नप्रभा

उक्त्वा हेत्वन्तरम् आत्मत्वमाह—स एष इति । इतिरिदमर्थे । 'इदं न इदं न' इति सर्वदृश्यनिषेधेन य आत्मा उपदिष्टः स एष इत्यर्थः । चतुर्थं शङ्कते—नन्वात्माहमिति । आत्मनोऽहङ्कारादिसाक्षित्वेन अहंघीविषयत्वस्य निरस्तत्वात् न-लोकसिद्धता इत्याह—नेति । यं तीर्थकारा अपि न जानन्ति, तस्य अलौकिकत्वं किमु वाच्यमित्याह—नहीति । समः—तारतम्यवर्जितः । तत्तन्मते आत्मानधिगतिद्योतकानि विशेषणानि । पञ्चमं निरस्यति—अत इति । केनचिद् वादिना

रत्नप्रभाका अनुवाद -

अभाव नहीं है यह कहकर आत्मत्वरूप दूसरा हेतु कहते हैं—“स एष” इत्यादिसे । श्रुतिमें इति शब्द 'इदम्'के अर्थमें है । आशय यह है कि 'इदं न इदं न' (यह नहीं, यह नहीं) इस प्रकार सब दृश्य पदार्थोंके निषेधसे जिस आत्माका उपदेश किया गया है वह यही है । आत्मा लोकसिद्ध है, इस चतुर्थ पक्षकी शङ्का करते हैं—“नन्वात्माहम्” इत्यादिसे । आत्मा अहङ्कार आदिका साक्षी होनेसे 'मैं' इस प्रत्ययका विषय नहीं है, हमसे यह लोकसिद्ध नहीं है, इस बातको “न” इत्यादिसे कहते हैं । जिसको शास्त्रकार भी नहीं जानते, वह अलौकिक है इसमें कहना ही क्या है, ऐसा कहते हैं—“नहि” इत्यादिसे । सम-तारतम्यशून्य अर्थात् न्यूननाधिक्यरहित । अन्यान्यमतोंसे आत्मा अगम्य है, यह दिखलानेके लिए अनेक विशेषण दिये हैं । पांचवां पक्ष है—अन्य प्रमाणोंका विरोध है, इसलिए समग्र वेद कार्य-परक है, इस पक्षका निराकरण करते हैं—“अत” इत्यादिसे । विसा वादासे, प्रमाणसे

भाष्य

नित्यः पुरुषो विधिक्लाण्डे तर्कसमये वा केनचिदधिगतः सर्वस्यात्मा, अतः स न केनचित् प्रत्याख्यातुं शक्यो विधिशेषत्वं वा नेतुम् । आत्मत्वादेव च सर्वेषां न हेयो नाप्युपादेयः । सर्वं हि विनश्यद्विकारजातं पुरुषान्तं विनश्यति । पुरुषो हि विनाशहेत्वभावादविनाशी, विक्रियाहेत्वभावाच्च कूटस्थनित्यः, अत एव नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः, तस्मात् 'पुरुषान्न परं

भाष्यका अनुवाद

सम, एक, कूटस्थनित्य, सर्वस्वरूप, पुरुष कर्मकाण्डमें अथवा तर्कशास्त्रमें किसीसे जाना नहीं गया है । इसलिए उसका कोई निराकरण नहीं कर सकता और न वह विधिना अज्ञही ठहराया जा सकता है । वह सबका आत्मा है, इससे वह न हेय है और न उपादेय है । पुरुषको छोड़कर और सभी विकारी पदार्थ विनाशी हैं । पुरुष तो अविनाशी है, क्योंकि उसका कोई नाशक नहीं है, कूटस्थ नित्य है, क्योंकि उसमें विकारका कोई कारण नहीं है और निर्विकार होनेके कारण ही नित्य, शुद्ध, बुद्ध एवं मुक्त स्वभाव है । इस कारण

रत्नप्रभा

प्रमाणेन युक्त्या वा इत्यर्थः । अगम्यत्वात् न मानान्तरविरोध इति भावः । कर्माङ्गम्, चेतनत्वात्, कर्तृवत् इति तत्र आह—विधीति । अज्ञातसाक्षिणोऽनुपयोगात् ज्ञातस्य व्याघातकत्वात् न कर्मशेषत्वम् इत्यर्थः । साक्षिणः सर्वशेषित्वात् अहेयानुपादेयत्वात् च न कर्मशेषत्वमित्याह—आत्मत्वात् इति । अनित्यत्वेन आत्मनो हेयत्वमाशङ्क्य आह—सर्वं हीति । परिणामित्वेन हेयतां निराचष्टे—विक्रियेति । उपादेयत्वं निराचष्टे—अत एवेति । निर्विकारित्वात् इत्यर्थः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

अथवा युक्ति द्वारा । अर्थात् अगम्य होनेके कारण अन्य प्रमाणोंसे विरोध नहीं है । कर्ताकी तरह चेतन होनेके कारण साक्षी कार्यशेष है—इस अनुमानका निराकरण करनेके लिए "विधि" इत्यादि कहते हैं । भावार्थ यह है कि कर्ममें अज्ञात साक्षीका उपयोग नहीं हो सकता है और साक्षीका ज्ञान होनेपर वह कर्मका नाशक होता है, इसलिए कार्यशेष नहीं है । साक्षी किसीका अज्ञ नहीं है, किन्तु सबका अज्ञी है, इस कारण न हेय है और न उपादेय है, इस कारणसे भी साक्षी कर्माङ्ग नहीं है ऐसा "आत्मत्वात्" इत्यादिसे कहते हैं । यदि कोई शङ्का करे कि आत्मा अनित्य होनेके कारण हेय है, तो उसका निराकरण करनेके लिए कहते हैं—"सर्वं हि" इत्यादि । यदि कोई कहे कि आत्मा परिणामी होनेसे हेय है, तो इस शङ्काको हटानेके लिए कहते हैं—"विक्रिय" इत्यादि । आत्मा उपादेय है इन बातका निराकरण करते हैं—"अत एव" इत्यादिसे । अर्थात् विचाररहित होनेके कारण उपादेय

भाष्य

किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः' (का० १।३।११) 'तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि' (वृ० ३।९।२६) इति चौपनिषदत्वविशेषणं पुरुषस्योपनिषत्सु प्राधान्येन प्रकाश्यमानत्व उपपद्यते । अतो भूतवस्तुपरो वेदभागो नास्तीति वचनं साहसमात्रम् । यदपि शास्त्रतात्पर्यविदामनुक्रम-
भाष्यका अनुवाद

'पुरुषात् परं' (पुरुषसे परे कुछ नहीं है, वह सबकी अबधि है, वही परम पुरुषार्थ है) इस श्रुतिमें पुरुषसे परे कोई, नहीं है .ऐसा कहा गया है । और तं त्वौप०' (उस उपनिषद्गम्य पुरुषको मैं आपसे पूछता हूँ) इस श्रुतिमें पुरुषका 'औपनिषदम्' यह विशेषण, उपनिषदोंसे ही मुख्यतया पुरुषका ज्ञान होता है ऐसा माननेसे, उपपन्न होता है । इसलिए वेदभाग सिद्ध वस्तुका प्रतिपादन नहीं करता है यह कथन साहसमात्र है । शास्त्रका तात्पर्य जानने-

रत्नप्रभा

उपादेयत्वं हि साध्यस्य, न तु आत्मनः, नित्यसिद्धत्वाद् इत्यर्थः । पर-
प्राप्त्यर्थम् आत्मा हेय इत्यत आह—तस्मात् पुरुषात् न परं किञ्चिद् इति । काष्ठा सर्वस्य अबधिः । एवम् आत्मनोऽनन्यशेषत्वात्, अबाध्यत्वात् अपूर्वत्वात्, वेदान्तेषु स्फुटभावात् च वेदान्तैकवेद्यत्वमुक्तम् । तत्र श्रुतिमाह—तन्वेति । तं सकारण-
सूत्रस्य अधिष्ठानम्, पुरुषं पूर्णम्, हे शाकल्य ! त्वा त्वां पृच्छामि इत्यर्थः । अत इति । उक्तलिङ्गैः श्रुत्या च वेदान्तानाम् आत्मवस्तुपरत्वनिश्चयात् इत्यर्थः । पूर्वोक्तमनुवदति—यदपीति । वेदस्य नैरर्थक्ये शङ्किते तस्य अर्थवत्तापरमिदं भाष्यम्—दृष्टो हीति । तत्र फलवदर्थवबोधनमिति वक्तव्ये धर्मविचारप्रक्रमात्

रत्नप्रभाका अनुवाद

वह होता है जो कि साध्य है, आत्मा तो नित्यसिद्ध है, इसलिए उपादेय नहीं है । आत्मासे उत्कृष्ट वस्तु प्राप्त करनी है, इसलिए आत्मा हेय है इस शंकाको दूर करनेके लिए कहते हैं— "तस्मात् पुरुषात् परं किञ्चित्" इत्यादि । काष्ठा—सबकी अबधि, अन्तिम सीमा । इस प्रकार आत्मा अन्यशेष नहीं है, वह अबाध्य है, अपूर्व है और वेदान्तोंमें उसका स्पष्टीकरण है, इस प्रकार वेदान्तसे ही वेद्य है । इस कथनकी पुष्टिके लिए कहते हैं—"तं तु" इत्यादि । जो उपनिषदोंसे ही विज्ञेय है अन्य प्रमाणगम्य नहीं है, उस सकारण-सूत्रके अधिष्ठान पूर्ण आत्माको हे शाकल्य ! मैं तुमसे पूछता हूँ, ऐसा याज्ञवल्क्य कहते हैं । अतः—उक्त हेतुर्वासे और श्रुतिसे वेदान्त आत्मवस्तुका प्रतिपादन करते हैं ऐसा निश्चय होनेसे । पूर्व कहे हुए का अनुवाद करते हैं—"यदपि" इत्यादिसे । वेद निरर्थक हे

भाष्य

णम्—‘दृष्टो हि तस्यार्थः कर्मावबोधनम्’ इत्येवमादि, तद्धर्मजिज्ञासाविषय-

भाष्यका अनुवाद

वालोकें ‘दृष्टो हि०’ (कर्मका बोध करानेमें उनका उपयोग है) इत्यादि जो वचन दिखलाए हैं, वे धर्म जिज्ञासाके विषय होनेके कारण विधि प्रतिषेध-

रत्नप्रभा

कर्मावबोधनमित्युक्तम्, नैतावता वेदान्तानां ब्रह्मपरत्वनिरासः । अत एव अनुपलब्धेऽर्थे “तत्प्रमाणमिति” सूत्रकारो धर्मस्य फलवदज्ञातत्वेनैव वेदार्थतां दर्शयति । तच्च अविशिष्टं ब्रह्मण इति न वृद्धवाक्यैः विरोध इत्याह—तद्धर्मेति । निषेधशास्त्रस्य अपि निवृत्तिकार्यपरत्वमस्ति, तत् सूत्रभाष्यवाक्यजातं कर्मकाण्डस्य कार्यपरत्वाभिप्रायम् इत्यर्थः । वस्तुतस्तु लिङ्गर्थे कर्मकाण्डस्य तात्पर्यम्, लिङ्गर्थश्च लोके प्रवर्तकज्ञानगोचरत्वेन क्लृप्तं यागादिक्रियागतम् इष्टसाधनत्वमेव, न क्रियातोऽतिरिक्तं कार्यम्, तस्य कूर्मलोभवदप्रसिद्धत्वात् इति तस्य अपि पराभिमतकार्यविलक्षणे सिद्धे दधिसोमादौ प्रामाण्यं किमुत ज्ञानकाण्डस्य इति मन्तव्यम् । किञ्च,

रत्नप्रभाका अनुवाद

ऐसी शंका होनेपर “दृष्टो हि” इत्यादि भाष्य उसकी अर्धवत्ता दिखलानेवाला है । यहाँ “फलवदर्थवबोधनम्” (फलवत्—सप्रयोजन वस्तुका अवबोधन—ज्ञान) ऐसा कहना चाहिए था, किन्तु धर्मविचाररूप प्रस्तुत विषयको लेकर “कर्मावबोधनम्” (कर्मका ज्ञान) ऐसा कहा है, इतनेसे ही वेदान्त ब्रह्मपरक हैं इसका निराकरण नहीं हो जाता, इसलिए सूत्रकार जैमिनिने ‘अनुपलब्ध अर्थमें वेद प्रमाण है’ ऐसा कहकर धर्म सप्रयोजनकं एवं अज्ञात होनेके कारण ही वेदार्थ है ऐसा दिखलाया है । ब्रह्म भी फलवत् एवं अज्ञात होनेके कारण वेदार्थ है, अतः वृद्धवाक्योंसे विरोध नहीं है ऐसा कहते हैं—“तद्धर्म” इत्यादिसे । निषेध शास्त्र भी निवृत्तिरूप क्रियाका प्रतिपादन करता है । ‘वह’ अर्थात् सूत्र-भाष्यवाक्य, कर्मकाण्डपरक है ऐसा अभिप्राय दिखलाता है । वस्तुतः विधि अर्थमें कर्मकाण्डका तात्पर्य है । लोकमें प्रवर्तक ज्ञानका विषयत्वरूपसे निश्चित याग आदि क्रियामें जो इष्टसाधनत्व है, वही लिङ्गका अर्थ है । यागादि क्रियासे भिन्न कोई अपूर्वरूप कार्य नहीं है, क्योंकि वह कूर्मके लोमकी तरह अप्रसिद्ध है । इसलिए विचार करना चाहिए कि जब कर्मकाण्ड मीमांसकोंके अभिमत कार्यसे विलक्षण सिद्ध दही, सोम आदिमें प्रमाण

- १ प्रश्न—अपूर्व—यागजन्य अदृष्टको आस्तिकमात्र मानते हैं, उसको कूर्मरोमकी उपमा कैसे दी गई ? उत्तर—अदृष्ट लिङ्ग्य है—इसमें कूर्मलोमकी उपमा है । इष्ट साधनत्वको लिङ्ग्य माननेवाले भी आशुविनाशो यागादि क्रियाकी कालान्तरभावी स्वर्गसाधनताकी अनुपपत्तिसे कल्प्य अदृष्टको मानते ही हैं । केवल अदृष्टको लिङ्ग्य नहीं मानते ।

भाष्य

त्वाद्विधिप्रतिषेधशास्त्रामिप्रायं द्रष्टव्यम् । अपि च 'आम्नायस्य क्रियार्थ-
त्वादानर्थक्यमतदर्शानाम्' इत्येतदेकान्तेनाभ्युपगच्छतां भूतोपदेशानर्थक्य-
प्रसङ्गः, प्रवृत्तिनिवृत्तिविधितच्छेषव्यतिरेकेण भूतं चेद्वस्तुपदिशति

भाष्यका अनुवाद

शास्त्रके प्रकरणमें जो सिद्ध अर्थके प्रतिपादक वाक्य हैं—तत्परक हैं—ऐसा समझना चाहिए । और 'आम्नायस्य' (वेद क्रियार्थक हैं, अतः अक्रियार्थक वाक्य अनर्थक हैं) इस न्यायको नियमसे माननेवाले मीमांसकोंके मतमें दधि, सोम इत्यादि सिद्ध वस्तुओंका उपदेश—वाचकपद अनर्थक होंगे । यदि प्रवृत्ति-विधि और निवृत्तिविधिसे अतिरिक्त सिद्ध वस्तुका मी, वह धर्मके लिए

रत्नप्रभा

वेदान्ताः सिद्धवस्तुपराः फलवद्भूतशब्दत्वाद् दध्यादिगन्धवद् इत्याह—
अपि चेति । किम् अक्रियार्थकशब्दानाम् आनर्थक्यम् अभिधेयाभावः फलाभावो वा ?
आधे आह—आम्नायस्येति । इति न्यायेन एतदभिधेयराहित्यं नियमेन अङ्गी
कुर्वतां "सोमेन यजेत" "दध्ना जुहोति" इत्यादिवाक्येषु दधिसोमादिशब्दानामर्थ-
शून्यत्वं स्यात् इत्यर्थः । ननु केन उक्तमभिधेयराहित्यम् इत्याशङ्क्य आह—प्रवृत्तीति ।
कार्यातिरेकेण भव्यार्थत्वेन कार्यशेषत्वेन दध्यादिगन्धो भूतं वक्ति चेत्, तर्हि
सत्यादिशब्दः कूटस्थं न वक्ति इत्यत्र को हेतुः किं कूटस्थस्य अक्रियात्वात् उताक्रिया-
शेषत्वाद् वा इति प्रश्नः । ननु दध्यादेः कार्यान्वयित्वेन कार्यत्वादुपदेशः, न

रत्नप्रभाका अनुवाद

है, तो ज्ञानकाण्डके बारेमें कहना ही क्या है । किन्तु, वेदान्त सिद्ध वस्तु परक है, फलवत्
सिद्ध शब्दसमूह होनेके कारण, सोम आदि शब्दोंके समान, ऐसा कहते हैं—“अपि च”
इत्यादिसे । जो शब्द क्रियार्थक नहीं हैं उनकी अनर्थकता क्या है ? क्या उनका कुछ अर्थ
ही नहीं है या वे निष्फल हैं ? प्रथम पक्षमें कहते हैं—“आम्नायस्य” इत्यादि । इस
न्यायसे यदि अक्रियार्थक शब्द नियमसे अनर्थक हैं—अर्थ रहित हैं—ऐसा मानें तो 'सोमेन
यजेत' (सोम याग करे) 'दध्ना' (दहीसे होम करे) इत्यादि वाक्योंमें सोम, दधि आदि
शब्द अर्थशून्य हो जायेंगे, इसलिये प्रथम पक्ष नहीं बनता । आनर्थक्यका अर्थराहित्य
रूप अर्थ किसने कहा ? अर्थात् फलाभाव अर्थ है इस पक्षपर कहते हैं—“प्रवृत्ति” इत्यादिसे ।
यदि दधि आदि शब्द कार्यका बोध न करते हुए कार्यके अङ्गभूत दही आदि सिद्ध
वस्तुका बोध कराते हैं, तो 'सल' आदि शब्द कूटस्थ ब्रह्मको नहीं कहते हैं इसमें क्या
कारण है ? क्या कूटस्थ क्रिया नहीं है, अथवा क्रियापरक नहीं है जिससे कूटस्थरूप अर्थका
'सत्यादि' शब्द प्रतिपादन नहीं करता ? ऐसे दो पक्षोंको लेकर शंका करते हैं । दही आदि

भाष्य

संसारहेतोर्निवृत्तिः प्रयोजनं क्रियते इत्यविशिष्टमर्थवत्त्वं क्रियासाधनवस्तु-
पदेशेन । अपि च 'ब्राह्मणो न हन्तव्यः' इति एवमाद्या निवृत्तिरूप-

भाष्यका अनुवाद

भिथ्याहानका नाश होता है, इस कारण क्रियाके साधन वस्तुके उपदेशके समान
आत्मवस्तुका उपदेश भी सार्थक है । और 'ब्राह्मणो' (ब्राह्मणका हनन नहीं
करना चाहिए) इत्यादि स्थलोंमें निवृत्तिका उपदेश किया जाता है । वह न

रत्नप्रभा

इत्यर्थः । दध्यादेः क्रियाद्वारा साफल्यम्, ब्रह्मणस्तु स्वत इति विशेषे सत्यपि
वेदान्तानां सफलभूतार्थकत्वमात्रेण दध्याद्युपदेशसाम्यमिति अनवद्यम् । इदानीं
वेदान्तानां निषेधवाक्यवत् सिद्धार्थपरत्वम् इत्याह—अपि चेति । नञः प्रकृत्यर्थेन
सम्बन्धाद् हननाभावो नञर्थः, इष्टसाधनत्वं तव्यादिप्रत्ययार्थः, इष्टश्च अत्र
नरकदुःखाभावः, तत्परिपालको हननाभाव इति निषेधवाक्यार्थः । हननाभावो
दुःखाभावहेतुः इत्युक्तौ अर्थात् हननस्य दुःखसाधनत्वधिया पुरुषो निवर्त्तते, न
अत्र नियोगः कश्चिदस्ति, तस्य क्रियातत्साधनदध्यादिविषयत्वात् । न च हनना-
भावरूपा नञ्याच्या निवृत्तिः क्रिया, अभावत्वात् । नापि क्रियासाधनम्, अभावस्य
भावार्थाहेतुत्वाद् भावार्थासत्त्वात् च इत्यर्थः । अतो निषेधशास्त्रस्य सिद्धार्थे

रत्नप्रभाका अनुवाद

है, ऐसा कहते हैं—“उच्यते” इत्यादिसे । 'वैसे ही' अर्थात् दही आदिके समान ही ।
दही आदि क्रिया द्वारा सफल होते हैं, ब्रह्म अपने आप ही सफल है यद्यपि हतना
भेद है, तो भी दधि आदि शब्द जैसे सफल सिद्ध वस्तुका बोध कराते हैं, उसी
प्रकार वेदान्त भी सफल सिद्ध ब्रह्मका बोध कराते हैं इतने अंशमें समता है ही, अतः कोई
दोष नहीं है । अब वेदान्त निषेधवाक्योंके समान सिद्धार्थपरक हैं ऐसा कहते हैं—“अपि
च” इत्यादिसे । नञ् (न) का प्रकृति (हन् धातु) के अर्थके साथ सवन्ध होनेसे नञ्का अर्थ
हननका अभाव है, 'हन्तव्यः' में 'तव्य' प्रत्ययका अर्थ इष्टसाधनत्व है, यहाँ नरकदुःखा
अभाव इष्ट है, उस नरकदुःखके अभावका रक्षण करनेवाला हननाभाव है, यह निषेध
वाक्यका अर्थ है । हननाभाव दुःखाभावका हेतु है ऐसा कहनेसे अर्थात् हनन दुःखाका साधन है,
इस विचारसे पुरुष हननसे निवृत्त होता है । यहाँ तो कोई विधि नहीं है, क्योंकि क्रिया अथवा
क्रियाके साधन दही आदि विधिके विषय हैं । हननाभाव रूप नञर्थ निवृत्ति क्रिया है ऐसा
नहीं कह सकते, क्योंकि निवृत्ति अभावरूप है । वह क्रियासाधन भी नहीं है, क्योंकि अभाव
भावरूप अर्थके प्रांत कारण नहीं हो सकता है और वह कार्याभावरूप है अतः कार्यविरोधी

भाष्य

दिश्यते । न च सा क्रिया, नापि क्रियासाधनम् । अक्रियार्थानामुपदेशोऽनर्थकश्चेत् 'ब्राह्मणो न हन्तव्यः' इत्यादिनिवृत्त्युपदेशानामानर्थक्यं प्राप्तम् । तच्चाऽनिष्टम् । न च स्वभावप्राप्तहन्त्यर्थानुरागेण नञः शक्यमप्रा-

भाष्यका अनुवाद

तो क्रिया है और न क्रियासाधन ही है । यदि अक्रियार्थक वाक्योंका उपदेश अनर्थक हो, तो 'ब्राह्मणो०' इत्यादि निवृत्तिका उपदेश व्यर्थ हो जायगा । उसका व्यर्थ होना इष्ट नहीं है । 'नञ्' का रागतः प्राप्त हनन क्रियाके साथ

रत्नप्रभा

प्रामाण्यम् इति भावः । विपक्षे दण्डमाह—अक्रियेति । ननु स्वभावतः—रागतः प्राप्तेन हन्त्यर्थेन अनुरागेण—नञः सम्बन्धेन हेतुना हननविरोधिनी संकल्पक्रिया बोध्यते, सा च नञर्थरूपा तत्र अप्राप्तत्वात् विधीयते 'अहननं कुर्यात्' इति । तथा च कार्यार्थमिदं वाक्यम् इत्याशङ्क्य निषेधति—न चेति । औदासीन्यं पुरुषस्य स्वरूपम्, तच्च हननक्रियानिवृत्त्युपलक्षितं निवृत्त्यौदासीन्यम्, हननाभाव इति यावत् । तद्व्यतिरेकेण नञः क्रियार्थत्वं कल्पयितुं न च शक्यमिति योजना । मुख्यार्थस्य अभावस्य नञर्थत्वसम्भवे तद्विरोधिक्रियालक्षणया अन्याय्यत्वात्, निषेधवाक्यस्य अपि कार्यार्थकत्वे विधिनिषेधभेदविप्लवापत्तेश्च इति भावः । ननु तदभाववत् तदन्यतद्विरुद्धयोरपि नञः शक्तिः किं न स्याद्, 'अब्राह्मणः, अधर्मः'

रत्नप्रभाका अनुवाद

भी है ऐसा अभिप्राय है । इस कारण निषेधशास्त्र सिद्धार्यमें प्रमाण हैं । विपक्षमें—अक्रियार्थक निषेधशास्त्रके उपदेशको भी अनर्थक माननेमें—बाधक कहते हैं—“अक्रिय” इत्यादिसे । यहाँ शङ्का होती है कि रागसे प्राप्त हनन क्रियाके साथ नञ्का संबन्ध होनेके कारण हननविरोधी संकल्पक्रियाका बोध होता है, वह क्रिया नञ्का अर्थ है और अन्य किसी विधिसे प्राप्त न होनेके कारण उसका 'अहननं कुर्यात्' (हनन नहीं करना चाहिए) ऐसा विधान होता है । इस प्रकार 'ब्राह्मणो०' यह वाक्य क्रियार्थक है ऐसी शङ्का करके उसका निराकरण करते हैं—“न च” इत्यादिसे । औदासीन्य पुरुषका स्वरूप है अर्थात् पुरुषका धर्म है, हनन क्रियाकी निवृत्तिसे उपलक्षित वह निवृत्त्यौदासीन्य है अर्थात् हननका अभावरूप है । हनन क्रियाकी निवृत्तिरूप औदासीन्यसे भिन्न नञ्के क्रियार्थत्वकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसी योजना करनी चाहिए । जब अभाव नञ्का मुख्यार्थ हो सकता है, तब तद्विरोधी क्रियामें लक्षणा करना ठीक नहीं है, और निषेध वाक्य भी कार्यार्थक मानें जायें, तो विधिवाक्य और निषेधवाक्यके भेदका ही नाश हो जायगा । यहाँ शङ्का होती है कि जैसे तदभाव (उसका अभाव) में नञ्की शक्ति है, उसी प्रकार तदन्य (उससे दूसरा) और तद्विरुद्ध (उससे विपरीत) में भी नञ्की

भाष्य

भन्व्यार्थत्वेन, कूटस्थनित्यं भूतं नोपदिशतीति को हेतुः । नहि भूतमुप-
दिश्यमानं क्रिया भवति । अक्रियात्वेऽपि भूतस्य क्रियासाधनत्वात्क्रियार्थ
एव भूतोपदेश इति चेत् । नैप दोषः । क्रियार्थत्वेऽपि क्रियानिर्वर्तन-
शक्तिमद्वस्तूपदिष्टमेव । क्रियार्थत्वं तु प्रयोजनं तस्य । न चैतावता

भाष्यका अनुवाद

उपयोगी है इस कारणसे, शास्त्र उपदेश करता है, तो कूटस्थ नित्य सिद्ध
वस्तुका उपदेश क्यों नहीं करेगा । उपदिष्ट होनेवाली सिद्ध वस्तु केवल उपदेशसे
ही क्रिया नहीं हो जाती । यदि कहो कि सिद्ध वस्तु भले ही क्रिया न हो, किन्तु
क्रियाके साधन होनेके कारण उसका उपदेश क्रियार्थक ही है । यह दोष
नहीं है, क्योंकि सिद्ध वस्तु क्रियार्थक यद्यपि है, तो भी शास्त्रसे केवल वस्तुका
ही उपदेश होता है वह वस्तु वस्तुतः कार्यात्पादन शक्तिसे युक्त होती है ।
क्रियार्थत्व तो उसका प्रयोजन है । यदि दधि आदि सिद्ध पदार्थको कार्यशेष

रत्नप्रभा

कूटस्थस्य, अकार्यत्वात् इत्याद्यमाशङ्क्य निरस्यति—नहीति । दध्यादेः कार्यत्वे
कार्याभेदे शेषत्वहानिः अतो भूतस्य कार्याद् भिन्नस्य दध्यादेः शब्दार्थत्वं लब्धमिति
भावः । द्वितीयं शङ्कते—अक्रियात्वेऽपीति । क्रियार्थः कार्यशेषपरः । कूटस्थस्य तु
अकार्यशेषत्वात् न उपदेश इति भावः । भूतस्य कार्यशेषत्वं शब्दार्थत्वाय
फलाय वा ? नाद्य इत्याह—नैप दोष इति । दध्यादेः कार्यशेषत्वे सत्यपि
शब्देन वस्तुमात्रमेव उपदिष्टं न कार्यान्वयी शब्दार्थः अन्वितार्थमात्रे शब्दानां
शक्तिग्रहणात् इत्यर्थः । द्वितीयम् अङ्गीकरोति—क्रियार्थत्वं त्विति । तस्य

रत्नप्रभाका अनुवाद

कार्यान्वयी होनेसे कार्य हैं, कूटस्थ तो कार्य नहीं है, ऐसी शंका करके उसका समाधान करते
हैं—“नहि” इत्यादिसे । दही आदिको कार्य मानें तो कार्यसे अभिन्न होनेके कारण वह
कार्यशेष नही हो सकता, इसलिए कार्यसे भिन्न दही ‘दधि’ शब्दका अर्थ होता है । दूसरी
शंका करते हैं—“अक्रियात्वेऽपि” इत्यादिसे । क्रियार्थक अर्थात् कार्यशेष । कूटस्थ तो कार्यशेष
नहीं है, इससे उसका वेदवाक्योंसे उपदेश नहीं हो सकता है । भूतवस्तु कार्यशेष किसलिए
है ? क्या वह शब्दार्थ होसके इसलिए अथवा उसका कुछ प्रयोजन होसके इसलिए ? प्रथम
पक्ष नहीं बनता ऐसा कहते हैं—“नयं दोषः” इत्यादिसे । यद्यपि दधि आदि कार्य-शेष हैं, तो
भा शब्दसे केवल वस्तुका ही बोध होता है, कार्यान्वयी शब्दार्थ नहीं है, क्योंकि शब्दको शक्ति
केवल अन्वित अर्थमें गृह्यते है, कार्यान्वितमें गृह्यते नहीं है । दूसरे पक्षका अङ्गीकार करते
हैं—“क्रियार्थत्वं तु” इत्यादिसे । ‘उसका’ अर्थात् सिद्ध पदार्थ दही आदिका । दही आदि

भाष्य

वस्त्वनुपदिष्टं भवति । यदि नामोपदिष्टं किं तव तेन स्यादिति । उच्यते—
अनवगतात्मवस्तूपदेशश्च तथैव भवितुमर्हति । तदवगत्या मिथ्याज्ञानस्य

भाष्यका अनुवाद

मानें तो भी यह नहीं कह सकते कि वह पदार्थ दधि आदि शब्दसे उपदिष्ट नहीं है (दधि आदि शब्दका अर्थ नहीं है) । पूर्वपक्षी कहता है कि यदि सिद्ध वस्तुका उपदेश होता भी हो, तो उससे तुमको क्या लाभ होगा ? (सिद्धान्ती) कहते हैं— दधि आदि पदार्थोंकी तरह अज्ञात आत्मवस्तुका भी शास्त्रसे उपदेश होना ठीक ही है । उसके ज्ञानसे संसारके कारणभूत

रत्नप्रभा

भूतविशेषस्य दध्यादेः क्रियाशेषत्वं फलमुद्दिश्य अङ्गीक्रियते इत्यर्थः । न तु ब्रह्मण इति तुशब्दार्थः । ननु भूतस्य कार्यशेषत्वाङ्गीकारे स्वातन्त्र्येण कथं शब्दार्थता इति तत्र आह—न चेति । फलार्थं शेषत्वाङ्गीकारमात्रेण शब्दार्थत्वमंगो नास्ति, शेषत्वस्य शब्दार्थतायामप्रवेशात् इत्यर्थः । आनर्थक्यं फलाभाव इति पक्षं शङ्कते—यदीति । यद्यपि दध्यादि स्वतो निष्फलमपि क्रियाद्वारा सफलत्वात् उपदिष्टम्, तथापि कूटस्थब्रह्मवादिनः क्रियाद्वाराभावात् तेन दृष्टान्तेन किं फलं स्यात् इत्यर्थः । भूतस्य साफल्ये क्रियैव द्वारम् इति न नियमः, रज्ज्वा जानमात्रेण साफल्यदर्शनात् इत्याह—उच्यते इति । तथैव—दध्यादिवत् एव

रत्नप्रभाका अनुवाद

कार्यके अङ्ग फलके उद्देश्यसे माने जाते हैं, परन्तु किसी फलके उद्देशसे ब्रह्मको क्रियाका अङ्ग नहीं मान सकते, (क्योंकि ब्रह्म स्वयं फलरूप है अतः फलान्तरकी अपेक्षा नहीं है) यह भाष्यगत 'तु' शब्दका अर्थ है । सिद्ध वस्तुको कार्यशेष माननेपर वह स्वतंत्ररूपसे शब्दार्थ कैसे हो सकता है? वादीकी दृग् शङ्कापर कहते हैं—“न च” इत्यादि । आशय यह है कि केवल प्रयोजनके लिए दधि आदिको कार्यशेष माननेसे ही वे शब्दार्थ नहीं हो सकते ऐसा नहीं कहा जा सकता । (क्योंकि शेषत्वका शब्दार्थमें शून्यतावच्छेदक रूपसे प्रवेश नहीं है, जो क्रियाका अङ्ग होता है, वही शब्दका अर्थ होता है ऐसा कोई नियम नहीं है । कोई पदार्थ क्रियाका अङ्ग हो यह दूसरी बात है, और शब्दका अर्थ हो यह दूसरी बात है, इनमें परस्पर कुछ भी संबन्ध नहीं है ।) अक्रियार्थक शब्द अनर्थक हैं इसमें आनर्थक्य फलाभाव है इस दूसरे पक्षको लेकर शङ्का करते हैं—“यदि” इत्यादिसे । आशय यह है कि यद्यपि दही आदिके स्वरूपसे निष्फल होने पर भी क्रिया द्वारा सफल होनेके कारण उनका उपदेश क्रिया गया है, कूटस्थ ब्रह्मवादीके मतमें ब्रह्म क्रिया द्वारा सफल नहीं हो सकता है, अतः दधिके दृष्टान्तसे क्या प्रयोजन होगा ? इस शङ्कापर सिद्ध अर्थकी सफलतामें क्रिया ही द्वारा हो ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि ज्ञानमात्र से रज्जुकी सफलता देखनेमें आती है,

भाष्य

संसारहेतोर्निवृत्तिः प्रयोजनं क्रियते इत्यविशिष्टमर्थवत्त्वं क्रियासाधनवस्तु-
पदेशेन । अपि च 'ब्राह्मणो न हन्तव्यः' इति एवमाद्या निवृत्तिरूप-

भाष्यका अनुवाद

भिध्याज्ञानका नाश होता है, इस कारण क्रियाके साधन वस्तुके उपदेशके समान
आत्मवस्तुका उपदेश भी सार्थक है । और 'ब्राह्मणो०' (ब्राह्मणका हनन नहीं
करना चाहिए) इत्यादि स्थलोंमें निवृत्तिका उपदेश किया जाता है । वह न

रत्नप्रभा

इत्यर्थः । दध्यादेः क्रियाद्वारा साफल्यम्, ब्रह्मणस्तु स्वत इति विशेषे सत्यपि
वेदान्तानां सफलभूतार्थकत्वमात्रेण दध्याद्युपदेशसाम्यमिति अनवद्यम् । इदानीं
वेदान्तानां निषेधवाक्यवत् सिद्धार्थपरत्वम् इत्याह—अपि चेति । नञः प्रकृत्यर्थेन
सम्बन्धाद् हननाभावो नञर्थः, इष्टसाधनत्वं तव्यादिप्रत्ययार्थः, इष्टश्च अत्र
नरकदुःखाभावः, तत्परिपालको हननाभाव इति निषेधवाक्यार्थः । हननाभावो
दुःखाभावहेतुः इत्युक्तौ अर्थात् हननस्य दुःखसाधनत्वधिया पुरुषो निवर्त्तते, न
अत्र नियोगः कश्चिदस्ति, तस्य क्रियातत्साधनदध्यादिविषयत्वात् । न च हनना-
भावरूपा नञ्भाष्या निवृत्तिः क्रिया, अभावत्वात् । नापि क्रियासाधनम्, अभावस्य
भावार्थाहेतुत्वाद् भावार्थासत्त्वात् च इत्यर्थः । अतो निषेधशास्त्रस्य सिद्धार्थे

रत्नप्रभाका अनुवाद

है, ऐसा कहते हैं—“उच्यते” इत्यादिसे । 'वैसे ही' अर्थात् दही आदिके समान ही ।
दही आदि क्रिया द्वारा सफल होते हैं, ब्रह्म अपने आप ही सफल है यद्यपि इतना
भेद है, तो भी दधि आदि शब्द जैसे सफल सिद्ध वस्तुका बोध कराते हैं, उसी
प्रकार वेदान्त भी सफल सिद्ध ब्रह्मका बोध कराते हैं इतने अंशमें समता है ही, अतः कोई
दोष नहीं है । अब वेदान्त निषेधवाक्योंके समान सिद्धार्थपरक हैं ऐसा कहते हैं—“अपि
च” इत्यादिसे । नञ् (न) का प्रकृति (हन् धातु) के अर्थके साथ सवन्ध होनेसे नञ्का अर्थ
हननका अभाव है, 'हन्तव्य' में 'तव्य' प्रत्ययका अर्थ इष्टसाधनत्व है, यहाँ नरकदुःखका
अभाव इष्ट है, उस नरक दुःखके अभावका रक्षण करनेवाला हननाभाव है, यह निषेध
वाक्यका अर्थ है । हननाभाव दुःखाभावका हेतु है ऐसा कहनेसे अर्थात् हनन दुःखा साधन है,
इस विचारसे पुरुष हननसे निवृत्त होता है । यहाँ तो कोई विधि नहीं है, क्योंकि क्रिया अथवा
क्रियाके साधन दही आदि विधिके विषय हैं । हननाभाव रूप नञर्थ निवृत्ति क्रिया है ऐसा
नहीं कह सकते, क्योंकि निवृत्ति अभावरूप है । वह क्रियासाधन भी नहीं है, क्योंकि अभाव
भावरूप अर्थके प्रति कारण नहीं हो सकता है और वह कार्यभावरूप है अतः कार्यविरोधी

भाष्य

दिश्यते । न च सा क्रिया, नापि क्रियासाधनम् । अक्रियार्थानामुपदेशोऽनर्थकश्चेत् 'ब्राह्मणो न हन्तव्यः' इत्यादिनिवृत्त्युपदेशानामानर्थक्यं प्राप्तम् । तच्चाऽनियम् । न च स्वभावप्राप्तहन्त्यर्थानुरागेण नञः शक्यमप्रा-

भाष्यका अनुवाद

तो क्रिया है और न क्रियासाधन ही है । यदि अक्रियार्थक वाक्योंका उपदेश अनर्थक हो, तो 'ब्राह्मणो०' इत्यादि निवृत्तिका उपदेश व्यर्थ हो जायगा । उसका व्यर्थ होना इष्ट नहीं है । 'नञ्' का रागतः प्राप्त हनन क्रियाके साथ

रत्नप्रभा

प्रामाण्यम् इति भावः । विपक्षे दण्डमाह—अक्रियेति । ननु स्वभावतः—रागतः प्राप्तेन हन्त्यर्थेन अनुरागेण—नञः सम्बन्धेन हेतुना हननविरोधिनी संकल्पक्रिया बोध्यते, सा च नञर्थरूपा तत्र अप्राप्तत्वात् विधीयते 'अहननं कुर्यात्' इति । तथा च कार्यार्थमिदं वाक्यम् इत्याशङ्क्य निषेधति—न चेति । औदासीन्यं पुरुषस्य स्वरूपम्, तच्च हननक्रियानिवृत्त्युपलक्षितं निवृत्त्यौदासीन्यम्, हननाभाव इति यावत् । तद्व्यतिरेकेण नञः क्रियार्थत्वं कल्पयितुं न च शक्यमिति योजना । मुख्यार्थस्य अभावस्य नञर्थत्वसम्भवे तद्विरोधिक्रियालक्षणया अन्याय्यत्वात्, निषेधवाक्यस्य अपि कार्यार्थकत्वे विधिनिषेधभेदविप्लवापत्तेश्च इति भावः । ननु तदभाववत् तदन्यतद्विरुद्धयोरपि नञः शक्तिः किं न स्याद्, 'अब्राह्मणः, अधर्मः'

रत्नप्रभाका अनुवाद

भी है ऐसा अभिप्राय है । इस कारण निषेधशास्त्र सिद्धार्थमें प्रमाण है । विपक्षमें—अक्रियार्थक निषेधशास्त्रके उपदेशको भी अनर्थक माननेमें—बाधक कहते हैं—“अक्रिय” इत्यादिसे । यहाँ शङ्का होती है कि रागसे प्राप्त हनन क्रियाके साथ नञ्का संबन्ध होनेके कारण हननविरोधी संकल्पक्रियाका बोध होता है, वह क्रिया नञ्का अर्थ है और अन्य किसी विधिसे प्राप्त न होनेके कारण उसका 'अहननं कुर्यात्' (हनन नहीं करना चाहिए) ऐसा विधान होता है । इस प्रकार 'ब्राह्मणो०' यह वाक्य क्रियार्थक है ऐसी शङ्का करके उसका निराकरण करते हैं—“न च” इत्यादिसे । औदासीन्य पुरुषका स्वरूप है अर्थात् पुरुषका धर्म है, हनन क्रियाकी निवृत्तिसे उपलक्षित वह निवृत्त्यौदासीन्य है अर्थात् हननका अभावरूप है । हनन क्रियाकी निवृत्तिरूप औदासीन्यसे भिन्न नञ्के क्रियार्थत्वकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसी योजना करनी चाहिए । जब अभाव नञ्का मुख्यार्थ हो सकता है, तब तद्विरोधी क्रियामें लक्षणा करना ठीक नहीं है, और निषेध वाक्य भी कार्यार्थक माने जायें, तो विधिवान्य और निषेधवाक्यके भेदका ही नाश हो जायगा । यहाँ शङ्का होती है कि जैसे तदभाव (उसका अभाव) में नञ्की शक्ति है, उसी प्रकार तदन्य (उससे दूसरा) और तद्विरुद्ध (उससे विपरीत) में भी नञ्की

भाष्य

प्रक्रियार्थत्वं कल्पयितुं हननक्रियानिवृत्त्यौदासीन्यव्यतिरेकेण । नञश्चैष
स्वभावो यत् स्वसम्यन्धिनोऽभाव बोधयतीति । अभावबुद्धिश्चौदासीन्यकार-
भाष्यका अनुवाद

सम्यन्ध होनेसे हनन क्रियासे निवृत्त होकर औदासीन्य स्वीकार करना ही अर्थ है, इस अर्थसे भिन्न लक्षणाद्वारा अहनन सकल्प आदि—अप्राप्त क्रियारूप नञ्के अर्थकी कल्पना नहीं की जा सकती । अपने सवन्धी पदार्थके अभावका बोध कराना नञ्का स्वभाव है । अभावज्ञान औदासीन्यका कारण है । जिस प्रकार

रत्नप्रभा

इति प्रयोगदर्शनात्,* इति चेत्, न; अनेकार्थत्वस्य अन्याय्यत्वात् इत्याह—
नञश्चेति । गवादिशब्दानां तु अगत्या नानार्थत्वम् । स्वर्गेषुवाग्वज्रादीनां
शक्यपशुसम्बन्धाभावेन लक्षणानवतारात् । अन्यविरुद्धयोस्तु लक्ष्यत्व युक्तम्,
शक्यसम्बन्धात् । ब्राह्मणात् अन्यस्मिन् क्षत्रियादौ धर्मविरुद्धे वा पापे ब्राह्मणाद्य-
भावस्य नञ्शक्यस्य सम्बन्धात्, प्रकृते च आख्यातयोगात् नञ् प्रसज्यप्रतिषेधक

रत्नप्रभाका अनुवाद

शक्ति क्यों नहा है, क्योंकि 'अब्राह्मण' (ब्राह्मणसे भिन्न) और 'अधर्म' (धर्मसे विरुद्ध)
ऐसे प्रयोग देरानेमें आते हैं और 'तत्सादृश्य प्रकीर्तिता' के अनुसार नञ्के अनेक अर्थ
हैं । यह वाक्का ठीक नहीं है, क्योंकि एक शब्दके अनेक अर्थ होना न्याय्य नहा है, ऐसा
कहते हैं—'नञश्च' इत्यादिसे । गो आदि शब्दोंके अनेक अर्थ अन्य उपायके न होनेसे
मानने पडते हैं, क्योंकि स्वर्ग, चाण, वाणा, वज्र आदि अथाका शक्यार्थ—गायके साथ सवन्ध
न होनेसे लक्षणा नहा हो सकती । अन्य और विरुद्ध ये दो अर्थ नञ्के शक्यार्थके साथ
संबद्ध हैं, इसलिए लक्षणिक हैं ऐसा कहना युक्त है, क्योंकि 'अब्राह्मण' (ब्राह्मणसे अन्य
क्षत्रिय आदि) 'अधर्म' (धर्मविरुद्ध पाप) इन स्थलोंमें ब्राह्मणसे भिन्न क्षत्रिय आदिमें और
धर्मविरुद्ध पापमें ब्राह्मणाभावरूप नञ्के शक्यार्थका संबन्ध है । प्रकृतमें 'ब्राह्मणो न हन्तव्य'

* "तत्सादृश्यमभावश्च तदन्यत्व तदल्पता ।

अप्राशस्त्य विरोधश्च नञया पट् प्रकीर्तिता ॥"

इत्यनेकापत्वात्, कुप्रचिदादर्शो इत्यधिक पाठ ।

नञ्के छ अर्थ हैं—(१) तत्सादृश्य—उसके समान, जैसे कि 'अनिधु' गन्ना नहीं है,
गन्नेके सदृश अर्थात् सरकडा । (२) अभाव, 'भूतल घटो नास्ति (पृथिवीपर घडा नहीं है) इसमें
अल्पन्ताभाव है । (३) तदन्य—उससे दूसरा, जैसे कि 'अघट' घटेसे भिन्न पट । (४) तदल्पता
जैसे कि 'अनुदरम्' अल्प उदर, तरुणोका अल्प उदर । (५) अप्राशस्त्य—प्रशस्तताका अभाव,
जैसे कि 'अकाल', 'अवायम्' अप्राशस्त—अवाय्य बाल और फाय । (६) विराध जैसे कि
अधर्म—पाप आदि ।

भाष्य

णम्, सा च दग्धेन्धनाग्निवत् स्वयमेवोपशाम्यति । तस्मात् प्रसक्तक्रियानिवृ-
भाष्यका अनुवाद

अग्नि लकड़ीको जलाकर स्वयं बुझ जाती है, उसी प्रकार वह ज्ञान रागका नाश करके अपने आप शान्त हो जाता है । इस कारण प्रजापतिव्रत आदिको

रत्नप्रभा

एव, न पर्युदासलक्षक इति मन्तव्यम् । यद्वा, नञः प्रकृत्या न सम्बन्धः । प्रकृतेः प्रत्ययार्थोपसर्जनत्वात्, प्रधानसम्बन्धात् च अप्रधानानाम्, किन्तु प्रकृत्यर्थ-निष्ठेन प्रत्ययार्थेन इष्टसाधनत्वेन सम्बन्धो नञः । इष्टं च स्वापेक्षया बलवद-निष्ठाननुबन्धि यत् तदेव, न तात्कालिकसुखमात्रं विपसंयुक्तान्नभोगस्य अपि इष्टत्वापत्तेः, तथा च “न हन्तव्यः” इत्यत्र हननं बलवदनिष्टसाधनत्वे सति इष्टसाधनं न भवति इत्यर्थः । अत्र च “हन्तव्यः” इति हनने विशिष्टेष्टसाधनत्वं भ्रान्तिप्राप्तमनूय न इति अभावबोधने बलवदनिष्टसाधनं हननमिति बुद्धिर्भवति,

रत्नप्रभाका अनुवाद

इसमें आख्यातका संबन्ध रहनेके कारण नञ् प्रसज्यप्रतिषेध करनेवाला है पर्युदासलक्षके नहीं है ऐसा तात्पर्य है । अथवा नञ्का प्रकृति (हन्) के साथ संबन्ध नहीं है, क्योंकि प्रकृति प्रत्ययार्थका उपसर्जन (विशेषण) है और अप्रधान पदार्थोंका प्रधानके साथ संबन्ध होता है । परन्तु नञ्का संबन्ध, प्रकृतिके अर्थमें वर्तमान प्रत्ययका अर्थ जो इष्टसाधनत्व है, उसके साथ है । जो अपनेसे बड़े अनिष्टका अनुसारी न हो, वही इष्ट है, केवल तात्कालिक सुख इष्ट नहीं है । अन्यथा विषमिश्रित अन्नका भोजन भी इष्ट हो जायगा । इसी प्रकार ‘न हन्तव्यः’ इसका अर्थ यह है कि हनन बलवान् अनिष्टका असाधन होकर इष्टका साधन नहीं होता । यहाँ ‘हन्तव्यः’ इसमें हनन बलवत् अनिष्टका असाधन होकर इष्टका साधन है ऐसा भ्रान्तिप्राप्त इष्टसाधनत्वका अनुवाद करके ‘न’ से अभावका

(१) ‘अप्राधान्यं विषेयत्र प्रतिषेधे प्रधानता । प्रसज्यप्रतिषेधोऽसौ क्रियया सह यत्र नञ् ॥’ जिस वाक्यमें विधि अप्रधान और प्रतिषेध प्रधान हो और जहाँ नञ्का क्रियाके साथ संबन्ध हो, वहाँ नञ् का प्रसज्यप्रतिषेध अर्थ है । ‘न बलञ् भक्षयेत्’ इसमें बलवत् अनिष्टके असाधनत्वसे विशिष्ट इष्टसाधनत्वरूप विधिवाचक प्रत्ययके अर्थके अभावका भक्षण क्रियामें बोध नञ् करताता है, इसलिए विधि अप्रधान है और नञ्का अर्थ अभाव प्रधान है इसलिए क्रियापदके साथ जिसका अन्वय है ऐसा नञ् प्रसज्य प्रतिषेध है । प्रसज्य—प्रसक्त करके निषेध ।

(२) ‘प्राधान्यं हि विषेयत्र प्रतिषेधेऽप्रधानता । पर्युदासः स विद्येद्यो यत्रोत्तरपदेन नञ् ॥’ जिसमें विधि प्रधान और प्रतिषेध अप्रधान हो और जिसमें उत्तरपदके साथ नञ्का अन्वय हो, वहाँ नञ्का पर्युदास अर्थ है ।

रत्नप्रभा

हनने तात्कालिकेष्टसाधनत्वरूपविशेष्यसत्त्वेन विशिष्टाभावबुद्धेर्विशेषणाभावपर्यवसानात् । विशेषणं बलवदनिष्टासाधनत्वमिति तदभावो बलवदनिष्टसाधनत्वं नञर्थ इति पर्यवसन्नम् । तद्बुद्धिरौदासीन्यपरिपालिका इत्याह—अभावेति । चोऽप्यर्थः पक्षान्तरद्योती । प्रकृत्यर्थाभावबुद्धिवत् प्रत्ययार्थाभावबुद्धिरपि इत्यर्थः । बुद्धेः क्षणिकत्वात् तदभावे सति औदासीन्यात् प्रच्युतिरूपा हननादौ प्रवृत्तिः स्यात् इति तत्र आह— सा चेति । यथा अग्निः इन्धनं दग्ध्वा शाम्यति, एवं सा नञर्थ्याभावबुद्धिः हननादौ इष्टसाधनत्वभ्रान्तिमूलं रागेन्धनं दग्ध्वैव शाम्यति इत्यक्षरार्थः । रागनाशे कुतः प्रच्युतिः इति भावः । यद्वा, रागतः प्राप्ता सा क्रिया रागनाशे स्वयमेव शाम्यति इत्यर्थः । परपक्षे तु हननविरोधिक्रिया कार्या इति उक्तेऽपि हननस्य इष्टसाधनत्वभ्रान्त्यनिरासात् प्रच्युतिर्दुर्वारा । तस्मात् तदभाव एव नञर्थ इति उपसंहरति—तस्मादिति । भावार्थाभावेन तद्विषयककृत्यभावात् कार्याभावः तच्छब्दार्थः । यद्वा इति उक्तपक्षे निवृत्त्युपल-

रत्नप्रभाका अनुवाद

बोध होनेपर हनन बलवत् अनिष्टका साधन है ऐसी बुद्धि होती है । हननमें तात्कालिक इष्टसाधनत्वरूप विशेष्य है, इसलिए विशिष्टाभाव बुद्धिका विशेषणाभावमें पर्यवसान होता है । बलवदनिष्टसाधनत्व विशेषण है, अतः बलवदनिष्टसाधनत्वका अभाव बलवदनिष्टसाधनत्व नञ्का अर्थ है, यह परिणाम निकलता है । और यह बुद्धि औदासीन्यका पोषणकरती है ऐसा कहते हैं—“अभाव” इत्यादिसे । भाष्यगत ‘च’ वार ‘अपि’ (भी) के अर्थमें है, अर्थात् पक्षान्तरका द्योतक है । तात्पर्य यह है कि प्रकृत्यर्थाभावबुद्धिके समान प्रत्ययार्थाभाव-बुद्धि भी औदासीन्यकी पोषिका है । बुद्धि क्षणिक है, इससे बुद्धिके अभावकालमें औदार्यान्त्यसे प्रच्युति—भ्रंशरूप हनन आदिमें प्रवृत्ति होगी इस शंकापर कहते हैं—“सा च” इत्यादि । जैसे अग्नि ईन्धनको जलाकर शान्त हो जाती है, उसी प्रकार नञ्का अर्थ अभावबुद्धि भी हनन आदिमें इष्टसाधनत्वकी भ्रान्तिसे उत्पन्न रागरूप ईन्धनको जलाकर शान्त हो जाती है । इस प्रकार रागका नाश होनेपर औदासीन्यसे प्रच्युति कैसे हो ऐसा भावार्थ है । अथवा रागसे प्राप्त हुई हनन क्रिया रागका नाश होनेपर स्वयं शान्त हो जाती है ऐसा अर्थ है । यौदीके कथनके अनुसार हननविरोधी क्रिया करनी चाहिए ऐसा कहनेसे हनन इष्टका साधन है इस भ्रान्तिका निरास नहीं होता, इसलिए औदासीन्यसे प्रच्युतिका निवारण नहीं हो सकता । इस कारण उस क्रियाका अभाव ही नञ्का अर्थ है ऐसा उपसंहार करते हैं—“तस्मात्” इत्यादिसे । भावरूप अर्थ न होनेके कारण तद्विषयक इतिवा अभाव है, अतः कार्यका

(१) कार्यं लिख्यं हे ऐसा माननेवाला । (२) अहननसत्त्वः । (३) निराकरण ।

(४) ‘ब्राह्मणे न दन्त्यः’ इसमें दो तरहका शाब्दबोध दियेलाया गया है ।

(१) नञ्का प्रकृत्यर्थे हननमें अन्वय करके ‘हननाभावः इष्टसाधनम्, इत्याकारक और

भाष्य

च्यौदासीन्यमेव 'ब्राह्मणो न हन्त्वव्यः' इत्यादिषु प्रतिषेधार्थं गन्यामहे,

भाष्यका अनुवाद

छोड़कर 'ब्राह्मणो' इत्यादि स्थलोंमें प्रकरणप्राप्त क्रियासे निवृत्त होकर औदासीन्य स्वीकार करना ही 'नञ्' इस प्रतिषेधका अर्थ है ऐसा हम मानते हैं।

रत्नप्रभा

क्षितम् औदासीन्यं यस्मात् विशिष्टाभावायत्तमेव इति व्याख्येयम् । स्वतःसिद्धस्य औदासीन्यस्य नञर्थमाध्यत्वोपपादनार्थं निवृत्त्युपलक्षितत्वम् इति ध्येयम् । "तस्य नटोर्नतम्" इति अनुप्रेयक्रियावाचित्रतशब्देन कार्यमुपक्रम्य "नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्" इति प्रजापतिप्रतमुक्तम् । अत उपक्रमवलात् तत्र नञ ईक्षणविरोधिसङ्कल्पक्रियालक्षणाऽङ्गीकृता, एवम् 'अगौ', 'असुरा', 'अधर्म'. इत्यादौ नामधात्वर्थयुक्तस्य नञः प्रतिषेधवाचित्वायोगाद् अन्यविरुद्धलक्षकत्वम् । एतेभ्यः प्रजापति-

रत्नप्रभाका अनुवाद

अभाव है, वह कार्याभाव यहाँ तत् शब्दका अर्थ है। यद्वा इत्यादिमें कहे हुए दूसरे पक्षमें निवृत्तते उपलक्षित औदासीन्य जिस कारणसे विशिष्टाभावके अधीन ही है, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए। स्वतः सिद्ध औदासीन्य नञर्थ-निषेधसे साध्य है ऐसा बतानेके लिए औदासीन्यमें निवृत्त्युपलक्षितत्व विशेषण है ऐसा समझना चाहिए। 'तस्य नटोर्नतम्' (उस पटुका मत) इसमें अनुप्रेय जो क्रिया तद्वाचक मत शब्दमें कार्यका उपक्रम करके 'नेक्षेतो' (उदय होते हुए सूर्यको न देखे) इस प्रकार प्रजापतिप्रत कहा है। इसलिए उपक्रमके बलसे यहाँ नञका ईक्षण विरोधी साङ्करपक्रियारूप अर्थमें लक्षणाका स्वीकार किया है। इसी प्रकार 'अगौ' 'असुरा' 'अधर्म' इनमें नामधात्वर्थसे युक्त नञ्का प्रतिषेध अर्थ नहीं हो सकता है, इसलिए लक्षणासे अन्य और

(1) नञ्का प्रत्ययार्थमें अन्वय करके 'हनन बलवदनिष्ठासाधनत्वविशिष्टसाधनत्वाभाववत्' इत्याकारक। कार्यं कृतिसाध्य होता है, और कृतिवा विषय भावरूप क्रिया होती है। नञ्का अर्थ अभाव होनेके कारण (भावरूप न होनेके कारण) भावविषयक कृति नहीं हो सकती है, कृतिके अभावसे कार्याभाव है। यद्वा इत्यादिमें कहे हुए दूसरे पक्षमें निवृत्त्युपलक्षित औदासीन्य विशिष्टाभाव (बलवदनिष्ठासाधनत्वविशिष्टसाधनत्वाभाव) के अधीन होनेके कारण विशिष्टाभाव ही नञ्का अर्थ है, ऐसा व्याख्यान समझना चाहिए। औदासीन्य स्वतः सिद्ध है, साध्य नहीं है। निवृत्ति साध्य है, अतः निवृत्त्युपलक्षितत्व विशेषण दिया है। विशेषण साध्य होनेके कारण विशेषणविशिष्ट भी साध्य है ऐसा तात्पर्य है।

(1) बलवदनिष्ठासाधनत्वविशिष्टसाधनत्वाभावसे अन्वय है।

(2) अगौ, असुरा, इत्यादिरथलमें नामार्थयुक्त 'नञ्' है और 'नेक्षेतोद्यन्तम्' इत्यादि स्थलमें धात्वर्थयुक्त है।

भाष्य

अन्यत्र प्रजापतिव्रतादिभ्यः । तस्मात् पुरुषार्थानुपयोग्युपाख्यानादिभूतार्थ-
वादविषयमानर्थक्याभिधानं द्रष्टव्यम् । यदप्युक्तम्—‘कर्तव्यविध्यनु-
प्रवेशमन्तरेण वस्तुमात्रमुच्यमानमनर्थकं स्यात् ‘सप्तद्वीपा वसुमती’
इत्यादिवत्’ इति, तत् परिहृतम्, रज्जुरियं नायं सर्प इति वस्तुमात्रकथनेऽ-
पि प्रयोजनस्य दृष्टत्वात् । ननु श्रुतब्रह्मणोऽपि यथापूर्वं संसारित्वदर्शनात्
रज्जुस्वरूपकथनवदर्थवत्त्वमित्युक्तम् । अत्रोच्यते—नाऽवगतब्रह्मात्मभावस्य

भाष्यका अनुवाद

इस कारण पुरुषार्थके अनुयोगी उपाख्यान आदि भूतार्थवाद ‘आम्नायस्य०’
इस सूत्रसे अनर्थक कहे गये हैं ऐसा समझना चाहिए । कर्तव्य-विधिके साथ
सयन्धके बिना ही कहे जानेवाले केवल पदार्थ ‘सप्तद्वीपा०’ (सात द्वीपवाली
पृथिवी) इत्यादि कथनके समान निरर्थक हैं ऐसा जो कहा है, उसका ‘यह रज्जु
है, सर्प नहीं है’ इस प्रकार वस्तुमात्रके कथनसे भी प्रयोजन देखनेमें आता है
इत्यादि कहकर निराकरण किया गया है । जिसने ब्रह्मका श्रवण किया है,
उसमें भी पहलेके समान सांसारिकता देखनेमें आती है, इस कारण रज्जुस्वरूपके
कथनके समान ब्रह्मस्वरूपका कथन सार्थक नहीं है, ऐसी पीछे जो शङ्का की
गई है, उसके उत्तरमें कहते हैं । जिसको ‘मैं ब्रह्म हूँ’ ऐसा अनुभव हो गया है

रत्नप्रभा

व्रतादिभ्योऽन्यत्र अभावमेव नञर्थं मन्यामहे इत्यर्थः । दुःखाभावफलके नञर्थे
सिद्धे निषेधशास्त्रमानत्ववत् वेदान्तानां ब्रह्मणि मानत्वम् इति भावः । तर्हि
‘अक्रियार्थानामानर्थक्यम्’ इति सूत्रं किंविषयम् इति तत्र आह—तस्मादिति ।
वेदान्तानां स्वार्थे फलवत्त्वाद् व्यर्थकथाविषयं तत् इत्यर्थः । यदपि इत्यादि
स्पष्टार्थम् । श्रवणज्ञानमात्रात् संसारानिवृत्तौ अपि साक्षात्कारात् जीवत एव

रत्नप्रभाका अनुवाद

विरुद्धरूप अर्थ करना चाहिए । प्रजापतिव्रत आदिसे भिन्न स्थलोंपर अभाव ही नञ्का अर्थ है
ऐसा हम मानते हैं यह अर्थ है । दुःखाभाव जिसका फल है ऐसे सिद्ध नञर्थमें जैसे निषेधशास्त्र
प्रमाण है, उसी प्रकार ब्रह्ममें वेदान्त प्रमाण है ऐसा इसका भावार्थ है । तब ‘अक्रियार्थानामा-
नर्थक्यम्’ (अक्रियार्थके वाक्य अनर्थक है) इस मीमांसाके सूत्रका विषय क्या है ? इस प्रश्न
पर कहते हैं—‘तस्मात्’ इत्यादि । वेदान्त स्वार्थमें फलवत् है, इसलिए उक्त सूत्रके विषय व्यर्थ
कथाका प्रतिपादन करनेवाले अर्थवाद ही है । “यदपि” इत्यादिका अर्थ स्पष्ट है । केवल

भाष्य

यथापूर्वं संसारित्वं शक्यं दर्शयितुं वेदप्रमाणजनितब्रह्मात्मभावविरोधात् । नहि शरीराद्यात्तामिमामिनो दुःखभयादिमत्त्वं दृष्टमिति तस्यैव वेदप्रमाण-जनितब्रह्मात्मावगमे तदमिमाननिवृत्तौ तदेव मिथ्याज्ञाननिमित्तं दुःखभयादिमत्त्वं भवतीति शक्यं कल्पयितुम् । नहि धनिनो गृहस्थस्य धनाभिमानिनो धनापहारनिमित्तं दुःखं दृष्टमिति तस्यैव प्रव्रजितस्य धनाभिमानरहितस्य तदेव धनापहारनिमित्तं दुःखं भवति । न च कुण्डलिनः कुण्डलित्वा-मिमाननिमित्तं सुखं दृष्टमिति तस्यैव कुण्डलविपुक्तस्य कुण्डलित्वामिमान-

भाष्यका अनुवाद

यह पहलेके समान संसारि है, ऐसा नहीं दिया सकते, क्योंकि वेदरूप प्रमाणसे उत्पन्न ब्रह्मात्मभावसे संसारित्वका विरोध है । शरीर आदिमें आत्मबुद्धि रखनेवाले पुरुषमें दुःख, भय आदि देरनेमें आते हैं, तो वेदरूप प्रमाणसे उसी पुरुषको 'ब्रह्म आत्मा है' ऐसा ज्ञान होनेपर उस बुद्धिकी निवृत्ति हो जानेसे मिथ्याज्ञानसे होनेवाले दुःख, भय आदि उसमें हो सकते हैं, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती । यह धन मेरा है ऐसा अभिमान करनेवाले धनी गृहस्थको उस धनकी चोरीसे दुःख होना देखा जाता है, यदि वही पुरुष संसारका त्याग कर दे और धनमें अभिमान छोड़ दे, तो उसे उस धनकी चोरीसे होनेवाला दुःख नहीं होता । इसी प्रकार कुण्डल पहिनेवालेमें 'मैंने कुण्डल पहिन रखते हैं' इस अभिमानसे उत्पन्न होनेवाला सुख देरनेमें आता है, यदि वही पुरुष कुण्डलरहित हो जाय या उसे कुण्डलित्वामिमान न रहे तो 'कुण्डल पहिने हैं' इस अभिमानसे उत्पन्न होनेवाला वही सुख उस पुरुषको नहीं होता । यही बात 'अशरीरं' (शरीररहित

रत्नप्रभा

मुक्तिः दुरपहवा इति सदृष्टान्तमाह—अत्रोच्यते इत्यादिना । ब्रह्म अहमिति साक्षात्कारविरोधात् इत्यर्थः । तत्त्वविदो जीवन्मुक्तौ मानम् आह—तदुक्तं श्रुत्येति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

भ्रवणज्ञानसे संसारकी निवृत्ति नहीं होती है, तो भी ब्रह्मसाक्षात्कारसे जितेजी ही मुक्ति प्राप्त होती है, उसका निषेध नहीं किया जा सकता इस बातको दृष्टान्तसहित कहने हैं—“अत्रोच्यते” इत्यादिसे । 'ब्रह्मात्मभावविरोधात्' अर्थात् 'मैं ब्रह्म हूँ' इस साक्षात्कारसे विरोध होनेके कारण । तत्त्वज्ञानी जीवन्मुक्त होता है इसमें प्रमाण कहते हैं—“तदुक्तं श्रुत्या” इत्यादिसे ।

भाष्य

रहितस्य तदेव कुण्डलित्वाभिमाननिमित्तं सुखं भवति । तदुक्तं श्रुत्या-
 'अशरीरं वाच सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः' (छा० ८।१२।१) इति ।
 शरीरे पतितेऽशरीरत्वं स्यात्, न जीवत इति चेत्, न; सशरीरत्वस्य मिथ्या-
 ज्ञाननिमित्तत्वात् । नह्यात्मनः शरीरात्माभिमानलक्षणं मिथ्याज्ञानं मुक्त्वा-
 ऽन्यतः सशरीरत्वं शक्यं कल्पयितुम् । नित्यमशरीरत्वमकर्मनिमित्तत्वा-
 दित्यवोचाम । तत्कृतधर्माधर्मनिमित्तं सुशरीरत्वमिति चेत्, न; शरीर-

भाष्यका अनुवाद

हुए आत्माको सुख और दुःख स्पर्श नहीं करते) इस श्रुतिसे भी कही गई है । शरीरपात होनेपर शरीररहित स्थिति होती है, जीतेजी नहीं हो सकती ऐसी शङ्का ठीक नहीं है, क्योंकि सशरीर स्थिति मिथ्याज्ञानसे उत्पन्न होती है । 'शरीर ही आत्मा है' इस अभिमानरूप मिथ्याज्ञानको छोड़कर अन्य किसी कारणसे आत्मामें सशरीरत्वकी कल्पना नहीं की जा सकती । कर्मसे उत्पन्न न होनेके कारण शरीर-रहित स्थिति नित्य है ऐसा हम पीछे कह आये हैं । आत्मासे किये गये धर्म और अधर्मसे उसे शरीर प्राप्त होता है । यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि आत्माका शरीरके साथ संबन्ध ही असिद्ध है । इस कारण धर्म और अधर्म आत्मासे किये गये हैं, यह बात भी असिद्ध है ।

रत्नप्रभा

जीवतोऽशरीरत्वं विरुद्धम् इति शङ्कते—शरीर इति । आत्मनो देहसम्बन्धस्य भ्रान्ति-
 प्रयुक्तत्वात् तत्त्वधिया तन्नाशरूपम् अशरीरत्वं जीवतो युक्तम् इत्याह—नेत्यादिना ।
 असङ्गात्मस्वरूपं त्वशरीरत्वं भ्रान्त्यावृतं तत्त्वधिया जीवतो व्यज्यते इत्याह—
 नित्यमिति । देहात्मनोः सम्बन्धः सत्य इति शङ्कते—तत्कृतेति । तन्नाशार्थं
 कार्यपेक्षेति भावः । आत्मनः शरीरसम्बन्धे जाते धर्माधर्मोत्पत्तिः तस्यां सत्यां

रत्नप्रभाका अनुवाद

जीतेजी अशरीरस्थिति विरुद्ध है ऐसी शङ्का करते हैं—“शरीर” इत्यादिसे । आत्माका देहके साथ संबन्ध पारमार्थिक नहीं है, किन्तु भ्रान्तिप्रयुक्त है । इससे तत्त्वज्ञानमें उसका नाशरूप अशरीरत्व जानेजी हो सकता है ऐसा कहते हैं—“न” इत्यादिसे । अमत्र आत्मरूप अशरीरत्व मिथ्याज्ञानसे आवृत रहता है, तत्त्वज्ञानसे आवरणका नाश होनेपर जीतेजी ही अशरीरत्व व्यक्त हो जाता है ऐसा कहते हैं—“नित्य” इत्यादिसे । देह और आत्माका संबन्ध सत्य है ऐसी शङ्का “तत्कृत” इत्यादिसे करते हैं । तात्पर्य यह है कि धर्म और अधर्मसे कृत शरीरात्म सम्बन्धके नाशके लिए उपागनारूप कार्यकी अपेक्षा है । आत्माका शरीरके साथ संबन्ध

भाष्य

सम्बन्धस्य असिद्धत्वाद्दर्माधर्मयोरात्मकृतत्वासिद्धेः । शरीरसम्बन्धस्य धर्माधर्मयोस्तत्कृतत्वस्य चेतरेतराश्रयत्वप्रसङ्गादन्यपरम्परैषाऽनादित्व-कल्पना । क्रियासमवायाभावाच्चाऽऽत्मनः कर्तृत्वानुपपत्तेः । संनिधान-भाष्यका अनुवाद

आत्मा का शरीरके साथ संबन्ध हो तो धर्म और अधर्मकी उत्पत्ति हो और आत्मासे किये गये धर्म और अधर्मसे शरीरके साथ संबन्ध हो ऐसा अन्योन्याश्रय होगा । इन दोनोंका परस्पर कार्यकारणभाव अनादि है ऐसा मानना भी केवल अन्यपरम्परा ही है । आत्माका क्रियाके साथ सम्बन्ध न होनेके कारण यह कर्ता भी नहीं हो सकता । कर्मचारियोंके साथ सन्निधानमात्रसे राजा

रत्नप्रभा

सम्बन्धजन्म इति अन्योन्याश्रयात् एकस्यासिद्ध्या द्वितीयस्य असिद्धिः स्यात् इति परिहरति—नेत्यादिना । ननु एतद्देहजन्यधर्माधर्मकर्मण एतद्देहसम्बन्धहेतुत्वे स्यात् अन्योन्याश्रयः, पूर्वदेहकर्मण एतद्देहसम्बन्धोत्पत्तिः, पूर्वदेहश्च तत्पूर्व-देहकृतकर्मण इति बीजाङ्कुरवदनादित्वात् नायं दोष इत्यत आह—अन्धेति । अप्रामाणिकीत्यर्थः । नहि बीजात् अङ्कुरः ततो बीजान्तरं च यथा प्रत्यक्षेण दृश्यते, तद्वत् आत्मनो देहसम्बन्धः पूर्वकर्मकृतः प्रत्यक्षः, नापि अस्ति कश्चित् आगमः, प्रत्युत 'असङ्गो हि' इत्यादिः श्रुतिः सर्वकर्तृत्वं वारयति इति भावः । तत्र युक्तिम् आह—क्रियेति । कूटस्थस्य कृत्ययोगात् न कर्तृत्वम् इत्यर्थः । रत्नप्रभाका अनुवाद

होनेपर धर्म और अधर्मकी उत्पत्ति होती है और उनकी उत्पत्ति होनेपर संबन्ध उत्पन्न होता है, इस अन्योन्याश्रय दोषसे एकके असिद्ध होनेपर दूसरेकी भी असिद्धि हो जाती है इस प्रकार शङ्काका परिहार करते हैं—“न” इत्यादिसे । यदि इस शरीरसे उत्पन्न धर्म और अधर्मरूप कर्मको इस शरीरके साथ आत्माके संबन्धके प्रति कारण मानें तो अन्योन्याश्रय हो । परन्तु पूर्वदेहमें किये हुए कर्मोंसे इस शरीरके साथ संबन्धकी उत्पत्ति होती है और पूर्वदेह उससे पहलेके देहसे किये हुए कर्मोंसे उत्पन्न होता है । इस प्रकार बीजाङ्कुरन्यायसे देहसंबन्ध और कर्मका कार्यकारणभाव अनादि है, इसलिए अन्योन्याश्रय दोष नहीं है, इस शङ्कापर कहते हैं—“अन्ध” इत्यादि । आशय यह है कि अनादिताकी कल्पना अप्रामाणिक है । बीजसे अङ्कुरका और अङ्कुरसे दूसरे बीजका जन्म जैसे प्रत्यक्ष देखनेमें आता है, उस प्रकार पूर्वकर्मोंसे आत्माका देहके साथ संबन्ध होना प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता और इसमें कोई आगम (शास्त्र) भी प्रमाण नही है, किन्तु इसके विपरीत 'असङ्गो हि' इत्यादि श्रुति आत्माके कर्तृत्वका निवारण करती है ऐसा तात्पर्य है । आत्मामें कर्तृत्व नही है इस विषयमें युक्ति कहते हैं—“क्रिया”

भाष्य

मात्रेण राजप्रभृतीनां दृष्टं कर्तृत्वमिति चेत्, न; धनदानाद्युपार्जितभृत्य-
सम्बन्धित्वात्तेषां कर्तृत्वोपपत्तेः । न त्वात्मनो धनदानादिवच्छरीरा-
दिभिः स्वस्वामिसम्बन्धनिमित्तं किञ्चिच्छक्यं कल्पयितुम् ।
मिथ्याभिमानस्तु प्रत्यक्षः सम्बन्धहेतुः । एतेन यजमानत्वमात्मनो
व्याख्यातम् । अत्राहुः—देहादिव्यतिरिक्तस्याऽऽत्मन आत्मीये देहादावभि-

भाष्यका अनुवाद

आदिमें कर्तृत्व देखनेमें आता है ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि धनदान
आदि उपार्योंसे सम्पादित भृत्योंके साथ संबन्ध होनेके कारण राजा आदिमें
कर्तृत्व होना ठीक है, परन्तु आत्माका शरीर आदिके साथ धनदान आदिके
समान स्व-स्वामिसंबन्धके निमित्त—कारणकी कोई कल्पना नहीं की जा
सकती । लेकिन मिथ्या अभिमान तो सम्बन्धका प्रत्यक्ष कारण है । इस कथनसे
आत्माके यजमानत्वका भी व्याख्यान हो गया अर्थात् जब तक मिथ्याभिमान
है तभी तक आत्मामें यजमानत्व है । इस विषयमें प्रभाकर कहते हैं कि देह
आदिसे भिन्न आत्माका अपने देह आदिमें अभिमान गौण है, मिथ्या नहीं है ।

रत्नप्रभा

स्वतो निष्क्रियस्य अपि कारकसन्निधानात् कर्तृत्वमिति शङ्कां दृष्टान्तवैषम्येण
निरस्यति—नेति । राजादीनां स्वक्रीतभृत्यकार्ये कर्तृत्वं युक्तं न आत्मन इत्यर्थः ।
देहकर्मणोरविद्याभूमौ बीजाङ्कुरवत् आवर्तमानयोरारामना सम्बन्धो भ्रान्तिकृत
एव इत्याह—मिथ्येति । ननु “यजेत” इति विध्यनुपपत्त्या आत्मनः कर्तृत्वम्

रत्नप्रभाका अनुवाद

इत्यादिसे । कूटस्थ आत्माका कृतिसे सम्बन्ध नहीं है, इसलिए आत्मा कर्ता नहीं है । यद्यपि
स्वयं निष्क्रिय है, -तो भी कारक शरीर इन्द्रियके समीप होनेसे आत्मा कर्ता होगा, इस शङ्काका
दृष्टान्तमें विषमता दिखलाकर निराकरण करते हैं—“न” इत्यादिसे । राजा आदि सेवकोंको
धन आदिसे सारीदते हैं, इसलिए मृत्युकार्यमें उनका कर्तृत्व युक्त ही है, शरीर आदिके कार्यमें
आत्माका कर्तृत्व युक्त नहीं है यह भावार्थ है । अविद्याभूमिमें बीजा और अङ्कुरके समान
परिवर्तन पानेवाले देह और कर्मोंका आत्माके साथ सम्बन्ध भ्रान्तितो हुआ है ऐसा कहते हैं—
“मिथ्या” इत्यादिसे । पूर्वपक्षी शङ्का करता है कि ‘यजेत’ इत्यादि विधिकी अनुपपत्ति
होगी, अतः आत्मामें कर्तृत्व अवश्य मानना चाहिए । इसके उत्तरमें बहते हैं—“एतेन”

(१) जैसे धनदानमें राजा और सेवकमें भेद्यमेवक सम्बन्ध जुड़ता है, उम प्रकार शरीर और
आत्मामें स्वस्वामिभाव संबन्ध जुड़नेका कोई निमित्त नहीं है ।

भाष्य

मानो गौणो न मिथ्येति चेत्, न; प्रसिद्धवस्तुभेदस्य गौणत्वमुख्यत्वप्रसिद्धेः । यस्य हि प्रसिद्धो वस्तुभेदः, यथा केसरादिमानाकृतिविशेषोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां सिंहशब्दप्रत्ययभाक्मुख्योऽन्यः प्रसिद्धः, ततश्चाऽन्यः पुरुषः प्रायिकैः क्रौर्यशौर्यादिभिः सिंहगुणैः सम्पन्नः सिद्धः, तस्य पुरुषे सिंहशब्दप्रत्ययौ गौणौ भवतो नाऽप्रसिद्धवस्तुभेदस्य । तस्य त्वन्यत्रान्यशब्दप्रत्ययौ भ्रान्तिनिमि-

भाष्यका अनुवाद

यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि जो दो वस्तुओंके भेदको जानता है, उसीको गौण-मुख्य ज्ञान होता है यह बात प्रसिद्ध है । जिसको दो वस्तुओंका भेद मालूम है, जैसे कि केसर आदिसे युक्त आकृतिविशेष अन्वय-व्यतिरेकसे सिंहशब्द और सिंह इस ज्ञानका पात्र मुख्य अन्य प्रसिद्ध है और उससे भिन्न क्रूरता एवं शूरता आदि प्रायिक सिंहके गुणोंसे सम्पन्न पुरुष भी ज्ञात है; उस पुरुषके सिंहगुणसम्पन्न मनुष्यमें होनेवाला सिंहशब्दप्रयोग और सिंहज्ञान गौण होते हैं । परन्तु जिसको वस्तुओंका भेद ज्ञात नहीं है, उसको नहीं । उसको तो दूसरे अर्थमें दूसरे पदार्थके वाचक शब्दका प्रयोग और दूसरे शब्दसे दूसरेका

रत्नप्रभा

एष्टव्यम् इति तत्र आह—एतेनेति । भ्रान्तिकृतेन देहादिसम्बन्धेन यागादिकर्तृत्वम् आब्रह्मबोधोधाद् व्याख्यातम् इत्यर्थः । अत्राहुः । प्राभाकरा इत्यर्थः । भ्रान्त्यभावाद् देहसम्बन्धादिकं सत्यम् इति भावः । भेदज्ञानाभावाद् न गौण इत्याह—नेति । प्रसिद्धो ज्ञातो वस्तुनोर्भेदो येन तस्य गौणमुख्यज्ञानाश्रयत्वप्रसिद्धेः इत्यर्थः । यस्य तस्य पुंसो गौणौ भवत इति अन्वयः । शौर्यादिगुणविषयौ इत्यर्थः । तस्य त्विति । भेदज्ञानशून्यस्य पुंस इत्यर्थः । शब्दप्रत्ययौ इति । शब्दः शाब्दबोधश्च

रत्नप्रभाका अनुवाद

इत्यादि । आत्माका देह आदिके साथ संबन्ध भ्रान्तिकृते हुआ है, इसलिए जब तब ब्रह्मका बोध न हो, तब तब ही यागादिका कर्तृत्व आत्मामें है ऐसा समझना चाहिए । “अत्राहुः” अर्थात् प्रभाकरमतके अनुयायी कहते हैं । आशय यह है कि भ्रान्ति नहीं है, अतः देहसंबन्ध आदि सत्य है । भेदज्ञानके अभावसे अभिमान गौण नहीं है ऐसा कहते हैं—“न” इत्यादिते । जो मनुष्य दोनों वस्तुओंके भेदको जानता है, वह गौण और मुख्य ज्ञानका आश्रय होता यह बात प्रसिद्ध है । ‘यस्य प्रसिद्धो वस्तुभेदः’ इस वाक्यमें पठित मत शब्दके साथ ‘तस्य पुंसो गौणौ भवत-’ इस वाक्यके तत् शब्दका अन्वय होता है । गौणका अर्थ है—शौर्यादि गुणविषय । “तस्य पु” अर्थात् भेदज्ञानशून्य पुरुषको । “शब्दप्रत्ययौ”—शब्द और शब्दजन्य बोध ।

भाष्य

तस्मान्नावगतब्रह्मात्मभावस्य यथापूर्वं संसारित्वम् । यस्य तु यथापूर्वं संसारित्वं नासावगतब्रह्मात्मभावः इत्यनवद्यम् । यत्पुनरुक्तं श्रवणात् पराचीनयोर्मनननिदिध्यासनयोर्दर्शनाद्विधिशेषत्वं ब्रह्मणो न स्वरूपपर्यवसायित्वमिति । न, श्रवणवत् तदवगत्यर्थत्वात् मनननिदिध्यासनयोः । यदि ह्यव-
भाष्यका अनुवाद

है । इसलिए 'मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा जिसने साक्षात्कार कर लिया है, वह पहलेके समान संसारी नहीं रहता । जो पूर्वके समान संसारी है उसने ब्रह्मात्मभाव जाना ही नहीं ऐसा समझना चाहिए; इस कारण शास्त्र निर्दोष है । पूर्वपक्षीने पहले जो यह कहा था कि श्रवण के अनन्तर मनन और निदिध्यासन देखनेमें आते हैं, अतः ब्रह्म विधिशेष है, स्वरूपमें पर्यवसायी नहीं होता, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि श्रवणके तुल्य मनन और निदिध्यासन ब्रह्मके साक्षात् ज्ञानके लिए

रत्नप्रभा

इति प्राणो जीवन् अपि ब्रह्मैव । किं तद् ब्रह्म तेजः स्वयंज्योतिः आनन्द एव इत्यर्थः । वस्तुतोऽचक्षुरपि बाधितचक्षुराद्यनुवृत्त्या सचक्षुरिव इत्यादि योज्यम् । इत्यनवद्यमिति । ब्रह्मात्मज्ञानात् मुक्तिलाभात् सिद्धं वेदान्तानां प्रामाण्यं हिनशासनात् शास्त्रत्वं च निर्दोषतया स्थितम् इत्यर्थः । ब्रह्मज्ञानमुद्दिश्य श्रवणवत् मनननिदिध्यासनयोरपि अवान्तरवाक्यभेदेन विध्यङ्गीकारात् न ब्रह्मणो विधिशेषत्वम् उद्देश्यज्ञानलभ्यतया प्राधान्यात् इत्याह—नेति । श्रवणं ज्ञानकरण-वेदान्तगोचरत्वात् प्रधानम्, मनननिदिध्यासनयोः प्रमेयगोचरत्वात् अङ्गत्वम्, नियमादृष्टस्य ज्ञाने उपयोगः सर्वापेक्षान्यायात् इति मन्तव्यम् । तर्हि ज्ञाने
रत्नप्रभाका अनुवाद

शरीररहित होनेके कारण अमृत है, प्राणन किया करता है, इसलिए प्राण है अर्थात् जीता हुआ भी ब्रह्म ही है । वह ब्रह्म क्या है ? स्वयं ज्योतिस्वरूप है आनन्द ही है । वस्तुतः नेत्र रहित होने पर भी बाधित नेत्रकी अशुश्रुतिमें नेत्ररहितके समान है इत्यादि योजना करना चाहिए । "इत्यनवद्यम्"—इत्यन्त प्रत्यक्का आशय यह है कि ब्रह्मात्मज्ञानसे मुक्तिलाभा है, इसलिए वेदान्त प्रमाण है और हितका शासन करते हैं इसलिए शास्त्र है यह बात निर्दोष सिद्ध है । ब्रह्मज्ञानके उद्देशसे ध्वषणके समान मनन और निदिध्यासनमें अवान्तरवाक्य भेदसे विधिका अङ्गीकार किया है, इसलिए ब्रह्म विधिशेष नहीं है, क्योंकि उद्देश्यज्ञानसे लभ्य होनेके कारण ब्रह्म प्रधान है ऐसा कहते हैं—"न" इत्यादिसे । ज्ञानके साधनभूत वेदान्तका विषय होनेके कारण ध्वषण प्रधान है । मनन और निदिध्यासन ध्वषणके अङ्ग है, क्योंकि उनका विषय प्रमेय है, नियमादृष्टका सर्वापेक्षान्यायसे ज्ञानमें उपयोग है ऐसा समझना चाहिए ।

भाष्य

गतं ब्रह्माऽन्यत्र विनियुज्येत, भवेत्तदा विधिशेषत्वम् । न तु तदस्ति, मन-
ननिदिध्यासनयोरपि श्रवणवदवगत्यर्थत्वात् । तस्मान्न प्रतिपत्तिविधिविषय-
तया शास्त्रप्रमाणकत्वं ब्रह्मणः सम्भवतीत्यतः स्वतन्त्रमेव ब्रह्म शास्त्रप्रमा-
णकं वेदान्तवाक्यसमन्वयादिति सिद्धम् । एवं च सति 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा'
इति तद्विषयः पृथक्शास्त्रारम्भ उपपद्यते । प्रतिपत्तिविधिपरत्वे हि 'अथातो
भाष्यका अनुवाद

हैं । यदि अवगत—साक्षात् ज्ञात ब्रह्मका कहीं कर्म आदिमें विनियोग
होता, तो वह विधिका अंग हो सकता । पर ऐसा तो नहीं है इससे उपासना-
विधिपरत्वरूपसे ब्रह्म शास्त्रप्रमाणक है, यह संभव नहीं है, विधिशेष
न होनेके कारण ब्रह्म स्वतन्त्र ही शास्त्रप्रमाणक है, क्योंकि वेदान्तवाक्योंका
समन्वय ब्रह्ममें ही है, ऐसा सिद्ध होता है । ऐसा होनेसे ही 'अथातो'
इस प्रकार ब्रह्मविषयक पृथक् शास्त्रका आरम्भ युक्त है । वेदान्त यदि उपासना-
विधिके विषय होते तो 'अथातो धर्म०' इस शास्त्रके पहले ही आरब्ध होनेके

रत्नप्रभा

विधिः किमिति त्यक्त', तत्र आह—यदि हीति । यदि ज्ञाने विधिमङ्गीकृत्य
वेदान्तैः अवगतं ब्रह्म विधेयज्ञाने कर्मकारकत्वेन विनियुज्येत, तदा विधिशेषत्वं
स्यात् । न तु अवगतस्य विनियुक्तत्वम् अस्ति, प्राप्तावगत्या फललाभे विध्य-
योगात् इत्यर्थः । तस्मात्-विध्यसम्भवात्, अतः-शेषत्वासम्भवात्, सत्यादिवान्वै-
लब्धज्ञानेन अज्ञाननिवृत्तिरूपफललाभे सति इत्यर्थः । सूत्रं योजयति—स्वतन्त्र-
मिति । एवं च सतीति । चोऽवधारणे । उक्तरीत्या ब्रह्मणः स्वातन्त्र्ये सति
एव भगवतो व्यासस्य पृथक् शास्त्रकृतिः युक्ता, धर्मविलक्षणप्रमेयलाभात् । वेदा-
रत्नप्रभाका अनुवाद

तव ज्ञानमें विधिका त्याग क्यों किया ? इस प्रश्नपर कहते हैं—“यदि हि” इत्यादि । यदि
ज्ञानमें विधि का अङ्कार करके वेदान्त वाक्योंसे ज्ञात ब्रह्मका विधेय ज्ञानमें कर्मकारकरूपसे
विनियोग करे, तो ब्रह्म विधिशेष हो । परन्तु अवगत ब्रह्मका विनियोग ही नहीं है, क्योंकि
ज्ञान प्राप्त होनेसे फलका लाभ हो जाता है, इसलिए विधि नहीं हो सकती ऐसा भावार्थ है ।
“तस्मात्” अर्थात् ब्रह्ममें विधिकी सम्भावना न होनेसे । “अतः” ब्रह्म विधिशेष नहीं हो सकता है
अर्थात् 'सत्य ज्ञानम्' इत्यादि वाक्योंसे प्राप्त ज्ञान द्वारा अज्ञाननिवृत्तिरूप प्रयोजनके निष्पन्न होनेसे ।
सूत्रकी योजना करते हैं—“स्वतन्त्रम्” इत्यादिसे । “एवं च सति” इत्यादि । ‘च’ कार
अवधारण—निधयके अर्थमें है । उक्त रीतिसे ब्रह्म स्वतन्त्र है, विधिशेष नहीं है, ऐसा
सिद्ध होने पर भगवान् व्यासका पृथक् शास्त्र बनाना युक्त है, क्योंकि उसने द्वारा धर्मसे

भाष्य

त्तावेव भवतो न गौणौ । यथा मन्दान्धकारे स्थाणुरयमित्यगृह्यमाणविशेषे पुरुषशब्दप्रत्ययौ स्थाणुविषयौ, यथा वा शुक्तिकायामकस्माद्रजतमिति निश्चितौ शब्दप्रत्ययौ, तद्वद् देहादिसङ्घातेऽहमिति निरूपचारेण शब्दप्रत्ययावात्मानात्माविवेकेनोत्पद्यमानौ कथं गौणौ शक्यौ वदितुम् । आत्मानात्मविवेकिनामपि पण्डितानामजाविपालानामिवाऽविविक्तौ शब्दप्रत्ययौ भवतः । तस्माद् देहादिव्यतिरिक्तात्मास्तित्ववादिनां देहादावहंप्रत्ययो मिथ्यैव न गौणः । तस्मात् मिथ्याप्रत्ययनिमित्तत्वात् सशरीरत्वस्य सिद्धं जीव-

भाष्यका अनुवाद

ज्ञान भ्रान्तिसे ही होते हैं, गौण नहीं हैं । जैसे मन्द अन्धकारमें 'यह स्थाणु है' ऐसे विशेषज्ञानके अभावके समयमें 'पुरुष' यह शब्द और ज्ञान स्थाणुमें होते हैं और जैसे शुक्तिमें अकस्मात् 'यह रजत है' यह शब्दप्रयोग और ज्ञान निश्चित होते हैं, इसी प्रकार देह आदि समुदायमें प्रधानरूपसे होनेवाले 'मैं' ऐसा शब्दप्रयोग और ज्ञान आत्मा और अनात्माका विवेक न होनेसे उत्पन्न होते हैं, वे गौण कैसे कहे जायें । आत्मा और अनात्माका भेद जाननेवाले पंडितोंके भी साधारण गड़रियेके समान शरीर आदिमें 'मैं' ऐसा शब्दप्रयोग और ज्ञान भ्रान्तिसे ही उत्पन्न होते हैं । इस कारण आत्माको देह आदिसे भिन्न माननेवालोंका शरीर आदिमें होनेवाला 'मैं' यह ज्ञान मिथ्या ही है, गौण नहीं है । इससे यह सिद्ध हुआ कि सशरीरत्व मिथ्याज्ञानसे होता है अतः ज्ञानीको

रत्नप्रभा

इत्यर्थः । संशयमूलौ तौ उदाहरति—यथा मन्देति । यदा संशयमूलयोर्न गौणत्वं तदा भ्रान्तिमूलयोः किं वाच्यम् इत्याह—यथा चेति । अकस्मादिति । अतर्कितादृष्टादिना संस्कारोद्बोधे सति इत्यर्थः । निरूपचारेण—गुणज्ञान विना इत्यर्थः । देहादिव्यतिरिक्तात्मास्तित्ववादिनामिति । देहात्मवादिनां तु

रत्नप्रभाका अनुवाद

संशयसे होनेवाले शब्द और शब्दबोधका उदाहरण देते हैं—“यथा मन्द” इत्यादितो । जब संशयमूलक शब्द और शब्दबोध गौण नहीं हैं, तब भ्रान्तिमूलक शब्द और बोध गौण नही है, इस विषयमें कहना ही क्या है ऐसा कहते हैं—“यथा वा” इत्यादितो । “अकस्मात्”—अतर्कित अदृष्ट आदिमें संस्कारका उद्बोध होनेपर ऐसा अर्थ है । “निरूपचारेण”—गुणज्ञानके विना । “देहादिव्यतिरिक्तात्मास्तित्ववादिनाम्” इत्यादि । आशय यह है कि देह आत्मा है

भाष्य

तोऽपि विदुषोऽशरीरत्वम् । तथा च ब्रह्मविद्विषया श्रुतिः—‘तद्यथाऽहिनिल्र्वयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीतैवमेवेदं शरीरं शेते, अथायमशरीरोऽमृतः प्राणो ब्रह्मैव तेज एव’ (वृ० ४ । ४ । ७) इति । ‘सचक्षुरचक्षुरिव सकर्णोऽकर्ण इव सवाग्वागिव समना अमना इव सप्राणोऽप्राण इव’ इति च । स्मृतिरपि च—‘स्थितप्रज्ञस्य का भाषा’ (भ० गी० २ । ५४) इत्याद्या स्थितप्रज्ञलक्षणान्याचक्षाणा विदुष सर्वप्रवृत्त्यसम्बन्धं दर्शयति ।

भाष्यका अनुवाद

(जिसका मिथ्याज्ञान नष्ट हो गया है) जीतेजी भी अशरीरत्व स्थिति प्राप्त होती है । ब्रह्मज्ञानीके संबन्धमें ‘तद्यथा०’ (जिस प्रकार जिसमें सर्प ने अभिमान त्याग दिया है ऐसी सर्पकी त्वचा वल्मीक आदिमें फेंकी हुई पड़ी रहती है, उसी प्रकार विद्वान्ने जिसमें अभिमान त्याग दिया है, वह शरीर पड़ा रहता है और शरीरमें रहनेवाला आत्मा अशरीर है, मरणरहित है, प्राण है, ब्रह्म है, स्वयंप्रकाश आनन्द ही है) और ‘सचक्षुरचक्षु०’ (वस्तुतः वह नेत्ररहित होता हुआ भी नेत्रसहितके समान, कर्णरहित भी सकर्ण-सा वागिन्द्रियरहित भी वाणीसे सम्पन्न-सा मनरहित भी मनसहित-सा प्राणरहित भी सप्राण-सा है) ऐसी श्रुति है । ‘स्थितप्रज्ञस्य०’ (जिसकी प्रज्ञा स्थित है, उसकी भाषा क्या है) इत्यादि स्मृतियां भी स्थितप्रज्ञका लक्षण कहती हुई यही दिखलाती हैं कि विद्वान्का प्रवृत्तिके साथ कुछ भी संबन्ध नहीं

रत्नप्रभा

प्रमा इति अभिमान इति भावः । जीवन्मुक्तौ प्रमाणम् आह—तथा चेति । तत् तत्र जीवन्मुक्तस्य देहे यथा दृष्टान्तः । अहिनिल्र्वयनी सर्पत्वक्-वल्मीकादौ प्रत्यस्ता निक्षिप्ता मृता सर्पेण त्यक्ताभिमाना वर्तते, एवमेव इदं विदुषा त्यक्ताभिमानं शरीरं तिष्ठति । अथ तथा त्वचा निर्मुक्तसर्पवत् एव अयम् देहस्थः अशरीरः । विदुषो देहे सर्पस्य त्वचि इव अभिमानाभावाद् अशरीरत्वाद् अमृतः प्राणिति

रत्नप्रभाका अनुवाद

ऐसा माननेवालोंको तो देह आदिमें ‘मे’ ऐसा ज्ञान प्रमा है ऐसा अभिमान है । जीवन्मुक्तिमें प्रमाण कहते हैं—‘तथा च’ इत्यादिये । तत्-यहाँ-जीवन्मुक्तके देहमें “यथा”—दृष्टान्त । जैसे अहिनिल्र्वयनी अर्थात् सापकी कांचली वल्मीक आदिमें फेंकी हुई मरी पड़ी रहती है—सर्पका उसमें यह मेरा है ऐसा अभिमान नहीं रहता है, उसी प्रकार विद्वान्का भी इस शरीरमें यह मेरा है ऐसा अभिमान नहीं रहता । त्वचासे मुक्त सर्पके समान विद्वान् देहस्थ होने पर भी अशरीर है, क्योंकि जैसे सर्पको अपनी त्वचामें अभिमान नहीं है, उसी प्रकार विद्वान्को भी शरीरमें अभिमान नहीं है ।

भाष्य

धर्मजिज्ञासा' इत्येवारब्धत्वान्न पृथक्शास्त्रमारभ्येत । आरभ्यमाणं चैवमारभ्येत—'अथातः परिशिष्टधर्मजिज्ञासेति', 'अथातः ऋत्वर्थपुरुषार्थयोजिज्ञासा' (जै० सू० ४।१।१) इतिवत्, ब्रह्मात्मैक्यावगतिस्त्वप्रतिज्ञातेति तदर्थो युक्तः शास्त्रारम्भः—'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इति । तस्मादहं ब्रह्मास्मी-

भाष्यका अनुवाद

कारण पृथक् शास्त्रका आरम्भ नहीं होता । यदि कदाचित् आरम्भ होता तो 'अथातः ऋत्वर्थ०' (अव ऋत्वर्थ और पुरुषार्थकी जिज्ञासा) सूत्रकी तरह 'अथातः परिशिष्ट०' (अव अवशिष्ट धर्मकी जिज्ञासा) इस प्रकार आरम्भ होता । ब्रह्म और आत्माके एकत्वके ज्ञानकी प्रतिज्ञा पूर्वमीमांसामें नहीं है, इससे उसके लिए 'अथातो ब्रह्म०' इस प्रकार नवीन शास्त्रका आरम्भ युक्त है ।

रत्नप्रभा

न्तानां कार्यपरत्वे तु प्रमेयाभेदात् न युक्ता इत्यर्थः । ननु मानसधर्मविचारार्थं पृथगारम्भ इत्याशङ्क्य आह—आरभ्यमाणं चेति । अथ बाह्यसाधनधर्मविचारानन्तरम्, अतः बाह्यधर्मस्य शुद्धिद्वारा मानसोपासनाधर्महेतुत्वात्, परिशिष्टो मानसधर्मो जिज्ञास्य इति सूत्रं स्यात् इति अत्र दृष्टान्तमाह—अथेति । तृतीयाध्याये श्रुत्यादिभिः शेषशेषित्वनिर्णयानन्तरं शेषिणा शेषस्य प्रयोगसम्भवात् कः ऋतुशेषः को वा पुरुषशेष इति जिज्ञास्यते इत्यर्थः । एवमारभ्येत न तु आरब्धं तस्माद् अवान्तरधर्मार्थम् आरम्भ इति अयुक्तम् इति भावः । स्वमते सूत्रानुगुण्यमस्ति इत्याह— ब्रह्मेति । जैमिनिना ब्रह्म न विचारितमिति तज्जिज्ञा-

रत्नप्रभाका अनुवाद

विलक्षण प्रमेय (ब्रह्म) का ज्ञान होता है । तात्पर्य यह है कि यदि वेदान्त कार्यपरक हों, तो प्रमेय भिन्न न होनेसे पृथक् शास्त्र रचना युक्त न होगी । मानस धर्मके विचारके लिए पृथक् शास्त्रका आरम्भ है ऐसी आशङ्का करके कहते हैं—'आरभ्यमाणं च' इत्यादि । 'अथ'—बाह्यसाधनसे धर्मके विचारके अनन्तर, 'अतः'—बाह्य धर्मके प्रति शुद्धिके द्वारा मानसिक उपासना रूपी धर्मके हेतु होनेसे, 'परिशिष्टधर्मजिज्ञासा'—अवशिष्ट मानसधर्म जिज्ञासा है इस प्रकार सूत्रका आरम्भ होता, इसके लिए दृष्टान्त कहते हैं—'अथ' इत्यादिते । पूर्वमीमांसाके तृतीय अध्यायमें श्रुति आदिते शेष और शेषीका निर्णय करनेके बाद प्रधानके साथ अत्रका प्रयोग हो सकता है, इसलिए ऋतुशेष कौन है और पुरुषशेष कौन है ऐसा विचार किया जाता है, यह तात्पर्य है । 'एवमारभ्येत' इस प्रकार आरम्भ होता परन्तु आरम्भ हुआ नहीं है, इस कारण अवान्तरधर्म—मानसधर्मके लिए शास्त्रका आरम्भ है यह कथन अयुक्त है । अपने मतमें—रत्नप्रभा ब्रह्म ही शास्त्रप्रमाण है, इस मतमें 'अथातो' यह सूत्र अनुगुण है

भाष्य

त्येतदवसाना एव सर्वे विधयः सर्वाणि चेतुराणि प्रमाणानि । न ह्यहेयानुपादेयाद्वैतात्मावगतौ निर्विषयाण्यप्रमातृकाणि च प्रमाणानि भवितुमर्हन्तीति । अपि चाहुः—

‘गौणमिध्यात्मनोऽसत्त्वे पुत्रदेहादिबाधनात् ।

सद्ब्रह्मात्माहमित्येवं बोधे कार्यं कथं भवेत् ॥

भाष्यका अनुवाद

इससे ‘मैं ब्रह्म हूँ’ ऐसा ज्ञान होने तक ही सब प्रमाण हैं, क्योंकि हेय और उपादेय रहित अद्वैत आत्मतत्त्वका ज्ञान होनेपर उस अवस्थामें जिनका न कोई विषय है और न प्रमाता है ऐसे प्रमाण ही नहीं हो सकते । और ब्रह्मवेत्ता कहते हैं—‘गौणमिध्यात्मनो’ (‘अबाधित परिपूर्ण सर्वसाक्षी ‘मैं हूँ’ ऐसा बोध होनेपर पुत्र देह आदिका बाध होता है अर्थात् यह सब मायामात्र है, वास्तविक नहीं है ऐसा निश्चय होता है, उससे गौणमिध्यात्मा—पुत्र दार, देह आदिमें आत्माभिमान निवृत्त हो जानेपर विधि, निषेध आदि सकल व्यवहार कैसे हो सकते हैं अर्थात्

रत्नप्रभा

स्यत्वसूत्रणं युक्तम् इत्यर्थः । वेदान्तार्थश्चेत् अद्वैतम्, तर्हि द्वैतसापेक्षविध्यादीनां फा गतिः इत्याशङ्क्य, जानात् प्रागेव तेषां प्रामाण्यं न पश्चात् इत्याह—तस्मादिति । ज्ञानस्य प्रमेयप्रमातृबाधकत्वाद् इत्यर्थः । ब्रह्म न कार्यशेषः, तद्बोधात् प्रागेव सर्वव्यवहार इत्यत्र ब्रह्मविदां गाथाम् उदाहरति—अपि चेति । सत्, अबाधितं-ब्रह्म-पूर्णम्, आत्मा-विषयान् आदत्ते इति सर्वसाक्षी अहम् इति एवं बोधे जाते सति पुत्रदेहादेः सत्ताबाधनात् मायामात्रत्वनिश्चयात् पुत्रदारादिभिरहमिति स्वीय-दुःखसुखभाक्त्वगुणयोगात् गौणात्माभिमानस्य ‘नरोऽहं कर्ता मूढः’ इति

रत्नप्रभाका अनुवाद

ऐसा कहते हैं—“ब्रह्म” इत्यादिसे । आशय यह है कि जैमिनि मुनिने ब्रह्मका विचार नहीं किया है, अतः ब्रह्मकी जिज्ञास्यताके प्रतिपादक सूत्रकी रचना आवश्यक है । यदि वेदान्तोंका अद्वैतमें तात्पर्य है, तो द्वैतकी अपेक्षा रखनेवाली विधि आदिकी क्या गति होगी, ऐसा आशङ्का करके ज्ञानसे पूर्व ही वे प्रमाण हैं तत्त्वज्ञानके बाद उनमें प्रामाण्य नहीं है ऐसा कहते हैं—“तस्मात्” इत्यादिसे । तस्मात्—ज्ञानके प्रमाता, प्रमेय आदिके बाधक होनेके कारण । ब्रह्म कार्यशेष नहीं है, ब्रह्मज्ञानके पहले ही सब व्यवहार हैं, इस विषयमें ब्रह्मवेत्ताओंकी गाथाको उद्धृत करते हैं—“अपि च” इत्यादिसे । सत्—अबाधित, ब्रह्म—पूर्ण, विषयोंका ग्रहण करता है, इसलिये आत्मा, मैं सर्वसाक्षी हूँ ऐसा बोध होनेपर पुत्र, देह आदिके अस्तित्वका बाध होता है—मायामात्र है ऐसा निश्चय होता है ।

भाष्य

अन्वेष्टव्यात्मविज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वमात्मनः ।
 अन्विष्टः स्यात् प्रमातृव पाप्मदोषादिवर्जितः ॥
 देहात्मप्रत्ययो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः ।
 लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वात्मनिश्चयात् ॥' इति ।

इति चतुःसूत्री समाप्ता ।

भाष्यका अनुवाद

किसी प्रकार नहीं हो सकते) 'अन्वेष्टव्या०' (जिस आत्माका ज्ञान करना है उस आत्माका ज्ञान होनेके पहले आत्मा प्रमाता बन सकती है, प्रमाताके स्वरूपका ज्ञान होनेपर वही पाप, राग, द्वेष आदि दोषोंसे शून्य परमात्मा-स्वरूप हो जाता है) 'देहात्म०' (जिस प्रकार 'मैं देह हूँ' यह ज्ञान कल्पित होनेपर भी प्रमाण माना जाता है, उसी प्रकार प्रत्यक्ष आदि लौकिक प्रमाण भी आत्मसाक्षात्कार पर्यन्त प्रमाण हैं)

रत्नप्रभा

मिथ्यात्माभिमानस्य च सर्वव्यवहारहेतोः असत्त्वे कार्यं विधिनिषेधादिव्यवहारः कथं भवेत्, हेत्वभावात् न कथंचित् भवेत् इत्यर्थः । ननु अहं ब्रह्म इति बोधो बाधितः, अहमर्थस्य प्रमातुः ब्रह्मत्वायोगात् इत्याशङ्क्य, प्रमातृत्वस्य अज्ञानविलसितान्तःकरणतादात्म्यकृतत्वात् न बाध इत्याह—अन्वेष्टव्य इति । "य आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोकोऽविजिघत्सोऽपिपासस्तत्यकामस्तत्यसंकल्पस्तोऽन्वेष्टव्यः" (छा० ८।४।१) इति श्रुतेः ज्ञातव्यपरमात्मविज्ञानात् प्रागेव

रत्नप्रभाका अनुवाद

सुखको पुष्ट्य अपना सुख-दुःख मानकर दुःख और सुखका भाजन होता है, इसलिए पुत्र आदिमें आत्माभिमान गौण है, और शरीरादिमें 'मैं नर कर्ता, अन्न हूँ' इत्यादि मिथ्याभिमान है, इन अभिमानोंसे सब व्यवहार होते हैं, अतः इनके न होनेसे विधिनिषेध आदि व्यवहार कैसे होंगे ? आशय यह है कि उक्त अभिमानरूप कारणके न होनेसे व्यवहार किसी प्रकार नहीं हो सकता है । 'अहं ब्रह्म' ('मैं ब्रह्म हूँ') यह बोध बाधित है, क्योंकि 'अहं' का अर्थ जो प्रमाता है, वह ब्रह्म नहीं हो सकता ऐसी आशङ्का करके अज्ञानके पार्यभूत अन्तःकरणसे तादात्म्य होनेके कारण आत्मामें प्रमातृत्व होता है, इसलिए वह ब्रह्मत्वबोधका बाधक नहीं है ऐसा कहते हैं—"अन्वेष्टव्य" इत्यादिसे । 'य आत्मापहतपाप्मा०' (जो आत्मा सर्वपापशून्य, जरारहित, मृत्युरहित, शोकरहित, अदानायारहित, पिपागाशून्य, सत्यराम, सत्यतद्गुण्य है, उसका अन्वेष्टन करना चाहिए) इस श्रुतिसे ज्ञान होता है कि ज्ञातव्य

रत्नप्रभा

अज्ञानात् चिद्धातोः आत्मनः प्रमातृत्वम्, प्रमातैव ज्ञातः सन् पाप्मरागद्वेषमरण-
विवर्जितः परमात्मा स्यात् इत्यर्थः । प्रमातृत्वस्य कल्पितत्वे तदाश्रितानां
प्रमाणानां प्रामाण्यं कथम् इत्यत आह—देहेति । यथा देहात्मत्वप्रत्ययः कल्पितो
भ्रमोऽपि व्यवहाराङ्गतया मानत्वेन इष्यते वैदिकैः, तद्वत् लौकिकम्, अध्यक्षा-
दिकम् आत्मबोधवधि व्यवहारकाले बाधाभावाद् व्यावहारिकं प्रामाण्यम्
इष्यताम्, वेदान्तानां तु कालत्रयाबाध्यबोधित्वात् तत्त्वावेदकं प्रामाण्यमिति
तुशब्दार्थः । आऽऽत्मनिश्चयात् । आ आत्मनिश्चयात् इति आङ्मर्यादायाम् ।
प्रमातृत्वस्य कल्पितत्वेऽपि विषयाबाधात् प्रामाण्यमिति भावः ।

रामनाम्नि परे धाम्नि कृत्स्नाम्नायसमन्वयः ।

कार्यतात्पर्यबाधेन साधितः शुद्धबुद्धये ॥ ४ ॥

इति चतुःसूत्री समाप्ता ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

परमात्माके ज्ञानके पहले ही अज्ञानसे चिद्रूप आत्मामें प्रमातृत्व रहता है । वही प्रमाता
स्वरूपसे ज्ञात होनेपर पाप, राग, द्वेष और मरणसे रहित परमात्मा हो जाता है ऐसा अर्थ है ।
यदि प्रमातृत्व कल्पित हो तो प्रमाताके आश्रयसे रहनेवाले प्रमाणोंमें प्रामाण्य कैसे होगा ?
इस शङ्कापर कहते हैं—“देह” इत्यादि । जिस प्रकार ‘देह में हूँ’ इत्यादि ज्ञान कल्पित—
भ्रम होनेपर भी व्यवहारका भ्रम होनेके कारण वैदिकों द्वारा प्रमाण माना गया है, उसी प्रकार
ग्रन्थस्य आदि प्रमाण आत्मज्ञान होने तक प्रमाण हैं, व्यवहार कालमें उनका बाध नहीं होता
है, इसलिए उनमें व्यावहारिक प्रामाण्य है । वेदान्त त्रिकालमें भी बाधित न होनेवाले ब्रह्मका
बोध करते हैं, इसलिए उनमें तत्त्वबोधक प्रामाण्य है ऐसा ‘तु’ शब्दका अर्थ है ।
“आऽऽत्मनिश्चयात्” यहाँपर ‘आङ्’ मर्यादा—अवधिरूप अर्थमें है । प्रमातृत्व अर्थात्
कल्पित है, तो भी उसके विषयका बाध न होनेसे उसमें व्यावहारिक प्रामाण्य है ऐसा तात्पर्य
है । इस प्रकार कार्यमें वेदान्तोंके तात्पर्यका बाध होनेसे रामनामक परमात्मामें सम्पूर्ण वेदका
समन्वय सिद्ध हुआ ।

* चतुःसूत्री समाप्ता *



[५ ईक्षत्यधिकरण सू० ५-११]

तदैक्षतेति वाक्येन प्रधानं ब्रह्म बोध्यते । ज्ञानक्रियाशक्तिमत्त्वात् प्रधानं सर्वकारणम् ॥
ईक्षणात् चेतनं ब्रह्म क्रियाज्ञाने तु मायया । आत्मशब्दात्मतादात्म्ये प्रधानस्य विरोधिनी* ॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—‘तदैक्षत’ यह वाक्य किसको जगत्का कारण कहता है, प्रधानको अथवा ब्रह्मको ?

पूर्वपक्ष—ज्ञानशक्तिशाली एवं क्रियाशक्तिशाली होनेके कारण प्रधान ही जगत्का कारण है, निर्गुण कूटस्थ ब्रह्म जगत्कारण नहीं हो सकता ।

सिद्धान्त—श्रुतिमें जगत्कारण ईक्षणका कर्ता कहा गया है, इससे सिद्ध है कि चेतन ब्रह्म ही जगत्कारण है, अचेतन प्रधानमें ईक्षणका संभव नहीं है । ब्रह्ममें ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति भायासे होती हैं । यदि अचेतन प्रधान जगत्कारण माना जाय, तो जगत्कारणमें आत्मशब्दका प्रयोग एवं तादात्म्यका उपदेश विरुद्ध हो जायगा ।

*निष्कर्ष यह है कि छान्दोग्यके छोठे अध्यायमें श्रुति ने ‘सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्’ (छा० ६।२।१) (सृष्टिके पूर्वमें यह जगत् सत्-अन्याकृत नामरूप एक अद्वितीय हो था) ऐसा उपक्रम करके कहा है—“तदैक्षत बहु स्या प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत” (छा० ६।२।१) (उसने ईक्षण किया कि मैं बहुत होऊँ—प्रजारूपमें उत्पन्न होऊँ उसने तेजकी सृष्टि की) ।

इस विषयमें सांख्य सिद्धान्तावलम्बी कहते हैं कि श्रुतिने ‘सत्’ शब्दसे जिसका निर्देश किया है, वह सबका कारण प्रधान है, ब्रह्म नहीं है; क्योंकि सत्त्वगुणयुक्त होने और परिणामी होनेके कारण प्रधानमें ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति हो सकती है, किन्तु निर्गुण ब्रह्ममें उनका होना नितान्त असम्भव है ।

सिद्धान्ती कहते हैं कि श्रुतिमें ‘ईक्षण’का प्रयोग है । ईक्षणशक्ति चेतनमें ही होती है, इसलिये चेतन ब्रह्म ही जगत्का कारण है, श्रुतिने ‘सत्’ शब्दसे उसीका निर्देश किया है । ब्रह्ममें माया द्वारा ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति भी हो सकती है । दूसरी बात यह भी है कि “अनेन जीवेनात्मनानु-प्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि” (छा० ६।१।२) (उस देवत्वाने विचार किया कि मैं जीवरूप अपनी आत्मासे प्रवेश करके नाम और रूपको प्रकट करूँ) इत्यादि श्रुतिमें नाम और रूपको प्रकट करनेवाली देवता (ब्रह्म) ने स्ववाचक आत्मशब्दसे चेतन जीवका निर्देश किया है । और ‘तत्त्वमासि’ श्रुति द्वारा चेतन श्रेतकेतुमें शुभ जगत्कारणके अमेदका उपदेश करते हैं । यदि सांख्यसिद्धान्तानुसार अचेतन प्रधानको जगत्का कारण मानें, तो उपर्युक्त दोनों बातें असंगत हो जायेंगी । इससे सिद्ध हुआ कि सत् शब्दमें चेतन ब्रह्मका श्रुतिने निर्देश किया है ।

भाष्य

एवं तावद् वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मात्मावगतिप्रयोजनानां ब्रह्मात्मनि तात्पर्येण समन्वितानामन्तरेणाऽपि कार्यानुप्रवेशं ब्रह्मणि पर्यवसानमुक्तम् । ब्रह्म च सर्वज्ञं सर्वशक्ति जगदुत्पत्तिस्थितिनाशकारणमित्युक्तम् । सांख्या-दयस्तु परिनिष्ठितं वस्तु प्रमाणान्तरगम्यमेवेति मन्यमानाः प्रधानादीनि

भाष्यका अनुवाद

इस प्रकार 'यह आत्मा ब्रह्म है' ऐसा अपरोक्ष ज्ञान जिनका प्रयोजन है ब्रह्मात्मामें तात्पर्यसे समन्वित ऐसे वेदान्तवाक्य कार्यके सम्बन्धके विना भी ब्रह्ममें पर्यवसित होते हैं—सफल बोधजनक होते हैं, यह पीछे कह आये हैं । ब्रह्म सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और नाशका कारण है, ऐसा भी कहा जा चुका है । परन्तु सांख्य आदि ऐसा मानते हैं कि अन्य प्रमाणसे ही सिद्ध वस्तुका ज्ञान होता है, और प्रधान आदि अन्य कारणोंका अनुमान करके तत्परत्वसे—प्रधानादिपरत्वसे ही

रत्नप्रभा

वृत्तमनूद्य आक्षेपलक्षणाम् अवान्तरसङ्गतिमाह—सांख्यादयस्त्विति । भवतु सिद्धे वेदान्तानां समन्वयः, तथापि मानान्तरायोग्ये ब्रह्मणि शक्तिग्रहायोगात् कूटस्थत्वेन अविकारित्वेन कारणत्वायोगाच्च न समन्वयः, किन्तु सर्गाद्यं कार्यं जडप्रकृतिकम्, कार्यत्वात्, घटवद् इत्यनुमानगम्ये त्रिगुणे प्रधाने समन्वय इति आक्षिपन्ति इत्यर्थः । सिद्धं मानान्तरगम्यमेव इति आप्रहः शक्तिग्रहार्थः । अत एव प्रधानादौ अनुमानोपस्थिते शक्तिग्रहसम्भवात् तत्परतया वाक्यानि योजयन्ति इति उक्तम् । किञ्च, "तेजसा सोम्य शुक्लेन सन्मूलमन्विच्छ"

रत्नप्रभाका अनुवाद

पूर्वोक्त विषयका अनुवाद करनेके बाद आक्षेपरूप अवान्तर सङ्गति कहते हैं— "सांख्यादयस्तु" इत्यादिसे । सिद्ध (वस्तु) में भले ही वेदान्तोंका समन्वय हो, परन्तु अन्य प्रमाणसे अज्ञेय ब्रह्ममें शक्तिग्रह करना संभव नहीं है और कूटस्थ एवं अविकारी होनेसे ब्रह्म कारण भी नहीं हो सकता, इसलिए वेदान्तोंका समन्वय ब्रह्ममें नहीं है, किन्तु सृष्टि आदि कार्य जइसे जन्य हैं, क्योंकि घटके समान कार्य हैं—इस अनुमानसे गम्य त्रिगुणात्मक प्रधानमें ही वेदान्तोंका समन्वय है, ऐसा आक्षेप करते हैं । सिद्ध वस्तु प्रमाणान्तरसे ही जानने योग्य है, ऐसा आप्रह उसमें शक्तिग्रहके लिए है । इसलिए अनुमानसे उपस्थित होनेवाले प्रधान आदिमें शक्तिका ग्रहण करना संभव है, अत वेदान्तवाक्य प्रधानपरक हैं ऐसा योजना करते हैं ऐसा कहा है । और 'तेजसा सोम्य' इत्यादि धृतियों शुद्धमे—लिप्तस कारणका

माप्य

कारणान्तराणि अनुमिमानास्तत्परतयैव वेदान्तवाक्यानि योजयन्ति, सर्वेष्वेव वेदान्तवाक्येषु सृष्टिविषयेषु अनुमानेनैव कार्येण कारणं लिलक्षयिषितम् । प्रधानपुरुषसंयोगा नित्यानुमेया इति सांख्या मन्यन्ते । काणादास्त्वेतेभ्य एव वाक्येभ्य ईश्वरं निमित्तकारणमनुमिमते । अणूंश्च सम-

भाष्यका अनुवाद

वेदान्तवाक्योंकी योजना करते हैं । सब वेदान्तवाक्य, जिनका प्रतिपाद्य विषय सृष्टि है, उनमें अनुमान द्वारा ही कार्यसे कारणका ज्ञान कराना चाहते हैं । प्रधान, पुरुष और उनका संयोग अनुमानगम्य ही है ऐसा सांख्य मानते हैं । कणादके अनुयायी तो उन्हीं वाक्योंसे ऐसा अनुमान करते हैं कि ईश्वर निमित्तकारण है और अणु समवायी कारण हैं । इसी प्रकार

रत्नप्रभा

(छा० ६।८।४) इत्याद्याः श्रुतयः शुक्लेन लिङ्गेन कारणस्य स्वतः अन्वेषणं दर्शयन्त्यो मानान्तरसिद्धमेव जगत्कारणं वदन्ति इत्याह—सर्वेष्विति । ननु अतीन्द्रियत्वेन प्रधानादेः व्याप्तिप्रहायोगात् कथमनुमानं तत्राह—प्रधानेति । यत् कार्यम्, तत् जडप्रकृतिकम्, यथा घटः, यद् जडम्, तत् चेतनसंयुक्तम्, यथा रथादिरिति सामान्यतो दृष्टानुमानगम्याः प्रधानपुरुषसंयोगा इत्यर्थः । अद्वितीयब्रह्मणः कारणत्वविरोधिमतान्तरमाह—काणादास्त्विति । सृष्टिवाक्येभ्य एव परार्थानुमानरूपेभ्यो यत्कार्यम्, तद् बुद्धिमत्कर्तृकमिति ईश्वरं कर्तारं परमाणूंश्च यत् कार्यद्रव्यम्, तत् स्वन्यूनपरिमाणद्रव्यारब्धम् इति अनुमिमते इत्यर्थः । अन्येऽपि बौद्धादयः “असद्वा इदमग्र आसीद्” (तै० आ० २।७।१)

रत्नप्रभाका अनुवाद

अन्वेषण दिखलाती हुई अन्य प्रमाणसे सिद्ध वस्तुको ही जगत्का कारण बतलाती है ऐसा कहते हैं—“सर्वेषु” इत्यादिसे । यहाँ शका होती है कि प्रधान आदिके अतीन्द्रिय होनेके कारण व्याप्तिका ग्रहण ही नहा होगा, व्याप्ति न होनेसे अनुमान किस प्रकार होगा ? इस पर कहते हैं—“प्रधान” इत्यादि । जो कार्य है वह जडसे जन्य है, जैसे कि घट, और जो जड़ होता है, वह चेतन संयुक्त होता है जैसे रथादि । इस प्रकार सामान्य दृष्ट अनुमानसे प्रधान, पुरुष और उनका संयोग जाना जाता है । अद्वितीय ब्रह्म जगत्का कारण है इसका विरोधी दूसरा मत कहते हैं—“काणादास्तु” इत्यादिसे । अर्थात् परार्थानुमानरूप सृष्टिवाक्योंसे ही जो कार्य है वह बुद्धिमान् कर्तासे जन्य है, इन प्रकार ईश्वर कर्ता है और जो कार्यद्रव्य है, वह अपनेसे न्यून परिमाणवाले द्रव्यसे आरब्ध होता है, इस प्रकार परमाणु उपादान कारण है ऐसा अनुमान करते हैं । ‘दूसरे’ अर्थात् बौद्ध । ‘असद्वा’ (यह पूर्वमें अमत् था) यह वाक्याभास है । जो वस्तु है, वह

भाष्य

वायिकारणम् । एवमन्येऽपि तार्किका वाक्याभासयुक्त्याभासावष्टम्भाः पूर्वपक्षवादिन इहोत्तिष्ठन्ते । तत्र पदवाक्यप्रमाणज्ञेनाऽऽचार्येण वेदान्त-वाक्यानां ब्रह्मावगतिपरत्वप्रदर्शनाय वाक्याभासयुक्त्याभासप्रतिपत्तयः पूर्व-पक्षीकृत्य निराक्रियन्ते । तत्र सांख्याः प्रधानं त्रिगुणमचेतनं जगतः भाष्यका अनुवाद

दूसरे तार्किक भी वाक्याभास और युक्त्याभासका अवलम्बन लेते हुए अद्वैतमतमें पूर्वपक्षी बनाकर उपस्थित होते हैं । उक्त वादियोंका विवाद उपस्थित होनेपर वेदान्तवाक्योंका प्रयोजन ब्रह्मका अपरोक्षज्ञान कराना है यह दिखलानेके लिए वाक्याभास और युक्त्याभासके आधारसे होनेवाले विरोधोंको पूर्वपक्ष बनाकर पद, वाक्य और प्रमाणके ज्ञाता आचार्य उनका निराकरण करते हैं । उन पूर्व-पक्षियोंमें त्रिगुणात्मक अचेतन प्रधानको जगत्का कारण माननेवाले सांख्य कहते हैं जो तुम कह आये हो कि वेदान्तवाक्य सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् ब्रह्मको

रत्नप्रभा

इत्यादिवाक्याभासः । यद् वस्तु तत् शून्यावसानम्, यथा दीप इति युक्त्याभासः । एवं वादिविप्रतिपत्तिम् उक्त्वा तन्निरासाय उत्तरसूत्रसन्दर्भमवतारयति—तत्रेति । वादिविवादे सति इत्यर्थः । व्याकरणमीमांसान्यायनिधित्वात् पदवाक्यप्रमाणज्ञत्वम् । यद् जगत्कारणं तत् चेतनम् अचेतनं वा इति ईक्षणस्य मुख्यत्वगौण-त्वाभ्यां संशये पूर्वपक्षमाह—तत्र सांख्या इति । अपिशब्दौ एवकारार्थौ । 'सदेव' इत्यादिस्पष्टब्रह्मलिङ्गवाक्यानां प्रधानपरत्वनिरासेन ब्रह्मपरत्वोक्तेः श्रुत्यादि-सद्गतयः । पूर्वपक्षे जीवस्य प्रधानैक्योपास्तिः सिद्धान्ते ब्रह्मैक्यज्ञानमिति

रत्नप्रभाका अनुवाद

अन्तमें शून्य हो जाता है, जैसे दीपक—यह युक्त्याभास है । इस प्रकार वादियोंके भिन्न भिन्न मत कहकर उनका खण्डन करनेके लिए उत्तर सूत्रसन्दर्भकी अवतरणिका देते हैं—“तत्र” इत्यादिसे । अर्थात् वादियोंके विवाद उपस्थित होनेपर । आचार्य व्याकरण, मीमांसा और न्यायके निधि होनेके कारण पद, वाक्य और प्रमाणके ज्ञाता कहे गये हैं । जो जगत्का कारण है, वह चेतन है अथवा अचेतन है, इस प्रकार ईक्षण मुख्य है या गौण ऐसा संशय होनेपर पूर्वपक्ष कहते हैं—“तत्र सांख्याः” इत्यादिसे । भाष्यगत 'प्रधान कारणत्वपक्षेऽपि' 'प्रधानस्यापि' ये दोनों 'अपि' शब्द 'एव' के अर्थमें प्रयुक्त हैं अर्थात् 'प्रधानकारणता पक्षमें ही लगाये जा सकते हैं' । 'प्रधान ही सर्वशक्तिमान् है' ऐसा वाक्यार्थ समझना चाहिए । 'सदेव' इत्यादि जिनमें ब्रह्मलिङ्ग स्पष्ट है ऐसे वाक्य प्रधानपरक नहीं हैं, इस प्रकार उनके प्रधानपरत्वका खण्डन करके वे ब्रह्म-परक हैं ऐसा दिखलाते हैं, इसलिए धृति आदर्शकी सगति है । पूर्वपक्षमें जीवका प्रधानके साथ ऐक्य

भाष्य

कारणमिति मन्यमाना आहुः—यानि वेदान्तवाक्यानि सर्वज्ञस्य सर्वशक्ते-
र्ब्रह्मणो जगत्कारणत्वं दर्शयन्तीत्युच्यते तानि प्रधानकारणपक्षेऽपि योज-
यितुं शक्यन्ते । सर्वशक्तित्वं तावत् प्रधानस्याऽपि स्वविकारविषयमुपपद्यते ।
एवं सर्वज्ञत्वमप्युपपद्यते । कथम् ? यत्तु ज्ञानं मन्यसे स सत्त्वधर्मः,
'सत्त्वात् संजायते ज्ञानम्' (गी० १४।१७) इति स्मृतेः । तेन च सत्त्वधर्मेण
ज्ञानेन कार्यकारणवन्तः पुरुषाः सर्वज्ञा योगिनः प्रसिद्धाः । सत्त्वस्य हि
निरतिशयोत्कर्षं सर्वज्ञत्वं प्रसिद्धम् । न केवलस्याऽकार्यकारणस्य पुरुषस्यो-
पलब्धिमात्रस्य सर्वज्ञत्वं किञ्चिज्ज्ञत्वं वा कल्पयितुं शक्यम् । त्रिगुणत्वात्

भाष्यका अनुवाद

जगत्का कारण बतलाते हैं, वे थाक्य 'प्रधान जगत्का कारण है' इस पक्षमें ही
लगाये जा सकते हैं । अपने विकारको उत्पन्न करनेके लिए प्रधानमें सर्वशक्तिमत्ता
है ही । इसी प्रकार सर्वज्ञता भी है । प्रधानमें किस प्रकार सर्वज्ञता हो सकती
है ? जिसको तुम ज्ञान मानते हो, वह सत्त्वगुणका धर्म है, क्योंकि 'सत्त्वात्०'
(सत्त्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है) यह स्मृति है । उस सत्त्वके धर्मरूप
ज्ञानसे कार्यकारणवाले—देहेन्द्रियवाले पुरुष योगी सबज्ञ प्रसिद्ध हैं, क्योंकि
सत्त्वका निरतिशय—अत्यन्त उत्कर्ष होनेपर सर्वज्ञ होना प्रसिद्ध है । देह और
इन्द्रियरहित केवल ज्ञानस्वरूप पुरुष सर्वज्ञ हो अथवा यत् किञ्चित् ज्ञाता हो,
ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती । परन्तु प्रधान त्रिगुणात्मक है, इसलिए सध

रत्नप्रभा

विवेकः । अचेतनसत्त्वस्यैव सर्वज्ञत्वं न चेतनस्य इत्याह—तेन च सत्त्वधर्मेणेति ।
न केवलस्येति । जन्यज्ञानस्य सत्त्वधर्मत्वात् नित्योपलब्धेः अकार्यत्वात्
चिन्मात्रस्य न सर्वज्ञानकर्तृत्वम् इत्यर्थः । ननु गुणानां साम्यावस्था प्रधानम्
इति सांख्या वदन्ति । तदवस्थायां सत्त्वस्य उत्कर्षाभावात् कथं सर्वज्ञता

रत्नप्रभाका अनुवाद

मानकर उपासना करना फल है, और सिद्धान्तमें ब्रह्मके साथ ऐक्यका ज्ञान प्राप्त करना फल है, पूर्वपक्ष
और सिद्धान्तमें यह अन्तर है । अचेतन जो सत्त्वगुण है, वही सर्वज्ञ है, चेतन सर्वज्ञ नहीं है, ऐसा
कहते हैं—“तेन च सत्त्वधर्मेण” इत्यादिसे । “न केवलस्य” इत्यादि । उत्पन्न होनेवाला ज्ञान
सत्त्वका धर्म है, नित्यज्ञान तो कार्य (उत्पन्न होनेवाला) नहीं है, अतः केवल ज्ञानरूप आत्मा
सर्वज्ञानका कर्ता नहीं हो सकता है । यहाँ साक्षा होती है कि सांख्य गुणोंकी साम्यावस्थाकी
प्रधान कहते हैं । उम अवस्थामें सत्त्वका उत्कर्ष न होनेसे सर्वज्ञता किस प्रकार हो सकती है,

भाष्य

प्रधानस्य सर्वज्ञानकारणभूतं सत्त्वं प्रधानावस्थायामपि विद्यत इति प्रधान-
स्याऽचेतनस्यैव सतः सर्वज्ञत्वमुपचर्यते वेदान्तवावाक्येषु । अवश्यं च
त्वयापि सर्वज्ञं ब्रह्माऽभ्युपगच्छता सर्वज्ञानशक्तिमत्त्वेनैव सर्वज्ञत्वमभ्युप-
गन्तव्यम् । नहि सर्वविषयं ज्ञानं कुर्वदेव ब्रह्म वर्तते । तथाहि—
ज्ञानस्य नित्यत्वे ज्ञानक्रियां प्रति स्वातन्त्र्यं ब्रह्मणो हीयेत । अथाऽनित्यं तदिति
ज्ञानक्रियाया उपरमे उपरमेतापि ब्रह्म, तदा सर्वज्ञानशक्तिमत्त्वेनैव सर्वज्ञ-
त्वमापतति । अपि च प्रागुत्पत्तेः सर्वकारकशून्यं ब्रह्मेण्यते त्वया । न च

भाष्यका अनुवाद

ज्ञानोंका कारणभूत सत्त्वगुण प्रधान-अवस्थामें रहता ही है, इससे अचेतन
होनेपर भी प्रधानमें ही वेदान्तवाक्यों द्वारा सर्वज्ञत्व गौणीवृत्तिसे कहा गया है ।
सर्वज्ञ ब्रह्म है ऐसा अंगीकार करनेवाले तुमको भी सर्वज्ञानशक्तिवाला होनेसे
ही ब्रह्ममें सर्वज्ञत्व मानना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म सदा ही सर्वविषयोंका ज्ञान
करता हुआ नहीं रहता । यदि ज्ञानको नित्य मानें तो ज्ञानक्रियाके प्रति ब्रह्मकी
स्वतंत्रता नष्ट हो जायगी । और यदि उसे (ज्ञानको) अनित्य मानें तो ब्रह्म
ज्ञानक्रियासे कदाचित् उपरत भी हो जायगा अर्थात् ज्ञानक्रिया करना
छोड़ देगा । इससे सिद्ध होता है कि सर्वज्ञानशक्तिमत्तासे ही ब्रह्म भी सर्वज्ञ है ।
और दूसरी बात यह भी है कि उत्पत्तिके पूर्व तुम ब्रह्मको तब कारकोंसे रहित

रत्नप्रभा

इत्याह—त्रिगुणत्वादिति । त्रयो गुणा एव प्रधानम्, तस्य साम्यावस्था तदभेदात्
प्रधानम् इति उच्यते । तदवस्थायामपि प्रलये सर्वज्ञानशक्तिमत्त्वरूपं सर्वज्ञत्वम्
अक्षतमित्यर्थः । ननु मया किमिति शक्तिमत्त्वरूपं गौणं सर्वज्ञत्वमङ्गीकार्यम्
इति तत्राह—नहीति । अनित्यज्ञानस्य प्रलये नाशात् शक्तिमत्त्वं वाच्यम्,
कारकाभावात् च इत्याह—अपि चेति । मतद्वयसाम्यमुक्त्वा स्वमते विशेषम्

रत्नप्रभाका अनुवाद

इसके लिए कहते हैं—“त्रिगुणत्वात्” इत्यादि । तीन गुण ही प्रधान हैं, उनकी साम्यावस्था
उससे भिन्न नहीं है, इसलिए वह प्रधान कहलाता है । उस अवस्थामें भी अर्थात् प्रलय कालमें
भी सर्वज्ञानशक्तिमत्त्वरूप सर्वज्ञत्व अक्षत है । परन्तु हम ब्रह्मवादी शक्तिमत्त्वरूप गौण सर्वज्ञत्व
क्यों मानें इसके उत्तरमें कहते हैं—“नहि” इत्यादि । अनित्य ज्ञानका प्रलयमें नाश हो जाता
है, इसलिए शक्तिमत्त्व कहना चाहिए । कारकके अभावसे भी कहना चाहिये ऐसा कहते हैं—
“अपि च” इत्यादिसे । दोनों मतोंका साम्य (दोनों मत समान हैं ऐसा) दिखलाकर अपने

भाष्य

ज्ञानसाधनानां शरीरेन्द्रियादीनामभावे ज्ञानोत्पत्तिः कस्यचिदुपपन्ना । अपि च प्रधानस्याऽनेकात्मकस्य परिणामसंभवात् कारणत्वोपपत्तिर्मृदादिवत् ; नाऽसंहस्यैकात्मकस्य ब्रह्मणः इत्येवं प्राप्त इदं सूत्रमारभ्यते—

भाष्यका अनुवाद

मानते हो, तब ज्ञानके साधन शरीर, इन्द्रिय आदिके अभावमें ज्ञानकी उत्पत्ति किसीके मतमें भी संगत नहीं है । और अनेक आत्मा—अवयववाले प्रधानके परिणाम का संभव है, इससे सृष्टिका आदिके समान प्रधानमें कारण होनेकी योग्यता है, और असंग एकाकी ब्रह्ममें (योग्यता) नहीं है, ऐसा (पूर्वपक्षः) प्राप्त होनेपर इस सूत्रका आरम्भ किया जाता है—

रत्नप्रभा

आह—अपि चेति । ब्रह्मणः कारणत्वं सृष्टिपादे समर्थ्यते, प्रधानादेः कारणत्वं तर्कपादे युक्तिभिः निरस्यति । अधुना तु श्रुत्या निरस्यति—ईक्षतेर्नाशब्दमिति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

मतमें विशेष कहते हैं—“अपि च” इत्यादिसे । ब्रह्मकी कारणताका सृष्टिपादमें समर्थन किया जायगा और प्रधानके कारणत्वका तर्कपादमें खण्डन किया जायगा । अभी तो श्रुतिसे खण्डन करते हैं—“ईक्षतेर्नाशब्दम्” ।

* साख्यमतमें प्रकृति ही जगत्कारण है, पुरुष पुष्करपलाशके समान निर्लेप है, किन्तु चेतन है । पुरुषके भोगके लिए तथा मोक्षके लिए प्रधान सृष्टिमें प्रवृत्त होता है । पुरुष और प्रकृतिके सयोगसे सृष्टि होती है । अचेतन प्रधानका पुरुष अधिष्ठाता नहीं है, क्योंकि वह प्रकृतिके स्वरूपको ही नहीं जानता है । ईश्वर अधिष्ठाता है ऐसा भी नहीं कह सकते, जैसे बत्सकी वृक्षिके लिए अचेतन भी क्षीर प्रवृत्त होता है अर्थात् गोशुक्त लण आदि क्षीररूपमें परिणत होकर पृथक् क्षीराशयमें संचित हो जाते हैं । इसमें न गौका प्रयत्न होता है और न बत्सका । उसी प्रकार प्रकृति अचेतन होनेपर भी सृष्टिमें प्रवृत्त होती है और नित्यवृत्त ईश्वरको सृष्टिकार्यसे कोई प्रयोजन नहीं है । वह कारण्यसे सृष्टिमें प्रवृत्त होता है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि सृष्टिके पूर्वमें शरीर, इन्द्रिय, विषय आदिके न होनेसे कोई दुःखी जीव या ही नहीं जिसके दुःखको देखकर ईश्वरको करुणा उत्पन्न होती । सृष्टिके बाद दुःखी जीवको देखकर करुणा होती है ऐसी तो कहा कह सकते, क्योंकि कारण्यसे सृष्टि होती है, सृष्टिसे कारण्य होता है । ऐसा अन्योन्याशय हो जायगा । और यदि करुणासे प्रेरित होता तो शुरुवा प्राणियोंकी ही सृष्टि करता, दुःखी प्राणियोंकी सृष्टि नहीं करता । यदि कर्मवैधियसे सृष्टिवैधिय है कर्म तो कर्मसे ही सृष्टि हो सकती है, ईश्वरकी क्या आवश्यकता ? ऐसी आपत्ति होगी । अचेतन प्रकृतिही प्रकृतिमें कारण्य आदि प्रयोजक नहीं है, अतः कोई दोष नहीं होता । जैसे नर्तकी परिपक्वकी अपना नृत्य दिग्भ्रमकर बट जाती है, उसी प्रकार प्रकृति अपना प्रपंच पुरुषको दिग्भ्रमकर बट जाती है ।

ईक्षतेर्नाशब्दम् ॥ ५ ॥

परच्छेद—ईक्षतेः, न, अशब्दम् ।

पदार्थोक्ति—प्रधानं [जगत्कारणम्] न अशब्दम्—शब्दाप्रतिपाद्यं [हि तत्,] [कुतः अशब्दम्] ईक्षतेः तदैक्षतेति श्रुतौ [जगत्कर्तुः] ईक्षितृत्वश्रवणात् ।

भाषार्थ—प्रधान जगत्का कारण नहीं है, क्योंकि वह श्रुतिसे अप्रतिपादित है । श्रुतिसे अप्रतिपादित कैसे है ? 'तदैक्षत' श्रुतिमें जगत्कारण ईक्षणका कर्ता कहा गया है, जड़ प्रधानमें ईक्षण करनेकी शक्ति नहीं है ।



भाष्य

न सांख्यपरिकल्पितमचेतनं प्रधानं जगतः कारणं शक्यं वेदान्ते-
प्याश्रयितुम् । अशब्दं हि तत् । कथमशब्दत्वम् ? ईक्षतेः—ईक्षितृत्वश्रव-
णात् कारणस्य । कथम् ? एवं हि श्रूयते—'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेक-

भाष्यका अनुवाद

सांख्य द्वारा कल्पित अचेतन प्रधानको जगत्का कारण मानना वेदान्तमें संभव नहीं है, क्योंकि वह श्रुतिसिद्ध नहीं है । श्रुतिसिद्ध क्यों नहीं है ? इससे कि श्रुतिमें कारणको ईक्षण करनेवाला कहा है । किस प्रकार ? श्रुति ऐसा स्पष्टतया कहती है कि 'सदेव' (हे प्रियदर्शन !

रत्नप्रभा

ईक्षणश्रवणात् वेदशब्दावाच्यम् अशब्दं प्रधानम् । अशब्दत्वात् न कारणमिति

रत्नप्रभाका अनुवाद

श्रुतिमें ईक्षण करनेवाला जगत्का कारण कहा गया है, इसलिए प्रधान अशब्द है अर्थात् श्रुतिसे प्रतिपादित नहीं है और अशब्द होनेसे कारण नहीं है, ऐसी

वास्तवमें पुरुष न बद्ध होता है, न युक्त होता है, किन्तु धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनेकव्यंरूप स्वभावसिद्ध भावोंसे युक्त प्रकृतिके ही बन्ध, मोक्ष आदि होते हैं । जैसे मूलगत जय, पराजयका स्वामीमें उपचार होता है, उसी प्रकार प्रकृतिके बन्ध, मोक्ष और संसारका पुरुषमें उपचार होता है । अतः जगत्का कारण प्रधान ही है । इमी साख्यमतके खण्डनके लिए संख्यपरिकरण प्रारम्भ होता है ।

(१) सत्त्व, रजस् और तमस् इन तीन गुणोंकी साम्यावस्था—समता प्रधान है । यह अचेतन है, जगत्का कारण है और उसे किसी अधिष्ठाताकी अपेक्षा नहीं है ऐसा साख्यमत है ।

(२) इष्टि करनेवाला, देखनेवाला, चिन्तन करनेवाला, धानी । (३) अरुणके पौत्र श्वेतकेतुको सवोधन करके पिता कहता है हे सोम्य, जिसका दर्शन प्रिय अर्थात् सुमंग है ।

भाष्य

मेवाद्वितीयम्' (छा० ६।६।१) इत्युपक्रम्य 'तदैक्षत बहु स्यां प्रजा-
येयेति तत्तेजोऽसृजत' (छा० ६।३।३) इति । तत्रेदंशब्दवाच्यं नाम-
रूपव्याकृतं जगत् प्रागुत्पत्तेः सदात्मनाऽवधार्य तस्यैव प्रकृतस्य सच्छब्द-
वाच्यस्येक्षणपूर्वकं तेजःप्रभृतेः स्रष्टृत्वं दर्शयति । तथाऽन्यत्र—'आत्मा
वा इदमेक एवाग्र आसीत् । नान्यत् किञ्चन मिपत् । स ईक्षत लोकास्तु
सृजा इति । स इमाल्लोकानसृजत' (ऐ० १।१।१) इतीक्षापूर्विकामेव

भाष्यका अनुवाद

सृष्टिके पूर्वमें यह जगत् एक अद्वितीय सद्रूप ही था) ऐसा उपक्रम करके
कहा है—'तदैक्षत०' (उसने—सत्स्वरूपने मैं बहुत होऊँ ऐसा विचार
किया उसने तेजको उत्पन्न किया ।) उक्त श्रुति 'इदम्' शब्दके
अर्थ—नाम और रूप द्वारा प्रकट हुए जगत्का सत्स्वरूपसे निश्चय करके
वही प्रकृत सत्शब्दवाच्य (ब्रह्म) ईक्षणपूर्वक तेज आदिका उत्पन्न करनेवाला
है ऐसा दिखलाती है । इसी प्रकार दूसरे स्थलपर 'आत्मा वा०' (निस्सन्देह
पूर्वमें यह एक ही आत्मा था । उससे भिन्न कोई दूसरी स्वतन्त्र वस्तु नहीं
थी । उसने विचार किया कि मैं लोकोंको उत्पन्न करूँ । उसने इन लोकोंकी

रत्नप्रभा

सूत्रयोजना । तत् सच्छब्दवाच्यं कारणम् ऐक्षत । ईक्षणमेव आह—यहविति ।
बहु—प्रपञ्चरूपेण । स्थित्यर्थम् अहमेव उपादानतया कार्याभेदात् जनिष्यामि
इत्याह—प्रजेति । एवं तत् सत् ईक्षित्वा आकाशं वायुं च सृष्ट्वा तेजः सृष्टवत्
इत्याह—तदिति । मिपत्—चलत्, सत्त्वाक्रान्तमिति यावत् । स जीवाभिन्नः
परमात्मा । "प्राणमसृजत प्राणाच्छ्रद्धां खं वायुज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियं मनोऽन्न-

रत्नप्रभाका अनुवाद

सूत्रकी योजना करनी चाहिए । "तदैक्षत" इसमें 'तद्' का अर्थ सच्छब्दवाच्ये कारण
है । ईक्षण ही दिखलाते हैं—'बहु' इत्यादिते । बहु—प्रपञ्चरूपसे । स्थिति करनेके लिए मैं
ही उपादानरूपसे कार्यसे अभिन्न होकर उत्पन्न होऊँ (ऐसा विचार किया) ऐसा कहते हैं—
"प्रजायेय" से । इस प्रकार उस सत्स्वरूपने ईक्षण कर, आकाश और वायुको उत्पन्न
करके तेजको उत्पन्न किया ऐसा कहते हैं—"तत्" इत्यादिते । "मिपत्" चलता हुआ,
अस्तित्वको प्राप्त हुआ । 'सः'—जीवसे अभिन्न परमात्मा । "प्राणमसृजत प्राणा०" (पहले

(१) आरम्भ । (२) प्रकरणभूत विषय । (३) तत् शब्दसे जिसका अर्थ कहा जा सके ।

(४) अनेक स्वरूपसे बहुत विस्तीर्णरूपसे । (५) समवायिकारण ।

भाष्य

सृष्टिमाचष्टे । क्वचिच्च षोडशकलं पुरुषं प्रस्तुत्याऽऽह—स ईक्षांचक्रे । स प्राणमसृजत' (प्र० ६।३) इति । ईक्षतेरिति च धात्वर्थनिर्देशोऽभिप्रेतः, यजतेरिति च, न धातुनिर्देशः । तेन 'यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं तपः

भाष्यका अनुवाद

सृष्टि की ।) इस प्रकार ईक्षणपूर्वक ही सृष्टि की । 'यजति' के समान 'ईक्षति' से धातुके अर्थका निर्देश अमीष्ट है, धातुका निर्देश अभिप्रेत नहीं है । इससे 'यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य०' (जो सर्वज्ञ और सर्ववेत्ता है, जिसका

रत्नप्रभा

मन्नाद्वीर्यं तपो मन्त्राः कर्म लोकाः लोकेषु नाम च" (प्र० ६।४) इत्युक्ताः षोडशकलाः । ननु "इक्षितपौ धातुनिर्देशे" इति कात्यायनस्मरणात् ईक्षतेः इति पदेन शितबन्तेन धातुरुच्यते, तेन धात्वर्थ ईक्षणं कथं व्याख्यायते इत्याशङ्क्य लक्षणया इत्याह—ईक्षतेरिति चेति । "इतिकर्तव्यताविधेः यजतेः पूर्ववत्त्वम्" (७।४।१) इति जैमिनिसूत्रे यथा यजतिपदेन लक्षणया धात्वर्थो याग उच्यते, तद्वत् इहापि इत्यर्थः । सौर्यादिविकृतियागस्य अङ्गानामविधानात् पूर्वदर्शादिप्रकृतिस्थाङ्गवत्त्वम् इति सूत्रार्थः । धात्वर्थनिर्देशेन लाभमाह—तेनेति । सामान्यतः सर्वज्ञो विशेषतः सर्वविद् इति भेदः । ज्ञानम् ईक्षणमेव तपः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

प्राण—हिरण्यगर्भ नामक अन्तरात्माको उत्पन्न किया, प्राणसे श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथिवी, इन्द्रियों [ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों], मन [इन्द्रियोंका ईश्वर, अन्तःस्थ, सद्बल विकल्पात्मक] और अन्न [ग्रीही यवादि लक्षण] अन्नसे वीर्य, तप [शुद्धिका साधन] मंत्र [ऋक्, यजुप्, साम, अथर्व और अङ्गिरस आदि], कर्म [अग्नि होत्रादि लक्षण], लोक [कर्मफल] और लोकमें उत्पन्न किये हुए प्राणियोंके नाम देवदत्त, यज्ञदत्त आदिको) इस प्रकार पुरुषकी सोलह कलाएँ कही गई हैं । यहाँपर शङ्का होती है कि 'इक्षितपौ०' (इक्ष और शितप् प्रत्यय धातुके निर्देशमें होते हैं) इस कात्यायनके वचनके अनुसार 'ईक्षतेः' शितयन्तपदसे ईक्ष धातु वाच्य होता है, फिर व्याख्यामें—भाष्यमें धातुका अर्थ ईक्षण—चिन्तन कैसे किया गया है, यह शङ्का करके लक्षणासे यह अर्थ होता है, यह कहते हैं—'ईक्षतेः' इत्यादिसे । 'इति०' इस जैमिनि सूत्रमें जैसे 'यजति' पद लक्षणासे धातुके अर्थ—यागका बोधक होता है, उसी प्रकार यहाँ भी 'ईक्षति' शब्द धातुके अर्थका बोधक है । सौर्य आदि विकृति यागोंके अङ्गोंका विधान नहीं किया है, इससे पूर्व दर्शा आदि प्रकृतिके अङ्गही उसके अङ्ग रामशने चाहिए ऐसा पूर्वमीमांसा सूत्रका अर्थ है । धातुका नहीं किन्तु धातुके अर्थका निर्देश है, ऐसा लक्षणा द्वारा अर्थ करनेसे हमारे वाक्य भी प्रधान पक्षका निरसन

भाष्य

तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते' (मु० १।१९) इत्येवमादीन्यपि सर्वज्ञेश्वरकारणपराणि वाक्यान्पुदाहर्तव्यानि । यदुक्तं सत्त्वधर्मेण ज्ञानेन सर्वज्ञं प्रधानं भविष्यतीति, तन्नोपपद्यते । नहि प्रधानावस्थायां गुणसाम्यात् सत्त्वधर्मो ज्ञानं संभवति । ननूक्तं सर्वज्ञानशक्तिमत्त्वेन सर्वज्ञं भविष्यतीति, तदपि नोपपद्यते । यदि गुणसाम्ये सति सत्त्वव्यपाश्रयां ज्ञानशक्तिमाश्रित्य सर्वज्ञं प्रधानमुच्येत, कामं रजस्तमोव्यपाश्रयामपि ज्ञानप्रतिबन्धकशक्तिमा-

भाष्यका अनुवाद

ज्ञानमय—विचाररूप तप है, उससे यह ब्रह्म, नाम, रूप और अन्न उत्पन्न होता है) ये और सर्वज्ञ ईश्वरको जगत्का कारण प्रतिपादन करनेवाले दूसरे वाक्य उदाहरण रूपसे देने चाहियें । सत्त्वगुणके धर्मरूप ज्ञानसे प्रधान सर्वज्ञ होगा, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि प्रधानावस्थामें गुणों की समता रहती है, अतः ज्ञान सत्त्वका धर्म नहीं हो सकता । और जो यह कहा है कि सर्वज्ञानकी शक्ति होनेके कारण (प्रधान) सर्वज्ञ होगा । यह कथन भी संगत नहीं है; क्योंकि यदि गुणोंकी समता होनेपर भी सत्त्वमें रहनेवाली ज्ञानशक्तिके आधारपर प्रधानको सर्वज्ञ कहे, तो रजोगुण और तमोगुणमें रहनेवाली ज्ञानप्रतिबन्धक शक्तिके आधारपर उसे अल्पज्ञ भी

रत्नप्रभा

तपस्त्रिनः फलमाह—तस्मादिति । एतत् कार्यं सूत्राल्यं ब्रह्म । केवलसत्त्ववृत्तेः ज्ञानत्वम् अङ्गीकृत्य प्रधानस्य सर्वज्ञत्वं निरस्तम्, सम्प्रति न केवलजडवृत्तिः ज्ञानशब्दार्थः, किन्तु साक्षिबोधविशिष्टा वृत्तिः वृत्तिव्यक्तबोधो वा ज्ञानम्, तच्च अन्धस्य प्रधानस्य नास्ति इत्याह—अपि चेति । साक्षित्वमस्ति, येन उक्तज्ञानवत्त्वं

रत्नप्रभाका अनुवाद

करनेके लिए हैं, ऐसा लाभ कहते हैं—“तेन” इत्यादिसे । सामान्यज्ञानवाला सर्वज्ञ है और विशेष ज्ञानवाला सर्ववित् है, यह सर्वज्ञ और सर्ववित्के अर्थमें भेद है । ‘ज्ञानमयं तप’—ज्ञान जो ईक्षण है, वही तप है, आयासरूप तप नहीं है । तपस्त्रिका फल कहते हैं—“तस्मात्” इत्यादिसे । ‘यह’ अर्थात् कार्यरूप हिरण्यगर्भसंज्ञक ब्रह्म । केवल सत्त्ववृत्ति ज्ञान है ऐसा मानकर प्रधान सर्वज्ञ है इस बातका निराकरण किया है । अथ केवल जडवृत्ति ज्ञान शब्दका अर्थ नहीं है, किन्तु साक्षिबोधविशिष्ट वृत्ति अथवा वृत्तिसे व्यक्त बोध ज्ञान है, यह ज्ञान अन्ध प्रधानमें नहीं है ऐसा कहते हैं—“अपि च” इत्यादिसे । ‘साक्षित्वं है नहीं’ के बाद ‘जिससे पूर्वोक्त ज्ञानपरव्य हो सके’ इतना शेष समझना चाहिए । परन्तु सत्त्ववृत्तिमात्रसे योगी सर्वज्ञ है ऐसा कहा गया है इस शकापर

भाष्य

श्रित्य किञ्चिज्जमुच्येत । अपि च नाऽसाक्षिका सत्त्ववृत्तिर्जानातिनाऽभिधीयते । न चाऽचेतनस्य प्रधानस्य साक्षित्वमस्ति । तस्मादनुपपन्नं प्रधानस्य सर्वज्ञत्वम् । योगिनां तु चेतनत्वात् सत्त्वोत्कर्षनिमित्तं सर्वज्ञत्वमुपपन्नमित्यनुदाहरणम् । अथ पुनः साक्षिनिमित्तमीक्षितृत्वं प्रधानस्य कल्प्येत, यथाऽग्निनिमित्तमयःपिण्डादेर्दग्धृत्वम् । तथा सति यन्निमित्तमीक्षितृत्वं प्रधानस्य तदेव सर्वज्ञं मुख्यं ब्रह्म जगतः कारणमिति युक्तम् । यत् पुनरुक्तम्—ब्रह्मणोऽपि न मुख्यं सर्वज्ञत्वमुपपद्यते, नित्यज्ञानक्रियत्वे ज्ञानक्रियां प्रति स्वातन्त्र्यामम्भनादिति । अत्रोच्यते—इदं तावद् भवान्

भाष्यका अनुवाद

कहना होगा । किञ्च, साक्षीरहित सत्त्ववृत्तिना अभिधान 'ज्ञा' धातुसे नहीं हो सकता और अचेतन प्रधान साक्षी नहीं हो सकता है । उक्त हेतुसे सिद्ध है कि प्रधानमे सर्वज्ञता नहीं है । योगी तो चेतन हैं, इससे उनमे सत्त्वके उत्कर्षसे सर्वज्ञता हो सकती है, इससे यह दृष्टान्त ठीक नहीं है । जैसे लोहेके गोले आदिमे अग्निसे दहनशक्ति प्राप्त होती है, उसी प्रकार प्रधानमे ईक्षणशक्ति साक्षीसे प्राप्त होती है, ऐसी यदि कल्पना की जाय, तो ऐसा होनेपर प्रधानको ईक्षणशक्ति जिससे प्राप्त होती है, वही मुख्य ब्रह्म जगत्का कारण है, यह युक्त है । यह जो पीछे कहा गया है कि ब्रह्ममे मुख्य सर्वज्ञता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मकी ज्ञानक्रिया नित्य होनेके कारण ज्ञानक्रियाके प्रति उस (ब्रह्म) की स्वतंत्रता समभव नहीं है । उसके उत्तरमें यहाँ कहा जाता है—पहले तो आप यह बतलाइये

रत्नप्रभा

स्यादिति शेष । ननु सत्त्ववृत्तिमात्रेण योगिना सर्वज्ञत्वमुक्तम् इत्यत आह—योगिनां त्विति । सेश्वरसाङ्ख्यमतमाह—अथेति । सर्वज्ञत्व नाम सर्वगोचरज्ञानवत्त्वम्, न ज्ञानकर्तृत्वम्, ज्ञानस्य कृत्यसाध्यत्वात् इति हृदि कृत्वा पृच्छति—इदं तावदिति । सर्वं जानातीति शब्दासाधुत्वं शक्यते—ज्ञान-

रत्नप्रभाका अनुवाद

कहते हैं—“योगिना” इत्यादि । सेश्वर साङ्ख्य—पातपल मत कहते हैं—“अथ” इत्यादिसे । सर्वज्ञत्वका अर्थ सर्वविषयक ज्ञान है, ज्ञानकर्तृत्व नहीं है, क्योंकि ज्ञान कृतिसाध्य नहीं है, ऐसा हृदयमे रत्नकर पूछते हैं—“इदं तावत्” इत्यादिसे । यहाँपर “ज्ञाननित्यत्वे” इत्यादिसे शङ्का करत है कि जानाति” स ज्ञानकर्तृत्वकी प्रतीति होता है, ज्ञानके नित्य होनेके

भाष्य

प्रष्टव्यः, कथं नित्यज्ञानक्रियत्वे सर्वज्ञत्वहानिरिति । यस्य हि सर्वविषया-
वभासनक्षमं ज्ञानं नित्यमस्ति, सोऽसर्वज्ञ इति विप्रतिपिद्धम् । अनित्यत्वे
हि ज्ञानस्य, कदाचिद् जानाति कदाचिद् न जानातीत्यसर्वज्ञत्वमपि
स्यात् । नाऽसौ ज्ञाननित्यत्वे दोषोऽस्ति । ज्ञाननित्यत्वे ज्ञानविषयः
स्वातन्त्र्यव्यपदेशो नोपपद्यत इति चेत्, न; प्रतौष्ण्यप्रकाशेऽपि सवितरि
दहति प्रकाशयतीति स्वातन्त्र्यव्यपदेशदर्शनात् । ननु सवितुर्दाहप्रकाश्य-
संयोगे सति दहति प्रकाशयतीति व्यपदेशः स्यात्, न तु ब्रह्मणः
प्रागुत्पत्तेर्ज्ञानकर्मसंयोगोऽस्तीति विषमो दृष्टान्तः । न; असत्यपि कर्मणि

भाष्यका अनुवाद

कि ज्ञानक्रियाके नित्यहोनेके कारण सर्वज्ञताकी हानि किस प्रकार होती है ?
सब पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाला जिसका ज्ञान नित्य है, वह असर्वज्ञ हो
यह कथन विरुद्ध है । यदि ज्ञानको अनित्य मानें तो कमी जानता है
और कमी नहीं जानता है, इस प्रकार असर्वज्ञता भी हो सकती है ।
परन्तु ज्ञानके नित्यत्वपक्षमें यह दोष नहीं है । यदि कहो कि ज्ञानके
नित्यत्वपक्षमें ज्ञानके विषयमें जो स्वतंत्रता कही गई है, वह ठीक नहीं है ।
यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सूर्यकी उष्णता और प्रकाश स्थायी हैं,
तो भी 'जलता है' 'प्रकाशित होता है' इस प्रकार स्वतंत्रताका व्यपदेश देना
जाता है । यदि कहो कि दाह और प्रकाश्य पदार्थोंके साथ सूर्यका संयोग
होनेपर 'जलता है' 'प्रकाशित करता है' ऐसा व्यपदेश किया जाता है, परन्तु

रत्नप्रभा

नित्यत्व इति । नित्यस्यापि ज्ञानस्य तत्तदर्थोपहितत्वेन ब्रह्मस्वरूपाद् भेदं कल्प-
यित्वा कार्यत्वोपचाराद् ब्रह्मणः तत्कर्तृत्वव्यपदेशः साधुः इति सदृष्टान्तमाह—
न प्रततेति । सन्ततेत्यर्थः । असति अपि—अविवक्षितेऽपि । ननु प्रकाशतेः

रत्नप्रभाका अनुवाद

कारण—कार्य न होनेसे उसका कोई कर्ता नहीं हो सकता, ऐसी अवस्थामें 'सर्व जानाति—
सर्वज्ञः' इन शब्दोंकी सिद्धि कैसे होगी ? ज्ञान—शुद्ध चैतन्य यद्यपि नित्य है, तो भी तत् तत्
विषयरूप वषाधियोंसे युक्त होनेके कारण ब्रह्मस्वरूपसे उसमें भेदकी कल्पना कर अनित्यताका गौण
व्यवहार होता है और उसका कर्ता ब्रह्म है ऐसा व्यपदेश होता है, अतः 'सर्व जानाति' इत्यादि
शब्दोंकी शुद्धिमें कोई हानि नहीं है, इस यातनो दृष्टान्तपूर्वक कहने दी—“न प्रतत” इत्यर्पदमे ।

भाष्य

सविता प्रकाशत इति कर्तृत्वव्यपदेशदर्शनात्, एवमसत्यपि ज्ञानकर्मणि ब्रह्मणः 'तदैक्षत' इति कर्तृत्वव्यपदेशोपपत्तेर्न वैषम्यम् । कर्मापेक्षायां तु ब्रह्मणीक्षितृत्वश्रुतयः सुतरामुपपन्नाः । किं पुनस्तत्कर्म, यत् प्रागुत्पत्तेरी-

भाष्यका अनुवाद

उत्पत्तिके पूर्वमें तो ब्रह्मके ज्ञानका कर्मके साथ संयोग ही नहीं है, इससे यह दृष्टान्त विषम है । इस शङ्कापर कहते हैं—नहीं, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मके न होनेपर भी 'सूर्य प्रकाशित होता है' इस प्रकार सूर्यमें कर्तृत्वका व्यपदेश देखा जाता है, इसी प्रकार ज्ञानक्रियाके कर्मके न होनेपर भी 'तदैक्षत' (उसने ईक्षण किया) इस प्रकार ब्रह्मका कर्तारूपसे व्यपदेश ठीक ही है, अतः (दृष्टान्तमें) विषमता नहीं है । कर्मकी अपेक्षामें तो ब्रह्ममें ईक्षणका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियां सर्वथा युक्त हैं । वह कर्म क्या है

रत्नप्रभा

अकर्मकत्वात् सविता प्रकाशते इति प्रयोगेऽपि जानातेः सकर्मकत्वात् कर्माभावे तदैक्षत इति अयुक्तमिति तत्राह—कर्मापेक्षायां त्विति । कर्माविवक्षायामपि प्रकाशरूपे सवितारि प्रकाशते इति कथञ्चित् प्रकाशक्रियाश्रयत्वेन कर्तृत्वोपचारवत् चिदात्मानि अपि चिद्रूपेक्षणकर्तृत्वोपचारात् न वैषम्यम् इत्युक्तं पूर्वम् । अधुना तु कुम्भकारस्य स्वोपाध्यन्तःकरणवृत्तिरूपेक्षणवत् ईश्वरस्याऽपि स्वोपाध्यविद्यायाः विविधसृष्टिसंस्कारायाः प्रलयावसानेन उद्बुद्धसंस्कारायाः सर्गोन्मुखः कश्चित् परिणामः सम्भवति, अतः तस्यां सूक्ष्मरूपेण निरीनसर्वकार्यविषयकम् ईक्षणं तस्य कार्यत्वात् कर्मसद्भावात् च तत्कर्तृत्वं मुख्यमिति द्योतयति—सुतरामिति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

प्रतत-सन्तत अर्थात् निरन्तर । 'कर्मके न होनेपर'—कर्मके अविवाक्षित होनेपर । 'प्रकाश'के अकर्मक होनेसे 'सविता प्रकाशते' (सूर्य प्रकाशित होता है) ऐसा प्रयोग हो सकता है, परन्तु 'जानाति'के सकर्मक होनेसे कर्मके अभावमें 'तदैक्षत' (उसने चिन्तन किया) यह अयुक्त है । इसपर कहते हैं—'कर्मापेक्षायां तु' इत्यादिसे । कर्मकी अविषक्षामें भी प्रकाशरूप सूर्य प्रकाशित होता है, इस प्रकार प्रकाश क्रियाका यथाकथञ्चित् आश्रय होनेसे सूर्यमें कर्तृत्वका उपचार होता है । इसी प्रकार आत्मामें भी चैतन्यरूप ईक्षणके कर्तृत्वका उपचार करनेसे दृष्टान्त और दार्ष्टान्तमें विषमता नष्ट है, यह पीछे कह आये हैं । अब जैसे अनेक प्रकारकी वस्तु बनानेकी इच्छा करनेवाले कुम्हारवा ईक्षण उसके उपाधिभूत अन्तःकरणकी श्रुति ही है, इसी प्रकार अनेक प्रकारकी सृष्टिके संस्कारोंसे सम्पन्न तथा प्रलयके अवसानमें जिसके संस्कार जाग्रत होते

भाष्य

श्वरज्ञानस्य विषयो भवतीति ? तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिर्वचनीये नामरूपे
अव्याकृते व्याचिकीर्षिते इति ब्रूमः । यत्प्रसादाद्धि योगिनामप्यतीता-
नागतविषयं प्रत्यक्षं ज्ञानमिच्छन्ति योगशास्त्रविदः, किमु वक्तव्यं तस्य
नित्यसिद्धश्वरस्य सृष्टिस्थितिसंहतिविषयं नित्यज्ञानं भवतीति ।

भाष्यका अनुवाद

जो कि उत्पत्तिके पूर्वमे ईश्वरके ज्ञानका विषय होता है ? जिनका सत् रूपसे
और असत् रूपसे निर्वचन नहीं हो सकता और जो अव्याकृत हैं एवं
व्याकृत करनेके लिए अभीष्ट हैं वे नाम और रूप कर्म हैं । वस्तुतः जिसके
प्रसादसे योगियोंको भी भूत और भविष्यका प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है ऐसा
योगशास्त्रके जाननेवाले कहते हैं, उस नित्य सिद्ध ईश्वरका सृष्टि, स्थिति और
संहार विषयक ज्ञान नित्य है, इस विषयमे कहना ही क्या है ? और यह जो

रत्नप्रभा

ननु मायोपाधिकविम्बचिन्मात्रस्य ईश्वरस्य कथम् ईक्षणं प्रति मुख्यं कर्तृत्वम्,
कृत्यभावात् इति चेत्, न; कार्यानुकूलज्ञानवत् एव कर्तृत्वाद् ईश्वरस्यापि
ईक्षणानुकूलनित्यज्ञानवत्त्वात् । न च नित्यज्ञानेनैव कर्तृत्वनिर्वाहात् किम्
ईक्षणेनेति वाच्यम् । वाय्वादेरेव शब्दवत्त्वसम्भवात् किमाकाशेन इति अति-
प्रसङ्गात् अतः । श्रुतत्वाद् वाय्वादिकारणत्वेन आकाशवत् ऐक्षत इत्यागन्तुकत्वेन
श्रुतम् ईक्षणम् ईकाशादिहेतुत्वेन अङ्गीकार्यम् इत्यलम्—अव्याकृते । सूक्ष्मात्मना

रत्नप्रभाका अनुवाद

हैं, ईश्वरकी उपाधिरूप उस अविद्याका सृष्टि करनेके लिए कोई एक परिणाम होता है, उसमें
सूक्ष्मरूपसे वर्तमान सकल कार्योंका ईश्वरकर्तृक ईक्षण कार्यरूप है और उसका कर्म भी है अत
ब्रह्ममें ईक्षणकर्तृत्व मुख्य ही है इस बातको "सुतराम्" पदसे योतित करते हैं । यहाँपर शङ्का
होती है कि जिसकी उपाधि माया है, वह विम्बभूत चिन्मात्र ईश्वर ईक्षणका मुख्य कर्ता किस
प्रकार हो सकता है, क्योंकि उसमें कृति नहा है । यह शङ्का ठीक नहा है, क्योंकि कार्यानुकूल
ज्ञानवाला ही कर्ता होता है और ईश्वर भी ईक्षणके अनुकूल नित्यज्ञानवाला है, इससे कर्ता है ।
यदि नित्यज्ञानसे ही कर्तृत्वका निर्वाह होता है, तो ईक्षण क्यों मानना चाहिए ऐसी शङ्का ठीक
नहीं है, क्योंकि शब्दका आश्रय वायु ही हो सकता है तो आकाश क्यों माना जाय इत्यादि
आपत्तिया उपास्थित होंगी । इससे जैसे धृत्युक्त होनेके कारण वायुके प्रति आकाश कारण माना

(१) प्रकट न हुआ ।

(२) भूत-बीता हुआ, भविष्य-होनेवाला, इन दोनोंका मर्मन्धी ।

भाष्य

यदप्युक्तम्—प्रागुत्पत्तेर्ब्रह्मणः शरीरादिसंबन्धमन्तरेणोक्षित्वमनुपपन्न-
मिति, न तच्चोद्यमवतरति, सचित्प्रकाशवद् ब्रह्मणो ज्ञानस्वरूपनित्यत्वे
ज्ञानसाधनापेक्षानुपपत्तेः । अपि चाऽविद्यादिमतः संसारिणः शरीरा-
द्यपेक्षा ज्ञानोत्पत्तिः स्यात्; न ज्ञानप्रतिबन्धकारणरहितस्येश्वरस्य ।
मन्त्रौ चेमावीश्वरस्य शरीराद्यनपेक्षतामनावरणज्ञानतां च दर्शयतः—

भाष्यका अनुवाद

पीछे कहा गया है कि उत्पत्तिके पूर्वमें शरीर आदिके साथ सम्बन्ध न होनेसे
ब्रह्ममें ईक्षणशक्ति संगत नहीं होती, यह आक्षेप युक्त नहीं है, क्योंकि ब्रह्मका
ज्ञान सूर्यके प्रकाशके समान नित्य है, इससे उसको ज्ञानके साधनोंकी अपेक्षा ही
नहीं है । और अविद्या आदिसे युक्त संसारी जीवको ज्ञानोत्पत्तिमें भले ही
शरीर आदि अपेक्षित हों, परन्तु ज्ञानके रोकनेवाले कारणोंसे रहित ईश्वरको
ज्ञानोत्पत्तिमें शरीर आदिकी अपेक्षा नहीं है । और ये दो मंत्र ईश्वरको शरीर
आदिकी अपेक्षा नहीं है एवं उसका ज्ञान आवरण रहित है ऐसा दिखलाते

रत्नप्रभा

स्थिते, व्याकर्तुं स्थूलीकर्तुम् इष्टे इत्यर्थः । अव्याकृतकार्योपरक्तचैतन्यरूपेक्षणस्य
कारकानपेक्षत्वेऽपि घृतिरूपेक्षणस्य कारकं वाच्यम् इति आशङ्क्याह—अपि
चाऽविद्यादिमत इति । यथा एकस्य ज्ञानं तथा अन्यस्याऽपि इति नियमाभावाद्
मायिनोऽशरीरस्याऽपि जन्येक्षणकारकत्वम् इति भावः । ननु यद् जन्यज्ञानं तत्
शरीरसाध्यम् इति व्याप्तिः अस्ति इत्याशङ्क्य श्रुतिबाधमाह—मन्त्रौ चेति ।
कार्यम्—शरीरम् । कारणम्—इन्द्रियम् । अस्य—ईश्वरस्य । शक्तिः माया स्वकार्या-

रत्नप्रभाका अनुवाद

गया है, वैसे ही 'ऐक्षत' इस धृतिमें वर्णित ईक्षणको आकाश आदिके प्रति कारण मानना चाहिए ।
अव्याकृत—सूक्ष्मरूपसे स्थित । व्याचिकीर्षित—स्थूल रूपसे प्रकट करनेके लिए अभीप्सित ।
अविद्यासे उपाहित चैतन्यरूप ईक्षणको कारककी अपेक्षा न होनेपर भी घृतिरूप ईक्षणको
कारककी अवश्य आवश्यकता है, अर्थात् यद्यपि नित्य स्वरूपभूत ज्ञानको शरीर आदिकी अपेक्षा
नहीं है, तो भी श्रुतिज्ञानको उसकी अपेक्षा होनी चाहिए ऐसी शङ्का बरके कहते हैं—“अपि
चाऽविद्यादिमतः” इत्यादिसे । जैसा एकका ज्ञान है, वैसा ही दूसरेका ज्ञान हो ऐसा नियम नहीं है,
इससे मायायुक्त, शरीररहित ईश्वर भी जन्य ईक्षणका कर्ता है, ऐसा समझना चाहिए । जो
जन्यज्ञान है, वह शरीरसाध्य है, ऐसी व्याप्ति है, यह आशङ्का करके इसमें धृतिका बाध
दिखलाते हैं—“मन्त्रौ च” इत्यादिसे । कार्यम्—शरीर । कारणम्—इन्द्रियां । अस्य—इत ईश्वरकी ।

भाष्य

‘न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते ।

परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥’

(श्रे० ६।८) इति ।

‘अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः ।

स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम् ॥’

(श्रे० ३।१९) इति च ।

भाष्यका अनुवाद

हैं—‘न तस्य कार्यं करणं च विद्यते०’ (उसके कार्य—शरीर और करण—नेत्र आदि इन्द्रिया नहीं हैं, उसके समान—सदृश और उससे अधिक—उत्कृष्ट कोई देखनेमें नहीं आता, उसकी शक्ति—मूलकारण माया, परा और अनेक प्रकारकी ही सुनी जाती है, और ज्ञानरूप बलसे जो सृष्टि क्रिया होती है, वह स्वभाव-सिद्ध है) तथा ‘अपाणिपादो जवनो ग्रहीता०’ (उसके हाथ नहीं हैं, तो भी सब पदार्थोंको ग्रहण करता है और पैर नहीं हैं, तो भी वेगशाली है, वह नेत्ररहित है, तो भी देखता है और कर्णरहित है, तो भी सुनता है, वह वेदनीय वस्तुको जानता है और उसको कोई नहीं जानता [सर्वकारण होनेसे] उसको प्रथम, पुरुष—पूर्ण और महान्

रत्नप्रभा

पेक्षया परा, विचित्रकार्यकारित्वाद् विविधा सा तु ऐतिह्यमात्रसिद्धा न प्रमाणसिद्धा इत्याह—श्रूयते इति । ज्ञानरूपेण बलेन या सृष्टिक्रिया, सा स्वाभाविकी । अनादिमायात्मकत्वाद् इत्यर्थः । ज्ञानस्य चेतन्यस्य बल मायावृत्तिप्रतिबिम्बितत्वेन स्फुटत्वम् । तस्य क्रिया नाम बिम्बित्वेन ब्रह्मणो जनकता ज्ञातृताऽपि स्वभाविकी इति वाऽर्थः । अपाणिरपि ग्रहीता । अपादोऽपि जवनः । ईश्वरस्य स्वकार्ये लौकिक-

रत्नप्रभाका अनुवाद

शक्ति—मूलकारण, माया । अपने कार्यकी अपेक्षा ‘परा’—उत्कृष्ट और विचित्र कार्य करती है, इसलिए ‘विविधा’ विविध—अनेक प्रकारकी बड़ी गई । माया केवल इतिहाससे ही सिद्ध है, प्रमाणसिद्ध नहीं है, इस शब्दको निश्चित करनेके लिए ‘श्रूयते’ (सुननेमें आती है) ऐसा कहा है । ज्ञानरूप बलसे जो सृष्टि होती है, वह स्वाभाविक है, क्योंकि यह अनादि—मायात्मक है । अथवा ज्ञानका—चेतन्यका बल—मायावृत्तिमें प्रतिबिम्बितरूपमें भागना, उसकी क्रिया—प्रकृति बिम्ब होनेके कारण उसकी जनकता और ज्ञातृता भी स्वभावसिद्ध है ऐसा अर्थ है । हाथोंसे रहित है, तो भी ग्रहण करता है, पैररहित है तो भी वेगवान् है । तात्पर्य यह है

(१) जिसका ब्रह्म अनिर्दिष्ट अथवा अज्ञात हो, ऐसा परंपरागत वाक्य । इसका पौराणिक प्रमाण मानते हैं ।

भाष्य

ननु नास्ति तावज्ज्ञानप्रतिबन्धकारणवानीश्वरादन्यः संसारी, 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता' (बृ० ३।७।२३) इति श्रुतेः । तत्र किमिदमुच्यते—संसारिणः शरीराद्यपेक्षा ज्ञानोत्पत्तिः, नेश्वरस्येति ? अत्रोच्यते—सत्यम्, नेश्वरादन्यः संसारी । तथापि देहादिसंघातोपाधिसंबन्ध इष्यत एव, घटकरकगिरिगुहाद्युपाधिसंबन्ध इव व्योम्नः, तत्कृतश्च शब्दप्रत्ययव्यवहारो लोकस्य दृष्टः—'घटच्छिद्रम्, करकादिच्छिद्रम् इत्यादिः, आकाशाव्यतिरेकेऽपि; तत्कृता चाऽऽकाशे घटाकाशादिभेदमिध्या-

भाष्यका अनुवाद

कहते हैं) । परन्तु तुम्हारे मतमें तो ईश्वरसे भिन्न ज्ञानप्रतिबन्धकारणवाला कोई संसारी है ही नहीं, क्योंकि 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा०' (उसको छोड़कर दूसरा द्रष्टा नहीं है और उससे अतिरिक्त दूसरा विज्ञाता नहीं है) ऐसा श्रुति कहती है, तो यह कैसे कहते हो कि संसारीको ज्ञानोत्पत्तिमें शरीर आदिकी अपेक्षा है, ईश्वरको ज्ञानोत्पत्तिमें नहीं है । इसका उत्तर कहा जाता है—ईश्वरसे अन्य संसारी नहीं है यह सत्य है, तो भी जैसे घट, कमण्डलु, गुफा आदि उपाधियोंके साथ आकाशका संबन्ध है, उसी प्रकार देहादि संघातरूप उपाधियोंके साथ (ईश्वर) का संबन्ध इष्ट ही है । जैसे आकाशसे अभिन्न होनेपर भी उपाधिके संबन्धसे घटाकाश, करकाकाश आदि शब्दव्यवहार और ज्ञानव्यवहार लोकमें देखे जाते हैं और उपाधिसंबन्धकृत घटाकाश आदि भेदरूप मिथ्याबुद्धि

रत्नप्रभा

हेत्वपेक्षा नास्ति इति भावः । अद्रयम्—अनादिम्, पुरुषम्—अनन्तम्, महान्तम्—विशुम् इत्यर्थः । अपसिद्धान्तं शङ्कते—नन्विति । ज्ञाने प्रतिबन्धकारणानि अविद्या-रागादीनि । श्रुतौ अत ईश्वरात् अन्यो नास्ति इत्यन्वयः । औपाधिकस्य जीवेश्वरभेदस्य मया उक्तत्वात् न अपसिद्धान्त इत्याह—अत्रोच्यत इति । तत्कृत

रत्नप्रभाका अनुवाद

कि ईश्वरको अपने कार्यमें लौकिक हेतुओंकी अपेक्षा नहीं है । अग्न्य-अनादि, पुरुष-अनन्त, महान्-विशु । अपसिद्धान्तकी शङ्का करते हैं—“ननु” इत्यादिसे । ज्ञानमें प्रतिबन्धके कारण अविद्या, राग आदि हैं । श्रुतिमें अतः—ईश्वरसे अन्य कोई नहीं है ऐसा अन्वय है । हम पीछे कह चुके हैं कि जीव और ईश्वरका उपाधिकृत भेद है, इसलिए अपसिद्धान्त नहीं है, ऐसा कहते हैं—“अत्रोच्यते” इत्यादिसे । तत्कृत—उपाधि संबन्धसे जन्य शब्द

भाष्य

बुद्धिः दृष्टा । तथेहापि देहादिसंघातोपाधिसम्बन्धाविवेककृतेश्वरसंसारिभेद-
मिथ्याबुद्धिः । दृश्यते चाऽऽत्मन एव सतो देहादिसंघातेऽनात्मन्यात्मत्वा-
भिनिवेशो मिथ्याबुद्धिमात्रेण पूर्वपूर्वेण । सति चैवं संसारित्वे देहाद्यपेक्ष-

भाष्यका अनुवाद

आकाशमें देखनेमें आती है, उसी प्रकार यहां भी देहादि संघातरूप उपाधिके
साथ संबन्ध होनेके कारण अज्ञानसे उत्पन्न हुई ईश्वर और संसारीकी भेद-
रूप मिथ्याबुद्धि है । वस्तुतः अतिरिक्त ही आत्माका देहादि संघातरूप अनात्म-
पदार्थोंमें आत्मत्वका अभिनिवेश पूर्वपूर्व मिथ्याबुद्धिसे ही देखनेमें आता है, और

रत्नप्रभा

उपाधिसम्बन्धकृतः शब्दतज्जन्यप्रत्ययरूपो व्यवहारः । असङ्कीर्ण इति शेषः ।
अव्यतिरेके कथम् असङ्करः तत्राह—तत्कृता चेति । उपाधिसम्बन्धकृता
इत्यर्थः । तथेति । देहादिसम्बन्धस्य हेतुः अविवेकः—अनाद्यविद्या तया कृत
इत्यर्थः । अविद्यायां हि प्रतिबिम्बो जीवः, बिम्बचैतन्यम् ईश्वरः इति भेदोऽविद्या-
धीनसत्ताकः, अनादिभेदस्य कार्यत्वायोगात् । कार्यबुद्ध्यदिकृतप्रमात्रादिभेदश्च
कार्य एवेति विवेकः । ननु अखण्डस्वप्रकाशात्मनि कथम् अविवेकः, तत्राह—
दृश्यते चेति । वस्तुतो देहादिभिन्नस्वप्रकाशस्यैव सत आत्मनो 'नरोऽहम्' इति
भ्रमो दृष्टत्वाद् दुरपहवः । स च मिथ्याबुद्ध्यया मीयते इति मिथ्याबुद्धिमात्रेण

रत्नप्रभाका अनुवाद

और शब्दबोधरूप व्यवहार । भाष्यमें 'व्यवहारः' के बाद 'असङ्कीर्णः' इतना अध्याहार
है । यदि आकाश तत्त्वतः भिन्न नहीं है, तो व्यवहारोंका साङ्कर्य क्यों नहीं है इस
शङ्कापर कहते हैं—“तत्कृता च” इत्यादिसे । तत्कृता—उपाधि संबन्धसे की हुई ।
“तथा” इत्यादि । अर्थात् आत्माका देह आदिके साथ संबन्धका कारण अविवेक—
अनादि अविद्या, उससे कल्पित—है । अविद्यामें जो प्रतिबिम्ब पड़ता है वह जीव है, जिसका
प्रतिबिम्ब है, वह बिम्बचैतन्य ईश्वर है, इस भेदकी सत्ता अविद्याकी सत्ताके अधीन है,
क्योंकि अनादि भेद कार्य नहीं हो सकता है, परन्तु कार्यरूप बुद्धि आदिसे होनेवाले प्रमाता,
प्रमाण, प्रमेय आदि भेद कार्य ही है ऐसा समझना चाहिए । परन्तु अखण्ड स्वप्रकाश
आत्मामें भ्रान्ति किस प्रकार हो सकती है ? इस आशङ्कापर कहते हैं—“दृश्यते च” इत्यादि ।
वस्तुतः देह आदिसे भिन्न स्वप्रकाश सदरूप आत्मामें 'नरोऽहम्' (मैं नर हूँ) ऐसा भ्रम
दिखाई देता है, इसलिए उसका निषेध नहीं हो सकता । मिथ्याबुद्धिसे उस अध्वस्त शरीरादि
का भान होता है, इनसे केवल मिथ्याबुद्धिसे—भ्रमसिद्ध अज्ञानसे कल्पित—है ऐसा 'च' कारका

भाष्य

मीक्षित्वत्त्वमुपपन्नं संसारिणः । यदप्युक्तम्—प्रधानस्याऽनेकात्मकत्वात्
मृदादिवत् कारणत्वोपपत्तिर्नाऽसंहतस्य ब्रह्मण इति, तत्प्रधानस्याऽशब्दत्वेनैव
प्रत्युक्तम् । यथा तु तर्केणाऽपि ब्रह्मण एव कारणत्वं निर्बोद्धुं शक्यते, न
प्रधानादीनाम्, तथा प्रपञ्चयिष्यति—‘न विलक्षणत्वादस्य’ (ब्र०सू० २।१।४)
इत्येवमादिना ॥ ५ ॥

भाष्यका अनुवाद

इस प्रकार संसारित्वके औपाधिक होनेसे संसारीकी ईक्षणशक्तिको देहादिकी
अपेक्षा होना उचित ही है । मृत्तिका आदिकी तरह अनेकस्वरूप होनेसे प्रधान
जगत्का कारण हो सकता है, एकाकी ब्रह्म जगत्कारण नहीं हो सकता, यह जो पीछे
कहा गया है उसका ‘प्रधान श्रुतिप्रतिपादित नहीं है’ इस कथनसे ही निराकरण
हो गया । जगत्कारण ब्रह्म ही है, प्रधान आदि नहीं है यह बात जिस प्रकार
युक्तिसे सिद्ध होती है, वह रीति ‘न विलक्षणत्वादस्य’ इत्यादि सूत्रोंसे विस्तार-
पूर्वक कही जायगी ॥ ५ ॥

रत्नप्रभा

भ्रान्तिसिद्धाज्ञानेन कल्पित इति चकारार्थः । यद्वा, उक्तमिध्याबुद्धौ लोकानु-
भवमाह—दृश्यते चेति । इत्थंभावे तृतीया । भ्रान्त्यात्मना दृश्यते इत्यर्थः ।
पूर्वपूर्वभ्रान्तिमात्रेण दृश्यते, न च प्रमेयतया इति वाऽर्थः । कूटस्थस्याऽपि मायिकं
कारणत्वं युक्तम् इति आह—यथा त्विति । यत्तु अवेद्ये शब्दशक्तिग्रहायोग
इति, तत् न; सत्यादिपदानाम् अवाधिताद्यर्थेषु लोकावगतशक्तिकानां वाच्यैक-
देशत्वेन उपस्थिताखण्डब्रह्मलक्षकत्वात् इति स्थितम् ॥ ५ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

अर्थ है । अथवा उक्त मिध्याबुद्धिम लोकानुभव कहते हैं—“दृश्यते च” इत्यादिसे । ‘मिध्या-
बुद्धिमात्रेण’ इसमें तृतीया इत्यम्भावमें है । भ्रान्तिरूपसे दीखता है ऐसा अर्थ है । अथवा
केवल पूर्व-पूर्व भ्रान्तिसे दीखता है, वस्तुतः है नहीं ऐसा अर्थ है । कूटस्थ आत्माका भी
मायिके कारणत्व युक्त ही है, ऐसा कहते हैं—“यथा तु” इत्यादिसे । ब्रह्म अज्ञेय है इससे
उसमें शब्दशक्तिका ग्रहण नहीं हो सकता है, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि व्यवहारमें
‘सत्य’ आदि पदोंकी ‘अवाधित’ आदि अर्थोंमें शक्ति गृहीत है अतः वे अपने वाच्यके एक-
देश अखण्ड ब्रह्मके लक्षक हो सकते हैं, यह निर्विवाद है ॥ ५ ॥

भाष्य

अत्राह—यदुक्तं नाऽचेतनं प्रधानं जगत्कारणमीक्षित्वश्रवणादिति । तदन्यथाप्युपपद्यते, अचेतनेऽपि चेतनवदुपचारदर्शनात् । यथा प्रत्यासन्नपतनतां नद्याः कूलस्याऽऽलक्ष्य कूलं पिपतिपतीत्यचेतनेऽपि कूले चेतनवदुपचारो दृष्टः, तद्वदचेतनेऽपि प्रधाने प्रत्यासन्नसर्गे चेतनवदुपचारो भविष्यति 'तदैक्षत' इति । यथा लोके कश्चिचेतनः स्नात्वा भुक्त्वा चाऽपराह्णे ग्रामं रथेन गमिष्यामीति ईक्षित्वाऽनन्तरं तथैव नियमेन प्रवर्तते, तथा प्रधानमपि महदाद्याकारेण नियमेन प्रवर्तते । तस्मात् चेतनवदुपचर्यते । कस्मात् पुनः कारणाद् विहाय मुख्यमीक्षित्वमौपचारिकं

भाष्यका अनुवाद

यहाँ पर पूर्वपक्षी कहता है कि अचेतन प्रधान जगत्का कारण नहीं है, क्योंकि श्रुतिने ईक्षणकर्ताको ही (जगत्कारण) बतलाया है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, वह दूसरी तरह भी संगत हो सकता है, क्योंकि अचेतनमें भी गौणीवृत्तिसे चेतनका-सा व्यवहार दिखाई देता है । जैसे नदीका किनारा जल्दी गिरनेवाला है वह देखकर 'किनारा गिरना चाहता है' इस प्रकार अचेतन किनारेमें चेतनका-सा व्यवहार देखनेमें आता है, उसी प्रकार सृष्टि समीप होने पर अचेतन प्रधानमें 'उसने दृष्टिकी' इस प्रकार चेतनका-सा व्यवहार हो सकता है । जैसे लोकमें कोई पुरुष खान करके, भोजन करके, पिछले पहर रथसे गाँवको जाऊँगा, ऐसा विचार कर पीछे बैसा ही करता है, उसी प्रकार प्रधान भी महदादिके आकारसे नियमतः परिणत होता है, इसलिए चेतनका-सा उसमें उपचार किया जाता है । मुख्य ईक्षणशक्तिका त्याग करके औपचारिक ईक्षणकर्तृत्वकी कल्पना करनेमें क्या कारण है ?

रत्नप्रभा

सम्प्रति उत्तरसूत्रनिरस्याशङ्कामाह—अत्राहेति । अन्यथापि अचेतनत्वेऽपि । ननु प्रधानस्य चेतनेन किं साम्यं येन गौणम् ईक्षणम् इति तत्राह—यथेति । नियतक्रमवत् कार्यकारित्वं साम्यम् इत्यर्थः । उपचारप्राये वचनादिति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

अब अमिप्र सूत्रसे निराकरणीय शङ्काको कहते हैं—“अत्राह” इत्यादिसे । ‘अन्यथाऽपि’—अचेतन होनेपर भी । प्रधानका चेतनसे क्या सादृश्य है, जिससे कि प्रधानमें गौण ईक्षण माना जाय, इस शङ्कापर कहते हैं “यथा” इत्यादि । नियमित रूपसे क्रमबद्ध कार्य करना दोनोंका साधर्म्य है ऐसा अर्थ है । “उपचारप्राये वचनात्”—जिस प्रकरणमें बहुत स्थलोंपर

भाष्य

कल्प्यते, 'तत्तेज ऐक्षत' 'ता आप ऐक्षन्त' (छा० ६।२।४) इति चाऽचेतनयोरप्यप्तेजसोश्चेतनवदुपचारदर्शनात् । तस्मात् सत्कर्तृकमपीक्षण-मौपचारिकमिति गम्यते, उपचारप्राये वचनात् इति । एवं प्राप्ते इदं सूत्रमारभ्यते—

भाष्यका अनुवाद

'तत्तेज०' (उस तेजने ईक्षण किया) 'ता आप०' (उस जलने ईक्षण किया) इस प्रकार अचेतन तेज और जलमें चेतनके समान उपचार देरनेमें आता है, इसलिये (हम उपर्युक्त कल्पना करते हैं) । इस कारण जिसका कर्ता सत् है, वह ईक्षण भी औपचारिक है, ऐसा अनुमान होता है, क्योंकि उपचार प्रचुर प्रकरणमें उसका कथन है ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर इस सूत्रका आरम्भ किया जाता है—

रत्नप्रभा

गौणार्थप्रचुरे प्रकरणे समाधानात् इत्यर्थः । असेजसोरिव अचेतने सति गौणी ईक्षतिरिति चेत्, न; आत्मशब्दात् सतः चेतनत्वनिश्चयात् इति सूत्रार्थमाह— यदुक्तमित्यादिना ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

गौणार्थ मानना पड़ता है, उस प्रकरणमें कहे जानेके कारण । जैसे जल और तेजके अचेतन होनेसे उनमें गौण ईक्षण लेना पड़ता है, उसी प्रकार सत् (सत्स्वरूप मूलकारण) को अचेतन मानकर उसमें 'ईक्षति' (ईक्षण) का प्रयोग गौण है ऐसा यदि सारंख्य कहें, तो वह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि आत्मशब्दके प्रयोगसे सत् चेतन है ऐसा निश्चय होता है, इस प्रकार सूत्रका अर्थ करते हैं—'यदुक्तम्' इत्यादिने ।



गौणश्रेणात्मशब्दात् ॥ ६ ॥

पदच्छेद—गौणः, चेत्, न आत्मशब्दात् [मुख्यमेव ईक्षणम्]

पदार्थोक्ति—ईक्षतिशब्दो गौणः—इति चेत्, न ऐतदाल्पमिति श्रुतौ जगत्कारणे आत्मशब्दप्रयोगात् मुख्यमेव ईक्षणं न गौणम् ।

भाषार्थ—श्रुतिमें उक्त ईक्षति शब्द लक्षणिक है यह नहीं कह सकते, क्योंकि श्रुतिने जगत्कारणमें आत्मशब्दका प्रयोग किया है, इससे सत् जगत्-कारण चेतन है । अतः ईक्षतिशब्द गौण नहीं है, किन्तु मुख्य ही है ।



भाष्य

युदुक्तम्—प्रधानमचेतनं सच्छब्दवाच्यं तस्मिन्नौपचारिक ईक्षतिः, अप्तेजसोरिवेति । तदसत् । कस्मात् ? आत्मशब्दात् 'सदेव सोम्ये-दमग्र आसीत्' इत्युपक्रम्य 'तदैक्षत तत्तेजोऽसृजत' (छा० ६।२।३) इति च तेजोऽवन्नानां सृष्टिमुक्त्वा तदेव प्रकृतं सदीक्षित, तानि च तेजोऽवन्नानि देवताशब्देन परामृश्याऽऽह—'सैयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रो

भाष्यका अनुवाद

'सत्' शब्दका अर्थ अचेतन प्रधान है, जैसे जल और तेजमें ईक्षण औपचारिक है, उसी प्रकार प्रधानमें भी ईक्षण औपचारिक है, ऐसा जो कहा गया है वह असत्—वाधित है, क्यों (वाधित है) ? श्रुतिमें आत्मशब्दका प्रयोग होनेसे । 'सदेव०' (हे प्रियदर्शन ! उत्पत्तिके पहले यह जगत् केवल सद्रूप था) ऐसा उपक्रम करके 'तदैक्षत' (उसने ईक्षण-चिन्तन किया) 'तत्तेजो०' (उसने तेज उत्पन्न किया) इस प्रकार तेज, जल और अन्नकी सृष्टि कहकर उसी चिन्तन करनेवाले प्रकृत सत्का और उन तेज, जल और अन्नका देवता शब्दसे परामर्श करके कहा है 'सैयं देवतैक्षत०' 'हन्ताहमि-

रत्नप्रभा

सा प्रकृता सच्छब्दवाच्या, इयम् ईक्षित्री देवता परोक्षा । हन्त इदानीं भूतसृष्ट्यनन्तरम्, इमाः सृष्टाः तिस्रः तेजोऽवन्नरूपाः, परोक्षत्वात्

रत्नप्रभाका अनुवाद

'सा'—प्रकृत सच्छब्दवाच्या—सरसंज्ञक । 'इयम्' संनिहित, ईक्षण करनेवाली देवता परोक्ष । 'हन्त'—अव, भूतसृष्टिके बाद । सृष्ट—उत्पन्न किये गये । 'इमाः तिस्रः'—ये तीन तेज, जल और अन्न । सूक्ष्मभूत प्रत्यक्ष नहीं हैं, इसलिए उनमें देवताशब्दका प्रयोग

भाष्य

देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' (छा० ६।३।२) इति । तत्र यदि प्रधानमचेतनं गुणवृत्त्येक्षित् कल्प्येत, तदेव प्रकृतत्वात् सेयं देवतेति परामृश्येत; न तदा देवता जीवमात्मशब्देनाऽभिदध्यात् । जीवो हि नाम चेतनः शरीराध्यक्षः प्राणानां धारयिता, तत्प्रसिद्धेर्निर्वचनाच्च । स कथमचेतनस्य प्रधानस्याऽऽत्मा भवेत् ? आत्मा हि नाम स्वरूपम् । नाऽचेतनस्य प्रधानस्य चेतनो जीवः स्वरूपं भवितुमर्हति । अथ तु चेतनं ब्रह्म मुख्यमीक्षित् परिगृह्यते, तस्य जीव-

भाष्यका अनुवाद

मास्तिस्रो' (सो उस देवताने चिन्तन किया—अब इन तीन देवताओंमें इस जीवात्मा द्वारा प्रवेश करके मैं नाम और रूपको प्रकट करू ।) यदि इस ईक्षण-वाक्यमें अचेतन प्रधानको गौणीवृत्तिसे ईक्षण करनेवाला माना जाय, तो प्रकरणप्राप्त होनेके कारण 'सेय देवता०' इस श्रुतिमें उसीका परामर्श होगा । और ऐसा माने तो वह देवता जीवका आत्मशब्दसे उद्देश्य नहीं करेगी, क्योंकि जीव वस्तुतः चेतन, शरीरका अध्यक्ष—स्वामी और प्राणोंको धारण करनेवाला है, यह अर्थ प्रसिद्ध है और धातुके अर्थके अनुसार है । वह चेतन जीव अचेतन प्रधानका आत्मा किस प्रकार होगा ? यह प्रसिद्ध है कि 'आत्मा' का अर्थ स्वरूप है । चेतन जीव अचेतन प्रधानका स्वरूप नहीं हो सकता ।

रत्नप्रभा

देवता इति द्वितीयावहुवचनम् । अनेन पूर्वकल्पानुभूतेन जीवेन आत्मना मम स्वरूपेण ता अनुप्रविश्य तासा भोग्यत्वाय नाम च रूप च स्थूल करिष्यामि इति ऐक्षत इति अन्वय । लौकिकप्रसिद्धे 'जीव प्राणधारणे' इति धातो जीवति प्राणान् धारयतीति निर्वचनात् च इत्यर्थ । अथ त्विति । स्वपक्षे तु विम्ब-प्रतिविम्बयो लोके मेदस्य कल्पितत्वदर्शनात् जीवो ब्रह्मण सत आत्मा इति

रत्नप्रभाका अनुवाद

यहाँ पर 'देवता' यह शब्द द्वितीयावहुवचनान्त है । 'अनेन' पूर्वसृष्टिमें अनुभूत 'जीवेनात्मना' सदरूप अपने स्वरूप द्वारा यथोक्त देवताओंमें प्रवेश करके उनके भागक लिए नाम और रूपको स्थूलरूपमें लाऊँ—प्रकट करूँ, इस प्रकार श्रेष्ठ देवता सत्सङ्गक परमात्माने चिन्तन किया ऐसा अर्थ है । 'प्रसिद्धेर्निर्वचनाच्च'—लौकिक प्रसिद्धिसे अर्थात् 'जीवप्राणधारणे' (जीव—प्राणधारण करना) इस धातुस और 'जीवति प्राणान् धारयति' (जीता है—प्राणोंको धारण करता है) इस प्रकार जीवशब्दका निर्वचन होना । "अथ तु"

भाष्य

विषय आत्मशब्दप्रयोग उपपद्यते । तथा 'स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो' (छा० ६।१।४।३) इत्यत्र 'स आत्मा' इति प्रकृतं सदणिमानमात्मानमात्मशब्देनोपदिश्य 'तत्त्वमसि श्वेतकेतो' इति चेतनस्य श्वेतकेतोरात्मत्वेनोपदिशति । अप्तेजसोस्तु

भाष्यका अनुवाद

यदि चेतन ब्रह्म मुख्य ईक्षण करनेवाला माना जाय, तो उसका जीवमें आत्मशब्दका प्रयोग युक्त होता है । इसी प्रकार 'स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदम्' (जो सत्संज्ञक कहा गया है वह अणिमा—अतिसूक्ष्मरूप है, यह सब जगत् उसीका स्वरूप है, वह सत्संज्ञक सत्य है, वह आत्मा है, हे श्वेतकेतो वह तू है) इस श्रुतिमें 'स आत्मा' (वह आत्मा है) इस प्रकार प्रस्तुत सत्संज्ञक, सूक्ष्मरूप आत्माका आत्मशब्दसे उपदेश करके 'तत्त्वमसि श्वेतकेतो' (हे श्वेतकेतो वह तू है) इस प्रकार चेतन श्वेतकेतुका आत्मरूपसे उपदेश

रत्नप्रभा

युक्तमित्यर्थः । जीवस्य सच्छब्दार्थं प्रति आत्मशब्दात् सत् न प्रधानम् इति उक्त्वा सतो जीवं प्रति आत्मशब्दात् न प्रधानमिति विधान्तरेण हेतुं व्याचष्टे— तथेति । स यः सदाख्य एषोऽणिमा परमसूक्ष्मः, ऐतदात्मकम् इदं सर्वं जगत् तत् सदेव सत्यम्, विकारस्य मिथ्यात्वात्, सः सत्पदार्थः सर्वस्य आत्मा । हे श्वेतकेतो ! त्वं च नाऽसि संसारी, किन्तु तदेव सदवाधितं सर्वात्मकं ब्रह्म असि इति श्रुत्यर्थः । उपदिशति इत्यत्र अतश्चेतनात्मकत्वात् सत् चेतनमेव इति वाक्यशेषः । यदुक्तम् अप्तेजसोरिव सत ईक्षणं गौणम् इति तत्राह—

रत्नप्रभाका अनुवाद

इत्यादि । तात्पर्य यह है कि वेदान्तिके मतमें बिम्ब और प्रतिबिम्बका भेद लोकमें कल्पित देखा गया है, इससे जीव सदरूप ब्रह्मका आत्मा—स्वरूप ही यह कथन युक्त है । 'जीविनात्मना' इस श्रुतिमें आत्मशब्दके प्रयोगसे सत्की आत्मा जीव है, इससे सत्का अर्थ प्रधान नहीं है ऐसा कहकर जीवकी आत्मा सत् है, क्योंकि 'स आत्मा तत्त्वमसि' इस श्रुतिमें आत्मशब्दका प्रयोग है । इससे सत्का अर्थ प्रधान नहीं है । इस प्रकार दूसरी रीतिसे सूत्रस्य 'आत्मशब्दात्' इस हेतुका व्याख्यान करते हैं—'तथा' इत्यादिसे । जो सत्संज्ञक है, वह अणिमा—परम सूक्ष्म है, यह सम्पूर्ण जगत् सत्स्वरूप ही है, वह सत् ही सत्य पारमार्थिक तत्त्व है, क्योंकि विकार मिथ्या है, वह सत् सबका आत्मा—स्वरूप है, हे श्वेतकेतो ! तू संसारी नहीं है, किन्तु वही अवाधित सर्वात्मक सत् ब्रह्म है, ऐसा श्रुतिके अर्थ है । उपदिशति—'उपदेश करती है' इससे अनन्तर 'चेतन श्वेतकेतुका आत्मा होनेसे सत् चेतन ही है' इतना वाक्यशेष है । जल और तेजके ईर्ष्यके समान सत्का ईक्षण गौण है

भाष्य

विषयत्वादचेतनत्वम्, नामरूपव्याकरणादौ च प्रयोज्यत्वेनैव निर्देशात्, न चाऽऽत्मशब्दवत् किञ्चिन्मुख्यत्वे कारणमस्तीति युक्तं कूलवद् गौणत्वमीक्षित्वस्य । तयोरपि च सदाधिष्ठितत्वापेक्षमेवेक्षित्वम् । सतस्त्वात्मशब्दान्न गौणमीक्षित्वमित्युक्तम् ॥ ६ ॥

भाष्यका अनुवाद

किया है । जल और तेजका तो ईक्षण नदीके किनारेके गिरनेकी इच्छाके समान गौण होना युक्त है, क्योंकि जल और तेज विषय होनेसे अचेतन हैं, नाम और रूपके सृष्टि करने आदि में प्रयोज्यरूपसे उनका निर्देश हुआ है और आत्मशब्दके समान उनके मुख्य ईक्षण माननेमें कोई कारण नहीं है । तथा उनका (जल और तेजका) ईक्षण भी सद्रूप अधिष्ठानकी अपेक्षासे ही है । और यह बात कही गई है कि आत्मशब्दके प्रयोगके कारण सत्का ईक्षण गौण नहीं है ॥ ६ ॥

रत्नप्रभा

अप्तेजसोस्त्विति । नामरूपयोः व्याकरणं सृष्टिः । आदिपदात् नियमनम् । अप्तेजसोः दृग्विषयत्वात् सृज्यत्वात् नियम्यत्वात् अचेतनत्वम् ईक्षणस्य मुख्यत्वे बाधकम् अस्ति, साधकं च नास्ति इति हेतोः युक्तम् ईक्षणस्य गौणत्वम् इति योजना । चेतनवत् कार्यकारित्वं गुणः, 'तेज ऐक्षत' चेतनवत् कार्यकारि इत्यर्थः । यद्वा तेजःपदेन तदाधिष्ठानं सत् लक्ष्यते, तथा च मुख्यम् ईक्षणम् इत्याह— तयोरिति । स्यात् एतत् यदि सत ईक्षणं मुख्यं स्यात्, तदेव कुत इत्यत आह— सतस्त्विति । गौणमुख्ययोरतुल्ययोः संशयाभावेन गौणप्रायपाठस्य अनिश्चयकत्वात् आत्मशब्दाच्च सत ईक्षणं मुख्यम् इत्यर्थः ॥ ६ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

ऐसा जो कहा गया है, उसके उत्तरमें कहते हैं—“अप्तेजसोस्तु” इत्यादि । नाम और रूपका व्याकरण-प्रकट करना अर्थात् सृष्टि । ‘आदि’ शब्दसे नियमन आदि समझने चाहिये । जल और तेज दृष्टिगोचर हैं, उत्पाद्य हैं और नियम्य हैं, अतः वे अचेतन हैं; इस कारण उनमें मुख्य ईक्षणका बाध है और वसे मुख्य माननेमें कोई साधक प्रमाण भी नहीं है, अतः जल और तेजका ईक्षण गौण ही लेना ठीक है । चेतनके समान कार्य करना गुण है । ‘तेज ऐक्षत’ अर्थात् तेजने चेतनके समान कार्य किया । अथवा ‘तेज.’ शब्दका लक्षणा द्वारा तेजका अधिष्ठान सत् अर्थ है । इस प्रकार अप् और तेजका ईक्षण मुख्य ही है ऐसा कहते हैं—“तयोः” इत्यादिते । यदि सत्का ईक्षण मुख्य हो तो ऐसा हो, परन्तु वह किस प्रमाणसे हो इस शङ्कापर कहते हैं—“सतस्तु” इत्यादि । तात्पर्य यह है कि गौण ईक्षणकर्ता अप् और तेज और मुख्य ईक्षणकर्ता सत् ये दोनों तुल्य नहीं हैं, क्योंकि अप् और तेज विषय और जड़ हैं, मद् विषयी

भाष्य

मचेतनोऽसीति तदा विपरीतवादि शास्त्रं पुरुषस्याऽनर्थयित्यप्रमाणं स्यात्, न तु निर्दोषं शास्त्रमप्रमाणं कल्पयितुं युक्तम् । यदि चाऽज्ञस्य सतो मुमुक्षोः अचेतनमनात्मानमात्मेत्युपदिशेत् प्रमाणभूतं शास्त्रम्, स श्रद्धानतयाऽन्ध-गोलाङ्गूलन्यायेन तदात्मदृष्टिं न परित्यजेत्, तद्व्यतिरिक्तं चाऽऽत्मानं न प्रतिपद्येत, तथा सति पुरुषार्थाद् विहन्येत अनर्थं च ऋच्छेत् । तस्माद् यथा

भाष्यका अनुवाद

तू अचेतन है ऐसा ज्ञान करावे, तो विपरीत उपदेश करनेवाला वह शास्त्र पुरुषका अनिष्टकारक होनेके कारण अप्रमाण हो जायगा । परन्तु इस निर्दोष शास्त्रमें अप्रमाणत्वकी कल्पना करना ठीक नहीं है । यदि प्रमाण-भूत शास्त्र अज्ञ मुमुक्षुको 'अचेतन अनात्मपदार्थ आत्मा है' ऐसा उपदेश करे तो अन्धगोपुच्छन्यायसे श्रद्धा रखकर वह पुरुष अनात्मपदार्थमें आत्म-दृष्टिका त्याग न करेगा और अनात्मासे भिन्न आत्माका ग्रहण भी नहीं करेगा, ऐसा होनेसे वह पुरुषार्थसे भ्रष्ट हो जायगा और अनर्थको प्राप्त होगा । इस कारण

रत्नप्रभा

प्रपञ्चयति—यदि चाऽज्ञस्येति । कश्चित् किल दुष्टात्मा महारण्यमार्गं पतितम् अन्धं स्वबन्धुनगरं जिगमिषुं बभाषे किमत्र आयुष्मता दुःखितेन स्थीयते इति । स च अन्धः सुखां वाणीमाकर्ष्य तम् आसं मत्वा उवाच—अहो मद्भागधेयम्, यदत्र भवान् मां दीनं स्वाभीष्टनगरप्राप्त्यसमर्थं भाषते इति । स च विप्रलिप्सुः दुष्टगोयुवानम् आनीय तदीयलाङ्गूलम् अन्धं ग्राहयामास, उपदिदेश च एनम् अन्धम्—एष गोयुवा त्वां नगरं नेष्यति, मा त्यज

रत्नप्रभाका अनुवाद

(१-१-४) किया गया है । 'अनर्थकारक हो' ऐसा जो कहा गया है, उसका विस्तारसं वर्णन करते हैं—'यदि चाऽज्ञस्य' इत्यादिसे । किसी एक दुष्टात्माने महा अरण्यके मार्गमें पड़े हुए, अपने बन्धुनगरमें जानेकी इच्छा करनेवाले अन्धसे कहा—'आयुष्मन् ! यहाँ दुःखमें क्यों पड़े हो ?' उस अन्धने सुखकारक वाणी सुनकर, उस दुष्टको आप पुरुष समझकर कहा—'मैं अपने दुष्ट-नगरको जानेमें असमर्थ हूँ, मुझ दीनसे आप बोलते हैं, यह मैं अपना अहो भाग्य समझता हूँ !' उस अन्धको भटकानेकी इच्छावाले उस दुष्ट पुरुषने एक मस्त साँड़ेको लाकर उसकी पूँछ अन्धको पकड़ा दी और उससे कहा कि 'यह बँल तुम्हें तुम्हारे नगरमें पहुँचा देगा, इसकी पूँछ मत

भाष्य

स्वर्गाद्यर्थिनोऽग्निहोत्रादिसाधनं यथाभूतमुपदिशति, तथा मुमुक्षोरपि 'स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो' इति यथाभूतमेवाऽऽत्मानमुपदिशतीति युक्तम् । एवञ्च सति तत्परशुग्रहणमोक्षदृष्टान्तेन सत्याभिसन्धस्य मोक्षोपदेश उपपद्यते । अन्यथा ह्यमुख्ये सदात्मतत्त्वोपदेशे 'अहमुक्थमस्मीति विद्यात्'

भाष्यका अनुवाद

स्वर्ग आदिकी कामनावाले पुरुषको जैसे अग्निहोत्र आदि योग्य साधनोंका शास्त्र उपदेश करता है, उसी प्रकार मुमुक्षुको भी 'स आत्मा०' (वह आत्मा है, हे श्वेतकेतो वह तू है) इस प्रकार यथार्थ आत्माका ही उपदेश करता है यह युक्त है । ऐसा होनेसे 'गरम फरसेको पकड़नेसे (चौर्यसे) मुक्ति होती है' इस दृष्टान्तसे सत्य ब्रह्ममें 'मैं' ऐसी बुद्धि रखनेवाले पुरुषके लिए मोक्षका उपदेश युक्त है । ऐसा न मानकर 'सत् आत्मतत्त्व है' इस उपदेशको गौण मानें, तो 'अहमुक्थ०' (मैं प्राण हूँ ऐसा समझे) इसके समान यह

रत्नप्रभा

लङ्गूलम् इति । स च अन्धः श्रद्धालुतया तदत्यजन् स्वामीष्टम् अप्राप्य अनर्थपरम्परां प्राप्तः, तेन न्यायेन इत्यर्थः । तथा सतीति । आत्मज्ञानाभावे सति विहन्येत मोक्षं न प्राप्नुयात्, प्रत्युत अनर्थम्—संसारं च प्राप्नुयाद् इत्यर्थः । ननु जीवस्य प्रधानैक्यसम्पदुपासनार्थमिदं वाक्यमस्तु इति तत्राह—एवं च सतीति । अबाधितात्मप्रमायां सत्याम् इत्यर्थः । कस्यचिद् आरोपितचोरत्वस्य सत्येन तसं परशुं गृह्णतो मोक्षो दृष्टः, तद्दृष्टान्तेन सत्ये ब्रह्मणि 'अहम्' इत्यभिसन्धिमतः मोक्षः, 'यथा सत्याभिसन्धः तसं परशुं गृह्णाति

रत्नप्रभाका अनुवाद

छोड़ना' उस अन्धेने विस्वास करके पूंछ नहीं छोड़ी और महा कष्ट पाया, और अपने इष्ट-नगरमें नहीं पहुँच सका । [तात्पर्य यह है कि इस न्याय—'अन्धगो-पुच्छन्याय' के समान अनात्म पदार्थमें आत्मदृष्टि करनेवाला अनर्थभोगी होता है] "तथा सति" आत्मज्ञानका अभाव होनेपर 'पुरुषार्थसे भ्रष्ट होता है' अर्थात् मोक्ष नहीं पाता, किन्तु उल्टे अनर्थरूप संसारको प्राप्त होता है, यह अर्थ है । यदि कोई कहे कि तत्त्वमसि' यह वाक्य जीवका प्रधानके साथ ऐक्यका आरोप कर सम्पत्-उपासनाके लिए है, इस शङ्का पर कहते हैं—"एवं च सति" इत्यादि । 'ऐसा होनेपर'—अबाधित आत्मप्रमा होनेपर । कोई पुरुष, जिसपर चोरीका आरोप हुआ है, तपाए हुए फरसेको सत्यके बलने ग्रहण करे, तो उस आरोपसे उगकी मुक्ति देखनेमें आती है । इस दृष्टान्तसे सत्य ब्रह्ममें 'मैं' ऐसी अभिसन्धि रखनेवाला—जीवका आत्माके साथ तादात्म्य समझनेवाला पुरुष मोक्ष पाता है

भाष्य

अथोच्येत—अचेतनेऽपि प्रधाने भवत्यात्मशब्दः, आत्मनः सर्वार्थकारित्वात्, यथा राज्ञः सर्वार्थकारिणि भृत्ये भवत्यात्मशब्दो ममाऽऽत्मा भद्रसेन इति । प्रधानं हि पुरुषस्याऽऽत्मनो भोगापवर्गौ कुर्वदुपकरोति, राज्ञ इव भृत्यः सन्धिविग्रहादिषु वर्तमानः । अथैक एवाऽऽत्मशब्दश्चेतनाचेतनविषयो भविष्यति, भूतात्मेन्द्रियात्मेति च प्रयोगदर्शनात् । यथैक एव ज्योतिःशब्दः क्रतुज्वलनविषयः । तत्र कुत एतदात्मशब्दादीक्षतेरगौणत्वमिति अत उत्तरं पठति—

भाष्यका अनुवाद

पूर्वपक्षी यदि यह कहे कि जैसे राजाका सब प्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाले सेवकमें भद्रसेन मेरी आत्मा है इस प्रकार आत्मशब्दका प्रयोग होता है, उसी प्रकार अचेतन प्रधानमें भी आत्मशब्दका प्रयोग होता है, क्योंकि प्रधान आत्माके सब प्रयोजनोंको सिद्ध करता है । जैसे सन्धि, विग्रह आदि कार्योंमें नियुक्त भृत्य राजाका उपकार करता है, उसी प्रकार आत्माको भोग और मोक्ष देनेवाला प्रधान अवश्य ही आत्माका उपकारक होता है । अथवा जैसे एक ही 'ज्योतिः' शब्द गज्ञ और अग्निमें प्रयुक्त होता है, उसी प्रकार एक ही आत्मशब्द चेतन और अचेतनमें प्रयुक्त हो सकेगा, क्योंकि भूतात्मा, इन्द्रियात्मा ऐसे प्रयोग देखनेमें आते हैं । तो आत्मशब्दके प्रयोगसे ईक्षण-मुख्य है यह किस प्रकार माना जाय ? पूर्वपक्षीके इस कथनका उत्तर कहते हैं—

रत्नप्रभा

आत्महितकारित्वगुणयोगात् आत्मशब्दोऽपि प्रधाने गौण इति शङ्कते—अथेत्यादिना । आत्मशब्दः प्रधानेऽपि मुख्यो नानार्थकत्वात् इत्याह—अथेति । नानार्थकत्वे दृष्टान्तः—अथेति । 'अथैव ज्योतिः' इति श्रुत्या सहस्रदक्षिणाके क्रतौ ज्योतिष्टोमे लोकप्रयोगाद् अग्नौ च ज्योतिश्शब्दो यथा मुख्यः तद्वत् इत्यर्थः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

तथा चेतन है, अतः यहाँ सत्में मुख्य ईक्षण है या गौण ईक्षण है यह सन्देह नहीं होगा । गौण ईक्षणके मध्यमें पाठ भी गौणताका निर्णायक नहीं है, एवं श्रुतिमें आत्मशब्दके प्रयोगसे भी सत्में मुख्य ही ईक्षण है ॥६॥

आत्माका हित करना, इस गुणके योगसे आत्मशब्द भी प्रधानके अर्थमें गौण है । ऐसी शङ्का करते हैं—“अथ” इत्यादिसे । आत्मशब्दके अर्थ अनेक हैं, इसलिए प्रधानमें भी आत्मशब्दका प्रयोग मुख्य है, ऐसा कहते हैं—“अथवा” इत्यादिसे । आत्मशब्दके भिन्न भिन्न अर्थ हैं इसमें दृष्टान्त देते हैं—“यथा” इत्यादिसे । 'अथैव ज्योतिः' इम श्रुतिसे सहस्र दक्षिणावाले ज्योतिष्टोम यज्ञमें और लौकिक प्रयोगसे अग्निमें जैसे ज्योतिःशब्द मुख्य है, इसी प्रकार ।

तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् ॥ ७ ॥

पदच्छेद—तन्निष्ठस्य, मोक्षोपदेशात् ।

पदार्थोक्ति—तन्निष्ठस्य—ब्रह्मनिष्ठस्य, मोक्षोपदेशात्—मुक्तिश्रवणात्

[अचेतनप्रधानैक्यज्ञानेन तदसम्भवात्] ।

भाषार्थ—श्रुति उपदेश करती है कि जगत्कारण (ब्रह्म) के ऐक्यज्ञानसे पुरुषको मोक्ष मिलता है । अचेतन प्रधानके ऐक्यज्ञानसे मोक्ष मिलना सम्भव नहीं है ।



भाष्य

न प्रधानमचेतनमात्मशब्दालम्बनं भवितुमर्हति, 'स आत्मा' (छा० ६।१।४।३) इति प्रकृतं सदणिमानमादाय, 'तत्त्वमसि श्वेतकेतो' इति चेतनस्य श्वेतकेतोर्मोक्षयितव्यस्य तन्निष्ठास्युपदिश्य 'आचार्यवान् पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये' (छा० ६।१।४।२) इति मोक्षोपदेशात् । यदि ह्यचेतनं प्रधानं सच्छब्दवाच्यं तदसीति ग्राहयेत्; मुमुक्षुं चेतनं सन्त-

भाष्यका अनुवाद

अचेतन प्रधान आत्मशब्दका आधार नहीं हो सकता, क्योंकि 'स आत्मा' (वह आत्मा है) इस प्रकार प्रकृत सूक्ष्म सत्को लेकर 'तत्त्वमसि०' (हे श्वेतकेतो ! वह तू है) मोक्षप्राप्ति कराने योग्य चेतन श्वेतकेतुको 'तू सत्स्वरूप है' ऐसा उपदेश करके 'आचार्यवान्०' (आचार्यवान् पुरुष सत्को जानता है) 'तस्य तावदेव०' (उस आत्मनिष्ठ पुरुषके मुक्त होनेमें उतना ही विलम्ब रहता है, जब तक शरीरपात नहीं होता, शरीरपात होते ही वह सद्रूप हो जाता है) इस प्रकार मोक्षका उपदेश किया है । यदि सत् शब्दका अर्थ अचेतन प्रधान हो और शास्त्र मोक्ष पानेकी इच्छा करनेवाले चेतनको 'तदसि' (वह तू है) अर्थात्

रत्नप्रभा

तस्मिन् सत्पदार्थे निष्ठा अमेदज्ञानं यस्य स तन्निष्ठः तस्य मुक्तिश्रवणात् इति सूत्रार्थमाह—नेत्यादिना । श्रुतिः समन्वयसूत्रे व्याख्याता । अनर्थाय इत्युक्तं

रत्नप्रभाका अनुवाद

जिस पुरुषको सत्पदार्थमें अमेदज्ञान हो, उसको मोक्ष होता है ऐसा श्रुति कहती है इस प्रकार सूत्रका अर्थ कहते हैं—“न” इत्यादिसे । श्रुतिकी व्याख्यान समन्वय सूत्रमें

भाष्य

(ऐ० आ० २।१।२।६) इतिवत् संपन्मात्रमिदमनित्यफलं स्यात् । तत्र मोक्षोपदेशो नोपपद्येत । तस्मान्न सदणिमन्यात्मशब्दस्य गौणत्वम्, भृत्ये तु स्वामिभृत्यभेदस्य प्रत्यक्षत्वादुपपन्नो गौण आत्मशब्दो ममाऽऽत्मा भद्रसेन इति । अपि च कचिद् गौणः शब्दो दृष्ट इति नैतावता शब्दप्रमाणकेऽर्थे गौणी कल्पना न्याय्या, सर्वत्राऽनाश्वासप्रसङ्गात् । यत्तूक्तम्—चेतनाचेतनयोः साधारण आत्मशब्दः क्रतुज्वलनयोरिव ज्योतिःशब्द इति, तन्न,

भाष्यका अनुवाद

उपदेश केवल संपद्रूप होनेसे अनित्यफलदायक होगा । और उससे मोक्षका उपदेश संगत नहीं होगा । इस कारण सूक्ष्मरूप सत्में आत्मशब्द गौण नहीं है । 'मेरा आत्मा भद्रसेन है' यहाँपर तो भृत्यके लिए आत्मशब्दका गौण प्रयोग ठीक है, क्योंकि स्वामी और भृत्यका भेद प्रत्यक्ष है । किञ्च, शब्द कहीं गौण देखनेमें आता है, इसीसे सर्वत्र शब्दप्रमाणक अर्थमें गौणत्वकी कल्पना करना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होनेसे सब प्रयोगोंमें अविश्वास हो जायगा । जैसे 'ज्योतिः' शब्द याग और अग्निके अर्थमें साधारण है, वैसे ही आत्मशब्द चेतन और अचेतन अर्थमें साधारण है, ऐसा जो कहा है, वह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि

रत्नप्रभा

स न दहते अध मुच्यते' इति श्रुत्या उपदिष्टः स उपदेशः सम्पत्पक्षे न युक्त इत्याह—अन्यथेति । देहमुत्थापयति इति उक्तम्—प्राण । तस्मात् मोक्षोपदेशात् मुख्ये सम्भवति गौणत्वस्य अन्याय्यत्वात् च आत्मशब्दः सति मुख्य इत्याह—अपि चेति । कचिद्—भृत्यादौ । सर्वत्र अहम् आत्मा इत्यत्रापि मुख्य आत्मशब्दो न

रत्नप्रभाका अनुवाद

ऐसा 'यथा सत्याभिपन्धः०' (जैसे सत्यवक्ता मुख्य तब परशुको पकड़ता है, पर जलता नहीं है और अभिचोगसे मुक्त होता है) इस धृतिसे उपदेश होता है । यह उपदेश सम्पत्पक्षमें संगत नहीं हो सकता ऐसा कहते हैं—'अन्यथा' इत्यादिते । पाररको उठता है इससे उक्तम्—प्राण है । धृतिमें मोक्षका उपदेश है और मुख्य अर्थका संभव होनेपर गौण अर्थकी कल्पना करना ठीक नहीं है, इस कारण भी आत्मशब्द सत्में मुख्य है, ऐसा कहते हैं—'अपि च' इत्यादिते । 'बहो'—मूल आदिमें । सर्वत्र—'अहम्' आत्मा (में आत्मा है) इसमें भी आत्मशब्द मुख्य न होगा ऐसा अर्थ है । "चेतन-

भाष्य

अनेकार्थत्वस्याऽन्याय्यत्वात् । तस्माच्चेतनविषय एव मुख्य आत्मशब्दश्चेतन-
त्वोपचाराद् भूतादिषु प्रयुज्यते भूतात्मेन्द्रियात्मेति च । साधारणत्वेऽ-
प्यात्मशब्दस्य न प्रकरणमुपपदं वा किञ्चिन्निश्चायकमन्तरेणाऽन्यतरवृत्तिता
निर्धारयितुं शक्यते । न चाऽत्राऽच्चेतनस्य निश्चायकं किञ्चित्कारणमस्ति,
प्रकृतं तु सदीक्षित्वुं संनिहितश्चेतनः श्वेतकेतुः, नहि चेतनस्य श्वेतकेतो-
रचेतन आत्मा संभवतीत्यवोचाम । तस्माच्चेतनविषय इहाऽऽत्मशब्द इति

भाष्यका अनुवाद

एक शब्दके अनेक अर्थ मानना अनुचित है । इससे चेतनरूप अर्थमें ही
आत्मशब्दका प्रयोग मुख्य है और चेतनके संसर्गके अध्याससे भूत आदियोंमें
भूतात्मा, इन्द्रियात्मा ऐसे प्रयोग होते हैं । यदि आत्मशब्द (चेतन और
अचेतन अर्थमें) साधारण मान लिया जाय, तो भी प्रकरण अथवा उपपद किसी
एक निश्चायकके बिना, दोनोंमेंसे किस अर्थमें आत्मशब्द प्रयुक्त है इसका निर्णय
नहीं हो सकता, और यहाँ अचेतनरूप अर्थका निश्चायक कोई कारण नहीं है ।
परन्तु यहाँ ईक्षण करनेवाला सत् प्रकृत है (अर्थात् सत्का प्रकरण है)
और चेतन श्वेतकेतु संनिहित है । अचेतन पदार्थ चेतन श्वेतकेतुका आत्मा—
स्वरूप नहीं हो सकता ऐसा हम पीछे कह चुके हैं । इसलिए यहाँ आत्मशब्द

रत्नप्रभा

स्यात् इत्यर्थः । चेतनत्वोपचाराद् भूतादिषु । सर्वत्र चैतन्यतादात्म्यात् इत्यर्थः ।
आत्मशब्दः चेतनस्य एव असाधारण इत्युक्तम् । अस्तु वा अव्यापिवस्तुनां साधारणः,
तथापि तस्य अत्र श्रुतौ प्रधानपरत्वेऽपि निश्चायकाभावात् न प्रधानवृत्तिता इत्याह—
साधारणत्वेऽपीति । चेतनवाचित्वे तु प्रकरणं श्वेतकेतुपदं च निश्चायकम्
अस्ति इत्याह—प्रकृतं त्विति । उपपदस्य निश्चायकत्वं स्फुटयति—नहीति ।
ततः किं तत्राह—तस्मादिति । आत्मशब्दो ज्योतिशब्दवत् नानार्थक इत्युक्तं दृष्टान्तं

रत्नप्रभाका अनुवाद

त्वोपचाराद् भूतादिषु" अर्थात् भूत आदिमें सर्वत्र चैतन्यका तादात्म्य होनेसे । आत्मशब्द
चेतनमें ही असाधारण है । चेतन और अचेतनमें साधारण है ऐसा मानने पर भी वह प्रधान-
परक है इसका कोई निश्चायक न होनेसे वह प्रधानका वाचक नहीं है ऐसा कहते हैं—“साधा-
रणत्वेऽपि” इत्यादिसे । “प्रकृतं तु” इत्यादिसे कहते हैं कि आत्मशब्द चेतनवाची है इस
पक्षमें तो प्रकरण और श्वेतकेतु पद निश्चायक हैं । उपपद निश्चायक है । ऐसा स्पष्ट करते
हैं—“नहि” इत्यादिसे । इससे क्या हुआ ? इस शङ्कापर कहते हैं—“तस्मात्” इत्यादिसे ।

भाष्य

निश्चीयते । ज्योतिःशब्दोऽपि लौकिकेन प्रयोगेण -ज्वलन एव रूढः, अर्थवादकल्पितेन तु ज्वलनसादृश्येन क्रतौ प्रवृत्त इत्यदृष्टान्तः । अथवा पूर्वसूत्रे एवाऽऽत्मशब्दं , निरस्तसमस्तगौणत्वसाधारणत्वशङ्कतया भाष्यका अनुवाद

चेतनविषयक है, ऐसा निश्चय होता है । 'ज्योतिः' शब्द भी लौकिक प्रयोगसे अभिमे ही रूढ है, परन्तु अर्थवादसे कल्पित हुए अभिके सादृश्यसे यागमें प्रवृत्त होता है, इससे वह दृष्टान्त ठीक नहीं है । अथवा पूर्वसूत्रमें ही आत्मशब्दके समस्त गौण और साधारण अर्थोंकी शङ्काके निरसनसे व्याख्यान

रत्नप्रभा

निरस्यति—ज्योतिरिति । कथं तर्हि 'ज्योतिषा यजेत' इति ज्योतिष्टोमे प्रयोगः, तत्राह— अर्थवादेति । "एतानि वाव तानि ज्योतींषि य एतस्य स्तोमाः" (तै० ब्रा० १।५।११) इत्यर्थवादेन कल्पितं ज्वलनेन सादृश्यम्, "त्रिवृत्पञ्चदशखिवृत्सप्तदशस्त्रिवृदेकविंश इति स्तोमाः" तत्तदर्थप्रकाशकत्वेन गुणेन ज्योतिष्पदोक्ता ऋक्सूत्राः । तथा च ज्योतींषि स्तोमाः अस्येति ज्योतिष्टोम इत्यत्र ज्योतिश्शब्दो गौण इत्यर्थः । ननु आत्मशब्दादिति पूर्वसूत्र एव आत्मशब्दस्य प्रधाने गौणत्वसाधारणत्वशङ्कानिरासः कर्तुमुचितः, मुख्यार्थस्य लाघवेन उक्तिसम्भवे गौणत्वनानार्थकत्वशङ्काया दुर्बलत्वेन तन्निरासार्थं पृथक्सूत्रायासानपेक्षणात् । तथा च शङ्कोत्तरत्वेन सूत्रव्याख्यानं नातीव शोभते, इत्यरुचेराह—अथवेति । निरस्ता समस्ता गौणत्वनानार्थत्वशङ्का यस्य आत्मशब्दस्य

रत्नप्रभाका अनुवाद

आत्मशब्द ज्योतिःशब्दके समान नानार्थक है, यह पाँछे कहा गया है, इस दृष्टान्तका निरसन करते हैं—“ज्योतिः” इत्यादिसं । तत्र 'ज्योतिषा यजेत' इगमें 'ज्योतिः' शब्दका ज्योतिष्टोमके अर्थमें प्रयोग कैसे है ? इसपर कहते हैं—“अर्थवाद” इत्यादिसं । "एतानि०" इस अर्थवादसे ज्वलनके साथ सादृश्य कल्पित है । 'त्रिवृत्पञ्चदश०' इत्यादि स्तोम-ऋक्सूत्राह उक्त उक्त अर्थके प्रकाशकस्वरूप गुणसे प्रकाशक अग्निमें रूढ 'ज्योतिः' शब्दसे—कहे गये हैं । और 'ज्योतींषि स्तोमा अस्येति ज्योतिष्टोम' इगमें ज्योतिःशब्द गौण है । यहाँपर शङ्का होती है कि 'गौण वेत्ता०' इस पूर्व सूत्रमें आत्मशब्द प्रयुक्त हुआ है, इसलिए उगी सूत्रमें आत्मशब्द प्रधानके लिए गौण है अथवा साधारण है, इस शङ्काका निरसन करना उचित था, क्योंकि मुख्य अर्थका कथन तो व्यापकके कारण संभव है, गौणत्व और नानार्थकत्वका शङ्का दुर्बल होनेके कारण उसका निरसन करनेके लिए सूत्र सूत्र रूपके धमका आवश्यकता नहीं थी । एतसे इस शङ्काके उत्तर रूपमें इस (साम) सूत्रका व्याख्यान अधिक शोभा नहीं देता, ऐसी अर्थवेगे

भाष्य

व्याख्याय ततः स्वतन्त्र एव प्रधानकारणनिराकरणहेतुर्व्याख्येयः 'तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्' इति । तस्मान्नाञ्चेतनं प्रधानं सच्छब्दवाच्यम् ॥७॥

कुतश्च न प्रधानं सच्छब्दवाच्यम्—

भाष्यका अनुवाद

किया गया है, इससे 'तन्निष्ठस्य०' यह सूत्र प्रधानकारणतावादके निराकरण करनेके लिए स्वतंत्र ही हेतु है, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए । इससे अचेतन प्रधान सत् शब्दका अर्थ नहीं है ॥ ७ ॥

प्रधान सत्शब्दका अर्थ क्यों नहीं है ?

रत्नप्रभा

स तच्छब्दः तस्य भावः तत्ता तथा इत्यर्थः । तत इति । सत आत्मशब्देन जीवाभिन्नत्वात् इति हेत्वपेक्षया मोक्षोपदेशः स्वतन्त्र एव प्रधानकारणत्वनिरासे हेतुरित्यर्थः ॥ ७ ॥

ननु यथा कश्चिदरुन्धती दर्शयितुं निकटस्थां स्थूलां ताराम् अरुन्धतीत्वेन उपदिशति तद्वदनात्मन एव प्रधानस्य सत्पदार्थस्य आत्मत्वोपदेश इति शङ्कते—कुतश्चेति । प्रधानं सच्छब्दवाच्य नेति कुत इत्यर्थः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

कहते हैं—“अथवा” इत्यादिसे । निरस्त हैं सब गौणत्व और अनेकार्थत्वकी शङ्का जिस आत्म-शब्दकी वह निरस्तसमस्तगौणत्वसाधारणत्वशङ्क है ऐसा समास जानना चाहिए । “तत” इत्यादि । आत्मशब्द द्वारा सत्का जीवके साथ अभेद है इस हेतुकी अपेक्षासे मोक्षका उपदेश प्रधान कारणतावादका निरास करनेके लिए स्वतंत्र ही हेतु है ॥ ७ ॥

जैसे अति सूक्ष्म 'अरुन्धती' तारेको दिखलानेवाला किसी एक उसके समीपके स्थूल तारेको अरुन्धती कहकर दिखलता है, इती प्रकार सच्छब्दवाच्य, अनात्मा प्रधानका ही आत्मरूपसे उपदेश है ऐसी शङ्का करते हैं—“बुतश्च” इत्यादिसे । अर्थात् प्रधान सत्शब्दका मुख्यार्थ नहीं है, इसमें क्या कारण है ?



हेयत्वावचनाच्च ॥ ८ ॥

पदच्छेद—हेयत्वावचनात्, च

पदार्थोक्ति—हेयत्वावचनात्—निषेधस्य अनुक्तेः, च—अपि [न प्रधानं सच्छब्दवाच्यम्]

भाषार्थ—प्रधानके ध्यानसे मोक्ष नहीं होता ऐसा निषेध भी नहीं किया गया है, अतः स्थूलरुन्धतीन्यायसे भी प्रधान सच्छब्दवाच्य नहीं हो सकता ।



भाष्य

यद्यनात्मैव प्रधानं सच्छब्दवाच्यं 'स आत्मा तत्त्वमसि' इतीहो-
पदिष्टं स्यात्, स तदुपदेशश्रवणादनात्मजतया तन्निष्ठो मा भूदिति, मुख्यमा-
त्मानमुपदिदिक्षुस्तस्य हेयत्वं ब्रूयात् । यथाऽरुन्धतीं दिदर्शयिषुस्तत्समीप-
स्थां स्थूलां ताराममुख्यां प्रथममरुन्धतीति ग्राहयित्वा, 'तां गत्याख्याय
पश्चादरुन्धतीमेव ग्राहयति, तद्वन्नाऽयमात्मेति ब्रूयात् । न चैवमवोचत् ।
सन्मात्रात्मावगतिनिष्ठैव हि पट्टप्रपाठकपरिसमाप्तिर्दृश्यते । चशब्दः

भाष्यका अनुवाद

'स आत्मा०' (वह आत्मा है, वह तू है) यह श्रुति यदि
अनात्मा प्रधान ही सत्शब्दका अर्थ है ऐसा उपदेश करे, तो उस
उपदेशको सुनकर आत्माके ज्ञानसे वह कहीं अनात्मनिष्ठ न हो
जाय, इसलिए मुख्य आत्माका उपदेश करनेकी इच्छा करनेवाले
(आचार्य) को अनात्माकी हेयता कहनी चाहिए । जैसे अरुन्धती तारेको
दिखलानेकी इच्छावाला उसके पासके स्थूल-अमुख्य तारेको, यह अरुन्धती
है ऐसा पहले कहकर, पीछे उसका निषेध कर मुख्य अरुन्धतीको ही
दिखलाता है, इसी प्रकार यह (प्रधान) आत्मा नहीं है, ऐसा आचार्यको
कहना चाहिए था, परन्तु उसने ऐसा कहा नहीं है । केवल सद्वरूप आत्माका

रत्नप्रभा

सौत्रश्वकारोऽनुक्तसमुच्चयार्थ इत्याह—च शब्द इति । विवृणोति—सत्यपीति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

सूत्रमे जो 'च' शब्द है, वह अनुक्तसमुच्चयार्थक है अर्थात् जो नहीं कहा है,

भाष्य

प्रतिज्ञाविरोधाभ्युचयप्रदर्शनार्थः । सत्यपि हेयत्ववचने प्रतिज्ञाविरोधः प्रसज्येत, कारणविज्ञानाद्धि सर्वं विज्ञातमिति प्रतिज्ञातम् । 'उत तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति' 'कथं नु भगवः स आदेशो भवतीति' 'यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्मणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्' (छा० ६।१।२-४)

भाष्यका अनुवाद

साक्षात्कार करनेमें ही छान्दोग्यके पष्ठ प्रपाठककी समाप्ति देरनी जाती है । 'च' शब्द जोड़नेका प्रयोजन है प्रतिज्ञा-विरोधका समुच्चय दिखलाना । यदि प्रधान हेय भी कहा गया होता, तो भी प्रतिज्ञाविरोध होता, क्योंकि कारणके विज्ञानसे ही सबका विज्ञान होता है, ऐसी प्रतिज्ञा की है, कारण कि वाक्यके उपक्रममें इस प्रकार श्रुति है—'उत तमादेशमप्राक्ष्यो' (हे श्वेतकेतु ! तुमने गुरुसे शास्त्रैक-गम्य वह वस्तु पूछी थी, जिससे कि अश्रुत वस्तु श्रुत हो जाती है, अतर्कित तर्कित हो जाती है, अनिश्चित निश्चित हो जाती है) 'कथं नु भगवः० (हे भगवन् ! किस प्रकारसे वह आदेश होता है) 'यथा सोम्यैकेन०' (हे भ्रियदर्शन !

रत्नप्रभा

अपिशब्दात् नास्ति एवेति सूचयति । वेदानधीत्य आगतं स्तब्धं पुत्रं पिता उवाच—हे पुत्र ! उत—अपि आदिश्यते इति आदेशः उपदेशैकलभ्यः सदात्मा तमपि अप्राक्ष्यः—गुरुनिकटे पृष्टवानसि, यस्य श्रवणेन मननेन विज्ञानेन अन्यस्य श्रवणादिकं भवति इति अन्वयः । ननु अन्येन ज्ञातेन कथम् अन्यद् अज्ञातमपि ज्ञातं स्यादिति पुत्रः शङ्कते—कथमिति । हे भगवः कथं नु खलु स भवति इत्यर्थः । कार्यस्य कारणान्यत्वं नास्ति इत्याह—यथेति । पिण्डः—स्वरूपम्, तेन विज्ञातेन इति

रत्नप्रभाका अनुवाद

उसके समुच्चयके लिए है । "सत्यपि" इत्यादिसे 'च' कारके अर्थका विवरण करते हैं । 'अपि' शब्दसे हेयत्ववचन है ही नहीं ऐसा सूचित किया है । वेदोंका अध्ययन करके आये हुए स्तब्ध-अविनीत पुत्र श्वेतकेतुसे आरापि पिताने कहा—'हे पुत्र जिसके श्रवण, मनन और विज्ञानसे अन्य वस्तुओंका श्रवण, मनन और विज्ञान हो जाता है, केवल उपदेशसे लभ्य उस सत्—आत्माके सबन्धमें क्या तुमने गुरुसे प्रदन किया था ? उत—अपि । 'आदिश्यते इत्यादेशः' अर्थात् जिसका केवल शास्त्र या आचार्यके उपदेशसे ज्ञान हो । "कथम्" इत्यादिसे पुत्र शङ्का करता है कि दूसरी वस्तुके ज्ञानसे दूसरी अज्ञात वस्तुका किस प्रकार ज्ञान हो सकता है । पिताकी ऐसी अद्भुत वाणी सुनकर पुत्र कहता है कि हे भगवन् !

भाष्य

‘एवं सोम्य स आदेशो भवति’ (छा० ६।१।६) इति वाक्योपक्रमे

भाष्यका अनुवाद

जिस प्रकार मिट्टीके स्वरूपके विज्ञानसे मिट्टीके सब विकारोंका विज्ञान हो जाता है, नाम, रूप विकार वाणीके आलम्बनसे ही है, वस्तुतः मृत्तिका ही सत्य है) ‘एवं सोम्य०’ (हे प्रियदर्शन ! इस प्रकार वह आदेश होता है)

रत्नप्रभा

शेषः । तत्र युक्तिमाह—वाचेति । वाचा वागिन्द्रियेण आरभ्यते इति विकारो वाचारम्भणम् । ननु वाचा नाम एव आरभ्यते, न घटादिः इत्याशङ्क्य नाममात्रमेव विकार इत्याह—नामधेयमिति ।

“नामधेयं विकारोऽयं वाचा केवलमुच्यते ।

वस्तुतः कारणाद् भिन्नो नास्ति तस्मान्मृपैव सः ॥”

इति भावः । विकारमिथ्यात्वे तदभिन्नकारणस्य अपि मिथ्यात्वम् इति न इत्याह—मृत्तिकेति । कारणं कार्याद् भिन्नसत्ताकम्, न कार्यं कारणाद् भिन्नम्, अतः कारणातिरिक्तस्य कार्यस्वरूपस्य अभावात् कारणज्ञानेन तज्ज्ञानं भवतीति स्थिते दार्ष्टान्तिकमाह—एवमिति । मृद्बद्ध ब्रह्मैव सत्यं वियदादिविकारो मृपेति ब्रह्मज्ञाने सति ज्ञेयं किञ्चित् न अवशिष्यते इत्यर्थः । यद्यपि प्रधाने ज्ञाते तच्चादात्म्यात्

रत्नप्रभाका अनुवाद

यह आदेश किस प्रकारका है ? “यथा” इत्यादिसे पिता कहता है कि कार्य कारणसे पृथक् नहीं है । ‘मृत्पिण्डेन’ के बाद ‘विज्ञातेन’ इसका अध्याहार करना चाहिए । उसमें युक्ति कहते हैं—“वाचा” इत्यादिसे । वागिन्द्रियसे आरम्भ किया जाता है, इस कारण विकार वाचारम्भण है । वागिन्द्रियसे केवल नामका ही आरम्भ होता है, घटादिका तो आरम्भ नहीं होता ऐसा शङ्का करके केवल नाम ही विकार है ऐसा कहते हैं—“नामधेयम्” पदसे । ‘नामधेयं विकारोऽयं०’ (नाम मात्र विकार है, केवल वाणीसे कहा जाता है, वस्तुतः कारणसे भिन्न नहीं है, इससे यह असत्य है) यहाँपर शङ्का होती है कि यदि विकार मिथ्या होता, तो उससे अभिन्न कारण भी मिथ्या ही ठहरता । नहीं, यह कथन ठीक नहीं है ऐसा कहते हैं—“मृत्तिका” इत्यादिसे । कारण कार्यसे भिन्नसत्ताक है—कार्यसे कारण भिन्न है, परन्तु कार्य कारणसे भिन्न नहीं है, अतः कारणसे अतिरिक्त कार्यस्वरूपका अभाव होनेसे कारणके ज्ञानसे कार्यका ज्ञान होता है, ऐसा निश्चय होनेपर दार्ष्टान्तिक कहते हैं—“एवं” इत्यादिसे । तात्पर्य यह है कि मृत्तिकाके समान मग्न ही सत्य वस्तु है, आकाश आदि विकार मिथ्या है, अतः ब्रह्मका ज्ञान होनेपर कुछ भी ज्ञेय अवाशिष्ट नहीं रहता । यद्यपि प्रधानका ज्ञान

भाष्य

श्रवणात् । न च सच्छब्दवाच्ये प्रधाने भोग्यवर्गकारणे हेयत्वेनाऽहेयत्वेन वा विज्ञाते भोक्तृवर्गो विज्ञातो भवति, अप्रधानविकारत्वाद्भोक्तृवर्गस्य । तस्मान्न प्रधानं सच्छब्दवाच्यम् ॥ ८ ॥

कुतश्च न प्रधानं सच्छब्दवाच्यम्—

भाष्यका अनुवाद

यदि प्रधान सच्छब्दवाच्य हो तो उस भोग्यवर्गके कारणका हेय अथवा अहेय रूपसे ज्ञान होनेपर भी भोक्तृवर्गका ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि भोक्तृवर्ग प्रधानका विकार नहीं है, इस कारण प्रधान सत् शब्दका अर्थ नहीं है ॥ ८ ॥

और किस कारणसे प्रधान सत् शब्दका अर्थ नहीं है ?

रत्नप्रभा

विकाराणां ज्ञानं भवति तथापि न पुरुषाणाम्, तेषां प्रधानविकारत्वाभावाद् इत्याह—
न चेति । अस्माकं जीवानां सद्व्यपत्त्वात् तज्ज्ञाने ज्ञानमिति भावः ॥ ८ ॥

कुतश्चेति । पुनरपि कस्मात् हेतोः इत्यर्थः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

होनेपर विकारोंके तत्स्वरूप प्रधानसे अभिन्न होनेके कारण उनका ज्ञान होता है, परन्तु पुरुषोंका—आत्माओंका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वे प्रधानके विकार नहीं हैं ऐसा कहते हैं—
“न च” इत्यादिसे । आशय यह है कि वेदान्त मतमें जीव सद्व्यपत्तु है इससे सत्—आत्माका ज्ञान होनेपर जीवोंका ज्ञान हो ही जाता है ॥८॥

“कुतश्च” अर्थात् और किस हेतुसे प्रधान सत् शब्दका अर्थ नहीं है ?




(१) सब भोग्य पदार्थ । उनका कारण सांख्यमतानुसार प्रधान है ।

१ २) भोगनेवाले जीव ।

स्वाप्ययात् ॥ ९ ॥

पदार्थोक्ति—स्वाप्ययात्—सुषुप्तिकाले जीवस्य स्वस्मिन् अधिष्ठाने लयश्रवणात् [चेतनमेव सच्छब्दवाच्यम्, न प्रधानम्] ।

भाषार्थ—श्रुति कहती है कि सुषुप्तिसमयमें जीव अपने अधिष्ठानमें लीन होता है, इस कारण चेतन ही सच्छब्दवाच्य है, प्रधान नहीं है (चेतन जीव अचेतन प्रधानमें लीन नहीं हो सकता) ।



भाष्य

तदेव सच्छब्दवाच्यं कारणं प्रकृत्य श्रूयते—‘यत्रैतत्पुरुषः स्वपिति नाम सता सोम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्षते स्वं ह्यपीतो भवति’ (छा० ६।८।१) इति, एषा श्रुतिः स्वपिती-

भाष्यका अनुवाद

उसी सत् शब्दवाच्य प्रस्तुत कारणके प्रकरणमें यह श्रुति है—‘यत्रैतत्पुरुषः स्वपिति०’ (जब सुषुप्तिमें पुरुषका ‘स्वपिति’ ऐसा नाम होता है, तब हे सोम्य ! वह सत्के साथ एक होता है, अपनेमें लीन होता है, इसलिए उसको ‘स्वपिति’ ऐसा कहते हैं, क्योंकि वह अपनेमें लीन होता है)

रत्नप्रभा

सुषुप्तौ जीवस्य सदात्मनि—स्वस्मिन् अप्ययश्रवणात् सत् चेतनमेव इति सूत्रयोजना । एतत् स्वपनं यथा स्यात् तथा यत्र सुषुप्तौ स्वपिति इति नाम भवति, तदा पुरुषः सता सम्पन्न एकीभवति । सदैक्येऽपि नामप्रवृत्तिः कथम् ? तत्र आह—स्वमिति । तत्र लोकप्रसिद्धिमाह—तस्मादिति । हि यस्मात् स्व सदात्मानम् अपीतो भवति तस्मात् इत्यर्थः । श्रुतेः तात्पर्यमाह—एषेत्यादिना । कथमेतावता प्रधाननिरास

रत्नप्रभाका अनुवाद

श्रुति कहती है कि सुषुप्तिमें जीवका अपनेमें अर्थात् सदात्मामें लय होता है, इससे सत् चेतन ही है, इस प्रकार सूत्रकी योजना करनी चाहिए । सुषुप्तिमें जब पुरुषका ‘स्वपिति’ नाम होता है, तब पुरुष सत्के साथ एक हो जाता है । सत्के साथ एक होनेपर भी ‘स्वपिति’ नामकी प्रवृत्ति किस प्रकार होती है, इस पर कहते हैं—“स्वम्” इत्यादि । इसमें लोकप्रसिद्धि कहते हैं—“तस्मात्” इत्यादिते । अर्थात् जिस कारण अपनेमें—सदात्मानमें

भाष्य

त्येतत्पुरुषस्य लोकप्रसिद्धं नाम निर्वक्ति । स्वशब्देनेहाऽऽत्मोच्यते, यः प्रकृतः सच्छब्दवाच्यस्तमपीतो भवत्यपिगतो भवतीत्यर्थः । अपिपूर्व-स्यैतेर्लयार्थत्वं प्रसिद्धम्, प्रभवाप्ययावित्युत्पत्तिप्रलययोः प्रयोगदर्शनात् मनः-प्रचारोपाधिविशेषसंबन्धादिन्द्रियार्थान् गृह्णंस्तद्विशेषापन्नो जीवो जागर्ति । तद्वासनाविशिष्टः स्वप्नान् पश्यन् मनःशब्दवाच्यो भवति । स उपाधि-

भाष्यका अनुवाद

यह श्रुति पुरुषके 'स्वपिति' इस लोकप्रसिद्ध नामका निर्वचन करती है । 'स्व' शब्दसे यहाँ आत्मा कहा गया है । जो प्रकृत और सत् शब्दका अर्थ है, उसमें जीव अपीत होता है अर्थात् लीन होता है । 'अपि' पूर्वक 'इण्' धातुका अर्थ-लय प्रसिद्ध है, क्योंकि 'प्रभवाप्ययौ' (उत्पत्ति और प्रलय) ऐसे प्रयोग देखनेमें आते हैं । मनके प्रचार—इन्द्रियों द्वारा बुद्धिका परिणामरूप उपाधिविशेषके संबन्धसे विषयोंको ग्रहण करता हुआ तद्विशेष (स्थूल देहके साथ ऐक्यकी भ्रान्ति) को प्राप्त हुआ जीव जागता है (ऐसा व्यवहार होता है) । उसकी वासनाओंसे युक्त होकर—जाग्रदवस्थाओंमें अनुभूत विषयोंकी वासनासे युक्त मनसहित होकर—स्वप्न देखता हुआ 'मनः' शब्दसे वाच्य होता है । दोनों उपा-

रत्नप्रभा

इत्यत आह—स्वशब्देनेति । एतेर्धातोः गत्यर्थस्य अपिपूर्वस्य लयार्थत्वेऽपि कथं नित्यस्य जीवस्य लय इति आशङ्क्य उपाधिलयात् इति वक्तुं जाग्रत्स्वप्नयोः उपाधि-माह—मन इति । ऐन्द्रियकमनोवृत्तय उपाधयः, तैः घटादिस्थूलार्थविशेषाणाम् आत्मना संबन्धात् आत्मा तानिन्द्रियार्थान् पश्यन् स्थूलविशेषेण देहेन ऐक्यभ्रान्तिम् आपन्नो विश्वसंज्ञो जागर्ति, जाग्रद्वासनाश्रयमनोविशिष्टः सन् तैजससजः स्वप्ने

रत्नप्रभाका अनुवाद

लय होता है, उसी कारण । श्रुतिका तात्पर्य कहते हैं—“एपा” इत्यादिसे । इतनेसे ही प्रधानका निराकरण किस प्रकार होता है, इसपर कहते हैं—“स्वशब्देन” इत्यादिसे । यद्यपि 'अपि' पूर्वक गत्यर्थ 'इण्' धातु लयार्थक है, तो भी नित्य जीवका लय किस प्रकार हो सकता है, ऐसी आशङ्का करके, उपाधिके लयसे जीवका लय होता है यह कहनेके लिए जाग्रत् और स्वप्नकी उपाधियों कहते हैं—“मन ” इत्यादिसे । इन्द्रियोंसे होनेवाली मनकी वृत्तियां बुद्धिपरिणाम उपाधियाँ हैं, उन उपाधियोंके द्वारा जीवका घटादि स्थूल पदार्थोंके साथ संबन्ध होता है और नेत्रादि इन्द्रियोंसे इन्द्रियोंके अर्थों—रूप, रस आदिका अनुभव करता हुआ जीव स्थूल देहके साथ एकताकी भ्रान्ति होनेसे विश्वसंज्ञक होकर जागता है ऐसा व्यवहार होता है । जाग्रदवस्थाकी वासनाओंके आश्रय मनसे संयुक्त होकर जीव तैजस

भाष्य

द्वयोपरमे सुपुप्तावस्थायामुपाधिकृतविशेषाभावात् स्वात्मनि प्रलीन इवेति 'स्वं ह्यपीतो भवति' इत्युच्यते । यथा हृदयशब्दनिर्वचनं श्रुत्या दर्शितम्—'स वा एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरुक्तं हृदयमिति, तस्माद् हृदयम्' (छा० ८।३।३) इति, यथा वाऽशनायोदन्याशब्दप्रवृत्तिमूलं दर्शयति श्रुतिः—'आप एव तदशितं नयन्ते तेज एव तत्पीतं नयते' (छा० ६।८।२, ५)

भाष्यका अनुवाद

धियोंका जब विराम हो जाता है, तब सुपुप्ति अवस्थामें उपाधिजन्य विशेषके अभावसे स्वात्मामें निलीन-त्वा होता है, अतः आत्मामें लीन होता है, ऐसा व्यवहार होता है । जैसे 'हृदय' शब्दका निर्वचन श्रुति दिसलाती है—'स वा एष आत्मा०' (वह यह आत्मा हृदयमें है, यही उस हृदयशब्दका निर्वचन है, 'हृदि' हृदयमें 'अयम्' यह आत्मा वर्तमान है, इंससे हृदय कहलाता है) और जैसे 'अशनाया' और 'उदन्या' शब्दोंका निर्वचन श्रुति दिसलाती है—'आप एव०' 'तेज एव०' (जल पुरुषसे भुक्त अन्नको द्रवीभूत करके रसादिरूपमें परिणत करता है, तेज ही उस जलको शोषण करके रक्त और प्राण रूपमें लाता है) उसी प्रकार अपनेमें अर्थात् सत्शब्दवाच्य आत्मामें

रत्नप्रभा

विचित्रवासनासहकृतमायापरिणामान् पश्यन् "सोम्य तन्मन" इति श्रुतिस्थ-मन-शब्दवाच्यो भवति, स आत्मा स्थूलसूक्ष्मोपाधिद्वयोपरमे "अह नर कर्ता" इति विशेषाभिमानाभावात् लीन इति उपचर्यते इत्यर्थ । ननु स्वपिति इति नामनिरुक्ते अर्थवादत्वात् न यथार्थता इत्यत आह—यथेति । तस्य हृदयशब्दस्य एतत् निर्वचनम् । तदशितम् अन्नं द्रवीकृत्य नयन्ते जरयन्तीति आप एव अशनायापदार्थ ,

रत्नप्रभाका अनुवाद

ससक्त होता है और स्वप्नमें विचित्र वासनाओंके साथ मायाके परिणामोंको देखता हुआ वह 'सोम्य तन्मन' (सोम्य ! वह मन है) इस श्रुतिमें कह गये मन शब्दसे वाच्य होता है । स्थूल और सूक्ष्म दोनों उपाधियोंके न रहनेसे 'मैं नर हूँ कर्ता हूँ' ऐसे विशेष अभिमानके अभावसे वही जीव गौणीश्रुतिसे लीन कहा जाता है । यहाँ पर शङ्का होती है कि 'स्वपिति' इस नामका निर्वचन अर्थवादादिरूप होनेसे, यथार्थ नहै, इसके उत्तरमें कहते हैं—'यथा' इत्यादिसे । जैसे हृदयशब्दका 'हृदि अयम्' यह निर्वचन यथार्थ है और जैसे 'तदशित मन्न०' (यह जल पुरुषसे भुक्त अन्नको गलित कर पाक करता है, इससे अशनाया कहलाता है,

भाष्य

इति च, एवं स्वमात्मानं सच्छब्दवाच्यमपीतो भवति इतीममर्थे स्वपिति-
नामनिर्वचनेन दर्शयति । न च चेतन आत्माऽचेतनं प्रधानं स्वरूप-
त्वेन प्रतिपद्येत । यदि पुनः प्रधानमेवाऽऽत्मीयत्वात् स्वशब्देनैवोच्येत,
एवमपि चेतनोऽचेतनमप्येतीति विरुद्धमापद्येत । श्रुत्यन्तरं च—
'प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरम्' (वृ० ४।३।२१)
इति सुषुप्तावस्थायां चेतनेऽप्ययं दर्शयति । अतो यस्मिन्नप्ययः सर्वेषां
चेतनानां तचेतनं सच्छब्दवाच्यं जगतः कारणं न प्रधानम् ॥९॥

कुतश्च न प्रधानं जगतः कारणम्—

भाष्यका अनुवाद

लीन होता है इस अर्थको श्रुति 'स्वपिति' शब्दके निर्वचनसे दिखलाती है ।
और चेतन आत्मा अचेतन प्रधानको अभेदसे प्राप्त नहीं हो सकता । यदि
आत्मसंबन्धी होनेके कारण प्रधान ही आत्मशब्दसे कहा जाय, तो भी चेतन
अचेतनमें लीन होता है यह कथन विरुद्ध ही होगा । 'प्राज्ञेनात्मना०' (प्राप्त
आत्माके साथ ऐक्यको प्राप्त हुआ जीव न किसी बाहरी वस्तुको जानता और
न किसी भीतरी वस्तुको जानता है) यह दूसरी श्रुति सुषुप्ति अवस्थामें चेतनमें
जीवका लय दिखलाती है । इस कारण जिसमें सब चेतनोंका लय होता है, वही
चेतन सत् शब्दवाच्य एवं जगत्का कारण है, प्रधान नहीं है ॥ ९ ॥

और किस कारणसे प्रधान जगत्का कारण नहीं है—

रत्नप्रभा

तस्मात्तम् उदकं नयते शोषयति इति तेज एव उदन्यम् । अत्र दीर्घश्छान्दसः,
एवम् इदम् अपि निर्वचनं यथार्थम् इत्याह—एवमिति । इदं च प्रधानपक्षे
न युक्तम् इत्याह—न चेति । स्वशब्दस्य आत्मीयत्वात् आत्मीयेऽपि शक्तिरस्ति
इति आशङ्क्य आह—यदीति । प्राज्ञेन विम्बचैतन्येन ईश्वरेण सम्परिष्वक्तो भेद-
भ्रमाभावेन अभेद इत्यर्थः ॥ ९ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

उस पिये हुए जलको तेज सुखा डालता है, इससे तेज उदन्य कहलाता है), श्रुतिमें
'उदन्या' पदमें आकार छान्दस है, इत्यादि निर्वचन यथार्थ हैं, उसी प्रकार इस
'स्वपिति'का निर्वचन भी यथार्थ है, ऐसा कहते हैं—“एवं” इत्यादिसे । यह प्रधान पक्षमें
युक्त नहीं है ऐसा कहते हैं—“न च” इत्यादिसे । 'स्व' शब्दकी शक्ति जैसे आत्मा
(अपने) में है, वैसे ही आत्मीय (अपना संबन्धी) में भी है ऐसी आशङ्का करके कहते
हैं—“यदि” इत्यादिसे । 'प्राज्ञेन'—विम्बचैतन्य ईश्वरके साथ । 'संपरिष्वक्त' भेद भ्रमके
अभावसे अभेदको प्राप्त यह धृत्यर्थ है ॥९॥

गतिसामान्यात् ॥ १० ॥

पदार्थोक्ति—गतिसामान्यात्—[तत्तद्वेदान्तजन्यानामवगतीनाम्] चेतन-
कारणविषयकत्वेन सामान्यात् [न अचेतनं प्रधानं जगतः कारणम्] ।

भाषार्थ—सभी वेदान्तसे जन्य 'ज्ञानमें समानता है, क्योंकि सब वेदान्तोंसे
चेतनही जगत्का कारण है ऐसा समान ज्ञान उत्पन्न होता है, अतः अचेतन प्रधान
जगत्का कारण नहीं है ।

भाष्य

यदि तार्किकसमय इव वेदान्तेष्वपि भिन्ना कारणावगतिरभविष्यत्
क्वचिचेतनं ब्रह्म जगतः कारणं क्वचिदन्यदेवेति, ततः
कदाचित् प्रधानकारणवादानुरोधेनाऽपीक्षत्यादिश्रवणमकल्पयिष्यत्, नत्वे-
तदस्ति, समानैव हि सर्वेषु वेदान्तेषु चेतनकारणावगतिः । 'यथाग्ने-

भाष्यका अनुवाद

तार्किक-सिद्धान्तोंके समान यदि वेदान्तमें भी भिन्न भिन्न कारणोंका
ज्ञान होता अर्थात् कहीं चेतन ब्रह्म, कहीं अचेतन प्रधान और कहीं दूसरा
ही जगत्का कारण होता, तो कदाचित् प्रधानकारणवादके अनुरोधसे
प्रधानके विषयमें 'ईक्षति' आदि श्रुतियोंकी गौणताकी कल्पना की जा सकती;
परन्तु ऐसा है नहीं; क्योंकि सब वेदान्तोंमें चेतन ही कारण है यह ज्ञान
समान ही है । 'यथाग्नेर्ज्वलतः' (जैसे जलती हुई आगमेंसे चिनगारियां

रत्नप्रभा

तत्तद्वेदान्तजन्यानाम् अवगतीनां चेतनकारणविषयकत्वेन सामान्यात् न
अचेतनं जगतः कारणमिति सूत्रार्थं व्यतिरेकमुखेन आह—यदि तार्किके-
त्यादिना । अन्यत् परमाण्वादिकम् । न त्वेतदिति । अवगतिवैषम्यम्
इत्यर्थः । विप्रतिष्ठेरन्—विविधं नानादिशः प्रति गच्छेयुः । प्राणाः—चक्षुरादयो

रत्नप्रभाका अनुवाद

सभी वेदान्तोंसे जन्य ज्ञानमें समानता है, क्योंकि सब वेदान्तोंसे चेतन ही जगत्का
कारण है ऐसा समान ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए अचेतन प्रधान जगत्का कारण नहीं
है इस प्रकार व्यतिरेकसे सूत्रार्थ कहते हैं—“यदि तार्किक” इत्यादिगे । 'दूगरा ही'—
परमाणु आदि । “न त्वेतत्”—अवगतिकी विषमता । 'विप्रतिष्ठेरन्’—अनेक प्रकारके
भिन्न-भिन्न दिशाओंमें जाते हैं । 'प्राणः’—चक्षु आदि । सुषुप्तिमें जिन जिस गोरक्षमें

भाष्य

ज्वलतः सर्वा दिशो विस्फुलिङ्गा विप्रतिष्ठरन्नेवमेवैतस्मादात्मनः सर्वे प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः' (कौ० ३।३) इति, 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः' (तै० २।१) इति 'आत्मत एवेदं सर्वम्' (छा० ७।२६।१) इति 'आत्मन एष प्राणो जायते' (प्र० ३।३) इति चाऽऽत्मनः कारणत्वं दर्शयन्ति सर्वे वेदान्ताः । आत्मशब्दश्च चेतनवचन इत्यवोचाम । महच्च प्रामाण्यकारणमेतद्यद्वेदान्त-वाक्यानां चेतनकारणत्वे समानगतित्वं चक्षुरादीनामिव रूपादिषु । अतो गतिसामान्यात् सर्वज्ञं ब्रह्म जगतः कारणम् ॥ १० ॥

कुतश्च सर्वज्ञं ब्रह्म जगतः कारणम्—

भाष्यका अनुवाद

सब दिशाओंमें फैलती है, उसी प्रकार उस आत्मासे सब प्राण यथास्थान फैलते हैं, प्राणोंसे देव और देवोंसे लोक), तस्माद्वा०' (उस इस आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ), 'आत्मत०' (आत्मासे यह सब प्रपञ्च होता है) इस प्रकार सब वेदान्त 'आत्मा कारण है' यह दिखलाते हैं । आत्मशब्द चेतनवाचक है यह हम कह चुके हैं । जैसे नेत्र आदिसे रूप आदिकी अवगति समान है, वैसे ही चेतन कारण है ऐसी वेदान्तवाक्योंसे अवगति समान है, यह महान् प्रामाण्यका कारण है । इस कारण—वेदान्तवाक्योंसे अवगति समान होनेके कारण—सर्वज्ञ ब्रह्म जगत्का कारण है ॥ १० ॥

और किस कारणसे सर्वज्ञ ब्रह्म जगत्का कारण है—

रत्नप्रभा

यथागोलकं प्रादुर्भवन्ति, प्राणेभ्योऽनन्तरम् देवा. सूर्यादयः तदनुग्राहकाः, तदनन्तरं लोक्यन्ते इति लोका. विषया इत्यर्थः । ननु वेदान्तानां स्वतः प्रामाण्येन प्रत्येकं स्वार्थनिश्चयकत्वसम्भवात् किं गतिसामान्येन इत्याह—महच्चेति । एकरूपावगतिहेतुत्वं वेदान्तानां प्रामाण्यसंशयनिवृत्तिहेतुः इत्यत्र

रत्नप्रभाका अनुवाद


निकलकर जो जो इन्द्रियों हृदयमें स्थित आत्मामें लीन होती हैं, वे इन्द्रियों जाग्रदवस्थाके आरम्भमें आत्मासे निकलकर उस-उस गोलकमें प्रकट होती हैं । प्राणोंसे अर्थात् इन्द्रियोंसे पीछे उनके उपकारक आदित्य आदि देयता अभिव्यक्त—प्रकट होते हैं और इसके बाद विषय अभिव्यक्त होते हैं । 'लोक'—विषय । वेदान्त स्वरूपसे ही प्रमाणभूत हैं, इससे उनमें प्रत्येक वाक्य स्वार्थनिर्धारक है, ऐसा संभव है, तो उनके प्रामाण्यको 'गति सामान्यात्' इस सूत्रसे दिखानेका क्या प्रयोजन है ? इस शङ्कापर कहते हैं—“महच्च”

श्रुतत्वाच्च ॥ ११ ॥

पदच्छेद—श्रुतत्वात्, च ।

पदार्थोक्ति—श्रुतत्वात्—‘स कारणं करणाधिपाधिपो’ इत्यादिश्रुतौ जगत्कारणस्य सर्वज्ञत्वश्रवणात् [ब्रह्मैव जगत्कारणम्, न अचेतनम्] ।

भाषार्थ—‘स कारणम्’ इत्यादि श्रुतिमें जगत्का कारण सर्वज्ञ कहा गया है, अतः ब्रह्म ही जगत्का कारण है, अचेतन प्रधान जगत्कारण नहीं है ।



भाष्य

स्वशब्देनैव च सर्वज्ञ ईश्वरो जगतः कारणमिति श्रूयते श्वेताश्वतराणां मन्त्रोपनिषदि सर्वज्ञमीश्वरं प्रकृत्य ‘स कारणं करणाधिपाधिपो न

भाष्यका अनुवाद

ईश्वर सब जगत्का कारण है ऐसा स्वशब्दसे ही श्रुति प्रतिपादन करती है । श्वेताश्वतरोंके मन्त्रोपनिषद्में सर्वज्ञ ईश्वरको प्रस्तुत करके ‘स कारण०’ (ब्रह्म

रत्नप्रभा

दृष्टान्तमाह—चक्षुरिति । यथा सर्वेषां चक्षुषामेकरूपावगतिहेतुत्वं श्रवणानां शब्दावगतिहेतुत्वं प्राणादीनां गन्धादिषु, एवं ब्रह्मणि वेदान्तानां गतिसामान्यं प्रामाण्यदर्शने हेतुः इत्यर्थः ॥ १० ॥

एवम् ईक्षत्यादिलिङ्गैः अचेतने वेदान्तानां समन्वयं निरस्य चेतनवाचकशब्देनापि निरस्यति—श्रुतत्वाच्चेति । सूत्रं व्याचष्टे—स्वशब्देनेति । स्वस्य

रत्नप्रभाका अनुवाद

इत्यादि । वेदान्तोंसे समान ज्ञान उत्पन्न होनेके कारण प्रामाण्य संशयकी निश्चिन्ता होती है इस विषयमें दृष्टान्त कहते हैं—“चक्षुः” इत्यादिमें । जैसे प्राणिमात्रका नेत्र रूपका ही ग्रहण कराता है, किसीका भी नेत्र रस आदिका ग्रहण नहीं कराता, धोत्र शब्दका ग्रहण कराता है, प्राण आदि गन्ध आदिकी अवगतिके हेतु हैं, इसी प्रकार वेदान्तोंसे ब्रह्मकी समान अवगति प्रामाण्यकी दृष्टतामें हेतु है ॥१०॥

इस प्रकार ‘ईक्षति’ आदि लिङ्गोंसे अचेतन प्रधानमें वेदान्तोंके समन्वयका निरसन करके चेतनवाचक शब्दसे भी निरसन करते हैं—“श्रुतत्वाच्च” से । सूत्रका व्याख्यान करते हैं—“स्वशब्देन” इत्यादिसे । अपना-चेतनका वाचक ‘सर्ववित्’ शब्द है । ‘सः कालकालो’

भाष्य

चास्य कश्चिज्जनितो न चाधिपः' (श्वे० ६।९) इति । तस्मात् सर्वज्ञं ब्रह्म जगतः कारणम्, नाऽचेतनं प्रधानमन्यद्वेति सिद्धम् ॥ ११ ॥

भाष्यका अनुवाद

सर्वज्ञ परमेश्वर कारण है, वह जीवोंका अधिष्ठाता है, उसका कोई उत्पादक अथवा अधिष्ठाता नहीं है) ऐसा श्रुति कहती है । इस कारण सर्वज्ञ ब्रह्म जगत्का कारण है, अचेतन प्रधान अथवा दूसरा कोई (कारण) नहीं है, यह सिद्ध हुआ ॥ ११ ॥

रत्नप्रभा

चेतनस्य वाचकः सर्वविच्छब्दः । “ज्ञः कालकालो गुणी सर्वविद् यः” (श्वे० ६।२।१६) इति सर्वज्ञ परमेश्वरं प्रकृत्य स सर्ववित् कारणमिति श्रुतत्वाच्चाऽचेतनं कारणमिति सूत्रार्थः । करणाधिपा जीवाः तेषामधिपः । अधिकरणार्थम् उपसंहरति—तस्मादिति । ईक्षणात्मशब्दादिक परमाण्वादौ अपि अयुक्तमिति मत्वा आह—अन्यद्वेति ॥ ११ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

(जो कालका भी काल, गुणी और सर्वज्ञ है) ऐसे सर्वज्ञ परमेश्वरको प्रस्तुत करके ‘स सर्व-वित् कारणम्’ (वह सर्वविद् ईश्वर कारण है) इस प्रकार श्रुति प्रतिपादन करती है, अतः अचेतन कारण नहीं है, ऐसा सूत्रार्थ है । ‘करणाधिपा’—इन्द्रियोंके अधिपति जीव, उनका अधिपति । अधिकरणके अर्थका उपसंहार करते हैं—“तस्मात्” इत्यादिसे । परमाणुओंमें भी ईक्षण आत्मशब्द आदि अयुक्त हैं, ऐसा मानकर कहते हैं—“अन्यद्वा” इत्यादिसे ॥११॥

ईक्षत्यधिकरण समाप्त ॥ ५ ॥



[६ आनन्दमयाधिकरण सू० १२-१९]

(प्रथम वर्णक)

संसारो ब्रह्म वाऽऽनन्दमयः संसारयं भवेत् ।

विकारार्थमयदृशन्दांप्रियाघवयवोक्तिः ॥

अभ्यासोपक्रमादिभ्यो ब्रह्माऽऽनन्दमयो भवेत् ।

प्राचुर्याथो मयदृशब्दः प्रियाघाःस्युरूपाधिगाः ॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—आनन्दमय जीव है अथवा ब्रह्म है ।

पूर्वपक्ष—विकारार्थक 'मयदृ' प्रत्ययके योगसे तथा प्रिय आदि अवयवोंके कथनसे आनन्दमय जीव ही है ।

सिद्धान्त—अभ्यास, उपक्रम आदि हेतुओंसे आनन्दमय ब्रह्म ही है । यहाँ पर 'मयदृ' प्रत्ययका प्रयोग प्राचुर्यरूप अर्थमें है, और प्रिय आदि अवयव आनन्दमयके उपाधिरूप विशानमयके हैं ।

(द्वितीय वर्णक)

अन्याङ्गं स्वप्रधानं वा ब्रह्मपुच्छमिति श्रुतम् ।

स्यादानन्दमयस्याङ्गं पुच्छेऽङ्गत्वप्रसिद्धितः ॥

लाङ्गूलासंभवादत्र पुच्छेनाऽऽधारलक्षणा ।

आनन्दमयजीवोऽस्मिन्नाश्रितोऽतः प्रधानता ॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' (तै० २।५) इस वाक्यमें उक्त ब्रह्मका अन्यके अङ्गरूपसे प्रतिपादन है या प्रधानतासे ।

पूर्वपक्ष—ब्रह्म आनन्दमयका अङ्ग है, क्योंकि श्रुतिमें पुच्छ शब्दका प्रयोग है, लोकमें प्रसिद्ध है कि पूँछ किसी देही की होती है ।

सिद्धान्त—ब्रह्म आनन्दमयकी पूँछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर पुच्छ शब्दका लक्षणासे आधार अर्थ है । आनन्दमय जीव ब्रह्ममें आश्रित है, अतः ब्रह्म प्रधानरूपसे कहा गया है ।

भाष्य

‘जन्माद्यस्य यतः’ इत्यारभ्य ‘श्रुतत्वाच्च’ इत्येवमन्तैः सूत्रैर्यानुदाहृतानि वेदान्तवाक्यानि, तेषां सर्वज्ञः सर्वशक्तिरीश्वरो जगतो जन्मस्थितिलयकारणमित्येतस्याऽर्थस्य प्रतिपादकत्वं न्यायपूर्वकं प्रतिपादितम् । गतिसामान्योपन्यासेन च सर्वे वेदान्ताश्चेतनकारणवादिन इति व्याख्यातम् । अतः परस्य ग्रन्थस्य किमुत्थानमिति । उच्यते—द्विरूपं हि ब्रह्म

भाष्यका अनुवाद

‘जन्माद्यस्य यतः’ सूत्रसे लेकर ‘श्रुतत्वाच्च’ पर्यन्त सूत्रोंसे जो जो वेदान्तवाक्य उद्धृत किये हैं, वे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, ईश्वर जगत्के जन्म, स्थिति और लयका कारण है इस अर्थके प्रतिपादक हैं यह बात युक्तिपूर्वक कही गई है । सब वेदान्तवाक्योंसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान एकरूप है यह कहकर सब वेदान्तवाक्य चेतनकारणवादी हैं ऐसा व्याख्यान किया गया है, तो अब आगेके ग्रन्थके आरम्भमें क्या कारण है ? ऐसा आक्षेप होनेपर कहते हैं—ब्रह्म दो

रत्नप्रभा

वृत्तानुवादेन उत्तरसूत्रसन्दर्भम् आक्षिपति—जन्मादीति । प्रथमसूत्रस्य शास्त्रोपोद्धातत्वात् जन्मादिसूत्रमारभ्य इत्युक्तम्, सर्ववेदान्तानां कार्ये प्रधानाद्यचेतने च समन्वयनिरासेन ब्रह्मपरत्वं व्याख्यातम्, अतः प्रथमाध्यायार्थस्य समाप्तत्वात् उत्तरग्रन्थारम्भे किं कारणम् इत्यर्थः । वेदान्तेषु सगुणनिर्गुणब्रह्मवाक्यानां बहुलम् उपलब्धेः, तत्र कस्य वाक्यस्य सगुणोपासनाविधिद्वारा निर्गुणे समन्वयः, कस्य वा गुणविवक्षां विना साक्षादेव ब्रह्मणि समन्वय इत्याकाङ्क्षैव कारणम् इत्याह—उच्यते इति । संक्षिप्य सगुण-

रत्नप्रभाका अनुवाद

पूर्वोक्तका अनुवाद करके उत्तरसूत्र समूहका आक्षेप—नियेध करते हैं—“जन्मादि०” इत्यादिसे । प्रथम सूत्र शास्त्रका उपोद्धातरूप है, अतः ‘जन्मादि सूत्रका आरम्भ करके’ ऐसा कहा है । वेदान्तमानका समन्वय कार्यमें है अथवा अचेतन प्रधान आदिमें है, इस मतका खण्डन करके वेदान्तोंका समन्वय ब्रह्ममें है अर्थात् वेदान्त ब्रह्मपरक हैं ऐसा कहा जा चुका है । इस प्रकार प्रथम अध्यायका अर्थ समाप्त होता है, अब आगेके ग्रन्थके आरम्भ करनेका क्या कारण है ऐसा आक्षेप करते हैं । वेदान्तोंमें सगुण और निर्गुण ब्रह्मके बोधक वाक्य बहुत उपलब्ध होते हैं । उनमें कौनसे वाक्य सगुण ब्रह्मकी उपासना द्वारा निर्गुण ब्रह्मके प्रतिपादक हैं और कौनसे वाक्य गुणकी विवक्षाके विना—माक्षान् निर्गुण ब्रह्मके प्रतिपादक हैं, यह जाननेकी आकांक्षा ही आगेके ग्रन्थके आरम्भमें हेतु है, ऐसा कहते हैं—“उच्यते”

भाष्य

अवगम्यते, नामरूपविकारभेदोपाधिविशिष्टम्, तद्विपरीतं च सर्वोपाधि-
विवर्जितम् । 'यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति, यत्र त्वस्य
सर्वमात्मैवाभूत्त् केन कं पश्येत्' (चृ० ४।५।१५) 'यत्र नान्यत्पश्यति
नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमाऽथ यत्रान्यत्पश्य-

भाष्यका अनुवाद

प्रकारका है । (१) नाम-रूपात्मक विकार—जगत्के भेद हिरण्यश्मश्रुत्वादिरूप
उपाधिसे युक्त और (२) उससे विपरीत सब उपाधियोंसे रहित । 'यत्र हि
द्वैतमिव०' (जिस अवस्थामें [अज्ञानावस्थामें] द्वैत-सा होता है, उस अवस्थामें एक
दूसरेको देखता है), 'यत्र त्वस्य०' (परन्तु जिस ज्ञानकालमें उस विद्वान्के लिए सब
जगत् आत्मरूप हो जाता है, उस कालमें कौन कर्ता किस करणसे किस विषयको
देखे), 'यत्र नान्यत्पश्यति०' (जिसका ज्ञान होनेपर अपनेसे अतिरिक्त कुछ नहीं
देखता, कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं जानता अर्थात् नेत्रसे अन्य द्रष्टव्य पदार्थको
नहीं देखता, श्रोत्रसे अन्य श्रोतव्य पदार्थको नहीं सुनता, मनसे अन्य मनन करने

रत्नप्रभा

निर्गुणवाक्यार्थमाह—द्विरूपं हीति । नामरूपात्मको विकारः सर्वं जगत्,
तद्भेदो. हिरण्यश्मश्रुत्वादिविशेषः इति वाक्यार्थः । वाक्यानि उदाहरति—
यत्र हीत्यादिना । यस्यां खलु अज्ञानावस्थायां द्वैतमिव कल्पितं भवति, तत्
तदा इतरः सन् इतरं पश्यति इति दृश्योपाधिकं वस्तु भाति । यत्र ज्ञानकाले
विदुषः सर्वं जगत् आत्ममात्रम् अभूत्, तदा तु 'केन कं पश्येत्' इति आक्षेपात्
निरुपाधिकं तत्त्वं भाति । यत्र भूम्नि निश्चितो विद्वान् द्वितीयं किमपि न वेत्ति,

रत्नप्रभाका अनुवाद

इत्यादिसे । सगुण और निर्गुण ब्रह्मके प्रतिपादक वाक्योंका अर्थ संक्षेपसे समझाते हैं—
"द्विरूपं हि" इत्यादिसे । तात्पर्य यह है कि सब जगत् नामरूपात्मक विकार है और
हिरण्यश्मश्रु आदि उसके भेद हैं । वाक्योंको उद्धृत करते हैं—"यत्र हि०" इत्यादिसे ।
जिस अज्ञानावस्थामें आभासरूप द्वैतकी कल्पना होती है, उस अवस्थामें एक पुरुष द्वारा
होकर दूसरी वस्तुको देखता है, अतः दृष्टि आदिके गोचर होनेवाली सोपाधिक वस्तु
भासती है, परन्तु जिस ज्ञानकालमें जगत् मात्र विद्वान्के लिए आत्मा ही हो गया,
आत्माके सिवा कुछ रहा ही नहीं, उस अवस्थामें किस करणसे किस विषयको कौन कर्ता
देखे, ऐसा आक्षेप किया है, अतः व्यवहारके अयोग्य उपाधिरहित वस्तु ही तत्त्व है
ऐसा मालूम होता है । जिस महान् वस्तुमें स्थित विद्वान् दूसरी किसी वस्तुको नहीं जानता

भाष्य

त्यन्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पम्, यो वै भूमा तदमृतम्, अथ यदल्पं तन्मर्त्यम्' (छा० ७।२।४।१) 'सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः, नामानि कृत्वाऽभिवदन्यदास्ते' (तै० आ० ३।१२।७)

'निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम् ।

अमृतस्य परं सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम् ॥' (श्वे० ६।१९)

भाष्यका अनुवाद

योग्य पदार्थका मनन नहीं करता और बुद्धिसे अन्य बोद्धव्य पदार्थको नहीं जानता, वह भूमा है, परन्तु जिसका ज्ञान न होने पर अपनेसे भिन्न दूसरेको देखता है, दूसरेको सुनता है, दूसरेको जानता है, वह अल्प है, जो भूमा है, वह अमृत है और जो अल्प है, वह मरणशील है) 'सर्वाणि रूपाणि०' (जो पुरुष सब रूपोंको—देव, मनुष्य आदि शरीरोंको—उत्पन्न करके 'यह देव है' 'यह मनुष्य है' इत्यादि नाम रखकर उन नामोंसे स्वयं व्यवहार करता है [उसको मैं जानता हूँ]) 'निष्कलं निष्क्रियं०' (अवयवरहित, क्रियारहित, परिणामशून्य, दोपरहित, पापरहित, मोक्षके उत्कृष्ट सेतु—पुल, जिसकी सब

रत्नप्रभा

सोऽद्वितीयो भूमा परमात्मा निर्गुणः । अथ निर्गुणोक्त्यनन्तरं सगुणमुच्यते, यत्र सगुणे स्थितो द्वितीयं वेत्ति, तदल्पं परिच्छिन्नम्, यः तु भूमा तदमृतं नित्यम् । अथेति—पूर्ववद् व्याख्येयम् । धीरः परमात्मैव सर्वाणि रूपाणि विचित्य सृष्ट्वा नामानि च कृत्वा बुद्ध्यद्यौ प्रविश्य जीवसंज्ञो व्यवहरन् यो वर्त्तते, स सगुणः तं निर्गुणत्वेन विद्वान् अपि अमृतो भवति । निर्गताः कलाः अंशा यस्मात् तत् निष्कलम्, अतो निरंशत्वात् निष्क्रियम्, अतः शान्तम् अपरिणामि । निरवद्यं रागादिदोषशून्यम्, अञ्जनं मूलतमस्सम्बन्धो धर्मादिकं वा

• रत्नप्रभाका अनुवाद

है, वह अद्वितीय निरतिशय महत्त्वतम्पन्न परमात्मा निर्गुण है । निर्गुण ब्रह्मको कहकर सगुणको कहते हैं । जिस सगुण पदार्थमें स्थित पुरुष दूसरी वस्तुको जानता है, वह परिच्छिन्न है—सातिशय है । जो भूमा है वह अमृत—नित्य है । 'अथ' शब्दका पहलेंही तरह व्याख्यान समझना चाहिए । धीर-विद्वान् परमात्मा ही सब रूपोंका चिन्तन करके—उत्पन्न करके नाम रखकर, बुद्धि आदिमें प्रवेश करके, जीव नामक होकर व्यवहार करता रहता है, वह सगुण ब्रह्म है, उसको निर्गुणरूपसे जाननेवाला विद्वान् अमृत हो जाता है । निष्कल—अवयवरहित, अतः निष्क्रिय—क्रियारहित, अतः शान्त—अपरिणामी, निरवद्य—राग आदि दोषोंसे शून्य, अञ्जन—कारणरूप अविद्याका संबन्ध अथवा धर्म,

भाष्य

‘नेति नेति’ (वृ० २।३।६) ‘अस्थूलमनणु’ (वृ० ३।८।८) ‘न्यून-
मन्यत्स्थानं संपूर्णमन्यत्’ इति च, एवं सहस्रशो विद्याविद्याविषयभेदेन
ब्रह्मणो द्विरूपतां दर्शयन्ति वाक्यानि । तत्राऽविद्यावस्थायां ब्रह्मण उपास्यो-
पासकादिलक्षणः सर्वो व्यवहारः । तत्र कानिचिद् ब्रह्मण उपासनान्य-
भाष्यका अनुवाद

लकड़ियां जल गई हैं उस अमिके समान शान्त आत्माको जानना चाहिए),
‘नेति’ (यह नहीं, यह नहीं, ऐसा), ‘अस्थूलमनणु’ (जो न स्थूल है, न
सूक्ष्म है), ‘न्यूनमन्यत्’ (एक स्थान न्यून है, अन्य स्थान सम्पूर्ण है)
ऐसे हजारों वाक्य विद्या और अविद्याके विषय-विभागसे ब्रह्म दो प्रकारका
है, ऐसा दिखलाते हैं । उनमें अविद्यावस्थामें ब्रह्ममें उपास्य, उपासक आदि
सब व्यवहार होते हैं । उपासनाओंमें ब्रह्मकी कई एक उपासनाओंका प्रयोजन

रत्नप्रभा

तच्छून्यं निरञ्जनम् । किञ्च, अमृतस्य मोक्षस्य स्वयमेव वाक्योत्थवृत्तिस्थित्वेन
परम् उत्कृष्टं सेतुं लौकिकसेतुवत् प्रापकम्, यथा दग्धेन्धनोऽनलः शाम्यति
तमिव अविद्यां तज्जं च दग्ध्वा प्रशान्तं निर्गुणम् आत्मानं विद्यात् इत्यर्थः । नेति
‘नेतीति’ । व्याख्यातम्—स्थूलादित्थैतश्चून्यम् । रूपद्वये श्रुतिमाह—न्यूनमिति ।
द्वैतस्थानं न्यूनम् अल्पं सगुणरूपं निर्गुणाद् अन्यत्, तथा सम्पूर्णं निर्गुणं
सगुणात् अन्यदित्यर्थः । एकस्य द्विरूपत्वं विरुद्धमित्यत आह—विद्येति । विद्या-
विषयो ज्ञेयं निर्गुणं सत्यम्, अविद्याविषय उपास्यं सगुणं कल्पितम् इति
अविरोधः । तत्र अविद्याविषयं विवृणोति—तत्रेति । निर्गुणज्ञानार्थम् आरोपितप्रपञ्चम्

रत्नप्रभाका अनुवाद

अधर्म आदि, उनसे रहित—निरञ्जन । जैसे पुल नदीके दूरे किनारे पर पहुँचनेका साधन है, उसी
प्रकार ‘तत्त्वमसि’ इत्यादि वाक्यसे उत्पन्न ब्रह्माकारवृत्तिमें स्वयं स्थित ब्रह्म संसारसागरके उस
पार जानेका उपाय है । जैसे दग्धेन्धन—जिसकी लकड़ियाँ जल गई हैं, वह अग्नि शान्त हो जाती
है, उसी प्रकार आत्मा भी अज्ञान और उसके कार्यको जलाकर प्रशान्त—प्रसन्न होता है, उस आत्मा-
को जानना चाहिए । “नेति नेति” इसका विवरण पीछे किया गया है । ‘अस्थूलम्’—स्थूल आदि
द्वैतश्चून्य । ब्रह्म दो प्रकारका है, इसमें धृतिको प्रमाणरूपसे उद्धृत करते हैं—“न्यूनम्” इत्यादिसे ।
द्वैत न्यून—अल्प, सगुण और निर्गुणसे भिन्न है । इसी प्रकार सम्पूर्ण—निर्गुण सगुणसे भिन्न है एकके
दो रूप विरुद्ध हैं, ऐसी शङ्का करके कहते हैं—“विद्या” इत्यादि । विद्याका विषय ज्ञेय, निर्गुण एवं
सत्य है । अविद्याका विषय उपास्य, सगुण एवं कल्पित है, इस प्रकार दोनोंका विषय भेद होनेसे
विरोध नहीं है । उनमें अविद्याके विषयका विवरण करते हैं—“तत्र” इत्यादिसे । निर्गुण ब्रह्मके

भाष्य

अभ्युदयार्थानि, कानिचित् क्रममुक्त्यर्थानि, कानिचित् कर्मसमृद्ध्यर्थानि । तेषां गुणविशेषोपाधिभेदेन भेदः । एक एव तु परमात्मेश्वरस्तैस्तेर्गुणविशेषैर्विशिष्ट उपास्यो यद्यपि भवति, तथापि यथागुणोपासनमेव फलानि

भाष्यका अनुवाद

अभ्युदय, कई एकका क्रममुक्ति और कई एकका कर्म-समृद्धि है । गुण-विशेषसे और उपाधिके भेदसे उनका परस्पर भेद है । यद्यपि उन गुणोंसे विशिष्ट एक ही ईश्वर परमात्मा उपास्य है, तो भी जिस गुणकी उपासना करता है, उसीके अनुसार भिन्न

रत्नप्रभा

आश्रित्य बोधात् प्राक्काले गुडजिह्विकान्यायेन तत्तत्फलार्थानि उपासनानि विधीयन्ते । तेषां चित्तैकाग्र्यद्वारा ज्ञानं मुख्यं फलम् इति तद्वाक्यानाम् अपि महातात्पर्यं ब्रह्मणि इति मन्तव्यम् । 'नाम ब्रह्म' इत्याद्युपास्तीनां कामचारादिः अभ्युदयः फलम्, दहराद्युपास्तीनां क्रममुक्तिः, उद्गीथादिध्यानस्य कर्मसमृद्धिः फलमिति भेदः । ध्यानानां मानसत्वात् ज्ञानान्तरङ्गत्वाच्च ज्ञानकाण्डे विधानमिति भावः । ननु उपास्यब्रह्मण एकत्वात् कथमुपासनानां भेदः, तत्राह—तेषामिति । गुणविशेषाः सत्यकामत्वादयः । हृदयादिरुपाधिः । अत्र स्वयमेव आशङ्क्य परिहरति—एक इति । परमात्मस्व-

रत्नप्रभाका अनुवाद

ज्ञानके लिए अर्धस्त, प्रपञ्चको आश्रय करके प्रपञ्चके बाधसे पूर्व गुडजिह्विकान्यायसे अन्यान्य फलके लिए उपासनाओंका विधान किया गया है, उन उपासनाओंका भी चित्तके ऐकाग्र्य द्वारा ब्रह्मज्ञान ही मुख्य फल है, इसलिए उपासनावाक्योंका भी महातात्पर्य ब्रह्ममें है, ऐसा समझना चाहिए । 'नाम ब्रह्म है' इत्यादि उपासनाओंका कामचार—यथेष्टाचार अर्थात् अपनी इच्छासे जहाँ चाहे वहाँ जाना आदि अभ्युदय फल है । दहर आदि उपासनाओंका फल क्रममुक्ति है । उद्गीथ आदिके ध्यानका कर्मसमृद्धि फल है, ऐसा भेद जानना चाहिए । ध्यान मानस है और ज्ञानका अन्तरङ्ग साधन है, इसलिए ज्ञानकाण्डमें उसका विधान किया गया है । उपास्य ब्रह्म एक है तो उपासनाओंमें भेद कैसे है ? इस शङ्काका निवारण करते हैं—“तेषाम्” इत्यादिसे । सत्यकामत्व आदि गुणविशेष हैं, हृदय आदि उपाधि है । यहाँ स्वयं ही शङ्का करके

(१) कड़वी दवा न पीनेवाले लड़केकी नीममें गुड़का लेप करके उस दवाकी पिलाते हैं, ऐसे स्थलोंमें यह न्याय प्रवृत्त होता है । अथवा 'पितृ निम्बं प्रशस्त्वामि खलु खण्डकलङ्कु-काम् । पितृव्यमुक्तः पितृति तिरुगम्यति बालकः ॥' जब लड़के कड़ु औषध नहीं पीते हैं, तब पिता आदि लोग दिखलाते हैं कि दवा पीओ तो लड़के दंगे इत्यादि । तब लड़के शर्करा आदिके लोमसे अति कड़ु औषधको पी जाते हैं । इसमें दवा पीनेका फल शर्करालाभ नहीं है, किन्तु आरोग्य होना ही फल है, उसी प्रकार कर्ममें जो पुरुष प्रवृत्त नहीं होता है, उसको वेद स्वर्ग आदि भवान्तर फलोंका लोभ दिखाकर प्रवृत्त कराता है, परन्तु उस कर्मानुष्ठानका फल मोक्ष ही है ।

भाष्य

भिद्यन्ते । 'तं यथा यथोपासते तदेव भवति' इति श्रुतेः, यथाऋतु-
रस्मिँल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति' (छा० ३।१४।१) इति
च । स्मृतेश्च—

'यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।

तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ (गी० ८।६) इति ।

यद्यप्येक आत्मा सर्वभूतेषु स्थावरजङ्गमेषु गूढः, तथापि चित्तोपाधि-

भाष्यका अनुवाद

भिन्न फल होते हैं, क्योंकि 'तं तथा०' (उसकी जिस जिस रूपसे उपासना करता है, वही रूप प्राप्त करता है) और 'यथा ऋतुरस्मिँल्लोके०' (पुरुष इस लोकमें जैसा संकल्प करता है, परलोकमें जाकर वैसा ही होता है) ये श्रुतियाँ एवं 'यं यं वापि स्मरन्०' (हे कुन्तीपुत्र ! मनुष्य जिस जिस भावका स्मरण करता हुआ अन्तमें शरीर छोड़ता है, उस भावकी भावनावाला वह पुरुष उसी भावको प्राप्त होता है) यह स्मृति ऐसा ही प्रतिपादन करती हैं । यद्यपि एक ही आत्मा स्थावर

रत्नप्रभा

रूपाभेदेऽपि उपाधिभेदेन उपहितोपास्यरूपभेदाद् उपासनानां भेदे सति फलभेद इति भावः । तं परमात्मानं यद्यद्गुणत्वेन लोका राजानमिव उपासते, तत्तद्गुणवत्त्वमेव तेषां फलं भवति । ऋतुः सङ्कल्पो ध्यानम् । इह यादृशध्यानवान् भवति, मृत्वा तादृशोपास्यरूपो भवति । इत्यत्र एव भगवद्वाक्यमाह—स्मृतेश्चेति । ननु सर्वभूतेषु निरतिशयात्मन एकत्वात् उपास्योपासकयोः तारतम्यश्रुतयः कथं इति आशङ्क्य परिहरति—यद्यप्येक इति । उक्तानामुपाधीनां शुद्धितारत-

रत्नप्रभाका अनुवाद

उसका परिहार करते हैं—“एक” इत्यादिसे । तात्पर्य यह है कि यद्यपि परमात्माके स्वरूपका भेद नहीं है,—तो भी उपाधिभेदसे—उपाधिसहित जो उपास्य है, उसका भेद होनेसे उपासनाओंमें भेद होता है और उनमें भेद होनेसे फलोंमें भेद होता है । लोग राजाकी उपासनाकी तरह उस परमात्माकी जिस जिस रूपसे उपासना करते हैं, उस उस रूपको प्राप्त करना ही उनके लिए फल होता है । 'ऋतुः'—सङ्कल्प, ध्यान । इस लोकमें पुरुष जिस देवताका जिस रूपसे ध्यान करता है, मरनेके बाद उसी उपास्य देवताके स्वरूपको प्राप्त होता है । इस विषयमें भगवान्‍रु वाक्य उद्धृत करते हैं—“स्मृतेश्च” इत्यादिसे । यहाँपर शङ्का होती है कि सब भूतोंमें निरतिशय आत्मा एक ही है, तो उपास्य और उपासकका तारतम्य-भेद दिखानेवाली श्रुतियाँ किस प्रकार संगत होती हैं, इस शङ्काका

भाष्य

विशेषतारतम्यादात्मनः कूटस्थनित्यस्यैकरूपस्याऽप्युत्तरोत्तरमाविष्कृतस्य तारतम्यमैश्वर्यशक्तिविशेषैः श्रूयते—‘तस्य य आत्मानमाविस्तरां वेद’ (ऐ० आ० २।३।२।१) इत्यत्र । स्मृतावपि—

‘यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्जितमेव वा ।

तत्तदेवाऽवगच्छ त्वं मम तेजोऽशसंभवम् ॥’ (गी० १०।४१)

इति । यत्र यत्र विभूत्याद्यतिशयः स स ईश्वर इत्युपास्यतया चोद्यते ।

भाष्यका अनुवाद

और जंगम सब भूतोंमें गूढ़ है, तो मी चित्तरूपी उपाधिविशेषके भेदसे उत्तरोत्तर प्रकट हुए कूटस्थ नित्य एकरूप आत्माका ऐश्वर्यशक्तिविशेषसे भेद ‘तस्य य०’ (उस उक्थरूप पुरुषके शरीरमें वर्तमान चिद्रूप आत्माको जो पुरुष अतिशय जानता है—उपासना करता है) इस श्रुतिमें सुना जाता है । और यही विषय ‘यद्यद्विभूतिमत् सत्त्वं०’ (जो जो ऐश्वर्यशाली पदार्थ श्रीमत् अथवा उत्कृष्ट है, उसको तुम मेरे तेजके अंशसे ही उत्पन्न हुआ जानो) इस स्मृतिमें भी है । जहाँ जहाँ विभूति आदिका अतिशय है, उसकी ईश्वर समझकर उपासना करनी चाहिए ऐसा विधान है । इसी प्रकार यहाँ (सूत्रमें)

रत्नप्रभा

म्याद् ऐश्वर्यज्ञानसुखरूपशक्तीनां तारतम्यरूपा विशेषा भवन्ति तैः एकरूपस्य आत्मन उत्तरोत्तरं मनुष्यादिहिरण्यगर्भान्तेषु आविर्भावतारतम्यं श्रूयते । तस्य आत्मन आत्मानं स्वरूपं आविस्तरां प्रकटतरं यो वेद उपास्ते सोऽश्नुते तदिति तरप्प्रत्ययाद् इत्यर्थः । तथा च निकृष्टोपाधिः आत्मैवोपासकः, उत्कृष्टोपाधिः ईश्वर उपास्यः, इति औपाधिकं तारतम्यम् अविरोद्धम् इति भावः । अत्राऽर्थे भगवद्गीताम् उदाहरति—स्मृताविति । अत्र सूर्यादिरपि न जीवत्वेनोपास्यता,

रत्नप्रभाका अनुवाद

समाधान करते हैं—“यद्यप्येक” इत्यादिसे । उक्त उपाधियोंकी श्रुतिके तारतम्यसे ऐश्वर्य, ज्ञान और सुखरूप शक्तिके तारतम्य होते हैं, उन भेदोंसे एकरूप आत्माका मनुष्य आदिसे लेकर हिरण्यगर्भ पर्यन्तमें न्यूनाधिकरूपसे आविर्भाव सुना जाता है । जो आत्माके सविशेष रूपकी उपासना करता है, वह अतिशय प्राप्त करता है, ऐसा ‘तरप्’ प्रत्ययसे भाव्य होता है । इस कारण निकृष्ट उपाधिवाला आत्मा ही उपासक है और उत्कृष्ट उपाधिवाला ईश्वर उपास्य है, इस प्रकार उपाधिसे हुआ तारतम्य अविरोद्ध है । उपास्य ईश्वरका तारतम्य भगवद्गीताते भी सिद्ध है, ऐसा कहते हैं—“स्मृतावपि” इत्यादिसे ।

भाष्य

एवमिहाऽप्यादित्यमण्डले हिरण्मयः पुरुषः सर्वपाप्मोदयलिङ्गात् पर एवेति वक्ष्यति । एवं 'आकाशस्तल्लिङ्गात्' (ब्र० सू० १।१।२२) इत्यादिषु द्रष्टव्यम् । एवं सद्योमुक्तिकारणमप्यात्मज्ञानमुपाधिर्विशेषद्वारेणोपदिश्यमानं विवक्षितोपाधिसंबन्धविशेषं परापरविषयत्वेन सन्दिह्यमानं वाक्यगतिपर्यालोचनया निर्णेतव्यं भवति । यथैव तावत् 'आनन्दमयोऽभ्यासात्' इति । एवमेकमपि ब्रह्मापेक्षितोपाधिसंबन्धं निरस्तोपाधिसंबन्धं चोपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन च वेदान्तेषूपदिश्यत इति प्रदर्शयितुं परो ग्रन्थ आरभ्यते । यच्च 'गतिसामान्यात्' इत्यचेतनकारणनिराकरणमुक्तम्, तदपि वाक्यान्तराणि ब्रह्मविषयाणि व्याचक्षाणेन ब्रह्मविपरीतकारणनिषेधेन प्रपञ्च्यते—

भाष्यका अनुवाद

मी आदित्यमण्डलमें हिरण्मय पुरुष है, वह सब पापोंके संसर्गसे रहित होनेके कारण परमात्मा ही है ऐसा आगे कहेंगे, उसी प्रकार 'आकाश०' इत्यादि स्थलोंमें समझना चाहिए । इस प्रकार सद्योमुक्तिका कारण आत्मज्ञान मी उपाधिविशेष द्वारा उपदिष्ट होनेसे और उपाधिसंबन्धविशेषकी विवक्षा न होनेसे परविषयक है अथवा अपरविषयक है, ऐसा सन्देह होता है, अतः तात्पर्यका पर्यालोचन करके उसका निर्णय करना चाहिए । जैसे कि यही 'आनन्दमयो०' इस सूत्रमें किया है । इस प्रकार एक ही ब्रह्म उपाधिसंबन्धकी अपेक्षा होनेसे उपास्य और उपाधिसंबन्धरहित होनेसे ज्ञेय है, ऐसा वेदान्तोंमें उपदेश किया गया है, यह दिखलानेके लिए अब आगेके ग्रन्थका आरम्भ किया जाता है । वेदान्त-वाक्योंसे ब्रह्मकी समान अवगति होनेसे अचेतन कारणका जो निराकरण किया है, उसका भी ब्रह्मविषयक दूसरे वाक्योंका व्याख्यान करनेवाले सूत्रकार ब्रह्मभिन्न

रत्नप्रभा

किन्तु ईश्वरत्वेन इत्युक्तं भवति । तत्र सूत्रकारसम्प्रतिमाह— एवमिति । उदयः असम्बन्धः । एवं यस्मिन् वाक्ये उपाधिः विवक्षितः तद्वाक्यमुपासनापरम् इति वक्तुमुत्तरसूत्रसन्दर्भस्य आरम्भ इत्युक्त्वा यत्र न विवक्षितः तद्वाक्यं ज्ञेयब्रह्मपरमिति

रत्नप्रभाका अनुवाद

उसमें सूर्य आदि भी जीवस्वरूपसे उपास्य नहीं हैं, किन्तु ईश्वररूपसे उपास्य हैं ऐसा तात्पर्य है । उसमें सूत्रकारकी संमति कहते हैं—“एवम्” इत्यादिमें । उदय—असंबन्ध । इस प्रकार जिस वाक्यमें उपाधि विवक्षित है, वह वाक्य उपासनापरक है, यह दिखानेके

आनन्दमयोऽभ्यासात् ॥ १२ ॥

पदच्छेद—आनन्दमयः, अभ्यासात् ।

पदार्थोक्ति—आनन्दमयः—‘अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः’ इति श्रुतौ आनन्दमयः [परमात्मैव, न जीवः, कुतः] अभ्यासात्—आनन्दशब्दस्य बहुश्रुतिषु ब्रह्मण्येव प्रयोगदर्शनात् ।

भाषार्थ—‘अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः’ इस श्रुतिमें ‘आनन्दमय’ शब्दसे परमात्मा ही लिया गया है, जीव नहीं लिया गया है, क्योंकि अनेक श्रुतियोंमें ब्रह्मके लिए ही आनन्द शब्दका प्रयोग देखा गया है ।



भाष्य

तैत्तिरीयकेऽन्नमयम्, प्राणमयम्, मनोमयम्, विज्ञानमयम्, चाऽनुक्रम्य आम्नायते—‘तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः’

भाष्यका अनुवाद

कारणके निषेधसे विस्तार करेंगे । तैत्तिरीयक उपनिषद्में क्रमशः अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमयको आत्मा कहकर—‘तस्माद्वा०’ (उस विज्ञानमयसे भिन्न उससे अन्तर आत्मा आनन्दमय है) इस श्रुतिसे आनन्दमय

रत्नप्रभा

१० निर्णयार्थमारम्भ इत्याह—एवं सद्य इति । अन्नमयादिकोशा उपाधिविशेषाः । वाक्यगतिः तात्पर्यम् । आरम्भसमर्थनमुपसंहरति—एवमेकमपीति । सिद्धवदुक्त-गतिसामान्यस्य साधनार्थमप्युत्तरारम्भ इत्याह—यच्चेति । अन्नं प्रसिद्धं प्राणमनो-बुद्धयः हिरण्यगर्भरूपाः, बिम्बचैतन्यम् ईश्वर आनन्दः, ‘तेषां पञ्चानां विकारा

रत्नप्रभाका अनुवाद

लिए उत्तर ग्रन्थका आरम्भ है, ऐसा कहकर जिसमें उपाधि विवक्षित नहीं है, वह वाक्य शेष ब्रह्मपरक है, यह निर्णय करनेके लिए आरम्भ है ऐसा कहते हैं—“एवं सद्य.” इत्यादिसे । अन्नमय आदि कोश उपाधिविशेष हैं । ‘वाक्यगतिः’—तात्पर्य । उत्तरसूत्र सन्दर्भके आरम्भके समर्थनका उपसंहार करते हैं—“एवमेकमपि” इत्यादिसे । वेदान्त-वाक्योंका तात्पर्य सिद्ध ब्रह्ममें है ऐसा पहले कहा जा चुका है, उसको सिद्ध करनेके लिए भी अग्रिम ग्रन्थका आरम्भ है ऐसा कहते हैं—“यच्च” इत्यादिसे । अन्न प्रसिद्ध है, प्राण, मन और बुद्धि ये तीन हिरण्यगर्भरूप हैं, बिम्बचैतन्य—ईश्वर

भाष्य

(तै० २।५) इति । तत्र संशयः—किमिहाऽऽनन्दमयशब्देन परमेव ब्रह्मोच्यते यत् प्रकृतम् 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तै० २।१) इति, किं वाऽन्नमयादिवद् ब्रह्मणोऽर्थान्तरमिति । किं तावत् प्राप्तम्, ब्रह्मणोऽर्थान्तरममुख्य आत्माऽऽनन्दमयः स्यात् । कस्मात् ? अन्नमयाद्यमुख्यात्मप्रवाहपतितत्वात् । अथापि स्यात् सर्वान्तरत्वादानन्दमयो मुख्य एवाऽऽत्मेति । न स्यात्,

भाष्यका अनुवाद

आत्मा कहा है । इसमें संशय होता है कि यहां पर आनन्दमय शब्दसे 'सत्यं ज्ञानं' (ब्रह्म सत्य, ज्ञान, अनन्त है) इस प्रस्तुत परब्रह्मका ही प्रतिपादन है—अथवा अन्नमय आदिके समान ब्रह्मसे भिन्न पदार्थका प्रतिपादन है ।

पूर्वपक्षी—आनन्दमय शब्दसे ब्रह्मसे भिन्न जीव अमुख्य आत्माका प्रतिपादन किया गया है; क्योंकि आनन्दमयका उस स्थलपर वर्णन हुआ है, जहांपर कि अन्नमय आदि अमुख्य आत्माका वर्णन है ।

सिद्धान्ती—सर्वान्तर होनेके कारण आनन्दमय मुख्य आत्मा ही होना चाहिए ।

रत्नप्रभा

आध्यात्मिका देहप्राणमनोबुद्धिजीवा अन्नमयादयः पञ्चकोशाः" इति श्रुतेः परमार्थः । पूर्वाधिकरणे गौणमुख्येक्षणयोः अतुल्यत्वेन संशयाभावाद् गौणप्रायपाठो न निश्चायक इत्युक्तं तर्हि मयटो विकारे प्राचुर्ये च मुख्यत्वात् संशये विकारप्रायपाठादानन्दविकारो जीव आनन्दमय इति निश्चयोऽस्ति इति प्रत्युदाहरणसङ्गत्या पूर्वपक्षमाह—किं तावदिति । आनन्दमयपदस्य अमुख्यार्थग्रहे हेतुं पृच्छति—कस्मादिति । विकारप्रायपाठ-

रत्नप्रभाका अनुवाद

आनन्द है । अन्न, प्राण, मन, बुद्धि और आनन्द इन पांचोंके विकार आध्यात्मिक देह, प्राण, मन, बुद्धि जीव ये पांच अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय पञ्चकोश हैं, यह श्रुतिका तात्पर्यार्थ है । पीछे ईश्वर्याधिकरणमें गौण ईक्षण और मुख्य ईक्षण इन दोनोंके मुख्य न होनेसे संशयका उदय नहीं होता इसमें गौणप्रचुर पाठ निश्चायक नहीं है ऐसा कहा है, तो 'आनन्दमय' में मयट् प्रत्यय विकार और प्राचुर्य दोनों अर्थोंमें मुख्य हैं, उन दोनोंके मुख्य होनेसे संशय उत्पन्न होता है कि यहाँपर मयट् विकारार्थक है अथवा प्राचुर्यार्थक है । संशय उत्पन्न होनेपर विकारप्रकरणमें (अन्नमय आदिमें) आनन्दका पाठ होनेसे निश्चय होता है कि आनन्दका विकार जीव आनन्दमय है । इस प्रकार प्रत्युदाहरणकी संगति दिशलाकर पूर्वपक्ष फटते हैं—'किं तावत्' इत्यादिसे । आनन्दमय पदके अमुख्य (गौण) अर्थके ग्रहणमें कारण पूछते

भाष्य

प्रियाद्यवयवयोगाच्छारीरत्वश्रवणाच्च । मुख्यधेदात्माऽऽनन्दमयः स्यान्न
 प्रियादिसंस्पर्शः स्यात् । इह तु 'तस्य प्रियमेव शिरः' इत्यादि श्रूयते ।
 शारीरत्वं च श्रूयते—'तस्यैव एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य' इति । तस्य
 पूर्वस्य विज्ञानमयस्यैव एव शारीर आत्मा य एष आनन्दमय इत्यर्थः ।
 न च सशरीरस्य सतः प्रियाप्रियसंस्पर्शो चारयितुं शक्यः । तस्मात् संसार्ये-
 वाऽऽनन्दमय आत्मा, इत्येवं प्राप्त इदमुच्यते—'आनन्दमयोऽभ्यासात्' ।
 पर एव आत्माऽऽनन्दमयो भवितुमर्हति । कुतः ? अभ्यासात् । परस्मि-
 भाष्यका अनुवाद

पूर्वपक्षी—नहीं आनन्दमय मुख्य आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि श्रुतिने
 आत्माके प्रिय आदि अवयवों और शरीरके साथ सम्बन्धका प्रतिपादन किया
 हैं । आनन्दमय यदि मुख्य आत्मा होता, तो उससे प्रिय आदिका संबन्ध न
 होता । परन्तु यहाँ श्रुति 'तस्य प्रियं' (उसका प्रियही शिर है) इत्यादिका
 प्रतिपादन करती है । और शारीरत्व भी 'तस्यैव एव' (यह जो आनन्दमय
 आत्मा है, उस पूर्वका—विज्ञानमयका यही शरीर—शरीरान्तर्गत है) इस श्रुतिसे
 प्रतिपादित है । उस पूर्वका अर्थात् विज्ञानमय आत्माका यही शरीर
 आत्मा है, यह जो आनन्दमय है ऐसा श्रुतिक अर्थ है । और सशरीर आत्मामें
 प्रिय और अप्रियके संबन्धका निवारण नहीं किया जा सकता । इस कारण
 आनन्दमय संसारी—जीव ही है ।

ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर उसके खण्डनके लिए 'आनन्दमयो' यह सूत्र कहा जाता है । परमात्माको ही आनन्दमय कहना उचित है,

रत्नप्रभा

हेतुमाह—अन्नमयादीति । श्रुत्यादिसंगतयः स्फुटा एव । पूर्वपक्षे वृत्तिकारमते
 जीवोपास्त्या प्रियादिप्राप्तिः फलम्, सिद्धान्ते तु ब्रह्मोपास्त्या इति भेदः ।
 शङ्कते—अथापीति । परिहरति—न स्यादिति । संगृहीतं विवृणोति—मुख्य

रत्नप्रभाका अनुवाद

है—“कस्मात्” ये । विकारप्रायपाठरूप हेतु कहते हैं—“अन्नमयादि” इत्यादिसे । श्रुति आदि
 संगतियां स्पष्ट ही हैं । पूर्वपक्षमें अर्थात् श्रुतिकारके मतमें जीवकी उपासनासे प्रिय आदिकी
 प्राप्ति फल है । सिद्धान्तमें ब्रह्मकी उपासनासे प्रिय आदिकी प्राप्ति फल है, दोनोंमें यही
 अन्तर है । “अथापि” इत्यादिसे शङ्का करते हैं । “न स्यात्” इत्यादिसे शङ्काका परिहार करते
 हैं । सङ्कलित अर्थका विवरण करते हैं—“मुख्य” इत्यादिसे । ‘मुख्य आत्मा’—परमात्मा ।
 शरीरयुक्त होनेपर भी यह ईश्वर क्यों न कहा जाय इस शङ्कापर कहते हैं—“न च”

भाष्य

त्रेव ह्यात्मन्यांनन्दशब्दो बहुकृतवोऽभ्यस्यते । आनन्दमयं प्रस्तुत्य 'रसो वै सः' इति तस्यैव रसत्वमुक्तवोच्यते—'रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति' इति । 'को ह्येवान्यात्कः प्राण्यात्, यदेव आकाश आनन्दो न स्यात्, एष ह्येवानन्दयाति' (तै० २।७) 'सैपानन्दस्य मीमांसा भवति, (तै० २।८।१) एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति, आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति

भाष्यका अनुवाद

क्यों ? अभ्याससे । परमात्मामें ही आनन्दशब्द बारबार प्रयुक्त हुआ है, आनन्द-मयको प्रस्तुत करके 'रसो०' इस प्रकार उसका रसत्व कहकर 'रसं ह्येवायं०' (यह पुरुष रसको ही प्राप्त करके आनन्दयुक्त होता है) 'को ह्येवान्यात्कः०' (यदि आकाश-पूर्ण परब्रह्मरूप यह आनन्द न होता, तो कौन चेष्टा करता और कौन जीता, यह परमात्मा ही आनन्द प्राप्त करता है) 'सैपानन्दस्य०' (यह आनन्दकी विचारणा होती है) 'एतमानन्दमयं०'

रत्नप्रभा

इति । परमात्मेत्यर्थः । शारीरत्वेऽपि ईश्वरत्वं किं न स्यादित्यत आह—न चेति । जीवत्वं दुर्वारमित्यर्थः । ननु आनन्दपदाभ्यासेऽपि आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वं कथम् इत्याशङ्क्य ज्योतिष्टोमाधिकारे ज्योतिष्पदस्य ज्योतिष्टोमपरस्ववत् आनन्दमय-प्रकरणस्थानन्दपदस्य आनन्दमयपरत्वात् तदभ्यासः तस्य ब्रह्मत्वसाधक इति अभि-प्रेत्य आह—आनन्दमयं प्रस्तुत्येति । रसः—सारः आनन्द इत्यर्थः । अयं लोकः, यद् यदि एष आकाशः पूर्णः आनन्दः साक्षी प्रेरको न स्यात्, तदा को वा अन्यात् चलेत्, को वा विशिष्य प्राण्यात् जीवेत्, तस्माद् एष एव आनन्दयाति आनन्दयतीत्यर्थः । "युवा स्यात् साधुयुवा" [तै० २।८।१]

रत्नप्रभाका अनुवाद

इत्यादि । जीवत्वका निवारण करना कठिन है ऐसा आशय है । यहाँपर शङ्का होती है कि 'आनन्द' पदका अभ्यास होनेपर भी 'आनन्दमय' ब्रह्मवाचक किंग प्रकार है ऐसी शङ्का करके उसका समाधान करते हैं कि जैसे ज्योतिष्टोमके प्रकरणमें पठित 'ज्योति-' पदका अर्थ ज्योतिष्टोम है, उसी प्रकार आनन्दमय प्रकरणमें पठित आनन्दपद आनन्दमयपरक है, आनन्दपदका अभ्यास आनन्दमयमें ब्रह्मत्वका साधक है, इस अभिप्रायसे कहते हैं— "आनन्दमयं प्रस्तुत्य" इत्यादि । रस—सार, अर्थात् आनन्द । यह—जन । यदि यह पूर्ण, साक्षी प्रेरणा करनेवाला आनन्द न होता तो कौन चेष्टा करता और कौन जीता, इसलिये यह 'आनन्दरूप आत्मा ही मयको आनन्द देता है यह भूमिका अर्थ है । 'युवा स्यात्०'

भाष्य

कुतश्चन' (तै० २।८,९) इति । 'आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्' (तै० ३।६) इति च । श्रुत्यन्तरे च—'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' (बृ० ३।९।२८) इति ब्रह्मण्येवाऽऽनन्दशब्दो दृष्टः । एवमानन्द-शब्दस्य बहुकृत्यो ब्रह्मण्यभ्यासादानन्दमय आत्मा ब्रह्मेति गम्यते । यत्तूक्तम्—“अन्नमयाद्यमुख्यात्मप्रवाहपतितत्वादानन्दमयस्याऽप्यमुख्यत्व-मिति, नाऽसौ दोषः । आनन्दमयस्य सर्वान्तरत्वात् । मुख्यमेव

भाष्यका अनुवाद

(विद्वान् उस आनन्दमय आत्माको प्राप्त करता है) 'आनन्दं०' आनन्द-रूप (ब्रह्मको जाननेवाला किसीसे भय नहीं करता) और 'आनन्दो०' (आनन्द ब्रह्म है ऐसा भृगुने समझा) ऐसा श्रुति कहती है । दूसरी श्रुतिमें भी 'विज्ञानमानन्दं०' (विज्ञान आनन्द ब्रह्म है) इस प्रकार ब्रह्ममें ही आनन्दशब्द देखनेमें आता है । इसी प्रकार आनन्दशब्दका ब्रह्मरूप अर्थमें बहुत बार प्रयोग हुआ है, अतः आनन्दमय आत्मा ब्रह्म ही है ऐसा ज्ञात होता है । यह जो कहा था कि अन्नमय आदि अमुख्य आत्माओंकी परम्परामें पठित होनेके कारण आनन्दमय आत्मा भी अमुख्य ही है, यह दोष नहीं है,

रत्नप्रभा

इत्यादिना वक्ष्यमाणमनुष्ययुवानन्दम् आरभ्य ब्रह्मानन्दावसाना एषा सन्निहिता आनन्दस्य तारतम्यमीमांसा भवति । उपसंक्रामति विद्वान् प्राप्नोति इति एक-देशिनामर्थः । मुख्यसिद्धान्ते तु उपसंक्रमणं विदुयः कोशानां प्रत्यङ्मात्रत्वेन विलापनमिति ज्ञेयम् । शिष्टमुक्तार्थम् । आनन्दशब्दाद् ब्रह्मावगतिः सर्वत्र समाना इति गतिसामान्यार्थमाह—श्रुत्यन्तरे चेति । लिङ्गात् अमुख्या-त्मसन्निधेः बाध इति मत्वा आह—नासाविति । सर्वान्तरत्वं न श्रुतम् इत्याशङ्क्य ततोऽन्यस्य अनुक्तेः तस्य सर्वान्तरत्वमिति विवृणोति—

रत्नप्रभाका अनुवाद

इस प्रकार ब्रह्मवर्णके आठवें अनुवाकमें युवा पुरुषके आनन्दसे लेकर ब्रह्मानन्दपर्यन्त आनन्दके तारतम्यकी आलोचना की है । 'उपसंक्रामति'—विद्वान् प्राप्त करता है यह एकदेशीके मतसे अर्थ है । मुख्य सिद्धान्तमें तो कोशोंको प्रत्यङ् (आत्म) रूपसे देखता है ऐसा कोशोंका विलापन अर्थ समझना चाहिए । अवशिष्ट ग्रन्थ स्पष्टार्थ है । सर्वत्र आनन्द शब्दसे ब्रह्मकी ही अवगति होती है, इस विषयमें प्रमाणरूपसे दूसरी श्रुतियोंको उद्धृत करते हैं—“श्रुत्यन्तरे च” इत्यादिसे । सर्वान्तरत्वरूप हेतुसे अमुख्य आत्माकी सन्निधि का भाव होता है ऐसा समझकर “नाऽसौ”

भाष्य

द्यात्मानमुपदिदिक्षु शास्त्रं लोकबुद्धिमनुसरत् अन्नमयं शरीरमनात्मानम-
त्यन्तमूढानामात्मत्वेन प्रसिद्धमनूद्य मूपानिपिक्तद्रुतताग्रादिप्रतिमावचत्तोऽ-
न्तरं ततोऽन्तरमित्येवं पूर्वेण पूर्वेण समानमुत्तरमुत्तरमनात्मानमात्मेति
ग्राहयत् प्रतिपत्तिसौकर्यपेक्षया सर्वान्तरं मुख्यमानन्दमयमात्मान-
मुपदिदेशेति श्लिष्टतरम् । यथाऽरुन्धतीनिदर्शने बह्वीष्वपि तारा-
स्वमुख्यास्वरुन्धतीषु दर्शितासु याऽन्त्या प्रदर्श्यते सा मुख्यैवाऽ-
रुन्धती भवति, एवमिहाऽप्यानन्दमयस्य सर्वान्तरत्वात् मुख्यमात्मत्वम् ।

भाष्यका अनुवाद

क्योंकि आनन्दमय आत्मा सबका अन्तर है । मुख्य आत्माका ही उपदेश करनेकी इच्छावाले शास्त्रने लोकबुद्धिके अनुसार अत्यन्त मूढ़ोंमें आत्मारूपसे प्रसिद्ध अनात्मा अन्नमय शरीरका अनुवाद करके सांचेमें डाले हुए तांबेके रस आदिकी प्रतिमाके समान उससे अन्तर, उससे अन्तर इस प्रकार पूर्व पूर्व अनात्माके समान उत्तरोत्तर अनात्माका ज्ञानसौकर्यके लिए आत्मारूपसे ग्रहण कराके बादमें सबके अन्तर मुख्य आनन्दमय आत्माका उपदेश किया है ऐसा कहना सर्वथा युक्त है । जैसे अरुन्धतीके दर्शन करानेमें बहुत तारोंको अमुख्य अरुन्धतीरूपसे दिखलानेके बाद जो अन्तका तारा दिखलाया जाता है, वह मुख्य अरुन्धती ही होती है, उसी प्रकार यहाँ भी आनन्दमय सबका अन्तर होनेके कारण मुख्य आत्मा ही है । यह जो कहते हो कि मुख्य

रत्नप्रभा

मुख्यमिति । लोकबुद्धिमिति । तस्याः स्थूलग्राहितामनुसरत् इत्यर्थः ।
ताम्रस्य मूपाकारत्ववत् प्राणस्य देहाकारत्वं देहेन सामान्यम्, तथा मनः
'प्राणाकारं तेन सममित्याह—पूर्वेणेति । अतीतो योऽनन्तर उपाधिः विज्ञानकोशः

रत्नप्रभाका अनुवाद

इत्यादि कहते हैं । आनन्दमय सर्वान्तर है, यह धृतिप्रतिपादित नहीं है, इस कारण वही सर्वान्तर है ऐसा विवरण करते हैं—“मुख्यमेव” इत्यादिते । “लोकबुद्धिः”—लोक-
बुद्धिकी स्थूलग्राहिताका अनुसरण करता हुआ । जैसे तांबा सांचेके आकारमें हो जाता है,
वैसे ही प्राण देहके आकारमें होता है अर्थात् देहके समान होता है, वैसे ही मन प्राणाकार
होता है, अर्थात् प्राणके समान होता है ऐसा कहते हैं—“पूर्वेण” इत्यादिते । रत्नी दुर्द
पिच्छली उपाधि—विज्ञानमय कोश । तन्मृत्-उत्त उपाधिसे संबन्धते सावयवत्वकी कल्पना

भाष्य

यत्तु रूपे-प्रियादीनां शिरस्त्वादिकल्पनाऽनुपपन्ना मुख्यस्याऽऽत्मन इति ।
अतीतानन्तरोपाधिजनिता सा न स्वाभाविकीत्यदोषः । शारीरत्वमप्यान-
न्दमयस्याऽन्नमयादिशरीरपरम्परया प्रदर्श्यमानत्वात्, न पुनः साक्षादेव
शारीरत्वं संसारिवत्, तस्मादानन्दमयः पर एवाऽऽत्मा ॥ १२ ॥

भाष्यका अनुवाद

आनन्दमय आत्माका प्रिय शिर है इत्यादि कल्पना करना ठीक नहीं है, यह
कथन युक्त नहीं है, क्योंकि वह कल्पना अत्यन्त सन्नहित पिछली उपाधिसे
हुई है, स्वाभाविक नहीं है । आनन्दमयका शारीरत्व भी अन्नमय आदि शरीर-
परम्परासे दिखलाया गया है, संसारी जीवके समान साक्षात् नहीं है ।
इस कारण आनन्दमय परमात्मा ही है ॥ १२ ॥

रत्नप्रभा

तत्कृता सावयवत्वकल्पना शरीरेण ज्ञेयत्वात् शारीरत्वमिति लिङ्गद्वयं दुर्बलम्,
अतः सहायाभावाद् अभ्याससर्वान्तरत्वाभ्यां विकारसन्निधेः बाध इति भावः ॥ १२ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

होती है और शरीरसे ज्ञेय होनेके कारण शरीर है । इस प्रकार सावयवत्व कल्पना और
शारीरत्व ये दोनों हेतु दुर्बल हैं, इस लिए सहाय न होनेसे अभ्यास और सर्वान्तरत्वसे विकार-
संनिधिकी बाध है ऐसा तात्पर्य है ॥ १२ ॥




विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात् ॥ १३ ॥

पदच्छेद—विकारशब्दात्, न, इति, चैत्, न, प्राचुर्यात् ।

पदार्थोक्ति—विकारशब्दात्—मयद्प्रत्ययस्य विकारवाचकत्वात्, न-
आनन्दमयः न परमात्मा, इति चैत् न, प्राचुर्यात्—प्राचुर्यार्थेऽपि मयद्प्रत्ययवि-
धानात् [आनन्दमयः परमात्मैव]

भाषार्थ—मयद् प्रत्यय विकाररूप अर्थका वाचक है, अतः ब्रह्म आनन्दमय
शब्दका अर्थ नहीं है, [क्योंकि ब्रह्म आनन्दका विकार नहीं हो सकता है] यह
कथन ठीक नहीं है, क्योंकि प्राचुर्यरूप अर्थमें भी मयद् प्रत्ययका विधान है,
[ब्रह्म आनन्दप्रचुर हो सकता है] अतः आनन्दमय परमात्मा ही है ।



भाष्य

अत्राह—नाऽऽनन्दमयः पर आत्मा भवितुमर्हति । कस्मात्, विकार-
शब्दात् । प्रकृतिवचनादयमन्यः शब्दो विकारवचनः समधिगतः, आ-
नन्दमय इति मयटो विकारार्थत्वात् । तस्मादन्नमयादिशब्दवद्विकार-
भाष्यका अनुवाद

यहाँपर पूर्वपक्षी कहता है कि आनन्दमय परमात्मा नहीं हो सकता है ।
क्यों नहीं हो सकता, इसलिए कि मयद् प्रत्ययका अर्थ विकार है, यह आनन्दमय
शब्द प्राचुर्यवाचक आनन्दमय शब्दसे भिन्न विकारवाचक समझा जाता है, मयद्
प्रत्यय विकारवाचक है । अतः अन्नमय आदि शब्दके समान आनन्दमय शब्द भी

रत्नप्रभा

विकारार्थकमयद् श्रुतिसहाय इत्याशङ्क्य मयटः प्राचुर्येऽपि विधानाद् भैवमि-
त्याह—विकारेत्यादिना । “तत्प्रकृतवचने मयद्” (पा० सू० ५।४।२१)
इति । तदिति प्रथमासमर्थात् शब्दात् प्राचुर्यविशिष्टस्य प्रस्तुतस्य वचनेऽभिधाने

रत्नप्रभाका अनुवाद

मयद् प्रत्ययका विकाररूप अर्थ श्रुतिका सहायक है ऐसी आशङ्क्य करके प्राचुर्यरूप अर्थमें भी
मयद् का विधान है, केवल विकारार्थक ही मयद् नहीं है ऐसा कहते हैं—“विकार” इत्यादिये ।
'तत्प्रकृत' इस सूत्रमें प्रथमान्त शब्दने प्राचुर्यविशिष्ट प्रस्तुत अर्थके अभिधानमें मयद् प्रत्यय होता है,

भाष्य .

विषय एवाऽऽनन्दमयशब्द इति चेत्, न; प्राचुर्यार्थेऽपि मयटः स्मरणात् । 'तत्प्रकृतवचने मयद्' (पा० सू० ५।४।२१) इति हि प्रचुरतायामपि मयद् स्मर्यते । यथा 'अन्नमयो यज्ञः' इति अन्नप्रचुर उच्यते, एवमानन्द-प्रचुरं ब्रह्म आनन्दमयम् उच्यते । आनन्दप्रचुरत्वं च ब्रह्मणो मनुष्यत्वादार-भ्योत्तरस्मिन्नुत्तरस्मिन् स्थाने शतगुण आनन्द इत्युक्त्वा ब्रह्मानन्दस्य निरतिशयत्वावधारणात् । तस्मात् प्राचुर्यार्थे मयद् ॥ १३ ॥

भाष्यका अनुवाद

विकारार्थक ही है । ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि प्राचुर्यरूप अर्थमें भी मयद् होता है । 'तत्प्रकृत०' (प्राचुर्यसे प्रस्तुत जो प्रकृत तद्वाचक शब्दसे मयद् प्रत्यय होता है) इस सूत्रसे प्राचुर्यमें भी मयद् कहा गया है । जैसे अन्नप्रचुरं चाग अन्नमयं ब्रह्म कहलाता है । और ब्रह्म आनन्द प्रचुर है, क्योंकि मनुष्यत्वसे आरम्भ करके मनुष्यगन्धर्व आदि उत्तरोत्तर स्थानमें सौगुना आनन्द है यह कहकर ब्रह्मानन्द निरतिशय है ऐसा निश्चय किया है । इस कारण प्राचुर्यरूप अर्थमें मयद् प्रत्यय है ॥१३॥

रत्नप्रभा

गम्यमाने मयट्प्रत्ययो भवतीति सूत्रार्थः । अत्र वचनग्रहणात् प्रकृतस्य प्राचुर्य-वैशिष्ट्यसिद्धिः । तादृशस्य लोके मयटोऽभिधानाद् यथा अन्नमयो यज्ञ इति । अत्र ब्रह्मं प्रचुरमस्मिन् इति अन्नशब्दः प्रथमाविभक्तियुक्तः, तस्माद् मयद् यज्ञस्य प्रकृत्यर्थान्नप्राचुर्यवाची दृश्यते, न शुद्धप्रकृतवचन इति ध्येयम् ॥ १३ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

ऐसा सूत्रका अर्थ है । इसमें 'वचन' का ग्रहण किया है, अतः प्रकृत प्राचुर्यवैशिष्ट्य होना चाहिए ऐसा सिद्ध होता है, क्योंकि उसीका लोकमें मयद् प्रत्ययसे अभिधान होता है, जैसे कि 'अन्नमयो यज्ञः' इसमें, अन्न है प्रचुर जिसमें इस प्रकार अन्न शब्द प्रथमाविभक्तियुक्त है, इसलिये उससे मयद् प्रत्यय होता है और वह यज्ञके प्रकृत्यर्थ अन्नकी प्रचुरताका वाचक है, केवल प्रकृतवचन नहीं है ॥१३॥



तद्धेतुव्यपदेशाच्च ॥ १४ ॥

पदच्छेद—तद्धेतुव्यपदेशात्, च ।

पदार्थोक्ति—तद्धेतुव्यपदेशात्—‘को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात्’ इति श्रुतौ सकलजीवानन्दहेतुत्वस्य ब्रह्मणि कथनात् च—अपि [आनन्दमयः परमात्मैव] ।

भाषार्थ—‘को ह्येवान्यात्०’ इस श्रुतिमें सब जीवोंके आनन्दके प्रति ब्रह्म ही कारण कहा गया है, इस कारण भी आनन्दमय परमात्मा ही है ।



भाष्य

इतश्च प्राचुर्यार्थे मयद् । यस्मादानन्दहेतुत्वं ब्रह्मणो व्यपदिशति श्रुतिः—‘एष ह्येवानन्दयाति’ इति । आनन्दयतीत्यर्थः । यो ह्यन्यानानन्दयति स प्रचुरानन्द इति प्रसिद्धं भवति । यथा लोके योऽन्येषां धनिकत्वमापादयति स प्रचुरधन इति गम्यते, तद्वत् । तस्मात् प्राचुर्यार्थेऽपि मयटः सम्भवादानन्दमयः पर एवाऽऽत्मा ॥ १४ ॥

भाष्यका अनुवाद


और इस कारण भी मयद् प्राचुर्यार्थक है कि ब्रह्म आनन्दका हेतु है ऐसा ‘एष ह्येवा०’ (निश्चय यही आनन्द देता है) यह श्रुति कहती है । ‘आनन्दयाति’ अर्थात् ‘आनन्दयति’ (आनन्द देता है) । जो दूसरेको आनन्द देता है, वह निस्सन्देह प्रचुर आनन्दयुक्त है यह प्रसिद्ध है । जैसे कि लोकमें जो अन्यको धनी बनाता है, वह प्रचुर धनयुक्त है यह जाना जाता है । इस कारण मयद् प्राचुर्यरूप अर्थका भी प्रतिपादक है, अतः आनन्दमय परमात्मा ही है ॥ १४ ॥

रत्नप्रभा

सूत्रस्थचशब्दोऽनुक्तसमुच्चयार्थ इति मत्वा व्याचष्टे—इत्यथेति । तच्च अनुक्तं ब्रह्मानन्दस्य निरतिशयत्वावधारण पूर्वमुक्तम् ॥ १४ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

सूत्रमें पठित ‘च’ शब्द अनुक्त पदार्थका संग्रह करता है ऐसा समझकर व्याख्यान करते हैं—“इत्यथ” इत्यादिसे । अकथित विषय है—ब्रह्मानन्दको निरतिशय समझना । यह पंक्ति कहा गया है ॥१४॥




मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते ॥ १५ ॥

पदच्छेद—मान्त्रवर्णिकम्, एव, च, गीयते ।

पदार्थोक्ति—मान्त्रवर्णिकमेव च—‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ इति मन्त्रवर्णो निर्धारितं ब्रह्मैव गीयते—आनन्दमयवाक्ये कथ्यते [तस्मात् आनन्दमयः परमात्मैव]

भाषार्थ—‘सत्यं ज्ञानम्’ इस मन्त्रमें निर्धारित ब्रह्म ही ‘अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः’ इस वाक्यमें कहा जाता है, क्योंकि वही प्रकरणप्राप्त है, अतः आनन्दमय परमात्मा ही है ।



भाष्य

इतश्चाऽऽनन्दमयः पर एवाऽऽत्मा, यस्मात् ‘ब्रह्मविदानोति परम्’ इत्युपक्रम्य ‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ (तै० २।१) इत्यस्मिन् मन्त्रे यत् प्रकृतं ब्रह्म सत्यज्ञानानन्तविशेषणैर्निर्धारितम्, यस्मादाकाशादिक्रमेण स्थावरजङ्गमानि भूतान्यजायन्त, यच्च भूतानि सृष्ट्वा तान्यनुप्रविश्य गुहायामवस्थितं

भाष्यका अनुवाद

और इस कारण भी आनन्दमय परमात्मा ही है कि ‘ब्रह्मविदा०’ (ब्रह्म-वेत्ता पर—ब्रह्मको पाता है) ऐसा उपक्रम करके ‘सत्यं ज्ञान०’ (ब्रह्म सत्य, ज्ञान, अनन्त है) इस मन्त्रमें सत्य, ज्ञान और अनन्त रूप विशेषणोंसे जिस प्रकृत ब्रह्मका निश्चय किया है, जिससे आकाश आदि क्रमसे स्थावर और जङ्गम भूत उत्पन्न हुए हैं, जो भूतोंको उत्पन्न करके उनमें प्रवेश करके बुद्धि रूप

रत्नप्रभा

आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वे लिङ्गमुक्त्वा प्रकरणमाह—मान्त्रेति । यस्मादेवं प्रकृतं तस्माद् तत्-मान्त्रवर्णिकमेव ब्रह्मानन्दमय इति वाक्ये गीयते इति योजना । ननु मन्त्रोक्तमेवाऽत्र ब्राह्ममिति को निर्वन्धः सत्राह—मन्त्रेति । ब्राह्मणस्य-

रत्नप्रभाका अनुवाद

लिङ्गसे आनन्दमय ब्रह्म है यह प्रतिपादन करके अय- प्रकरणसे प्रतिपादन करते हैं—“मान्त्र” इत्यादिये । मन्त्रमें वर्णित प्रस्तुत ब्रह्म ही वाक्यमें आनन्दमय कहा जाता है ऐसी सूत्रकी योजना है । मन्त्रोक्त ही यहाँ ग्रहण करना चाहिए, इसमें क्या आपत्त है ? इसपर कहते हैं—“मन्त्र” इत्यादि । ब्राह्मण मन्त्रका व्याख्यान-

भाष्य

सर्वान्तरम्, यस्य विज्ञानाय 'अन्योऽन्तर आत्मान्योऽन्तर आत्मा' इति प्रकान्तं तन्मान्त्रवर्णिकमेव ब्रह्मेह गीयते 'अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः' (तै० २।५) इति । मन्त्रब्राह्मणयोश्चैकार्थत्वं युक्तम्, अविरोधात् । अन्यथा हि प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रिये स्याताम् । न चाऽन्नमयाद्भिभ्य इवाऽऽनन्दमयादन्योऽन्तर आत्माऽभिधीयते । 'एतन्निष्ठैव च सैषा भार्गवी चारुणी विद्या' (तै० ३।६) तस्मादानन्दमयः पर एवाऽऽत्मा ॥ १५ ॥

भाष्यका अनुवाद

गुहामें स्थित एवं सर्वान्तर है और जिसके ज्ञानके लिए दूसरा अन्तर आत्मा है दूसरा अन्तर आत्मा है ऐसा वर्णन किया है, वह मंत्रमें वर्णित ब्रह्म ही यहाँ 'अन्योऽन्तर०' इस श्रुतिमें कहा गया है । मंत्र और ब्राह्मणका एकार्थक होना ठीक है, क्योंकि उनमें विरोध नहीं है । अन्यथा—मंत्र और ब्राह्मणको एकार्थक न मानें, तो प्रकृतकी हानि और अप्रकृतकी प्रक्रिया—प्रस्तुत विषयको छोड़कर नई बातका प्रारम्भ करना—रूप दोष होगा । और जैसे अन्नमय आदिसे अन्य आत्माका अभिधान किया है, वैसे आनन्दमयसे अन्य आत्माका अभिधान नहीं किया है । और 'सैषा भार्गवी०' (यह भृगुको चरुणकी दी हुई विद्या) इस श्रुतिसे जिस ब्रह्मविद्याका वर्णन किया है, वह भी आनन्दमयमें ही परिसमाप्त होती है । अतः आनन्दमय परमात्मा ही है ॥१५॥

रत्नप्रभा

मन्त्रव्याख्यानत्वात् उपायत्वमस्ति; मन्त्रस्तु उपेयः, तदिदमुक्तम्—अविरोधादिति । तयोः उपायोपेयभावात् इत्यर्थः । तर्हि अन्नमयादीनामपि मान्त्रवर्णिकब्रह्मत्वं स्यात् इत्यत आह—न चेति । किञ्च, भृगवे प्रोक्ता चरुणेन उपदिष्टा भृगुवल्ली पञ्चमपर्यायस्थानन्दे प्रतिष्ठिता, ततः स्थानन्यायेन तदेकार्थब्रह्मवत्त्वया आनन्दमये निष्ठा इत्याह—एतन्निष्ठैवेति ॥ १५ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

रूप है, इस कारण वह उपाय है और मंत्र उपेय है, अतः "अविरोधात्" कहा है अर्थात् मंत्र और ब्राह्मणमें उपायोपेयभाव है । तब अन्नमय आदि भी मंत्रमें वर्णित ब्रह्म ही हैं ! इस वाक्यपर कहते हैं—“न च” इत्यादि । चरुणेने अपने पुत्र भृगुको जो उपदेश किया है, उस भृगुवलीके पांचवें पर्यायमें आनन्दका उपदेश है और उसी आनन्दमें भृगुवलीके तात्पर्यका पर्यवसान है एवं ब्रह्मवाणी भी उसी अर्थका योगन करती है, उनके भी पांचवें पर्यायमें आनन्दमयका वर्णन है, अतः स्थानन्यायसे ब्रह्मवाणीके तात्पर्यका पर्यवसान भी आनन्दमयमें ही है ऐसा कहते हैं—“एतन्निष्ठैव” इत्यादिसे ॥ १५ ॥

नेतरोऽनुपपत्तेः ॥ १६ ॥

पदच्छेद—न, इतरः, अनुपपत्तेः ।

पदार्थोक्ति—इतरः—जीवः, न—आनन्दमयो न भवति, [कुतः] अनु-
पपत्तेः—कामयितृत्वादिधर्माणाम् जीवेऽसम्भवात् [अतः आनन्दमयः परमात्मैव]

भाषार्थ—जीव आनन्दमय नहीं हो सकता है, क्योंकि 'सोऽकामयत' इस श्रुतिमें उक्त कामयितृत्व आदि धर्मका जीवमें संभव नहीं है, इस कारण आनन्द-
मय परमात्मा ही है ।



भाष्य

इतश्चाऽऽनन्दमयः पर एवाऽऽत्मा नेतरः । इतर ईश्वरादन्यः संसारी जीव इत्यर्थः । न जीव आनन्दमयशब्देनाऽभिधीयते । कस्मात् ? अनु-
पपत्तेः । आनन्दमयं हि प्रकृत्य श्रूयते—'सोऽकामयत बहु स्यां प्रजा-
येयेति । स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत यदिदं किञ्च' (तै० २।६) इति । तत्र प्राक्शरीराद्युत्पत्तेरभिध्यानं सृज्यमाना-
नां च विकाराणां स्रष्टुरव्यतिरेकः सर्वविकारसृष्टिश्च न परस्मादात्म-
नोऽन्यत्रोपपद्यते ॥ १६ ॥

भाष्यका अनुवाद

और इस कारण भी आनन्दमय परमात्मा ही है, इतर नहीं है । इतर अर्थात् संसारी जीव । आनन्दमय शब्दसे जीवका अभिधान नहीं होता । क्यों नहीं होता, इसलिए कि जीवमें आनन्दमयत्व उपपन्न नहीं होता है । आनन्द-
मयको प्रस्तुत करके श्रुति कहती है—'सोऽकामयत०' (उसने कामना की कि बहुत होऊँ, उत्पन्न होऊँ । उसने तप—विचार किया । उसने विचार कर यह जो कुछ है सब उत्पन्न किया ।) इस श्रुतिसे प्रतिपादित शरीर आदिकी उत्पत्तिके पूर्व चिन्तन, उत्पन्न किये जानेवाले विकारोंका स्रष्टासे अभेद और सर्वविकारकी सृष्टि परमात्माके सिवा अन्यमें उपपन्न नहीं होती ॥ १६ ॥

रत्नप्रभा

स ईश्वरः । तपः सृष्ट्यालोचनम् अतप्यत कृतवानित्यर्थः । अभिध्यानं कामना । बहु स्यामिति अव्यतिरेकः ॥ १६ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद


स—ईश्वर । तप किया—सृष्टिविषयक आलोचन किया । अभिध्यान—कामना, सृष्ट्यविषयक इच्छा । 'बहु स्याम' यह श्रुति सृज्यमान विकारोंका स्रष्टासे अभेद दिखाती है ॥ १६ ॥

भेदव्यपदेशाच्च ॥ १७ ॥

पदच्छेद—भेदव्यपदेशात्, च ।

पदार्थोक्ति—भेदव्यपदेशात् 'रसो वै सः । रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति' इति श्रुतौ आनन्दमयस्य जीवाद् भेदकथनात्, च—अपि [आनन्दमयः परमात्मैव, न जीवः] ।

भाषार्थ—'रसं ह्येवायं' इस श्रुतिमें आनन्दमय जीवसे भिन्न है ऐसा कहा है, अतः आनन्दमय परमात्मा ही है, जीव नहीं है ।



भाष्य

इतश्च नाऽऽनन्दमयः संसारी यस्मादानन्दमयाधिकारे—'रसो वै सः । रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति' (तै० २।७) इति जीवानन्दमयौ भेदेन व्यपदिशति । नहि लब्धैव लब्धव्यो भवति । कथं तर्हि 'आत्माऽन्वेष्टव्यः' 'आत्मलाभान्न परं विद्यते' इति च श्रुतिस्मृती, यावता न भाष्यका अनुवाद

और इस कारण भी आनन्दमय संसारी जीव नहीं है कि आनन्दमयके अधिकारमें 'रसो वै सः । रसं०' (वह रस है, यह पुरुष रस पाकर ही आनन्दयुक्त होता है) यह श्रुति जीव और आनन्दमयका भेदसे निर्देश करती है । क्योंकि प्राप्तिकर्ता ही प्राप्तिका कर्म नहीं होता है । तब 'आत्मान्वे०' (आत्माका अन्वेषण करना चाहिए) 'आत्मलाभान्न०' (आत्मलाभसे बढ़कर कुछ नहीं

रत्नप्रभा

अधिकारे प्रकरणे । सः आनन्दमयो रसः । ननु लब्धलब्धव्यभावेऽपि अभेदः किं न स्यादत आह—नहि लब्धैवेति । ननु लब्धलब्धव्ययोर्भेदस्य आवश्यकत्वे श्रुतिस्मृत्योः बाधः स्यादिति आशङ्कते—कथमिति । यावता यतः स्वया इति उक्तम्, अतः श्रुतिस्मृती कथमिति अन्वयः । उक्तां शङ्कामङ्गीकरोति—

रत्नप्रभाका अनुवाद

अधिकार—प्रकरण । स—आनन्दमय रस । लब्धा और लब्धव्यभाव होनेपर भी अभेद क्यों न हो इस शङ्कापर कहते हैं—“नहि लब्धैव” इत्यादि । यदि लब्धा और लब्धव्यमें भेद मानना आवश्यक हो तो श्रुति और स्मृतिका बाध होगा ऐसी शङ्का करते हैं—“कथम्” इत्यादिसे । क्योंकि हमने ऐसा (लब्धा ही लब्धव्य नहीं होता है ऐसा) कहा है, अतः श्रुति और स्मृति कैसे संगत होती है ऐसा अन्वय है । “बाधम्” इत्यादिसे

भाष्य

लब्धैव लब्धव्यो भवतीत्युक्तम् । वादम् । तथाप्यात्मनोऽप्रच्युतात्म-
भावस्यैव सतस्तत्त्वानवबोधनिमित्तो मिथ्यैव देहादिप्यनात्मस्वात्मत्वनिश्चयो
लौकिको दृष्टः, तेन देहादिभूतस्याऽऽत्मनोऽप्यात्माऽनन्विष्टोऽन्वेष्टव्योऽ-
लब्धो लब्धव्योऽश्रुतः श्रोतव्योऽमतो मन्तव्योऽविज्ञातो विज्ञातव्य इत्यादि-
भेदव्यपदेश उपपद्यते । प्रतिपिच्यत एव तु परमार्थतः सर्वज्ञात् परमेश्वरा-
दन्यो द्रष्टा श्रोता वा 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा' (वृ० ३।७।२३)

भाष्यका अनुवाद

हे) इत्यादि श्रुति और स्मृतियां कैसे उपपन्न होगी ? जब कि लब्धा ही लब्धव्य
नहीं होता ऐसा कहा है । ठीक है, जिसका आत्मभाव—स्वरूप नष्ट नहीं हुआ
है अर्थात् अक्षण्ड, एकरस आत्माके यथार्थ स्वरूपके अज्ञानसे उत्पन्न हुए देह
आदि अनात्म पदार्थोंमें आत्मत्वनिश्चय व्यवहारमें देखनेमें आता है ।
मिथ्याज्ञानसे देह आदिमें आत्मत्वनिश्चय होनेके कारण देहादिरूप आत्माका
मी (आत्मा अन्विष्ट नहीं है किन्तु अन्वेष्टव्य है, लब्ध नहीं है किन्तु लब्धव्य
है, श्रुत नहीं है किन्तु श्रोतव्य है, मत नहीं है किन्तु मन्तव्य है, विज्ञात नहीं
है किन्तु विज्ञातव्य है इत्यादि भेद कथन युक्त ही है । परमार्थ से तो सर्वज्ञ

रत्नप्रभा

वादमिति । तर्हि आत्मन एव आत्मना लभ्यत्वोक्तिबाधः अमेदादिति आशङ्क्य
कल्पितभेदात् न बाध इत्याह—तथापीति । अमेदेऽपि इत्यर्थः । लौकिकः भ्रमः ।
आत्मनः स्याज्ञानजभ्रमेण देहाद्यभिन्नस्य भेदभ्रान्त्या परमात्मनो ज्ञेयत्वाद्युक्तिः
इत्यर्थः । अन्वेष्टव्यो देहादिव्यतिरिक्ततया ज्ञेयः, विवेकज्ञानेन लब्धव्यः, साक्षात्
कर्तव्यः, तदर्थं श्रोतव्यः, विज्ञानं निदिध्यासनं साक्षात्कारो वा । श्रुत्यन्तरस्सा-
र्थानुवादादपौनरुक्त्यम् । ननु भेदः सत्य एवाऽस्तु, तत्राह—प्रतिपिच्यत इति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

उक्त शङ्काको स्वीकार करते हैं । तब आत्मा ही आत्मासे लभ्य होता है ऐसा कहना ठीक
नहीं है, क्योंकि वस्तु एक ही है ऐसी शङ्का करके उक्त कथन कल्पित भेदसे है, अतः
दोष नहीं है ऐसा कहते हैं—'तथापि' इत्यादिसे । अर्थात् अमेद होनेपर भी । लौकिक-
अप्रामाणिक भ्रम । अपने अज्ञानसे देह आदि ही आत्मा है ऐसा ज्ञान होता है, अतः
परमात्मा अपनेसे भिन्न है ऐसा भ्रम होता है, इसी भ्रमको लक्ष्य कर परमात्मा ज्ञेय है
इत्यादि कहा गया है । 'अन्वेष्टव्य है'—देह आदिसे भिन्नरूपसे ज्ञेय है । 'लब्धव्य है'—
विवेकज्ञानसे साक्षात्कर्तव्य है । साक्षात्कारके लिए श्रोतव्य है । विज्ञान—निदिध्यासन अथवा
साक्षात्कार । अन्य धातुके अर्थका अनुवाद किया गया है, अतः 'लब्धव्य.' और 'विज्ञातव्य.'
इनमें पुनरुक्ति दोष नहीं है । यदि कोई कहे कि भेद मल्य ही हो, तो उसपर कहते हैं—

भाष्य

इत्यादिना । परमेश्वरस्त्वविद्याकल्पिताच्छारीरात् कर्तुर्भोक्तुर्विज्ञानात्मा-
ख्यादन्यः, यथा मायाविनश्वर्मखड्गधरात् सूत्रेणाऽऽकाशमधिरोहतः स एव
मायावी परमार्थरूपो भूमिष्ठोऽन्यः । यथा वा घटाकाशादुपाधिपरिच्छि-
न्नादनुपाधिरपरिच्छिन्न आकाशोऽन्यः । ईदृशं च विज्ञानात्मपरमात्म-
भेदमाश्रित्य 'नेतरोऽनुपपत्तेः' 'भेदव्यपदेशाच्च' इत्युक्तम् ॥१७॥

भाष्यका अनुवाद

परमेश्वरसे अन्य द्रष्टा और श्रोताका 'नान्योऽतो' (उससे अन्य द्रष्टा नहीं है)
इत्यादि श्रुतियां प्रतिषेध ही करती हैं, परमेश्वर तो अविद्यासे कल्पितशरीर,
कर्ता, भोक्ता विज्ञानात्मासे अन्य है, जैसे ढाल और खड्ग धारण करनेवाले,
सूत्रसे आकाशमें चढ़नेवाले मायावीसे भूमिपर खड़ा हुआ परमार्थरूप वही
मायावी अन्य है । अथवा जैसे कि उपाधिसे परिच्छिन्न घटाकाशसे उपाधिसे
अपरिच्छिन्न आकाश अन्य है । ऐसे विज्ञानात्मा और आत्माके भेदको लेकर
'नेतरो' और 'भेदव्यप०' ये सूत्र कहे गये हैं ॥ १७ ॥

रत्नप्रभा

अत ईश्वराद् द्रष्टा जीवोऽन्यो नास्ति इति चेद् जीवाभेदाद् ईश्वरस्याऽपि मिथ्यात्वं
स्यादत आह—परमेश्वर इति । अविद्याप्रतिबिम्बत्वेन कल्पितात् जीवात् चिन्मात्र
ईश्वरः पृथगस्तीति न मिथ्यात्वम् । कल्पितस्य अधिष्ठानाभेदेऽपि अधिष्ठानस्य ततो
भेद इत्यत्र दृष्टान्तमाह—यथेति । सूत्रारूढः स्वतोऽपि मिथ्या, न जीव इत्यरुच्या
भेदमात्रमिथ्यात्वे दृष्टान्तान्तरमाह—यथा वेति । ननु सूत्रबलाद् भेदः सत्य
इत्यत आह—ईदृशं चेति । कल्पितमेवेत्यर्थः । सूत्रे भेदः सत्य इति पदाभावात्
"तदन्यत्वं" [ब्र०, सू०, २।१।१४] आदिसूत्रणात् धृत्यनुसारात् च इति भावः ॥१७॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

"प्रतिपिच्यते" इत्यादि । ईश्वरसे जीव भिन्न न होगा, तो जीवके साथ अभेद होनेके कारण
ईश्वर भी मिथ्या हो जायगा, इसके उत्तरमें कहते हैं—"परमेश्वरः" इत्यादि । अविद्यामें
प्रतिबिम्बरूपसे कल्पित जीवसे चिन्मात्र ईश्वर भिन्न है, इसलिए ईश्वर मिथ्या नहीं है ।
यद्यपि कल्पित वस्तु अधिष्ठानसे भिन्न नहीं होती, तो भी अधिष्ठानका उससे भेद रहता
है, इसमें दृष्टान्त कहते हैं—"यथा" इत्यादिसे । सूत्रपर आरूढ ऐन्द्रजालिक स्वयं भी
मिथ्या है, जीव मिथ्या नहीं है, इस प्रकार मायावीके दृष्टान्तमें अरावि होनेसे भेदमात्र
जिसमें मिथ्या है, ऐसा दूसरा दृष्टान्त देते हैं—"यथा वा" इत्यादिसे । यदि यह शङ्का
हो कि सूत्रमें कहनेके कारण भेद सत्य है, तो उसके उत्तरमें कहते हैं—"ईदृशं च" इत्यादिसे ।
कल्पित ही 'ऐसा अर्थ' है । सूत्रमें 'भेदः सत्यः' (भेद सत्य है) ऐसा पद नहीं है और
'तदन्यत्व०' आदि सूत्रोंसे परमात्मा और जीवात्माका अभेद कहा है, और धृति भी ऐसा
ही प्रतिपादन करती है, अतः भेद कल्पित है ऐसा तात्पर्य है ॥१७॥

कामाच्च नानुमानापेक्षा ॥१८॥

पदच्छेद—कामात्, च, न, अनुमानापेक्षा ।

पदार्थोक्ति—कामाच्च—‘सोऽकामयत’ इति श्रुतौ कामयितृत्वश्रवणात्, अनुमानापेक्षा—अनुमानप्रतिपाद्यप्रधानस्य आशा, न—न कर्तव्या [जडस्य प्रधानस्य इच्छायाः असम्भवात्] ।

भाषार्थ—‘सोऽकामयत’ इस श्रुतिमें आनन्दमय इच्छा करनेवाला कहा गया है, अतः अनुमानगम्य प्रधान आनन्दमय नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ प्रधानमें इच्छाका संभव नहीं है ।



भाष्य

आनन्दमयाधिकारे च ‘सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय’ (तै० २।६) इति कामयितृत्वनिर्देशान्नाऽनुमानिकमपि सांख्यपरिकल्पितमचेतनं प्रधानमानन्दमयत्वेन कारणत्वेन वाऽपेक्षितव्यम् । ‘ईक्षतेर्नाशब्दम्’ (ब्र० सू० १।१।५) इति निराकृतमपि प्रधानं पूर्वसूत्रोदाहृतां कामयितृत्वश्रुतिमाश्रित्य प्रसङ्गात् पुनर्निराक्रियते गतिसामान्यप्रपञ्चनाय ॥ १८ ॥

भाष्यका अनुवाद

और आनन्दमयके प्रकरणमें ‘सोऽकामयत’ (उसने कामना की, बहुत होऊँ, उत्पन्न होऊँ) इस प्रकार कामनाकर्तृत्वका निर्देश है, इससे अनुमानसे गम्य—सांख्यपरिकल्पित अचेतन प्रधान भी आनन्दमय अथवा कारण नहीं कहा जा सकता । ‘ईक्षते०’ इस सूत्रसे यद्यपि प्रधानका निरसन किया गया है, तो भी सब वेदान्तवाक्योंसे अच्युति समान है ऐसा दिखलानेके लिए पूर्वसूत्र (ईक्षतेर्नाशब्दम्) में धात्वर्थनिर्देशसे वर्णित कामयितृत्व श्रुतिको लेकर प्रसङ्गसे यहाँ पुनः रण्डन किया गया है ॥ १८ ॥

रत्नप्रभा

ननु आनन्दात्मकसत्त्वप्रचुरं प्रधानम् आनन्दमयम् अस्तु, तत्राह—कामाच्चेति । अनुमानगम्यम्—आनुमानिकम् । पुनरुक्तिमाशङ्क्य आह—ईक्षतेरिति ॥१८॥

रत्नप्रभाका अनुवाद


यदि कोई कहे कि आनन्दमयका अर्थ आनन्दात्मक सत्त्वप्रचुर प्रधान क्यों नहीं है ? इसपर कहते हैं—“कामाच्च” इत्यादि । आनुमानिक—अनुमानसे गम्य । पुनरुक्तिकी शङ्का करके कहते हैं—“ईक्षते” इत्यादि ॥१८॥

अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥१९॥

पदच्छेद—अस्मिन्, अस्य, च, तद्योगं, शास्ति ।

पदार्थोक्ति—‘यदा ह्येवैप’ इत्यादिश्रुतिः अस्मिन्—आनन्दमये, अस्य—तच्चित्तस्य मुमुक्षोः तद्योगं तदभेदम्, शास्ति—प्रतिपादयति [अतः आनन्दमयः न प्रधानम्, अचेतने चेतनाभेदासम्भवात्, तस्मात् आनन्दमयः परमात्मैव ।]

भाषार्थ—‘यदा ह्येवैप०’ इत्यादि श्रुतियां आनन्दमयके ध्यानमें आसक्त मुमुक्षुका उसके साथ अभेद प्रतिपादन करती हैं, इस कारण प्रधान आनन्दमय नहीं हो सकता है, क्योंकि अचेतनके साथ चेतनका अभेद नहीं हो सकता । अतः आनन्दमय परमात्मा ही है ।



भाष्य

इत्थं न प्रधाने जीवे वाऽऽनन्दमयशब्दः, यस्मादस्मिन्नानन्दमये प्रकृत आत्मनि प्रतिबुद्धस्याऽस्य जीवस्य तद्योगं शास्ति, तदात्मना योगस्तद्योगः, तद्भावापत्तिः मुक्तिरित्यर्थः । तद्योगं शास्ति शास्त्रम्—
भाष्यका अनुवाद

और इस कारण भी प्रधान अथवा जीवमें आनन्दमय शब्दका प्रयोग नहीं हो सकता कि (शास्त्र) इस प्रतिबुद्ध—आनन्दमय आत्माको जाननेवालेका प्रकृत आनन्दमय आत्मामें तद्योग (अभेद) बतलाता है । तद्योग—तादात्म्यरूपसे योग—तद्भावप्राप्ति अर्थात् मुक्ति । ‘यदा ह्येवैप०’ (जब यह साधक अदृश्य,

रत्नप्रभा

अस्मिन् इति विषयसप्तमी । आनन्दमयविषयप्रबोधरतो जीवस्य तद्योगं यस्मात् शास्ति, तस्मात् न प्रधानमिति योजना । जीवस्य प्रधानयोगोऽप्यस्तीत्यत आह—तदात्मनेति । जीवस्य जीवाभेदो अस्ति इत्यत आह—मुक्तिरिति । अदृश्ये स्थूलप्रपञ्चशून्ये, आत्मसम्बद्धम् आत्म्यम्—लिङ्गशरीरं तद्रहिते, निरुक्तं रत्नप्रभाका अनुवाद

अस्मिन् इस पदमें विषयसप्तमी है । शास्त्र आनन्दमयविषयक ज्ञानवाले जीवका उस परब्रह्मसे सबन्धका निर्देश करता है, इसलिए आनन्दमय प्रधान नहीं है ऐसी योजना करनी चाहिए । यदि कोई कहे कि जीवका प्रधानके साथ भी सबन्ध है इसपर कहते हैं—“तदात्मना” इत्यादि । जीवका जीवके साथ अभेद है ही इसपर कहते हैं—“मुक्ति” । ‘अदृश्य’—स्थूलप्रपञ्चशून्य, ‘अनात्म्य’ आत्मसंबद्ध—लिङ्गशरीरसे रहित ‘निरुक्त’—

भाष्य

‘यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते, अथ सोऽभयं गतो भवति, यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते, अथ तस्य भयं भवति’ (तै० २।७) इति । एतदुक्तं भवति—यदैतस्मिन्ना-
नन्दमयेऽल्पमप्यन्तरमतादात्म्यरूपं पश्यति, तदा संसारभयान्न निवर्तते ।
यदा त्वेतस्मिन्नानन्दमये निरन्तरं तादात्म्येन प्रतितिष्ठति, तदा संसार-
भयान्निवर्तत इति । तच्च परमात्मपरिग्रहे घटते, न प्रधानपरिग्रहे जीव-
परिग्रहे वा । तस्मादानन्दमयः परमात्मेति स्थितम् । इदं त्विह
वक्तव्यम्—‘स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः’ । ‘तस्माद्वा एतस्मादन्न-
रसमयात्, अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः’ । ‘तस्मात्...अन्योऽन्तर

भाष्यका अनुवाद

अशरीर, अनिर्वचनीय, मायाशून्य इस ब्रह्ममें भयरहित प्रतिष्ठा—आत्मभाव
प्राप्त करता है, तब वह अभय प्राप्त करता है । और जब उस (ब्रह्म) में
किञ्चित् भी भेददृष्टि करता है तब उसको भय होता है) यह शास्त्र अभेदका
शासन करता है । इसका तात्पर्य यह है कि जब इस आनन्दमयमें कुछ भी
भेद देखता है, तब संसार-भयसे निवृत्त नहीं होता, परन्तु जब इस आनन्द-
मयमें निरन्तर अभेद ज्ञान रखता है, तब संसारभयसे निवृत्त हो जाता है ।
और यह तात्पर्य तभी संगत हो सकता है, जब कि आनन्दमय शब्दसे परमा-
त्माका परिग्रह करें, यदि प्रधान अथवा जीवका परिग्रह करें तो उपर्युक्त तात्पर्य
नहीं घट सकता । इससे सिद्ध होता है कि आनन्दमय परमात्मा ही है, परन्तु
यहाँपर यह वक्तव्य है—‘स वा०’ (वह पुरुष अन्नरसमय है) ‘तस्माद्वा०’
(उस अन्नरसमयसे अन्य अन्तर आत्मा प्राणमय है) तस्मादन्यो०’ (उससे

रत्नप्रभा

शब्दशक्यं तद्भिन्ने, निःशेषलयस्थानं निलयनं माया तच्छून्ये, ब्रह्माणि अभयं यथा
स्यात् तथा यदैव प्रतिष्ठां मनसः प्रकृष्टां वृत्तिम् एष विद्वान् लभते, अथ तदैव
अभयं ब्रह्म प्राप्नोति इत्यर्थः । उद्—अपि, अरम्—अल्पमल्पमपि, अन्तरं मेदं
यदैव एष नरः पश्यति, अथ तदा तस्य भयम् इति योजना इति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

जिसका निर्वचन न हो सके । ‘अनिलयन’—निःशेषलयस्थान निलयन अर्थात् माया,
उससे रहित । ऐसे ब्रह्ममें अभयरूपसे प्रतिष्ठा अर्थात् मनकी उत्कृष्ट वृत्तिको जब यह विद्वान्
प्राप्त करता है, तभी ब्रह्मको प्राप्त करता है । ‘उद् अरम्’—अल्प भी । जब तक यह नर अल्प

भाष्य

आत्मा मनोमयः' । 'तस्मात्' 'अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः'
(तै० २।१, २, ३, ४) इति च विकारार्थे मयद्प्रवाहे सत्यानन्दमय
एवाऽकस्मादर्धजरतीयन्यायेन कथमिव मयटः प्राचुर्यार्थत्वं ब्रह्मविषयत्वं
चाऽऽश्रीयत इति । मान्त्रवर्णिकब्रह्माधिकारादिति चेत् । न । अन्नमया-
दीनामपि तर्हि ब्रह्मत्वप्रसङ्गः ।

अत्राऽऽह—युक्तमन्नमयादीनामब्रह्मत्वम्, तस्मात्तस्मादान्तरस्याऽऽन्त-
रस्याऽन्यस्याऽन्यस्याऽऽत्मन उच्यमानत्वात्, आनन्दमयात्तु न कश्चि-
दन्य आन्तर आत्मोच्यते, तेनाऽऽनन्दमयस्य ब्रह्मत्वम्, अन्यथा प्रकृत-
हानाप्रकृतप्रक्रियाप्रसङ्गादिति ।

भाष्यका अनुवाद

अन्य अन्तर आत्मा मनोमय है) 'तस्मादन्यो' (उससे अन्य अन्तर आत्मा
विज्ञानमय है) इत्यादि विकारार्थ मयद् प्रवाहमें बिना किसी कारण अर्धजरतीय
न्यायसे आनन्दमयमें मयद् प्राचुर्यार्थक है और आनन्दमय ब्रह्मविषयक है
यह कैसे कहते हो ? । मंत्रमें वर्णित ब्रह्मके प्रकरणसे यह कहा गया है ऐसा
यदि कहो तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर अन्नमय
आदिको भी ब्रह्म मानना पड़ेगा ।

पूर्वपक्षी—अन्नमय आदि ब्रह्म नहीं हैं, क्योंकि एकके भीतर दूसरा और
दूसरेके भीतर तीसरा इस प्रकार आत्मा कहा गया है, किन्तु आनन्दमयके
भीतर और कोई आत्मा नहीं कहा गया है, इस कारण आनन्दमय ब्रह्म है,
नहीं तो प्रकृतकी हानि और अप्रकृतकी प्रक्रिया का प्रसंग आवेगा ।

रत्नप्रभा

वृत्तिकारमतं दूषयति—इदं त्विति । इह—परव्याख्यायां विकारार्थके मयटि
बुद्धिस्थे सति अकस्मात्—कारणं विना एकप्रकरणस्थस्य मयटः पूर्वं विकारार्थ-
कत्वम्, अन्ते प्राचुर्यार्थकत्वमिति अर्धजरतीयं कथमिव केन दृष्टान्तेन आश्रीयते
इति इदं वक्तव्यम् इत्यन्वयः । प्रश्नं मत्वा शङ्कते—मान्त्रेति । स्फुटमुत्तरम् ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

भा भेद देखता है, तब तक उसको भय होता है । वृत्तिकारके मतका खण्डन करते हैं—“इदं तु”
इत्यादिसे । 'यहाँ'—पूर्वपक्षीकी व्याख्यामें, विकारार्थक मयद् बुद्धिस्थ है और बिना कारण एक
ही प्रकरणमें स्थित मयद् पूर्वमें विकारार्थक है और अन्तमें प्राचुर्यार्थक है ऐसा अर्धजरतीय
किस दृष्टान्तके अनुसार कहते हो, यह तुम्हें (वृत्तिकारको) कहना चाहिए । ऐसा अन्वय

(१) जैसे एक ही रंगका कुछ हिस्सेमें सुवर्ण और कुछ हिस्सेमें बुद्धी होना असम्भव एवं
अनुचित है ।

भाष्य

अत्रोच्यते—यद्यप्यन्नमयादिभ्य इवाऽऽनन्दमयादन्योऽन्तर आत्मेति न श्रूयते, तथापि नाऽऽनन्दमयस्य ब्रह्मत्वम्, यत् आनन्दमयं प्रकृत्य श्रूयते—‘तस्य प्रियमेव शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोद उत्तरः पक्षः, आनन्द आत्मा, ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ (तै० २।५) इति । तत्र यद् ब्रह्म मन्त्रवर्णे प्रकृतम्—‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ इति, तदिह ‘ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ इत्युच्यते । तद्विजिज्ञापयिष्येवाऽन्नमयादय आनन्दमयपर्य-
भाष्यका अनुवाद

सिद्धान्ती—यद्यपि अन्नमय आदिके समान आनन्दमयसे अन्य आन्तर आत्मा श्रुतिमे नहीं कहा गया है, तो भी आनन्दमय ब्रह्म नहीं है, क्योंकि आनन्दमयको प्रस्तुत करके श्रुति कहती है—‘तस्य प्रियमेव०’ (प्रिय ही उसका शिर है, मोद दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पक्ष है, आनन्द आत्मा है, ब्रह्म पुच्छ और प्रतिष्ठा है । जो ब्रह्म ‘सत्यं ज्ञानं’ (ब्रह्म सत्य, ज्ञान, अनन्त है) इस मन्त्रवर्णमे प्रकृत है, उस ब्रह्मको यहां पुच्छ, प्रतिष्ठा कहा है । उसका ज्ञान करानेकी इच्छासे ही अन्नमय आदि आनन्दमय पर्यन्त पांच कोशोंकी

रत्नप्रभा

किमान्तर इति न श्रूयते, किं वा वस्तुतोऽप्यान्तरं ब्रह्म न श्रूयते इति विकल्प्य आद्यम् अङ्गीकरोति—अत्रोच्यते यद्यपीति । विकारप्रायपाठानुगृहीत-
मयदश्रुते सावयवत्वलिङ्गात् च इत्याह—तथापीति । इष्टार्थस्य दृष्ट्या जातं मुख प्रियम्, स्मृत्याऽऽमोदः, स चाऽभ्यासात् प्रकृष्ट प्रमोद, आनन्दस्तु कारण विम्वचैतन्यम्, आत्मा शिर पुच्छयोर्मध्यकाय, ब्रह्म शुद्धमिति श्रुत्यर्थः । द्वितीय प्रत्याह—तत्र यदिति । यत् मन्त्रे प्रकृत गुहानिहितस्वेन सर्वान्तरं ब्रह्म, तदिह पुच्छवाक्ये ब्रह्मशब्दात् प्रत्यभिज्ञायते, तस्यैव विज्ञापनेच्छया पक्षकोशरूपा
रत्नप्रभाका अनुवाद

है । इन ‘इदं तु’ इत्यादि वाक्यको प्रदान समझकर शङ्का करते हैं—“मन्त्र” इत्यादिसे । उत्तर स्पष्ट है । क्या आनन्दमयसे आन्तरका अन्तर शब्दसे भ्रवण नहीं है अथवा वस्तुतः जो आन्तर ब्रह्म है, उसका भ्रवण नही है ? ऐसा विकल्प करके प्रथम पक्षका अङ्गीकार करते हैं—“अत्रोच्यते—यद्यपि” इत्यादिसे । विकारप्राय पाठसे अनुगृहीत मयदश्रुत भ्रवण है तथा अवयव कहे गये हैं अतः (आनन्दमय ब्रह्म नहीं है) ऐसा कहते हैं—“तथापि” इत्यादिसे । अभिलिखित विषयके दर्शनसे उत्पन्न हुआ मुख—‘प्रिय’ है, उसकी स्मृतिसे उत्पन्न हुआ मुख—‘मोद’ है, वही मुख अभ्याससे अधिक हो तो ‘प्रमोद’ कहलाता है, आनन्द तो कारण, विम्व चैतन्य है, शिर और पुच्छका मध्यशरीर भाग आत्मा है, ब्रह्म शुद्ध है ऐसा श्रुतिको अर्थ है । द्वितीय (वस्तुतः जो आन्तर ब्रह्म है, उसका भ्रवण नहीं है इस) पक्षके विषयमे कहते हैं—“तत्र यत्” इत्यादिसे । मन्त्रमे प्रकृत, हृदयाकाशमें स्थित

भाष्य

न्ताः पञ्च कौशाः कल्पन्ते । तत्र कुतः प्रकृतहानाऽप्रकृतप्रक्रियाप्रसङ्गः ।

नन्वानन्दमयस्याऽवयवत्वेन 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इत्युच्यते अन्नमया-
दीनामिव 'इदं पुच्छं प्रतिष्ठा' इत्यादि । तत्र कथं ब्रह्मणः स्वप्रधानत्वं
शक्यं विज्ञातुम् ? प्रकृतत्वादिति ब्रूमः । नन्वानन्दमयावयवत्वेनाऽपि
ब्रह्मणि विज्ञायमाने न प्रकृतत्वं हीयते, आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वादिति ।

भाष्यका अनुवाद

कल्पना की गई है, तो ऐसी अवस्थामें प्रकृतकी हानि और अप्रकृतकी प्रक्रियाके
प्रसंगका अवसर ही कहाँ है ।

पूर्वपक्षी—जैसे अन्नमय आदिके अवयवरूपसे 'इदं पुच्छं' यह पुच्छ
और प्रतिष्ठा है कहा है वैसे ही आनन्दमयके अवयवरूपसे 'ब्रह्म पुच्छं'
ब्रह्म पुच्छ और प्रतिष्ठा कहा है । इसमें ब्रह्म स्वयं प्रधान है, यह कैसे जाना
जा सकता है ?

सिद्धान्ती—ब्रह्म प्रकृत है, अतः हम ऐसा कहते हैं ।

पूर्वपक्षी—यदि आनन्दमयके अवयवरूपसे ब्रह्म जाना जाय, तो भी उसका
प्रकृतत्व नष्ट नहीं होता, क्योंकि आनन्दमय ब्रह्म है ।

रत्नप्रभा

गुहा प्रपञ्चिता, तत्र तात्पर्यं नास्तीति वक्तुं "कल्पन्ते" इत्युक्तम् । एवं पुच्छवाक्ये
प्रकृतस्वप्रधानब्रह्मपरि सति न प्रकृतहान्यादिदोष इत्यर्थः । ब्रह्मणः प्रधानत्वं पुच्छ-
श्रुतिविरुद्धमिति शङ्कते—नन्विति । अत्र ब्रह्मशब्दात् प्रकृतस्वप्रधानब्रह्मप्रत्य-
भिज्ञाने सति पुच्छशब्दविरोधप्राप्तौ एकस्मिन् वाक्ये प्रथमचरमश्रुतशब्दयोः
आघस्य अनुपसज्जातविरोधिनो बलीयस्त्वात् पुच्छशब्देन प्राप्तगुणत्वस्य बाध इति

रत्नप्रभाका अनुवाद

होनेसे सर्वान्तर जो ब्रह्म है, उसी ब्रह्मकी पुच्छवाक्यमें ब्रह्म शब्दसे प्रत्याभिज्ञा होती है,
उसीको जतानेकी इच्छासे पद्यशेष रूप गुहाका विस्तारसे वर्णन किया गया है, परन्तु उनमें—
पद्यशेषोंमें तात्पर्य नहीं है, यह दिखानेके लिए भाष्यमें 'कल्पन्ते' (उनकी कल्पना है)
कहा है । तात्पर्य यह है कि इस प्रकार पुच्छवाक्य प्रस्तुत स्वप्रधान ब्रह्मका प्रतिपादन
करता है, इसलिए प्रकृतहानि आदि दोष नहीं हैं । "ननु" इत्यादिते शङ्का करते हैं कि
श्रुतिमें पुच्छरूपसे वर्णित ब्रह्मको प्रधान कहना विरुद्ध है । यहाँ ब्रह्मशब्दसे प्रस्तुत स्वप्रधान
ब्रह्मकी अभिधयरूपसे प्रत्याभिज्ञा होती है, और पुच्छशब्दसे ब्रह्मकी प्रधानतामें विरोध प्राप्त
होता है, ऐसे एक वाक्यमें आदि और अन्त्यमें श्रुते गये ब्रह्म और पुच्छशब्दोंमें प्रथम ब्रह्म-
शब्दका विरोधी कोई न होनेसे वह अधिक बलवान् है और उगरे पुच्छशब्द द्वारा प्राप्त

भाष्य

अत्रोच्यते—तथा सति तदेव ब्रह्मानन्दमय आत्माऽवयवी, तदेव च ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठावयव इत्यसामञ्जस्यं स्यात् । अन्यतरपरिग्रहे तु युक्तं 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इत्यत्रैव ब्रह्मनिर्देश आश्रयितुं ब्रह्मशब्दसंयोगात्, नाऽऽनन्दमयवाक्ये ब्रह्मशब्दसंयोगाभावादिति । अपि च 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इत्युक्त्वेदमुच्यते—'तदप्येष श्लोको भवति, असन्नेत्र स भवति, असद् ब्रह्मेति वेद चेत्, अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद, सन्तमेनं ततो विदुः' (तै० २।६) इति । अस्मिन् श्लोकेऽननुकृष्याऽऽनन्दमयं ब्रह्मण एव भावाभाववेदनयोर्गुणदोषाभिधानाद् गम्यते—'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इत्यत्र ब्रह्मण एव स्वप्रधानत्वमिति । न चाऽऽनन्दमयस्याऽऽत्मनो भावाभाव-

भाष्यका अनुवाद

सिद्धान्ती—ऐसा माना जाय तो वही ब्रह्म आनन्दमय आत्मा अवयवी है और वही ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा, अवयव है, यह कथन अयुक्त होगा । दोनोंमेंसे एक लें तो ब्रह्म पुच्छ, प्रतिष्ठा है, इसमें ही ब्रह्मका निर्देश उचित है, क्योंकि उसी वाक्यमें ब्रह्मशब्दका प्रयोग है, आनन्दमय वाक्यमें ब्रह्मनिर्देश उचित नहीं है, क्योंकि उसमें ब्रह्मशब्दका प्रयोग नहीं है । दूसरी बात यह भी है कि 'ब्रह्म पुच्छं' (ब्रह्म पुच्छ, प्रतिष्ठा है) ऐसा कहकर कहते हैं कि 'तदप्येष' (इसमें और यह श्लोक है, ब्रह्म अविद्यमान है ऐसा जो जानता है, वह अविद्यमान ही हो जाता है, ब्रह्म विद्यमान है ऐसा जो जानता है, ब्रह्मवेत्ता उसको ब्रह्मरूपसे विद्यमान जानते हैं) इस श्लोकमें आनन्दमयकी अनुवृत्ति किये बिना ब्रह्मके ही भाव और अभावके ज्ञानसे गुण और दोषका कथन किया है, इस कारण 'ब्रह्म पुच्छं' इस वाक्यमें ब्रह्म स्वयं ही प्रधान है ऐसा अनुमान होता है ।

रत्नप्रभा

मत्वा आह—प्रकृतत्वादिति । प्रकरणस्य अन्यथासिद्धिमाह—नन्विति । एकस्यैव गुणत्वं प्रधानत्वं च विरुद्धमित्याह—अत्रोच्यत इति । तत्र विरोध-निरासाय अन्यतरस्मिन् वाक्ये ब्रह्मस्वीकारे पुच्छवाक्ये ब्रह्म स्वीकार्यमित्याह—अन्य-रत्नप्रभाका अनुवाद

गुणत्व—अप्रधानत्वका बोध होता है, ऐसा मानकर कहते हैं—“प्रकृतत्वात्” इत्यादिसे । ब्रह्मका प्रकरण है, यह अन्यथा—दूसरे प्रकारसे सिद्ध है, ऐसी शङ्का करते हैं—“ननु” इत्यादिसे । एक ही वस्तु प्रधान और अप्रधान हो, यह विरुद्ध है ऐसा कहते हैं—“अत्रोच्यते” इत्यादिसे । उस विरोधका निराकरण करनेके लिए एक वाक्यमें ब्रह्मका स्वीकार करें तो पुच्छवाक्यमें ही ब्रह्मका स्वीकार करना ठीक है ऐसा कहते हैं—“अन्यतर” इत्यादिसे ।

भाष्य

शङ्का युक्ता, प्रियमोदादिविशेषस्याऽऽनन्दमयस्य सर्वलोकप्रसिद्धत्वात् ।
कथं पुनः स्वप्रधानं सद् ब्रह्म आनन्दमयस्य पुच्छत्वेन निर्दिश्यते—ब्रह्म
पुच्छं प्रतिष्ठा' इति ।

नैष दोषः । पुच्छवत् पुच्छं प्रतिष्ठा परायणमेकनीडं लौकिक-
स्याऽऽनन्दजातस्य ब्रह्मानन्द इत्येतदनेन विवक्ष्यते, नाऽवयवत्वम्,
भाष्यका अनुवाद

आनन्दमयके भाव और अभावकी शङ्का ठीक नहीं है, क्योंकि प्रिय मोद आदि
विशेषयुक्त आनन्दमय सब लोगोंमें प्रसिद्ध है ।

पूर्वपक्षी—तव स्वप्रधान ब्रह्मको 'ब्रह्म पुच्छं०' इस प्रकार आनन्दमयके,
पुच्छरूपसे श्रुतिमें क्यों कहा है ।

सिद्धान्ती—यह दोष नहीं है । पुच्छ—पुच्छसदृश, प्रतिष्ठा—वासस्थान,
अर्थात् लौकिक आनन्दसमूहका ब्रह्मानन्द परस्थान, एक अधिष्ठान है ऐसा अर्थ

रत्नप्रभा

तरेति । वाक्यशेषात् च एवमित्याह—अपि चेति । तत्—तत्र ब्रह्मणि, श्लोकोऽपि
इत्यर्थः । पुच्छशब्दस्य गतिं पृच्छति—कथं पुनरिति । त्वयापि पुच्छ-
शब्दस्य मुख्यार्थो वक्तुमशक्यः ब्रह्मण आनन्दमयलाङ्गूलत्वाभावात्, पुच्छदृष्टि-
लक्षणायां च आधारलक्षणा युक्ता प्रतिष्ठापदयोगात्, ब्रह्मशब्दस्य मुख्यार्थलभात् च ।
त्वत्पक्षे ब्रह्मपदस्याऽप्यवयवलक्षकत्वादित्याह—नैष दोष इति । पुच्छमित्याधारत्व-
मात्रमुक्तम्, प्रतिष्ठेत्येकनीडत्वम्, एकं मुख्यं नीडम् अधिष्ठानं सोपादानस्य
जगत इत्यर्थः । ननु वृत्तिकारैरपि तैत्तिरीयवाक्यं ब्रह्मणि समन्वितमिष्टम्, तत्र

रत्नप्रभाका अनुवाद

“अपि च” इत्यादिमें कहते हैं कि वाक्यशेषसे भी यही बात सिद्ध होती है । ‘तदप्येव०’
अर्थात् उग ब्रह्मके विषयमें श्लोक भी है । पुच्छशब्दका अर्थ पूछते हैं—“कथं पुनः” इत्यादिसे ।
हम भी ऐसा नहीं कह सकने हो कि पुच्छशब्द मुख्य अर्थमें है, क्योंकि ब्रह्म आनन्दमयकी
पूछ नहीं है । अतः पुच्छपदका पुच्छदृष्टि (पुच्छके समान देतना) में लक्षणा करनी होगी,
उसकी अपेक्षा आधारमें लक्षणा करना ठीक है, क्योंकि साथमें प्रतिष्ठापद है और ब्रह्मशब्दका
मुख्यार्थ भी हो सकता है । तुम्हारे मतमें तो ब्रह्मपदकी भी अवयवरूप अर्थमें लक्षणा करनी
पड़ेगी ऐसा कहते हैं—“नैष दोषः” इत्यादिसे । पुच्छ अर्थात् आधार, प्रतिष्ठा—मुख्य अधिष्ठान
उपादान सादित जगत्का मुख्य अधिष्ठान । तैत्तिरीय श्रुतिवाक्यका ब्रह्ममें समन्वय होना
श्रुतिकारको भी अभीष्ट है, तो बृहदारण्यक श्रुतिका उदाहरण देनेका क्या प्रयोजन ? इत्य

भाष्य

'एतस्यैवाऽऽनन्दस्याऽन्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति' (घृ० ४।३।३२) इति श्रुत्यन्तरात् । अपि च आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वे प्रियाद्यवयवत्वेन सविशेषं ब्रह्माऽभ्युपगन्तव्यम् । निर्विशेषं तु ब्रह्म वाक्यशेषे श्रूयते, वाङ्-मनमयोरगोचरत्नाभिधानात्—'यतो वाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह, आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्, न विभेति कुतश्चनेति' (तै० २।९) । अपि च आनन्दप्रचुर इत्युक्ते दुःखास्तित्त्वमपि गम्यते, प्राचुर्यस्य लोके भाष्यका अनुवाद

विवक्षित है, अवयवरूप अर्थ विवक्षित नहीं है, क्योंकि दूसरी श्रुतिमें भी 'एतस्यैवानन्दस्य०' (इसी आनन्दके अक्षरपर अन्य भूत निर्भर है) ऐसा कहा है और आनन्दमयको यदि ब्रह्म कहें, तो उसके प्रिय आदि अवयवोंके होनेसे सगुण ब्रह्मका स्वीकार करना होगा । परन्तु वाक्यशेषमें निर्गुण ब्रह्म श्रुत है, क्योंकि वाणी और मनका वह अगोचर है, ऐसा कहा है—'यतो वाचो०' (मन और वाणी जिसको ग्रहण करनेमें असमर्थ होकर लौट जाते हैं, उस ब्रह्मके आनन्द स्वरूपको जाननेवाला किसीसे भय नहीं खाता ।) और आनन्द प्रचुर ऐसा कहनेसे दुःखके अस्तित्वका भी अनुमान होता है, क्योंकि लोकमें जिस वस्तुका

रत्नप्रभा

किमुदाहरणभेदेन इत्याशङ्क्य आह—अपि चेति । यत्र सविशेषत्व तत्र वाङ्मनसगोचरत्वमिति व्याप्ते अत्र व्यापकाभावोक्त्या निर्विशेषमुच्यते इत्याह—निर्विशेषमिति । निवर्तन्ते अशक्ता इत्यर्थ । सविशेषस्य मृपात्वादभयं चाऽयुक्तम्, अतो निर्विशेषज्ञानार्थं पुच्छवाक्यम् एव उदाहरणमिति भाव । प्राचुर्यार्थकमयटा सविशेषोक्तौ निर्विशेषश्रुतिबाध उक्त । दोषान्तरमाह—अपि चेति । प्रत्ययार्थत्वेन प्रधानस्य प्राचुर्यस्य प्रकृत्यर्थो विशेषणम्, विशेषणस्य य प्रतियोगी—विरोधीति

रत्नप्रभाका अनुवाद

वाक्यपर कहते हैं—“अपि च” इत्यादि । जो सविशेष है, वह वाणी और मनका गोचर है यह व्याप्ति है अतः वाणी और मनका गोचर न होनेके कारण ब्रह्म निर्विशेष है ऐसा कहते हैं—“निर्विशेषम्” इत्यादिसे । ‘निवर्तन्ते’—असमर्थ होकर लौटती हैं । सगुण ब्रह्म मिथ्या है, अतः उससे अभयप्राप्ति नहीं हो सकती, अतः निर्गुण ब्रह्मके ज्ञानके लिए ही पुच्छवाक्य उदाहरण है, ऐसा तात्पर्य है । प्राचुर्यार्थक मयटसे सगुण ब्रह्म कहा जाय ता निर्गुण ब्रह्मप्रतिपादक धृतिका बाध होगा ऐसा कहा गया है । “अपि च” इत्यादिसे अन्य दोष दूरलगेत हैं । प्राचुर्य प्रत्ययार्थ होनेसे प्रधान है और प्रकृत्यर्थ उसका विदापण है ।

भाष्य

प्रतियोग्यल्पत्वापेक्षत्वात् । तथा च सति 'यत्र नान्यत्पश्यति नान्य-
च्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा' (छा० ७।२४।१) इति भूमि
ब्रह्मणि तद्व्यतिरिक्ताभावश्रुतिरुपरुध्येत । प्रतिशरीरं च प्रियादिमेदादा-
नन्दमयस्याऽपि भिन्नत्वम् । ब्रह्म तु न प्रतिशरीरं भिद्यते 'सत्यं ज्ञानमनन्तं
ब्रह्म' (तै० २।१) इत्यानन्त्यश्रुतेः, 'एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी
सर्वभूतान्तरात्मा' (श्वे० ६।११) इति च श्रुत्यन्तरात् । न चाऽऽनन्दमय-
स्याऽभ्यासः श्रूयते, प्रातिपदिकार्थमात्रमेव हि सर्वत्राऽभ्यस्यते—'रसो वै

भाष्यका अनुवाद

प्राचुर्य कहा जाता है, वह उसके विरोधी वस्तुकी अल्पताकी अपेक्षा रखता है ।
ऐसा होनेपर 'यत्र नान्यत् पश्यति०' (जहां दूसरा कुछ नहीं देखता, दूसरा
कुछ नहीं सुनता, दूसरा कुछ नहीं जानता, वह भूमा—ब्रह्म है) इस प्रकार
भूमामें—ब्रह्ममें उससे भिन्न वस्तुका अभाव दिखलानेवाली श्रुतिका बाध हो
जायगा । और प्रत्येक शरीरमें प्रियादि भिन्न होनेसे आनन्दमय भले ही भिन्न हो,
परन्तु ब्रह्म प्रत्येक शरीरमें भिन्न नहीं है, क्योंकि 'सत्यं०' (ब्रह्म सत्य, ज्ञान और
अनन्त है] यह श्रुति ब्रह्मको अनन्त-अपरिच्छिन्न कहती है, और 'एको देवः०'
(एक देव सब भूतोंमें गूढ, सर्वव्यापक और सब भूतोंका अन्तरात्मा है) यह
दूसरी श्रुति है । आनन्दमयका अभ्यास श्रुतिमें नहीं है, क्योंकि सर्वत्र

रत्नप्रभा

तस्याऽल्पत्वमपेक्षते, यथा विप्रमयो ग्राम इति शूद्राल्पत्वम् । अस्तु को दोषः
तत्राह—तथा चेति । प्रकृत्यर्थप्राधान्ये त्वयं दोषो नास्ति, प्रचुरप्रकाशः सविता इत्यत्र
तमसोऽल्पस्याऽपि अभावात्, परन्तु आनन्दमयपदस्य प्रचुरानन्दे लक्षणादोषः
म्यादिति मन्तव्यम् । किञ्च, भिन्नत्वाद् घटवन्न ब्रह्मेत्याह—प्रतिशरीरमिति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

विशेषणका जो प्रतियोगी—विरोधी है, उसके अल्पत्वकी अपेक्षा है, जैसे ग्राम विप्रप्रचुर है
अर्थात् बहुत ब्राह्मणोंवाला है ऐसा कहनेमें उगमें शूद्र घोड़े हैं ऐसा मानना होता है । ऐसा
हो, उगमें क्या दोष है ? इसपर कहते हैं—'तथा च' इत्यादिते । प्रकृत्यर्थ प्रधान हो तो
यह दोष नहीं है । प्रचुर प्रकाशरूप सूर्य है इसमें अल्प भी अन्वधारका भान नहीं होता ।
परन्तु आनन्दमयपदका, प्रकृत्यर्थको प्रधान मानकर, प्रचुर आनन्द ऐगार्थ्य करें तो इस
अर्थमें आनन्दमय शब्दकी लक्षणा माननी होगी, अतः लक्षणादोष होगा ऐसा समझना
चाहिए । "प्रतिशरीरम्" इत्यादिते कहते हैं कि आनन्दमय प्रतिशरीर भिन्न भिन्न है,

भाष्य

सः, रस ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति, को ह्येवान्यात्कः प्राण्यात्, यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्, एष ह्येवानन्दयाति' 'सैपानन्दस्य मीमांसा भवति' 'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कुतश्चनेति' (तै० २।७,८,९) 'आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्, (तै० ६।६) इति च । यदि च आनन्दमयशब्दस्य ब्रह्मविषयत्वं निश्चितं भवेत्, तत उत्तरेष्वानन्दमात्रप्रयोगेष्वप्यानन्दमयाभ्यासः कल्प्येत, न त्वानन्दमयस्य ब्रह्मत्वमस्ति, प्रियशिरस्त्वादिभिर्हेतुभिरित्यवोचाम । तस्मात् श्रुत्यन्तरे 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' (बृ० ३।१।२८) इत्यानन्दप्रातिपदिकस्य ब्रह्मणि

भाष्यका अनुवाद

प्रातिपदिकके अर्थमात्रका अभ्यास है । जैसे कि 'रसो वै सः०' (यह रस है, रसको ही प्राप्त करके यह आनन्दवान् होता है, यदि आकाश-स्वप्रकाशरूप यह आनन्द न होता, तो, कौन चेष्टा करता और कौन जीता; यही परमात्मा आनन्द प्राप्त कराता है) 'सैपा०' (यह आनन्दकी विचारणा होती है) 'आनन्दं०' (ब्रह्मके आनन्दस्वरूप को जाननेवाला किसीसे भय नहीं पाता) 'आनन्दो०' (आनन्द ब्रह्म है ऐसा जानना) इत्यादि स्थलोंमें स्पष्ट है । यदि आनन्दमय शब्द ब्रह्मविषयक है, ऐसा निश्चित हो, तो आगे जहाँ केवल आनन्द शब्दका प्रयोग है वहाँ भी लक्षणासे आनन्दमयके अभ्यासकी कल्पना करनी होगी, परन्तु आनन्दमय ब्रह्म नहीं है, कारण कि उसके प्रिय शिर आदि अवयव हैं, ऐसा हम पीछे कह चुके हैं । इसलिए 'विज्ञान०' (ब्रह्म विज्ञानस्वरूप और आनन्दस्वरूप है) इस दूसरी श्रुतिमें आनन्दशब्दका ब्रह्ममें प्रयोग

रत्नप्रभा

ननु अभ्यस्यमानानन्दपद लक्षणया आनन्दमयपरम् इति अभ्याससिद्धिः इत्यत आह— यदि चेति । आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वे निर्णयति सत्यानन्दपदस्य तत्परत्वज्ञानादभ्याससिद्धिः तत्सिद्धौ तन्निरणय इति परस्परश्रय इति भावः । अयमभ्यासः पुच्छब्रह्मणः

रत्नप्रभाका अनुवाद

अतः पदकी तरह अनेक होनेके कारण वह ब्रह्म नहीं कहा जा सकता । परन्तु अभ्यासको प्राप्त हुआ आनन्दपद लक्षणासे आनन्दमयको कहता है, अतः आनन्दमयके अभ्यासकी सिद्धि है, इसपर कहते हैं—“यदि च” इत्यादिसे । आशय यह कि आनन्दमय ब्रह्म है ऐसा निर्णय होनेपर आनन्दपद आनन्दमय विषयक है ऐसे ज्ञानसे अभ्यास सिद्ध हो और

भाष्य

प्रयोगदर्शनात् 'यदेव आकाश आनन्दो न स्यात्' इत्यादिब्रह्मविषयः प्रयोगो न त्वानन्दमयाभ्यास इत्यवगन्तव्यम् । यस्त्वयं मयडन्तस्यैवाऽऽनन्दशब्दस्याऽभ्यासः—'एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति' (तै० २।८) इति, न तस्य ब्रह्मविषयत्वमस्ति, विकारात्मनामेवाऽन्नमयादीनामनात्मनामुपसंक्रामितव्यानां प्रवाहे पठितत्वात् ।

नन्वानन्दमयस्योपसंक्रामितव्यस्याऽन्नमयादिवदब्रह्मत्वे सति नैव विदुषो ब्रह्मप्राप्तिफलं निर्दिष्टं भवेत् । नैव दोषः । आनन्दमयोपसंक्रमण-
भाष्यका अनुवाद

देखा जाता है, इससे 'यदेव०' इत्यादि श्रुतिमें ब्रह्मके लिये आनन्दशब्दका प्रयोग है, आनन्दमयका अभ्यास नहीं है, ऐसा समझना चाहिए । 'एतमानन्दमय०' (इस आनन्दमय आत्माका वह बाध करता है) इसमें मयद् प्रत्ययान्त जो आनन्दशब्दका अभ्यास है वह ब्रह्मविषयक नहीं है, क्योंकि विकारात्मक अन्नमयादि अनात्म वस्तुएँ जो बाध करनेके योग्य हैं, उनकी परम्परामें वह पड़ा हुआ है ।

पूर्वपक्ष—यदि प्राप्त करने योग्य आनन्दमय अन्नमयादिके समान ब्रह्म न हो, तो श्रुतिमें विद्वान्को ब्रह्मप्राप्तिरूप फलका निर्देश नहीं हुआ ?

सिद्धान्त—यह दोष नहीं है, क्योंकि श्रुतिमें आनन्दमयकी प्राप्तिके कथनसे

रत्नप्रभा

इत्याह—तस्मादिति । उपसंक्रमणं बाधः । ननु 'स य एवंविद्' इति ब्रह्मविदं प्रक्रम्य उपसंक्रमणवाक्येन फलं निर्दिश्यते तत्तस्य अब्रह्मत्वे न सिद्ध्यति इति शङ्कते—नन्विति । उपसंक्रमणं प्राप्तिः इत्यङ्गीकृत्य विशिष्टप्राप्त्युक्त्या विशेषणप्राप्तिः फलमुक्तम् इति आह—नैव इति । ज्ञानेन कोशानां बाधः तदिति सिद्धान्ते वाधा-
रत्नप्रभाका अनुवाद

अभ्यास सिद्ध होनेपर आनन्दमय ब्रह्मविषयक है ऐसा निर्णय हो, इस प्रकार परस्परश्रय दोष प्राप्त होना है । "तस्मात्" इत्यादिमें कहते हैं कि यह अभ्यास (आनन्दमयविषयक नहीं है किन्तु) पुच्छवाक्यमें उपादिष्ट ब्रह्मविषयक है । उपसंक्रमण—बाध । परन्तु 'स य०' इस प्रकार ब्रह्मवैत्ताका उपक्रम करके उपसंक्रमणवाक्यमें फलका कथन किया है, वह यदि उपसंक्रमितमय ब्रह्म न हो, तो ब्रह्मप्राप्तिरूप फल सिद्ध न होगा ऐसा शङ्का करते हैं—"ननु" इत्यादिते । उपसंक्रमणवाक्य अर्थ प्राप्ति है ऐसा अंगीकार करके विशिष्टकी प्राप्ति कहनेमें विशेषण प्रतिक्रम फल कहा ही है, ऐसा कहते हैं—"नैव" इत्यादिते । शङ्काकार कोशिका

(१) वनमयय शब्दका अर्थ बाध है, प्राप्ति नहीं है । आनन्दमयके बाधमें पुच्छ—भाष्यक ब्रह्म

भाष्य

निर्देशेनैव पुच्छप्रतिष्ठाभूतब्रह्मप्राप्तेः फलस्य निर्दिष्टत्वात् । 'तदप्येष श्लोको भवति । 'यतो वाचो निवर्तन्ते' इत्यादिना च प्रपञ्च्यमानत्वात् । या त्वानन्दमयसंनिधाने 'सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय' इति इयं श्रुतिरुदाहृता सा 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इत्यनेन संनिहिततरेण ब्रह्मणा संबध्यमाना नाऽऽनन्दमयस्य ब्रह्मतां प्रतिबोधयति । तदपेक्षत्वाच्चोत्तरस्य ग्रन्थस्य 'रसो वै सः' इत्यादेर्नाऽऽनन्दमयविषयता ।

ननु 'सोऽकामयत' इति ब्रह्मणि पुल्लिङ्गनिर्देशो नोपपद्यते । नायं

भाष्यका अनुवाद

ही पुच्छ और प्रतिष्ठाभूत ब्रह्मकी प्राप्तिरूप फलका निर्देश है । और 'तदप्येष०' (उसमें यह श्लोक है) 'यतो वाचो०' इत्यादिसे उसका विस्तार किया गया है । आनन्दमयके सन्निधानमें 'सोऽकामयत०' यह जो श्रुति उद्धृत की गई है, वह 'ब्रह्म पुच्छं०' इस अत्यन्त समीपस्थ ब्रह्मके साथ सम्बन्ध रखती है, इसलिए आनन्दमय ब्रह्म है, ऐसा बोध नहीं कराती और 'रसो वै सः०' (वह रस है) इत्यादि उत्तर ग्रन्थको उसकी अपेक्षा है, इसलिए यह आनन्दमयसे सम्बन्ध नहीं रखती ।

पूर्वपक्ष—'सोऽकामयत' (उसने कामना की) इस प्रकार ब्रह्ममें पुल्लिङ्गका निर्देश युक्त नहीं है ।

सिद्धान्त—यह दोष नहीं है, क्योंकि 'तस्माद्वा एतस्मा०' (उस आत्मासे

रत्नप्रभा

वधिप्रत्यगानन्दलामोऽर्थादुक्त उत्तरश्लोकेन स्फुटीकृत इत्याह—तदपीति । तदपेक्षत्वादिति । कामयित्वुच्छब्रह्मविषयत्वादित्यर्थः । यदुक्तं पञ्चमस्थानस्थत्वादानन्द-

रत्नप्रभाका अनुवाद

बाध होना उपसंक्रमण है इस सिद्धान्तमें बाधके अवधिरूप प्रत्यगानन्दका लाभ अर्थात् कहा गया, उसका अभिन्न श्लोकसे स्पष्टीकरण किया गया है ऐसा कहते हैं—'तदपि' इत्यादिसे । "तदपेक्षत्वात्"—कामनाकर्तृ पुच्छब्रह्मविषयक होनेके कारण । जैसे भृगुबल्लो पद्मम स्थानमें उपदिष्ट आनन्दमें परितमाम है, उसी प्रकार

प्राप्तिरूप फल अर्थात् प्राप्त होना है यह भाष्यका अर्थ है । रत्नप्रभामें अम्युपगमवाङ्मसे उपसंक्रमण शब्दका अर्थ प्राप्ति किया है और उर्माके अनुसार पूर्वपक्ष है । यह वाच्य रत्नप्रभाकी 'उपसंक्रमण बाधः' इस शक्तिपर ध्यान देनेसे प्रतीत होती है ।

भाष्य

दोषः । 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः' इत्यत्र पुंलिङ्गेनाऽ-
प्यात्मशब्देन ब्रह्मणः प्रकृतत्वात् । यत्तु भार्गवी वारुणी विद्या 'आनन्दो
ब्रह्मेति व्यजानात्' इति, तस्यां मयडश्रवणात् प्रियशिरस्त्वाद्यश्रवणाच्च
युक्तमानन्दस्य ब्रह्मत्वम् । तस्मादणुमात्रमपि विशेषमनाश्रित्य न स्वत
एव प्रियशिरस्त्वादि ब्रह्मण उपपद्यते । न चेह सविशेषं ब्रह्म प्रतिपिपा-
दयिषितम्, बाह्यनसगोचरातिक्रमश्रुतेः । तस्मादन्नमयादिध्विवाऽऽनन्द-
मयेऽपि विकारार्थ एव मयद् विज्ञेयो न प्राचुर्यार्थः ।

भाष्यका अनुवाद

आकाश उत्पन्न हुआ) इसमें पुंलिङ्ग आत्मशब्दसे ब्रह्म प्रकृत है । 'आनन्दो'
(आनन्द ब्रह्म है ऐसा जाना) यह जो भृगुको वरुणद्वारा कही गई विद्या है,
इसमें मयद् प्रत्ययका श्रवण नहीं है और प्रिय ही शिर है इत्यादिका भी
श्रवण नहीं है, इसलिए आनन्द ब्रह्म है यह कथन युक्त है । अतः किंचित् भी
विशेषका आश्रय किये बिना अपने आप ही प्रियशिरस्त्व आदि धर्म ब्रह्ममें
उपपन्न नहीं होते हैं । यहां पर सगुण ब्रह्मका प्रतिपादन करना इष्ट नहीं है,
क्योंकि ब्रह्म वाणी और मनका अगोचर है, ऐसा श्रुतिमें कहा गया है । इसलिए
जैसे अन्नमयादिमें मयद् विकारार्थक है, उसी प्रकार आनन्दमयमें भी विकारार्थक
ही है, प्राचुर्यार्थक नहीं है ऐसा जानना चाहिये ।

रत्नप्रभा

मये ब्रह्मवल्ली समाप्ता भृगुवल्लीवदिति, तत्राह—यत्त्विति । या त्वित्यर्थः ।
मयद्श्रुत्या, सावयवत्वदिलिङ्गेन च स्थानं बाध्यमिति भावः । गोचरातिक्रमः
गोचरत्वाभावः । 'वेदसूत्रयोर्विरोधे गुणे तु अन्याय्यकल्पना इति' सूत्राणि अन्यथा

रत्नप्रभाका अनुवाद

ब्रह्मवाणी भी पद्यम, स्थानमें—उक्त आनन्दमयमें परिसमाप्त है ऐसा जो कहा था उसपर कहते
हैं—“यत्तु” इत्यादिसे । “यत्” पदका प्रयोग—“या” के अर्थमें है, (क्योंकि यहाँ पर यत्
“विद्या” का विशेषण है) । ब्रह्मवल्लीमें विकारार्थक मयद्का श्रवण है और प्रिय शिर है
इत्यादि अवयव बड़े मये हैं, अतः स्थानका बाध है ऐसा तात्पर्य है । “गोचरातिक्रम”—
आविषय । वेद और सूत्रमें विरोध हो तो—“गुणे” इत्यन्यायसे सूत्रोंका अर्थ वेदार्थानुसार
ही करना चाहिए (न कि सूत्रार्थानुसार वेदार्थकी कल्पना करनी चाहिए) ऐसा कहते हैं—

(१) जहाँ प्रधान और अप्रधान दो विषयोंमें विरोध हो, यदि अप्रधान विषयके अनुसार
प्रधान विषयका समन्वय करे, तो वहाँ इन न्यायकी प्रतीति होती है ।

भाष्य

सूत्राणि त्वेवं व्याख्येयानि—ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इत्यत्र किमानन्द-
मयावयवत्वेन ब्रह्म विवक्ष्यत उत स्वप्रधानत्वेनेति । पुच्छशब्दादवयव-
त्वेनेति प्राप्त उच्यते—'आनन्दमयोऽभ्यासात्' । आनन्दमय आत्मेत्यत्र
'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इति स्वप्रधानमेव ब्रह्मोपदिश्यते, अभ्यामात् ।
'असन्नेन स भवति' इत्यस्मिन्निगमनश्लोके ब्रह्मण एव केनलस्याऽभ्यस्य-
मानत्वात्, 'विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्' । विकारशब्देनाश्रयव-
शब्दोऽभिप्रेतः, पुच्छमित्यवयवशब्दान्न स्वप्रधानत्वं ब्रह्मण इति यदुक्तम्,

भाष्यका अनुवाद

सूत्रोंका व्याख्यान तो इस प्रकार करना चाहिए कि 'ब्रह्म०' इसमें क्या
आनन्दमयके अवयवरूपसे ब्रह्मकी विवक्षा है अथवा स्वतन्त्रतासे । पुच्छशब्दके
प्रयोगके कारण अवयवरूपसे विवक्षा है ऐसा प्राप्त होने पर सूत्रकार कहते हैं—
"आनन्दमयोऽभ्यासात्" (सू० १०) । 'आनन्दमय आत्मा' इसमें 'ब्रह्म पुच्छ
प्रतिष्ठा है ऐसा जो कहा गया है, उससे स्वतन्त्र ब्रह्म ही अभ्याससे उपदिष्ट है,
क्योंकि 'असन्नेव०' (वह अविद्यमान ही होता है) इस उपसंहार श्लोकमें
फेवल ब्रह्मका ही अभ्यास किया है । विकार० (सू० १३) इसमें विचार शब्द
से अवयव शब्द विवक्षित है । 'पुच्छं' इस अवयव शब्दसे ब्रह्म स्वप्रधान नहीं

रत्नप्रभा

नेतव्यानि इत्याह—सूत्राणीति । पूर्वम् ईक्षते सशयाभावादिति युक्त्या प्रायपाठो
न निश्चायक इत्युक्तम् । तर्हि अत्र पुच्छपदस्य आधारावयवयोर्लक्षणासाम्यात्
सशयोऽस्ति इति अत्रयवप्रायपाठो निश्चायक इति पूर्वाधिकरणसिद्धान्तयुक्त्यभावेन
पूर्वपक्षयति—पुच्छशब्दादिति । तथा च प्रत्युदाहरणसङ्गतिः । पूर्वपक्षे सगुणो-
पास्ति, सिद्धान्ते निर्गुणप्रमितिः फलम् । वेदान्तवाक्यसमन्वयोक्ते श्रुत्यादिसङ्गतय

रत्नप्रभाका अनुवाद

"सूत्राणि" इत्यादिते । पूर्वाधिकरणमें ईक्षण गौण और मुख्य दोनोंमें (अप् - तेज और सत्तम)
अवल्य है, इस कारण सशय नहीं होता है, अत गौणप्रायपाठ अर्थनिश्चायक नहा है ऐसा कहा
है, यहाँ तो "पुच्छ" पदकी आधार और अवयव दोनों अर्थोंमें लक्षणा होनेके कारण सशय
होता है, इस कारण अवयवप्रायपाठ अर्थनिश्चायक है अर्थात् पुच्छशब्दका अर्थ आधार नहीं
है, किन्तु अवयव है ऐसा पूर्वपक्ष करते हैं—"पुच्छशब्दात्" इत्यादिसे । इस प्रकार पूर्वा
धिकरणसे प्रत्युदाहरण संगति है । पूर्वपक्षमें सगुण ब्रह्मकी उपासना फल है और सिद्धान्तमें
निर्गुण ब्रह्मका ज्ञान फल है । वेदान्तवाक्योंका समन्वय कहा है, इसलिए धृति आदि सगतिया

भाष्य

तस्य परिहारो वक्तव्यः । अत्रोच्यते—नायं दोषः, प्राचुर्यादप्यवयवशब्दो-
पपत्तेः । प्राचुर्यं प्रायापत्तिः, अवयवप्राये वचनमित्यर्थः । अन्नमयादीनां
हि शिरआदिषु पुच्छान्तेष्ववयवेषूक्तेष्वानन्दमयस्यापि शिरआदीन्यवयवा-
न्तराण्युक्त्वाऽवयवप्रायापत्त्या 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इत्याह, नाऽवयववि-
वक्षया यत्कारणमभ्यासादिति स्वप्रधानत्वं ब्रह्मणः समर्थितम् । 'तद्धेतु-
व्यपदेशाच्च' । सर्वस्य च विकारजातस्य सानन्दमयस्य कारणत्वेन ब्रह्म

भाष्यका अनुवाद

है, ऐसा जो कहा है उसका परिहार करना चाहिए । इस विषयमें कहा जाता है—
यह दोष नहीं है । प्राचुर्यसे भी अवयवशब्द उपपन्न होता है । प्राचुर्य अर्थात्
प्रायः आपत्ति—अवयव-क्रमकी बुद्धिमें प्राप्ति, अवयवप्रायमें कथन है ऐसा
अर्थ है । अन्नमयादिके शिरोभागसे लेकर पुच्छ पर्यन्त अवयव कहनेके बाद
आनन्दमयके भी शिरोभाग आदि अवयव कहकर अवयव-क्रमका ज्ञान करानेके
लिए ब्रह्म पुच्छ, प्रतिष्ठा है, ऐसा कहा है, अवयवकी विवक्षासे ऐसा नहीं कहा
गया । और इसी कारणसे 'अभ्यासात्' इस प्रकार ब्रह्मकी स्वतन्त्रताका समर्थन
किया है । 'तद्धेतुः'—आनन्दमय सहित सब विकार समूहके कारणरूपसे

रत्नप्रभा

स्फुटा एव । सूत्रस्थानन्दमयपदेन तद्वाक्यस्यं ब्रह्मपदं लक्ष्यते । विक्रियतेऽनेनेति
विकारोऽवयवः । प्रायापत्तिरिति । अवयवक्रमस्य बुद्धौ प्राप्तिरित्यर्थः । अत्र
हि प्रकृतस्य ब्रह्मणो जानार्थं कोशाः पक्षित्वेन कल्पन्ते, नाऽत्र तात्पर्यमस्ति, तत्र
आनन्दमयस्यापि अवयवान्तरोक्त्यनन्तरं कस्मिंश्चित् पुच्छे वक्तव्ये प्रकृतं ब्रह्म
पुच्छपदेन उक्तम्, तस्य आनन्दमयाधारत्वेन अवयव वक्तव्यत्वादित्यर्थः ।
तद्धेतुव्यपदेशाच्च (ब्र० सू० १।१।१४) तस्य ब्रह्मणः सर्वकार्यहेतुत्वव्यपदेशात्

रत्नप्रभाका अनुवाद

स्फुट ही है । सूत्रमें स्थित आनन्दमय शब्दसे आनन्दमयवाच्यगत ब्रह्मशब्दका लक्षणार्थ बोध
होता है । जिससे विकृत होता है—इस व्युत्पत्तिमें विकारशब्दका अर्थ अवयव होता है ।
"प्रायापत्तिः"—अवयव क्रमका बुद्धिमें आना । यहाँ प्रकृत ब्रह्मके ज्ञानके लिए कौशांबी पक्षी
रूपसे कल्पना होती है, उनमें तात्पर्य नहीं है । आनन्दमयके दूगरे अवयवोंके बहनेके बाद
किष्कीको पंठरूपसे भी कहना चाहिए, अतः प्रकृत ब्रह्मको पुच्छरूपसे कहा है, क्योंकि यह
आनन्दमयके आधार रूपसे अवयव वक्तव्य है । "तद्धेतुः"—ब्रह्म सब कार्योंका हेतु है ऐसा

भाष्य

व्यपदिश्यते—‘इदं सर्वमसृजत यदिदं किञ्च’ (तै० २।६) इति । न च कारणं सत् ब्रह्म स्वविकारस्याऽऽनन्दमयस्य मुख्यया वृत्त्याऽप्यत्र उप-

भाष्यका अनुवाद

‘इदं सर्वं’ (उसने यह सब उत्पन्न किया, यह जो कुछ है) इस प्रकार ब्रह्मका कथन किया है । और ब्रह्म कारण होकर मुख्यवृत्तिसे अपने विकार आनन्दमयका

रत्नप्रभा

प्रियादिविशिष्टत्वाकारेण आनन्दमयस्य जीवस्य कार्यत्वात् तं प्रति शेषत्व ब्रह्मणो न युक्तमित्यर्थः । “मान्त्रवार्णिकमेव च गीयते” (ब्र० सू० १।१।१५) “ब्रह्म विद्रामोति परम्” इति यस्य ज्ञानात् मुक्ति उक्ता, यत् ‘सत्य ज्ञानम्’ इति मन्त्रोक्त ब्रह्म, तत् अत्रैव पुच्छवाक्ये गीयते, ब्रह्मपदसंयोगात्, नाऽऽनन्दमयवाक्ये इत्यर्थः । “नेतरोऽनुपपत्तेः” (ब्र० सू० १।१।१६) इतर आनन्दमयो जीवोऽत्र न प्रतिपाद्य, सर्वस्रष्टृत्वाद्यनुपपत्तेः इत्यर्थः । “भेदव्यपदेशाच्च” (ब्र० सू० १।१।१७) । अयम् आनन्दमयो ब्रह्मरस लब्ध्वा आनन्दी भवति इति, भेदोक्तेश्च तस्य अप्रतिपाद्यता इत्यर्थः । आनन्दमयो ब्रह्म, तैत्तिरीयकपञ्चमस्थानम्यत्वात्, भृगुवल्लीस्थानन्दवदिति आशङ्क्याऽऽह—“कामाच्च नानुमानापेक्षा” (ब्र० सू० १।१।१८) । काम्यत इति

रत्नप्रभाका अनुवाद

श्रुतिमें कहा गया है, इससे प्रियादिविशिष्टरूपसे आनन्दमय जीव भी कार्य है इससे उससे प्रति ब्रह्म अज्ञ हो यह युक्त नही है । “मान्त्रवार्णिकं” ‘ब्रह्मं’ (ब्रह्मवेत्ता पर—ब्रह्मको पाता है) इस प्रकार जिसके ज्ञानसे मुक्ति कही गई है और जो ‘सत्य ज्ञानं’ मन्त्रम कहा गया है, वह ब्रह्म यहाँ—पुच्छ वाक्यमें ही कहा गया है, क्योंकि ब्रह्मपदका साभिध्य है, आनन्दमय वाक्यमें नहीं कहा गया, यह तात्पर्य है । “नेतरोः”—इतर अर्थात् आनन्दमय जाव यहाँ प्रतिपाद्य नहीं है, क्योंकि सब पदार्थोंका स्रष्टृत्व आदि जीवम उपपन्न नहीं हैं अर्थात् जीव सब पदार्थोंका स्रष्टा नहीं हो सकता । “भेदः” यह आनन्दमय ब्रह्मरस प्राप्त करके आनन्द युत होता है । इस प्रकार ब्रह्म और आनन्दमयका भेद कहा है, अत आनन्दमय—जाव श्रुति प्रतिपाद्य नही है । आनन्दमय ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्मवल्लीके पाचवें स्थानमें है, भृगुवल्गीमें आय हुए आनन्दके समान, ऐसे अनुमानकी शङ्का करके कहते हैं—“कामाच्च” । सबसे आनन्दकी

भाष्य

तस्य परिहारो वक्तव्यः । अत्रोच्यते—नायं दोषः, प्राचुर्यादप्यवयवशब्दो-
पपत्तेः । प्राचुर्यं प्रायापत्तिः, अवयवप्राये वचनमित्यर्थः । अन्नमयादीनां
हि शिरआदिषु पुच्छान्तेष्ववयवेषूपेक्षानन्दमयस्यापि शिरआदीन्यवयवा-
न्तराप्युक्त्वाऽवयवप्रायापत्त्या 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इत्याह, नाऽवयववि-
वक्षया यत्कारणमभ्यासादिति स्वप्रधानत्वं ब्रह्मणः समर्थितम् । 'तद्धेतु-
व्यपदेशाच्च' । सर्वस्य च विकारजातस्य सानन्दमयस्य कारणत्वेन ब्रह्म

भाष्यका अनुवाद

है, ऐसा जो कहा है उसका परिहार करना चाहिए । इस विषयमें कहा जाता है—
यह दोष नहीं है । प्राचुर्यसे भी अवयवशब्द उपपन्न होता है । प्राचुर्य अर्थात्
प्रायः आपत्ति—अवयव-क्रमकी बुद्धिमें प्राप्ति, अवयवप्रायसे कथन है ऐसा
अर्थ है । अन्नमयादिके शिरोभागसे लेकर पुच्छ पर्यन्त अवयव कहनेके बाद
आनन्दमयके भी शिरोभाग आदि अवयव कहकर अवयव-क्रमका ज्ञान करानेके
लिए ब्रह्म पुच्छ, प्रतिष्ठा है, ऐसा कहा है, अवयवकी विवक्षासे ऐसा नहीं कहा
गया । और इसी कारणसे 'अभ्यासात्' इस प्रकार ब्रह्मकी स्वतन्त्रताका समर्थन
किया है । 'तद्धेतुः'—आनन्दमय सहित सब विकार समूहके कारणरूपसे

रत्नप्रभा

स्फुटा एव । सूत्रस्यानन्दमयपदेन तद्वाक्यस्य ब्रह्मपदं लक्ष्यते । विक्रियतेऽनेनेति
विकारोऽवयवः । प्रायापत्तिरिति । अवयवक्रमस्य बुद्धौ प्राप्तिरित्यर्थः । अत्र
हि प्रकृतस्य ब्रह्मणो ज्ञानार्थं कोशाः पक्षित्वेन कल्पन्ते, नाऽत्र तात्पर्यमस्ति, तत्र
आनन्दमयस्यापि अवयवान्तरोक्त्यनन्तरं किंश्चिद् पुच्छे वक्तव्ये प्रकृतं ब्रह्म
पुच्छपदेन उक्तम्, तस्य आनन्दमयाधारत्वेन अवश्यं वक्तव्यत्वादित्यर्थः ।
तद्धेतुव्यपदेशाच्च (ब्र० सू० १।१।१४) तस्य ब्रह्मणः सर्वकार्यहेतुत्वव्यपदेशात्

रत्नप्रभाका अनुवाद

स्पष्ट ही है । सूत्रमें स्थित आनन्दमय शब्दमें आनन्दमयवाच्यगत ब्रह्मशब्दका लक्षणार्थ बोध
होता है । जिससे विहृत होता है—इस स्थितिके विकाररूपका अर्थ अवयव होता है ।
"प्रायापत्ति"—अवयव क्रमका बुद्धिमें आना । यहाँ प्रकृत ब्रह्मके ज्ञानके लिए कोशाँकी पक्षी
रूपसे कल्पना होती है, उनमें तात्पर्य नहीं है । आनन्दमयके दूसरे अवयवके बहनेके बाद
किंहींके पृच्छरूपमें भी कहना चाहिए, अतः प्रकृत ब्रह्मको पुच्छरूपमें कहा है, क्योंकि यह
आनन्दमयके आधार रूपमें अवश्य वक्तव्य है । "तद्धेतुः"—ब्रह्म सब कार्योंका हेतु है ऐसा

भाष्य

व्यपदिश्यते—‘इदं सर्वमसृजत यदिदं किञ्च’ (तै० २।६) इति । न च कारणं सत् ब्रह्म स्वविकारस्याऽऽनन्दमयस्य मुख्यया वृत्त्याऽवयव उप-

भाष्यका अनुवाद

‘इदं सर्वं’ (उसने यह सब उत्पन्न किया, यह जो कुछ है) इस प्रकार ब्रह्मका कथन किया है । और ब्रह्म कारण होकर मुख्यवृत्तिसे अपने विकार आनन्दमयका

रत्नप्रभा

प्रियादिविशिष्टत्वाकारेण आनन्दमयस्य जीवस्य कार्यत्वात् तं प्रति शेषत्वं ब्रह्मणो न युक्तमित्यर्थः । “मान्त्रवार्णिकमेव च गीयते” (ब्र० सू० १।१।१५) “ब्रह्म-विदामोति परम्” इति यस्य ज्ञानात् मुक्तिः उक्ता, यत् ‘सत्यं ज्ञानम्’ इति मन्त्रोक्तं ब्रह्म, तत् अत्रैव पुच्छवाक्ये गीयते, ब्रह्मपदसंयोगात्, नाऽऽनन्दमयवाक्ये इत्यर्थः । “नेतरोऽनुपपत्तेः” (ब्र० सू० १।१।१६) इतर आनन्दमयो जीवोऽत्र न प्रतिपाद्यः, सर्वसप्तृत्वाद्यनुपपत्तेः इत्यर्थः । “भेदव्यपदेशाच्च” (ब्र० सू० १।१।१७) । अयम् आनन्दमयो ब्रह्मरसं लब्ध्वा आनन्दी भवति इति, भेदोक्तेश्च तस्य अप्रतिपाद्यता इत्यर्थः । आनन्दमयो ब्रह्म, तैत्तिरीयकपञ्चमस्थानस्थत्वात्, भृगुवल्लीस्थानन्दवदिति आशङ्क्याऽऽह—“कामाद्य नानुमानापेक्षा” (ब्र० सू० १।१।१८) । काम्यत इति

रत्नप्रभाका अनुवाद

ध्रुतिमें कहा गया है, इससे प्रियादिविशिष्टरूपसे आनन्दमय जीव भी कार्य है इससे उसके प्रति ब्रह्म अन्न हो यह युक्त नहीं है । “मान्त्रवार्णिकं” “ब्रह्मं” (ब्रह्मवेत्ता पर—ब्रह्मको पाता है) इस प्रकार जिसके ज्ञानसे मुक्ति कही गई है और जो ‘सत्यं ज्ञानं’ मंत्रमें कहा गया है, वह ब्रह्म यहाँ—पुच्छ वाक्यमें ही कहा गया है; क्योंकि ब्रह्मपदका सालिष्य है, आनन्दमय वाक्यमें नहीं कहा गया, यह तात्पर्य है । “नेतरोः”—इतर अर्थात् आनन्दमय जीव यहाँ प्रतिपाद्य नहीं है, क्योंकि सय पदार्थोंका स्रष्टृत्व आदि जीवमें उपपन्न नहीं है अर्थात् जीव सय पदार्थोंका स्रष्टा नहीं हो सकता । “भेदः” यह आनन्दमय ब्रह्मरस प्राप्त करके आनन्द-युत होता है । इस प्रकार ब्रह्म और आनन्दमयका भेद कहा है, अतः आनन्दमय—जीव ध्रुति-प्रतिपाद्य नहीं है । आनन्दमय ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्मवल्लीके पांचवें स्थानमें है, सृगुवलीमें आये हुए आनन्दके समान, ऐसे अनुमानकी शङ्का करके कहते हैं—“कामाद्यं” । सयसे आनन्दकी

भाष्य

पद्यते । अपराण्यपि सूत्राणि यथासंभवं पुच्छवाक्यनिर्दिष्टस्यैव ब्रह्मण उपपादकानि द्रष्टव्यानि ॥ १९ ॥

भाष्यका अनुवाद

अवयव हो यह सम्भव नहीं है । दूसरे भी सूत्र यथासम्भव पुच्छवाक्यमें निर्दिष्ट ब्रह्मके उपपादक हैं, ऐसा समझना चाहिए ॥ १९ ॥


रत्नप्रभा

काम आनन्दः, तस्य भृगुवल्ल्यां पञ्चमस्य ब्रह्मत्वदृष्टेः आनन्दमयस्याऽपि ब्रह्म-
स्वानुमानापेक्षा न कार्या, विकारार्थकमयद्विरोधात् इत्यर्थः । भेदव्यपदेशः चेत्
सगुणं ब्रह्म अत्र वेद्यं स्याद् इति आशङ्क्याऽऽह—“अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति”
(ब्र० सू० १।१।१९) । गुहानिहितत्वेन प्रतीचि ‘स एकः’ इत्युपसंहृते पुच्छ-
वाक्योक्ते ब्रह्मणि अहमेव परं ब्रह्म इति प्रबोधवत् आनन्दमयस्य ‘यदा हि’ इति
शास्त्रं ब्रह्मभावं शास्ति, अतो निर्गुणब्रह्मैक्यज्ञानार्थं जीवभेदानुवाद इति अग्नि-
प्रेत्य आह—अपराण्यपीति ॥ १९ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

इच्छा की जाती है, इसलिए काम आनन्द है, वह भृगुवल्लीमें पाँचवों है और ब्रह्मका वाचक है, इस कारण ब्रह्मवाणीका आनन्दमय भी ब्रह्म है ऐसे अनुमानकी आशा न करनी चाहिए, क्योंकि विकारार्थक मयदका विरोध होता है । यहाँ यदि भेदका व्यपदेश हो तो सगुण ब्रह्म ही वेद्य प्रतिपादित हुआ ऐसी आशङ्का करके कहते हैं—“अस्मिन्नस्य०” गुहानिहित है, इसलिए प्रत्यक्, पुच्छवाक्यमें कहे हुए ब्रह्मका जो यह मनुष्य शरीरमें है और जो आदित्यमें है वह एक ही है, ऐसा उपसंहार होनेपर ‘मैं ही परब्रह्म हूँ’ ऐसा प्रबोधवाले आनन्दमय-जीवका “यदा हि” इस शास्त्रमें ब्रह्मभावका उपदेश किया है, इस कारण निर्गुणब्रह्मैक्य ज्ञानके लिए जीवभेदका अनुवाद है ऐसा “अपराण्यपि” इत्यादिसे कहते हैं ॥ १९ ॥

* आनन्दमयाधिकरण समाप्त *



[७ अन्तरधिकरण सू० २०--२१]


हिरण्मयो देवतात्मा किं वाऽग्नौ परमेश्वरः ।
 मयादाधाररूपोक्तो देवतात्मैव नेश्वरः ॥ १ ॥
 सार्वार्त्म्यात् सर्वदृशितराहित्याच्चेश्वरो मतः ।
 मयादाद्या उपास्त्यर्धमीशोऽपि स्युरुपाधिगाः ॥ २ ॥

[अधिकरणसार]

सन्देश—“अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते” इस श्रुतिमें उक्त हिरण्मय पुरुष देवता है अथवा परमेश्वर है ?

पूर्वपक्ष—उसके ऐश्वर्यकी सीमा, उसका आधार और रूप कहे गये हैं, इस कारण हिरण्मय पुरुष देवता ही है, परमेश्वर नहीं है [क्योंकि परमेश्वरका ऐश्वर्य सीमित नहीं है, उसका कोई आधार भी नहीं है और वह रूपरहित है]

सिद्धान्त—श्रुतिमें वह सार्वार्त्मक एवं सर्वपापशून्य है ऐसा कहा गया है, अतः हिरण्मय पुरुष परमेश्वर ही है । [जीव सार्वार्त्मक और सर्वपापशून्य नहीं हो सकता] यद्यपि मयादा आदि साक्षात् ईश्वरमें नहीं है, किन्तु उपाधिगत है, तो भी उपाधि द्वारा सोपाधिक ईश्वरमें है अतः उपासनाके लिए कहे गये हैं ।




अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् ॥ २० ॥

पदच्छेद—अन्तः, तद्धर्मोपदेशात् ।

पदार्थोक्ति—अन्तः—‘अथ य एषोऽन्तरादित्ये’ इति श्रुतौ आदित्यमण्डलान्त-
 वर्ती हिरण्मयः पुरुषः [न सूर्यः, कुतः] तद्धर्मोपदेशात्—अपहतपाप्मत्वादिब्रह्म-
 धर्माणामुपदेशात् [परमेश्वर एव] ।

भाषार्थ—‘अथ य एषोऽन्तः’ इस श्रुतिमें उक्त आदित्यमण्डलके भीतर रहने-
 वाला हिरण्मय पुरुष सूर्य नहीं है, क्योंकि पापशून्यत्व आदि ब्रह्मके धर्म कहे
 गये हैं, वे धर्म सूर्यमें नहीं घट सकते हैं, अतः वह पुरुष परमेश्वर ही है ।



भाष्य

इदमास्नायते—‘अथ य एपोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्मश्रुहिरण्यकेश आप्रणखात् सर्व एव सुवर्णः’ ‘तस्य यथा कप्यासं भाष्यका अनुवाद

श्रुति यह कहती है—‘अथ य एपोऽन्तरादित्ये०’ आदित्यके भीतर ज्योतिर्मय जो यह पुरुष दिखलाई देता है, उसकी ज्योतिर्मय मूर्छें हैं, ज्योतिर्मय केश हैं, वह नखाप्रपर्यन्त सारा ही ज्योतिर्मय है), ‘तस्य यथा०’ (बन्दरके पुच्छ भाग जैसे

रत्नप्रभा

छान्दोग्यवाक्यम् उदाहरति—अथ य इति । ‘अथ’ इति उपास्तिप्रारम्भार्थः । हिरण्मयः ज्योतिर्विकारः, पुरुषः पूर्णोऽपि मूर्तिमान् उपासकैः दृश्यते । मूर्तिमाह—हिरण्येति । प्रणखः नखाग्रम्, तेन सह इत्यभिविधौ आह । नेत्रयोः विशेषम् आह—तस्येति । कपेर्मर्कटस्य आसः पुच्छभागोऽत्यन्ततेजस्वी तत्तुल्यं पुण्डरीकं

/ रत्नप्रभाका अनुवाद

“अथ य०” इत्यादिसे छान्दोग्यवाक्यको उद्धृत करते हैं । उपासनाका आरम्भ दिखानेके लिए ‘अथ’ कहा है । हिरण्मय—ज्योतिका विकार । पुरुष पूर्ण है तो भी उपासक उसको मूर्तिमान् देखते हैं । ‘हिरण्य’ इत्यादिसे मूर्तिको कहते हैं । प्रणख—नखाग्र । आप्रणखात्—नखके अग्र भागको लेकर इस अभिविधिको सूचित करनेके लिए यहाँ ‘आह’ है । नेत्रोंमें विशेषता दिखल्यते हैं—“तस्य” इत्यादिसे । जैसे बन्दरका पुच्छभाग अति तेजस्वी है, उसके

(१) यहाँ पर वृत्तिकार हीनोपमा दोषके भयसे ‘क जल पिबतीति कपिः सूर्यः, तेनासित विकसितं कप्यामम्’—जल पीता है अतः कपि—सूर्य, उससे विकसित पुण्डरीक, ‘क पिबतीति कपिः पशनालः, तत्रास्ते इति कप्यासम्’—कपि—पशनाल, जममें रहनेवाला पुण्डरीक इत्यादि अनेक तरहके नमास मानकर ‘कप्यास’ शब्दका अर्थ अन्य प्रकारसे करते हैं, उनका अभिप्राय यह है कि बन्दरके पुच्छभागको हिरण्मय पुरुषके नेत्रका उपमान बनाना ठीक नहीं है । यह उनका कथन अयुक्त है, क्योंकि सूर्यकी किरणोंसे जल सूखता है, अतः शोषणमें प्रहणत्वका आरोप करके, ग्रहणमें पानत्वका आरोप (अर्थात् किरणें जल पीती हैं ऐसा आरोप) करके, किरणात पानकर्तृत्वका सूर्यमें आरोप कर अतिछेदसे ‘कपि’ शब्दका अर्थ सूर्य होना है । रूढदर्शके बलवत्तर होनेके कारण इस प्रकार खीचातानीसे अर्थ करना ठीक नहीं है । हीनोपमाका वर्णन होता है, वह दोष रूपसे स्वीकृत नहीं है । इसीलिए—‘महामहानील-शिलाखः पुरो न्यसेदिवान् कंमरूपः स विष्टे । भित्तोदपाद्रेरभिसायमुचकैच्युरत्वं चन्द्रमसोऽभिरामताम्’ यहाँ पर हीन सायंकाल गगवान्का उपमान बनाया गया है । किन्तु, बन्दरके पुच्छ भागगत रक्तमारूप भ्रमं पुण्डरीकमें कहा गया है, तादृश रक्त-पुण्डरीकमदृश नेत्र कहे गये हैं, अतः नेत्रमें साक्षात् बन्दरके पुच्छभागता मादृश्य भी नहीं कहा गया है, इस कारण हीनोपमा दोष भी नहीं है । दूसरी बात यह भी है कि प्रसिद्धार्थको छोड़कर योगभाष्य अत्रभिदार्थके करनेमें निहतायं-प्रदोष भा होता है ।

भाष्य

पुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्योदिति नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति ह वै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद' 'इत्यधिदैवतम्' (छा० १।६।६,७,८) । 'अथाऽध्यात्मम्' 'अथ य एपोऽन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते' (छा० १।७।१,५) इत्यादि । तत्र संशयः—किं विद्याकर्मातिशय-वशात् प्राप्तोत्कर्षः कश्चित्संसारि सूर्यमण्डले चक्षुषि चोपास्यत्वेन श्रूयते किं वा नित्यसिद्धः परमेश्वर इति । किं तावत्प्राप्तम् ?

भाष्यका अनुवाद

पुण्डरीककी तरह उसकी आँखें हैं । उसका नाम 'उद्' है, वह देव सब पापोंसे मुक्त है, जो ऐसे गुणोंसे सम्पन्न 'उन्' नामक देवकी यथोक्त प्रकारसे उपासना करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है) यह अधिदैवत है । अब अध्यात्म कहा जाता है—'अथ यं' (जो आँखके भीतर पुरुष दीखता है) इत्यादि । यहाँ पर संशय होता है कि अतिशय विद्या और कर्मके प्रभावसे जिसने श्रेष्ठता प्राप्त की है, ऐसा कोई संसारि सूर्यमण्डलमें और आँखमें उपास्यरूपसे श्रुति द्वारा प्रतिपादित है अथवा नित्यसिद्ध परमेश्वर ?

रत्नप्रभा

यथा दीप्तिमान् एव तस्य पुरुषस्य अक्षिणी, सद्योविकसितरक्ताम्भोजनयन इत्यर्थः । उपासनार्थम् आदित्यमण्डल स्थान रूप च उक्त्वा नाम करोति—तस्योदिति । उन्नाम निर्वक्ति—स इति । उदित उद्गत, सर्वपाप्मास्पृष्ट इत्यर्थः । उपासनार्थं नामज्ञानफलमाह—उदेति हेति । देवतास्थानम् आदित्यम् अधिकृत्य उपास्त्युक्त्य-नन्तरम् आत्मानं देहमधिकृत्याऽपि तदुक्तिरित्याह—अथेति । पूर्वत्र ब्रह्मपदम् आनन्दमयपरम् आनन्दपदाभ्यासश्चेति मुख्यत्रितयादिबहुप्रमाणवशात् निर्गुणनिर्णय-

रत्नप्रभाका अनुवाद

समान दीप्तिमान् जा कमल उससे मिलती जुलती उस पुरुषकी आँखें हैं अर्थात् तत्काल विकसित लाल कमलके समान उसकी आँखें हैं । उपासनाके लिए आदित्यमण्डल रूपी स्थान और रूप कहकर उसका नाम कहते हैं—'तस्योदिति' इत्यादिसे । उदित—पापमात्रके संसर्गसे रहित । उपासनाके लिए नामके ज्ञानका फल कहते हैं—'उदेति ह' इत्यादिसे । देवताके स्थान आदित्य मण्डलमें उपासना कहकर आत्मा-देहमें भी उपासना है ऐसा कहते हैं—'अयं' इत्यादिसे । पूर्व अधिकरणमें ब्रह्मपद, आनन्दमयपद और आनन्दका अभ्यास इन तीन प्रमाणों तथा अन्य प्रमा-णोंमें जैसे निर्गुण ब्रह्मका निर्णय किया है, वैसे ही रूपवत्त्व आदि अनेक प्रमाणोंमें जीव द्विरूपय

भाष्य

संसारीति । कुतः ? रूपवत्त्वश्रवणात् । आदित्यपुरुषे तावत्
 'हिरण्यश्मश्रुः' इत्यादि रूपमुदाहृतम् । अक्षिपुरुषेऽपि तदेवाऽति-
 देशेन प्राप्यते—'तस्यैतस्य तदेव रूपं यदमुष्य रूपम्' इति । न च
 परमेश्वरस्य रूपवत्त्वं युक्तम्, 'अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्' (का० १।३।१५)
 इति श्रुतेः । आधारश्रवणाच्च—'य एपोऽन्तरादित्ये' 'य एपोऽन्तरक्षिणि'
 इति । नह्यनाधारस्य स्वमहिमप्रतिष्ठस्य सर्वव्यापिनः परमेश्वरस्याऽऽधार
 उपदिश्येत । 'स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि'
 (छा० ७।२।४।१) इति, 'आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः' इति च श्रुती भवतः ।

भाष्यका अनुवाद

पूर्वपक्षी—संसारी ही उपास्यरूपसे प्रतिपादित है, क्योंकि श्रुतिमें वह
 रूपवान् कहा गया है । आदित्यमें जो पुरुष है, उसकी ज्योतिर्मय मूर्छें हैं
 इत्यादि उसके रूपका वर्णन किया गया है । और 'तस्यैतस्य०' (इस अक्षिपुरुषका
 वही रूप है जो कि उस आदित्यपुरुषका है) इस श्रुति द्वारा आँखमें जो पुरुष है,
 उसमें भी अतिदेशसे वही रूप प्राप्त होता है । परन्तु परमेश्वरका रूप होना सम्भव
 नहीं है, क्योंकि 'अशब्द०' (शब्दरहित, स्पर्शरहित, रूपरहित और नाशरहित) यह
 श्रुति उसमें रूपवत्ताका निषेध करती है और 'य एपोऽन्तरादित्ये, य एपोऽन्तरक्षिणि'
 (जो उस आदित्यमण्डलमें है, जो इस आँखमें है) इस श्रुतिमें उसका [आदित्यपुरुष
 और अक्षिपुरुषका] आधार कहा गया है । आधाररहित अपनी महिमामें प्रतिष्ठित
 सर्वव्यापी परमेश्वरका भी यहाँ उपदेश होता तो आधारका उपदेश न किया
 जाता । प्रत्युत इसके विपरीत 'स भगवः०' (हे भगवन् ! वह भूमा-ब्रह्म
 किसमें प्रतिष्ठित है ? इस प्रकार पूछनेवाले नारदके प्रति सनत्कुमार कहते हैं—
 यह अपनी महिमामें प्रतिष्ठित है) ऐसी और 'आकाशवत्०' (आकाशके समान

रत्नप्रभा

वत्, रूपवत्त्वादिवहुप्रमाणवशात् जीवो हिरण्य इति पूर्वसिद्धान्तदृष्टान्तसङ्गत्या
 पूर्वम् उत्सर्गतः सिद्धनिर्गुणसमन्वयस्य अपवादार्थं पूर्वपक्षयति—संसारीति ।
 अत्र पूर्वोत्तरपक्षयोः जीवब्रह्मणोः उपास्तिः फलम्, अक्षिणि इति आधारश्रवणाच्च

रत्नप्रभाका अनुवाद

है, यह निर्णय किया गया है इस प्रकार पूर्वाधिकरण सिद्धान्तके दृष्टान्तरूप संगति द्वारा परदे
 सम्मान्यतः सिद्ध निर्गुण ब्रह्म समन्वयके अपवादके लिए पूर्वपक्ष करते हैं—'संसारी' इत्यादिसे ।
 यहाँ पूर्वपक्षमें जीवकी उपासना और सिद्धान्तमें ब्रह्मकी उपासना फल है । 'भ्रौणमे' ऐसा धुतिमें

भाष्य

ऐश्वर्यमर्यादाश्रुतेश्च । 'स एष ये चाऽमुष्मात् पराञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे देव-
कामानां च' (छा० १।६।८) इत्यादित्यपुरुषस्यैश्वर्यमर्यादा । 'स एष ये
चैतस्मादर्वाञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्यकामानां च' (छा० १।७।६)
इत्यक्षिपुरुषस्य । न च परमेश्वरस्य मर्यादावदैश्वर्यं युक्तम्, 'एष सर्वेश्वर
एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसंभेदाय'

भाष्यका अनुवाद

सर्वव्यापी और नित्य है) ऐसी श्रुतियां हैं । तथा [इस आदित्यपुरुष और
अक्षिपुरुषके] ऐश्वर्यकी मर्यादा श्रुतिमें कही गई है, इसलिए [ब्रह्म आदित्यगत
और अक्षिगत नहीं है] 'स एष०' (यह उत्सङ्गक देव जो लोक उस आदित्यसे
ऊपर है, उनपर और देवोंके कामों—भोगोंपर शासन करता है) ऐसी
आदित्यपुरुषके ऐश्वर्यकी मर्यादा है । और 'स एष०' (यह उत्सङ्गक देव जो
लोक नेत्रसे नीचे है, उनपर और मनुष्योंके कामों—भोगोंपर शासन करता है)
इस प्रकार अक्षिपुरुषके ऐश्वर्यकी मर्यादा है । और परमेश्वरका ऐश्वर्य सीमित नहीं
है, क्योंकि 'एष सर्वेश्वर०' (यह सबका ईश्वर है, यह भूतोंका अधिपति है, यह
भूतोंका पालक है, लोकोंकी मर्यादा छिन्न-भिन्न न हो जाय इसके लिए यह

रत्नप्रभा

संसारी इति सम्बन्धः । श्रुतिमाह—स एष इति । आदित्यस्यः पुरुषः, अमुष्माद्
आदित्याद् ऊर्ध्वगा ये केचन लोकाः, तेषाम् ईश्वरो देवभोगानां च इत्यर्थः । स
एषोऽक्षिस्थः पुरुष एतस्माद् अक्ष्णोऽधस्तना ये लोकाः, ये च मनुष्यकामा भोगाः
तेषाम् ईश्वर इति मर्यादा श्रूयते । अतः श्रुतेश्च संसारी इत्यर्थः । एष सर्वेश्वर
इति अविशेषश्रुतेः इति सम्बन्धः । भूताधिपतिः यमः भूतपाल इन्द्रादिश्च
एष एव । किञ्च, जलानाम् असङ्कराय लोके विधारको यथा सेतुः, एवम् एषा

रत्नप्रभाका अनुवाद

आधार कहा है, इसलिए हिरण्यमय पुरुष जीव है, ऐसी योजना करनी चाहिए । श्रुति
कहते हैं—'स एष' इत्यादिसे । 'स एष'—आदित्यस्य पुरुष । सूर्यसे जो लोक ऊपर है,
उनका और देवभोगोंका यह आदित्य पुरुष ईश्वर है, और अक्षिपुरुष आँखसे नीचे जो लोक
है, उनका और मनुष्यभोगोंका ईश्वर है । इस प्रकार श्रुतिमें मर्यादाका प्रतिपादन है, इसलिए
आदित्यपुरुष और अक्षिपुरुष संसारी हैं । 'एष सर्वेश्वर' इसका 'अविशेषश्रुते' इसके
साथ सम्बन्ध है । भूताधिपति—यम, भूतपाल—इन्द्र आदि । यह सर्वेश्वर है, यम और
इन्द्र आदि भी यही हैं । और जलका मिश्रण न हो इसलिए लोकमें जैसे सेतु जलचारक

भाष्य

(वृ० ४।४।२२) इत्यविशेषश्रुतेः । तस्मान्नाऽऽदित्ययोरन्तः परमेश्वर इति । एवं प्राप्ते ब्रूमः—‘अन्तस्तद्वर्मोपदेशात्’ इति । ‘य एपोऽन्तरादित्ये’ ‘य एपोऽन्तरक्षिणि’ इति च श्रूयमाणः पुरुषः परमेश्वर एव, न संसारी । कुतः ? तद्वर्मोपदेशात् । तस्य हि परमेश्वरस्य धर्मा इहोपदिष्टाः, तद्यथा—‘तस्योदिति नाम’ इति श्रावयित्वा अस्याऽऽदित्यपुरुषस्य नाम ‘स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः’ इति सर्वपाप्मापगमेन निर्वक्ति । तदेव च

भाष्यका अनुवाद

व्यवस्था करनेवाला सेतु है) यह श्रुति परमेश्वरके विषयमें किसी प्रकारकी सीमाका निर्धारण नहीं करती है । इससे सिद्ध हुआ कि आंख और आदित्यके भीतरका पुरुष परमेश्वर नहीं है ।

सिद्धान्ती—ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं—‘अन्त’ । ‘य एपो’ (जो यह आदित्यके भीतर) और ‘य एपो’ (जो इस आंखके भीतर) इस प्रकार श्रुतिमें जो पुरुष कहा गया है, वह परमेश्वर ही है, संसारी नहीं है । क्यों ? तद्दधर्मो—उस परमेश्वरके धर्मोंका ही यहांपर उपदेश किया गया है । वे इस प्रकार हैं—‘तस्योदिति नाम’ (उसका ‘उद्’ नाम है) इस प्रकार आदित्य पुरुषके नामका प्रतिपादन करके ‘स एष सर्वेभ्यः०’

रत्नप्रभा

लोकानां वर्णाश्रमादीनां मर्यादाहेतुत्वात् सेतुः एष एव । अतः सर्वेश्वर इत्यर्थः । सूत्रं व्याचष्टे—य एष इति । यद्यपि एकस्मिन् वाक्ये प्रथमश्रुतानुसारेण चरमं नेयम् । तथापि अत्र प्रथमं श्रुतं रूपवत्त्वं निष्फलं ध्यानार्थम् ईश्वरे नेतुं शक्यं च सर्वपाप्मांसङ्गित्वं सर्वात्मैकत्वं तु सफलं जीवे नेतुम् अशक्यं च इति प्रबलम् । न च “न ह वै देवान् पापं गच्छति” (वृ० १।५।२०) इति श्रुतेः आदित्यजीवस्य

रत्नप्रभाका अनुवाद

है, उसी प्रकार लोकोंके वर्णाश्रमादिका संकर—मिश्रण न हो, इसलिए उनकी मर्यादाका हेतुरूप यह सेतु है और इसी कारण सर्वेश्वर है, ऐसा अर्थ है । सूत्रका व्याख्यान करते हैं—“य एष” इत्यादिसे । यद्यपि एक वाक्यमें प्रथम श्रुत भागके अनुगार अन्त धृत भागका अर्थ करना चाहिए, तो भी प्रथम धृत रूपवत्त्व निष्फल है और ध्यानके लिए ईश्वरमें भी लागू हो सकता है, परन्तु सब पापोंके मुक्ति एवं सर्वात्मैकत्व सफल है और जीवमें लागू नहीं है, इसमें वे बलवत्तर लिङ्ग हैं और उनके अनुगार अर्थ परना ठीक है । यहाँ कोई शङ्का करे कि ‘न ह वै०’ (देवताओंको पाप लगता ही नही है)

भाष्य

कृतनिर्वचनं नामाऽक्षिपुरुपस्याऽप्यतिदिशति—‘यन्नाम तन्नाम’ इति । सर्वपाप्मापगमश्च परमात्मन एव श्रूयते—‘य आत्माऽपहतपाप्मा’ (छा० ८।७।१) इत्यादौ । तथा चाक्षुपे पुरुषे ‘सैवर्क् तत्साम तदुक्थं तद्यजुस्तद् ब्रह्म’ इत्यृक्सामाद्यात्मकतां निर्धारयति । सा च परमेश्वरस्योपपद्यते,

भाष्यका अनुवाद

(यह सब पापोंसे मुक्त है) ऐसा श्रुति उत्नामका निर्वचन करती है और निर्वचन किये हुए इस नामका अक्षिपुरुषमें ‘यन्नाम’ तन्नाम’ (जो आदित्य-पुरुषका नाम है, वह अक्षिपुरुषका नाम है) इस प्रकार अतिदेश करती है । और ‘य आत्मा०’ (जो आत्मा पापरहित है) इत्यादि श्रुतियां परमात्माको ही सब पापोंसे मुक्त कहती हैं । इसी प्रकार ‘सैव ऋक्०’ (वही अक्षिपुरुष ऋक् , वही साम, वही उक्थ, वही यजु और वही ब्रह्म है) यह श्रुति अक्षिपुरुषमें ऋक्, साम आदिका ‘वह आत्मा है’ ऐसा निर्धारण करती है । यह परमेश्वरके

रत्नप्रभा

अपि पाप्मास्पर्शित्वमिति वाच्यम् । श्रुतेः अधुना कर्मनिधिकारिणां देवाना क्रियमाणपाप्मासम्बन्धे तत्फलास्पर्शे वा तात्पर्यात् । तेषां सञ्चितपापाभावे “क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति” (भ० गी० ९।२१) इति अयोगात् इति अभिप्रेत्य आह—सर्वपाप्मापगमश्च परमात्मन एवेति । सार्वान्त्यम् आह—तथेति । अत्र तच्छब्दैः चाक्षुपः पुरुष उच्यते । ऋगाद्यपेक्षया लिङ्गव्यत्ययः । उक्थं शस्त्रविशेषः, तत्साहचर्यात् साम स्तोत्रम् । उक्थादन्यत् शस्त्रम् ऋग् उच्यते ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

ऐसा श्रुति कहती है, इसलिए आदित्र्यस्थ पुरुष जीव भी पापस्पर्शरहित है । यह शब्दा ठीक नहीं है, क्योंकि उस श्रुतिका तात्पर्य यह है कि देवत्वकालमें कर्मके अनधिकारी देवोंका कियमाण पापके साथ संबन्ध नहीं है अथवा उनके फलका उन्हें स्पर्श नहीं होता [परन्तु देवोंके पूर्व-जन्मके संचित पाप होनेसे सर्वपापसे उनकी मुक्ति सम्भव नहीं है] यदि उनके संचित पाप न हों, तो ‘क्षीणे पुण्ये०’ (पुण्य क्षीण होनेपर मृत्युलोकमें प्रवेश करते हैं) यह कथन युक्त न होगा, इस अभिप्रायसे कहते हैं—“सर्वपाप्मापगमश्च परमात्मन एव” इत्यादिते । “तथा” इत्यादिते कहते हैं कि परमेश्वर सार्वान्तक है । इसमें श्रुतियत ‘तत्’ शब्दोंका अर्थ चाक्षुप पुरुष है । मित्र मित्र विशेष्य—ऋक्, साम, उक्थ, यजु, और ब्रह्मके अनुसार तच्छब्दका लिङ्गनिपर्यय—लिङ्गका हेरफेर हुआ है । ‘उक्थम्’—शस्त्र-विशेष । उसके निकटवर्ती होनेके कारण ‘साम’ का अर्थ स्तोत्र है । उक्थसे अन्य शस्त्र ‘ऋक्’ है ।

भाष्य

सर्वकारणत्वात् सर्वात्मकत्वोपपत्तेः । पृथिव्यग्न्याद्यात्मके चाऽधिदैवतं ऋक्सामे, वाक्प्राणाद्यात्मके चाऽध्यात्ममनुक्रम्याऽऽह—‘तस्यर्चं साम च गेष्णौ’ इत्यधिदैवतम् । तथाऽध्यात्ममपि—‘यावमुप्य गेष्णौ तौ गेष्णौ’ इति । तच्च सर्वात्मन एव उपपद्यते ‘तद्य इमे वीणायां गायन्त्येतं भाष्यका अनुवाद

लिए ही युक्त है, क्योंकि वह सबका कारण होनेसे सबका आत्मा है । और ऋक् पृथिवी है, साम अग्नि है, इस प्रकार अधिदैव और वाक् ऋक् है, प्राण साम है, ऐसे अध्यात्मका अनुक्रम—आरम्भ कर श्रुति कहती है—‘तस्य ऋक् च०’ (ऋक् और साम उसके पर्व हैं) यह अधिदैवत है, इसी प्रकार ‘यावमुप्य गेष्णौ०’ (आदित्य पुरुषके जो पर्व हैं, वे अक्षिपुरुषके पर्व हैं) अध्यात्म भी है । और यह (ऋक् और साम पर्व हैं यह) सर्वात्मकमे ही

रत्नप्रभा

यजुर्वेदो यजुः । ब्रह्म त्रयो वेदा इत्यर्थः । पृथिव्यग्न्याद्यात्मक इति । अधिदैवतम् ऋक्—पृथिव्यन्तरिक्षद्युनक्षत्रादित्यगतशुक्लभारूपा पञ्चविधा श्रुत्युक्ता । साम च—अग्निवाय्वादित्यचन्द्रादित्यगतातिकृष्णरूपमुक्तं पञ्चविधम् । अध्यात्मं तु ऋक् वाक्चक्षुःश्रोत्राक्षिस्यशुक्लभारूपा चतुर्विधा । साम च प्राणच्छायात्ममनोऽक्षिगतातिनीलरूपं चतुर्विधमुक्तम् । एव क्रमेण ऋक्सामे अनुक्रम्य आह श्रुतिः—तस्येति । यौ सर्वात्मकर्त्तृसामात्मकौ गेष्णौ अमुप्य आदित्यस्थस्य तौ एव अक्षिस्थस्य गेष्णौ पर्वणी इत्यर्थः । तच्चेति । ऋक्सामगेष्णत्वम् इत्यर्थः । सर्व-

रत्नप्रभाका अनुवाद

‘यजुः’—यजुर्वेद । ब्रह्म—तीन वेद । “पृथिव्यग्न्याद्यात्मके” इत्यादि । पृथिवी, अन्तरिक्ष, धु, नक्षत्र और आदित्यमें रहनेवाली शुक्ल प्रकाश रूप पांच प्रकारकी ऋक् अधिदैवत प्रकरणमें कही गई है । अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्र और आदित्यमें रहनेवाला अतिकृष्ण रूप यह पांच प्रकारका साम अधिदैवत प्रकरणमें कहा गया है । वाक्, चक्षु, श्रोत्र और अक्षिमें रहनेवाला शुक्ल रूप चार प्रकारकी ऋक् अध्यात्म प्रकरणमें कही गई है, इसी प्रकार प्राण, छायात्मा, मन और अक्षिमें रहनेवाला अतिनील रूप चार प्रकारका साम भी है । इस प्रकार ऋक् और सामको प्रस्तुत करके “तस्य” इत्यादि श्रुति कहता है कि जो आदित्य पुरुषके सर्वात्मक ऋक् और साम पर्व हैं, वे ही पर्व चाक्षुष पुरुषके हैं । “तद्य”—ऋक् और सामका पर्व होना । सब गानोंसे परमात्मा ही गेय है, इस दृष्टिसे भी आदित्यपुरुष और चाक्षुष

(१) ऋक् और साम सर्वात्मक होनेसे सर्वात्मक उद् नामक पुरुषके अवयवसन्धि कहलाते हैं अथवा सोपान पर्वद्वयके समान उद् नामक पुरुषकी स्तुतिमें ऋक् और साम दोनों सापन है, अतः पर्व कहलाते हैं । विशेष यह है कि ऋक् स्तुतिमें साक्षात् सापन है, साम ऋक्की अधिष्ठातृके द्वारा सापन है ।

भाष्य

ते गायन्ति तस्मात्ते धनसनयः' (छा० १।७।६) इति च लौकिकेष्वपि गानेष्वस्यैव गीयमानत्वं दर्शयति । तच्च परमेश्वरपरिग्रहे घटते—

‘यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्जितमेव वा ।

तत्तदेवायगच्छ त्वं मम तेजोऽंशसम्भवम् ॥ (भ० गी० १०।४१)

इति भगवद्गीतादर्शनात् । लोककामेशितृत्वमपि निरङ्कुशं श्रूयमाणं परमेश्वरं गमयति । यत्तुक्तं हिरण्यश्मश्रुत्वादिरूपश्रवणं परमेश्वरे नोपपद्यत इति, अत्र ब्रूमः—स्यात् परमेश्वरस्याऽपीच्छावशात् मायामयं रूपं साधकानुग्रहार्थम्,

भाष्यका अनुवाद

संगत हो सकते हैं । ‘तद्य इमे वीणायां०’ (जो ये गायक वीणामें गाते हैं, वे उस ईश्वरको ही गाते हैं, इसीसे वे धनलाभ करते हैं) इस प्रकार लौकिक गानमें भी वही गाया जाता है, ऐसा श्रुति दिखलाती है । यह तभी घटता है जब परमेश्वररूप अर्थ लें । ‘यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं०’ (हे कुन्तीपुत्र ! जो जो ऐश्वर्यशाली, श्रीयुक्त और बलयुक्त सत्त्व है, वह सब मेरे तेजके अंशसे ही उत्पन्न हुआ है) ऐसा भगवद्गीतामें देखा जाता है । तथा लोक और भोगपर जो निरङ्कुश स्वामित्व सुननेमें आता है, वह भी परमेश्वरका ही अनुमान कराता है । उसकी ज्योतिर्मय मूर्छें हैं, ऐसा जो रूप श्रुतिमें कहा गया है, वह परमेश्वरमें नहीं घटता ऐसा जो पीछे कहा गया है, उस विषयमें कहते हैं—साधकके अनुग्रहके लिए इच्छावशसे परमेश्वरका भी मायामय रूप हो सकता है, क्योंकि

रत्नप्रभा

गानगेयत्वं लिङ्गान्तरमाह—तद्य इति । तत् तत्र लोके धनस्य सनिः लाभो येषां ते धनसनयो विभूतिमन्त इत्यर्थः । ननु लोके राजानो गीयन्ते नेश्वर इत्यत आह—यद्यदिति । पशुवित्तादिः विभूतिः, श्रीः कान्तिः, उर्जितत्वं बलम्, तद्युक्तं सत्त्वं राजादिकं मदंश एवेत्युक्तेः तद्गानम् ईश्वरस्य एवेत्यर्थः । निरङ्कुशम्

रत्नप्रभाका अनुवाद

पुरुष परमात्मा ही हैं, ऐसा कहते हैं—“तद्य०” इत्यादिसे । ‘तत्’—लोकमें ‘धनसनयः’—धनसे युक्त अर्थात् ऐश्वर्यशाली । “परन्तु लोकमें राजा गाये जाते हैं ईश्वर नहीं गाया जाता है, इसपर कहते हैं—“यद्यत्” इत्यादिसे । पशु, धन आदि ‘विभूति’ । श्री—कान्ति । उर्जितत्व—बल । विभूति, श्री और बलसे युक्त जो प्राणी—राजादि हैं, वे मेरे अंश ही हैं ऐसा श्रीकृष्णजीवें कहा है, इसलिए उनका गान ईश्वरका ही गान है । निरङ्कुश—जो अन्यके अधीन न हो

भाष्य

‘माया ह्येषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद ! ।

सर्वभूतगुणैर्युक्तं मैवं मां ज्ञातुमर्हसि’ ॥

इति स्मरणात् । अपि च यत्र तु निरस्तसर्वविशेषं पारमेश्वरं रूपमुपदिश्यते, भवति तत्र शास्त्रम्—‘अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्’ इत्यादि । सर्वकारणत्वात् तु विकारधर्मैरपि कैश्चिद्विशिष्टः परमेश्वर उपास्यत्वेन निर्दिश्यते—‘सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः’ (छा० ३।१४।२) इत्यादिना । तथा हिरण्यश्मश्रुत्वादिनिर्देशोऽपि भविष्यति । यदप्याधारश्रवणात्

भाष्यका अनुवाद

‘माया ह्येषा मया सृष्टा’ (हे नारद ! तू जो मुझको देखता है, यह मेरी विचित्रमूर्ति रची हुई माया है, और सब भूतोंके गुणोंसे युक्त ऐसा ही वस्तुतः मैं हूँ—यह तू न समझना) ऐसा स्मृति कहती है । और जहां, सब उपाधियां जिससे दूर हो गई हैं, ऐसे परमेश्वरके रूपका उपदेश है, वहां ‘अशब्द’ (वह शब्द-रहित, स्पर्शरहित, रूपरहित, और नाशरहित है) इत्यादि शास्त्र लागू हैं । परन्तु परमेश्वर सबका कारण होनेसे कितने ही विकारधर्मोंसे विशिष्ट परमेश्वरका भी उपास्यरूपसे ‘सर्वकर्मा’ (सर्वकामनावाला, सर्वगंधयुक्त और सर्वरसयुक्त है) इत्यादिसे निर्देश होता है । इसी प्रकार ज्योतिर्मयश्मश्रुत्व आदिका

रत्नप्रभा

अनन्याधीनम् । एषा विचित्ररूपा मूर्तिः माया विकृतित्वात् माया मया सृष्टा इत्यर्थः । यदुक्तम् अशब्दम् इत्यादिवाक्यं तत् ज्ञेयपरम् इत्याह—अपि चेति । तर्हि रूपं कुतः । तत्राह—सर्वेति । यत्र तु उपास्यत्वेन उच्यते तत्रेति अध्याहृत्य सर्वकारणत्वात् प्राप्तारूपवत्त्वं ‘सर्वकर्मा’ इत्यादिश्रुत्या निर्दिश्यते इति

रत्नप्रभाका अनुवाद

अर्थात् स्वतंत्र । तात्पर्य यह है कि यह मेरी विचित्ररूपवाली मूर्ति मायाका विकार है इस कारण माया कहलाती है, मुझसे ही इसकी रचना हुई है । “अपि च” इत्यादिसे कहते हैं कि ‘अशब्दम्’ इत्यादि जो वाक्य कहे गये हैं, वे ज्ञेय ब्रह्मपरक हैं । तब रूप कहाँसे आया, इसपर कहते हैं—“सर्व” इत्यादि । ‘जहाँ उपास्य कहा गया है, वहाँ इतना अभ्याहार करके सबके कारण होनेसे ईश्वरने जित रूपको पाया है, वही रूप ‘सर्वकर्मा’ इत्यादि श्रुतिसे कहा जाता है ऐसी योजना करनी चाहिए । ईश्वरका ऐश्वर्य सीमित नहीं है, ऐसा जो पंछे

भाष्य

परमेश्वर इति । अत्रोच्यते—स्वमहिमप्रतिष्ठस्याऽप्याधारविशेषोपदेश
उपासनार्थो भविष्यति, सर्वगतत्वाद् ब्रह्मणो व्योमवत् सर्वान्तरत्वोपपत्तेः ।
ऐश्वर्यमर्यादाश्रवणमप्यध्यात्माधिदैवतविभागापेक्षमुपासनार्थमेव । तस्मात्
परमेश्वर एवाऽक्षयादित्ययोरन्तरुपदिश्यते ॥ २० ॥

भाष्यका अनुवाद

कथन भी हो सकता है । और श्रुतिमें उसका आधार कहा गया है, इसलिए
आदित्यपुरुष अथवा अक्षिपुरुष परमेश्वर नहीं है ऐसा जो कहा है, उस विषयमें
कहा जाता है । अपनी महिामें प्रतिष्ठित परमेश्वरके भी आधारका उपदेश
उपासनाके लिए है, क्योंकि आकाशके समान सर्वव्यापक होनेसे उसका
सर्वान्तरत्व युक्त है । ऐश्वर्यकी मर्यादा बहनेवाली श्रुति भी अध्यात्म और
अधिदैवत विभागकी अपेक्षा रखती है और वह उपासनाके लिए ही है ।
इसलिए आंश और आदित्यके भीतर परमेश्वरका ही उपदेश है ॥२०॥

रत्नप्रभा

योजना । मर्यादावद् ऐश्वर्यम् ईश्वरस्य न इत्युक्त निराकरोति—ऐश्वर्येति ।
अध्यात्माधिदैवतध्यानयोः विभाग पृथक्प्रयोगः, तदपेक्षमेव न तु ऐश्वर्यस्य
परिच्छेदार्थम् इत्यर्थः ॥२०॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

कहा गया है उसका निराकरण करते हैं—“ऐश्वर्य” इत्यादिसे । अध्यात्म और अधिदैवत
ध्यानके विभाग अर्थात् पृथक् प्रयोगके लिए ही ऐश्वर्यकी मर्यादा श्रुतिमें है, ऐश्वर्यकी सामा—
मर्यादा करनेके लिए नहीं है । तात्पर्य यह है कि एक ही ईश्वरका स्थानभेदसे—देव
आंश वेदके भेदसे—जो ऐश्वर्य नियमित किया है, वह पृथक् ध्यानके लिए है, मर्यादा
दिएलानेके लिए नहीं है ॥ २० ॥


(१) यद्वा-शङ्का हो सकती है कि आदित्यपुरुष—जीव भी सर्वात्मक होनेके कारण सवगन
तथा सर्वान्तर है, क्योंकि ‘आदित्यो वा एष पतन्मण्डल तपति तत्र ता ऋक्’ (ते० आ० १०।११)
(आदित्यका जो बतुंलाकार मण्डल तपता है, उस मण्डलमें ऋक् तथा ऋगभिमानी देवता है,
अतः वह ऋगात्मक है । मण्डलमें जो भास्वर तेज प्रकाशित होता है वह साम है, उसमें सामा
भिमानी देवता है अतः वह सामात्मक है । मण्डल तथा भास्वर तेजमें जो देवतात्मा है वह यजुरात्मक
है, अतः आदित्यपुरुष ऋक्यजु सामात्मक है) ऐसी श्रुति है । ऋक् और साम सर्वात्मक होनेके
कारण ऋक्सामात्मक देवतात्मा भी सर्वात्मक है । इस शङ्काका निवारण इस प्रकार है । मण्डल
आदिमें जो ऋक्सामादिरूपता कहा गई है, वह स्मृतिके लिए अथवा उपासनाके लिए है ।
और इस मन्त्रके पूर्व ‘ऋक् सत्यं पदमद्भ्यः’ मन्त्रमें ऋक् ही प्रकृत है, अतः इनमें भी आदित्यमण्डलो
पाथिक मन्त्रको ही ऋक्सामात्मात्मक कहना उचित है । तथा सर्वोपादान होनेके कारण ऋक् ही
सर्वात्मक है—आदित्यात्मा अथवा अक्षिपुरुष सर्वात्मक नहीं हो सकते हैं ।

भेदव्यपदेशाच्चान्यः ॥ २१ ॥

पदच्छेद—भेदव्यपदेशात्, च, अन्यः ।

पदार्थोक्ति—भेदव्यपदेशात्—‘य आदित्ये तिष्ठन्’ इति श्रुतौ नियम्य-
नियामकत्वेन आदित्यब्रह्मणोः भेदश्रवणात्, च—अपि, अन्यः—‘अथ य०’ इति
श्रुत्युक्तः सूर्याद्भिन्नः [कुतः श्रुतिसामान्यात्] ।

भाषार्थ—‘य आदित्ये०’ इस श्रुतिमें सूर्य नियम्य है और ब्रह्म नियामक है
ऐसा भेद कहा गया है, इस कारण भी ‘अथ य०’ इस श्रुतिमें उक्त पुरुष
सूर्यसे भिन्न परमेश्वर ही है, क्योंकि दोनों श्रुतियोंमें आदित्यके अन्तर्धर्ती पुरुषका
उपदेश है ।



भाष्य

अस्ति चाऽऽदित्यादिशरीराभिमानिभ्यो जीवेभ्योऽन्य ईश्वरोऽन्तर्यामी,
‘य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्याऽऽदित्यः शरीरं
भाष्यका अनुवाद

और आदित्य आदि शरीरोंका अभिमान रखनेवाले जीवोंसे अन्य
अन्तर्यामी ईश्वर है, क्योंकि ‘य आदित्ये०’ (जो आदित्यमें रहता है, और
आदित्यसे अन्तर है, जिसको आदित्य नहीं जानता, जिसका आदित्य शरीर

रत्नप्रभा

ननु उपास्योद्देशेन उपास्तिविधेः विधेयक्रियाकर्मणो मीक्षादिवदन्यतः
सिद्धिः वाच्या इत्याशङ्क्य आह—भेदेति । आदित्यजीवादीश्वरस्य भेदोक्तेः श्रुत्य-
न्तरे जीवादन्व ईश्वरः सिद्ध इति सूत्रार्थम् आह—अस्तीति । आदित्ये सित-
रश्मिनिरासार्थम् आदित्यादन्तर इति । जीवं निरस्यति—यमिति । अशरीरस्य कथं

रत्नप्रभाका अनुवाद

‘मार्हान् अवहन्ति’ जहाँ मूर्तिको उद्देश्यकर अवपातका विधान होता है, वहाँ जैगे मूर्ति
प्रत्यक्षसिद्ध है, वैसे ही उपास्य आदित्यपुरुषके उद्देश्यसे उपासनाका विधान है, अतः यहाँ
भी उपास्यकी सिद्धि अन्यसे कहनी चाहिए ऐसी शंका कर सकते हैं—‘भेद’ इत्यादि । ‘अस्ति’
इत्यादिमें सूत्रका अर्थ कहते हैं । आदित्यरूपी जीवमें अन्तर्यामी भिन्न है, ऐसा अन्य श्रुतिमें
कहा गया है, इसमें सिद्ध है कि जानते ईश्वर अन्य है । आदित्यमें रहनेवाला तो उसका

भाष्य

य आदित्यमन्तरो यमयत्येप त आत्मान्तर्याम्यमृतः' (बृ० ३।७।९)
इति श्रुत्यन्तरे भेदव्यपदेशात् । तत्र हि 'आदित्यादन्तरो यमादित्यो न
चेद' इति वेदितुरादित्याद् विज्ञानात्मनोऽन्योऽन्तर्यामी स्पष्टं निर्दिश्यते ।
य एवेहाप्यन्तरादित्ये पुरुषो भवितुमर्हति, श्रुतिसामान्यात् । तस्मात्
परमेश्वर एवेहोपदिश्यत इति सिद्धम् ॥ २१ ॥

भाष्यका अनुवाद

हे, जो अन्तरात्मा आदित्यपर शासन करता है, यह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी
और अमृत है) ऐसा अन्य श्रुतिमें भेद कहा गया है । यहां 'आदित्या०' (आदित्यसे
भीतर, जिसको आदित्य नहीं जानता) इस प्रकार जाननेवाले आदित्यसे—
विज्ञानात्मासे अन्य अन्तर्यामी है, ऐसा स्पष्ट कहा गया है । यहां भी उसीको
आदित्यान्तर्गत पुरुष मानना योग्य है, क्योंकि दोनों जगह श्रुतियां एक ही प्रकारकी
हैं । अतः सिद्ध हुआ कि यहां परमेश्वरका ही उपदेश किया गया है ॥२१॥

रत्नप्रभा

नियन्तृत्व तत्राह—यस्येति । अन्तर्यामिपदार्थम् आह—य इति । तस्य-
अनात्मत्वनिरासाय आह—एष त इति । ते तव स्वरूपम् इत्यर्थः । आदित्यान्त-
रत्वश्रुतेः समानत्वाद् इत्यर्थः । तस्मात् पर एव आदित्यादिस्थानक उद्गूगीथे
उपास्य इति सिद्धम् ॥ २१ ॥ (७)

रत्नप्रभाका अनुवाद

किरण भी हैं, उनका निरास करनेके लिए कहते हैं—“आदित्यादन्तर” । (आदित्यसे
अन्तर) आदित्यजीवका निरास करनेके लिए कहते हैं—“य०” इत्यादि । शरीररहित
नियन्ता किस प्रकार हो सकता है, इस पर कहते हैं—“यस्य” इत्यादि । अन्तर्यामी पदका अर्थ
कहते हैं—“य०” इत्यादिसे । यह अनात्मा है, इस शब्दाका निरास करनेके लिए कहते हैं—
“एष त०” इत्यादिसे । अर्थात् तेरा स्वरूप है । [श्रुतिसामान्यात्] अर्थात् आदित्यके अन्तर है
यह श्रुति समान है । इसलिए आदित्यमें जो पुरुष है, वही परमात्मा वहीयमें उपास्य है ऐसा
सिद्ध है ॥२१॥

* अन्तरधिकरण समाप्त *



[८ आकाशाधिकरण]

आकाश इति होवाचेत्यत्र खं ब्रह्म वाऽत्र खम् ।
 शब्दस्य तत्र रूढत्वाद्वाच्चादेः सर्जनादपि ॥ १ ॥
 साकाशजगदुत्पत्तिहेतुत्वाच्छ्रौतस्त्वडितः ।
 एवकारादिना चाऽत्र ब्रह्मैवाकाशशब्दितम् ॥ २ ॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—“आकाश इति होवाच” इस श्रुतिमें ‘आकाश’ पद ब्रह्मका अभिधान करता है अथवा भूताकाशका ?

पूर्वपक्ष—‘आकाश’ पद भूताकाशमें ही प्रसिद्ध है और वायु आदिकी उत्पत्तिमें कारण भी है, इससे यहापर ‘आकाश’ पद भूताकाशका ही बोधक है ।

सिद्धान्त—श्रुतिमें ‘आकाश’ पद ब्रह्मका भी बोध करता है और श्रुतिमें आकाश सब भूतोंका कारण कहा गया है । सब भूतोंके अन्तर्गत भूताकाश भी है और ‘आकाशादेव’ में ‘एव’ पद दूसरे कारणोंका निराकरण करता है । अतः यहापर आकाश पदसे ब्रह्मका ही ग्रहण करना उचित है ।

आकाशस्तल्लिङ्गात् ॥ २२ ॥

पदच्छेद—आकाशः, तल्लिङ्गात् ।

पदार्थोक्ति—आकाश.—‘आकाश इति होवाच’ इति श्रुतौ उक्तः आकाशः
 ब्रह्मैव [न, भूताकाशः, कुत.] तल्लिङ्गात्-मर्वभूतोत्पत्तिलयहेतुत्वादिब्रह्मलिङ्ग-
 सद्भावात् [भूताकाशे तदसमवात्] ।

भाषार्थ—‘आकाश इति०’ इस श्रुतिमें उक्त आकाश ब्रह्म ही है, क्योंकि आकाशसे सब भूतोंकी उत्पत्ति तथा लय कहे गये हैं, सब भूतोंको उत्पन्न करना और नाश करना ब्रह्मका शक्ति है । भूताकाशसे सब भूतोंकी उत्पत्ति तथा लय होना संभव नहीं है ।

भाष्य

इदमामनन्ति—‘अस्य’ लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होमाच्च सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो ह्येवैभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्’ (छा० १।९।१) इति । तत्र संशयः किमाकाशशब्देन परं ब्रह्माऽभिधीयते, उत भूताकाशमिति । कुतः संशयः ? उभयत्र प्रयोगदर्शनात् । भूतविशेषे तावत् सुप्रसिद्धौ लोकवेदयोराकाशशब्दः ब्रह्मण्यपि क्वचित् प्रयुज्यमानो दृश्यते, यत्र वाक्यशेषवशादसाधारणगुणश्रवणाद् वा निर्धारितं ब्रह्म भवति, यथा ‘यदेप

भाष्यका अनुवाद

छन्दोग कहते हैं—‘अस्य लोकस्य का गतिः०’ (‘इस लोक का क्या आधार है इस प्रकार पूछनेपर राजाने कहा—आकाश आधार है, ये सब भूत आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं, आकाशमें अस्त होते हैं, क्योंकि आकाश इनसे अधिक बड़ा है और आकाश परम गति है) यहांपर संशय होता है कि क्या आकाश पर ब्रह्मका अभिधान करता है अथवा भूताकाशका ? क्यों संशय होता है ? इससे कि दोनों अर्थोंमें ‘आकाश’ का प्रयोग देखा जाता है । लोक और वेदमें आकाशशब्द भूतविशेष—भूताकाशमें सुप्रसिद्ध है । ब्रह्ममें भी कहीं कहीं उसका प्रयोग देखा जाता है । जहांपर कि वाक्यशेषके बलसे अथवा असाधारण गुणके श्रवणसे ब्रह्मका निश्चय होता है, जैसे ‘यदेप आकाश०’ (यदि आनन्दरूप

रत्नप्रभा

भवतु रूपवत्त्वादिदुर्बललिङ्गानां पापास्पर्शित्वाद्यन्यभिचारिब्रह्मलिङ्गैः अन्यथानयनम्, इह तु आकाशपदश्रुति लिङ्गाद् बलीयसीति प्रत्युदाहरणेन प्राप्ते प्रत्याह—आकाशस्तलिङ्गादिति । छान्दोग्यवाक्यम् उदाहरति—इदमिति । शालावत्थो ब्राह्मणो जैवलिं राजानं पृच्छति—अस्य पृथ्वीलोकस्य अन्यस्य च क. आधार इति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

पूर्वाधिकरणमें पापास्पर्शित्वरूप अव्यभिचारी ब्रह्मलिङ्गसे रूपवत्त्व आदि दुर्बल लिङ्गोंकी व्यवस्था उपाधिद्वारा जो भी गई है, सो हो, पर यहां आकाशपदकी श्रुति लिङ्गसे बलवती है, [इसलिये अन्य प्रकारसे उसकी व्यवस्था नहीं की जा सकती] । इस प्रकार प्रत्युदाहरण समाप्तिसे पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर कहते हैं—“आकाश०” । छान्दोग्यवाक्यका उल्लेख करते हैं—“इदम्” इत्यादिसे । शालावत्थके पुन शिल्क नामक ब्राह्मणने जीवल्के पुन प्रवाहण राजासे पूछा कि इस पृथिवीका और अन्य लोकोंका क्या आधार है ? राजाने उत्तर दिया—“आकाश०”

(१) पापका स्पष्ट न होना ।

भाष्य

आकाश आनन्दो न स्यात्' (तै० २।७) इति, 'आकाशो वै नाम नाम-
रूपयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा तद् ब्रह्म' (छा० ८।१४।१) इति चैवमादौ ।
अतः संशयः । किं पुनरत्र युक्तम् ?

भूताकाशमिति । कुतः ? तद्वि प्रसिद्धतरेण प्रयोगेण शीघ्रं
बुद्धिमारोहति । न चाऽप्यत्र आकाशशब्द उभयोः साधारणः शक्यो
विज्ञातुं, अनेकार्थत्वप्रसङ्गात् । तस्माद् ब्रह्मणि गौण आकाशशब्दो
भवितुमेहति विभुत्वादिभिर्हि बहुभिर्धर्मैः सदृशमाकाशेन ब्रह्म भवति ।

भाष्यका अनुवाद

यह आकाश न हो) और 'आकाशो वै० (आकाश ही प्रसिद्ध नाम और रूपको
व्यक्त करनेवाला है, वे (नाम और रूप) जिससे भिन्न हैं अथवा नाम और
रूप, जिसके भीतर हैं, वह ब्रह्म है) आदि श्रुतियोंमें है । इस कारणसे पूर्वोक्त
संशय होता है । तब युक्त क्या है ?

पूर्वपक्षी—आकाशपदका अर्थ भूताकाश है, क्योंकि आकाशशब्दका
भूताकाशमें प्रयोग प्रसिद्ध है, अतः वही जल्दी बुद्धिमें आता है । और
यह आकाशशब्द दोनों अर्थोंमें साधारण है, यह नहीं कहा जा सकता,
क्योंकि एक शब्दके अनेक अर्थ मानना उचित नहीं है । इस कारण ब्रह्ममें
आकाशशब्द गौण होना चाहिए । वस्तुतः व्यापकत्व आदि अनेक धर्मोंसे

रत्नप्रभा

राजा ब्रूते 'आकाश इति ह' इति । यदेव आकाश इति आनन्दत्वस्य असाधारणस्य
श्रवणाद् आकाशो ब्रह्म इत्यवधारितम् । 'आकाशो वै नाम' इत्यत्र 'तद् ब्रह्म' इति
वाक्यशेषाद् इति विभाग । निर्वहिता—उत्पत्तिस्थितिहेतुः । ते नामरूपे ।
यदन्तरा यस्माद् भिन्ने, यत्र कल्पितत्वेन मध्ये स्त इति वाऽर्थः । अत्र पूर्वपक्षे
भूताकाशात्मना उद्गीयोपास्तिः, सिद्धान्ते ब्रह्मात्मना इति फलम् । उपास्ये

रत्नप्रभाका अनुवाद

आकाश है । 'यदेव आकाश' इस धृतिमें भूताकाशमें सम्भव न होनेवाले असाधारण आनन्दका
आकाशपदके साथ सामानाधिकरण्य है, अतः आकाशपदका अर्थ ब्रह्म है ऐसा निर्णय किया है ।
'आकाशो वै नाम' इस धृतिमें 'तद् ब्रह्म' (वह ब्रह्म है) इस वाक्यशेषके चलते यह विधय
होता है, यह अन्तर है । 'निर्वहिता'—उत्पत्ति और स्थितिका कारण । 'ते'—नाम और रूप ।
'यदन्तरा'—जिससे भिन्न है अथवा जिसके भीतर कल्पितरूपते हैं । यहाँ पूर्वपक्षमें उद्गीयोपी
भूताकाशरूपसे उपासना, सिद्धान्तमें ब्रह्मरूपसे उपासना फल है । उपास्ये—ब्रह्ममें ब्रह्मविष्णु

भाष्य

न च मुख्यसम्भवे गौणोऽर्थो ग्रहणमर्हति । सम्भवति चेह मुख्यस्यैवाऽऽकाशस्य ग्रहणम् । ननु भूताकाशपरिग्रहे वाक्यशेषो नोपपद्यते—‘सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते’ इत्यादिः । नैप दोषः । भूताकाशस्याऽपि वाग्वादिक्रमेण कारणत्वोपपत्तेः । विज्ञायते हि—‘तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः’ (तै० २।१) इत्यादि । ज्यायस्त्वपरायणत्वे अपि भूतान्तरापेक्षयोपपद्येते भूताकाशस्यापि । तस्मादाकाशशब्देन भूताकाशस्य ग्रहणमिति ।

एवं प्राप्ते ब्रूमः—‘आकाशस्तच्छिज्जात्’ । आकाशशब्देन ब्रह्मणो ग्रहणं युक्तम् । कुतः ? तच्छिज्जात् । परस्य हि ब्रह्मण इदं लिङ्गम्—‘सर्वाणि

भाष्यका अनुवाद

युक्त होनेके कारण ब्रह्म आकाशके सदृश है । दूसरी बात यह भी है कि यदि मुख्य अर्थका संभव हो तो गौण अर्थका ग्रहण करना युक्त नहीं है । यहांपर मुख्य आकाशका ही ग्रहण हो सकता है । यहांपर शङ्का होती है कि भूताकाशका ग्रहण करें, तो ‘सर्वाणि ह वा०’ (निश्चय ये सब भूत आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं) इत्यादि वाक्यशेष असंगत हो जायेंगे । यह शङ्का ठीक नहीं है, क्योंकि भूताकाश भी वायु, तेज आदिका क्रमसे कारण हो सकता है । और ‘तस्माद्वा एतस्मा०’ (उस आत्मासे आकाश, आकाशसे वायु और वायुसे अग्नि उत्पन्न होते हैं) इत्यादि श्रुतिसे आकाशमें कारणता ज्ञात होती है । अन्य वायु आदि भूतोंकी अपेक्षा भूताकाश अधिक बड़ा और परम स्थान है यह बात युक्त है ही । अतः आकाशशब्दसे भूताकाश लिया जाना चाहिए ।

सिद्धान्ती—ऐसा प्राप्त होनेपर कहा जाता है—‘आकाश०’ । आकाशशब्दसे ब्रह्मको लेना ठीक है, क्योंकि श्रुतिमें ब्रह्मके चिह्न कहे गये हैं । ‘सर्वाणि ह वा

रत्नप्रभा

स्पष्टब्रह्मलिङ्गवाक्यसमन्वयोक्तेः आपादं श्रुत्यादिसंगतयः । स्पष्टम् अत्र भाष्यम् । तेजःप्रभृतिषु वाग्वादेः अपि कारणत्वाद् एवकारश्रुतिबाधः । सर्वश्रुतेश्च

रत्नप्रभाका अनुवाद

वाक्योंका समन्वय किया गया है, इस कारण श्रुतिसंगतसे पादसंगति तक सब संगतियों हैं । ‘अतः संघय.’ से लेकर ‘कारणत्वं दर्शितम्’ यहाँ तकके भाष्यका अर्थ स्पष्ट है । तेज आदिकी उत्पत्तिमें वायु आदि भी कारण हैं, अतः ‘आकाशादेव’ में ‘एव’ का बाध होता है, इसी प्रकार ‘सर्वाणि भूतानि’ में सर्वत्र आकाशसे भिन्न सब विषयका बोधक है ऐसा अर्थसंकोच भी

भाष्य

ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते' इति । परस्माद्धि ब्रह्मणो भूतानामुत्पत्तिरिति वेदान्तेषु मर्यादाः । ननु भूताकाशस्याऽपि वाय्वादिक्रमेण कारणत्वं दर्शितम् । सत्यम्, दर्शितम् । तथापि मूलकारणस्य ब्रह्मणोऽपरिग्रहादाकाशादेवेत्यवधारणम्, सर्वाणीति च भूतविशेषणं नाऽनुकूलं स्यात् । तथा 'आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति' इति ब्रह्मलिङ्गम् 'आकाशो ह्येवैभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्' इति च ज्यायस्त्वपरायणत्वे । 'ज्यायस्त्वं ह्यनापेक्षिकं परमात्मन्येवैकस्मिन्नाम्नातम्—'ज्यायान्पृथिव्या ज्यायानेन्तरिक्षाज्ज्या—यान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः' (छा० ३।१।४।३) इति । तथा परायण

भाष्यका अनुवाद

इमानि०' (ये सब भूत निश्चय आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं) यह ब्रह्मका ही ज्ञापक है । परब्रह्मसे ही भूतोंकी उत्पत्ति होती है, ऐसा वेदान्त प्रतिपादन करते हैं । यदि कोई कहे कि भूताकाश भी वायु आदिका क्रमसे कारण है, ऐसा दिखलाया है । ठीक है, यद्यपि दिखलाया है तो भी मूलकारण ब्रह्मका महण न करें तो 'आकाशा देव' (आकाशसे ही) ऐसा अवधारण न हो और 'सर्वाणि' (सब) ऐसा 'भूतानि' (भूतों) का विशेषण संगत न हो । इसी प्रकार 'आकाशं०' (आकाशमें सब भूत अस्त-लीन होते हैं) यह भी ब्रह्मलिङ्ग है और 'आकाशो ह्येवैभ्यो०' (आकाश इनसे अधिक बड़ा है और आकाश परमस्थान है) इस प्रकार विशेष महत्त्व और परमस्थानत्व भी ब्रह्मलिङ्ग हैं । 'ज्यायान् पृथिव्या०' (पृथिवीसे अधिक बड़ा, अन्तरिक्षसे अधिक बड़ा, स्वर्गसे अधिक बड़ा, इन लोकोंसे अधिक बड़ा) यह श्रुति केवल परमात्मामें ही अपेक्षारहित महत्त्व दिखलाती है ।

रत्नप्रभा

'आकाशातिरिक्तविषयत्वेन सङ्कोचः स्यात्' इत्याह—मत्स्यं दर्शितमिति । ब्रह्मणस्तु सर्वात्मकत्वात् तस्मादेव 'सत्यम्' इति श्रुतिः युक्ता इति गारः । तथा सर्वलयाधारत्वं निरतिशयमहत्त्वम् स्थितौ अपि परमात्मपत्वम् इत्येतानि स्पष्टानि ब्रह्मलिङ्गानि इत्याह—तथा आकाशमित्यादिना । रातेः धनस्य दातुः । 'रातिः' इति

रत्नप्रभाका अनुवाद

करना पड़ेगा, ऐसा "सत्य दर्शितम्" इत्यादिमें कहते हैं । मत्स्य तो सर्वोत्तम दे, इति 'तस्मादेव०' (उगमसे सबकी उत्पत्ति होती है) इस श्रुतिकी उत्पत्तिमें कोई अड़बड़ नहीं होती । इसी प्रकार सब पदार्थोंके समर्थ आधार होगा, अतीम महत्त्व, स्थितिकारणमें भी ब्रह्मणः श्रेष्ठ आधार होगा, ये सबसे स्पष्ट सिद्ध हैं, ऐसा कहते हैं—'तथा आकाशम्'

भाष्य

त्वमपि परमकारणत्वात् परमात्मन्येवोपपन्नतरम् । श्रुतिश्च भवति—'विज्ञान-
मानन्दं ब्रह्म .रातेर्दातुः परायणम्' (बृ० ३।१।२८) इति । अपि चान्त-
वच्चदोषेण शालावत्यस्य पक्षं निन्दित्वाऽनन्तं किञ्चिद् वक्तुकामेन जैवलिना
आकाशः परिगृहीतः, तं चाऽऽकाशमुद्गीथे संपाद्योपसंहरति—'स एष परो-

भाष्यका अनुवाद

इसी प्रकार परम स्थान मी परम कारण परमात्मा ही हो सकता है । और
'विज्ञानमानन्दं' (ब्रह्म विज्ञानस्वरूप एवं आनन्दरूप है, यह धन देनेवाले
यजमानका परम स्थान है) ऐसी श्रुति भी है । उसी प्रकार विनाशित्वरूप
दोपसे शालावत्यके पक्षकी निन्दा करके किसी एक अविनाशी पदार्थको कहनेकी
इच्छा करनेवाले जैवलिने आकाशका ग्रहण किया है और उस आकाशकी
उद्गीथके साथ एकता करके 'स एष०' (यह उद्गीथ परसे पर है और यह

रत्नप्रभा

पाठे बन्धुः इत्यर्थः । लिङ्गान्तरमाह—अपि चेति । दाल्भ्यशालावत्यौ ब्राह्मणौ
राजा चेति त्रय उद्गीथविद्याकुशला विचारयामासुः—किम् उद्गीथस्य परायणम्
इति । तत्र स्वर्गाद् आगताभिः अद्भिः जीवितेन प्राणेन क्रियमाणोद्गीथस्य स्वर्ग
एव परायणम् इति दाल्भ्यपक्षम् अप्रतिष्ठादोषेण शालावत्यो, निन्दित्वा स्वर्गस्याऽपि
कर्मद्वारा हेतुरयं लोकः प्रतिष्ठा इति उवाच । तं शालावत्यस्य पक्षम् "अन्तवद्वै
किल ते शालावत्य साम" (छा० १।८।८) इति राजा निन्दित्वा अनन्तमेव आकाशं
वक्ति । भूताकाशोक्तौ, अन्तवच्चदोषतादवस्थात् इत्यर्थः । ननु आकाशोऽनन्त
इति न श्रुतम् इत्याशङ्क्ये आह—तं चेति । उद्गीथ आकाश एव इति सम्पादनात्

रत्नप्रभाका अनुवाद

इत्यादि प्रत्यसे । 'रातेः'—धन देनेवालेका । 'रातिः' इस पाठमे 'बन्धु' ऐसा अर्थ समझना
चाहिए । "अपि च" इत्यादिसे दूसरा लिङ्ग कहते हैं । दाल्भ्य और शालावत्य ब्राह्मण और
राजा जैवलि ये तीन उद्गीथ विद्यामें कुशल थे । उन्होंने विचारचर्चा चलाई कि उद्गीथका परायण
(प्रतिष्ठा) क्या है । उस विचारचर्चामे दाल्भ्यने कहा—स्वर्गसे आनेवाले जलसे जीते हुए प्राणसे
उद्गीथ होता है, अतः उद्गीथका स्वर्ग ही परायण है । उनके मतकी अप्रतिष्ठाने दोपसे निन्दा
करके शालावत्यने कहा कि स्वर्गका भी कर्मद्वारा यही लोक हेतु है—इससे यह लोक
उद्गीथकी प्रतिष्ठा है । 'अन्तवद्वै०'—हे शालावत्य ! तुम्हारा राम निश्चय विनाशी है, इस
प्रकार शालावत्यके पक्षकी निन्दा करके राजा जैवलिने कहा—उद्गीथका अविनाशी आकाश
परायण—परमस्थान अर्थात् प्रतिष्ठा है । भूताकाश ले तो अन्तवचरूप दोष रह ही जायगा, इस
कारण आकाशका अर्थ प्रमत्त लेना चाहिए । यदि कोई शङ्का करे कि आकाश अनन्त है ऐसा

भाष्य

वरीयानुद्गीथः स एषोऽनन्तः' (छा० १।९।२) इति । तच्चाऽऽनन्त्यं ब्रह्म-
लिङ्गम् । यत्पुनरुक्तं भूताकाशं प्रसिद्धिबलेन प्रथमतः प्रतीयत इति ।
अत्र ब्रूमः—प्रथमतः प्रतीतमपि सत् वाक्यशेषगतान् ब्रह्मगुणान् दृष्ट्वा

भाष्यका अनुवाद

अनन्त है] ऐसा उपसंहार किया है । वह अनन्तता ब्रह्मलिङ्ग है । और जो कहा
है कि प्रसिद्धिके बलसे 'आकाश' पदसे पहले भूताकाशकी प्रतीति होती है, उस
विषयमें कहते हैं—आकाशपदसे यद्यपि पहले भूताकाश ही प्रतीत होता है,
तो भी वाक्यशेषमें कहे हुए ब्रह्मगुणोंको देखकर उसका ग्रहण नहीं किया जाता ।

रत्नप्रभा

उद्गीथस्य अनन्तत्वादिक न स्वत इति भावः । स उद्गीथावयव उँकारः, एषः
आकाशात्मकः, परः रसतमत्वादिगुणैः उत्कृष्टः, अतोऽक्षरान्तरेभ्यो वरीयान्
श्रेष्ठ इत्यर्थः । पर इति अव्ययं सकारान्तं वा, 'परः कृष्णम्' इति प्रयोगात्
परश्चाऽसौ वरेभ्योऽतिशयेन वरः परोवरीयान् इत्यर्थः । प्राथम्यात् श्रुतत्वाच्च
आकाशशब्दो बलीयान् इति उक्तं स्मारयति—यत्पुनरिति । एवकारसर्वशब्दानु-
गृहीतानन्त्यादिवहुलिङ्गानाम् अनुग्रहाय "त्यजेदेकं कुलस्याऽर्थे" इति न्यायेन एकस्याः
श्रुतेः बाधो युक्त इत्याह—अत्र ब्रूम इति । आकाशपदाद्भूतस्य एव प्रथमप्रतीति
इति नियमो नास्ति इति अपिशब्देन द्योतितम् । तत्र युक्तिमाह—

रत्नप्रमाका अनुवाद

तो ध्रुति कहती नहीं है ध्रुति तो उद्गीथ को अनन्त कहती है इस शंकापर कहते हैं—“तं च”
इत्यादिसे । तात्पर्य यह है कि उद्गीथ आकाश ही है इस प्रकार एकता करनेसे आकाशके
अनन्तत्व आदि धर्मोंसे युक्त उद्गीथ होता है । वह स्वतः अनन्तत्व आदि धर्मोंसे युक्त नहीं
है । वह—उद्गीथमा अवयव आकार । यह—आकाशस्वरूप । पर—रसतम आदि गुणोंसे उत्कृष्ट ।
इस काण दूसरे अक्षरोंसे वरीयान्—श्रेष्ठ है । 'परोवरीयान्' 'पर' यह अव्यय है अथवा
'पर' सकारान्त नपुंसकलिङ्ग है, क्योंकि 'पर कृष्णम्' आदि प्रयोग देखे जाते हैं । परश्चासौ
वरेभ्योऽतिशयेन वरः परोवरीयान्—बहुत ही उत्कृष्ट । आकाशशब्दसे पहले भूताकाशका ही
ज्ञान होता है, और वह शब्द ध्रुत्युक्त है, अतः लिङ्गसे चर्चान् है, ऐसा जो पहले कहा था
उसका स्मरण कराते हैं—“यत्पुन” इत्यादिसे । 'त्यजेदेकं कुलस्यार्थे' गुल्ने लिए एकका
त्याग करे इस न्यायसे एवकार और सर्वशब्दोंसे अनुग्रहीत बहुवचसी प्रमालिङ्ग ध्रुतियोंसे
अनुग्रहके लिए एक आकाशध्रुतिका बाध होना ठीक है, ऐसा कहते हैं—“अत्र ब्रूम”
इत्यादिसे । 'अपि' शब्दसे सूचित होता है कि आकाशशब्दसे पहले भूताकाशका ही

भाष्य

न परिगृह्यते । दर्शितश्च ब्रह्मण्यप्याकाशशब्दः 'आकाशो वै नाम नामरूप-
योर्निर्वहिता' इत्यादौ । तथाऽऽकाशपर्यायवाचिनामपि ब्रह्मणि प्रयोगो
दृश्यते 'ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः'
(ऋ० सं० १।१६।३९) 'सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन्
प्रतिष्ठिता' (तै० ३।६) 'ॐ कं ब्रह्म सं ब्रह्म' (छा० ४।१०।५) 'खं पुराणम्'
(वृ० ४।१।१) इति चैवमादौ । वाक्योपक्रमेऽपि वर्तमानस्याऽऽकाशशब्दस्य

भाष्यका अनुवाद

ब्रह्ममें मी आकाशशब्दका प्रयोग 'आकाशो वै०' (आकाश निश्चय नाम और
रूपका व्यक्त करनेवाला है) इत्यादि स्थलोंपर किया है । इसी प्रकार आकाश
के पर्यायवाचकशब्दोंका मी ब्रह्ममें प्रयोग 'ऋचो अक्षरे परमे० (ऋकप्र, कूटस्थ
आकाश—ब्रह्ममें वेद प्रमाण हैं, और उसीमें सब देव अधिष्ठित हैं), 'सैष
भार्गवी०' (यह भृगुको वरुणकी दी हुई विद्या परब्रह्ममें स्थित है) 'ओं कं
ब्रह्म०' (ओंकार, सुख ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है) और 'खं पुराणम्' ब्रह्म
अनादि है) इत्यादि श्रुतिवाक्यों में देखा जाता है । वाक्य के आरम्भमें भी

रत्नप्रभा

दर्शितश्चेति । आकाशपेदाद् गौणार्थस्य ब्रह्मणोऽपि प्रथमप्रतीतिः अस्ति, तस्य
तत्पर्यायाणां च ब्रह्मणि प्रयोगप्राचुर्यात् इति भावः । अक्षरे कूटस्थे, व्योमन्
व्योम्नि, ऋचः वेदाः सन्ति प्रमाणत्वेन । यस्मिन् अक्षरे विश्वे देवा अधिष्ठिता
इत्यर्थः । ॐकारः—कं सुखं ब्रह्म खं व्यापकम् इति उपासीत । श्रुत्यन्तर-
प्रयोगम् आह—खं पुराणमिति । व्यापि अनादि ब्रह्म इत्यर्थः । "कं ब्रह्म खं
ब्रह्म" इति छान्दोग्यम्, "ॐ खं ब्रह्म खं पुराणम्" इति बृहदारण्यकम् इति

रत्नप्रभाका अनुवाद

ज्ञान होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है; इस विषयमें युक्ति कहते हैं—“दर्शितश्च” इत्यादिसे ।
तात्पर्य यह है कि आकाशशब्दका और उसके पर्याय शब्दोंका ब्रह्ममें प्रचुरतासे प्रयोग दिखाई
देता है, अतः आकाशपदसे गौण अर्थ ब्रह्मानी भी प्रथम प्रतीति होती है । अक्षरे—कूटस्थमें
अर्थात् नाशरहित ब्रह्ममें । व्योमन्—व्योम्नि—आकाशमें । ऋच —ऋचसे उपलक्षित सब वेद ।
वेद कूटस्थ ब्रह्ममें प्रमाण हैं और उस ब्रह्ममें सब देव अधिष्ठित हैं । ब्रह्म ओंकाररूप, सुखरूप
एवं व्यापक है, ऐसी उपासना करनी चाहिए । श्रुत्यन्तरका प्रयोग कहते हैं—“खं पुराणम्” ।
ब्रह्म व्यापक अनादि है । 'ओं कं ब्रह्म सं ब्रह्म' यह छान्दोग्यवाक्य है, 'ओं खं ब्रह्म खं

भाष्य

वाक्यशेषवशात् युक्ता ब्रह्मविषयत्वावधारणा । 'अग्निरधीतेऽनुवाकम्' इति हि वाक्योपक्रमगतोऽप्यग्निशब्दो माणवकविषयो दृश्यते । तस्मादाकाशशब्दं ब्रह्मेति सिद्धम् ॥२२॥

भाष्यका अनुवाद

स्थित आकाशशब्द वाक्यशेषके बलसे ब्रह्मके लिए ही प्रयुक्त है ऐसा निश्चय करना युक्त है । 'अग्निरधीते०' (अग्नि अनुवाकका अध्ययन करती है) इसमें वाक्यके आरम्भमें आए हुए अग्निशब्दका बालकमें प्रयोग देखा जाता है । इससे सिद्ध हुआ कि आकाशशब्द ब्रह्मपरक है ॥२२॥

रत्नप्रभा

भेदः । किञ्च, तत्रैव प्रथमानुसारेण उत्तरं नेयम्, यत्र तन्नेतुं शक्यम्, यत्र तु अशक्यं तत्र उचरानुसारेण प्रथमं नेयम् इत्याह—वाक्येति । तस्माद् उपास्ये ब्रह्मणि वाक्यं समन्वितम् इति उपसंहरति—तस्मादिति ॥२२॥ (८)

रत्नप्रभाका अनुवाद

'पुराणम्' यह बृहदारण्यकवाक्य है ऐसा भेद समझना चाहिए । और जहाँ प्रथम भागके अनुसार उत्तर भागका अर्थ हो सकता है, वहाँ प्रथम भागके अनुसार उत्तरभागका अर्थ करना चाहिए, और जहाँ वैसा न हो सके, वहाँ उत्तर भागके अनुसार प्रथम भागका अर्थ करना चाहिए ऐसा कहते हैं—“वाक्य” इत्यादिसे । इस कारण उपास्य ब्रह्ममें 'आकाश इति होवाच' इस वाक्यका समन्वय है इस प्रकार उपसंहार करते हैं—“तस्मात्” इत्यादिसे ॥२२॥

* आकाशाधिकरण समाप्त *



[९ प्राणाधिकरण सू० २३]

मुखस्थो वायुरीशो वा प्राणः प्रस्तावदेवता ।
 वायुर्भवेत्तत्र सुप्तो भूतसारेन्द्रियक्षयात् ॥ १ ॥
 संकोचोऽक्षपरत्वे स्यात् सर्वभूतलयश्रुतेः ।
 आकाशशब्दवत् प्राणशब्दस्तेनेशवाचकः ॥ २* ॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—‘प्राण इति होवाच’ इस श्रुतिमें उक्त प्राण वायुविकार है अथवा ब्रह्म है ?

पूर्वपक्ष—सुप्तिकालमें सब भूतोंकी सारभूत इन्द्रिया प्राणवायुमें लीन होती हैं, अतः यहां प्राण वायुविकार ही है ।

सिद्धान्त—सुप्तिकालमें केवल इन्द्रियोंका ही प्राणवायुमें लय होता है । यहां तो सब भूतोंका लय कहा गया है । यदि इस श्रुतिमें प्राण वायुविकार माना जाय, तो ‘सर्वाणि ह वा’ श्रुतिगत ‘सर्वं’ शब्दका सङ्कोच करना पड़ेगा । अतः आकाशशब्दके समान प्राणशब्द भी श्रुतिरूढ़िसे ब्रह्मका वाचक है । ‘प्राणमेव’ इसमें एवकारके प्रयोगसे भी सिद्ध होता है कि प्राण ब्रह्म ही है ।

*निष्कर्ष यह है कि आकाशवाक्यके अनन्तर वाक्यमें प्रस्तोताने उपरि ऋषिसे प्रस्ताव नामक सामभागके अधिष्ठाता देवके विषयमें प्रश्न किया कि प्रस्तावका देवता कौन है ? उन्होंने उत्तर दिया प्राण । वहांका वाक्य है—‘प्राण इति होवाच । सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति, प्राणमभ्युज्जिहते सैषा देवता प्रस्तावमन्वायता’ (छा० १।११।४,५) उन्होंने कहा—प्रस्तावका देवता प्राण है । ये सब भूत प्राणमें ही लीन होते हैं और प्राणमें ही उद्गत होते हैं, इसलिए यही देवता प्रस्तावमें अनुगत है ।

यहाँपर सन्देह होना है कि उक्त श्रुतिमें पढ़ा गया प्राणशब्द प्राणवायुका वाचक है अथवा ब्रह्मका ?

पूर्वपक्षी कहता है कि प्राणशब्द प्राणवायुका ही प्रतिपादक है, क्योंकि सब भूतोंका उसमें लय होता है, कारण कि सुप्तिकालमें भूतोंकी साररूप इन्द्रियां प्राणवायुमें ही विलीन होती हैं ।

सिद्धान्ती कहते हैं कि जिसमें केवल इन्द्रियोंका लय होता है वह प्राणवायु ही यदि प्राणशब्दसे अभिप्रेत हो तो ‘सर्वाणि ह वा’ इसमें सर्वशब्दके अर्थवा संकोच करना पड़ेगा । जैसे आकाशशब्द श्रुतिरूढ़ि और एवकारके प्रयोगसे ब्रह्मवाचक है, उसी प्रकार प्राणशब्द भी ब्रह्मवाचक है । प्राणशब्द श्रुतिमें ब्रह्मप्रतिपादक है । ‘प्राणस्य प्राणम्’ यहाँपर ब्रह्मको कहनेकी इच्छासे दूसरे प्राणशब्दका प्रयोग है । इससे सिद्ध हुआ कि उक्त श्रुतिमें स्थित प्राणशब्द ब्रह्मका ही वाचक है ।

भाष्य

वाक्यशेषवशात् युक्ता ब्रह्मविषयत्वावधारणा । 'अग्निरधीतेऽनुवाकम्' इति हि वाक्योपक्रमगतोऽप्यग्निशब्दो माणवकविषयो दृश्यते । तस्मादाकाशः शब्दं ब्रह्मेति सिद्धम् ॥२२॥

भाष्यका अनुवाद

स्थित आकाशशब्द वाक्यशेषके बलसे ब्रह्मके लिये ही प्रयुक्त है ऐसा निश्चय करना युक्त है । 'अग्निरधीते०' (अग्नि अनुवाकका अध्ययन करती है) इसमें वाक्यके आरम्भमें आप हुए अग्निशब्दका बालकमें प्रयोग देखा जाता है । इससे सिद्ध हुआ कि आकाशशब्द ब्रह्मपरक है ॥२२॥

रत्नप्रभा

भेदः । किञ्च, तत्रैव प्रथमानुसारेण उत्तरं नेयम्, यत्र तत्रेतुं शक्यम्, यत्र तु अशक्यं तत्र उचरानुसारेण प्रथमं नेयम् इत्याह—वाक्येति । तस्माद् उपास्ये ब्रह्मणि वाक्यं समन्वितम् इति उपसंहरति—तस्मादिति ॥२२॥ (८)

रत्नप्रभाका अनुवाद

पुराणम् यह बृहदारण्यकवाक्य है ऐसा भेद समझना चाहिए । और जहाँ प्रथम भागके अनुसार उत्तर भागका अर्थ हो सकता है, वहाँ प्रथम भागके अनुसार उत्तरभागका अर्थ करना चाहिए, और जहाँ वैसा न हो सके, वहाँ उत्तर भागके अनुसार प्रथम भागका अर्थ करना चाहिए ऐसा कहते हैं—“वाक्य” इत्यादिसे । इस कारण उपास्य ब्रह्ममें 'आकाश इति श्लोवाच' इस वाक्यका समन्वय है इस प्रकार उपसंहार करते हैं—“तस्मात्” इत्यादिसे ॥२२॥

* आकाशाधिष्ठरण समाप्त *



[९ प्राणाधिकरण सू० २३]

मुखस्थो वायुरीशो वा प्राणः प्रस्तावदेवता ।
 वायुर्भवेत्तत्र सुप्तौ भूतसारेन्द्रियक्षयात् ॥ १ ॥
 संकोचोऽक्षपरत्वे स्यात् सर्वभूतलयश्रुतेः ।
 आकाशशब्दवत् प्राणशब्दस्तेनेशवाचकः ॥ २* ॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—‘प्राण इति होवाच’ इस धृतिमें उक्त प्राण वायुविकार है अथवा ब्रह्म है ?

पूर्वपक्ष—सुप्तिकालमें सब भूतोंकी सारभूत इन्द्रिया प्राणवायुमें लीन होती हैं, अतः यहा प्राण वायुविकार ही है ।

सिद्धान्त—सुप्तिकालमें केवल इन्द्रियोंका ही प्राणवायुमें लय होता है । यहा तो सब भूतोंका लय कहा गया है । यदि इस धृतिमें प्राण वायुविकार माना जाय, तो ‘सर्वाणि ह वा’ धृतिगत ‘सर्व’ शब्दका संकोच करना पड़ेगा । अतः आकाशशब्दके समान प्राण-शब्द भी धृतिरूढिसे ब्रह्मका वाचक है । ‘प्राणमेव’ इसमें एवकारके प्रयोगसे भी सिद्ध होता है कि प्राण ब्रह्म ही है ।

*निष्पन्न यह है कि आकाशवाक्यके अनन्तर वाक्यमें प्रस्तोताने उपरिष्ठ ऋषिसे प्रस्ताव नामक सामभागके अधिष्ठाता देवक विषयमें प्रश्न किया कि प्रस्तावका देवता कौन है ? उन्होंने उत्तर दिया प्राण । ब्रह्मका वाक्य है—“प्राण इति होवाच । सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभि सविशन्ति, प्राणमभ्युज्जिहते सैषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता” (छा० १।२।१।४, ५) उन्होंने ब्रह्म—प्रस्तावका देवता प्राण है । ये सब भूत प्राणमें ही लीन होते हैं और प्राणमे ही उद्भूत होते हैं, इसलिए यही देवता प्रस्तावमें अनुगत है ।

यहाँपर सन्देह होता है कि उक्त धृतिमें पदा गया प्राणशब्द प्राणवायुका वाचक है अथवा ब्रह्मका ?

पूर्वपक्षी कहता है कि प्राणशब्द प्राणवायुका ही प्रतिपादक है, क्योंकि सब भूतोंका उसमें लय होता है, कारण कि सुप्तिकालमें भूतोंकी साररूप इन्द्रिया प्राणवायुमें ही विलीन होती हैं ।

सिद्धान्ता ब्रह्मेते हैं कि जिसमें केवल इन्द्रियोंका लय होता है वह प्राणवायु ही यदि प्राणशब्दसे अभिप्रेत हो तो ‘सर्वाणि ह वै’ इसमें सर्वशब्दके अर्थका संकोच करना पड़ेगा । जैसे आकाशशब्द धृतिरूढि और एवकारके प्रयोगसे ब्रह्मवाचक है, उसी प्रकार प्राणशब्द भी ब्रह्मवाचक है । प्राणशब्द धृतिमें ब्रह्मप्रतिपादक है । ‘प्राणस्य प्राणम्’ यहाँपर ब्रह्मको कहनेकी इच्छासे दूसरे प्राणशब्दका प्रयोग है । इससे सिद्ध हुआ कि उक्त धृतिमें स्थित प्राणशब्द ब्रह्मका ही वाचक है ।

अत एव प्राणः ॥२३॥

पदच्छेद—अतः, एव, प्राणः

पदार्थोक्ति—प्राणः—‘प्रस्तोतर्या देवता’ इति श्रुतौ प्राणः परमात्मा [न प्राणवायुः, कुनः] अत एव—सर्वभूतोत्पत्तिलयहेतुत्वादिब्रह्मलिङ्गादेव ।

भाषार्थ—‘प्रस्तोतर्या०’ इस श्रुतिमें प्राणशब्दवाच्य परमात्मा ही है, प्राणवायु नहीं है; क्योंकि प्राणसे सब भूतोंकी उत्पत्ति तथा लय कहे गये हैं, सब भूतोंको उत्पन्न करना और नाश करना यह ब्रह्ममें ही सम्भव है ।



भाष्य

उद्गीथे—‘प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता’ इत्युपक्रम्य श्रूयते-
‘कतमा सा देवतेति प्राण इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राण-
भाष्यका अनुवाद

उद्गीथे प्रकरणमें ‘प्रस्तोतर्या देवता०’ (हे प्रस्तोतः ! जो देवता प्रस्तावमें अनुगत है) ऐसा आरम्भ करके ‘कतमा सा०’ (यह देवता कौन है ?) इस प्रश्नपर ‘प्राण इति होवाच सर्वाणि०’ (उसने कहा प्राण प्रस्तावका देवता है,

रत्नप्रभा

आकाशवाक्योक्तन्यायं तदुत्तरवाक्येऽतिदिशति—अत एव प्राणः । उद्गीथ-
प्रकरणम् इति ज्ञापनार्थम् “उद्गीथे” इति भाष्यपदम् । उद्गीथप्रकरणे श्रूयते
इति अन्वयः । कश्चिद् ऋषिः चाक्रायणः प्रस्तोतारम् उवाच, हे प्रस्तोतः या
देवता प्रस्तावं सामभक्तिमनुगता ध्यानार्थम्, तां चेत् देवताम् अज्ञात्वा मम विदुषो
रत्नप्रभाका अनुवाद

आकाशवाक्यमें उक्त न्यायका अग्रिम ‘प्राण इति होवाच’ इम वाक्यमें अतिदेश करते हैं—
“अत एव प्राणः” । यह उद्गीथका प्रकरण है यह स्मरण करानेके लिए भाष्यमें ‘उद्गीथ’ पद
दिया गया है । भाष्यगत ‘उद्गीथे’ का अन्वय ‘श्रूयते’ के साथ है । चाक्रायण नामक किसी
ऋषिने प्रस्तोतारो कहा कि हे प्रस्तोतः ! जो देवता प्रस्तावरूप सामके भागमें ध्यानके लिए
अनुगत है, उम देवताके ज्ञानके बिना यदि उसको जाननेकाले मेरे सामक्षमें तुम उसकी स्तुति

(१) उद्गीथ—सामभाग विशेष, प्रस्ताव—सामभाग विशेष । उद्गीथकी उपासनाके प्रसंगमें प्रस्तावकी उपासनाको लेकर भाष्यमें प्रजापप्रकरणके पहले उद्गीथप्रकरण कहा है ।

(२) अतिप्रम्व स्वविषयमुत्तम्य अन्यत्र विषये देशः उपदेशः—एक स्थलमें कहे हुए पदार्थका दूसरी जगह सम्बन्ध करना ।

भाष्य

मेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युज्जिहते संपा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता' (छा० १।१।१४, ५) इति। तत्र संशयनिर्णयौ पूर्ववदेव द्रष्टव्यौ । 'प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः (छा० ६।८।२) 'प्राणस्य प्राणम्' (वृ० ४।४।१८) इति चैव-मादौ ब्रह्मविषयः प्राणशब्दो दृश्यते, वायुविकारे तु प्रसिद्धतरो लोक-वेदयोः, अत इह प्राणशब्देन कतरस्योपादानं युक्तमिति भवति संशयः । किं पुनरत्र युक्तम् ?

भाष्यका अनुवाद

क्योंकि ये सब भूत प्राणमें ही लीन होते हैं और प्राणसे ही उत्पन्न होते हैं, वही देवता प्रस्तावमें अनुगत है) ऐसा धृति कहती है । उसमें संशय और निर्णय पूर्वके समान ही समझने चाहियें । 'प्राणबन्धनं' (हे प्रिय ! मन जिसकी उपाधि है, ऐसा जीव प्राण—ब्रह्मके साथ सुषुप्तिमें एक होता है) और 'प्राणस्य' (प्राण—प्राणवायुका प्रेरक) इत्यादिमें प्राणशब्द ब्रह्मके लिए प्रयुक्त है और वायु-विकारमें तो लोह और वेदमें अति प्रसिद्ध है, इसलिए यहां प्राणशब्दसे किसका ग्रहण करना चाहिए ऐसा संशय होता है । तब यहां किसका ग्रहण करना ठीक है ?

रत्नप्रभा

निकटे प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते पतिष्यति इति । ततो गीतः सन् पप्रच्छ, कतमा सा देवता इति । उत्तरम्—प्राण इति । प्राणम् अग्निलक्ष्य सम्यक् विशन्ति लीयन्ते तम् अभिलक्ष्य उज्जिहते उत्पद्यन्ते इत्यर्थः । अतिदेशत्वात् पूर्ववत् संशयादि द्रष्टव्यम् इति उक्तं विवृणोति—प्राणोति । मनउपाधिको जीवः प्राणेन ब्रह्मणा बध्यते, सुषुप्तौ एकीभवति । प्राणस्य—वायोः प्राणम्—प्रेरकं तस्य सत्तास्फूर्तिप्रदम् आत्मानं ये विदुः, ते ब्रह्मविद इत्यर्थः । पूर्वेण गतार्थत्वात् पृथक् सूत्रं

रत्नप्रभाका अनुवाद

करोगे, तो तुम्हारा सिर गिर जायगा । तब उसने भयभीत होकर पूछा कि वह देवता कौन है ? इसके उत्तरमें चाक्रायणने कहा कि वह प्राण है । 'प्राणमेवाभिसंविशन्ति'—प्राणमें ही लीन होते हैं । "प्राणमभ्युज्जिहते"—प्राणसे उत्पन्न होते हैं । अतिदेश है इसलिए पूर्वके समान ही संशय आदि समझने चाहियें, ऐसा जो फीछे कहा है, उसका विवरण करते हैं—'प्राण' इत्यादिसे । मन है उपाधि जिसकी, ऐसा जीव प्राण—ब्रह्मने बध्य होता है अर्थात् सुषुप्तिमें एक होता है । प्राणका—वायुका प्राण—प्रेरक, तात्पर्य यह है कि उसे सत्ता और स्फूर्ति देनेवाले आत्माको जो जानते हैं वे आत्मज्ञानी हैं । पूर्वसूत्रसे यह सूत्र गतार्थ है इसकी पृथक् रचना व्यर्थ है, ऐसा शङ्का

भाष्य

वायुविकारस्य पञ्चवृत्तेः प्राणस्योपादानं युक्तम् । तत्र हि प्रसिद्धतरः प्राणशब्द इत्यवोचाम । ननु पूर्ववदिहापि तल्लिङ्गाद् ब्रह्मण एव ग्रहणं युक्तम्, इहापि वाक्यशेषे भूतानां संवेशनोद्गमनं पारमेश्वरं कर्म प्रतीयते । न, मुख्येऽपि प्राणे भूतसंवेशनोद्गमनस्य दर्शनात् । एवं ह्याम्नायते—‘यदा वै पुरुषः स्वपिति प्राणं तर्हि वागप्येति प्राणं चक्षुः प्राणं श्रोत्रं प्राणं मनः स यदा प्रबुध्यते प्राणादेवाधि पुनर्जायन्ते’ (श० ब्रा० १०।३।३।६) इति । प्रत्यक्षं चैतत् स्वापकाले प्राणवृत्तावपरिलुप्यमानायामिन्द्रियवृत्तयः परिलुप्यन्ते, प्रबोधकाले च प्रादुर्भवन्तीति । इन्द्रियसारत्वाच्च भूतानामविरुद्धो भाष्यका अनुवाद

पूर्वपक्षी—वायुके विकार पांच प्रकारके प्राणका ग्रहण करना ठीक है, क्योंकि उसमें प्राणशब्द विशेष प्रसिद्ध है ऐसा हमने कहा है । यदि कहो कि पूर्वके समान यहां भी ब्रह्मके लिङ्गोंसे ब्रह्मका ही ग्रहण करना ठीक है, क्योंकि यहां भी वाक्यशेषमें भूतोंका लय और उत्पत्तिरूप परमेश्वरका कर्म प्रतीत होता है । नहीं, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि मुख्य प्राणमें भी भूतोंके लय और उद्गम देखे जाते हैं । श्रुति ऐसा कहती है कि ‘यदा वै पुरुषः स्वपिति०’ (जब पुरुष सोता है, तब याणी प्राणमें लीन होती है, चक्षु प्राणमें, श्रोत्र प्राणमें और मन प्राणमें लीन होता है, जब पुरुष जागता है, तब प्राणसे ही ये उत्पन्न होते हैं) और यह घात प्रत्यक्ष है कि जब निद्राके समय प्राणका व्यापार लुप्त नहीं होता, तब इन्द्रियोंका व्यापार लुप्त हो जाता है और जागरणके समयमें प्रकट होता है ।

रत्नप्रभा

व्यर्थम् इति शङ्कते—ननु पूर्ववदिति । अधिकाशङ्कानिरासार्थम् अतिदेशसूत्रम् इति मत्वा समाधानमाह—न मुख्येऽपीति । तर्हि—तदा चक्षुः अप्येति इति एवम्प्रकारेण सर्वत्र सम्बन्धः । ननु अत्र इन्द्रियाणां प्राणे लयोदयौ श्रूयते, तावता महाभूतल्यादिप्रतिपादकवाक्यशेषोपपत्तिः कथम् इति अत आह—इन्द्रिय-सारत्वादिति । “त्यस्य क्षेप रसः” (वृ० २।३।५) इति श्रुतेः इन्द्रियाणि रत्नप्रभाका अनुवाद

करते हैं—“ननु पूर्ववत्” इत्यादिसे । पूर्वमूलमें जो शङ्काएँ थीं गई हैं उनसे अधिक शङ्काओंका निराकरण करनेके लिए इस अतिदेशसूत्रकी रचना की गई है ऐसा सोचकर संकाका समाधान करते हैं—“न मुख्येऽपि” इत्यादिसे । ‘तर्हि’—उस समय, ‘लीन होता है,’ इत्याका चक्षु, श्रोत्र, मनसे संबन्ध समाप्तना चाहिए । परन्तु यहां धुनि प्राणमें इन्द्रियोंके लय और उत्पत्तिके प्रतिपादन करती है, तो इतनेमें महाभूतोंके लय आदिका प्रतिपादक वाक्यशेष किन प्रकार संगन

भाष्य

मुख्ये प्राणेषु भूतसंवेशनोद्गमनवादी वाक्यशेषः । अपि चादित्योऽन्नं चोद्गीथप्रतिहारयोर्देवते प्रस्तावदेवतायाः प्राणस्याऽनन्तरं निर्दिश्येते । न च तयोर्ब्रह्मत्वमस्ति, तत्सामान्याच्च प्राणस्यापि न ब्रह्मत्वमिति ।

एवं प्राप्ते सूत्रकार आह—‘अत एव प्राणः’ इति । ‘तल्लिङ्गात्’ इति पूर्व-सूत्रे निर्दिष्टम् । अत एव तल्लिङ्गात् प्राणशब्दमपि परं ब्रह्म भवितुमर्हति । प्राणस्यापि हि ब्रह्मलिङ्गसम्बन्धः श्रूयते ‘सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राण-

भाष्यका अनुवाद

और इन्द्रियां भूतोंकी साररूप हैं, इसलिए भूतोंके लय और उत्पत्तिको कहनेवाला वाक्यशेष मुख्य प्राणमें भी विरुद्ध नहीं है । किञ्च, प्रस्ताव देवता प्राणके कथनके बाद उद्गीथदेवता आदित्य और प्रतिहारदेवता अन्न है ऐसा निर्देश किया है और वे दोनों (आदित्य और अन्न) ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए उनके सादृश्यसे प्राण भी ब्रह्म नहीं है ।

सिद्धान्ती—ऐसा प्राप्त होनेपर सूत्रकार कहते हैं—“अत एव०” । उसके लिंगोंसे—ब्रह्मके चिह्नोंसे, ऐसा पूर्वसूत्रमें निर्देश किया है । इससे—उसके लिङ्गोंसे प्राणशब्द भी परब्रह्मपरक है । प्राणका भी ब्रह्मलिङ्गके साथ संबन्ध श्रुतिमें कहा गया है । जैसे कि ‘सर्वाणि ह वा इमानि०’ (निश्चय ये सब भूत प्राणमें ही

रत्नप्रभा

लिङ्गात्मरूपाणि अपञ्चीकृतभूतानां साराणि तेषां लयाद्युक्त्या भूतानामपि प्राणे लयादिसिद्धेः वाक्यशेषोपपत्तिरित्यर्थः । अब्रह्मसहपाठाच्च प्राणो न ब्रह्म इति आह—अपि चेति । उद्गातृप्रतिहर्तृभ्याम् उद्गीथे प्रतिहारे च का देवता इति पृष्टेन चाक्रायणेन आदित्योऽन्नं च निर्दिश्येते, “आदित्य इति होवाच” ‘अन्न-

रत्नप्रभाका अनुवाद

होता है, इसपर कहते हैं—“इन्द्रियसारत्वात्” इत्यादिते । ‘त्यस्य षोष०’ (इन्द्रियां भूतोंकी सार हैं) इन श्रुतिते ज्ञात होता है कि लिङ्गात्मरूप इन्द्रियां अपञ्चीकृत भूतोंकी साररूप हैं, उनके लय आदि कहनेसे भूतोंके भी प्राणमें लय आदि सिद्ध होते हैं, इस कारण वाक्यशेष उपपन्न होता है, ऐसा अर्थ है । प्रस्तुत वाक्यमें ब्रह्मभिन्न आदित्य-अन्नके साथ प्राणशब्दका पाठ है, इस कारण भी प्राणशब्दका अर्थ ब्रह्म नहीं है ऐसा कहते हैं—“अपि च” इत्यादिसे । उद्गाताके चाक्रायणसे यों पूछनेपर कि उद्गीथमें कौन देवता अनुगत है ? चाक्रायणने कहा—उद्गीथमें आदित्य देवता अनुगत है । प्रतिहर्ताके उससे यों पूछनेपर कि प्रतिहारमें कौन देवता अनुगत है ? उसने उत्तर दिया कि प्रतिहारमें अन्न देवता अनुगत है यह बात ‘आदित्य इति०’

भाष्य

मेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युज्जिहते' (छा० १।१।५) इति । प्राणनिमित्तौ सर्वेषां भूतानामुत्पत्तिप्रलयावुच्यमानौ प्राणस्य ब्रह्मतां गमयतः । ननूक्तं मुख्यप्राणपरिग्रहेऽपि संवेशनोद्गमनदर्शनमविरुद्धं, स्वापप्रबोधयोर्दर्शनादिति । अत्रोच्यते—स्वापप्रबोधयोरिन्द्रियाणामेव केवलानां प्राणाश्रयं संवेशनोद्गमनं दृश्यते, न सर्वेषां भूतानाम्, इह तु सेन्द्रियाणां सशरीराणां

भाष्यका अनुवाद

लीन होते हैं और प्राणसे ही उत्पन्न होते हैं ।) इसमें सब भूतोंके लय और उत्पत्तिका निमित्त प्राण है, ऐसा कहा है, इससे प्राण ब्रह्म है यह अनुमान होता है । परन्तु कहा है कि मुख्य प्राण अर्थ लें तो भी लय और उत्पत्तिका दर्शन विरुद्ध नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति और प्रबोध कालमें सब इन्द्रियां प्राणमें लीन होती हैं और प्राणसे निकलती हैं यह प्रत्यक्ष देखनेमें आता है । इस पर कहते हैं—सुषुप्ति और प्रबोधमें केवल इन्द्रियोंके ही लय और उद्गम प्राणमें होते हैं, सब भूतोंके नहीं । यहां तो 'सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि' इस श्रुतिसे प्रतीत होता है कि इन्द्रियसहित

रत्नप्रभा

मिति होवाच' इति श्रुतौ इत्यर्थः । सामान्यं सन्निधानम् । सच्चिद्यनुगृहीत-प्रथमश्रुतप्राणश्रुत्या मुख्यप्राणनिर्णये तद्दृष्ट्या प्रस्तावोपास्तिः इति पूर्णपक्षफलम् । सिद्धान्ते ब्रह्मदृष्टिरूपोपास्तिः । अस्याऽधिकरणस्य अतिदेशत्वमेव पूर्वेण सङ्गतिः इति विभागः । भवन्ति इति भूतानि इति व्युत्पत्त्या यदिकश्चिद्भवनधर्मकं कार्यमात्रम्, तस्य लयोदयौ वायुविकारे प्राणे न युक्तौ इति उक्त्वा भूतशब्दस्य रूढार्थग्रहेऽपि लयादेः ब्रह्मनिर्णायकत्वम् इति आह—यदापीति । भौतिकप्राणस्य भूतयोनि-र्यायोगात् इत्यर्थः । तस्य तद्योनित्वं श्रुत्या शङ्कते—नन्निति । अथ यदा

रत्नप्रभाका अनुवाद

'अथ इति' इस श्रुतिमें स्पष्ट है । सामान्य-सन्निधि । सच्चिदिते अनुगृहीत प्रथम श्रुत प्राणशब्दका अर्थ वायुविकार है यह निर्णय होनेपर उक्त छंटने प्रस्तावकी उपासना करनी चाहिए यह पूर्णपक्षमें फल है । सिद्धान्तमें ब्रह्मदृष्टिमें प्रस्तावकी उपासना फल है । पूर्वोक्तप्राणसे हम अधिकरणकी अतिदेशत्व गंगाति है । 'भवन्तीति भूतानि' इस व्युत्पत्तिमें भूत अर्थरत्न उद्गम होना जिनका धर्म है, उन कार्यमात्रोंके लय और उदय (उत्पत्ति) वायुविकार प्राणमें नहीं हो सकते हैं ऐसा कहकर भूतशब्दके भौतिक अर्थके बदले ऋग् अर्थ लें तो भी तब अतिसे ब्रह्म ही निर्णय होता है, ऐसा करते हैं—“यदापि” इत्यादिये । भौतिक प्राण भूतोंका कारण हो यह संभव नहीं है । “ननु” इत्यादिये शङ्का करते हैं कि श्रुतिमें प्राण भूतोंका

भाष्य

च जीवाविष्टानां भूतानाम्, 'सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि' इति श्रुतेः । यदाऽपि भूतश्रुतिर्महाभूतविषया परिगृह्यते तदापि ब्रह्मलिङ्गत्वमविरुद्धम् । ननु सहापि विषयैरिन्द्रियाणां स्वापप्रबोधयोः प्राणोऽप्ययं प्राणाच्च प्रभवं शृणुमः—'यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन पश्यत्यथास्मिन्प्राण एवैकधा भवति तदंनं वाक्सर्वैर्नामभिः सहाप्येति' (कौ० ३।३) इति । तत्राऽपि तल्लिङ्गात् प्राणशब्दं ब्रह्मैव । यत्पुनरत्रादित्यसंनिधानात् प्राणस्याब्रह्मत्वमिति । तदयुक्तम्, वाक्यशेषबलेन प्राणशब्दस्य ब्रह्मविषयतायां प्रतीयमानायां संनिधानस्याऽकिञ्चित्करत्वात् । यत्पुनः प्राणशब्दस्य पञ्चवृत्तौ प्रसिद्धतरत्वम्, तदाकाशशब्दस्येव प्रतिविधेयम् । तस्मात्सिद्धं प्रस्तावभाष्यका अनुवाद

और शरीरसहित, जीवसे आविष्ट भूतोंके लय और उद्गम प्राणके आधित हैं । उक्त श्रुति महाभूतोंका बोध कराती है, ऐसा यदि मानें तो भी उनके (महाभूतोंके उद्गम और प्रलयके) ब्रह्मलिङ्ग होनेमें कोई विरोध नहीं है । परन्तु सुपुति और प्रबोधमें विषयोंके साथ इन्द्रियोंका प्राणमें लय और प्राणसे उत्पत्ति देरी जाती है—'यदा सुप्तः स्वप्नं न कश्चन०' (जब सोता हुआ कुछ स्वप्न नहीं देरता तब यह प्राणमें ही एक होता है और उसी समय उसमें सब नामोंके साथ घाणी लीन होती है) इस प्रश्न पर कहते हैं कि इसमें भी ब्रह्मके लिंगोंकी सत्ता होनेसे प्राणशब्द ब्रह्मवाचक ही है । और यह जो पहले कहा गया है कि अन्न तथा आदित्यकी सन्निधिसे प्राण ब्रह्मवाचक नहीं है, यह शङ्का ठीक नहीं है, क्योंकि वाक्यशेषके बलसे प्राणशब्द ब्रह्ममें प्रयुक्त होता है, ऐसा प्रतीत होता है, अतः सन्निधि निःसार है । इसी प्रकार प्राणशब्दका अर्थ पांच प्रकारका प्राण प्रसिद्ध है, इस आक्षेपका निराकरण उसी प्रकार करना चाहिए जैसे कि

रत्नप्रभा

सुपुप्तौ जीवः प्राणे ब्रह्मणि एकीभवति तदा एनं प्राणं सविषया वागादयोऽपियन्ति इत्यर्थः । अत्र जीवामिन्नत्वे सर्वलयाधारत्वलिङ्गात् न मुख्यः प्राण इति आह—तत्रापीति । वाक्यान्तरसन्निध्यपेक्षया स्ववाक्यगतं लिङ्गं बलीय इत्याह—तदयुक्त-रत्नप्रभाका अनुवाद

कारण कहा गया है । श्रुतिको अर्थ यह है जब सुपुतिमें जीव प्राणमें—ब्रह्ममें लीन हो जाता है, तब उस प्राणमें—ब्रह्ममें विषय सहित घाणी आदिका लय हो जाता है । यहाँ जीवसे अमेद और सब लयोंके आधार इन लिङ्गोंसे प्राण वागुविकार नहीं है, ऐसा समाधान कहते हैं—'तत्रापि' इत्यादिसे । दूसरे वाक्यकी संनिधिकी अपेक्षा एक ही वाक्यमें आया हुआ लिङ्ग बलवाच्य है,

भाष्य

देवतायाः प्राणस्य ब्रह्मत्वम् । अत्र केचिदुदाहरन्ति—‘प्राणस्य प्राणम्’
‘प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः’ इति च । तदयुक्तम् । शब्दभेदात्प्रकरणाच्च
संशयानुपपत्तेः । यथा पितुः पितेति प्रयोगेऽन्यः पिता पृष्ठीनिर्दिष्टोऽन्यः
प्रथमानिर्दिष्टः पितुः पितेति गम्यते, तद्वत् प्राणस्य प्राणम् इति
शब्दभेदात् प्रसिद्धात् प्राणादन्यः प्राणस्य प्राणम् इति निश्चीयते । नहि स
एव तस्येति भेदनिर्देशार्हो भवति । यस्य च प्रकरणे यो निर्दिश्यते नामा-
न्तरेणाऽपि स एव तत्र प्रकरणनिर्दिष्ट इति गम्यते । यथा ज्योतिष्टोमा-

भाष्यका अनुवाद

आकाशशब्दमें किया जा चुका है । इससे सिद्ध हुआ कि प्रस्तावदेवतारूप प्राण
ब्रह्म है । यहां वृत्तिकार ‘प्राणस्य प्राणम्’ (प्राणका अर्थात् वायुका प्रेरक) और
‘प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः’ (हे प्रिय ! मन जिसकी उपाधि है ऐसा *जीव
प्राण-ब्रह्मके साथ सुषुप्तिमें एक होता है) इन दो श्रुतियोंका उदाहरण रूपसे उल्लेख
करते हैं । यह ठीक नहीं है, क्योंकि शब्दभेदसे और प्रकरणसे संशय ही नहीं
हो सकता । जैसे ‘पितुः पिता’ (बाप का बाप) इस प्रयोगमें पृष्ठी विभक्तिसे
निर्दिष्ट पितासे प्रथमा विभक्तिसे निर्दिष्ट पिता भिन्न है, ऐसा समझा जाता है, उसी
प्रकार ‘प्राणस्य प्राणम्’ इसमें शब्दभेदसे प्रसिद्ध प्राणसे भिन्न प्राणका प्राण है,
ऐसा निश्चय होता है, क्योंकि एक ही पदार्थ जो ‘तत्’ शब्दसे कहा जाय, वही
‘तस्य’ इस प्रकार भेद रूपसे नहीं कहा जा सकता । जिसके प्रकरणमें जिसका

रत्नप्रभा

मिति । एकवाक्यत्वं वाक्यशेषः । तस्य बलं—तद्गतं लिङ्गं तेन इत्यर्थः । प्राण-
मेव इति अवधारणेन सर्वभूतप्रकृतित्वलिङ्गेन च प्राणपदेन तत्कारणं ब्रह्म लक्ष्यम्
इत्याह—तदाकाशशब्दस्येवेति । वृत्तिकृतम् उदाहरणं संशयाभावेन अयुक्तम्
इत्याह—अत्रेत्यादिना । शब्दभेदम् उक्त्वा प्रकरणं प्रपञ्चयति—यस्य चेति ॥२॥ (९)

रत्नप्रभाका अनुवाद

ऐसा कहते हैं—“तदयुक्तम्” इत्यादिसे । वाक्यशेषके बलसे—वाक्यशेष अर्थात् वाक्यका
शेष भाग अर्थात् एकवाक्यता, उसका बल अर्थात् उसमें आये हुए लिङ्गसे । ‘प्राणमेव’ इसमें
एवकार द्वारा अवधारण करनेसे और सब भूतोंकी योनि, इन लिङ्गमें प्राणपदसे उसका कारण
ब्रह्म ही लक्ष्य है, ऐसा कहते हैं—“तदाकाशशब्दस्येव” इत्यादिसे । वृत्तिकारका उदाहरण
संशयके अभावसे अयुक्त है, ऐसा कहते हैं—“अत्र” इत्यादिसे । शब्दभेदको कहकर प्रकरणको
विस्तारसे कहते हैं—“यस्य च” इत्यादिसे ॥ ३ ॥

भाष्य

विकारं—‘वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत’ इत्यत्र ज्योतिःशब्दो ज्योति-
ष्टोमविषयो भवति, तथा परस्य ब्रह्मणः प्रकरणे ‘प्राणवन्धनं हि सोम्य
मनः’ इति श्रुतः प्राणशब्दो वायुविकारमात्रं कथमवगमयेत् । अतः संशया-
विषयत्वान्नैतदुदाहरणं युक्तम् । प्रस्तावदेवतायां तु प्राणे संशयपूर्व-
पक्षनिर्णया उपपादिताः ॥ २३ ॥

भाष्यका अनुवाद

निर्देश होता है, उस प्रकरणमें अन्य नामसे भी बड़ी निर्दिष्ट होता है, ऐसा
समझा जाता है । जैसे ज्योतिष्टोमके प्रकरणमें ‘वसन्ते वसन्ते०’ (प्रति-
वसन्त ऋतुमें ज्योति याग करना चाहिए) इसमें ज्योतिःशब्द ज्योतिष्टोमरूप अर्थ-
में प्रयुक्त होता है, उसी प्रकार परब्रह्मके प्रकरणमें ‘प्राणवन्धनं’ इस श्रुतिमें
उक्त प्राणशब्द केवल वायुविकारमात्रका किस प्रकार बोध करावे । अतः संशयका
विषय न होनेसे यह उदाहरण ठीक नहीं है । प्रस्तावदेवतारूप प्राणमें
तो संशय, पूर्वपक्ष और निर्णयकी उपपत्ति विसलाई है ॥ २३ ॥

* प्राणाधिकरण समाप्त *



[१० ज्योतिश्चरणाधिकरण सू० २४-२७]

कार्यं ज्योतिरुत ब्रह्म ज्योतिर्दीप्यत इत्यदः ।

ब्रह्मणोऽसंनिधेः कार्यं तेजो लिङ्गबलादपि ॥ १ ॥

चतुष्पात् प्रकृतं ब्रह्म यच्छब्देनाऽनुवर्त्यते ।

ज्योतिः स्याद्भासकं ब्रह्म लिङ्गन्तुपाधियोगतः ॥ २ ॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—‘अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते’ इस ध्रुतिमें उक्त ज्योति कार्य-ज्योति है अथवा ब्रह्म है ?

पूर्वपक्ष—ब्रह्मका प्रकरण न होनेसे तथा ‘इदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तःपुरूपे ज्योतिः’ इस ध्रुतिमें जठराग्निके साथ अभेदरूप तेजोलिङ्गके बलसे प्रतीत होता है कि इस ध्रुतिमें कार्यज्योति ही कही गई है ।

सिद्धान्त—‘पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि’ इस पूर्व ध्रुतिमें चतुष्पात् ब्रह्म प्रकृत है उसीकी यद्वा ‘यत्’ शब्दसे अनुवृत्ति होती है । ज्योति शब्दका अर्थ है भासक होना, ब्रह्म जगत्का भासक है ही । तेजोलिङ्गकी तो उपाधिविशिष्ट-ब्रह्ममें कल्पना की जाती है । अतः उक्त ध्रुतिमें ज्योति ब्रह्म ही है ।

छान्दोग्यके तीसरे अध्यायमें गायत्रीखण्डके प्रकरणमें हृदयच्छिद्रकी उपासना कहकर “अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते” कहा है । यहाँ पर संशय होता है कि जुलोकसे, परो प्रकाशमान बस्तु चक्षुपर अनुग्रह करने वाली कार्यरूप ज्योति है अथवा ब्रह्म है ?

पूर्वपक्षी कहता है कि वाच्यमें ब्रह्मपदका अर्थ नहीं है और “इदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तः-पुरूपे ज्योतिः०” (वह यही है जो कि पुरुषके अन्दर ज्योति है अर्थात् जठराग्नि है) इस ध्रुतिसे जठराग्निसे अभेदरूप तेजोलिङ्ग स्पष्ट मालूम होता है, अतः वह कार्यज्योति है ।

सिद्धान्ती कहते हैं कि पहले गायत्रीखण्डमें “पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि” (सब भूत ब्रह्मके एक अंश रूप हैं, पादत्रयसे उपलक्षित ब्रह्मका अनन्तस्वरूप प्रकाशमान जुलोकेमें अर्थात् अपनी मादिमार्गमें प्रतिष्ठित है) इस प्रकार चतुष्पाद ब्रह्म प्रकृत है । उसी ब्रह्मका ‘अथ यदतः परो’ यहाँ ‘यत्’ शब्दसे परामर्श होता है, अतः ब्रह्मकी सन्निधि है । यदि कहे कि ‘ज्योतिः’ शब्द ब्रह्मका वाचक नहीं है । यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ‘ज्योतिः’ शब्दका अर्थ है भासक होना, ब्रह्म तो जगद्भासक है ही, अतः ‘ज्योतिः’ शब्दकी शक्ति ब्रह्ममें है । तेजोलिङ्ग तो सौपाधिक ब्रह्ममें कल्पित है । इससे सिद्ध हुआ कि ज्योति ब्रह्म ही है ।

ज्योतिश्चरणाभिधानात् ॥२४॥

पदच्छेद—ज्योतिः, चरणाभिधानात् ।

पदार्थोक्ति—ज्योतिः—‘अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते’ इति श्रुतौ ज्योतिः परमात्मा [न सूर्यादिज्योतिः, कुतः] चरणाभिधानात्—‘पादोऽस्य सर्वा’ इति पूर्ववाक्ये. ब्रह्मणः पादत्रयाभिधानात् [तस्यैव ब्रह्मणः अत्र प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्] ।

भाषार्थ—‘अथ यदतः’ इस श्रुतिमें ज्योतिः शब्दसे परमात्मा ही कहा गया है, सूर्य आदि ज्योति नहीं कही गई है क्योंकि ‘पादोऽस्य’ इस पूर्व वाक्यमें ब्रह्मके तीन पाद कहे गये हैं, यहां ज्योतिर्वाक्यमें द्युलोकसंबन्धसे उसी ब्रह्मकी प्रत्यभिज्ञा होती है ।



भाष्य

इदमामनन्ति—‘अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः षष्ठेषु सर्वतः षष्ठेष्वनुत्तमेषुत्तमेषु लोकेष्विदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तःपुरुषे ज्योतिः’ (छा० ३।१३।७) इति । तत्र संशयः—किमिह ज्योतिःशब्देनाऽऽ-

भाष्यका अनुवाद

छन्दोग कहते हैं—‘अथ यदतः परो दिवो०’ (द्युलोकसे परे, विश्व प्राणिवर्गसे ऊपर, सब भू आदि लोकोंसे ऊपर, सर्वोत्तम, उत्कृष्ट लोकोंमें जो ज्योति प्रकाशित होती है, वह यही है जो कि पुरुष—देहके भीतर जठराग्नि है)

रत्नप्रभा

ज्योतिश्चरणाभिधानात् । छान्दोग्यमेव उदाहरति—इदमिति । गायत्र्युपाधिकब्रह्मोपास्त्यानन्तर्यार्थः अथशब्दः । अतो दिवो द्युलोकात् परः परस्ताद् यत् ज्योतिर्दीप्यते तत् यद् इदम् इति जाठरामौ अध्यम्यते । कुत्र दीप्यते तत्र आह—विश्वत इति । विश्वस्मात् प्राणिवर्गाद् उपरि सर्वस्मात् भूरादिलोकाद् उपरि ये

रत्नप्रभाका अनुवाद

“इदम्” इत्यादिसे छान्दोग्य वाक्यका ही उल्लेख करते हैं । गायत्री है उपाधि जिगकी उम ब्रह्मरी उपास्तिके बाद, यह ‘अथ’ शब्दका अर्थ है। इस द्युलोकसे पर जो ज्योति प्रकाशित होती है, उसका ‘तद्यदिदम् (वह यही है) ऐसा जठराग्निमें अभ्यास करते हैं । कहां प्रकाशित है ? इस प्रश्नपर कहते हैं—“विदयत.” । सब

[१० ज्योतिश्चरणाधिकरण सू० २४-२७]

कार्यं ज्योतिरुत ब्रह्म ज्योतिर्दीप्यत इत्यदः ।

ब्रह्मणोऽसंनिधेः कार्यं तेजो लिङ्गवत्त्वादपि ॥ १ ॥

चतुष्पात् प्रकृतं ब्रह्म यच्छब्देनाऽनुवर्त्यते ।

ज्योतिः स्याद्भासकं ब्रह्म लिङ्गान्तूपाधियोगतः ॥ २ ॥

[अधिकरणसार]

सन्वेह—‘अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते’ इस धृतिमें उक्त ज्योति कार्य-ज्योति है अथवा ब्रह्म है ?

पूर्वपक्ष—ब्रह्मना प्रकरण न होनेसे तथा ‘इदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तःपुरुषे ज्योतिः’ इस धृतिमें जठराग्नि के साथ अभेदरूप तेजोलिङ्ग के बलसे प्रतीत होता है कि इस धृतिमें कार्यज्योति ही कही गई है ।

सिद्धान्त—‘पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि’ इस पूर्व धृतिमें चतुष्पात् ब्रह्म प्रकृत है उसीकी यद्वा ‘यत्’ शब्दसे अनुवृत्ति होती है । ज्योति शब्दका अर्थ है भासक होना, ब्रह्म जगत्का भासक है ही । तेजोलिङ्गकी तो उपाधिविशिष्ट-ब्रह्ममें कल्पना की जाती है । अतः उक्त धृतिमें ज्योति ब्रह्म ही है ।

छान्दोग्यके तीसरे अध्यायमें गायत्रीविष्णुके प्रकरणमें हृदयच्छिद्रकी उपासना कहकर “अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते” कहा है । यहाँ पर संशय होता है कि बुलोकसे, परो प्रकाशमान बस्तु चतुष्पर अनुग्रह करने वाली कार्यरूप ज्योति है अथवा ब्रह्म है ?

पूर्वपक्षा कहता है कि वाक्यमें ब्रह्मपदका अर्थ नहीं है और “इदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तः-पुरुषे ज्योतिः०” (यह यही है जो कि पुरुषके अन्दर ज्योति है अर्थात् जठराग्नि है) इस धृतिसे जठराग्निसे अभेदरूप तेजोलिङ्ग स्पष्ट मालूम होता है, अतः वह कार्यज्योति है ।

सिद्धान्ती कहते हैं कि पहले गायत्रीखण्डमें “पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि” (सब भूत ब्रह्मके एक अक्षरूप हैं, पादत्रयसे उपलक्षित ब्रह्मका अनन्तस्वरूप प्रकाशमान बुलोकमें अर्थात् अपनी महिमामें प्रतिष्ठित है) इस प्रकार चतुष्पात् ब्रह्म प्रकृत है । उसी ब्रह्मका ‘अथ यदतः परो’ यहाँ, ‘यत्’ शब्दसे परामर्श होता है, अतः ब्रह्मकी सन्निधि है । यदि कहे कि ‘ज्योतिः’ शब्द ब्रह्मका वाचक नहीं है । यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ‘ज्योतिः’ शब्दका अर्थ है भासक होना, ब्रह्म तो जगद्भासक है ही, अतः ‘ज्योतिः’ शब्दकी वृत्ति ब्रह्ममें है । तेजोलिङ्ग तो सौपाधिक ब्रह्ममें कल्पित है । इससे सिद्ध हुआ कि ज्योति ब्रह्म ही है ।

भाष्य

शार्ङ्गरादिकं तम उच्यते । तस्या एवाऽनुग्राहकमादित्यादिकं ज्योतिः । तथा 'दीप्यते' इतीयमपि श्रुतिरादित्यादिनिपया प्रसिद्धा । नहि रूपादिहीनं ब्रह्म दीप्यत इति मुख्यां श्रुतिमर्हति । द्युमर्यादत्प्रश्रुतेश्च । नहि चराचरजीजस्य ब्रह्मणः मर्यात्मरूपस्य द्यौर्मर्यादा युक्ता कार्यस्य तु ज्योतिषः परिच्छिन्नस्य द्यौर्मर्यादा स्यात् । 'परो दिवो ज्योतिः' इति च ब्राह्मणम् ।

भाष्यका अनुवाद

नेत्रके व्यापारको रोकनेवाला रात्रि आदिका अन्धकार तम कहलाता है और उसी व्यापारके सहायक आदित्य आदि ज्योति कहलाते हैं । उसी प्रकार 'दीप्यते' (प्रकाशित होता है) यह श्रुति भी आदित्य आदिका अभिधान करती है, यह प्रसिद्ध है । यथार्थमें रूप आदिसे रहित ब्रह्ममें 'दीप्यते' यह श्रुति उपपन्न नहीं हो सकती । और धुलोक ज्योतिकी सीमा है ऐसा श्रुति प्रतिपादन करती है, इसलिए ज्योति मुख्यतया आदित्यका ही अभिधान करती है । चर और अचर सृष्टिका धीज, सबका आत्मा जो ब्रह्म है, उसको धुलोक तक ही सीमित करना युक्त नहीं है । कार्यरूप जो परिच्छिन्न ज्योति है, वह धुलोकसे परम ही सीमित हो सकती है । धुलोकसे पर ज्योति है, इस प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थ ज्योतिकी सीमाका निर्देश करता है । यदि कहे

रत्नप्रभा

अनेन आवरकत्वाद् रूपवत्त्वात् च कुड्यवद् भावरूप तम इत्यर्थाद् उक्तं भवति । ज्योति श्रुते अनुग्राहकलिङ्गानि आह—तथेत्यादिना । भास्वरूपात्मिका दीप्तिस्तेजस एव लिङ्गम् इत्याह—नहीति । मास्तु मर्यादा इत्याशङ्क्य श्रुतत्वात् भैवम् इत्याह—परो दिव इति । मर्यादा धृते इति शेष । ब्रह्मवत् कार्यस्याऽपि मर्यादायोगात्

रत्नप्रभाका अनुवाद

होनेवाला अर्थात् नील । आवरण करनेवाला और रूपवाला होनेसे दीवारके समान अन्धकार भाव रूप है, एमा अर्थात् कहा गया । ज्योति श्रुतिके अनुग्राहक हेतु कहते हैं—'तथा' इत्यादिसे । भास्वरूपवाली दीप्ति तेजका ही लिङ्ग है, ऐसा कहते हैं—'नहि' इत्यादिसे । ज्योतिकी मर्यादा न हो ऐसी आशङ्का करके श्रुतिमें मर्यादा कही गई है, अतः उसका (मर्यादाका) निषेध नही कर सकते हैं ऐसा कहते हैं—'परो दिव' इत्यादिसे । 'ब्राह्मणम्' के बाद 'मर्यादा श्रुते' (मर्यादाको यताता है) इतना शेष समझना चाहिए । ब्रह्मके समान कार्य

(१) शुद्धरूप से तरङ्गका है, भास्वर और अभास्वर । अभास्वर शुद्धरूप जलमें है और भास्वर शुद्ध तेजमें है । भास्वर—प्रकाशमान ।

भाष्य

दित्यादि ज्योतिरभिधीयते किंवा पर आत्मेति । अर्थान्तरविषयस्याऽपि शब्दस्य तल्लिङ्गाद् ब्रह्मविषयत्वमुक्तम्, इह तु तल्लिङ्गमेवाऽस्ति नास्तीति विचार्यते । किं तावत् प्राप्तम् ?

आदित्यादिकमेव ज्योतिःशब्देन परिगृह्यत इति । कुतः ? प्रसिद्धेः । तमोज्योतिरिति हीमौ शब्दौ परस्परप्रतिद्वन्द्विविषयौ प्रसिद्धौ । चक्षुर्वृत्तेनिरोधकं

भाष्यका अनुवाद

यहां पर संशय होता है कि इस श्रुतिमें ज्योतिःशब्दसे आदित्य आदि ज्योतिका अभिधान होता है अथवा परमात्माका ? दूसरे अर्थमें प्रयुक्त हुआ शब्द भी ब्रह्मलिङ्गके कारण ब्रह्मका बोधक होता है, ऐसा पीछे कहा जा चुका है । यहां ब्रह्मलिङ्ग है, या नहीं है, ऐसा विचार किया जाता है । तब क्या प्राप्त होता है ?

पूर्वपक्षी—ज्योतिःशब्दसे आदित्य आदिका अभिधान होता है, क्योंकि उन्हींमें ज्योतिःशब्दकी प्रसिद्धि है । यह प्रसिद्ध है कि तमस् (अन्धकार) और ज्योतिष् (ज्योति) ये दो शब्द परस्पर विरोधी अर्थमें प्रयुक्त होते हैं ।

रत्नप्रभा

लोकाः तेषु उत्तमेषु न विद्यन्ते उत्तमा येभ्य इति अनुत्तमेषु सर्वसंसारमण्डलातीतं परं ज्योतिः इदमेव यद् देहस्थम् इत्यर्थः । पूर्वेण अगतार्थत्वं वदन् प्रत्युदाहरणसङ्गतिम् आह—अर्थान्तरेति । अत्र स्ववाक्ये स्पष्टब्रह्मलिङ्गाभावेऽपि “पादोऽस्य” इति पूर्ववाक्ये भूतपादत्वं लिङ्गम् अस्तीति पादसङ्गतिः । पूर्वोत्तरपक्षयोः जडब्रह्मज्योतिपोः उपास्तिः फलम् इति भेदः । ननु ज्ञानतमोविरोधित्वाद् ब्रह्माऽपि ज्योतिःपदशक्यतया प्रसिद्धमस्ति नेत्याह—चक्षुरिति । शर्वर्यां रात्रौ भवं शर्वरम्, नीलमिति यावत् ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

प्राणिवर्ग तथा भूलोक आदि सब लोकोंके ऊपर जो लोक हैं, उन अष्ट लोकोंमें सारे संसार-मण्डलसे पर जो परज्योति है, वह यही है जो कि शरीरमें है । यह सूत्र पूर्वसूत्रसे गतार्थ नहीं है, ऐसा कहते हुए प्रत्युदाहरण संगति दिखलते हैं—“अर्थान्तर” इत्यादिसे । यह अपने वाक्यमें (ज्योतिवाक्यमें) ब्रह्मलिङ्ग स्पष्टरूपसे नहीं है, तो भी ‘पादोऽस्य’ इस पूर्व-वाक्यमें सब भूत उसका एक पाद है, इस प्रकार भूतपादत्वरूप ब्रह्मलिङ्ग है, इसलिए पादसंगति है । पूर्वपक्षमें जड ज्योतिकी उपासना फल है और उत्तरपक्षमें ब्रह्मज्योतिकी उपासना फल है, यह भेद है । यदि कोई कहे कि अज्ञानरूपी अन्धकारका विरोधी ब्रह्म भी ज्योतिःशब्दसे वाक्य है हम बातका खण्डन करते हैं—“चक्षुः” इत्यादिसे । रात्रिमें

भाष्य

तेजसो धुमर्यादत्वं प्रसिद्धम् । अस्तु तर्हि त्रिवृत्कृतमेव तत्तेजो ज्योतिः-
शब्दम् । ननूक्तमर्वागपि दिवोऽवगम्यतेऽग्न्यादिकं ज्योतिरिति । नैप
दोषः । सर्वत्राऽपि गम्यमानस्य ज्योतिषः 'परो दिवः' इत्युपासनार्थः
प्रदेशविशेषपरिग्रहो न विरुध्यते, न तु निष्प्रदेशस्याऽपि ब्रह्मणः प्रदेश-

भाष्यका अनुवाद

इसी प्रकार तीन गुणवाले न हुए तेजकी स्वर्गलोक सीमा है, यह प्रसिद्ध
नहीं है । * तब तीन गुणवाला तेज ही ज्योतिःशब्दका वाच्य है, ऐसा मानो ।
परन्तु जो तुमने यह कहा है कि शुलोकसे नीचे भी अग्नि आदि ज्योति
है । यह दोष नहीं है । सर्वत्र उपलभ्यमान ज्योतिका भी 'परो दिवः' (शुलोकसे
पर) ऐसा उपासनाके लिए प्रदेशविशेषका ग्रहण विरुद्ध नहीं है । परन्तु
अवयवरहित ब्रह्मके अवयवविशेषकी कल्पना करना ठीक नहीं है । और

रत्नप्रभा

विभज्य पुनश्च एकैकं भागं द्वेषा कृत्वा स्वभागाद् इतरभागयोः निक्षिप्य तत् त्रि-
गुणरज्जुवत् त्रिवृतं करवाणि इति अविशेषोक्ततेः नास्ति अत्रिवृत्कृतं किञ्चिद् इत्यर्थः ।
किञ्च, अत्र "यदतः परः" इति यच्छब्देन अन्यतः प्रसिद्धं धुमर्यादत्वं ध्यानाय अनुद्यते ।
न च अत्रिवृत्कृतस्य तस्य तत् क्वचित् प्रसिद्धम् इत्याह—न चेति । एकदेशिमते
निरस्ते साक्षात् पूर्वपक्षी ब्रते—अस्तु तर्हि । प्रदेशविशेषः दिवः परस्ताद् देदी-
प्यमानः सूर्यादितेजोऽग्नयवविशेषः, तस्य परिग्रह उपासनार्थो न विरुध्यते इति
अन्वयः । स एव कौक्षेये ज्योतिषि उपास्यते, तस्याऽपि तेजस्त्वाद् इति भावः ।
ब्रह्मणोऽपि ध्यानार्थं प्रदेशस्थत्वं कल्प्यतां नेत्याह—नत्विति । निष्प्रदेशस्य निर-

रत्नप्रभाका अनुवाद

नहीं । तेज, जल और अन्न इन देवताओंके एक एकके दो दो भाग करके फिर एक एक
भागके दो दो भाग करके उन दो भागोंको अपने भागसे दूसरे दो भागोंमें मिलाकर उनको
तीन बलवाली रस्तीके समान तीन गुणवाला करूँगा, इस प्रकार साधारणतया कहा है, अतः
तीन गुणवाला न हुआ तेज है ही नहीं ऐसा अर्थ है । और यहाँ 'यदतः परः' (जो इससे
पर है) इसमें 'यत्' शब्दसे अन्यत्र प्रसिद्ध धुमर्यादत्वका ध्यानके लिए अनुवाद किया
जाता है और तीन गुणवाले न हुए तेजकी धुमर्यादा किसी स्थलपर प्रसिद्ध नहीं है, ऐसा
कहते हैं—“न च” इत्यादिसे । एकदेशीके मतका निराकरण होनेपर साक्षात् पूर्वपक्षी
कहता है—“अस्तु तर्हि” इत्यादिसे । 'प्रदेश विशेष'—शुलोकसे पर अतिप्रकाशमान सूर्यादि
तेजका अवयव विशेष, उपासनाके निमित्त उसका परिग्रह विरुद्ध नहीं है, इस तरह अन्वय
करना चाहिए । उसीकी कुक्षिस्प ज्योतिमें उपासना होती है, क्योंकि वह भी तेज है, ऐसा

भाष्य

ननु कार्यस्याऽपि ज्योतिषः सर्वत्र गम्यमानत्वाद् द्युमर्यादावन्नमसमञ्जसम् । अस्तु तर्हि त्रिवृत्कृतं तेजः प्रथमजम् । न, अत्रिवृत्कृतस्य तेजसः प्रयोजनाभावादिति । इदमेव प्रयोजनं यदुपास्यत्वमिति चेत्, न; प्रयोजनान्तरप्रयुक्तस्यैवाऽऽदित्यादेरुपास्यत्वदर्शनात् । 'तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवाणि' (छा० ६।३।३) इति चाऽविशेषश्रुतेः । न चाऽत्रिवृत्कृतस्याऽपि

भाष्यका अनुवाद

किं कार्यरूप ज्योति भी सर्वत्र विद्यमान है, अतः द्युलोक उसकी मर्यादा है, यह कथन संगत नहीं है, तो प्रथम उत्पन्न हुए, अन्न और जलके साथ न मिले हुए तेजको ज्योति मानो । नहीं, क्योंकि अन्न और जलके साथ न मिले हुए तेजका प्रयोजन नहीं है । उपास्य होना ही अत्रिवृत्कृत तेजका प्रयोजन है, ऐसा कहो तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे प्रयोजनोंसे जो उपयोगी सिद्ध होते हैं, वे आदित्य आदि ही उपास्य हैं ऐसा देखनेमें आता है और 'तासां त्रिवृतं त्रिवृतं' (उनमेंसे एक एकको तीन तीन गुणवाला करूंगा) यह श्रुति साधारण है, इसलिए अत्रिवृत्कृत तेज है ही नहीं ।

रत्नप्रभा

निरर्थकं ब्राह्मणम् इति कश्चिद् आक्षिपति—नन्विति । एकदेशी ब्रूते—अस्त्विति । स्वर्गादौ जातं किञ्चिद् अतीन्द्रियं तेजो दिवः परस्ताद् अस्ति श्रुतिप्रामाण्याद् इत्यर्थः । अध्ययनविध्युपात्तश्रुतेः निष्फलं वस्तु न अर्थ इति आक्षेपा ब्रूते—नेति । ध्यानं फलमित्याशङ्क्य निष्फलस्य काऽपि ध्यानं नाऽस्ति इत्याह—इदमेवेत्यादिना । प्रयोजनान्तरं तमोनाशादिकम् । अत्रिवृत्कृतं तेजोऽग्नीकृत्य अफलत्वम् उक्त्वा तदेव नास्ति इत्याह—तासामिति । तेजोऽन्नानां देवतानाम् एकैकां द्विधा

रत्नप्रभाका अनुवाद

ज्योतिषी भी मर्यादा नहीं हो सकती है, इस कारण ब्राह्मण निरर्थक है, ऐसा कोई आक्षेप करता है—“ननु” इत्यादिसे । एकदेशी कहता है—“अस्तु” इत्यादिसे । स्वर्ग आदिमें उत्पन्न हुआ कोई अतीन्द्रिय तेज द्युलोकसे पर है, क्योंकि उसमें धृति प्रमाण है, ऐसा गर्व है । अध्ययन विधिमें प्रहण की गई धृतिका निष्फल पदार्थ विषय नहीं हो सकता ऐसा आक्षेप करनेवाला (ननु इत्यादिसे प्रभकर्ता) “न” इत्यादि कहता है । ध्यान फल है ऐसी आशा करके निष्फल वस्तुका कहीं ध्यान नहीं होता है ऐसा समाधान करते हैं—“इदमेव” इत्यादिसे । दूसरे प्रयोजन—अन्धकारका नाश आदि । तीन गुणवाले न हुए तेजका अज्ञाकार करके यह निष्फल है ऐसा कहकर अब “तासाम्” इत्यादिसे कहते हैं कि पैसा तेज है ही

भाष्य

(छा० ३।१३।७) इति चाण्यघोषविशिष्टत्वस्य श्रवणात् । 'तदेतद् दृष्टं च श्रुतं चेत्युपासीत' इति च श्रुतेः । 'चक्षुष्यः श्रुतो भवति य एवं वेद' (छा० ३।१३।८) इति चाऽल्पफलश्रवणादब्रह्मत्वम् । महते हि फलाय ब्रह्मोपासनमिष्यते । न चाऽन्यदपि किञ्चित्स्ववाक्ये प्राणाकाश-वज्ज्योतिषोऽस्ति ब्रह्मलिङ्गम् । न च पूर्वस्मिन्नपि वाक्ये ब्रह्म निर्दिष्ट-मस्ति, 'गायत्री वा इदं सर्वं भूतम्' इति छन्दोनिर्देशात् । अथाऽपि

भाष्यका अनुवाद

ऐसी उष्णता और घोषविशिष्टकी श्रुति है । 'तदेतद् दृष्टं च' (वह दृष्ट है और श्रुत है, इस प्रकार उपासना करनी चाहिए) इस श्रुतिसे और 'चाक्षुष्यः श्रुतो०' (जो ऐसा जानता है, वह दर्शनीय और विख्यात होता है) इस अल्प फलकी श्रुतिसे ज्योति ब्रह्म नहीं है । निस्सन्देह ब्रह्मकी उपासना महान् फलके लिए वाञ्छनीय होती है । और प्राण एवं आकाशके समान ज्योति ब्रह्म है, यह दिखलानेवाले स्ववाक्यमें कोई दूसरा चिह्न (ब्रह्मलिङ्ग) नहीं है, पूर्ववाक्यमें भी चतुष्पात् ब्रह्म निर्दिष्ट नहीं है, क्योंकि 'गायत्री वा इदं०' (ये सब भूत गायत्री हैं) इस प्रकार छन्दका निर्देश किया है, और पूर्व-

रत्नप्रभा

यत् कर्णपिधानेन घोषश्रवणं सा एषा तस्य श्रुतिः इत्यर्थः । ज्योतिषो जडत्वे लिङ्गान्तरम् आह—तदेतदिति । ज्योतिः इत्यर्थः । चक्षुष्यः चक्षुर्हितः सुन्दरः, श्रुतो विख्यातः । न चान्यदपीति । ब्रह्मलिङ्गमपि किञ्चिदन्यत् नास्तीति अन्वयः । ननु "त्रिपादस्याऽमृतं दिवि" इति पूर्ववाक्योक्तं ब्रह्म अत्र ज्योतिःपदेन गृह्यताम् इत्याशङ्क्य आह—न चेति । ननु सर्वात्मकत्वामृतत्वा-भ्यां ब्रह्मोक्तम् इत्यत आह—अथापीति । कथञ्चित् छन्दोद्वारा इत्यर्थः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

होता है वह जठरामित्री दृष्टि है और कान बन्द करनेसे शब्द जैसा जो सुनाई देता है, वह उसकी श्रुति है । ज्योति जड है इसमें दूसरा हेतु कहते हैं—"तदेतत्" इत्यादिते । तत् अर्थात् ज्योति । चक्षुष्य—चक्षुको अच्छा लगनेवाला अर्थात् सुन्दर, श्रुत—प्रसिद्ध । "न चान्यदपि" यहां पर और कोई दूसरा ब्रह्मलिङ्ग भी नहीं है ऐसा अन्वय है । 'त्रिपादस्या०' इस पूर्ववाक्यमें कहे हुए ब्रह्मका यहां ज्योतिः शब्दसे ग्रहण करो ऐसी शङ्का करके कहते हैं—"न च" इत्यादिते । शब्दका आत्मा है, अमृत है, ऐसा पूर्व वाक्यमें ब्रह्म कहा ही है, इस आशङ्कापर कहते हैं— "अथापि" इत्यादिते । कथञ्चित्—छन्दोद्वारा । 'दिवि और दिवः' इस प्रकार सप्तमी और पथमी

भाष्य

विशेषकल्पना भागिनी । 'सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषूत्तमेषु लोकेषु' इति चाऽऽधारबहुत्वश्रुतिः कार्ये ज्योतिष्युपपद्यतेतराम् । इदं वाच तद्यदिदमस्मिन्नन्तःपुरुषे ज्योतिः' (छा० ३।१३।७) इति च कौक्षेये ज्योतिषि परं ज्योतिरध्यस्यमानं दृश्यते । सारूप्यनिमित्ताश्चाऽध्यासा भवन्ति । यथा— 'तस्य भूरिति शिर एकं शिर एकमेतदक्षरम्' (वृ० ५।५।३) इति । कौक्षेयस्य तु ज्योतिषः प्रसिद्धमब्रह्मत्वम् । 'तस्यैषा दृष्टिः 'तस्यैषा श्रुतिः'

भाष्यका अनुवाद

'सर्वतः पृष्ठेष्वनु' (सब भू आदि लोकोंसे ऊपर, जिससे कुछ उत्तम नहीं है, ऐसे उत्कृष्ट लोकोंमें) यह बहुतसे आधारोंका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति कार्यज्योतिमें अधिक संगत होती है । 'इदं वाच तद्यदिदं' (इस पुरुषमें जो भीतरकी ज्योति है, यह वही है) इस श्रुतिमें कुक्षिस्थ ज्योतिमें पर ज्योतिका आरोप किया हुआ जान पड़ता है और आरोपका निमित्त सादृश्य होता है, जैसे 'तस्य भूरिति शिर एकं' (उस पुरुषका भूः शिर है, क्योंकि शिर एक है और यह अक्षर भी एक है) । परन्तु कुक्षिस्थ ज्योति ब्रह्म नहीं है, यह प्रसिद्ध है, क्योंकि 'तस्यैषा दृष्टिः', 'तस्यैषा श्रुतिः' (यह उसकी दृष्टि है यह उसकी श्रुति है)

रत्नप्रभा

वयवस्याऽविशेषेऽपि दिवः परस्ताद् देदीप्यमानब्रह्मावयवकल्पना भागिनी युक्ता न तु इति अन्वयः । अप्रामाणिकगौरवापातात् इति भावः । ततः किं तत्राऽऽह— सारूप्येति । तथा एकत्वसाम्याद् भूरिति व्याहृतौ प्रजापतेः शिरोदृष्टिः-श्रुता, तथा जाठराग्नौ अब्रह्मत्वं घोषादिश्रुत्या प्रसिद्धमिति जडज्योतिष्यं साम्यम् इत्यर्थः । यद् देहस्पर्शनेन औप्यज्ञानं प्रसिद्धं सा एषा तस्य जाठराग्नेः दृष्टिः,

रत्नप्रभाका अनुवाद

तात्पर्य है । तब ध्यानके लिए ब्रह्मके भी प्रदेशकी कल्पना करो, तो कल्पना नहीं हो सकती है, ऐसा कहते हैं—“न तु” इत्यादिये । प्रदेशरहित—अवयवशून्य । पुत्रकेसे पर अति प्रकाशमान ब्रह्मकी अवयव कल्पना करना ठीक नहीं है ऐसा अन्वय है । आशय यह कि ऐसी कल्पना करनेसे गौरव होगा और उस गौरवको स्वीकार करनेमें कोई प्रमाण नहीं है । पर ज्योतिका अध्यास मानें तो उसमें क्या होगा ? इसका उत्तर देते हैं—“सारूप्य” इत्यादिये । जैसे एकस्वरूप सादृश्यमें 'भूः' हम व्याहृतिमें प्रजापतिके शिरकी दृष्टि कही गई है, वैधे जाठराग्नि ब्रह्म नहीं है यह बात घोष आदि धुतिसे सिद्ध है, इसलिए जड ज्योतिष्य सादृश्य कदना ब्याहिए देहको स्पर्श करनेसे उष्णताका जो शान

भाष्य

(छा० ३।१२।६) इत्यनेन मन्त्रेण । तत्र यच्चतुष्पदो ब्रह्मणस्त्रिपादमृतं
धुसम्बन्धिरूपं निर्दिष्टं तदेवेह धुसम्बन्धात् निर्दिष्टमिति प्रत्यभिज्ञायते । तत्
परित्यज्य प्राकृतं ज्योतिः कल्पयतः प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रिये प्रसज्ये-
भाष्यका अनुवाद

पाद अमृत दिवमें हैं) इस मन्त्रसे चतुष्पाद् ब्रह्मका निर्देश है । उसमें चार
पादवाले ब्रह्मके जो तीन पाद अमृत धुसंबन्धी निर्दिष्ट हैं, धुलोकके
संबन्धसे वे ही यहां निर्दिष्ट हैं, ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है । उसका परि-
त्याग करके प्राकृत ज्योतिकी कल्पना करनेवाला प्रकृतकी हानि और अप्रकृतकी

रत्नप्रभा

सर्वः प्रपञ्चः अस्य गायत्र्यनुगतस्य ब्रह्मणो महिमा विभूतिः, पुरुषः तु पूर्णब्रह्मरूपः,
ततः प्रपञ्चात् ज्यायान् अधिकः । आधिक्यमेव आह—पाद इति । सर्वं
जगत् एकः पादः—अंशः, “विष्टभ्याऽहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्”
(भ० गी० १०।४२) इति स्मृतेः । अस्य पुरुषस्य दिवि स्वप्रकाशस्वरूपे
त्रिपात् अमृतरूपम् अस्ति, दिवि सूर्यमण्डले वा ध्यानार्थम् अस्ति, कल्पितात्
जगतो ब्रह्मस्वरूपम् अनन्तम् अस्ति इत्यर्थः । यथा लोके पादात् पादत्रयम्
अधिकम्, तथेदम् अधिकम् इति बोधनार्थं त्रिपादमृतम् इति उक्तम्, न त्रिपात्त्वं
विवक्षितम् इति मन्तव्यम् । “यदतः परः” इति यच्छब्दस्य प्रसिद्धार्थवाचित्वात्
पूर्ववाक्यप्रसिद्धं ब्रह्म ब्राह्मम् इत्याह—तत्रेति । ननु “यदोमेयोऽष्टाकपालः”
इत्यत्र यत्पदस्य अप्रकृतार्थकत्वं दृष्टम् इत्यत्र आह—तत्परित्यज्येति । तत्र

रत्नप्रभाका अनुवाद

अर्थात् सारा प्रपञ्च महिमा—विभूति है । पुरुष तो पूर्ण ब्रह्मरूप है, प्रपञ्चसे महान् है ।
“पाद” इत्यादिसे आधिक्यको ही कहते हैं । सारा जगत् एक पाद अर्थात् अंश है, क्योंकि
“विष्टभ्याहमिदं” (मैं इस सारे जगत्को एक अंशसे व्याप्त करके स्थित हूँ) ऐसी स्मृति है ।
उस पुरुषके स्वप्रकाश स्वरूपमें त्रिपाद अमृतरूप है अथवा दिव् अर्थात् सूर्यमण्डलमें
ध्यानके लिए है । तात्पर्य यह है कि ब्रह्मस्वरूप कल्पित जगत्से अनन्त है । जैसे लोकमें
एक पाद (अंश) से तीन पाद (अंश) अधिक होते हैं, वैसे ही यह अधिक है, ऐसा बोध
करानेके लिए तीन पाद अमृत हैं ऐसा कहा है । वस्तुतः तीन पादोंकी विवक्षा नहीं है,
ऐसा समझना चाहिए । “यदतः परः” इसमें ‘यद्’ शब्द प्रसिद्ध अर्थका अभिधान करता है
अतः पूर्व वाक्यमें प्रसिद्ध ब्रह्मका ग्रहण करना—चाहिए, ऐसा कहते हैं—“तत्र” इत्यादिसे ।
कोई शङ्का करे कि ‘यदोमेयोऽ’ यहाँ पर देखा गया है कि ‘यद्’ पद प्रस्तुत अर्थको नहीं

भाष्य

कथंचित् पूर्वस्मिन् वाक्ये ब्रह्म निर्दिष्टं स्यादेवमपि न तस्येह प्रत्यभिज्ञान-
मस्ति, तत्र हि 'त्रिपादस्यामृतं दिवि' (३।१२।१, ६) इति द्यौरधिकरण-
त्वेन ध्रूयते, अत्र पुनः 'परो दियो ज्योतिः' इति द्यौर्मर्यादात्वेन ।
तस्मात् प्राकृतं ज्योतिरिह ब्राह्मम् ।

इत्येवं प्राप्ते द्रूमः—ज्योतिरिह ब्रह्म ब्राह्मम् । कुतः ? चरणामिधानात्,
पादाभिधानादित्यर्थः । पूर्वस्मिन् हि वाक्ये चतुष्पाद् ब्रह्म निर्दिष्टम्—
तावानस्य महिमा ततो ज्यायाश्च पूरुषः ।

पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥'

भाष्यका अनुवाद

वाक्यमें किसी प्रकारसे ब्रह्म निर्दिष्ट है ऐसा यदि मान भी लिया जाय तो
भी उसका यहां प्रत्यभिज्ञान नहीं होता, क्योंकि उसमें 'त्रिपादस्यां' (इसके तीन
पाद अमृत शुलोकमें हैं) इस प्रकार शुलोक आधाररूप कहा गया है ।
और यहां तो 'परो दियो' (ज्योति शुलोकसे पर है) इसमें शुलोक मर्यादा-
रूपसे सुना जाता है । इस कारण साधारण ज्योतिका यहां ग्रहण करना चाहिए ।

सिद्धान्ती—ऐसा पूर्वपक्ष होनेपर हम कहते हैं—इस श्रुतिमें 'ज्योतिः'
पदसे ब्रह्मका ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि चरणका अभिधान है अर्थात्
पादका अभिधान है । पूर्ववाक्यमें 'तावानस्य महिमा ततो' (उतनी इसकी
महिमा है, इससे पुरुष बड़ा है, उसका एक पाद सब भूत हैं और तीन

रत्नप्रभा

“दिवि” “दिवः” इति विभक्तिभेदात् न प्रत्यभिज्ञा इत्यर्थः । प्रकृतेः जातं
प्राकृतम्, कार्यमित्यर्थः । आचारं निरस्यति—पादेति । “गायत्री वा इदं सर्वं
भूतम्, वाग्वै गायत्री, येयं पृथिवी, यदिदम् शरीरम्, अस्मिन् पुरुषे हृदयम्,
इमे प्राणाः” (छा० ३।१२।१, २, ३) इति भूतवाक्पृथिवीशरीरहृदयप्राणारिभिका
पङ्क्तिषु पङ्क्तिः अक्षरैः चतुष्पदा गायत्रीति । यदुक्तं तावान् तत्परिमाणः

रत्नप्रभाका अनुवाद

विभक्तिके भेदसे ब्रह्मकी प्रत्यभिज्ञा नहीं होती है, ऐसा अर्थ है । प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ
प्राकृत—कार्य कहलाता है । कोई चरणसे आचार न समझ ले, अतः उसके निवारणके
लिए 'पाद' कहते हैं । 'गायत्री वा इदं', 'वाग्वै', 'येयं', 'यदिदं', 'यदास्मिन्
पुरुषे', 'इमे' इन श्रुतियोंसे कहते हैं कि भूत, वाक्, पृथिवी, शरीर, हृदय और प्राण रूपसे
छः प्रकारकी छ. अक्षरोंसे युक्त चार पादवाली गायत्री है, गायत्रीमें अनुगत ब्रह्मकी उतनी

भाष्य

कत्वात् दीप्यमानकार्यज्योतिरूपलक्षिते ब्रह्मण्यपि प्रयोगसम्भवात् । 'येन सूर्यस्तपति तेजसेद्भः' (तै० ब्रा० ३।१२।९।७) इति च मन्त्रवर्णात् । यद्वा, नायं ज्योतिःशब्दश्चर्तुर्वृत्तेरेवानुग्राहके तेजसि वर्तते, अन्यत्रापि प्रयोगदर्शनात्—'वाचैवायं ज्योतिपास्ते' (घृ० ४।३।५), 'मनो ज्योतिर्जुपताम्' (तै० १।६।३।३) इति च । तस्माद्यद्यत्कस्यचिदवभासकं तत्तज्ज्योतिः-

भाष्यका अनुवाद

प्रतिपादन नहीं करते । प्रकाशमान कार्यज्योतिसे उपलक्षित ब्रह्ममें भी उन शब्दोंका प्रयोग हो सकता है । इसमें 'येन सूर्य०' (जिस तेजसे दीप्त सूर्य तपता है) यह श्रुति प्रमाण है । अथवा यह ज्योतिःशब्द नेत्रव्यापारके अनु-
ग्राहक तेजमें रूढ़ नहीं है, क्योंकि दूसरे अर्थोंमें भी ज्योतिःशब्दका प्रयोग देखा जाता है, जैसे कि 'वाचैवाऽयं०' (वाणीरूप ज्योतिसे ही पुरुष व्यापार करता है) और 'मनो ज्योति०' (घृत पीनेवालोंका मन प्रकाशक होता है) । इसलिए जो जो किसी वस्तुके प्रकाशक हैं उनका ज्योतिःशब्दसे

रत्नप्रभा

पेक्षयत्पदश्रुत्या द्युसम्बन्धभूतपादत्वादिलिङ्गैश्च इत्यर्थः । अतः प्रकरणात् ज्योतिः-
श्रुतिबाधो न युक्त इति निरस्तम् । अविशेषकत्वादिति । ब्रह्मव्यावर्तकत्वाभावात्
इत्यर्थः । येन तेजसा चैतन्येन इद्भः प्रकाशितः सूर्यः तपति प्रकाशयति तं
बृहन्तम् अवेदवित् न मनुते इत्यर्थः । ज्योतिःशब्दस्य कार्यज्योतिष्येव
शक्तिः इति अह्गीकृत्य कारणब्रह्मलक्षकरत्नम् उक्त्वा ब्रह्मणि अपि शक्तिम्
आह—यद्वेति । गाढान्धकारे वाचैव ज्योतिपा लोक आसनादिव्यवहारं
करोति इत्यर्थः । आज्यं जुपतां पिबताम् मनो ज्योतिः प्रकाशकं भवति इति

रत्नप्रभाका अनुवाद

ही है । "प्रकरणात्"—प्रस्तुतकी अपेक्षा करनेवाले 'यत्' पदकी श्रुतिसे और श्लोकसंबन्ध
एवं भूतपादत्व आदि लिङ्गोंसे भी ऐसा अर्थ है । इससे 'प्रकरणसे ज्योतिःश्रुतिकी बाध होना
ठीक नहीं है' इस कथनका निराकरण हो गया । "अविशेषकत्वात्"—ब्रह्मके व्यावर्तक न
होनेके कारण । जिस चैतन्यसे प्रकाशित सूर्य सब जगत्को प्रकाशित करता है, उस महान्
चैतन्यको वेदके अर्थको न जाननेवाला—अज्ञानी पुरुष नहीं जान सकता । ज्योतिःशब्दका
मुख्य अर्थ कार्यज्योति है, ऐसा अङ्गीकार करके कारण—ब्रह्म उसका लक्ष्यार्थ है ऐसा कहा ।
अब 'ज्योतिः' शब्दकी ब्रह्ममें भी शक्ति है—ब्रह्म भी उसका मुख्यार्थ है ऐसा कहते हैं—
"यद्वा" इत्यादिसे । अब सूर्य आदि अस्त हो जाते हैं और जगत् अन्धकारसे व्याप्त हो जाता

भाष्य

याताम् । न केवलं पूर्ववाक्याज्ज्योतिर्वाक्य एव ब्रह्मानुवृत्तिः, परस्यामपि शाण्डिल्यविद्यायामनुवर्तिष्यते ब्रह्म । तस्मादिह ज्योतिरिति ब्रह्म प्रति पत्तव्यम् । यत्तुक्तम्—‘ज्योतिर्दीप्यते’ इति चैतौ शब्दौ कार्ये ज्योतिषि प्रसिद्धाविति । नायं दोषः, प्रकरणाद्ब्रह्मावगमे सत्यनयोः शब्दयोरविशेष-

भाष्यका अनुवाद

प्रक्रियारूप दोषका भागी होगा । और ज्योतिर्वाक्यमे ही ब्रह्मकी अनुवृत्ति हो, ऐसा नहीं है, किन्तु आगे कही जानेवाली शाण्डिल्यविद्यामे भी ब्रह्मकी अनुवृत्ति है । इस कारण यहा ज्योति ब्रह्म ही है ऐसा समझना चाहिए । ‘ज्योति’ और ‘दीप्यते’ ये शब्द कार्यरूप ज्योतिमे प्रसिद्ध हैं, ऐसा जो कहा है, यह दोष नहीं है । प्रकरणसे ब्रह्मका ज्ञान होनेपर ये दोनों शब्द अन्य अर्थका

रत्नप्रभा

यागस्याऽन्यत प्रसिद्धे अभावेन अपूर्स्वात् अगत्या यदोऽप्रसिद्धार्थत्वम् आश्रितम्, इह तु पूर्ववाक्यप्रसिद्धस्य ब्रह्मणो घुसम्बन्धेन प्रत्यभिज्ञातस्य यदर्थत्वनिश्चयात् यत्पदैकार्थकज्योति पदस्याऽपि स एव अर्थ इत्यर्थ । सन्दशन्यायात् अपि एवम् इत्याह—न केवलमिति । “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” (छा० ३।१।४।१) इत्युत्तरत्र ब्रह्मानुवृत्तेर्मध्यस्थ ज्योतिर्वाक्य ब्रह्मपरम् इत्यर्थ । प्रकरणादिति । प्रकृता-

रत्नप्रभाका अनुवाद

यतलाता है, इस पर “तत्परिख्यज्य” इत्यादिसे कहते हैं । वहापर यागके किसी तरह प्रसिद्ध न होनेके कारण वह अपूर्व है, इसलिए दूसरा गति न होनेसे ‘यत्’ पदका अप्रसिद्ध अर्थ स्वीकार किया है । यहा तो युक्तिकके सम्बन्धसे पूर्व वाक्यमें प्रसिद्ध ब्रह्मकी प्रत्यभिज्ञा होती है, अतः वह ब्रह्म ‘यत्’ पदका अर्थ है ऐसा निश्चय होता है, इस कारण ‘यत्’ पदके अर्थका ही बोध करानेवाते ‘ज्योति’ पदका भी ब्रह्म ही अर्थ है । सन्दशन्यायसे भी वही अर्थ होता है ऐसा कहते हैं—‘न केवलम्’ इत्यादिसे । आशय यह कि ‘सर्वं खल्विदं’ इस उत्तर वाक्यमें ब्रह्मकी अनुवृत्ति है, इसलिए मध्यमें स्थित ज्योतिर्वाक्य भी ब्रह्मविषयक

(१) सदश-सदसी । सदसीसे किसी वस्तुका लेनेमें दा भागोंका ग्रहण हाता है, मध्य भागका सडसासे सबंध न होने पर भी मध्यभाग अन्य भागोंके मध्यमें आ जाता है, इसी प्रकार किसी पदार्थके पूर्वोत्तर भागका ग्रहण करनेसे मध्य पदार्थके ग्रहणकी भी जहा विवक्षा होती है, वहा इस (सदश)-वाक्यकी प्रवृत्ति होती है । जैसे पूर्वमीमांसामें दर्शप्रकरणमें प्रयाजरूप दर्शाहके अनुवाद स्वयंमें जुहुपात्रमें घृतानियनरूप प्रयाजाहका पहल विधान है, उसके बाद अभिक्रमण होमका विधान है, अनन्तर प्रयाजके अय अहोंका विधान है । वहा अभिक्रमणके पहले और अनन्तर प्रयाजके अहका विधान होनेक कारण उन अहोंके मध्यमें पठित होने के कारण अभिक्रमण भी प्रयाजाह ही समझा जाता है ।

भाष्य

कत्वात् दीप्यमानकार्यज्योतिरुपलक्षिते ब्रह्मण्यपि प्रयोगसम्भवात् । 'येन सूर्यस्तपति तेजसेद्भः' (तै० ब्रा० ३।१२।१७) इति च मन्त्रवर्णात् । यद्वा, नार्य ज्योतिःशब्दश्चक्षुर्वृत्तरेवानुग्राहके तेजसि वर्तते, अन्यत्रापि प्रयोगदर्शनात्—'वाचैवायं ज्योतिपास्ते' (घृ० ४।३।५), 'मनो ज्योतिर्जुपताम्' (तै० १।६।३।३) इति च । तस्माद्यद्यत्कस्यचिदवभासकं तत्तज्ज्योतिः-

भाष्यका अनुवाद

प्रतिपादन नहीं करते । प्रकाशमान कार्यज्योतिसे उपलक्षित ब्रह्ममें भी उन शब्दोंका प्रयोग हो सकता है । इसमें 'येन सूर्ये' (जिस तेजसे दीप्त सूर्य तपता है) यह श्रुति प्रमाण है । अथवा यह ज्योतिःशब्द नेत्रव्यापारके अनु-प्राहक तेजमें रूढ़ नहीं है, क्योंकि दूसरे अर्थोंमें भी ज्योतिःशब्दका प्रयोग देखा जाता है, जैसे कि 'वाचैवायं' (वाणीरूप ज्योतिसे ही पुरुष व्यापार करता है) और 'मनो ज्योतिः' (घृत पीनेवालोंका मन प्रकाशक होता है) । इसलिए जो जो किसी वस्तुके प्रकाशक हैं उनका ज्योतिःशब्दसे

रत्नप्रभा

पेक्षयत्पदश्रुत्या द्युसम्बन्धभूतपादत्वादिलिङ्गैश्च इत्यर्थः । अतः प्रकरणात् ज्योतिः-श्रुतिबाधो न युक्त इति निरस्तम् । अविशेषकत्वादिति । ब्रह्मव्यावर्तकत्वाभावात् इत्यर्थः । येन तेजसा चैतन्येन इद्भः प्रकाशितः सूर्यः तपति प्रकाशयति तं बृहन्तम् अवेदवित् न मनुते इत्यर्थः । ज्योतिःशब्दस्य कार्यज्योतिष्येव शक्तिः इति अङ्गीकृत्य कारणब्रह्मलक्षकत्वम् उक्त्वा ब्रह्मणि अपि शक्तिम् आह—यद्वेति । गाढान्धकारे वाचैव ज्योतिपा लोक आसनादिव्यवहारं करोति इत्यर्थः । आज्यं जुपतां पिबताम् मनो ज्योतिः प्रकाशकं भवति इति

रत्नप्रभाका अनुवाद

ही है । "प्रकरणात्"—प्रस्तुतकी अपेक्षा करनेवाले 'यत्' पदकी श्रुतिसे और युलोकसंबन्ध एवं भूतपादत्व आदि लिङ्गोंसे भी ऐसा अर्थ है । इससे 'प्रकरणसे ज्योतिःश्रुतिका बाध होना ठीक नहीं है' इस कथनका निराकरण हो गया । "अविशेषकत्वात्"—ब्रह्मके व्यावर्तक न होनेके कारण । जिम चैतन्यसे प्रकाशित सूर्य सय जगत्को प्रकाशित करता है, उस महान् चैतन्यकी वेदके अर्थसे न जाननेवाला—अज्ञानी पुरुष नहीं जान सकता । ज्योतिःशब्दका मुख्य अर्थ कार्यज्योति है, ऐसा अङ्गीकार करके कारण—ब्रह्म उसका लक्ष्यार्थ है ऐसा कहा । अब 'ज्योतिः' शब्दकी ब्रह्ममें भी शक्ति है—ब्रह्म भी उसका मुख्यार्थ है ऐसा कहते हैं—'यद्वा' इत्यादिसे । जब सूर्य आदि अस्त हो जाते हैं और जगत् अन्धकारसे व्याप्त हो जाता

भाष्य

शब्देनाऽभिधीयते । ' तथा सति ब्रह्मणोऽपि चैतन्यरूपस्य नमस्तजगदव-
भासहेतुत्वादुपपन्नो ज्योतिःशब्दः । 'तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य
भामा सर्वमिदं विभानि' (कौ० २।५।१५) 'तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्हो-
पासतेऽमृतम्' (वृ० ४।४।१६) इत्यादिश्रुतिभ्यश्च । यदप्युक्तम्—द्युमर्यादत्वं
सर्वगतस्य ब्रह्मणो नोपपद्यत इति । अत्रोच्यते—सर्वगतस्यापि ब्रह्मण
उपासनार्थः प्रदेशविशेषपरिग्रहो न विरुध्यते । ननूक्तम्—निष्प्रदेशस्य

भाष्यका अनुवाद

अभिधान होता है । ऐसा होनेसे चैतन्यरूप ब्रह्म जो समस्त जगत्के
प्रकाशका हेतु है, उसमें ज्योतिःशब्दका प्रयोग उचित है और इन दो श्रुति-
योंसे भी [युक्त है]—'तमेव भान्तमनुभाति सर्वं' (उसके प्रकाशमान होनेपर
ही सब प्रकाशित होते हैं, उसके प्रकाशसे यह सब प्रकाशित होता है)
और 'तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिः' (देवता उसकी ज्योतियोंकी ज्योतिरूपसे, आयुष-
रूपसे और अमृतरूपसे उपासना करते हैं) । और सर्वगत ब्रह्मको
शुलोक तक ही सीमित करना युक्त नहीं है, ऐसा जो पीछे कहा गया है,
उसके उत्तरमें कहते हैं—उपासनाके लिए सर्वगत ब्रह्ममें भी प्रदेश विशेषके
स्वीकार करनेमें कोई विरोध नहीं है । परन्तु कहा है कि निरवयव ब्रह्मके

रत्नप्रभा

आज्यस्तुतिः । यथा गच्छन्तम् अनुगच्छतः स्वस्याऽपि गतिरस्ति, तथा सर्वस्य
स्वनिष्ठं भानं स्यात् इत्यत आह—तस्य भासेति । तत् कालानवच्छिन्नं ब्रह्म सूर्या-
दिज्योतिषां साक्षिभूतम् आयुरमृतम् इति च देवा उपासते इत्यर्थः । योषि-
तोऽभित्ववद् द्युमर्यादत्वादिकं ध्यानार्थं कल्पितं ब्रह्मणो युक्तम् इत्याह—अत्रोच्यते
इत्यादिना । दिवः परम् अपि इत्यन्वयः । आरोप्यस्य ध्येयस्य आलम्बनस्य

रत्नप्रभाका अनुवाद

है, तब वाणीरूप ज्योतिसे ही ये लोक आसनादि व्यवहार करते हैं । धीका सेवन करनेवालेका
मन ज्योति—प्रकाश करनेवाला होता है, यह धीकी स्तुति है । जैसे चलते हुए मनुष्यके
पीछे चलनेवालेका अपना भी गमन होता है, वैसे ही सब पदार्थोंका प्रकाश भी अपना अपना
ही हो, इस पर कहते हैं—'तस्य भासा' इत्यादिसे । कालसे अपरिच्छिन्न ब्रह्म सूर्यादि
ज्योतियोंका साक्षिभूत, आयुष और अमृत है इस प्रकार देवता उपासना करते हैं । उपासनाके
निमित्त जैसे स्त्रीका अग्नि कहा है, वैसे शुलोक ब्रह्मकी मर्यादा है, ऐसी कल्पना ध्यानके लिए
है, यह युक्त ही है, ऐसा कहते हैं—'अत्रोच्यते' इत्यादिसे । 'परमपि दिवः कार्यम्' इसमें

भाष्य

ब्रह्मणः प्रदेशविशेषकल्पना नोपपद्यत इति । नायं दोषः । निम्नप्रदेशस्यापि ब्रह्मण उपाधिविशेषसम्बन्धात् प्रदेशविशेषकल्पनोपपत्तेः । तथाहि—आदित्ये चक्षुषि हृदये इति प्रदेशविशेषसम्बन्धीनि ब्रह्मण उपामनानि भ्रयन्ते । एतेन 'विश्वतः पृष्ठेषु' इत्याधारबहुत्वमुपपादितम् । यदप्येतदुक्तम्—औष्ण्य-घोपानुमिते कौक्षेये कार्ये ज्योतिष्यध्यस्यमानत्वात् परमपि दिवः कार्य-ज्योतिरेव इति । तदप्ययुक्तम्, परस्यापि ब्रह्मणो नामादिप्रतीकत्व-वत्कौक्षेयज्योतिप्रतीकत्वोपपत्तेः । 'दृष्टं च श्रुतं चेत्युपासीत' इति तु प्रतीकद्वारकं दृष्टत्वं श्रुतत्वं च भविष्यति । यदप्यल्पफलश्रवणान्न ब्रह्मेति । तदप्यनुपपन्नम् । नहीयते फलाय ब्रह्माश्रयणीयम्, इयते नेति नियम-भाष्यका अनुवाद

प्रदेशविशेषकी कल्पना करना ठीक नहीं है । यह दोष नहीं है । निरवयव ब्रह्ममें भी उपाधिके संबन्धसे प्रदेशविशेषकी कल्पना हो सकती है, क्योंकि आदित्यमें, नेत्रमें, हृदयमें, इस प्रकार प्रदेशविशेषमें ब्रह्मकी उपासनाएँ श्रुतिमें प्रतिपादित हैं । इससे 'विश्वतः पृष्ठेषु' (विश्व प्राणिवर्गसे ऊपर) ऐसे बहुतसे आधारोंकी उपपत्ति समझनी चाहिए । और ऐसा जो पूर्वमें कहा गया है कि उष्णता और शब्दसे अनुमित कुक्षिस्थ कार्यज्योतिमें आरोपित होनेके कारण छलोकसे पर ज्योति कार्यज्योति ही है, यह कथन भी युक्त नहीं है, क्योंकि नाम आदि प्रतीकोंके समान कुक्षिस्थ ज्योति भी परब्रह्म का प्रतीक हो सकती है । 'दृष्टं च श्रुतं' (दृष्ट है और श्रुत है इस प्रकार उपासना करनी चाहिए) ब्रह्म प्रतीकद्वारा देखा और सुना जा सकता है । अल्प फलकी श्रुतिसे ज्योति ब्रह्म नहीं है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, वह भी ठीक नहीं है; क्योंकि इतने फलके लिए ब्रह्मका आश्रय करना चाहिए और इतने फलके लिए ब्रह्मका आश्रयण नहीं करना चाहिए इस नियममें कोई

रत्नप्रभा

च सादृश्यनियमो नास्ति इत्याह—परस्यापीति । भविष्यति ब्रह्मज्योतिष इति शेषः । तं यथा यथा उपासते तथा तथा फलं भवति इति श्रुतेः इत्याह— नहीयते इति । ज्ञानफलवत् उपास्तिफलम् एकरूपं किं न स्यादत आह—यत्र रत्नप्रभाका अनुवाद

'दिव परमपि कार्य' ऐसा अन्वय है । जिस आलम्बन—आश्रयमें जिस उपास्य वस्तुका आरोप करते हैं, उन दोनोंका सादृश्य रहना चाहिए ऐसा नियम नहीं है) ऐसा कहते हैं— "परस्यापि" इत्यादिसे । 'भविष्यति' के बाद 'ब्रह्मज्योतिष' इतना शेष समझना चाहिए । अर्थात् जाठराग्निरूप प्रतीक द्वारा ब्रह्म दृष्ट और श्रुत हो सकता है । 'तं यथा यथा उपासते' (परमात्माकी जिस जिस प्रकारसे उपासना करता है, वैसा वैसा फल होता है, ऐसा श्रुति

भाष्य

हेतुरस्ति । यत्र हि निरस्तसर्वविशेषसम्बन्धं परं ब्रह्मात्मत्वेनोपदिश्यते, तत्रैकरूपमेव फलं मोक्ष इत्यवगम्यते । यत्र तु गुणविशेषसम्बन्धं प्रतीक-विशेषसम्बन्धं वा ब्रह्मोपदिश्यते, तत्र संसारगोचराण्येवोच्चावचानि फलानि दृश्यन्ते—‘अन्नादो वसुदानो विदन्ते वसु य एवं वेद’ (वृ० ४।४।२४) इत्याद्यासु श्रुतिषु । यद्यपि न स्ववाक्ये किञ्चिज्ज्योतिषो ब्रह्मलिङ्गमस्ति, तथापि पूर्वस्मिन्वाक्ये दृश्यमानं ग्रहीतव्यं भवति । तदुक्तं सूत्रकारेण—‘ज्योतिश्चरणाभिधानात्’ इति । कथं पुनर्वाक्यान्तरगतेन ब्रह्मसंनिधानेन

भाष्यका अनुवाद

हेतु नहीं है । वस्तुतः जहाँ सब विशेषोंके संबन्धसे रहित परब्रह्मका आत्मारूपसे उपदेश है, वहाँ एकरूप मोक्ष ही फल है, ऐसा समझा जाता है और जहाँ गुणविशेषके संबन्धसे अथवा प्रतीकविशेषके संबन्धसे ब्रह्मका उपदेश किया है, वहाँ नाना प्रकारके सांसारिक फल दिखाई देते हैं, जैसे कि ‘अन्नादो’ (यह आत्मा सब अन्नको खानेवाला, धन देनेवाला है, जो ऐसा समझता है, वह धन प्राप्त करता है) इत्यादि श्रुतियोंमें स्पष्ट है । यद्यपि स्ववाक्यमें ज्योतिका फल भी ब्रह्मलिङ्ग नहीं है, तो भी पूर्ववाक्यमें स्थित ब्रह्मलिङ्गका ग्रहण करना चाहिए, इसलिए सूत्रकार कहते हैं—“ज्योतिश्चरणाभिधानात् । परन्तु दूसरे वाक्यमें आए हुए ब्रह्मकी संनिधिसे ज्योतिः

रत्नप्रभा

हीति । ज्ञैकत्वाद् इत्यर्थः । ध्येयं तु नाना इत्याह—यत्र त्विति । ईश्वरो जीवरूपेण अन्नमत्ति इति अन्नादोऽन्नस्य आसमन्ताद् दाता वा । वसु हिरण्यं ददाति इति वसुदान इति गुणविशेषसम्बन्धं यो वेद स धनं विन्दते दीप्ताग्निश्च भवति । “नाम्नो वाग् उत्तमा मनो वा प्रतीकं वाचो भूयः” इति प्रतीकविशेष-ध्यानश्रुतिसंग्रहार्थम् आद्यपदम् । सन्निधेः श्रुतिः बलीयसी इति शङ्कते—कथं

रत्नप्रभाका अनुवाद

कहती है यह कहते हैं—“नहीयते” इत्यादिसे । ज्ञानके फलके समान उपासनाका फल एकरूप क्यों न हो, इसपर कहते हैं—“यत्र हि” इत्यादिसे । अर्थात् ज्ञेय वस्तुके एक होनेसे ज्ञानका फल एक है । ध्येय वस्तुएँ भिन्न भिन्न प्रकारकी हैं, ऐसा कहते हैं—“यत्र तु” इत्यादिसे । ईश्वर जीवरूपसे अन्न खाता है, अतः ‘अन्नाद्’ है अथवा सर्व प्रकारसे अन्नका दाता है, अतः ‘अन्नाद्’ है । वसु अर्थात् धन देता है, इसलिए वसुदान’ है । इस प्रकार जो गुणविशेषका संबन्ध जानता है, वह धन प्राप्त करता है और दीप्ताग्नि होता है । नामसे वाणी उत्तम है, मनरूप प्रतीक वाणीसे विशेष है, ऐसा प्रतीकविशेषका ध्यान दिखलने-

भाष्य

ज्योतिःश्रुतिः स्वविषयात् शक्या प्रचंयावयितुम् । नैप दोषः । 'यदतः परो दिवो ज्योतिः' इति प्रथमतरपठितेन यच्छब्देन सर्वनाम्ना द्युसम्बन्धात् प्रत्यभिज्ञायमाने पूर्ववाक्यनिर्दिष्टे ब्रह्मणि स्वसामर्थ्येन परामृष्टे सति अर्थात् ज्योतिःशब्दस्याऽपि ब्रह्मविषयत्वोपपत्तेः । तस्मादिह ज्योतिरिति ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम् ॥ २४ ॥

भाष्यका अनुवाद

श्रुति स्वविषयसे कैसे दूर की जा सकती है ? यह दोष नहीं है । 'यदतः परो दिवो ज्योतिः' (जो उस द्युलोकसे पर ज्योति है) इसमें सबसे पहले पदे हुए सर्वनाम 'यत्' शब्द द्वारा अपनी सामर्थ्यसे ब्रह्मका परामर्श होनेसे और द्युसंबन्धसे पूर्ववाक्यमें निर्दिष्ट ब्रह्मका प्रत्यभिज्ञान होनेसे ज्योतिःशब्द भी तात्पर्यसे ब्रह्मविषयक होता है । इस कारण यहां ज्योतिसे ब्रह्मका ही ग्रहण करना चाहिए ॥ २४ ॥

रत्नप्रभा

पुनरिति । अथ प्रथमश्रुत्यनुसारेण चरमश्रुतिः नीयते इत्याह—नैप इति । सर्वनाम्ना स्वसामर्थ्येन स्वस्य सर्वनाम्नः सामर्थ्यं सन्निहितवाचित्वं तद्बलेन परामृष्टे सति इति योजना । अर्थात् यत्पदसामानाधिकरण्यात् इत्यर्थः ॥ २४ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

वाली श्रुतिके संग्रहके लिए 'आथ' पद है । संनिविशे श्रुति विशेष चलवती है, ऐसी शङ्का करते हैं—“कथं पुन ” इत्यादिसे । प्रथम श्रुतिके अनुसार पिछली श्रुतिका अर्थ करना चाहिये ऐसा कहते हैं—“नैप” इत्यादिसे । सर्वनाम द्वारा स्व सामर्थ्यमे अर्थात् सर्वनामकी जो सामर्थ्य—समीपस्थको कहना है, उराके बलसे परामर्श होनेपर ऐसी योजना है । अर्थात्—'यत्' पदका सामानाधिकरण्य होनेसे ॥ २४ ॥



छन्दोऽभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोऽर्पणनिगदा- तथा हि दर्शनम् ॥ २५ ॥

पदच्छेद—छन्दोऽभिधानात्, न, इति, चेत्, न, तथा, चेतोऽर्पणनिगदात्, तथा, हि, दर्शनम् ।

पदार्थोक्ति—छन्दोऽभिधानात्—‘गायत्री वा इदं सर्वं भूतम्’ इति श्रुतौ गायत्र्याख्यच्छन्दसः उपक्रान्तत्वात् [पादत्रयवत्त्वम् गायत्र्या एव उक्तम्], न-न तु ब्रह्मणः, इति चेत् न, तथा—गायत्रीछन्दोद्वारा तदनुगते ब्रह्मणि, चेतोऽर्पण-निगदात्—चित्तप्रक्षेपस्य कथनात् [पादत्रयवत्त्वं ब्रह्मण एवोक्तम्] । तथा हि दर्शनम्—अन्यत्राऽपि ‘एतं ह्येव बह्वृचा महत्सुकथे मीमांसन्ते’ इत्यादौ विकारद्वारेण ब्रह्मणः उपासनं दृष्टम् ।

भाषार्थ—‘गायत्री वा०’ इस श्रुतिमें गायत्रीछन्दका उपक्रम है, अतः गायत्री ही त्रिपाद कही गई है, ब्रह्म त्रिपाद नहीं है ऐसा कहना संगत नहीं है, क्योंकि श्रुतिमें गायत्रीछन्दद्वारा गायत्रीमें अनुगत ब्रह्ममें चित्तकी एकाग्रता करनी चाहिए^१। ऐसा उपदेश किया गया है, अतः ब्रह्म ही त्रिपाद कहा गया है । और ‘एतं ह्येव०’ (ऋग्वेदी होतृगण उक्थशस्त्रद्वारा उस परमात्माकी उपासना करते हैं) इत्यादि स्थलोंमें भी विकारद्वारा ही ब्रह्मकी उपासना देखी गई है ।

भाष्य

अथ यदुक्तम्—पूर्वस्मिन्नपि वाक्ये न ब्रह्माऽभिहितमस्ति, ‘गायत्री वा इदं सर्वं भूतं यदिदं किञ्च’ (छा० २।१२।१) इति गायत्र्याख्यस्य छन्दसोऽभिहितत्वात् इति । तत्परिहर्तव्यम् । कथं पुनश्छन्दोभिधानान्न ब्रह्माऽभिहितमिति शक्यते वक्तुम्, यावता ‘तावानस्य महिमा’ इत्ये-

भाष्यका अनुवाद

पूर्वपक्षीने यह जो कहा था कि पूर्ववाक्यमें भी ब्रह्मका अभिधान नहीं है, क्योंकि ‘गायत्री वा इदं सर्वं०’ (यह सब प्राणिसमूह और यह जो कुछ है, वह सब गायत्री ही है) इसमें गायत्री नामके छन्दका अभिधान है, उसका समाधान करना चाहिए । जब कि ‘तावानस्य०’ (इतनी उसकी महिमा है)

रत्नप्रभा

छन्दोऽभिधानाद् ब्रह्म प्रकृतं नास्ति इति शङ्कामेकदेशी दूषयति—कथमिति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

पूर्ववाक्यमें छन्द कहा गया है इससे—छन्दके अभिधानसे ब्रह्म प्रकृत नहीं है, एकदेशी इव

भाष्य

तस्यामृचि चतुष्पाद् ब्रह्म दर्शितम् । नैतदस्ति । 'गायत्री वा इदं सर्वम्' इति गायत्रीमुपक्रम्य तामेव भूतपृथिवीशरीरहृदयवाक्प्राणप्रभेदैर्व्याख्याय 'सैषा चतुष्पदा पञ्चविधा गायत्री तदेतद्व्याख्यानं तावानस्य महिमा' इति तस्यामेव व्याख्यातरूपायां गायत्र्यामुदाहृतो मन्त्रः कथमकस्माद्ब्रह्म चतुष्पादभिदध्यात् । योऽपि तत्र 'यद्वै तद्ब्रह्म' (छा० ३।१।५, ६) इति ब्रह्मशब्दः सोऽपि छन्दसः प्रकृतत्वात् छन्दोविषय एव । 'य एतामेवं ब्रह्मोपनिषदं वेद' (छा० ३।१।१३) इत्यत्र हि वेदोपनिषदमिति व्याचक्षते, तस्मात् छन्दोभिधानान्न ब्रह्मणः प्रकृतत्वमिति चेत् ।

भाष्यका अनुवाद

इस ऋचामें चतुष्पात् ब्रह्मका वर्णन किया गया है, तब पूर्वोक्त वाक्यमें छन्दका कथन होनेसे ब्रह्म नहीं कहा गया है यह कैसे कह सकते हैं ।

पूर्वपक्षी—यह प्रमाण ठीक नहीं है, क्योंकि 'गायत्री वा०' (यह सब गायत्री ही है) इस प्रकार गायत्रीका उपक्रम करके उसका ही भूत, पृथिवी, शरीर, हृदय, वाणी और प्राणके भेदसे व्याख्यान करके उसी व्याख्यात गायत्रीके विषयमें 'सैषा चतुष्पदा पञ्चविधा गायत्री०' (यह चार पाद-वाली, छ. प्रकारकी गायत्री है, यह इस ऋचासे कहा गया है कि उसकी इतनी महिमा है) यह मन्त्र उदाहरणरूपसे दिया गया है । यह मंत्र अकस्मात्-विना किसी कारणके चतुष्पाद् ब्रह्मका किस प्रकार अभिधान करेगा । उसी प्रकरणमें 'यद्वै तद् ब्रह्म' श्रुतिमें जो ब्रह्मशब्द है, वह भी छन्दके ही प्रकरणमें पठित होनेके कारण छन्दका ही वाचक है, क्योंकि 'य एतामेवं०' (जो इस ब्रह्मोपनिषद्को—वेदरहस्यको इस प्रकार जानता है) इस श्रुतिमें ब्रह्मोपनिषद्का व्याख्यान वेदोपनिषद् है, अतः छन्दके अभिधानसे ब्रह्म प्रकृत नहीं है ।

रत्नप्रभा

शङ्का साधयति—नैतदित्यादिना । चतुष्पदत्वादिकं पूर्वमेव व्याख्यातम् । य एतामेवमिति । वेदरहस्यभूता मधुविद्याम् एवम् उक्तरीत्या य कश्चिद् वेद, तस्य उदयास्तमयरहितब्रह्मप्राप्ति भवति इत्यर्थ । तथा च वेदत्वाद् गायत्र्या

रत्नप्रभाका अनुवाद

शङ्काको दूरित करता है—“कथम्” इत्यादिसे । शङ्काको सिद्ध करता है—“नैतत्” इत्यादिसे । गायत्री चतुष्पदा है इत्यादिका पहले ही व्याख्यान किया गया है । “य एतामेव” इत्यादि । वेदरहस्यभूत मधुविद्याको पूर्वोक्त प्रकारसे जो जानता है, उसको जन्म और लय रहित ब्रह्मस्वरूपकी प्राप्ति होती है । अतः वेद होनेके कारण गायत्रीमें ब्रह्मशब्दका प्रयोग ठीक है अर्थात् गायत्रीको

भाष्य

नैप दोषः । 'तथा चेतोर्षणनिगदात्' तथा गायत्र्याख्यच्छन्दोद्वारेण तदनुगते ब्रह्मणि चेतसोर्षणं चित्तसमाधानमनेन ब्राह्मणवाक्येन निगद्यते—'गायत्री वा इदं सर्वम्' इति । नह्यक्षरसंनिवेशमात्राया गायत्र्याः सर्वात्मकत्वं सम्भवति । तस्माद् यद् गायत्र्याख्यविकारेऽनुगतं जगत्कारणं ब्रह्म तदिह सर्वमित्युच्यते । यथा 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' (छा० ३।१।१) इति । कार्यं च कारणादव्यतिरिक्तमिति वक्ष्यामः—'तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः' (ब्र० सू० २।१।१४) इत्यत्र । तथाऽन्यत्राऽपि विकारद्वारेण ब्रह्मण उपासनं दृश्यते—'एतं ह्येव बह्वृचा महत्सुकथे मीमांसन्त एतमग्नावध्वर्यव

भाष्यका अनुवाद

सिद्धान्ती—नहीं, यह दोष नहीं है, क्योंकि गायत्री नामके छन्द द्वारा उसमें अनुगत ब्रह्ममें चित्तकी एकाग्रता 'गायत्री वा०' (यह सब गायत्री ही है) इस ब्राह्मणवाक्यसे कही गई है । वस्तुतः अक्षर-रचनारूप गायत्री सर्वात्मक नहीं हो सकती, इसलिए गायत्रीनामक विकारमें अनुगत जगत्का कारण जो ब्रह्म है, वही 'सर्वं' शब्दसे कहा जाता है, जैसे कि 'सर्वं खल्विदं०' (यह सब ब्रह्म ही है) इसमें है । और कार्य कारणसे अभिन्न है, यह 'तदनन्यत्व०' इस सूत्रमें कहेंगे । इसी प्रकार 'एतं ह्येव बह्वृचा महत्सुकथे०' (इस परमात्माकी ही ऋग्वेदी महान् शस्त्रमें उपासना करते हैं, इसीकी यजुर्वेदी

रत्नप्रभा

ब्रह्मशब्दो युक्त इति भावः । गायत्रीशब्देन तदुपादानत्वेन अनुगतब्रह्मलक्षणायां बीजमनुपपत्तिमाह—नह्यक्षरेति । ब्रह्मणोऽपि कथं सर्वात्मकत्वम्, तत्राह—कार्यञ्चेति । न च गायत्र्या ध्यानार्थं सर्वात्मकत्वारोप इति वाच्यम् । स्वतः सर्वात्मनो ध्यानसम्भवेन असदारोपायोगादिति भावः । 'तथाहि दर्शनम्' इति सूत्रशेषं व्याचष्टे—तथान्यत्रेति । दृश्यते इति दर्शनं दृष्टमित्यर्थः । एतं परमात्मानं

रत्नप्रभाका अनुवाद

ब्रह्म कहना ठीक है । गायत्रीका उपादान होनेके कारण उसमें अनुगत ब्रह्ममें गायत्रीशब्दकी लक्षणा करनी चाहिए, इसमें अनुपपत्तिरूप कारण बतलाते हैं—“नह्यक्षर” इत्यादिसे । ब्रह्म भी कैसे सर्वात्मक है ? इसपर बहते हैं—“कार्यं च” इत्यादिसे । ध्यानके निमित्त गायत्रीमें सर्वात्मकताका आरोप किया है, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि जो स्वतः सर्वात्मक है, उसका ध्यान हो सकता है, तो अस्मत्का आरोप करना ठीक नहीं है । 'तथा हि दर्शनम्' इस सूत्रके शेष अशक्य व्याख्यान करते हैं—“तथान्यत्र” इत्यादिसे ।

भाष्य

एतं महाव्रते छन्दोगाः' (ऐ० आ० ३।२।३।१२) इति । तस्मादस्ति छन्दोभिधानेऽपि पूर्वस्मिन् वाक्ये चतुष्पात् ब्रह्म निर्दिष्टम् । तदेव ज्योतिर्वाक्येऽपि परामृश्यते उपासनान्तरविधानाय ।

अपर आह—साक्षादेव गायत्रीशब्देन ब्रह्म प्रतिपाद्यते, संख्यासामा-
भाष्यका अनुवाद

अग्निमें उपासना करते हैं, इसीकी ही सामवेदी महाव्रतनामक क्रतुमें उपासना करते हैं) इत्यादि दूसरे स्थलोंमें भी विकार द्वारा ब्रह्मकी उपासना देखी जाती है । इससे सिद्ध हुआ कि पूर्ववाक्यमें छन्दका अभिधान होनेपर भी उसके द्वारा चतुष्पात् ब्रह्म ही निर्दिष्ट है । उसीका ज्योतिर्वाक्यमें दूसरी उपासनाका विधान करनेके लिए परामर्श होता है ।

दूसरे कहते हैं कि गायत्री शब्दसे साक्षात् ही ब्रह्मका प्रतिपादन होता है, क्योंकि संख्याकी समानता है । जैसे गायत्री छः अक्षरवाले चार पादोंसे युक्त

रत्नप्रभा

बह्वृचा ऋग्वेदिनो महति उक्थे शस्त्रे तदनुगतमुपासते । एतमेव अग्निरहस्ये "तमेतमग्निरित्यध्वर्यव उपासते" इति श्रुतेः यजुर्वेदिनोऽग्नौ उपासते । एतमेव छन्दोगाः सामवेदिनो महाव्रते क्रतौ उपासते' इति ऐतरेयारण्यके दृष्टमित्यर्थः ।

गायत्रीशब्दो ब्रह्मलक्षक इति व्याख्याय गौण इत्याह—अपर इति । साक्षादेव वाच्यार्थग्रहणं विना एव इति यावत् । पूर्वं तु उपास्यतया गायत्रीपदेन अज-हल्लक्षणाया गायत्रीब्रह्मणी द्वे अपि लक्षिते । न च 'गायत्री सर्वम्' इत्यन्वया-सम्भवः । घटो रूपीति पदार्थैकदेशे व्यक्तौ रूपान्वयवद् गायत्रीपदार्थैकदेशे

रत्नप्रभाका अनुवाद

'दृश्यते' इमं ध्युत्पत्तिसे दर्शनशब्दका अर्थ 'दृष्ट' है ऋग्वेदी लोम अर्थात् होतृगण इस परमात्माका महान् शस्त्रमे विचार करते हैं अर्थात् वह शस्त्रमे अनुगत है ऐसा ध्यान करते हैं । अग्निरहस्यमे 'तमेतमग्निरि०' (अध्वर्युगण अग्निरूपसे इस ब्रह्मकी उपासना करते हैं) ऐसा युक्ति कहती है, अतः यजुर्वेदी अग्निमे ब्रह्मकी उपासना करते हैं । सामवेदी महाव्रत नामक यागमे ब्रह्मकी उपासना करते हैं, ऐसा ऐतरेयारण्यकमें देखा गया है ।

गायत्रीशब्द ब्रह्मलक्षक है ऐसा व्याख्यान करके अब उसका गौण कहते हैं—“अपरः” इत्यादिसे । 'साक्षादेव'—वाच्यार्थग्रहण किये विना ही । पहले तो गायत्रीपद अजहल्लक्षणासे गायत्री और ब्रह्म दोनोंका उपास्यरूपसे प्रतिपादन करता है ऐसा कहा । इस प्रकार लक्षणाका सहारा लेनेमे 'गायत्री सर्वम्' इसका अन्वय नहीं हो सकेगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जैसे 'घटो रूपी' (घट रूपवान् है) इसमें पदार्थके एकदेश व्यक्तिके रूपका अन्वय है, वैसे ही

भाष्य

न्यात्, यथा गायत्री चतुष्पदा षडक्षरैः पादैः तथा ब्रह्म चतुष्पात् । तथाऽन्यत्रापि छन्दोभिधायी शब्दोऽर्थान्तरे संख्यासामान्यात् प्रयुज्यमानो दृश्यते । तद्यथा—‘ते वा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दश सन्तस्तत्कृतम्’

भाष्यका अनुवाद

है, वैसे ही ब्रह्म भी चतुष्पाद है । इसी प्रकार दूसरे स्थलोंमें भी छन्दका अभिधान करनेवाले शब्दोंका, संख्याकी समानतासे, दूसरे अर्थमें प्रयोग देखा जाता है, जैसे कि ‘ते वा एते पञ्चान्ये०’ (ये पांच और दूसरे पांच, दस होकर

रत्नप्रभा

गायत्र्यनुगते ब्रह्मणि प्रधाने सर्वात्मकत्वान्वयसम्भवात् इति भावः । तथा च सूत्रे सिद्धान्तभागस्य अयमर्थः । तथा गायत्रीवत् चतुष्पात्त्वगुणसामान्यात् चेतो ब्रह्मणि समर्प्यते येन स चेतोऽर्पणो गायत्रीशब्दस्तेन ब्रह्मण एव निगदाद् अभिधानात्, छन्दोऽभिधानम् असिद्धमिति । अधुना “तथाहि दर्शनम्” इति शेषं व्याचष्टे—तथेति । संवर्गविधायाम् अधिदैवम् अग्निसूर्यचन्द्राम्भांसि वायौ लीयन्ते । अध्यात्मं वाक्चक्षुश्श्रोत्रमनांसि प्राणमपियन्ति इत्युक्तम् । ते वा एते पञ्चाऽन्ये आधिदैविकाः, पञ्चाऽन्ये आध्यात्मिकास्ते मिलित्वा दशसंख्याकाः सन्तः कृतम् इति उच्यन्ते । अस्ति हि कृतत्रेताद्वापरकलिसंज्ञकानि चत्वारि द्यूतानि क्रमेण चतुरङ्गव्यङ्ग्यङ्कैकाङ्कानि । तत्र कृतं दशात्मकं भवति, चतुर्षु अङ्केषु त्रयाणां

रत्नप्रभाका अनुवाद

गायत्रीपदार्थके एकदेश गायत्रीमें अनुगत ब्रह्म जो प्रधान वस्तु है, उसमें सर्वात्मकत्वका अन्वय हो सकता है, ऐसा तात्पर्य है । अतः सूत्रमें सिद्धान्तभागका यह अर्थ है—इस प्रकारसे-गायत्रीके समान चतुष्पात्त्वं (चतुष्पाद होना) गुणके सादृश्यसे (गायत्री और ब्रह्मके चतुष्पाद होने से) चित्त ब्रह्ममें समर्पित किया जाता है जिससे, वह ‘चित्तोर्पण’ अर्थात् गायत्रीशब्द है, उससे ब्रह्मका ही अभिधान होता है, इस कारण छन्दका अभिधान असिद्ध है । अब ‘तथाहि दर्शनम्’ इस शेष भागका व्याख्यान करते हैं—“तथा” इत्यादिसे । संवर्गविद्योमें देवताओंमें अग्नि, सूर्य, चन्द्र और जल वायुमें लीन होते हैं और शरीरमें वाणी, नेत्र, कर्ण और मन प्राणमें लीन होते हैं । ये पांच आधिदैविक और पांच आध्यात्मिक मिलकर दस ‘कृत’ कहलाते हैं । वस्तुतः कृत, त्रेता, द्वापर और कलि इस नामके चार द्यूत क्रमसे चार, तीन, दो और एक अङ्के हैं । कृत-४, त्रेता-३, द्वापर-२

(१) सर्वभूत स्थावर और जगम एक पाद है, स्वप्नाश विदात्तमां अथवा प्रमिद्ध पुलोकमें तीन पाद हैं, इस प्रकार ब्रह्म चतुष्पाद है ।

(२) छान्दोग्योपनिषद् ४ अध्याय ३ खण्डमें संवर्गविद्या कही गई है ।

(३) द्यूत—जुआ । द्यूतका साधन—पासा ।

भाष्य

इत्युपक्रम्याऽऽह—‘सैषा विराड्नादी’ (छा० ४।३।८) इति । अस्मिन् पक्षे ब्रह्मवाऽभिहितमिति न छन्दोभिधानम् । सर्वथाप्यस्ति पूर्वस्मिन् वाक्ये प्रकृतं ब्रह्म ॥ २५ ॥

भाष्यका अनुवाद

वे कृत कहलाते हैं) ऐसा उपक्रम करके ‘सैषा विराड्’ (यह अन्न भक्षक विराट् है) ऐसा कहा है । इस पक्षमें ब्रह्मका ही अभिधान है, छन्दका अभिधान नहीं है । पूर्ववाक्यमें सर्वथा ब्रह्म ही प्रकृत है ॥ २५ ॥

रत्नप्रभा

त्रिषु द्वयोः द्वयोः एकस्य च अन्तर्भावत्, तथा च दशत्वगुणेन वाग्वादयः कृतशब्देन उच्यन्ते । एवं कृतत्वं वाग्वादीनाम् उपक्रम्य आह—सैपेति । विधेयापेक्षया स्त्रीलिङ्गनिर्देशः । विराट्पदं छन्दोवाचकम्, “दशाक्षरा विराट्” इति श्रुतेः । दशत्वसाम्येन वाग्वादयो विराडिति उच्यन्ते । एवञ्च दशत्वद्वारा वाग्वादिषु कृतत्वं विराट्त्वञ्च ध्येयम् । तत्र विराट्त्वध्यानात् सर्वमस्य अन्नं भवति, “अन्नं विराट्” इति श्रुतेः, कृतत्वध्यानादन्नादो भवति, कृतघृतस्य अन्नादत्वात् । कृतं हि स्वीयचतुरङ्गेषु त्र्यङ्गादिकम् अन्तर्भावयत् अन्नम् अतीव लक्ष्यते । अत एव कृतजयाद् इतरघृतजयः श्रुत्युक्तः । “कृतायविजितायाऽधरेयाः संयन्ति” इति । अयः घृतम्, कृतसंज्ञोऽयः कृतायः स विजितो येन तस्मै, अधरेयाः त्र्यङ्गादयः अयाः संयन्ति उपनमन्ते तेन जिता भवन्ति इत्यर्थः । एवञ्च सा वाग्वादिदशा-

रत्नप्रभाका अनुवाद


कलि-१ । चार संख्यासे युक्त कृत दस संख्यावाला होता है, क्योंकि चारमें तीनका तीनमें दोका और दोमें एकका अन्तर्भाव होनेसे दस होते हैं । वायु आदि भी दस हैं । इस प्रकार संख्याकी समानतासे कृतत्वका उपचार है । इस प्रकार वायु आदिके कृतत्वका उपक्रम करके कहते हैं—“सैषा” इत्यादि । विराट्शब्द स्त्रीलिङ्ग है, अतः ‘सा’ ‘एषा’ ऐसी स्त्रीलिङ्गका निर्देश किया है । विराट्पद छन्दोवाचक है, क्योंकि ‘दशाक्षरा०’ (दस अक्षरवाला छन्द विराट् है) ऐसी श्रुति है । दशत्वकी समानतासे वायु आदि विराट् कहलाते हैं । इस प्रकार दशत्व द्वारा वायु आदिमें कृतत्व और विराट्त्वका ध्यान करना चाहिए । उनमें विराट्त्वके ध्यानसे उपासकके सब अन्न होते हैं, क्योंकि ‘अन्नं०’ ऐसी श्रुति है । कृतत्वके ध्यानसे अन्नभक्षक होता है, क्योंकि कृतघृत अन्नभक्षक है । कृत अपने चार अङ्गमें तीन अङ्ग आदिका अन्तर्भाव करता है, अतः अन्नभक्षक-सा मात्स्य पशुता है । इसी कारण श्रुतिमें कृतके जयसे अन्य घृतका जय कहा है—‘कृतायविजिताया०’ अय—घृत, कृतसंज्ञक अय कृताय है, उसको जिसने जीता है, वह तीन, दो और एक अङ्गवाले पासोंको जीतता है । इस प्रकार वायु आदि दशा-

रत्नप्रभा

श्लिका एषा कृतशब्दिता विराद् अन्नम्, कृतत्वात् अन्नादिनी इत्यर्थः। सर्वथापीति। गायत्रीतिपदस्य लक्षकत्वे गौणत्वेऽपि च इत्यर्थः। अत्र अपर आह इति अपरपदेन गौणत्वं स्वमतं न इति द्योतयति। अजहल्लक्षणापक्षे हि 'वाच्ये गायत्री' इति वागात्मत्वं 'गायति च त्रायते च' इति निरुक्तनामकत्वञ्च गायत्र्या उपाधित्वेन उपास्यत्वाद् उपपन्नतरम्। गौणपक्षे गायत्रीत्यागात् तदुभयं सर्वात्मकत्वमात्रेण उपपादनीयम्। एवं गायत्रीपदस्य स्वार्थत्यागोऽप्रसिद्धचतुष्पात्त्वगुणद्वारा विप्र-कृष्टलक्षणा चेति बहु असमञ्जसम् ॥ २५ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

त्मक होकर कृतसंज्ञक विराद् अन्न है और कृतत्वके कारण अन्नभक्षक कहलाती है। "सर्वथापि" अर्थात् गायत्रीपदको लक्षक मानें अथवा गौण मानें तो भी। यहां 'अपर आह' श्रममें 'अपर' पदसे गौणत्व स्वमत नहीं है ऐसा सूचित किया है। पहले पक्षमें जितमें गायत्री पदकी अजहल्लक्षणा होती है 'वाच्ये' इस प्रकार वामूपत्व और 'गायति०' इस प्रकार निरुक्तनामकत्व ये दोनों गायत्रीरूप उपाधिद्वारा उपास्य व्रह्ममें ठीक उपपन्न होते हैं, गौण पक्षमें गायत्रीका त्याग हो जाता है, अतः उन दोनोंका केवल सर्वात्मकत्वरूप हेतुसे उपपादन करना पड़ेगा। इसलिए इस पक्षमें गायत्रीपदका मुख्यार्थत्याग और अप्रसिद्ध चतुष्पात्त्व आदि गुणद्वारा बहुत दूरकी लक्षणा इत्यादि बहुत असमंजस प्राप्त होते हैं ॥ २५ ॥



(१) "वाच्यार्थमपरित्यज्य वृत्तिरन्यार्थके तु या।

काधितेयमजहती शोणोऽय भावनीतिवत् ॥"

वाच्य अर्थका त्याग न कर वाच्य अर्थसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य अर्थमें जो शब्दकी वृत्ति है, वह अजहल्लक्षणा कही जाती है। इसका उदाहरण है—'शोणो धावति'। यहां पर 'शोण' शब्दका वाच्य अर्थ रक्तवर्ण है। वह गुण है, उसमें धावन किया किसी प्रकारसे भी सम्भव नहीं है, इसलिए 'शोण' शब्द वाच्य अर्थ—रक्तवर्णका त्याग किये बिना रक्तवर्ण सम्बन्धी अर्थको कहता है।

उक्त अजहती लक्षणाके पक्षमें 'गायत्री या इद सर्वम्' श्रुतिमें पठित गायत्रीपद अपने वाच्य अर्थका त्याग किये बिना स्वोपाधिक ब्रह्मका बोध कराता है।

गौणपक्षमें "सैषा चतुष्पदा" श्रुतिमें गायत्री चतुष्पात् कही गई है और "पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम्"में ब्रह्म चतुष्पात् कहा गया है। इस चतुष्पात्वरूप सादृश्यसे 'गायत्री' पद अपने अर्थका त्यागकर श्रुतिमें उक्त सर्वात्मकताकी सिद्धिके लिए ब्रह्मका बोध कराता है। इससे प्रतीत होता है कि जिस प्रकार आलङ्कारिक सादृश्य सम्बन्धसे गौणी लक्षणा मानते हैं और सादृश्यसे आतिरिक्त सम्बन्धसे श्रुद्धा लक्षणा मानते हैं, वैसा ये नहीं मानते किन्तु लक्षणाके बिना ही उपचारसे अन्य शब्दका अन्य अर्थमें प्रयोग होता है ऐसा मानते हैं।

भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्चैवम् ॥ २६ ॥

पदच्छेद—भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेः, च, एवम् ।

पदार्थोक्ति—भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेः—‘गायत्री वा इदं सर्वं०’ इति श्रुती कथितस्य भूतादिपादत्वस्य ब्रह्मण्येव उपपन्नत्वात्, च—अपि, एवम्—गायत्रीशब्देन गायत्र्यनुगतं ब्रह्मैव उच्यते ।

भाषार्थ—‘गायत्री वा’ इस श्रुतिमें भूत, पृथिवी, शरीर और हृदय पाद कहे गये हैं, यह कथन ब्रह्ममें ही उपपन्न हो सकता है (केवल छन्दोरूप गायत्री-के भूत, पृथिवी आदि पाद नहीं हो सकते हैं), इससे भी स्पष्ट है कि गायत्री-शब्दसे गायत्रीमें अनुगत ब्रह्मका ही बोध होता है ।



भाष्य

इतश्चैवमभ्युपगन्तव्यमस्ति पूर्वस्मिन् वाक्ये प्रकृतं ब्रह्मेति, यतो भूतादीन् पादान् व्यपदिशति । भूतपृथिवीशरीरहृदयानि हि निर्दिश्याऽऽह—‘सैषा चतुष्पदा पदविधा गायत्री’ इति । नहि ब्रह्मानाश्रयणे केवलस्य

भाष्यका अनुवाद

इस कारण भी पूर्ववाक्यमें ब्रह्म ही प्रकृत है, यह स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि श्रुति पादरूपसे भूतादिका व्यपदेश करती है । भूत, पृथिवी, शरीर और हृदयका निर्देश करके कहते हैं—‘सैषा चतुष्पदा०’ (वह चार पादवाली छः

रत्नप्रभा

अनु “गायत्री वा इदं सर्वम्” इति प्रथमगायत्रीश्रुतेः कथं लक्षणा इति आशङ्क्य वाक्यशेषगतसर्वात्मकत्वाद्यनेकबलवत्प्रमाणसवादेन ब्रह्मणि तात्पर्यावगमाद् इत्याह—भूतादिपादेति । एवंपदार्थमाह— इतश्चेति । सूत्रस्थादिपदार्थदर्शयति—भूतपृथिवीति । अत्र सूत्रभाष्यकारयोः भूतादिभिः चतुष्पदा

रत्नप्रभाका अनुवाद

यदि कोई कहे कि ‘गायत्री वा०’ (यह सब गायत्री ही है) इस प्रकार प्रथम श्रुत गायत्री शब्दकी लक्षणा किस प्रमाणसे की जाय ? इस आशङ्कापर वाक्यशेषमें रहनेवाले सर्वात्मकत्व आदि अनेक बलवान् प्रमाणोंकी एक वाक्यतासे ब्रह्ममें तात्पर्य समझा जाता है, अतः लक्षणा करनी चाहिए ऐसा कहते हैं—“भूतादिपाद” इत्यादिसे । ‘एव’ पदका अर्थ कहते हैं—“इतश्च” इत्यादिसे । सूत्रगत ‘आदि’ पदका अर्थ कहते हैं—“भूतपृथिवी” इत्यादिसे । यद्वा-

भाष्य

छन्दसो भूतादयः पादा उपपद्यन्ते । अपि च ब्रह्मानाश्रयणे नेयमृक् संवध्येत—‘तावानस्य महिमा’ इति । अनया हि ऋचा स्वरसेन ब्रह्मैवाऽभिधीयते, ‘पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि’ (छा० ३।१२।५) इति सर्वात्मत्वोपपत्तेः । पुरुषसूक्तेऽपीयमृग् ब्रह्मपरतयैव समाम्नायते । स्मृतिश्च ब्रह्मण एवंप्रपत्तां दर्शयति—‘विष्टभ्याऽहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्’ (म०गी० १०।४२) इति । ‘यद्वै तद् ब्रह्म’ (छा० ३।१२।७) इति च निर्देश एव सति मुख्यार्थ उपपद्यते । ‘ते वा एते पञ्च

भाष्यका अनुवाद

प्रकारकी गायत्री है) यदि ब्रह्मका ग्रहण न करें, तो भूतादि केवल छन्दके पाद नहीं हो सकेंगे । दूसरी बात यह भी है कि ब्रह्मका ग्रहण न करें, तो ‘तावानस्य०’ (उसकी इतनी महिमा है) इस ऋचाका समन्वय नहीं हो सकेगा । वस्तुतः इस ऋचा द्वारा स्वरसे ब्रह्मका ही अभिधान होता है, क्योंकि ‘पादोऽस्य सर्वा भूतानि०’ (सब भूत उसका एक पाद है और दिवमे तीन पाद अमृत हैं) इस प्रकार सर्वात्मता उपपन्न होती है । पुरुष सूक्तमें भी यह ऋचा ब्रह्म-विषयक ही कही गई है । ‘विष्टभ्याहमिदं०’ (एक अंशसे इस सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त करके मैं स्थित हूँ) यह स्मृति भी ब्रह्ममें सर्वात्मता दिखलाती है । पूर्ववाक्यमें ब्रह्मके स्वीकार करनेसे ही ‘यद्वै तद् ब्रह्म’ यह निर्देश मुख्यार्थमें संगत होता है । ‘पञ्च

रत्नप्रभा

गायत्रीति “सम्मतम्, षडक्षरैश्चतुष्पात्त्वं वृत्तिकारोक्तम् अप्रसिद्धम् । चकार-सूचितं युक्त्यन्तरम् आह—अपि चेति । ब्रह्मपरसूक्तोत्पन्नत्वात् च तस्याः तत्परत्वम् इत्याह—पुरुषेति । ब्रह्मपदस्य छन्दोवाचित्वम् उक्तं निरस्यति—यद्वै तद् ब्रह्मेति । [एवं सति]—पूर्वस्यामृचि ब्रह्मोक्तौ इत्यर्थः । हृदयस्य चतुर्दिक्षु

रत्नप्रभाका अनुवाद

पर सूत्रकार और भाष्यकारका यह मत है कि गायत्री भूत, पृथिवी, शरीर और हृदयसे चतुष्पदा है और छ. छ अक्षरोके चार पादोंसे चतुष्पदा है, यह जो वृत्तिकार कहते हैं, वह अप्रसिद्ध है । सूत्रगत चकारसे सूचित दूसरी युक्ति कहते हैं—“अपि च” इत्यादिसे । ब्रह्मप्रतिपादक सूक्तसे उत्पन्न है, इससे भी यह ऋक् ब्रह्मपरक है ऐसा कहते हैं—“पुरुष” इत्यादिसे । ब्रह्मपद छन्दोवाचक है यह जो पाँछे कहा है, उसका निराकरण करते हैं—“यद्वै

भाष्य

ब्रह्मपुरुषाः' (छा० ३।१३।६) इति च हृदयसुषुप्तिषु ब्रह्मपुरुषश्रुतिर्ब्रह्म-
सम्बन्धितायां विवक्षितायां सम्भवति । तस्मादस्ति पूर्वस्मिन् वाक्ये ब्रह्म
प्रकृतम् । तदेव ब्रह्म ज्योतिर्वाक्ये द्युसम्बन्धात् प्रत्यभिज्ञायमानं परा-
मृश्यते इति स्थितम् ॥ २६ ॥

भाष्यका अनुवाद

ब्रह्मपुरुषाः' (ये पांच ब्रह्मपुरुष हैं) और 'हृदयसुषुप्तिषु' (हृदयके छिद्रोंमें
ब्रह्मपुरुष हैं) ये श्रुतियां पूर्ववाक्यका ब्रह्मके साथ संबन्ध है ऐसा निश्चित होनेपर
ही संगत होती हैं । इससे सिद्ध हुआ कि पूर्ववाक्यमें ब्रह्म प्रकृत है । और
सुसंबन्धसे प्रत्यभिज्ञायमान उसी ब्रह्मका ज्योतिर्वाक्यमें परामर्श होता है ॥ २६ ॥

रत्नप्रभा

ऊर्ध्वं च पञ्चसुषुपयः सन्ति । तेषु ब्रह्मस्थानहृत्नगरस्य प्रागादिद्वारेषु क्रमेण प्राण-
व्यानापानसमानोदाना पञ्च द्वारपाला इति ध्यानार्थं श्रुत्या कल्पितम् । तत्र
हृदयच्छिद्रमथप्राणेषु ब्रह्मपुरुषत्वश्रुति हृदि गायत्र्याख्यब्रह्मण उपासनासम्बन्धिताया
ब्रह्मणो द्वारपालत्वाद् ब्रह्मपुरुषा इति सम्भवति इत्याह—पञ्च ब्रह्मेति ॥ २६ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

तद् ब्रह्म" इत्यादिसे । [एव सति]—पूर्ववाक्यमें ब्रह्मका आभधान हानेपर । हृदयकी चारों
दिशाओंमें और ऊपर पांच छिद्र हैं । ब्रह्मके स्थान हृदयरूप नगरके उन पूर्वादि द्वारोंमें ध्यानके
लिए प्राण, व्यान, अपान, समान और उदान इन पांच द्वारपालोंकी कल्पना धृतिमें की गई
है, हृदयमें गायत्रीसङ्गक ब्रह्मकी उपासनाके संबन्धमें ब्रह्मके द्वारपालक होनेसे प्राण आदि
ब्रह्मपुरुष कहलाते हैं, अतः हृदयके छिद्रोंमें रहनेवाले प्राण आदि ब्रह्मपुरुष हूँ ऐसा प्रति-
पादन करनेवाली श्रुति उपपन्न होती है ऐसा कहते हैं—“पञ्च ब्रह्म” इत्यादिसे ॥ २६ ॥



उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यविरोधात् ॥ २७ ॥

पदच्छेद—उपदेशभेदात्, न, इति, चेत्, न, उभयस्मिन्, अपि, अविरोधात् ।

पदार्थोक्ति—['त्रिपादस्यामृतं दिवि' इति गायत्रीवाक्ये ब्रह्मणः ब्रह्माण्डान्तर्वर्तित्यमुक्तम् । 'अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते' इति ज्योतिर्वाक्ये ब्रह्मणः ब्रह्माण्डादुपरि अवस्थानमुक्तम् तथा च] उपदेशभेदात्—गायत्रीवाक्य-ज्योतिर्वाक्ययोः परस्परविरुद्धार्थकत्वात् न—प्रामाण्यं नास्ति, इति चेत् न, उभय-स्मिन् अपि—वाक्यद्वयेऽपि अविरोधात्—विरोधाभावात्—'दिवि' इति सप्तमी-विभक्तेः लक्षणया पञ्चमीविभक्त्यर्थबोधकत्वात् [उभयवाक्ययोः प्रामाण्यमस्तीति सिद्धं ज्योतिर्वाक्यस्य ब्रह्मबोधकत्वम्]

भाषार्थ—'त्रिपादस्या०' इस गायत्रीवाक्यमें कहा गया है कि ब्रह्म ब्रह्माण्डके अन्तर्वर्ती है और 'अथ यदतः०' इस ज्योतिर्वाक्यमें कहा गया है कि ब्रह्म ब्रह्माण्डके ऊपर है, अतः परस्पर विरुद्ध अर्थके प्रतिपादक होनेके कारण दोनो वाक्य प्रमाण नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि 'दिवि' इसमें सप्तमी विभक्ति लक्षणासे 'पञ्चमी विभक्तिके अर्थना ही बोध कराती है, अतः कोई विरोध न होनेके कारण दोनो वाक्य प्रमाण हैं। इससे सिद्ध हुआ कि ज्योतिर्वाक्यमें ज्योतिःशब्दसे ब्रह्मका ही बोध होता है।

भाष्य

यदप्येतदुक्तम्—पूर्वत्र 'त्रिपादस्यामृतं दिवि' इति सप्तम्या द्यौः आधार-त्वेनोपदिष्टा, इह पुनः 'अथ यदतः परो दिवः' इति पञ्चम्या मर्यादारूपेण, तस्मादुपदेशभेदान्न तस्येह प्रत्यभिज्ञानमस्तीति, तत्परिहर्तव्यम् ।

भाष्यका अनुवाद

'त्रिपादस्या०' इसमें सप्तमी विभक्ति द्वारा द्यौः आधाररूपसे उपदिष्ट है और 'अथ यदतः परो०' इसमें पंचमी विभक्ति द्वारा द्यौः मर्यादारूपसे उपदिष्ट है, अतः

रत्नप्रभा

"दिवि" "दिव" इति विभक्तिभेदात् प्रकृतप्रत्यभिज्ञा नास्ति इति उक्त नोपेक्षणीयम् इत्याह—तत्परिहर्तव्यमिति । परिहारं प्रतिजानीते—अत्रेति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

'दिवि' और 'दिव' इस प्रकार विभक्ति भेदसे प्रस्तुत प्रत्यक्षी प्रत्याभिज्ञा नहीं होती ऐसा जो पीछे कहा गया है, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ऐसा कहते हैं—"तत्परिहर्तव्यम्"

भाष्य

अत्रोच्यते—नायं दोषः । उभयस्मिन्नप्यविरोधात्, उभयस्मिन्नपि सप्त-
म्यन्ते पञ्चम्यन्ते चोपदेशे न प्रत्यभिज्ञानं विरुध्यते । यथा लोके वृक्षाग्र-
संबद्धोऽपि श्येन उभयथोपदिश्यमानो दृश्यते—वृक्षाग्रे श्येनो वृक्षाग्रात्
परतः श्येन इति च । एवं दिव्येव सद् ब्रह्म दिवः परमित्युपदिश्यते ।

भाष्यका अनुवाद

उपदेशके भेदसे उसका (ब्रह्मका) यहां प्रत्यभिज्ञान नहीं है, ऐसा जो पूर्वमें कहा
है, उसका परिहार करना चाहिए । उसके उत्तरमें कहते हैं—यह दोष नहीं है,
क्योंकि दोनोंमें विरोध नहीं है । दोनोंमें—सप्तम्यन्त और पञ्चम्यन्त उपदेशोंमें
प्रत्यभिज्ञानका विरोध नहीं है । जैसे लोकमें वृक्षके अग्रभागमें बैठा हुआ श्येन-
पक्षी 'वृक्षके अग्रभागमें श्येन है' 'वृक्षके अग्रभागसे परे श्येन है' इस तरह
दोनों प्रकारसे कहा जाता है ।

रत्नप्रभा

सूत्रे नञर्थं वदन् परिहारमाह—नायमिति । एवं सर्वत्र व्याख्येयम् । प्रधान-
प्रातिपदिकार्थद्युसम्बन्धेन प्रत्यभिज्ञाया विभक्त्यर्थभेदो न प्रतिबन्धकः, कथंचिद्
आधारस्यापि मर्यादात्वसम्भवात् । यथा वृक्षाग्रं स्वलग्नभागावच्छिन्नश्येनस्य आधारः
सन्नेव खालग्नभागावच्छिन्नस्य तस्यैव मर्यादा भवति, एवं दिवि सूर्ये हार्दाकाशे वा
मुख्ये आधारे सद् ब्रह्म दिवो मर्यादात्वं तदलग्नकाशावच्छिन्नं ब्रह्म प्रति कल्प-
यित्वा दिवः परम् इति उच्यते इत्यर्थः । यदि आकाशेन अनवच्छिन्नं ब्रह्म

रत्नप्रभाका अनुवाद

इत्यादिमें । परिहारकी प्रतिज्ञा करते हैं—“अत्र” इत्यादिसे । सूत्रमें स्थित 'न' शब्दका
अर्थ कह कर परिहार करते हैं—“नायं” इत्यादिसे । इसी प्रकार सब जगह व्याख्यान
समझना चाहिए । प्रधानभूत प्रातिपदिकार्थरूप पुल्लिङ्गके संबन्धसे प्रत्यभिज्ञा होती है,
विभक्तियोंके अर्थका भेद उसमें प्रतिबन्धक नहीं है, क्योंकि जो आधार होता है वह किसी
प्रकारसे मर्यादा भी हो सकता है । जैसे वृक्षके अग्रभागमें श्येनके जितने अवयव संयुक्त
रहते हैं उतनेका वह आधार होता हुआ ही उससे असंयुक्त अवयवोंको लेकर वही अग्रभाग
उसी श्येनकी मर्यादा होता है, उसी प्रकार सूर्य अथवा हृदयाकाश रूप मुख्य आधारमें ब्रह्म
है, उस आधारमें भिन्न आकाशावच्छिन्न ब्रह्मका वही आधार मर्यादा होता है ऐसी कल्पना
करके ब्रह्म पुल्लिङ्ग पर है ऐसा कहा जाता है ।

भाष्य

अपर आह—यथा लोके वृक्षाग्रेणाऽसंबद्धोऽपि श्येन उभयथोपदिश्यमानो दृश्यते, वृक्षाग्रे श्येनो वृक्षाग्रात् परतः श्येन इति च, एवं च दिवः परमपि सद् ब्रह्म दिवीत्युपदिश्यते । तस्मादस्ति पूर्वनिर्दिष्टस्य ब्रह्मण इह प्रत्यभिज्ञानम् । अतः परमेव ब्रह्म ज्योतिःशब्दमिति सिद्धम् ॥२७॥

भाष्यका अनुवाद

दूसरे कहते हैं—जैसे लोकमें वृक्षके अग्रभागसे श्येनका संबन्ध न होनेपर भी 'वृक्षके अग्रभागमें श्येनपक्षी है' और 'वृक्षाग्रसे परे श्येन है' इस तरह दोनों प्रकारसे उपदेश किया जाता है, इसी प्रकार दिवसे परे रहनेवाले ब्रह्मका 'दिवमें' ऐसा उपदेश किया जाता है । अतः पूर्वनिर्दिष्ट ब्रह्मका यहां प्रत्यभिज्ञान है । इससे सिद्ध हुआ कि ज्योतिःशब्द परब्रह्मका ही वाचक है ॥ २७ ॥

रत्नप्रभा

गृहीत्वा पञ्चम्या दिवो मर्यादात्वमेव मुख्यम्, तदा गङ्गायां घोष इतिवत् सप्तम्या सामीप्यलक्षणया आधारत्वं व्याख्येयम् इत्याह—अपर इति । सम्बद्धं प्रति आधारत्वं मुख्यं पूर्वमुक्तं दिव्येव सदिति, असम्बद्धं प्रति मर्यादात्वं मुख्यम् अधुना उच्यते दिवः परमपीति भेदः । तस्मात् ज्योतिर्वाक्यम् उपास्ये ब्रह्मणि समन्वितम् इति सिद्धम् ॥ २७ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

यदि आकाशसे अनवच्छिन्न अर्थात् निरुपाधिक ब्रह्मको लेकर पञ्चमीका मर्यादात्व ही मुख्य अर्थ कहेंगे तो 'गङ्गायां घोषः' इत्यादिमें जैसे सप्तमीका अर्थ लक्षणासे सामीप्य होता है, उसी प्रकार 'दिवि' इसमें सप्तमीकी लक्षणासे सामीप्यरूप अर्थ करके पदार्थको आधार कहना चाहिए ऐसा कहते हैं—“अपरः” इत्यादिसे । पीछे युक्तसे संबद्ध ब्रह्मके प्रति आधारत्व मुख्य है ऐसा 'दिव्येव सत्' इत्यादिसे कहा गया है । अब 'दिवः परमपि' इत्यादिसे युक्तसे असंबद्ध ब्रह्मके प्रति मर्यादात्व मुख्य है ऐसा कहते हैं, इतना भेद है । इससे सिद्ध होता है कि ज्योतिर्वाक्यका समन्वय ब्रह्ममें है ॥ २७ ॥



[११ प्रतर्दनाधिकरण सू० २८--३१]

प्राणोऽस्मीत्यत्र वाय्विन्द्रजीवब्रह्मसु संशयः ।

चतुर्णां लिङ्गसद्भावात्पूर्वपक्षस्त्वनिर्णयः ॥ १ ॥

ब्रह्मणोऽनेकलिङ्गानि तानि सिद्धान्यनन्यथा ।

अन्येषामन्यथासिद्धेर्युत्साद्य ब्रह्म नेतरत् * ॥ २ ॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—‘प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा त मामायुरमृतमित्युपास्व’ इस श्रुतिमें प्राणशब्द वायुका अथवा इन्द्रका अथवा जीवका या ब्रह्मका वाच्य है ?

पूर्वपक्ष—उक्त श्रुतिमें चारोंके लिङ्ग हैं, इसलिए निश्चितरूपसे यह नहीं कहा जा सकता है कि प्राणशब्द अमुकका वाच्य है ।

सिद्धान्त—यहा ब्रह्मके अनेक लिङ्ग हैं और ये अन्यथासिद्ध भी नहीं हैं, अतः वे प्रबल हैं और उनका प्राण, इन्द्र और जीवके पक्षमें समन्वय नहीं हो सकता, इसके विपरीत प्राण, इन्द्र और जीवके लिङ्गोंका ब्रह्ममें समन्वय हो सकता है । अतः प्राण आदिके लिङ्ग अन्यथासिद्ध होनेके कारण दुर्बल हैं । इस कारण उक्त श्रुतिमें प्राणशब्दसे ब्रह्मका ही बोध होता है, प्राणवायु आदिका नहीं होता ।

* निष्कष यह है कि कौपीतिके उपनिषद्में इन्द्रप्रतर्दनाऽऽयिवामं प्रतर्दनेके प्रति इन्द्र कहता है—‘प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा त मामायुरमृतमित्युपास्व’ (मैं प्राण हूँ, प्रज्ञात्मा हूँ, मेरी आयुष और अमृतरूपसे उपासना करो) ।

यहापर संशय होता है कि ‘प्राण’ पदसे किसका ग्रहण किया जाय, प्राणवायुका या इन्द्रका या जीवात्माका अथवा ब्रह्मका ? क्योंकि ‘इदं शरीरं परिगृह्योत्थापयति’ (इस शरीरको पकड़कर उठाता है) यह प्राणवायुका लिङ्ग है । इन्द्र ‘आरिम्’ (मैं हूँ) कहता है, यह इन्द्रका लिङ्ग है । ‘वक्तारं विधातुं’ (वक्ताको जाने) यह जीवका लिङ्ग है । ‘आनन्दोऽनरोऽमृत’ (आनन्द अजर और अमृत है) यह ब्रह्मका लिङ्ग है । इस प्रकार चारोंके लिङ्ग होनेसे संशय होता है ।

पूर्वपक्षी कहता है कि इन चारोंके लिङ्गोंमें कौन लिङ्ग प्रबल है, कौन दुर्बल है, यह निश्चय न होनेके कारण ठीक नहीं कहा जा सकता कि ‘प्राण’ पदसे किसका ग्रहण करना चाहिए ।

सिद्धान्ता कहता है कि यहा ब्रह्मके लिङ्ग बहुत हैं जैसे कि ‘त्वमेव मे वरं कृषीष्व य एव मनुष्याय हिततमं मन्यसे’ (आप ही वर वर दानिए जिसको आप मनुष्यके लिए अत्यन्त हितकारक समझते हों) इसमें हिततमत्व ब्रह्मका लिङ्ग है । ब्रह्मस बन्दकर कोई हिततम वस्तु नहीं है । ‘या मां विषानीयात् नास्य केनचन कर्मणा लोको मीयते, न मातृवधेन, न पितृवधेन’ (जो मुझको जानेगा, उसका एक-मोछ मातृवध, पितृवध आदि पापतम कर्मोंसे भी नष्ट नहीं होता) इस प्रकार शानमात्रसे सकल पापास्पृशित्व ब्रह्म गया है, यह भी ब्रह्मका लिङ्ग है । इत्यादि ब्रह्मलिङ्ग प्रबल हैं, क्योंकि इन लिङ्गोंका प्राणमें, इन्द्रमें या जीवमें समन्वय नहीं हो सकता । प्राण, इन्द्र तथा जीवके लिङ्ग सर्वोत्पन्न ब्रह्ममें समन्वित हो सकते हैं, अतः अन्यथासिद्ध होनेके कारण वे दुर्बल हैं । इससे सिद्ध हुआ कि प्रबललिङ्ग होनेके कारण यहा प्राणशब्दसे ब्रह्मका ही ग्रहण होता है, प्राण, इन्द्र या जीवका ग्रहण नहीं हो सकता है ।

प्राणस्तथानुगमात् ॥ २८ ॥

पदच्छेद—प्राणः, तथा, अनुगमात् ।

पदार्थोक्ति—प्राणः—‘प्राणोऽस्मि प्रजात्मा’ इति श्रुतौ प्राणः परमात्मैव [न प्राणवायुः, कुतः ?] तथा—ब्रह्मपरत्वेन, अनुगमात्—पदानाम् अन्वयावगमात्—‘प्राण एव प्रजात्मा आनन्दोऽजरोऽमृतः’ इति वाक्ये ब्रह्मलिङ्गाभिधानात् ।

भाषार्थ—‘प्राणोऽस्मि०’ इस श्रुतिमें उक्त प्राण परमात्मा ही है, प्राणवायु नहीं है, क्योंकि ‘प्राण एव प्रजात्मा०’ इस वाक्यमें आनन्दत्व, अजरत्व, अमृतत्व रूप ब्रह्मलिङ्ग कहे गये हैं ।



भाष्य

अस्ति कौपीतकिब्राह्मणोपनिषदि इन्द्रप्रतर्दनारख्यायिका—‘प्रतर्दनो ह वै दैवोदासिरिन्द्रस्य प्रियं धामोपजगाम युद्धेन च पौरुषेण च’ इत्यारभ्य आम्नाता । तस्यां श्रूयते—‘स होवाच प्राणोऽस्मि प्रजात्मा तं मामायुरमृत-

भाष्यका अनुवाद

कौपीतकिब्राह्मण उपनिषदमें इन्द्र और प्रतर्दनकी आख्यायिका ‘प्रतर्दनो ह वै दैवोदासिरिन्द्रस्य प्रियं धामोपजगाम युद्धेन च पौरुषेण च’ इत्यारभ्य आम्नाता (दिवोदासका पुत्र प्रतर्दन युद्धके लिये और पराक्रमके हेतुसे इन्द्रके प्रिय धाम—स्वर्गको गया) इस प्रकार आरम्भ करके कही गई है । उसमें सुना जाता है कि ‘स होवाच प्राणोऽस्मि०’ (उस [इन्द्र] ने कहा—मैं प्राण हूँ,

रत्नप्रभा

प्राणस्तथानुगमात् । दिवोदासस्य अपत्यं दैवोदासिः प्रतर्दनो नाम राजा युद्धेन पुरुषकारेण च कारणेन इन्द्रस्य प्रेमास्पद गृहं जगाम । तं ह इन्द्र उवाच—प्रतर्दन वरं ते ददानि इति । स होवाच प्रतर्दनः—यं त्वं मर्त्याय हिततमं मन्यसे, त वरं त्वमेव आलोच्य मद्यं देहि इति । तत इन्द्र इदमाह—प्राणोऽस्मि, इत्यादि । मुख्यं प्राणं निरसितुं प्रजात्मत्वम् उक्तम् । निर्विशेषचिन्मात्रं

रत्नप्रभाका अनुवाद

दिवोदासका पुत्र दैवोदासि प्रतर्दन नामक राजा युद्धके लिये और पराक्रमके कारण इन्द्रके प्रेमास्पद गृहको गया । उससे इन्द्रने कहा—प्रतर्दन ! मे तुम्हें वर देता हूँ । प्रतर्दनने कहा—आप मनुष्यके लिए हिततम—सबसे बड़ कर हितकारक जो वर समझते हों विचार करके वही वर मुझे दीजिये । तब इन्द्रने कहा—‘प्राणोऽस्मि’ इत्यादि । मुख्य-

भाष्य

मित्युपास्त्व' इति । तथोत्तरत्रापि 'अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिगृह्णोत्थापयति' (कौ० ३।१, २, ३) इति । तथा 'न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्' इत्यादि । अन्ते च 'स एष प्राण एव प्रज्ञात्मानन्दोऽजरोऽमृतः' (कौ० ३।८) इत्यादि । तत्र संशयः किमिह प्राणशब्देन वायु-मात्रमभिधीयते, उत देवतात्मा, उत जीवः, अथवा परं ब्रह्मेति । ननु 'अत एव प्राणः' इत्यत्र वर्णितं प्राणशब्दस्य ब्रह्मपरत्वम् । इहापि च ब्रह्म-लिङ्गमस्ति—'आनन्दोऽजरोऽमृतः' इत्यादि, कथमिह पुनः संशयः संभवति ।

भाष्यका अनुवाद

प्रज्ञात्मा हूँ, मेरी आयु और अमृतरूपसे उपासना करो) उसी प्रकार आगे भी सुना जाता है कि 'अथ खलु प्राण एव' (वाग् आदि इन्द्रियोंकी देह धारण करनेमें शक्ति नहीं है ऐमा निश्चय होनेके बाद निश्चय प्रज्ञात्मा प्राण ही इस शरीरको अहंता और ममतासे स्वीकार कर शयन, आसन आदिसे उठाता है) उसी प्रकार यहां भी सुना जाता है कि 'न वाचं' (वाणीको जाननेकी इच्छा न करे, वक्ताको जाने) इत्यादि । और अन्तमें 'स एष प्राण एव' (वह प्राण ही प्रज्ञात्मा, आनन्द, अजर और अमृत है) कहा गया है । यहांपर संशय होता है कि क्या यहां प्राणशब्दसे वायुमात्रका अभिधान होता है अथवा देवतात्माका अथवा जीवका या परब्रह्मका । परन्तु 'अत एव' इस सूत्रमें प्राणशब्द ब्रह्मवि-प्यक है ऐसा वर्णन हो चुका है और यहां भी 'आनन्दोऽजरो' (आनन्द, अजर और अमृत है) इत्यादि ब्रह्मलिङ्ग हैं, तो यहां संशय होनेका अवसर ही

रत्नप्रभा

निरस्यति—तं मामिति । इदं प्राणस्य इन्द्रदेवतात्वे लिङ्गम् । मुख्यप्राणत्वे लिङ्ग-माह—अथेति । वागादीनां देहधारणशक्त्यभावनिश्चयानन्तरमित्यर्थः । प्राणस्य देहधारकत्वम् उत्थापकत्वञ्च प्रसिद्धम् इति वक्तुं खलु इत्युक्तम् । प्राणस्य जीवत्वे वक्तृत्वं लिङ्गमाह—न वाचमिति । आनन्दत्वादिकं ब्रह्मलिङ्गमाह—अन्ते चेति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

प्राणका निवारण करनेके लिए 'प्रज्ञात्मा' कहा है । विशेष-रहित चिन्मानका निरसन करते हैं—'तं माम्' इत्यादिसे । यह 'प्राण इन्द्रदेवता है' ऐसा दिखलानेवाला लिङ्ग है । 'प्राण मुख्यप्राण है' इसमें कारण कहते हैं—'अथ' इत्यादिसे । 'अथ'—वाणी आदिमें देह-धारणकी सामर्थ्यका अभाव है, ऐसा निश्चय होनेके बाद । प्राण देहका धारण करता है और देहको उठाता है, यह प्रसिद्ध है, ऐसा दिखलानेके लिए 'खलु' कहा है । 'प्राण जीव है' इसमें लिङ्ग वक्तृत्व है, ऐसा कहते हैं—'न वाचम्' इत्यादिसे । आनन्दत्व आदि ब्रह्मलिङ्ग

भाष्य

अनेकलिङ्गदर्शनादिति ब्रूमः । न केवलमिह ब्रह्मलिङ्गमेवोपलभ्यते । सन्ति हीतरलिङ्गान्यपि 'मामेव विजानीहि' (कौ० ३।१) इतीन्द्रस्य वचनं देवतात्मलिङ्गम्, इदं शरीरं परिगृह्योत्थापयति, इति प्राणलिङ्गम्, 'न वाचं विजिज्ञासीत् वक्तांरं विद्यात्' इत्यादि जीवलिङ्गम् । अत उपपन्नः संशयः । तत्र प्रसिद्धैर्वायुः प्राण इति प्राप्ते उच्यते प्राणशब्दं ब्रह्म विज्ञेयम् ।

भाष्यका अनुवाद

कहां है ? अनेक लिङ्गोंके दर्शनसे यहां संशय होता है । यहां केवल ब्रह्मलिङ्ग ही उपलब्ध नहीं होता, किन्तु दूसरोंके लिङ्ग भी हैं । 'मामेव०' (मुझको ही जान) यह इन्द्रका वचन देवतात्माका लिङ्ग है । 'इदं शरीरं०' इस शरीरको ग्रहण करके उठाना है) यह प्राणवायुका लिङ्ग है । 'न वाचं०' (वाणीको जाननेकी इच्छा न करे, वक्ताको जाने) इत्यादि जीवका लिङ्ग है । इस कारण संशय उत्पन्न होता है । संशय होने पर प्रसिद्धिके अनुसार प्राण वायु ही है ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त

रत्नप्रभा

अनेकेषु लिङ्गेषु दृश्यमानेषु बलाबलनिर्णयार्थम् इदमधिकरणम् इत्य-
गतार्थतामाह—अनेकलिङ्गेति । पूर्वत्र प्रकृतब्रह्मवाचकयच्छब्दबलाद् ज्योतिः-
श्रुतिः ब्रह्मपरा इति उक्तम्, न तथेह प्राणश्रुतिभङ्गे किञ्चिद् बलम् अस्ति ।
मिथोविरुद्धानेकलिङ्गानाम् अनिश्चयकत्वाद् इति प्रत्युदाहरणसङ्गत्या पूर्वपक्षयति-
तत्रेति । पूर्वं प्रधानप्रातिपदिकार्थबलाद् विभक्त्यर्थबाधवत् वाक्यार्थज्ञानं
प्रति हेतुत्वेन प्रधानानेकपदार्थबलाद् एकवाक्यताभङ्ग इति दृष्टान्तसङ्ग-
तिर्वाऽस्तु । पूर्वपक्षे प्राणाद्यनेकोपास्तिः सिद्धान्ते प्रत्यग्रक्षणीः इति विवेकः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

हैं, ऐसा कहते हैं—“अन्ते च” इत्यादितो । अनेक लिङ्ग दीयते हैं इनमें कौन लिङ्ग बलिष्ठ है और कौन दुर्बल है इस बातका निर्णय करनेके लिए यह अधिकरण है, अतः प्राणाधिकरणसे मतार्थ नहीं है ऐसा कहते हैं—“अनेकलिङ्ग” इत्यादितो । इसके पूर्वाधिकरणमें प्रस्तुत ब्रह्मवाचक “यत्” शब्दके बलसे ज्योति श्रुति ब्रह्मविषयक है, ऐसा कहा है, उस प्रकार यहां प्राणश्रुतिका भङ्ग करनेवाला कुछ बल नहीं है, क्योंकि परस्पर विरुद्ध अनेक लिङ्ग कुछ निषय करनेमें समर्थ नहीं होते हैं, इस प्रकार प्रत्युदाहरण संगतितो पूर्वपक्ष करते हैं—“तत्र” इत्यादितो । अथवा पूर्वाधिकरणमें प्रधानभूत प्रातिपदिकार्थसे बलसे रातमा विभाषिके अर्थका जैसे वाच हुआ इसी प्रकार पदार्थज्ञानसे वाक्यार्थज्ञानमें कारण होनेसे एक पदके अनेक प्रधान अर्थके बलसे एकवाक्यताका भङ्ग होता है, ऐसी दृष्टान्तसंगति भा हो सकती है । पूर्वपक्षमें प्राण, देवता, जीव आदिको उपागना फल है और सिद्धान्तमें ब्रह्मज्ञान फल है । ब्रह्मपरत्वत हा

भाष्य

कृतः? तथानुगमात् । तथा हि पौर्वापर्येण पर्यालोच्यमाने वाक्ये पदार्थानां समन्वयो ब्रह्मप्रतिपादनपर उपलभ्यते । उपक्रमे तावत् 'वर वृणीष्व' इतीन्द्रेणोक्तः प्रतर्दनः परमं पुरुषार्थं वरमुपचिक्षेप—'त्वमेव मे वृणीष्व यं त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यसे' इति । तस्मै हिततमत्वेनोपदिश्यमानः प्राणः कथं परमात्मा न स्यात् । नह्यन्यत्र परमात्मज्ञानाद्विततमप्राप्तिरस्ति 'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नाऽन्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' (श्वे० ३।८) इत्यादिश्रुतिभ्यः । तथा 'स यो मां वेद न ह वै तस्य केनचन कर्मणा लोको मीयते न स्तेयेन न भ्रूणहत्याया' (कौ० ३।१) इत्यादि च ब्रह्म-

भाष्यका अनुवाद

होनेपर कहते हैं—प्राणशब्दको ब्रह्मका वाचक समझना चाहिए, क्योंकि श्रुतिसे ऐसा ही बोध होता है । वह इस प्रकार है—पूर्वापर ग्रन्थका पर्यालोचन करने पर वाक्यमे पदार्थोंका समन्वय ब्रह्मप्रतिपादनविषयक है, ऐसा ज्ञात होता है । पहले उपक्रममे 'वर०' (वर माग) इस प्रकार इन्द्र द्वारा कहे गये प्रतर्दनने परम पुरुषार्थरूप वर मागा—'त्वमेव मे वृणीष्व०' (आप ही मेरे लिए वह वर दो, जिसको आप मनुष्यके लिए सबसे बढकर हितकारक समझते हों) । उसके लिये सबसे बढकर हितकारकरूपसे उपदिष्ट प्राण परमात्मा क्यों न हो । परमात्माके ज्ञानके सिवा दूसरे उपायोंसे हिततमकी प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि 'तमेव विदित्वा०' (उसको ही जानकर मोक्षको पाता है उसको प्राप्त करने के लिए और दूसरा मार्ग नहीं है) ऐसी श्रुति है । इसी प्रकार 'स यो मा वेद न ह वै तस्य०' (जो मुझको जानता है उसका लोक—मोक्ष किसी भी कर्मसे स्तेय या भ्रूणहत्यासे नष्ट नहीं होता)

रत्नप्रभा

तथा ब्रह्मपरत्वेन पदानाम् अन्वयावगमाद् इति हेतुर्थम् आह—तथा हीति । हिततमत्वकर्मक्षयादिपदार्थानां सम्बन्धो ब्रह्मणि तात्पर्यनिश्चायक उपलभ्यते इत्युक्त विवृणोति—उपक्रम इत्यादिना । य मन्यसे त वर त्वमेव प्रयच्छ इत्यर्थः । स य कश्चित् मा ब्रह्मरूप वेद साक्षाद् अनुभवति तस्य विदुषो लोको मोक्षो महताऽपि पातकेन न ह मीयते नेव हिंस्यते न प्रतिबध्यते

रत्नप्रभाका अनुवाद

पदोंका समन्वय है ऐसा वाध होता है, इस प्रकार "तथा हि इत्यादिसे हेतुर्थ कहत है । हिततमत्व, कर्मक्षय आदि पदार्थोंका सम्बन्ध ब्रह्ममें तात्पर्यनिश्चय करनेवाला है, यह जो कहा, उसका विवरण करते हैं—"उपक्रम" इत्यादिसे । जो वर आप मनुष्यके लिए अतिशय हितकारक समझते हैं वह वर मराले आप ही दें ऐसा अर्थ है । वह जो कोई अधिकारी मुझ ब्रह्मको साक्षात् अनुभव करता है उस विद्वान्का लोक—मात्र महान पापस भा नष्ट नहीं

भाष्य

परिग्रहे घटते । ब्रह्मविज्ञानेन हि सर्वकर्मक्षयः प्रसिद्धः—‘क्षीयन्ते चाऽऽ कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे’ (मु० २।२।८) इत्याद्यासु श्रुतिषु । प्रज्ञात्मत्वं च ब्रह्मपक्ष एवोपपद्यते । नह्यचेतनस्य वायोः प्रज्ञात्मत्वं सम्भवति । तथोपसंहारेऽपि—‘आनन्दोऽजरोऽमृतः’ इत्यानन्दत्वादीनि न ब्रह्मणोऽन्यत्र सम्यक् संभवन्ति । ‘स न साधुना कर्मणा भूयान् भवति नो एवाऽसाधुना कर्मणा कनीयानेप ह्येव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीपते एष उ एवासाधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्योऽधो निनीपते’ इति, ‘एष लोकाधिपतिरेप लोकेशः’ (कौ० ३।८) इति च । सर्वमेतत् परस्मिन् ब्रह्मण्याश्रीयमाणेऽनुगन्तुं शक्यते न मुख्ये प्राणे । तस्मात् प्राणो ब्रह्म ॥ २८ ॥

भाष्यका अनुवाद

इत्यादि श्रुति ब्रह्मका ग्रहण करनेसे ही संगत होती है । क्योंकि ब्रह्मविज्ञानसे सब कर्मोंका क्षय होना ‘क्षीयन्ते चाऽऽ’ (उस सर्वश्रेष्ठका ज्ञान होनेपर इसके कर्म क्षीण हो जाते हैं) इत्यादि श्रुतियोंमें प्रसिद्ध है । प्रज्ञात्मत्व भी ब्रह्मपक्षमें ही घटता है । [प्रज्ञात्मा भी ब्रह्म ही है] अचेतन वायुका प्रज्ञात्मा होना संभव नहीं है । उसी प्रकार उपसंहारमें भी ‘आनन्दोऽजरो’ ऐसे आनन्दत्व आदि ब्रह्मके सिवा अन्यमें सर्वात्मना संभव नहीं हैं । ‘स न साधुना कर्मणा’ (वह पुण्य कर्मोंसे महान् नहीं होता और पाप कर्मोंसे छोटा नहीं होता, यही उससे पुण्य कर्म कराता है, जिसको इस लोकसे ऊंचा ले जाना चाहता है और यही उससे पाप कर्म कराता है, जिसको इस लोकसे नीचे ले जाना चाहता है) यह और ‘एष लोकाधिपतिः’ (यह लोकाधिपति है, यह लोकपाल है, यह लोकेश है) इत्यादि श्रुतियां हैं । ये सब धर्माधर्मकारयितृत्व, लोकेशत्व आदि धर्म परब्रह्मके आश्रयण करनेसे ही ठीक ठीक संगत होते हैं, प्राणका आश्रय करनेसे संगत नहीं होते । इससे सिद्ध हुआ कि प्राण ब्रह्म ही है ॥२८॥

रत्नप्रभा

जानामिना कर्मतूलराशेः दग्धत्वात् इत्याह—स य इति । साध्वसाधुनी पुण्यपापे ताभ्याम् अमृष्टत्वं तत्कारयितृत्वं निरङ्कुशैश्वर्यं च सर्वमेतद् इत्यर्थः ॥ २८ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

होता, क्योंकि ज्ञानरूप अग्निसे बर्मरूप रुईका देर जल जाता है ऐसा कहते हैं—“स य” इत्यादिसे । साधु-पुण्य, असाधु-पाप, पुण्य और पापमें अल्पि रहना, उनको बराना और निरङ्कुश ऐश्वर्य यह सब (परब्रह्ममें ही संगत होता है, मुख्य प्राणमें नहीं) ऐसा अर्थ है ॥२८॥

न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसम्बन्ध- भूमा ह्यस्मिन् ॥ २९ ॥

पदच्छेद—न, वक्तुः, आत्मोपदेशात्, इति, चेत्, अध्यात्मसम्बन्धभूमा, हि, अस्मिन् ।

पदार्थोक्ति—वक्तुः—इन्द्रस्य, आत्मोपदेशात्—स्वोपदेशात् [आत्म-विशिष्टेन्द्रशरीरमेव उपास्यम्] इति चेत् न, अध्यात्मसम्बन्धभूमा—आनन्दामृत-त्वादिप्रत्यगात्मलिङ्गबाहुल्यम्, अस्मिन्—अस्मिन् वाक्ये [उपलभ्यते अतः ब्रह्म-वोपास्यम्, न इन्द्रः] ।

भाषार्थ—इन्द्रने प्रतर्दनसे 'तुम मुझको ही जानो' इस प्रकार अपने आत्म-विशिष्ट शरीरको ही ज्ञेय कहा है, अतः 'प्राणोऽस्मिन्' इस श्रुतिमें इन्द्र ही उपास्य है यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि 'प्राण एव प्रज्ञात्मा०' इस वाक्यमें ब्रह्मके ही आनन्दत्व, अमृतत्व आदि बहुतसे धर्म कहे गए हैं, अतः ब्रह्म ही उपास्य है, इन्द्र उपास्य नहीं है ।

भाष्य

यदुक्तं प्राणो ब्रह्मेति, तदाक्षिप्यते । न परं ब्रह्म प्राणशब्दम् । कस्मात् ? वक्तुरात्मोपदेशात् । वक्ता हीन्द्रो नाम कश्चिद्विग्रहवान् देवताविशेषः स्वमात्मानं प्रतर्दनायाऽऽचक्षे—'मामेव विजानीहि' इत्युपक्रम्य 'प्राणोऽस्मिन् प्रज्ञात्मा' इत्यहङ्कारवादेन । स एव वक्तुरात्मत्वेनोपदिश्यमानः प्राणः कथं ब्रह्म स्यात् । नहि ब्रह्मणो वक्तृत्वं सम्भवति 'अवागमनाः' (वृ०

भाष्यका अनुवाद

प्राण ब्रह्म है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, उसपर आक्षेप करते हैं । वक्ता अपनी आत्माका उपदेश करता है, इससे प्रतीत होता है कि प्राणशब्द परब्रह्मका वाचक नहीं है । यहांपर वक्ता इन्द्रनामका कोई एक देहधारी देवताविशेष है, उसने 'मामेव०' (मुझको ही जानो) ऐसा उपक्रम करके 'प्राणोऽस्मिन्' (मैं प्राण हूँ, प्रज्ञात्मा हूँ) इस प्रकार अपनी आत्माका ही अहङ्कारवादसे प्रतर्दनको उपदेश किया है । वक्ता द्वारा आत्मारूपसे उपदेश किया हुआ वही प्राण ब्रह्म

रत्नप्रभा

अहङ्कारवादेन स्वात्मवाचकशब्दैः आचक्षे उक्तवान् इत्यर्थः । वाक्यस्य

रत्नप्रभाका अनुवाद

अहङ्कारवादे—स्वात्मवाचक शब्दोंसे कहा है ऐसा अर्थ है । यह वाक्य इन्द्रकी उपासनामें

भाष्य

३।८।८) इत्यादिश्रुतिभ्यः । तथा विग्रहसम्बन्धिभिरेव ब्रह्मण्यसम्भव-
द्धिर्धर्मैरात्मानं तुष्टाव—‘त्रिशीर्षाणं त्वाप्त्रमहनमरुन्मुखान् यतीन् शाला-
घृकेभ्यः प्रायच्छम्’ इत्येवमादिभिः । प्राणत्वं चेन्द्रस्य बलवत्त्वादुपपद्यते,
‘प्राणो वै बलम्’ इति हि विज्ञायते । बलस्य चेन्द्रो देवता प्रसिद्धा । ‘या
च काचिद्रलकृतिरिन्द्रकर्मव तत्’ इति हि वदन्ति । प्रज्ञात्मत्वमप्यप्रतिहत-

भाष्यका अनुवाद

किस प्रकार हो सकता है ? ब्रह्म वक्ता हो यह संभव नहीं है, क्योंकि ‘अवाग०’
(वह वाणीरहित और मनरहित है) इत्यादि श्रुतियाँ वक्तृत्वका निषेध करती
हैं । इसी प्रकार ब्रह्ममें सम्भव न होनेवाले शरीरसंबन्धी धर्मों द्वारा इन्द्रने
‘त्रिशीर्षाणं०’ (त्रिष्टाके तीन शिरवाले पुत्रका मैंने हनन किया, वेदान्तसे
विमुख यतियोंको वनके कुत्तोंको खिलाया) इत्यादि वचनोंसे अपनी स्तुति की है ।
इन्द्र प्राण है, यह कथन उसके बलवान् होनेसे उपपन्न होता है । क्योंकि
‘प्राणो वै०’ (प्राण ही बल है) ऐसा कहा है । और बलका देवता इन्द्र है
यह प्रसिद्ध है । जो कोई बलका काम है, वह इन्द्रका ही कर्म है, ऐसा लोग
कहते हैं । देवतात्मा भी प्रज्ञात्मा हो सकती है, क्योंकि उसका ज्ञान अकुण्ठित

रत्नप्रभा

इन्द्रोपासनापरत्वे लिङ्गान्तरमाह—तथा विग्रहेति । त्रीणि शीर्षाणि यस्य इति
त्रिशीर्षा त्वष्टुः पुत्रो विश्वरूपो नाम ब्राह्मणः तं हतवानस्मि । रौति यथार्थं शब्दयति
इति रुद्र वेदान्तवाक्यं तन्मुखे येषां ते रुन्मुखास्तेभ्योऽज्यान् वेदान्तबहिर्मुखान्
यतीन् अरण्यश्वभ्यो दत्तवानस्मि इत्यर्थः । इन्द्रे प्राणशब्दोपपत्तिमाह—प्राणत्वं
चेति । वदन्ति लौकिका अपि इत्यर्थः । बलवाचिना प्राणशब्देन बलदेवता
लक्ष्यते इति भावः । इन्द्रो हितप्रदातृत्वात् हिततमः कर्मानधिकाराद्

रत्नप्रभाका अनुवाद

शगू है, इस विषयमें दूसरा हेतु कहते हैं—“तथा विग्रह” इत्यादिसे । जिसके तीन शिर थे, उस
वेदवरूप नामक त्वष्टाके पुत्र ब्राह्मणको मैंने मारा । वास्तविक अर्थ बतानेवाले शब्द जिनके मुखमें
; वे रुन्मुख कहलाते हैं, जो ऐसे नहीं हैं अर्थात् वेदान्तसे विमुख हैं वे अरुन्मुख हैं, मैंने उन
अरुन्मुख संन्यासियोंको वनके कुत्तोंको खिला दिया । प्राणशब्द इन्द्रमें उपपन्न—युक्त है इस
पातको “प्राणत्वं च” इत्यादिसे दिखलाते हैं । ‘वदन्ति’—लौकिक लोग भी कहते हैं । प्राण-
शब्दका अर्थ बल है, अतः प्राणशब्दसे बलकी देवताका लक्षणासे ज्ञान होता है । इन्द्र अभीष्ट

भाष्य

ज्ञानत्वाद्देवतात्मनः सम्भवति, अप्रतिहतज्ञाना देवता इति हि वदन्ति । निश्चिते चैवं देवतात्मोपदेशे हिततमत्वादिबचनानि यथासम्भवं तद्विषयाप्येव योजयितव्यानि । तस्माद्वक्तुरिन्द्रस्याऽऽत्मोपदेशान्न प्राणो ब्रह्मेत्याक्षिप्य प्रतिसमाधीयते—‘अध्यात्मसम्बन्धभूमा तस्मिन्’ इति । अध्यात्मसम्बन्धः प्रत्यागात्मसम्बन्धस्तस्य भूमा बाहुल्यमस्मिन्नध्याय उपलभ्यते । ‘यावद्ध्यस्मिन् शरीरे प्राणो वमति तावदायुः’ इति प्राणस्यैव प्रज्ञात्मनः प्रत्यग्भूतस्याऽऽयुःप्रदानोपसंहारयोः स्वातन्त्र्यं दर्शयति, न देवताविशेषस्य

भाष्यका अनुवाद

है । देवता अकुण्ठित ज्ञानवाला है, ऐसा लोग कहते हैं । इस प्रकार देवतात्माका उपदेश निश्चित होने पर हिततमत्व आदि बचनोंका यथासंभव उसीमें ही अन्वय करना चाहिए । इस कारणसे वक्ता इन्द्रका आत्मोपदेश है, इसलिए प्राण ब्रह्म नहीं है ऐसा आक्षेप करके उसका समाधान करते हैं—‘अध्यात्म०’ इत्यादिसे । अध्यात्मसंबन्ध अर्थात् प्रत्यागात्माके संबन्धकी प्रचुरता—अधिकता इस अध्यायमें देखी जाती है । ‘यावद्ध्यस्मिन्शरीरे०’ (जब तक इस शरीरमें प्राण रहता है, तभी तक ही आयु है) यह श्रुति प्रज्ञात्मा, प्रत्यग्भूत प्राणकी ही आयु देने और हरनेमें स्वतन्त्रता दिखलाती है, बाह्य देवताविशेषकी

रत्नप्रभा

अपाप इत्येवं व्याख्येयानि इत्याह—निश्चिते चेति । किम् इन्द्रपदेन विग्रहोपलक्षितं चिन्मात्रमुच्यते उक्त विग्रहः । आद्ये वाक्यस्य ब्रह्मपरत्वं सिद्धम्, न द्वितीय इत्याह—अध्यात्मेति । आत्मनि देहेऽविगत इति अध्यात्मं प्रत्यागात्मा स सम्बध्यते यैः शरीरस्थत्वादिभिः इन्द्रतनौ असम्भावितैः धर्मैः ते अध्यात्मसम्बन्धास्तेषां भूमा इत्यर्थः । आयुः अत्र देहे प्राणवायुसञ्चारः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

वस्तुका दाता होनेके कारण हिततम है, कर्ममें आंधारी न होनेसे निष्पाप है ऐसा व्याख्यान करना चाहिए ऐसा कहते हैं—“निश्चिते च” इत्यादिसे । क्या इन्द्रपद देहसे उपलक्षित चिन्मात्र को कहता है अथवा देहको ? पहले पक्षमें वाक्य ब्रह्मविषयक है यह सिद्ध है । दूसरे पक्षमें यह बात सिद्ध नहीं होती है ऐसा कहते हैं—“अध्यात्म” इत्यादिसे । जो देहमें ज्ञात होता है वह अध्यात्म अर्थात् प्रत्यागात्मा है, जीवात्माका शरीरमें रहना आदि जिन धर्मोंसे संबन्ध है और जो धर्म इन्द्रके शरीरमें नहीं हो सकते हैं, उन्हीं धर्मोंका (इस अध्यायमें) बाहुल्य है,

भाष्य

पराचीनस्य । तथाऽस्तित्वे च प्राणानां निःश्रेयसमित्यध्यात्ममेवेन्द्रियाश्रयं प्राणं दर्शयति । तथा 'प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिगृह्योत्थापयति' (कौ० ३।३) इति, 'न वाचं विजिज्ञासीत् वक्तार विद्यात्' इति चोपक्रम्य 'तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरर्पिता नाभावरा अर्पिता एवमेवैता भूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्वर्पिताः प्रज्ञामात्राः प्राणेऽर्पिताः स एष प्राण एव भाष्यका अनुवाद

स्वतन्त्रता नहीं दिखलाती । उसी प्रकार 'अस्तित्वे प्राणानां' (प्राण हो, तो नि श्रेयस—इन्द्रियोंकी शरीरमें स्थिति होती है) यह श्रुति इन्द्रियोंका आश्रय प्रत्यगात्मा प्राणको ही दिखलाती है । उसी प्रकार 'प्राण एव प्रज्ञात्मेदं' (प्राण ही प्रज्ञात्मा इस शरीरको ग्रहण करके उठाता है) ऐसा और 'न वाचं' (वाणीको जाननेकी इच्छा न करे, वक्ताको जाने) ऐसा उपक्रम करके 'तद्यथा रथस्यारेषु नेमि' (जैसे रथके अरोंमें नेमि लगी रहती है और नामिमें अर लगे रहते हैं, उसी प्रकार ये विषय इन्द्रियोंसे जुड़े हुए हैं और इन्द्रिया प्राणसे जुड़ी

रत्नप्रभा

अस्तित्वे प्राणस्थितौ प्राणानाम् इन्द्रियाणां स्थिति इत्यर्थत श्रुतिमाह—अस्तित्व इति । 'अथातो नि श्रेयसादानम्' इत्याद्या श्रुति । इन्द्रियस्थापकत्ववद् देहोत्थापकत्वमाह—तथेति । चक्रवृत्त्वमुक्त्वा सर्वाधिष्ठानत्व दर्शितमित्याह—इति चोपक्रम्येति । तत् तत्र नानाप्रपञ्चस्य आत्मनि कल्पनायाम्, यथा दृष्टान्त, लोके प्रसिद्धस्य रथस्य अरेषु नेमिनाभ्यो मध्यस्थशलाकासु चक्रोपान्तरूपा नेमि अर्पिता, नामौ चक्रपिण्डकायाम् अरा अर्पिता एव भूतानि पञ्च पृथिव्यादीनि, मीयन्ते इति मात्रा भोग्या शब्दादय पञ्च इति दश भूतमात्रा प्रज्ञामात्रासु

रत्नप्रभाका अनुवाद

ऐसा अर्थ है । इस शरीरमें प्राणवायुका जो संचार है वही आयुष् है । प्राण रहे तो इन्द्रिया भी रहती हैं ऐसा प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिकी अर्थत लेकर कहते हैं—“अस्तित्वे” इत्यादिसे । 'अथातो नि श्रेयसादानम्' इत्यादि श्रुति है । प्राण जैसे इन्द्रियोंका स्थापक है, उसी प्रकार शरीरको उठानेवाला भी है ऐसा कहते हैं—“तथा” इत्यादिसे । प्राण वक्ता है ऐसा कहकर वह सबका अधिष्ठान है ऐसा दिखलाया है एसा कहते हैं—“इति चोपक्रम्य” इत्यादिसे । तत्—नाना प्रपञ्चका आत्मामें कल्पना करनेमें, जैसे दृष्टान्त है, लोकमें प्रसिद्ध रथके अरोंमें—नेमि और नामिके मध्यम रहनेवाली शलाकाओं (लकड़के डण्डों) में चक्रके पासकी नेमि जुड़ी हुई है, नामि—धुरीमें अर जैसे जुड़े हैं उसी प्रकार पृथिवी आदि पाच भूत और शब्द आदि पाच विषयरूप मात्रा इस प्रकार दस भूत और मात्रा, दस प्रज्ञामात्राओंमें अर्पित हैं ।

भाष्य

प्रज्ञात्मानन्दोऽजरोऽमृतः' इति विषयेन्द्रियव्यवहारारनामिभूतं प्रत्यगात्मानमेवोपमंहरति । 'स म आत्मेति विद्यात्' इति चोपसंहारः प्रत्यगात्मपरिग्रहे माधुर्न पराचीनपरिग्रहे । 'अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः' (चृ० २।५।१९) इति च श्रुत्यन्तरम् । तस्मादध्यात्ममन्वन्धवाहुल्याद्ब्रह्मोपदेश एवायं न देवतात्मोपदेशः ॥ २९ ॥

कथं तर्हि वक्तुरात्मोपदेशः—

भाष्यका अनुवाद

हुई हैं, यह प्राण ही प्रज्ञात्मा, आनन्द, अजर और अमृत है) इस प्रकार विषय और इन्द्रियोंके व्यवहाररूप अरेके नामिभूत प्रत्यगात्माका ही उपसंहार करती है । 'स म आत्मेति०' (वह मेरा आत्मा है ऐसा जाने) यह उपसंहार प्रत्यगात्माका ग्रहण करनेपर ही संगत होता है, बाह्य देवताके ग्रहणसे संगत नहीं हो सकता । 'अयमात्मा०' (यह आत्मा ब्रह्म है, सबका अनुभव करनेवाला है) ऐसी दूसरी श्रुति है । इससे सिद्ध हुआ कि यहां प्रत्यगात्माके संवन्धकी अधिकता होनेके कारण ब्रह्मका ही उपदेश है, देवतात्माका उपदेश नहीं है ॥ २९ ॥

तब वक्ताने अपनी आत्माका उपदेश किस प्रकार किया है ?

रत्नप्रभा

दशसु अर्पिताः । इन्द्रियजाः पञ्च शब्दादिविषयप्रज्ञाः, मीयन्ते आभिः इति मात्राः पञ्च धीन्द्रियाणि । नेमिवत् ब्राह्मं ब्राह्मकेषु अरेषु कल्पितम् इत्युक्त्वा नाभिस्वानीये प्राणे सर्वं कल्पितम् इत्याह—प्राणेऽर्पिता इति । स प्राणो मम स्वरूपम् इत्याह—स म इति । तर्हि प्रत्यगात्मनि समन्वयो न तु ब्रह्मणि, तत्र आह—अयमिति ॥ २९ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद


इन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेवाले पांच शब्द आदि विषयोंके ज्ञान, जिनसे ज्ञान होता है वे मात्राए पांच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं । नेमिकी तरह ब्राह्मणवस्तु ग्रहण करनेवाले अरोंमें कल्पित है ऐसा कहकर नामिरूप प्राणमें सब कल्पित है, ऐसा कहते हैं—“प्राणेऽर्पिता ” इत्यादिते । वह प्राण मेरा स्वरूप है इस प्रकार उपसंहारार्थक वाक्य कहते हैं—“स म” इत्यादिते । तब समन्वय प्रत्यगात्मा-जीवमें हुआ, ब्रह्ममें तो नहीं हुआ, इसपर “अयम्” इत्यादि कहते हैं ॥ २९ ॥

शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत् ॥ ३० ॥

पदच्छेद—शास्त्रदृष्ट्या, तु, उपदेशः, वामदेववत् ।

पदार्थोक्ति—उपदेशः तु—‘मामेव विजानीहि’ इत्युपदेशस्तु, शास्त्रदृष्ट्या—शास्त्रजन्यब्रह्मसाक्षात्कारवत्त्वात् [उपपद्यते] वामदेववत्—वामदेवादिवत् [इन्द्र-स्यापि ब्रह्मज्ञानित्वात्, अतः ‘प्राणोऽस्मि’ श्रुतौ प्राणः ब्रह्मैव] ।

भाषार्थ—वामदेव, शुक आदिके समान इन्द्र भी ब्रह्मज्ञानी था अर्थात् इन्द्रको ‘मैं परब्रह्म हूँ’ ऐसा ज्ञान हो गया था, उसी ब्रह्मदृष्टिसे उसने ‘मामेव०’ (मुझको ही जानो) इस प्रकार प्रतर्दनको उपदेश किया था, इस कारण ‘प्राणोऽस्मि०’ इस श्रुतिमें प्राण परमात्मा ही है ।



भाष्य

इन्द्रो नाम देवतात्मा स्वमात्मानं परमात्मत्वेन ‘अहमेव परं ब्रह्म’ इत्यापेण दर्शनेन यथाशास्त्रं पश्यन्नुपदिशति स्म—‘मामेव विजानीहि’ इति । यथा ‘तद्वैततपश्यन्नृपिर्वामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुभवं सूर्यश्च’ इति तद्वत्, ‘तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्’ (वृ० १।४।१०) इति श्रुतेः । यत्पुनरुक्तं ‘मामेव विजानीहि’ इत्युक्त्वा विग्रहधर्मेन्द्र भाष्यका अनुवाद

अपनी आत्माको परमात्मारूपसे ‘अहमेव परं ब्रह्म’ (मैं ही परब्रह्म हूँ) इस तरह आर्प दर्शनसे शास्त्रानुसार देवत्वर इन्द्रनामक देवताने ‘मामेव०’ (मुझको ही जान) ऐसा उपदेश किया है । जैसे कि ‘तद्वैततपश्यन्नृपि०’ (उस ब्रह्मको आत्मारूपसे देवते हुए ऋषि वामदेवने मैं मनु था, मैं सूर्य था, ऐसा ज्ञान प्राप्त किया) । क्योंकि ‘तद्यो यो देवानां०’ (उन देवताओंमें जिस जिसको आत्मज्ञान हुआ, वही ब्रह्म हुआ) ऐसी श्रुति है । और ‘मामेव०’ (मुझको

रत्नप्रभा

अहङ्कारवादस्य गतिं पृच्छति—कथमिति । सूत्रमुत्तरम् । तद् व्याख्याति—इन्द्र इति । जन्मान्तरकृतश्रवणादिना अस्मिन् जन्मनि स्वतः सिद्धं दर्शनम् आर्पम् । विज्ञेयेन्द्रस्तुत्यर्थं उपन्यासः न चेत् कथं तर्हि स इति पृच्छति—कथं

रत्नप्रभाका अनुवाद

अहङ्कारवादकी गति पूछते हैं—“कथम्” इत्यादिसे । यह सूत्र उसका उत्तर है । उसका व्याख्यान करते हैं—“इन्द्र” इत्यादिसे । जन्मान्तरमें कृत श्रवण आदिसे इस जन्ममें स्वतः सिद्ध जो दर्शन-ज्ञान है, वह आर्पदर्शन है । विशेष इन्द्रकी स्तुतिके लिए उपन्यास नहीं है

भाष्य

आत्मानं तृष्ट्वा त्वाप्स्रवधादिभिरिति, तत्परिहर्तव्यम् । अत्रोच्यते—न त्वाप्स्रवधादीनां विज्ञेयेन्द्रस्तुत्यर्थत्वेनोपन्यासः यस्मादेवंकर्माऽहं तस्मात् मां विजानीहि इति, कथं तर्हि ? विज्ञानस्तुत्यर्थत्वेन । यत्कारणं त्वाप्स्रवधादीनि साहसान्युपन्यस्य परेण विज्ञानस्तुतिमनुसन्दधाति—‘तस्य मे तत्र लोम च न मीयते स यो मां वेद न ह वै तस्य केन च कर्मणा लोको मीयते’ इत्यादिना । एतदुक्तं भवति यस्मादीदृशान्यपि क्रूराणि कर्माणि कृतवतो मम ब्रह्मभूतस्य लोमाऽपि न हिंस्यते, स योऽन्योऽपि मां वेद न तस्य केनचिदपि कर्मणा लोको हिंस्यते इति । विज्ञेयं तु ब्रह्मैव ‘प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा’ इति वक्ष्यमाणम् । तस्मात् ब्रह्मवाक्यमेतत् ॥ ३० ॥

भाष्यका अनुवाद

ही जान) ऐसा कह कर इन्द्रने त्वष्ट्राके पुत्रके वध आदि देहके धर्मसे अपनी स्तुति की ऐसा जो कहा गया है, उसका परिहार करना चाहिए । इस विषयमें कहते हैं—त्वष्ट्रपुत्रवध आदिका उपन्यास—‘मैं ऐसा पराक्रमी हूँ, अतः मेरा ज्ञान प्राप्त करो’—यह विज्ञेय इन्द्रकी स्तुतिके लिए नहीं है । तब किसके लिए है ? विज्ञानकी स्तुतिके लिए है, क्योंकि त्वाप्स्रवध आदि साहसका उपन्यास करके विज्ञानकी स्तुतिका ‘तस्य मे तत्र लोम च न मीयते०’ (वहां मुझ पराक्रमशालीका बाल भी धांका नहीं होता, जो मुझको जानता है, उसका मोक्ष किसी भी कर्मसे नष्ट नहीं होता) इत्यादि उत्तरवाक्यसे अनुसन्धान करता है । तात्पर्य यह है कि ब्रह्मज्ञानी होकर इस प्रकारके क्रूर कर्म करनेपर भी मेरा एक बाल भी नष्ट नहीं हुआ, जो अन्य भी मुझको जानता है, उसका मोक्ष किसी भी कर्मसे नष्ट नहीं होता । विज्ञेय तो ‘प्राणोऽस्मि०’ (मैं प्राण हूँ, प्रज्ञात्मा हूँ) इस प्रकार वक्ष्यमाण ब्रह्म ही है । इस कारण यह वाक्य ब्रह्म-विषयक है ॥३०॥

रत्नप्रभा

तर्हीति । ब्रह्मज्ञानस्तुत्यर्थः स इत्याह—विज्ञानेति । नियामकं ब्रूते—यदिति । परेण तस्य मे इत्यादिना वाक्येन इति अन्वयः । स्तुतिम् आह—एतदुक्तमिति । तस्मात् ज्ञानं श्रेष्ठमिति शेषः । किं स्तुतज्ञानविषय इन्द्र इत्यत आह—विज्ञेयं त्विति ॥३०॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

तो यह किसके लिए है, यह पूछते हैं—“कथं तर्हि” इत्यादिसे । “विज्ञान” इत्यादिसे कहते हैं कि यह ब्रह्मज्ञानकी स्तुतिके लिए है । “यद्” इत्यादिसे उसका नियामक कहते हैं । “परेण” का अन्वय ‘तस्य मे’ इत्यादि वाक्यके साथ है । “एतदुक्तम्” इत्यादिसे स्तुति कहते हैं । ‘इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ है’ इतना वाक्यशेष समझना चाहिए । स्तुत ज्ञानका विषय इन्द्र ही हो, इसके उत्तरमें कहते हैं—“विज्ञेयं तु” इत्यादि ॥३०॥

जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेन्नोपासात्रैविध्या- दाश्रितत्वादिह तद्योगात् ॥ ३१ ॥

पदच्छेद—जीवमुख्यप्राणलिङ्गात्, न, इति, चेत्, न, उपासात्रैविध्यात्, आश्रितत्वात्, इह, तद्योगात् ।

पदार्थोक्ति—जीवमुख्यप्राणलिङ्गात्—‘वक्तारं विद्यात्’ इति जीवलिङ्गात्, इदं शरीरं परिगृह्योत्थापयति’ इति मुख्यप्राणलिङ्गात्, न—‘प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा’ इति श्रुतेः न केवलं ब्रह्मपरत्वम् [किन्तु जीवमुख्यप्राणोभयपरत्वम् अपि] इति चेत् न, उपासात्रैविध्यात्—उपासनात्रयस्वीकारप्रसङ्गात् [तस्य चउपक्रमोपसंहारविरोधेनानिष्टत्वात्) आश्रितत्वात्—अन्यत्र ब्रह्मलिङ्गवशात् प्राणशब्दस्य ब्रह्मवृत्तित्वाङ्गीकारात्, इह—अस्यां श्रुतावपि, तद्योगात्—हिततमत्वादिब्रह्मलिङ्गानां विद्यमानत्वात् [प्राणशब्देन ब्रह्मैवोच्यते, न जीवादिः] ।

भाषार्थ—श्रुतिमें ‘वक्तारं’० [वक्ताको जानना चाहिए] इस प्रकार जीवलिङ्गके और ‘इदं शरीरं०’ [इस शरीरको पकड़कर उठाता है] इस प्रकार मुख्यप्राणलिङ्गके होनेसे ‘प्राणोऽस्मि०’ इस वाक्यमें प्राणशब्दसे केवल ब्रह्मका बोध नहीं होता है, किन्तु जीव और मुख्यप्राणका भी बोध होता है, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होनेसे तीन उपासनाएँ माननी पड़ेंगी । उपक्रम और उपसंहारसे विरोध होनेके कारण ऐसा स्वीकार करना तो अभीष्ट नहीं है । किञ्च, ‘प्राण इति होवाच’ (छा० १।१।१५) इत्यादि स्थलोंमें ब्रह्मलिङ्ग होनेके कारण प्राणशब्दका अर्थ ब्रह्म है ऐसा स्वीकार किया गया है । इस श्रुतिमें भी हिततमत्व [अत्यन्त हित होना] आदि ब्रह्मके लिङ्ग हैं इन कारणोंसे प्राणशब्दसे यहां ब्रह्मका ही बोध होता है, जीव आदिका नहीं ।

भाष्य

यद्यप्यध्यात्मसंबन्धभूमदर्शनान्न पराचीनस्य देवतात्मन उपदेशः, तथापि न ब्रह्मवाक्यं भवितुमर्हति । कुतः ? जीवलिङ्गात् मुख्यप्राणलिङ्गाच्च । जीवस्य तावदस्मिन् वाक्ये विस्पष्टं लिङ्गमुपलभ्यते—‘न वाचं

भाष्यका अनुवाद

यद्यपि अध्यात्मसंबन्धका घाटुल्य दिखाई देता है, इससे पाल देवतात्माका उपदेश नहीं है, तो भी प्राणवाक्य केवल ब्रह्मविषयक नहीं हो सकता, क्योंकि यहां जीवके और मुख्यप्राणके भी लिङ्ग उपलब्ध होते हैं । जीवका लिङ्ग तो

भाष्य

विजिज्ञासीत्, वक्तारं विधात्' इत्यादि । अत्र हि वागादिभिः करणैर्व्यापृतस्य कार्यकरणाध्यक्षस्य जीवस्य विज्ञेयत्वमभिधीयते । तथा मुख्यप्राणलिङ्गमपि—'अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिगृह्योत्थापयति' इति । शरीरधारणं च मुख्यप्राणस्य धर्मः । प्राणसंवादे वागादीन् प्राणान् प्रकृत्य—'तान् वरिष्ठः प्राण उवाच मा मोहमापद्यथाऽहमेवैतत्पञ्चधाऽऽत्मानं प्रविभज्यैतद्प्राणमवष्टभ्य विधारयामि' (प्र० २।३) इति

भाष्यका अनुवाद

'न चाचं०' (वाणीको जाननेकी इच्छा न करे, वक्ताको जाने) इत्यादि चाम्यमें स्पष्टतया उपलब्ध होता है; क्योंकि यहां वाणी आदि इन्द्रियोंसे व्यापार करनेवाला, शरीर और इन्द्रियोंका अध्यक्ष जीव विज्ञेय है, ऐसा कहा है । इसी प्रकार 'अथ खलु प्राण एव०' निश्चय प्राण ही प्रज्ञात्मा इस शरीरको ग्रहण करके उठाता है) इसमें मुख्यप्राणका भी लिङ्ग है । शरीर धारण करना मुख्यप्राणका धर्म है, क्योंकि प्राणसंवादमें वाक् आदि प्राणोंको प्रस्तुत करके 'तान् वरिष्ठ प्राण उवाच मा मोह०' (उनमेंसे श्रेष्ठ प्राणने उनसे कहा, मोहको मत प्राप्त होओ, मैं ही पांच प्रकारसे अपने विभाग करके इस अस्थिर शरीरको आलम्बन देकर

रत्नप्रभा

देहोत्थापनं जीवलिङ्गं किं न स्यात् तत्राह—शरीरधारणं चेति । सर्वे वागादयः प्राणा अहमह श्रेष्ठ इति विवदमानाः प्रजापतिम् उपजग्मुः । स च तान् उवाच यस्मिन् उत्क्रान्ते शरीरं पापिष्ठतरं पतिष्यति स वः श्रेष्ठ इति । तथा क्रमेण वागादिषु उत्क्रान्तेषु अपि मूकादिभावेन शरीरं स्वस्थमस्थात् । मुख्यप्राणस्य तु उच्चिक्रमिपायां सर्वेषां व्याकुलत्वात्तौ तान् वागादीन् वरिष्ठः प्राण उवाच यूयं मा मोहमापद्यथ यतः अहमेवैतत् करोमि । किं तत ? पञ्चधा प्राणापानादिभावेन

रत्नप्रभाका अनुवाद

देहको उठाना, यह जीवलिङ्ग क्यों न हो इस शाङ्कर कहते हैं—'शरीरधारण च' इत्यादि । वाग् आदि सब इन्द्रियां अपने अपनेको श्रेष्ठ मानकर विवाद करती हुई [निर्णय करनेकी इच्छासे] प्रजापतिके पास पहुँचीं । प्रजापतिने उनसे कहा, तुममेंसे जिसके निकल जानेपर शरीर अतिपापिष्ठ होकर नष्ट हो जाय, वह तुममें श्रेष्ठ है । तब क्रमसे वाणी आदिके निकल जानेपर शरीर मूक, अन्ध आदि होकर स्वस्थ रहा, परन्तु जब उनमें मुख्य—श्रेष्ठ प्राण निकलने लगा, तब सब इन्द्रियां व्याकुल होने लगीं । तब प्रणने वाणी—आदिसे कहा—तुम मोहको मत प्राप्त होओ, मैं ही ऐसा करता हूँ । प्राण अपान आदि रूपसे मैं अपने पांच भाग करके इस

भाष्य

श्रवणात् । ये तु 'इमं शरीरं परिगृह्य' इति पठन्ति तेषामिमं जीव-
मिन्द्रियग्रामं वा परिगृह्य शरीरमुत्थापयतीति व्याख्येयम् । प्रज्ञात्मत्व-
मपि जीवे तावचेतनत्वादुपपन्नम् । मुख्येऽपि प्राणे प्रज्ञासाधनप्राणान्तरा-
श्रयत्वादुपपन्नमेव । जीवमुख्यप्राणपरिग्रहे च प्राणप्रज्ञात्मनोः सह-
वृत्तित्वेनाऽभेदनिर्देशः स्वरूपेण च भेदनिर्देश इत्युभयथा निर्देश उप-
पद्यते—'यो वै प्राणः सा प्रज्ञा या वै प्रज्ञा स प्राणः सह ह्येतावस्मिन्
शरीरे वसतः सहोत्क्रामतः' इति । ब्रह्मपरिग्रहे तु किं कस्माद् भिद्येत ।
तस्मादिह जीवमुख्यप्राणयोरन्यतर उभौ वा प्रतीयेयातां न ब्रह्मेति चेत् ।

भाष्यका अनुवाद

धारण करता हूँ) ऐसी श्रुति है । जो 'इमं शरीरं०' ऐसा पाठ स्वीकार करते
हैं, उनके मतमें 'इमम्' अर्थात् इस जीवको अथवा इन्द्रियसमूहको ग्रहण करके
शरीरको उठाता है, ऐसी व्याख्या करनी चाहिए । चेतन होनेके कारण
जीव प्रज्ञात्मा भी है । मुख्यप्राण भी प्रज्ञाके साधन अन्य इन्द्रियोंका आश्रय
है, इससे वह भी प्रज्ञात्मा हो सकता है । प्राणका अर्थ जीव और मुख्यप्राण
मानें तो प्राण और प्रज्ञात्मा साथ रहते हैं अतः उनका अभेदनिर्देश और स्वरूपसे
भेदनिर्देश, इस तरह दोनों प्रकारसे निर्देश संगत होते हैं । 'यो वै प्राणः सा
प्रज्ञा०' (जो प्राण है वह प्रज्ञा है जो प्रज्ञा है वह प्राण है, निश्चय ही ये दोनों
शरीरमें साथ ही साथ रहते हैं, साथ ही साथ निकलते हैं) यह श्रुति जीव
और प्राणके परिग्रहसे ही संगत होती है । प्राणका अर्थ ब्रह्म मानें तो कौन
किससे भिन्न होगा ? इससे यहां जीव और मुख्यप्राण, इन दोनोंमेंसे एक अथवा

रत्नप्रभा

आत्मानं विभज्य एतत् वाति गच्छतीति वानं तदेव बाणम् अस्थिरं शरीरम् अवष्टभ्य
आश्रित्य धारयामि इत्यर्थः । द्विवचनसहवासोत्क्रान्तिश्रुतेश्च न ब्रह्म ग्राह्यम् इत्याह—
जीवमुख्येति । अभेदनिर्देशम् आह—यो वा इति । भेदम् आह—सहेति ।
यदि जीवमुख्यप्राणयोः लिङ्गाद् उपास्यत्वम्, तर्हि ब्रह्मणोऽपि लिङ्गानामुक्त-

रत्नप्रभाका अनुवाद

[वाति गच्छतीति वानं तदेव बाणं अर्थात्] अस्थिर शरीरको अवलम्बन देकर धारण करता
हूँ, ऐसा अर्थ है । श्रुतिमें द्विवचन, एक साथ रहना और एक साथ उत्क्रम होना कहा गया है,
इससे ब्रह्मका ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं—“जीवमुख्य” इत्यादिसे । “यो वा”
इत्यादिसे दोनोंका अभेद कहते हैं । “सह” इत्यादिसे भेद कहते हैं । जीव और मुख्यप्राणके
लिङ्गसे वे दोनों उपास्य हों तो, ब्रह्मके लिङ्ग भी कहे गये हैं, अतः उसकी भी उपासना होनी

भाष्य

नैतदेवम्, उपासात्रैविध्यात् । एवं सति त्रिविधमुपासनं प्रसज्येत, जीवोपासनं मुख्यप्राणोपासनं ब्रह्मोपासनं चेति । न चैतदेकस्मिन् वाक्येऽभ्युपगन्तुं युक्तम्, उपक्रमोपसंहाराभ्यां हि वाक्यैकत्वमवगम्यते । 'मामेव विजानीहि' इत्युपक्रम्य 'प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मामायुरमृतमित्युपास्व' इत्युक्त्वाऽन्ते 'स एष प्राण एव प्रज्ञात्माऽऽनन्दोऽजरोऽमृतः' इत्येकरूपाद्युपक्रमोपसंहारौ दृश्येते । तत्रार्थैकत्वं युक्तमाश्रयितुम् । न च ब्रह्मलिङ्गमन्यपरत्वेन परिणेतुं शक्यम्, दशानां भूतमात्राणां प्रज्ञामात्राणां च

भाष्यका अनुवाद

दोनों प्राणशब्दसे प्रतीत होते हैं, ब्रह्म प्रतीत नहीं होता यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा यदि माना जाय, तो तीन प्रकारकी उपासनाएँ माननी पडेंगी— जीवकी उपासना, मुख्यप्राणकी उपासना और ब्रह्मकी उपासना । एक वाक्यमें ऐसा स्वीकार करना सम्भव नहीं है । क्योंकि उपक्रम और उपसंहारसे एक-वाक्यता समझी जाती है । 'मामेव' (मुझको ही जान) ऐसा उपक्रम करके 'प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा' (मैं प्राण हूँ, प्रज्ञात्मा हूँ, मेरी आयुष् और अमृतरूपसे उपासना करो) ऐसा कहकर अन्तमें 'स एष प्राण एव' (यह प्राण ही प्रज्ञात्मा आनन्द, अजर और अमृत है) ऐसा कहा है, अतः उपक्रम और उपसंहार समान दिखाई देते हैं । इसमें एक अर्थका आश्रय करना युक्त है ।

रत्नप्रभा

त्वाद् उपासनं स्यात्, न च इष्टापत्ति, उपक्रमादिना निश्चितैकवाक्यताभङ्गप्रसङ्गात् इत्याह—नैतदेवमित्यादिना । न च स्वतन्त्रपदार्थभेदाद् वाक्यभेद किं न स्यादिति वाच्यम् । जीवमुख्यप्राणयो उक्तलिङ्गानां ब्रह्मणि नेतुं शक्यतया स्वातन्त्र्यासिद्धे, अफलपदार्थस्य फलवद्वाक्यार्थशेषत्वेन प्रधानवाक्यार्थानुसारेण तल्लिङ्गनयनस्य उचितत्वाच्च । नहि प्रधानवाक्यार्थब्रह्मलिङ्गम् अन्यथा नेतुं शक्यम् ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

चाहिए । इस विषयमें इष्टापत्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उपक्रम आदिसे निश्चित जो एक वाक्यता है, उसका भंग हा जायगा, ऐसा कहते हैं—'नैतदेवम्' इत्यादिसे । स्वतन्त्र पदार्थका भेद होनास वाक्यभेद क्यों न होगा, यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि जीव और मुख्यप्राणके जो लिङ्ग कहे गये हैं, वे ब्रह्ममें भी लगाये जा सकते हैं, इस कारण व (जीव और मुख्यप्राण) स्वतन्त्र पदार्थ नहीं हैं और जो निष्फल पदार्थ है, वह राफल वाक्यार्थका अङ्ग होता है । अतः प्रधानवाक्यक अर्थके अनुसार निष्फल पदार्थके लिङ्गका समन्वय करना युक्त है । परन्तु प्रधान

भाष्य

यदिदमुपासते' (क० १।४) इत्यादि च श्रुत्यन्तरं 'वचनादिक्रियाव्यापृतस्यै-
वाऽऽत्मनो ब्रह्मत्वं दर्शयति । यत्पुनरेतदुक्तम्—'सह ह्येतावस्मिन् शरीरे
वसतः सहोत्क्रामतः' इति प्राणप्रज्ञात्मनोर्भेददर्शनं ब्रह्मवादे नोपपद्यत इति ।
नैष दोषः, ज्ञानक्रियाशक्तिद्वयाश्रययोर्बुद्धिप्राणयोः प्रत्यगात्मोपाधिभूत-
योर्भेदनिर्देशोपपत्तेः । उपाधिद्वयोपहितस्य तु प्रत्यगात्मनः 'स्वरूपेणाऽभेद-
इत्यतः प्राण एव प्रज्ञात्मेत्येकीकरणमविरुद्धम् ।

अथवा 'नोपासत्रैविध्यादाश्रितत्वादिह तद्योगात्' इत्यस्याऽयम-
न्योऽर्थः—नः ब्रह्मवाक्येऽपि जीवमुख्यप्राणलिङ्गं विरुध्यते । कथम् ?

भाष्यका अनुवाद

ब्रह्म जानो, इसको नहीं जिसकी कि लोग उपासना करते हैं) इत्यादि दूसरी श्रुति
वचन आदि क्रियाओंमें व्यापृत आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा दिखलाती है । 'सह
ह्येतावस्मिन्' (निश्चय ये दोनों इस शरीरमें साथ ही साथ रहते हैं और साथ ही
साथ निकलते हैं) इस प्रकार प्राण और ब्रह्मात्माका भेददर्शन ब्रह्मवादमें युक्त नहीं
होता ऐसा जो पीछे कहा गया है, यह दोष नहीं है, क्योंकि प्रत्यगात्माके उपाधिभूत
ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तिके आश्रय बुद्धि और प्राणका भिन्नरूपसे निर्देश युक्त है ।
परन्तु दोनों उपाधिओंसे विशिष्ट प्रत्यगात्मा स्वरूपसे अभिन्न है, इसलिए प्राण ही
प्रत्यगात्मा है, ऐसा एकीकरण अविरुद्ध है ।

अथवा 'नोपासत्रैविध्यादाश्रितत्वादिह तद्योगात्', इस सूत्र-भागका
यह दूसरा अर्थ है—ब्रह्मवाक्यमें भी जीवके और मुख्यप्राणके लिङ्गका

रत्नप्रभा

वाच्ययोः स्वरूपतोभेदः, ताभ्याम् उपलक्ष्यारमस्वरूपामेदाद् एकत्वं निर्दिश्यते इत्याह—
नैष दोष इति । स्वमतेन सूत्रं व्याख्याय वृत्तिकृन्मतेन व्याचष्टे—अथवेति । उपासना-
त्रित्वप्रसङ्गादिति पूर्वमुक्तम् । अत्र त्रिकारकस्य एकब्रह्मविशेष्यकस्य एकस्य उपासनस्य
विवक्षितत्वाद् इत्यर्थः । अतो न वाक्यभेद इति भावः । देहचेष्टात्मकजीवनहेतुत्वं

रत्नप्रभाका अनुवाद

वही प्रका है । 'तत्' और 'त्वं' पदसे वाच्य परमात्मा और जीवात्माका स्वरूपसे भेद है, किन्तु
उन पदोंके लक्ष्यार्थ आत्मामें स्वरूपसे भेद नहीं है ऐसा निर्देश होता है ऐसा कहते हैं—
'नैष दोष' इत्यादिसे । अपने मतसे सूत्रका व्याख्यान कर अब वृत्तिकारके मतसे व्याख्यान
करते हैं—'अथवा' इत्यादिसे । तात्पर्य यह है कि उपासना तीन प्रकारकी माननी परेगी
ऐसा पहले कहा है । महापर प्रभा ही एक ही उपासना धर्मभेदसे तीन प्रकारकी बन्दी गई है ।

भाष्य

उपासात्रैविध्यात् । त्रिविधमिह ब्रह्मोपासनं विवक्षितं प्राणधर्मेण, प्रज्ञाधर्मेण, स्वधर्मेण च । तत्र 'आयुरमृतमुपास्वायुः प्राणः' इति, 'इदं शरीरं परिगृह्योत्थापयति' इति, 'तस्मादेतदेवोक्त्यमुपासीत' इति च प्राणधर्मः । 'अथ यथाऽस्यै प्रज्ञायै सर्वाणि भूतान्येकीभूवन्ति तत्र्याख्यास्यामः' इत्युपक्रम्य 'वागेवास्या एकमङ्गमदूदुहत्तस्यै नाम परस्तात् प्रतिविहिताः भूतमात्राः

भाष्यका अनुवाद

विरोध नहीं है । विरोध क्यों नहीं है ? इसलिए कि उपासनाएँ तीन प्रकारकी हैं । यहाँ प्राणधर्मसे, प्रज्ञाधर्मसे और स्वधर्मसे तीन प्रकारकी ब्रह्मोपासनाएँ कही गई हैं । उनमें 'आयुरमृतमु०' (आयुपरूपसे, अमृतरूपसे मेरी उपासना करो, आयु प्राण है) 'इदं शरीरं०' (प्राण इस शरीरको ग्रहण करके उठाता है) और 'तस्मादेत०' (इसलिए उसकी उक्त्यरूपसे उपासना करे) ये प्राणधर्म हैं । 'अथ यथास्यै प्रज्ञायै०' (अब जिस प्रकार इस प्रज्ञारूप जीवके सम्बन्धी सब भूत—दृश्य अधिष्ठानचिद्रूपमें एकताको प्राप्त होते हैं, उस प्रकारका व्याख्यान करेंगे) ऐसा उपक्रम करके 'वागेवास्या एकमङ्गमदूदुहत्०' (वाणीने ही इस प्रज्ञाके एक अङ्गको—देहार्थको पूर्ण किया उसकी [चक्षु आदिसे]

रत्नप्रभा

प्राणस्य आयुष्ट्वम्, देहापेक्षया तस्य आमुक्ते अवस्थानाद् अमृतत्वम्, उत्थापयति इति उक्त्यत्वम्, इति प्राणधर्मः । जीवधर्ममाह—अथेति । बुद्धिप्राणयोः सहस्थित्युत्क्रान्त्युक्त्यनन्तरम् इत्यर्थः । अत्र प्रज्ञापदेन सामासा जीवाख्या बुद्धिः उच्यते । तस्याः सम्बन्धीनि दृश्यानि सर्वाणि भूतानि यथैकं भवन्ति अधिष्ठानचिदात्मना, तथा व्याख्यास्याम इति उपक्रम्य उक्तम्—वागेवेत्यादि । चक्षु एव अस्याः एकम् अङ्गम् अदूदुहद् इत्यादिपर्यायाणा संक्षिप्तार्थ उच्यते । उत्पन्नाया अस-

रत्नप्रभाका अनुवाद

इस कारणसे वाङ्मयमेद नहीं है । देहके चेटात्मक जीवनका हेतु प्राण है, अतः प्राण आयु कहलाता है । मुक्तिपर्यन्त प्राणभी स्थिति होती है इस कारण वह देहकी अपेक्षा अमृत है । शरीरको उठाता है, इससे प्राण उक्त्य कहलाता है, ये प्राणके धर्म हैं । जीवके धर्म कहते हैं—“अथ” इत्यादिसे । “अथ”—बुद्धि और प्राण साथ ही साथ रहते हैं और साथ ही साथ निकलते हैं, इस कथनके अनन्तर । यहाँपर प्रज्ञाशब्दका अर्थ है—आभाससहित जीवसंज्ञक बुद्धि । उसके सम्बन्धी सब दृश्य भूत अधिष्ठान चिदात्मामें जिस तरह मिल जाते हैं, उस प्रकारका हम व्याख्यान करेंगे, ऐसा उपक्रम करके कहा है—“वागेव” इत्यादि । नेत्रने ही इसके एक अङ्गको

भाष्य

ब्रह्मणोऽन्यत्रार्पणानुपपत्तेः । आश्रितत्वाच्च, अन्यत्रापि ब्रह्मलिङ्गवशात् प्राणशब्दस्य ब्रह्मणि वृत्तेः । इहापि च हिततमोपन्यासादिब्रह्मलिङ्गयोगाद् ब्रह्मोपदेश एवायमिति गम्यते । यत्तु मुख्यप्राणलिङ्गं दर्शितम्— 'इदं शरीरं परिगृह्योत्थापयति' इति । तदसत् । प्राणव्यापारस्यापि परमात्मायत्तत्वात् परमात्मन्युपचरितुं शक्यत्वात्,

भाष्यका अनुवाद

और ब्रह्मलिङ्गका अन्यमें समन्वय नहीं कर सकते, क्योंकि दस भूतमात्राओं और दस प्रज्ञामात्राओंको ब्रह्मसे अन्यमें अर्पण करना युक्त नहीं है । दूसरे स्थलोंमें भी ब्रह्मलिङ्ग होनेके कारण प्राणशब्दका अर्थ ब्रह्म माना गया है और यहां भी हिततमत्वके उपन्यास आदि ब्रह्मलिङ्गोंके संबन्धसे यह ब्रह्मका ही उपदेश है ऐसा समझा जाता है । 'इदं शरीरं' (इस शरीरको पकड़कर उठाता है । ऐसे जो मुख्यप्राणका लिङ्ग दिखलाया है, वह तो अयुक्त है, क्योंकि प्राणका व्यापारभी परमात्माके अधीन होनेसे परमात्मामें उसका उपचार किया जा सकता है, क्योंकि 'न प्राणेन नापानेन' (कोई भी मर्त्य प्राणसे

रत्नप्रभा

न वा तदुचितम्' इत्याह—न च ब्रह्मलिङ्गमिति । सूत्रोपं व्याचष्टे—आश्रितत्वाच्चेति । अन्यत्र "अत एव प्राणः" (ब्र० सू० १।१।१३) इत्यादौ वृत्तेः आश्रितत्वाद् इहापि तस्य ब्रह्मलिङ्गस्य योगाद् ब्रह्मपर एव प्राणशब्द इत्यर्थः । प्राणादिलिङ्गानि सर्वात्मके ब्रह्मणि अनायासेन नेतुं शक्यानि' इत्याह—यच्चित्यादिना । यस्मिन्नेतौ प्रेर्यत्वेन स्थितौ तेन इतरेण ब्रह्मणा सर्वे प्राणादिव्यापारं

रत्नप्रभाका अनुवाद

वाक्यार्थ जो ब्रह्म है उसके लिङ्गोंका दूसरे अर्थके अनुसार योजन करना संभव नहीं है और न योग्य ही है, ऐसा कहते हैं—“न च ब्रह्मलिङ्गम्” इत्यादिसे । “आश्रितत्वाच्च” इत्यादिसे सूत्रके अवशिष्ट भागका व्याख्यान करते हैं । दूसरे स्थलोंमें—“अतएव प्राणः” इत्यादि सूत्रोंसे 'प्राण इति होवाच' इत्यादि स्थलोंमें प्राणका अर्थ ब्रह्म माना गया है, इसी प्रकार यहां भी ब्रह्मलिङ्गके संबन्धमें प्राणशब्द ब्रह्मविषयक ही है ऐसा अर्थ है । प्राणादिके लिङ्ग सर्वस्वरूप ब्रह्ममें आसानीसे अन्वित हो सकते हैं, ऐसा कहते हैं—“यत्तु” इत्यादिमें । प्राण और अपान जिससे प्रेरित होते हैं, उस ब्रह्मके द्वारा सब प्राणन आदि व्यापार करते हैं अर्थात् जीते हैं ऐसा रामशना

- (१) पाँच महाभूत और शब्द आदि पाँच विषय ।
- (२) शब्द आदि पाँच विषयोंके ज्ञान और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ।
- (३) सबमें विशेष दिनकारक है ऐसा उपदेश ।

भाष्य

‘न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन ।

इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेताद्युपाश्रितौ ॥’

(का० २।५।५) इति श्रुतेः । यदपि ‘न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्’ इत्यादि जीवलिङ्गं दर्शितम्, तदपि न ब्रह्मपक्षं निवारयति । नहि जीवो नामाऽत्यन्तभिन्नो ब्रह्मणः, ‘तत्त्वमसि’, ‘अहं ब्रह्मास्मि’ इत्यादिश्रुतिभ्यः । युद्धाद्युपाधिकृतं तु विशेषमाश्रित्य ब्रह्मैव सन् जीवः कर्ता भोक्ता चेत्युच्यते । तस्योपाधिकृतविशेषपरित्यागेन स्वरूपं ब्रह्म दर्शयितुम् ‘न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्’ इत्यादिना प्रत्यगात्माभिमुखीकरणार्थमुपदेशो न विरुध्यते । ‘यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं

भाष्यका अनुवाद

अथवा अपानसे नहीं जीता, ये दोनों जिसमें आश्रित हैं, उस दूसरेसे जीते हैं) ऐसी श्रुति है । ‘न वाचं’ इत्यादि जो जीवलिङ्ग दिखलाये हैं, वे ब्रह्मपक्षका निवारण नहीं करते । क्योंकि ‘तत्त्वमसि’ (वह तू है) ‘अहं’ (मैं ब्रह्म हूँ) इत्यादि श्रुतियोंसे प्रतीत होता है कि वस्तुतः जीव ब्रह्मसे अत्यन्त भिन्न नहीं है । जीव यद्यपि ब्रह्म ही है, तो भी बुद्धि आदि उपाधियोंसे किये हुए विशेषका आश्रय करके कर्ता और भोक्ता कहलाता है । उपाधिजनित विशेषका परित्याग करके स्वरूपभूत ब्रह्मको दिखलानेके लिए ‘न वाचं’ इत्यादिसे जीवको प्रत्यगात्माकी ओर अभिमुख करानेके लिए उपदेश देना अनुचित नहीं है । ‘यद्वाचानभ्युदितं’ (जो वाणीसे उदित नहीं है जिससे वाणी प्रेरित होती है, उसीको तुम

रत्नप्रभा

कुर्वन्ति इत्यर्थः । विशेषम्—परिच्छेदाभिमानम् इत्यर्थः । ‘वक्तारं विद्यात्’ इति न वक्तुः-श्रेयत्वम् उच्यते, तस्य लोकसिद्धत्वात्, किन्तु तस्य ब्रह्मत्वं बोध्यते । तद्वोधाभिमुख्याय लिङ्गादय इति । अत्र श्रुत्यन्तरमाह—यद्वाचेति । येन चैतन्येन वाग् अभ्युद्यते स्वकार्याभिमुख्येन प्रेर्यते तदेव वागादेरगम्यं ब्रह्म इत्यर्थः । तत्त्वम्पद

रत्नप्रभाका अनुवाद

चाहिए । भाष्यस्य ‘उपाधिकृतविशेषपरित्यागेन’ इस वाक्यमें विशेषका ‘अर्थ है—परिच्छेदका अभिमान । ‘वक्तारं विद्यात्’ इसमें वक्ता श्रेय है ऐसा नहीं कहा है, क्योंकि वह लोकसिद्ध है, परन्तु वह ब्रह्म है, ऐसा बोध कराया जाता है । ब्रह्मका बोध करानेके लिए लिष् आदि हैं इस विषयमें दूसरी श्रुति उद्धृत करते हैं—‘यद्वाचा’ इत्यादिसे । तात्पर्य यह है कि जिस चैतन्यसे वाणी अपने कार्यमें प्रेरित होती है अर्थात् भाषणसामर्थ्यसे पुक वी जाती है, वाणी आदिसे अगम्य

भाष्य

यदिदमुपासते' (क० १।४) इत्यादि च श्रुत्यन्तरं वचनादिक्रियाव्यापृतस्यै-
वाऽऽत्मनो ब्रह्मत्वं दर्शयति । यत्पुनरेतदुक्तम्—'सह ह्येतावस्मिन् शरीरे
वसतः सहोत्क्रामतः' इति प्राणप्रज्ञात्मनोर्भेददर्शनं ब्रह्मवादे नोपपद्यत इति ।
नैष दोषः, ज्ञानक्रियाशक्तिद्वयाश्रययोर्बुद्धिप्राणयोः प्रत्यगात्मीयाधिभूत-
योर्भेदनिर्देशोपपत्तेः । उपाधिद्वयोपहितस्य तु प्रत्यगात्मनः 'स्वरूपेणाऽभेद-
इत्यतः प्राण एव प्रज्ञात्मेत्येकीकरणमविरुद्धम् ।

अथवा 'नोपासात्रैविध्यादाश्रितत्वादिह तद्योगात्' इत्यस्याऽयम-
न्योऽर्थः—न ब्रह्मवाक्येऽपि जीवमुख्यप्राणलिङ्गं विरुध्यते । कथम् ?

भाष्यका अनुवाद

ब्रह्म जानो, इसको नहीं जिसकी कि लोग उपासना करते हैं) इत्यादि दूसरी श्रुति
वचन आदि क्रियाओंमें व्यापृत आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा विसर जाती है । 'सह
ह्येतावस्मिन्' (निश्चय ये दोनों इस शरीरमें साथ ही साथ रहते हैं और साथ ही
साथ निकलते हैं) इस प्रकार प्राण और प्रज्ञात्माका भेददर्शन ब्रह्मवादमें युक्त नहीं
होता ऐसा जो पीछे कहा गया है, यह दोष नहीं है, क्योंकि प्रत्यगात्माके उपाधिभूत
ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तिके आश्रय बुद्धि और प्राणका भिन्नरूपसे निर्देश युक्त है ।
परन्तु दोनों उपाधियोंसे विशिष्ट प्रत्यगात्मा स्वरूपसे अभिन्न है, इसलिए प्राण ही
प्रत्यगात्मा है, ऐसा एकीकरण अविरुद्ध है ।

अथवा 'नोपासात्रैविध्यादाश्रितत्वादिह तद्योगात्' इस सूत्र-भागका
यह दूसरा अर्थ है—ब्रह्मवाक्यमें भी जीवके और मुख्यप्राणके लिङ्गका-

रत्नप्रभा

वाच्ययोः स्वरूपतोभेदः, ताभ्याम् उपलक्ष्यात्मस्वरूपाभेदाद् एकत्वं निर्दिश्यते इत्याह—
नैष दोष इति । स्वमतेन सूत्रं व्याख्याय वृत्तिकृन्मतेन व्याचष्टे—अथवेति । उपासना-
त्रित्वप्रसङ्गादिति पूर्वमुक्तम् । अत्र त्रिप्रकारकस्य एकब्रह्मविशेष्यकस्य एकस्य उपासनस्य
विवक्षितत्वाद् इत्यर्थः । अतो न वाक्यभेद इति भावः । देहचेष्टात्मकजीवनहेतुत्वं-

रत्नप्रभाका अनुवाद

नहीं ब्रह्म है । 'तत्' और 'त्वं' पदसे वाच्य परमात्मा और जीवात्माका स्वरूपसे भेद है, किन्तु
उन पदोंके लक्ष्यार्थ आत्मामें स्वरूपसे भेद नहीं है ऐसा निर्देश होता है ऐसा कहते हैं—
"नैष दोषः" इत्यादिसे । अपने मतसे सूत्रका व्याख्यान कर अब वृत्तिकारके मतसे व्याख्यान
करते हैं—"अथवा" इत्यादिसे । तात्पर्य यह है कि उपासना तीन प्रकारकी माननी पड़ेगी
ऐसा पहले कहा है । यहाँपर ब्रह्मकी एक ही उपासना धर्मभेदसे तीन प्रकारकी कही गई है ।

भाष्य

उपासात्रैविध्यात् । त्रिविधमिह ब्रह्मोपासनं विवक्षितं प्राणधर्मेण, प्रज्ञाधर्मेण, स्वधर्मेण च । तत्र 'आयुरमृतमुपास्स्वायुः प्राणः' इति, 'इदं शरीरं परिगृह्णोत्थापयति' इति, 'तस्मादेतदेवोक्तमुपासीत' इति च प्राणधर्मः । 'अथ यथाऽस्यै प्रज्ञायै सर्वाणि भूतान्येकीभूवन्ति तन्नाख्यास्यामः' इत्युपक्रम्य 'वागेवास्या एकमङ्गमदृदुहत्तस्यै नाम परस्तात् प्रतिविहिताः भूतमात्राः

भाष्यका अनुवाद

विरोध नहीं है । विरोध क्यों नहीं है ? इसलिए कि उपासनाएँ तीन प्रकारकी हैं । यहाँ प्राणधर्मसे, प्रज्ञाधर्मसे और स्वधर्मसे तीन प्रकारकी ब्रह्मोपासनाएँ कही गई हैं । उनमें 'आयुरमृतमु०' (आयुपरूपसे, अमृतरूपसे मेरी उपासना करो, आयुप् प्राण है) 'इदं शरीरं०' (प्राण इस शरीरको ग्रहण करके उठाता है) और 'तस्मादेत०' (इसलिए उसकी उक्त्यरूपसे उपासना करे) ये प्राणधर्म हैं । 'अथ यथास्यै प्रज्ञायै०' (अब जिस प्रकार इस प्रज्ञारूप जीवके सम्बन्धी सब भूत—दृश्य अधिष्ठानचिद्रूपमें एकताको प्राप्त होते हैं, उस प्रकारका व्याख्यान करेंगे) ऐसा उपक्रम करके 'वागेवास्या एकमङ्गमदृदुहत्०' (वाणीने ही इस प्रज्ञाके एक अङ्गको—देहार्थको पूर्ण किया उसकी, [चक्षु आदिसे]

रत्नप्रभा

प्राणस्य आयुष्ट्वम्, देहापेक्षया तस्य आमुक्तेः अस्थानाद् अमृतत्वम्, उत्थापयति इति उक्तत्वम्, इति प्राणधर्मः । जीवधर्ममाह—अथेति । बुद्धिप्राणयोः सहस्थित्युत्क्रान्त्युक्त्यनन्तरम् इत्यर्थः । अत्र प्रज्ञापदेन साभासा जीवाख्या बुद्धिः उच्यते । तस्याः सम्बन्धीनि दृश्यानि सर्वाणि मूत्रानि यथैकं भवन्ति अधिष्ठानचिद्रूपम्, तथा व्याख्यास्याम इति उपक्रम्य उक्तम्—वागेवेत्यादि । चक्षुः एव अस्याः एकम् अङ्गम् अदृदुहद् इत्यादिपर्यायाणां संक्षिप्तार्थं उच्यते । उत्पन्नायाः अस-

रत्नप्रभाका अनुवाद

इस कारणसे वाङ्मयमेद नहीं है । देहके चेष्टात्मक जीवनसा हेतु प्राण है, अतः प्राण आयु कहलाता है । मुक्तिपर्यन्त प्राणकी स्थिति होती है इस कारण वह देहकी अपेक्षा अमृत है । शरीरको उठाता है, इससे प्राण उक्त्य कहलाता है, ये प्राणके धर्म हैं । जीवके धर्म कहते हैं—'अथ' इत्यादिसे । 'अथ'—बुद्धि और प्राण साथ ही साथ रहते हैं और साथ ही साथ निकलते हैं, इस कथनके अनन्तर । यहाँपर प्रज्ञाशब्दका अर्थ है—आभाससहित जीवसङ्ग बुद्धि । उसके सम्बन्धी सब दृश्य भूत अधिष्ठान चिदात्मामें जिस तरह मिल जाते हैं, उस प्रकारका हम व्याख्यान करेंगे, ऐसा उपक्रम करके कहा है—'वागेव' इत्यादि । नेत्रने ही इसके एक अङ्गको

• भाष्य

ब्रह्मधर्मः । तस्माद्ब्रह्मण एवैतदुपाधिद्वयधर्मेण स्वधर्मेण चैकमुपासनं त्रिविधं
विवक्षितम् । अन्यत्रापि 'मनोमयः प्राणशरीरः' (छा० ३।१।४।२) इत्या-

भाष्यका अनुवाद

दोनों उपाधियोंके धर्मसे और ब्रह्मके धर्मसे तीन प्रकारकी है, ऐसा विवक्षित
है । दूसरे स्थलोंमें भी 'मनोमयः' (प्राण जिसका शरीर है ऐसा मनोमय)
इत्यादिमें उपाधिधर्मसे ब्रह्मकी उपासनाका आश्रय किया गया है । यहाँ भी

रत्नप्रभा

कृतव्याख्यानम् । सूत्रार्थम् उपसंहरति—तस्मादिति । अन्यधर्मेणाऽन्यस्य उपा-
सनं कथम् इत्याशङ्क्याऽऽश्रितत्वाद् इत्याह—अन्यत्रापीति । उपाधिर्जीवः । तत्
अन्यधर्मेण उपासनम् । इयमसङ्गता व्याख्या । तथा हि न तावदारुण्याद्यनेक-
गुणविशिष्टाभासक्रयणवद् उपासात्रयविशिष्टस्य ब्रह्मणो विधिः सम्भवति, सिद्धस्य
विध्यनर्हत्वात् । नापि ब्रह्मानुवादेनोपासात्रयविधिः, वाक्यभेदात् । न च
नानाधर्मविशिष्टमेकमुपासनं विधीयते इति वाच्यम्, तादृशविधिवार्क्यस्याऽत्राऽ-
श्रवणात् । न च "तं मामायुरमृतमित्युपास्त्व" (कौ० ३।२) इत्यत्र मामिति

रत्नप्रभाका अनुवाद

कहते हैं—“ने” इत्यादिसे । 'तद्यथा' इत्यादिका व्याख्यान पीछे किया जा चुका है । सूत्रके अर्थका
उपसंहार करते हैं—“तस्मात्” इत्यादिसे । दूसरेके धर्मसे दूसरेकी उपासना किस प्रकार हो
सकती है, ऐसी शङ्का करके आधित होनेके कारण हो सजती है, इस प्रकार समाधान करते हैं—
“अन्यत्रापि” इत्यादिसे । उपाधि—जीव । वह—अन्यधर्मसे उपासना । श्रुतिस्वरका यह व्याख्यान
असंगत है, क्योंकि जैसे रक्तत्व आदि अनेक गुणोंसे विशिष्ट अग्रास क्रयविधि होती है,
उस प्रकार ब्रह्मकी विधि नहीं हो सकती है, क्योंकि सिद्ध पदार्थ विधिके योग्य नहीं है । ब्रह्मके
अनुवादसे तीन प्रकारकी उपासनाकी विधि है, यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा
कहनेसे वाक्यभेद होता है और अनेकधर्मविशिष्ट एक उपासनाकी विधि है, यह भी नहीं कहा

(१) 'अरुणया पित्राद्भृषैकहायन्या सोम क्रीणाति' इसमें आरुण्य (रक्तवर्ण), पित्राक्षीत्व
(पीली आँस होना) और पुरुहायनीत्व (एक वर्षकी होना) इन गुणोंसे युक्त गौसे सोमक्रयणका
निधान है । 'सोम क्रीणाति' से सोमका क्रयण तो प्राप्त है, परन्तु आरुण्यादिगुणयुक्त गौसे क्रयण
प्राप्त नहीं है, अतः वह विधिवान्वय है । इसमें भीमासाके सिद्धांतके अनुसार आरुण्य, पित्राक्षीत्व
और पुरुहायनीत्वका पहले क्रयसे अन्वय होता है अनन्तर गौसे । इस प्रकार आरुण्यादि अनेक गुणोंसे
विशिष्ट गौसे क्रयकी विधिकी तरह उपासनात्रयविशिष्ट ब्रह्मकी भी विधि वही नहीं है, यह पूर्वपक्षीका
आशय है ।

भाष्य

दाद्युपाधिधर्मेण ब्रह्मण उपासनमाश्रितम्, इहापि तद्युज्यते वाक्यस्योप-
क्रमोपसंहाराभ्यामेकार्थत्वावगमात् प्राणप्रज्ञाब्रह्मलिङ्गावगमाच्च । तस्माद्ब्रह्म-
वाक्यमेतदिति सिद्धम् ॥ ३१ ॥

इति श्रीमच्छारीरकमीमांसाभाष्ये श्रीशङ्करभगवत्पादकृतौ

प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १ ॥

भाष्यका अनुवाद

युक्त है, क्योंकि उपक्रम और उपसंहारसे वाक्यकी एकार्थता समझी जाती है
और प्राण, प्रज्ञा एवं ब्रह्मके लिङ्ग देखनेमें आते हैं । इस कारण सिद्ध हुआ
कि यह ब्रह्मवाक्य है ॥ ३१ ॥

यतिवर श्री भोलेवाचा कृत प्रथम अध्यायके प्रथम पादके भाष्यका

अनुवाद समाप्त ।



रत्नप्रभा

जीवेन, आयुरिति प्राणेन, अमृतमिति ब्रह्मणा स्वस्वधर्मवता विशिष्टोपासनाविधिरिति
वाच्यम्, सर्वेषां धर्माणामश्रवणाद्; ब्रह्माश्रुतेश्च । “प्राणो वा अमृतम्” इति
प्राणस्य एवामृतत्वश्रुतेः । अत्र उपासनाविधिलुब्धेन “वक्तारं विद्याद्” (कौ० ३।८)
“एतदेवोक्त्यमुपासीत” (कौ० ३।३) “स म आत्मेति विद्याद्” (कौ० ३।८)
इति जीवप्राणब्रह्मोपासनविधयः, अन्ये गुणविधय इति स्वीकृत्य एकवाक्यत्वं

रत्नप्रभाका अनुवाद

जा सकता, क्योंकि यहाँ ऐसे विधिवान्यका श्रवण नहीं है । इसी प्रकार ‘तं मामाप्तु०’ (उस
मेरी आयु, अमृतरूपसे उपासना करो) इसमें ‘माम्’ अर्थात् जीवरूपसे, ‘आयुः’ अर्थात् प्राण
रूपसे और ‘अमृतम्’ अर्थात् ब्रह्मरूपसे अपने अपने धर्मसे युक्त विशिष्ट उपासनाकी विधि है
यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सबके धर्मकी और ब्रह्मकी श्रुति (श्रवण) नहीं है ।
‘प्राणो वा०’ (प्राण ही अमृत है) इसमें प्राणमें ही अमृतत्व कहा गया है । इस कारणसे
‘वक्तारं०’ (वक्तारो जाने), ‘एतदेवोक्त्य०’ (उसी उक्त्यकी उपासना करो) ‘स म आत्मे०’
(वह मेरी आत्मा है ऐसा जाने) यह जीव, प्राण और ब्रह्मकी उपासनाविधि है, दूसरी गुण-
विधियाँ हैं, ऐसा मानकर उपासनाविधिमें लब्ध पुरुषकी एकवाक्यता त्यागनी पड़ेगी, वह तो

भाष्य

प्रज्ञया वाचं समारूह्य वाचा सर्वाणि नामान्यामोति' इत्यादिः प्रज्ञाधर्मः ।

भाष्यका अनुवाद

ज्ञापित भूतमात्रा अपर अर्धमें कारण होती हैं । बुद्धिद्वारा चिदात्मा वाणीपर समारोहण करके सब नामोंको प्राप्त करता है) इत्यादि प्रज्ञाधर्म है,

रत्नप्रभा

त्करूपायाः साभासबुद्धेः नामप्रपञ्चविषययित्वम् अर्धशरीरम्, अर्थात्मकरूपप्रपञ्चविषययित्वम् अर्धशरीरम् इति मिलित्वा विषयित्वाख्यं पूर्णं शरीरम् इन्द्रियसाध्यम् । तत्र कर्मेन्द्रियेषु वागेव अस्याः प्रज्ञया एकम् अङ्गं देहार्धम् अद्बुद्धत्त्वं पूरयामास । वागिन्द्रियद्वारा नामप्रपञ्चविषयित्वं बुद्धिः लभते इत्यर्थः । चतुर्थी पठ्यर्था । तस्या पुनर्नाम किल चक्षुरादिना प्रतिविहिता ज्ञापिता भूतमात्रा रूपाद्यर्थरूपा परस्ताद् अपरार्धे कारणं भवति । ज्ञानकरणद्वाराऽर्धप्रपञ्चविषयित्वं बुद्धिः प्राप्नोति इत्यर्थः । एवं बुद्धेः सर्वार्थद्रष्टृत्वम् उपपाद्य तन्निष्ठचित्प्रतिबिम्बद्वारा साक्षिणि द्रष्टृत्वाध्यासमाह—प्रज्ञयेति । बुद्धिद्वारा चिदात्मा वाचम् इन्द्रियं समारूह्य तस्याः प्रेरको भूत्वा वाचा करणेन सर्वाणि नामानि वक्तव्यत्वेन आमोति, चक्षुषा सर्वाणि रूपाणि पश्यति इत्येवं द्रष्टा भवति इत्यर्थः । तथा च सर्वद्रष्टृत्वं चिदा-

रत्नप्रभाका अनुवाद

पूर्ण किया इत्यादि पर्यायोका सक्षिप्त अर्थ कहते हैं । उत्पन्न हुई असत्स्व आभास सहित बुद्धिका अर्धशरीर नामप्रपञ्चविषयित्व है और दूसरा अर्धशरीर अर्थात्मक रूपप्रपञ्चविषयित्व है । इस प्रकार दो अर्थ मिलकर विषयित्व नामक पूर्ण शरीर होता है जो कि इन्द्रियसाध्य है । उसमें कर्मेन्द्रियोंमेंसे वाणीने ही इस प्रज्ञाके एक अङ्ग-देहार्धमें पूर्ण किया । नामात्मकप्रपञ्च विषय है, उसमें वाणी द्वारा प्रविष्ट हुई बुद्धि उस विषयके प्रति विषयिता प्राप्त करती है । 'वागेवास्या एकमङ्गमद्बुद्धत्तस्यै नाम' इस श्रुतिमें 'तस्यै' यहापर चतुर्थीका प्रयोग पष्ठीविभक्तिके अर्थमें है । और चक्षु आदिसे ज्ञापित अर्थात्मक रूप आदि स्वल्प भूतमात्राएँ इस प्रज्ञाके अपर भागमें कारण होती हैं । बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय द्वारा अर्धप्रपञ्चका विषयित्व प्राप्त करती है ऐसा तात्पर्य है । इस प्रकार बुद्धि सब पदार्थोंको देखनेवाली है, ऐसा युक्तिपूर्वक दिखलाकर, उसमें स्थित चैतन्य-प्रतिबिम्बके द्वारा साक्षीमें द्रष्टृत्वका अध्यास होता है, ऐसा कहते हैं—'प्रज्ञया' इत्यादिसे । चिदात्मा बुद्धि द्वारा वागिन्द्रियपर आह्व होकर अर्थात् उसका प्रेरक होकर वागिन्द्रिय द्वारा सब नामप्रपञ्चकी वक्तव्यत्वरूपसे प्राप्त करता है अर्थात् वक्ता होता है । नेत्रसे सब रूपोंको देखता है, इस प्रकार द्रष्टा होता है, इसी प्रकार सब पदार्थोंका द्रष्टृत्व और चिदात्मानमें उस

भाष्य

'ता वा एता दशैव भूतमात्रा अधिप्रज्ञं दश प्रज्ञामात्रा अधिभूतम् । यदि भूतमात्रा न स्युर्न प्रज्ञामात्राः स्युः, यदि प्रज्ञामात्रा न स्युर्न भूतमात्राः स्युः । नहान्यतरतो रूपं किञ्चन सिद्धयेत् । नो एतन्नाना । 'तद्यथा रथस्याऽरेषु नेमिरर्पिता नाभाचरा अर्पिता एवमेवैता भूतमात्राः प्रज्ञामात्राः स्वर्पिताः प्रज्ञामात्राः प्राणैर्पिताः स एव प्राण एव प्रज्ञात्मा' इत्यादि-

भाष्यका अनुवाद

'ता वा एता दशैव भूतमात्रा०' (वे ये दस ही भूतमात्राएँ प्रज्ञाके अधीन हैं, और दस प्रज्ञामात्राएँ भूतके अधीन हैं । यदि भूतमात्राएँ न हों, तो प्रज्ञामात्राएँ न हों, और यदि प्रज्ञामात्राएँ न हों, तो भूतमात्राएँ न हों, क्योंकि दोनोंमें एकसे कोई रूप सिद्ध न होगा । यह नाना नहीं है । जैसे रथके अरोंमें नेमि अर्पित है और नेमिमें अर अर्पित हैं, इसी प्रकार ये भूतमात्राएँ प्रज्ञामात्राओंमें अर्पित हैं और प्रज्ञामात्राएँ प्राणमें अर्पित हैं, यह प्राण ही प्रज्ञात्मा है) इत्यादि ब्रह्मधर्म हैं । इस कारण ब्रह्मकी ही एक 'उपासना सन

रत्नप्रभा

त्मनि द्रष्टृत्वाध्यासनिमित्तत्वं च बुद्धेः धर्म इत्युक्तं भवति । सर्वाधारत्वानन्दत्वादिः ब्रह्मधर्म इत्याह—ता वा इति । दशत्वं व्याख्यातम् । प्रज्ञा इन्द्रियजाः, ताः अधिकृत्य ब्राह्म भूतमात्रा वर्चन्ते, प्रज्ञामात्रा इन्द्रियाणि ब्राह्म भूतजातम् अधिकृत्य वर्चन्ते इति ब्राह्मब्राह्मणयोः मिथ सापेक्षत्वम् उक्तं साधयति—यदिति । तदेव स्फुटयति—नहीति । ब्राह्मणेण ब्राह्मस्वरूपं न सिद्धयति किन्तु ब्राह्मकेण, एवं ब्राह्मणमपि ब्राह्ममनपेक्ष्य न सिध्यति, तस्मात् सापेक्षत्वाद् एतद् ब्राह्मब्राह्मणद्वयं वस्तुतो न भिन्नम्, किन्तु चिदात्मनि आरोपितम् इत्याह—नो इति । तद्यथेत्यादि

रत्नप्रभाका अनुवाद

द्रष्टृत्वके अध्यासका कारण होना बुद्धिके ही धर्म हैं ऐसा कहा गया है । सवसा आधार होना और आनन्दस्वरूपत्वे ब्रह्मधर्म है ऐसा कहते हैं—'ता वा' इत्यादिसे । दस तिरा प्रसार है, उसका व्याख्यान पहले किया गया है । ब्राह्म-भूतमात्राएँ इन्द्रियसे उत्पन्न हुई प्रज्ञामात्राओंके अधीन रहती हैं और प्रज्ञामात्राएँ—इन्द्रिया ब्राह्म भूतसमूहके अधीन रहती हैं, इस प्रकार ब्राह्म और ब्राह्मण परस्पर सापेक्ष हैं, ऐसा जो कहा है उसनी पुष्टि करते हैं—'यद्' इत्यादिसे । उसे ही स्पष्ट करते हैं—'नहि' इत्यादिसे । ब्राह्मसे ही ब्राह्मका स्वरूप सिद्ध नहीं होता, किन्तु ब्राह्मणसे सिद्ध होता है, इसी प्रकार ब्राह्मण भी ब्राह्मकी अपेक्षाके बिना सिद्ध नहीं होता । इस तरह ब्राह्म और ब्राह्मण, परस्पर सापेक्ष होनेसे, वस्तुतः भिन्न नहीं हैं, किन्तु चिदात्मनि आरोपित हैं, ऐसा

रत्नप्रभा

त्याज्यम्, तच्चाऽयुक्तम् उपक्रमादिना एकवाक्यतानिर्णयात् । तस्माद् शेषप्रत्यग्नद्व-
परमिदं वाक्यमित्युपसंहरति—तस्मादिति ॥३१॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्गोपालसरस्वतीपूज्यपादशिष्य-
श्रीरामानन्दसरस्वतीकृतौ श्रीमच्छारीरकमीमांसादर्शन-

भाष्यव्याख्यायां रत्नप्रभायां प्रथमाध्यायस्य

प्रथमः पादः समाप्तः ॥१॥१॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

युक्त नहीं है, क्योंकि उपक्रम आदिसे एकवाक्यताका निर्णय होता है । इस कारण यह वाक्य
शेष प्रत्यग्नद्वपरक है, ऐसा "तस्मात्" इत्यादिसे उपसंहार करते हैं ॥ ३१ ॥

* यतिवर श्रीभोल्लेवावा कृत प्रथमाध्यायके प्रथमपादका रत्नप्रभानुवाद समाप्त *



१. शुद्धित पुस्तकोंके अनुसार पढ़ते हम भी यही समझते थे कि रत्नप्रभाकार गोविन्दानन्दसरस्वती नामसे प्रसिद्ध थे । किन्तु अनुसन्ध न करनेसे प्रतीत हुआ है कि उनका नाम रामानन्द सरस्वती था । भूमिकाके इस विषयपर विशेषरूपसे प्रकाश डालनेकी चेष्टा की जायगी ।

* ॐ नमः परमात्मने *

प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः ।

[अत्राऽस्पष्टब्रह्मलिङ्गयुक्तवाक्यानामुपास्यब्रह्मविषयाणां विचारः]

भाष्य

प्रथमे पादे 'जन्माद्यस्य यतः' इत्याकाशादेः समस्तस्य जगतो जन्मादिकारणं ब्रह्मेत्युक्तम् । तस्य समस्तजगत्कारणस्य ब्रह्मणो व्यापित्वं नित्यत्वं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वं सर्वात्मकत्वमित्येवंजातीयका धर्मा उक्ता एव भवन्ति । अर्थान्तरप्रसिद्धानां च केषाञ्चिच्छब्दानां ब्रह्मविषयत्वहेतु-

भाष्यका अनुवाद

प्रथम पादमें 'जन्माद्यस्य यतः' से आकाश आदि समस्त जगत्के जन्म आदिका कारण ब्रह्म कहा गया है । समस्त जगत्का कारण जो ब्रह्म है उसके व्यापित्व, नित्यत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व, सर्वात्मत्व आदि धर्म अर्थतः कहे ही गये हैं । दूसरे अर्थमें प्रसिद्ध कुछ शब्द ब्रह्मविषयक हैं इसमें हेतु दिखलाकर कुछ वाक्य जिनमें ब्रह्मलिङ्ग तो स्पष्ट हैं, परन्तु सन्देह होता है कि वे ब्रह्मविषयक हैं

रत्नप्रभा

श्रीरामं सिद्धमत्तारं गुहाशायिनमन्तरम् ।

अन्तर्यामिणमज्ञेयं वैश्वानरमहं भजे ॥ १ ॥

पूर्वपादेन उत्तरपादयोः सङ्गतिं वक्तुं वृत्तमनुवदति—प्रथम इति । जगत्कारणत्वोक्त्या व्यापित्वादिकमर्थात् सिद्धम् । तदुपजीव्य उत्तरं पादद्वयं प्रवर्तते इति हेतुहेतुमद्भावः सङ्गतिः । कथं पादभेद इत्याशङ्क्य पादानां प्रमेयभेद-

रत्नप्रभाका अनुवाद

नित्य, सब जगत्का संहार करनेवाले, बुद्धिरूप गुहामें स्थित, पांच कोशोंके भीतर रहनेवाले, सर्वव्यापक, बाणों आदि इन्द्रियोंके अगोचर, सकल प्रपञ्चस्वरूप श्रीरामचन्द्रजीको मैं नमस्कार करता हूँ । पूर्वपादके साथ आगेके दो पादोंकी संगति कहनेके लिए पूर्वोक्तका अनुवाद करते हैं—“प्रथम” इत्यादिसे । ब्रह्म जगत्का कारण है, ऐसा कहनेसे व्यापित्व आदि धर्म ब्रह्ममें अर्थतः सिद्ध होते हैं । उसके आधारपर अगले दो पादोंका उत्थान होता है, अतः प्रथम पादसे इनकी हेतुहेतुमद्भाव संगति है । पादभेद किस प्रकार है ऐसी आशङ्का करके पादोंमें

(१) सर्वशक्तिमान् होना । (२) सबकी आत्मा होना । (३) इस श्लोकसे रत्नप्रभाकारने इस पादके सब अधिकरणोंका दिग्दर्शन कराया है । (४) कार्यकारण भाव ।

भाष्य

प्रतिपादनेन कानिचिद्वाक्यानि स्पष्टब्रह्मलिङ्गानि सन्दिह्यमानानि ब्रह्मपर-
तया निर्णीतानि । पुनरप्यन्यानि वाक्यान्वस्पष्टब्रह्मलिङ्गानि सन्दिह्यन्ते—
किं परं ब्रह्म प्रतिपादयन्त्याहोस्विदर्थान्तरं किञ्चिदिति । तन्निर्णयाय द्वितीय-
तृतीयौ पादावारभ्येते—

भाष्यका अनुवाद

या नहीं ? वे भी ब्रह्मविषयक ही हैं, ऐसा निर्णय किया गया है । अब जिनमें
ब्रह्मलिङ्ग स्पष्ट नहीं है, उन वाक्योंके विषयमें सन्देह होता है कि क्या वे
परब्रह्मका प्रतिपादन करते हैं अथवा किसी दूसरे अर्थका प्रतिपादन करते हैं ।
उनका निर्णय करनेके लिए दूसरे और तीसरे पादका आरम्भ किया जाता है—

रत्नप्रभा

माह—अर्थान्तरेति । आकाशादिशब्दानां स्पष्टब्रह्मलिङ्गैः ब्रह्मणि समन्वयो
दर्शितः । अस्पष्टब्रह्मलिङ्गवाक्यसमन्वयः पादद्वये वक्ष्यते । प्रायेण उपास्यज्ञेय-
ब्रह्ममेदात् पादयोः अवान्तरभेद इति भावः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

प्रतिपाद्य वस्तुका भेद है ऐसा कहते हैं—“अर्थान्तर” इत्यादिसे । प्रथमपादमें आकाश
आदि शब्दोंका स्पष्टब्रह्मलिङ्ग होनेसे ब्रह्ममें समन्वय दिखलाया है । अगले दो पादोंमें
जिनमें ब्रह्मलिङ्ग स्पष्ट नहीं है, उन वाक्योंका ब्रह्ममें समन्वय दिखलावेंगे । द्वितीय पादमें
मुख्यरूपसे उपास्य ब्रह्मका निरूपण है और तृतीय पादमें ज्ञेय ब्रह्मका निरूपण है, यही इन
दो पादोंका अवान्तर भेद है ।

(१)जिन लिङ्गोंमें जीवादिविषयकत्वकी संभावना रहती है और स्वरसतया जीव आदिमें ही समन्वित हो
सकनेके कारण जिनके ब्रह्मविषयकत्वका आभिभव हो जाता है, वे अस्पष्टब्रह्मलिङ्ग कहलाते हैं । प्रथमपादमें
अंतरधिकरणमें यद्यपि रूपवत्त्व आदि लिङ्ग जीवविषयक प्रतीत होते हैं तो भी वे स्वरसतया ब्रह्मका
भी प्रतिपादन करते हैं, अतः उनके ब्रह्मविषयकत्वका आभिभव नहीं है । आकाश और प्रस्ताववाक्यमें
अन्यविषयक श्रुतिसे बाध कहकर उसका उच्चार किया गया है, ब्रह्मलिङ्ग तो स्पष्ट ही है ।
ज्योतिवाक्यमें भी प्रसिद्धि और श्रुतिसे पूर्वपक्ष है, लिङ्ग तो ब्रह्मके ही है । तेजोलिङ्ग तो कौशेय
ज्योतिमें ही दिखाया गया है, परन्तु प्रकरणबलसे उसमें ब्रह्मलिङ्गत्व स्पष्ट ही है । प्रतर्दनवाक्यमें भी
उपक्रम और उपसंहार वाक्यकी प्रवृत्तासे ब्रह्मविषयकत्व स्पष्ट है । अतः पूर्वपादमें विषयत्वेन
उदात्त सव वाक्य स्पष्टब्रह्मलिङ्गक ही हैं । द्वितीय और तृतीय पादमें तो विषयवाक्यगत लिङ्ग
स्वरसतया जीवादिमें ही समन्वित होते हैं, अतः वहाँ ब्रह्मविषयकत्वका आभिभव है ।

[१ सर्वत्र प्रसिद्धयधिकरण सू० १-८]

मनोमयोऽयं शरीर ईशो वा प्राणमानसे ।

हृदयस्थित्यणीयस्त्वे जीवे स्युस्तेन जीवगाः ॥ १ ॥

शमवाक्यगतं ब्रह्म तद्विज्ञादिरपेक्षते ।

प्राणादियोगश्चिन्तार्थश्चिन्त्यं ब्रह्म प्रसिद्धितः ॥ २* ॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—‘मनोमयः प्राणशरीरो भावरूपः’ इसमें उक्त मनोमय जीव है या परमेश्वर ?

पूर्वपक्ष—प्राण और मनसे सम्बन्ध होना, हृदयमें रहना एवं अति सूक्ष्म होना जीवमें ही सम्भव है, अतः मनोमयत्व आदि धर्मोंका सम्बन्ध होनेसे मनोमय जीव ही है ।

सिद्धान्त—‘मनोमय’ पदगत (मयट्) तद्वित और प्राणशरीरपदका बहुव्रीहिसमास ‘सर्वे स्वस्वियं ब्रह्म’ इस शमवाक्यमें प्रस्तुत ब्रह्मकी अपेक्षा करते हैं । ब्रह्ममें प्राण और मनका सम्बन्ध उपासनाके लिए कहा गया है । सब वेदान्त-वाक्योंमें उपास्यरूपसे प्रसिद्ध ब्रह्मका ही यहाँ ग्रहण करना उचित है, अतः मनोमय ब्रह्म ही है ।

* निष्कर्ष यह है कि छान्दोग्यके तृतीय अध्यायमें शाण्डिल्यविद्यामें श्रुति है—“मनोमयः प्राणशरीरो भावरूपः” (छा० ३।१।२) (मनोमय प्रकाररूप है और उसका प्राण ही शरीर है) यहाँपर सन्देह होता है कि मनोमयपदसे जीव लिया जाय अथवा ब्रह्म ?

पूर्वपक्षी कहता है कि मनोमयपदसे जीवका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि मनके सम्बन्धका और प्राणके सम्बन्धका जीवमें ही अच्छी तरह सम्बन्ध हो सकता है । ‘मनका विकार ही मनोमय कहलाता है’ इससे मनका सम्बन्ध और ‘प्राण है शरीर जिसका उसे प्राणशरीर कहते हैं’ इससे प्राणका सम्बन्ध स्पष्टतरा प्रतीत होते हैं । ईश्वरमें मन और प्राणके सम्बन्धका सम्बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि ‘अप्राणो ह्यमनाः’ (ईश्वर प्राणरहित और मनरहित है) इत्यादि श्रुतिसे उनमें मन और प्राणके सम्बन्धका निषेध है । दूसरी बात यह भी है कि ‘एष म आत्मान्तर्हृदयेऽणीयान्’ (यह मेरा आत्मा मेरे हृदयमें अत्यन्त अणुरूप है) इत्यादि श्रुतिसे प्रतिपादित हृदयमें स्थिति और अत्यन्त सूक्ष्मता निराधार और सर्वव्यापक परमात्मामें किसी प्रकार भी उपपन्न नहीं हो सकती, इसलिए मनोमयसे जीवका ही ग्रहण है ।

सिद्धान्ती कहते हैं—“सर्वे स्वस्वियं ब्रह्म तज्जलान् शान्त उपासीत” इस शमविधिपरक पूर्व-वाक्यमें जो ब्रह्म प्रस्तुत है, वही यहाँपर ‘मनोमय’ ‘प्राणशरीर’ क्रमशः तद्वित और बहुव्रीहिसमास घटित पदोंके विशेष्यरूपसे अभीष्ट है । शमवाक्यका यह अर्थ है कि यह सारा जगत् ब्रह्मसे उत्पन्न होने, ब्रह्ममें लीन होने और ब्रह्ममें जीनेके कारण ब्रह्म है इसलिए सर्वस्वरूप ब्रह्ममें राग, द्वेष आदि विषयोंका सम्भव न होनेसे उपासनाकालमें शान्त होवे । इस वाक्यमें प्रस्तुत ब्रह्मका

सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् ॥ १ ॥

पदच्छेद—सर्वत्र, प्रसिद्धोपदेशात् ।

पदार्थोक्ति—सर्वत्र—सर्वेषु वेदान्तेषु, प्रसिद्धोपदेशात्—प्रसिद्धस्य जगत्कारणस्य ब्रह्मण एव 'सर्वं खल्विदं' इत्यादिवाक्ये उपक्रान्तस्य 'मनोमयः' इति वाक्ये उपास्यत्वेन उपदेशात् [मनोमयः ब्रह्मैव न जीवः] ।

भाषार्थ—सर्व वेदान्तोमें प्रसिद्ध तथा 'सर्वं खल्विदं' इत्यादि वाक्यमें उपक्रान्त जगत्कारण ब्रह्मका ही 'मनोमय' वाक्यमें उपदेश है, अतः मनोमय ब्रह्म ही है, मनोमय जीव नहीं है ।



भाष्य

इदमात्रायते—'सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत,
भाष्यका अनुवाद

'सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति०' (निश्चय यह सब ब्रह्म ही है, क्योंकि उससे—ब्रह्मसे यह उत्पन्न हुआ है, उसमें लीन होता है और उसमें चेष्टा करता है,

रत्नप्रभा

छान्दोग्यवाक्यम् उदाहरति—इदमिति । तस्मात् जायते इति तज्जम्, तस्मिन् लीयते इति तल्लम्, तस्मिन्निति चेष्टते इति तदनम् । तज्जञ्च तल्लञ्च तदनञ्चेति तज्जलान् । कर्मधारयेऽस्मिन् शाकपार्थिवन्यायेन मध्यमपदस्य तच्छब्दस्य लोपः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

छान्दोग्यवाक्यको उद्धृत करते हैं—“इदं” इत्यादिसे । यह जगत् उससे उत्पन्न होता है अतः 'तज्ज' कहलाता है, उसमें लीन होता है अतः 'तल्ल' कहलाता है, उससे व्यवहार करता है अतः 'तदन' कहलाता है, वही तज्ज और तल्ल एवं तदन है ऐसा कर्मधारय समास है । 'शाकप्रियः प्रार्थिवः—शाकपार्थिवः' इसमें जैसे मध्यम 'प्रिय' पदका लोप होता है, उसी प्रकार तज्ज, तल्ल, तदन पदोंके समासमें मध्यम तत् पदोंका लोप होकर 'तज्जलान्' ऐसा रूप बना

विशेषरूपसे अन्वय होनेपर मनोमयवाक्य भी ब्रह्मपरक ही होगा । यह भी नहीं कह सकते हैं कि ब्रह्मके साथ मन और प्राणना संबन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि निर्गुण ब्रह्ममें मन और प्राणके संबन्धका सामञ्जस्य न होनेपर भी सोपाधिक उपास्य ब्रह्ममें ध्यानके लिए उनके संबन्धका सामञ्जस्य है ही । इसलिए सभी वेदान्तवाक्योंमें जो उपास्यरूपसे प्रसिद्ध है, यहा ब्रह्म यहाँ भी उपास्यरूपसे कहा गया है । इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्म ही उपास्य है ।

भाष्य

अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिँल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्वीत, मनोमयः प्राणगरीरो भारूपः' (छा० ३।१।१,२)

भाष्यका अनुवाद

इस कारण शान्त होकर उस ब्रह्मकी उपासना करनी चाहिए। जीव सङ्कल्पमय है, पुरुष इस लोकमें जैसे सङ्कल्प करता है, इस लोकसे मरकर वैसे ही होता है। इसलिए पुरुषको मनोमय, प्राणगरीर और चैतन्यस्वरूपका ध्यान करना चाहिए।

रत्नप्रभा

तज्जलानम् इति वाच्ये छान्दसोऽवयवलोपः। इतिशब्दो हेतौ। सर्वमिदं जगद् ब्रह्मैव, तद्विवर्तत्वाद् इत्यर्थः। ब्रह्मणि मित्रामित्रभेदाभावात् शान्तो रागादिरहितो भवेद् इति गुणविधिः। स क्रतुम्—उपासनं कुर्वीत इति विहितोपासनस्य 'उपासीत'इत्यनुवादात् फलमाह—अथेति। क्रतुमयः संकल्पविकार इत्यर्थः। पुरुषस्य ध्यानविकारत्वं स्फुटयति—यथेति। इह यद् ध्यायति मृत्वा ध्यान-

रत्नप्रभाका अनुवाद

है। वस्तुतः 'तज्जलानम्' रूप होना चाहिए किन्तु उसमें अन्तिम भाग 'अम्' का लोप हो जाता है, यह लोप छान्दस है। 'तज्जलानिति' में 'इति' शब्द हेतुवाचक है। ब्रह्मका विवर्त होनेके कारण यह सब जगत् ब्रह्म ही है। ब्रह्ममें मित्र और शत्रुका भेद न होनेसे शान्त—रागादिरहित होना चाहिए, ऐसी गुणविधि है। 'स क्रतुं' (वह उपासना करे) इस प्रकार उपासनाका विधान है, उस उपासनाका 'उपासीत' पदमें अनुवाद किया गया है उसका फल कहते हैं—“अथ” इत्यादिसे।

(१) विवर्त—अतार्विक अन्यथाभाव। ब्रह्मवादीके मतसे ब्रह्म ही सत्य है और जगत् ब्रह्मका अतार्विक अन्यथाभाव है। जिसने पूर्वरूपका त्याग नहीं किया, ऐसे ब्रह्मका रूपान्तर (जगत्त्व) जिसमें प्रकार है ऐसा प्रतीतिविषयत्व विवर्त है। ब्रह्मवादी वेदान्तियोंके मतानुसार कारण ही कार्यरूपसे भासता है, अतः कारण ही सत्य है, कार्य सत्य नहीं है। शुक्तिमें रजतज्ञान होनेके बाद अधिष्ठानभूत शुक्तिका ज्ञान होनेपर बाधघानसे पहले जाना हुआ रजतत्व जैसे निवृत्त हो जाता है उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान होनेपर जगत् आदि भेदप्रपञ्च निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार कारण ही कार्यरूपसे भासता है, यह वाद विवर्तवाद कहलाता है। यह सत्कार्यवाद है। सांख्य भी सत्कार्यवादी है, परन्तु वे परिणामवाद मानते हैं अर्थात् वे कारण का ही कार्यरूपसे परिणाम मानते हैं। परिणामवादमें कारण और कार्य अभिन्न हैं और सत्य हैं। विवर्तवादमें भी कारण और कार्य अभिन्न हैं, परन्तु कारण ही सत्य है, कार्य मिथ्या है। रामानुजीय भी सांख्यके समान परिणामवाद मानते हैं। नैयायिक और माध्व भगवत्कार्यवादी हैं। उत्पत्तिके पहले कार्य है ही नहीं। अनन्तर कारण—सामग्रीसे कार्य उत्पन्न होता है और वह कारणसे भिन्न है। यह असत्कार्यवाद है।

(२) शान्ति गुण है, अतः शान्त होना गुणविधि कहलाती है।

भाष्य

इत्यादि । तत्र संशयः—किमिह मनोमयत्वादिभिर्धर्मैः शरीर आत्मोपास्यत्वेनोपदिश्यते, आहोस्वित् परं ब्रह्मेति । किं तावत्प्राप्तम् ?

शरीर इति । कुतः ? तस्य हि कार्यकरणाधिपतेः प्रसिद्धो मन-

भाष्यका अनुवाद

ऐसी श्रुति है । यहांपर संशय होता है कि क्या यहां मनोमयत्व आदि धर्मोंसे शरीर आत्माका उपास्यरूपसे उपदेश किया गया है अथवा परब्रह्मका । क्या प्राप्त होता है ?

पूर्वपक्षी—शरीर आत्मा है, क्योंकि शरीर और इन्द्रियोंके अधिपति शरीर आत्माका मन आदिके साथ संबन्ध प्रसिद्ध है, परब्रह्मका मन

रत्नप्रभा .

महिम्ना तद्ध्येयरूपेण जायते इत्यर्थः । क्रतुमयः सङ्कल्पप्रधान इति वाऽर्थः । क्रतोः विषयमाह—मन इति । ब्रह्मेत्युपक्रमात् मनोमयं प्राणशरीरं भारूपं सत्य-सङ्कल्पम् अन्तर्हृदये ध्येयम् इत्यर्थः । पूर्वत्र ब्रह्मलिङ्गैः अब्रह्मलिङ्गबाध उक्तः, न तथा इह उपक्रमे ब्रह्मणो लिङ्गमस्ति, किन्तु प्रकरणम् । तच्च शान्तिगुणविधानार्थम् अन्यथासिद्धम् । अतो जीवलिङ्गं ध्वलीय इति मत्सुदाहरणेन पूर्वपक्ष-यति—शरीर इत्यादिना । श्रुतिम् आशङ्क्य अन्यथासिद्ध्या परिहरति—

रत्नप्रभाका अनुवाद

क्रतुमय—सङ्कल्पविकार । पुरुष ध्यानविकार है इस बातको स्पष्ट करते हैं—“यथा” इत्यादिसे । यहाँ जितका ध्यान करते हैं मरनेके बाद ध्यानकी महिमासे उस ध्येयरूपसे जन्म पाते हैं । क्रतुमयका अर्थ सङ्कल्पप्रधान भी हो सकता है ध्यानका विषय कहते हैं—“मन” इत्यादिसे । वाक्यके आरम्भमें ब्रह्मशब्द है, अतः उसके अनुसार लिङ्गव्यत्याग करके ‘मनोमयं’ आदि रूपसे शब्दप्रयोग समझना चाहिए । मनोमय, प्राणशरीर, चैतन्यरूप और सत्यसङ्कल्प है ऐसा हृदयमें ध्यान करे ऐसा अर्थ है । पूर्वपादमें ब्रह्मलिङ्गोंसे जिनमें ब्रह्मलिङ्ग नहीं है, उन भौतिक ज्योति आदिका बाध कहा गया है । यहाँ उस प्रकार उपक्रममें ब्रह्मलिङ्ग नहीं है परन्तु ब्रह्मका प्रकरण है । यह शान्तिरूप गुणका विधान करनेके लिए है अतः अन्यथासिद्ध

(१) यद्यपि जीव मनोविकार नहीं है, न प्राण जीवका शरीर है, अतः मनोमयाय एवं प्राणशरीरत्व जीवलिङ्ग नहीं हो सकते हैं । यदि केवल मन तथा प्राणका संबन्ध कहा जाय तो यह संबन्ध ब्रह्मके साथ भी हो सकता है । ब्रह्म अप्राण है, अमनाः है (प्राणरहित तथा मन-रहित है) ऐसा प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिते भी विरोध नहीं है, क्योंकि उक्त श्रुतिते यहाँ बाध होता है कि मन तथा प्राण ब्रह्मके उपकरण अर्थात् महायक नहीं है । तथापि ‘यह मनुष्य धनशाला’ है ऐसा कहनेसे धन और मनुष्यका स्वस्वामिभाव संबन्ध त्रेम शक्ति प्रतीत होता है यही प्रकार

भाष्य

आदिभिः सम्बन्धो न परस्मिन् ब्रह्मणः 'अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः' (मु० २।१।२) इत्यादिश्रुतिभ्यः । ननु 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' इति स्वशब्देनैव ब्रह्मोपात्तम्, कथमिह शरीर आत्मोपासत्वेन आशङ्क्यते । नैष दोषः । नेदं वाक्यं ब्रह्मोपासनाविधिपरम्, किं तर्हि ? शमविधिपरम् । यत्कारणं 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत' इत्याह । एतदुक्तं भवति—यस्मात् सर्वमिदं विकारजातं ब्रह्मैव, तज्जत्वात्तच्छ्रुत्वात्तदनत्वाच्च । न च सर्वस्यैकात्मत्वे रागादयः संभवन्ति, तस्माच्छान्त उपासीतेति । न च

भाष्यका अनुवाद

आदिसे सम्बन्ध प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि 'अप्राणो०' (प्राणसे रहित, मनसे रहित और शुभ्र) इत्यादि श्रुतियोंसे उसका मन आदिके साथ सम्बन्धका निषेध किया है । परन्तु 'सर्वं खल्विदं०' (निश्चय यह सब ब्रह्म ही है) इसमें स्वशब्दसे—ब्रह्मशब्दसे ही ब्रह्मका ग्रहण किया है, तो शरीर आत्मा उपास्य है, ऐसी आशङ्का क्यों की जाती है ? नहीं, यह दोष नहीं है । यह वाक्य ब्रह्मकी उपासनाविधिका प्रतिपादक नहीं है । किन्तु शमविधिका प्रतिपादक है, क्योंकि श्रुति 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म०' (निश्चय ही यह सब ब्रह्म है, क्योंकि यह जगत् उससे उत्पन्न हुआ है, उसमें लीन होता है और उसमें चेष्टा करता है इस कारण उम ब्रह्मका उपासक शान्त होवे) ऐसा कहती है । तात्पर्य यह है कि यह सारा प्रपञ्च ब्रह्म ही है, क्योंकि उससे उत्पन्न होता है, उसमें लीन होता है और उसमें चेष्टा करता है । और सब एकात्मक—ब्रह्मस्वरूप है अतः राग आदि

रत्नप्रभा

नैष दोष इति । शमविधिपरत्वे हेतुमाह—यत्कारणमिति । यत एवमाह, तस्मात् शमविधिपरम् इत्यन्वयः । न च शमेति । शमध्यानयोः विधौ

रत्नप्रभाका अनुवाद

है । इसलिए जीवलिंग बलयान है, ऐसा प्रत्युदाहरणसे पूर्वपक्ष करते हैं—“शरीर” इत्यादिसे । श्रुतिकी शङ्का करके वह अन्यथासिद्ध है, ऐसा कहते हैं—“नैष दोषः” इत्यादिसे । 'सर्वं खल्विदं०' यह वाक्य शमविधिपरक है इस विषयमें कारण कहते हैं—“यत्कारणं” इत्यादिसे ।

मनोमय, प्राणशरीर कहनेसे मन, प्राण और जीवका उपकरणोपकरणभावस्वरूप सम्बन्ध शीघ्र उपास्यत होता है, क्योंकि मन तथा प्राण जीवके भोगके उपकरण हैं । ब्रह्मके किसी कार्यमें भी सहायक नहीं है । अतः मनोमयत्व और प्राणशरीरत्व जीवलिंग ही है ।

भाष्य

शमविधिपरत्वे सत्यनेन वाक्येन ब्रह्मोपासनं नियन्तुं शक्यते । उपासनं तु 'स क्रतुं कुर्वीत' इत्यनेन विधीयते । क्रतुः सङ्कल्पो ध्यानमित्यर्थः । तस्य च विषयत्वेन श्रूयते—'मनोमयः प्राणशरीरः' इति जीवलिङ्गम् । अतो ब्रूमो जीवविषयमेतदुपासनमिति । 'सर्वकर्मा सर्वकामः' इत्याद्यपि श्रूयमाणं पर्यायेण जीवविषयमुपपद्यते । 'एष म आत्मान्तर्हृदयेऽणीयान्त्रीहेर्वा यवाद्वा' इति च हृदयायतनत्वमणीयस्त्वं च आराग्रमात्रस्य जीवस्याऽवकल्पते नाऽपरिच्छिन्नस्य ब्रह्मणः । ननु 'ज्यायान्पृथिव्या' इत्याद्यपि न परिच्छिन्नेऽवकल्पत इति । अत्र ब्रूमः—न तावदणीयस्त्वं ज्यायस्त्वं

भाष्यका अनुवाद

संभव नहीं है, इस कारण ब्रह्मोपासक ज्ञान्त होवे । और शमविधिका प्रतिपादक होनेके कारण यह वाक्य ब्रह्मकी उपासनाका विधान नहीं कर सकता । उपासनाका तो 'स क्रतुं०' (वह ध्यान करे) इस वाक्यसे विधान किया गया है । 'क्रतु'—सङ्कल्प अर्थात् ध्यान । उस उपासनाविधिके विषयरूपसे 'मनोमयः०' ऐसी जीवलिङ्गकी श्रुति है । इस कारण ऐसा कहते हैं कि उपासना जीवविषयक है । 'सर्वकर्मा०' (सर्वकर्मवाला, सर्वकामनावाला) इत्यादि श्रुतिसे जो प्रतिपादित है वह भी अनेक जन्म परम्परासे जीवविषयक हो सकता है) 'एष म आत्मा०' (यह मेरी आत्मा हृदयके भीतर, घ्राहिसे अथवा यवसे भी छोटी है) इस प्रकार हृदयमें रहना, छोटापन, आरके अग्रभाग सदृश सूक्ष्म होना ये धर्म जीवमें ही संभव हैं । निःसीम ब्रह्ममें नहीं हो सकते । परन्तु 'ज्यायान्०' (पृथिवीसे बड़ा) इत्यादि भी (तो) परिच्छिन्न जीवमें संभव नहीं है । इसपर कहते हैं—अणुत्व और महत्त्व दोनों एकमें नहीं रह सकते हैं क्योंकि

रत्नप्रभा

वाक्यभेदापत्तेः इत्यर्थः । जन्मपरम्परया जीवस्याऽपि सर्वकर्मत्वादिसम्भवम् आह—सर्वकर्ममिति । सर्वाणि कर्माणि यस्य । सर्वे कामा भोग्या यस्य । सर्वगन्धः सर्वरस इत्यादिः आदिशब्दार्थः । आराग्रमात्रस्येति । तोत्रप्रोतायशशलाकाम्र-

रत्नप्रभाका अनुवाद

ऐसा कहा है इसलिए शमविधिपरक है ऐसा अन्वय है । "न च शम" इत्यादि । शम और ध्यान दोनोंका विधान हो तो वाक्यभेद होगा । जन्मपरम्परासे जीवमें भी सर्वकर्मत्व आदि धर्म हो सकते हैं, ऐसा कहते हैं—"सर्वकर्मा" इत्यादिसे । सब कर्म हैं जिसके बह सर्वकर्म, ऐसा समझ है । आदि पदमें सर्वगन्ध, सर्वरस आदिका ग्रहण है । "आराग्रमात्रस्य" आरके

भाष्य

चोभयमेकस्मिन् समाश्रयितुं शक्यम् विरोधात् । अन्यतराश्रयणे च प्रथम-
श्रुतत्वादणीयस्त्वं युक्तमाश्रयितुम् । ज्यायस्त्वं तु ब्रह्मभावापेक्षया भवि-
ष्यतीति । निश्चिते च जीवविषयत्वे यदन्ते ब्रह्मसंकीर्तनं 'एतद् ब्रह्म'
(छा० ३।१।४।४) इति, तदपि प्रकृतपरामर्शार्थत्वाद् जीवविषयमेव ।
तस्मान्मनोमयत्वादिभिर्धर्मैर्जीव उपास्य इति ।

एवं प्राप्ते ब्रूमः । परमेव ब्रह्म मनोमयत्वादिभिर्धर्मैरुपास्यम् । कुतः ?
सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् । यत्सर्वेषु वेदान्तेषु प्रसिद्धं ब्रह्मशब्दस्याऽऽलम्बनं
जगत्कारणम्, इह च 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' इति वाक्योपक्रमे श्रुतम्, तदेव मनो-

भाष्यका अनुवाद

दोनोंका परस्पर विरोध है । दोनोंमेंसे एकका ग्रहण करना अभीष्ट हो तो श्रुतिमें
पहले सुने गये अणुत्वका ही ग्रहण करना ठीक है । महत्त्व तो जीवमें
ब्रह्मभावकी अपेक्षासे (जीव ब्रह्म है, इस अपेक्षासे) होगा । और जीव-
विषयत्वका निश्चय होनेपर जो अन्तमें 'एतद्ब्रह्म' (यह ब्रह्म है) इस प्रकार
ब्रह्मका सङ्कीर्तन है, वह भी प्रस्तुतका परामर्शक होनेसे जीवविषयक ही है ।
इस कारण मनोमयत्व आदि धर्मोंसे जीव उपास्य है ।

सिद्धान्ती—ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं । यहां मनोमयत्व आदि
धर्मोंसे परब्रह्म ही उपास्य है, क्योंकि सर्वत्र—वेदान्त वाक्योंमें प्रसिद्धका ही
यहां उपदेश है । सब वेदान्तोंमें प्रसिद्ध ब्रह्मशब्दका आलम्बन जो जगत्कारण
है और जो यहां वाक्यके आरंभमें 'सर्वं खल्विदं० (निश्चय यह सब ब्रह्म

रत्नप्रभा

परिमाणस्य इत्यर्थः । सर्वत्र प्रसिद्धब्रह्मण एवाऽत्र उपास्यत्वोपदेशाद् न जीव
उपास्य इति सूत्रार्थमाह—सर्वत्रेति । यत्र फलं नोच्यते तत्र पूर्वोत्तरपक्षसिद्धिः
फलम् इति मन्तव्यम् । यद्यपि निराकाङ्क्षं ब्रह्म तथापि मनःप्रचुरम् उपाधिः अस्त्य,
प्राणः शरीरम् अस्येति समासान्तर्गतसर्वान्मनः सन्निहितविशेष्याकाङ्क्षत्वाद् ब्रह्म

रत्नप्रभाका अनुवाद

अप्रभाग—चायुधमें पिरोद हुँद लोहेकी सलाईके अप्रभागके बराबर । सर्वत्र प्रसिद्ध जो ब्रह्म
है वही उपास्य है, ऐसा यहाँ उपदेश है, अतः जीव उपास्य नहीं है, ऐसा सूत्रका अर्थ कहते
हैं—“सर्वत्र” इत्यादिसे । जहाँ फल नहीं कहा जाता है, वहाँ पूर्वपक्षमें और उत्तरपक्षमें
जिस जिस विषयकी सिद्धि होती है, उसीको तत्त्वत्वका फल समझना चाहिए । यद्यपि ब्रह्म
निराकाङ्क्ष है तो भी मन प्रचुर है उपाधि जिसकी, प्राण है शरीर जिसका, इस प्रकार समासके

भाष्य

मयत्वादिधर्मैर्विशिष्टमुपदिश्यत इति युक्तम् । एवं च सति प्रकृतहानाप्रकृत-
प्रक्रियेन भविष्यतः । ननु वाक्योपक्रमे शमविधिविवक्षया ब्रह्म निर्दिष्टं न
स्वविवक्षयेत्युक्तम् । अत्रोच्यते—यद्यपि शमविधिविवक्षया ब्रह्म निर्दिष्टं तथापि

भाष्यका अनुवाद

ही है) इस प्रकार श्रुत है, मनोमयत्व आदि धर्मोंसे विशिष्ट उसी (ब्रह्म)
का उक्त श्रुतिमें उपदेश है, ऐसा कहना ठीक है । ऐसा माननेपर प्रकृतकी
हानि और अप्रकृतकी प्रक्रिया नहीं होती । परन्तु वाक्यके उपक्रममें विधिकी
विवक्षासे ब्रह्मका निर्देश किया है, स्वविवक्षा (ब्रह्मविवक्षा) से नहीं किया
गया है ऐसा पीछे कहा गया है । इसपर कहते हैं—यद्यपि शमविधिकी विवक्षासे

रत्नप्रभा

सम्बध्यते । “स्योनं ते सदनं करोमि” इति संस्कारार्थसदनस्य निराकाङ्क्षस्याऽपि
तस्मिन् सीदेति साकाङ्क्षतच्छब्देन परामर्शदर्शनाद् इत्याह—अत्रोच्यत इति ।
स्योनं पात्रम्, ते पुरोडाशस्य इति श्रुत्यर्थः । जीवोऽपि लिङ्गात् सन्निहित इत्यत
आह—जीवस्त्विति । इदं हि लिङ्गद्वयं लोकसिद्धं जीवं न सन्निधापयति,

रत्नप्रभाका अनुवाद

अन्तर्गत सर्वनामको संनिहित विशेष्यकी आकांक्षा होनेसे ब्रह्मका संबन्ध होता है । ‘स्योनं
ते’ (तेरा सुखकर स्थान बनाता हूँ) यहाँ संस्कारके लिए अपेक्षित स्थान
यद्यपि निराकांक्ष है तो भी ‘तस्मिन्’ (उसमें बैठे) इस प्रकार आकांक्ष तत् शब्दमे
उसका (स्थानका) परामर्श होता है, [उसी न्यायसे प्रकृतमें भी निराकांक्ष ब्रह्मका
परामर्श किया जाता है] ऐसा कहते हैं—“अत्रोच्यते” इत्यादिसे । स्योनं—
समीचीन पात्र, ते—पुरोडाशका, ऐसा श्रुतिगत पदोंका अर्थ है । जीव भी अपने लिङ्गसे
संनिहित है, इसपर कहते हैं—“जीवस्तु” इत्यादि । दोनों लिङ्ग लोकप्रसिद्ध जीवका

(१) प्रकरणप्राप्त ब्रह्ममें समाहित मनोमयत्व आदि धर्मका स्वीकार न करना एवं अप्रकृत
जीवमें उन धर्मोंकी कल्पना करना ।

(२) दशपूर्णमास प्रकरणमें पुरोडाश—चर बननेके बाद चरपात्रके संस्कारके लिए ‘स्योनं ते
सदनं करोमि’ यह मंत्र कहा गया है । मंत्रका यह अर्थ है—दे पुरोडाश ! तुम्हारे लिए
सुखकर स्थान बनाता हूँ । धोकी धाराओंमें छमे रहने योग्य बनाता हूँ । हे जनोंके सारभूत
पुरोडाश ! उस स्थानमें रहो । मन्त्रोपपूर्वक उम निष्पन्न स्थानमें प्रवेश करो ।

भाष्य

मनोमयत्वादिपूपदिश्यमानेषु तदेव ब्रह्म संनिहितं भवति । जीवस्तु न संनिहितो न च स्वशब्देनोपात्त इति वैषम्यम् ॥ १ ॥

भाष्यका अनुवाद

ब्रह्मका निर्देश किया है, तो भी मनोमयत्व आदिके उपदेशमें वही ब्रह्म संनिहित होता है । जीव तो संनिहित नहीं है और स्वशब्दसे (जीवशब्दसे) उसका ग्रहण भी नहीं किया है, जीव और ब्रह्ममें यह अन्तर है ॥ १ ॥

रत्नप्रभा

दुःस्तिन्न उपास्ययोग्यत्वात् फलाभावाच्च, अतो विश्वजिन्यायेन सर्वाभिलषितम् आनन्दरूपं ब्रह्मैव उपासनाक्रियानुबन्धि इति भावः । किञ्च, ब्रह्मपदश्रुत्या लिङ्गवाच इत्याह—न चेति । अन्यतराकाङ्क्षानुगृहीतं फलवत् प्रकरणं विफल-लिङ्गाद् वलीय इति समुदायार्थः ॥ १ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

सांनिध्य नहीं कराते हैं, क्योंकि दुःखी जीव उपासनाके योग्य नहीं है और उसकी उपासनासे कोई फल भी नहीं होता । अतः विश्वजिन्यायैसे सबके अभीष्ट आनन्दस्वरूप ब्रह्म ही उपासनाक्रियासे संबद्ध है, ऐसा तात्पर्य है और ब्रह्मपदका साक्षात् ध्वनन है, अतः उस श्रुतिसे जीवलङ्गका वाच होता है, ऐसा कहते हैं—“न च” इत्यादिसे । जीव और ब्रह्ममें एककी (ब्रह्मकी) आकांक्षासे अनुगृहीत और फलयुक्त प्रकरण निष्फल (जीवके) लिङ्गसे अधिक बलवान् है ऐसा समुदायार्थ है ॥ १ ॥




(१) पूर्वमीमांसाके चतुर्थाध्याय तृतीयपादके पञ्चम अधिकरणमें यह सन्देह किया गया है कि जिन विधिवार्योंमें फलका ध्वनन नहीं है और न अर्थवादवाच्योंमें फलका प्रतिपादन है, उन 'विश्वजिता यजेत' आदि विधियोंका क्या कोई यत्किञ्चित् फल है अथवा स्वर्ग फल है? हममें पूर्वपक्ष होता है कि विशेष फलका ध्वनन न होनेसे उनका कोई यत्किञ्चित् फल मानना ही ठीक है । 'इसपर 'स स्वर्गः स्यात् सर्वान् प्रत्यविशिष्टत्वात्' हम सूत्रमें सिद्धान्त करते हैं—उनका फल स्वर्ग ही है, क्योंकि मव लोग स्वर्गकी ही चाहते हैं । स्वर्ग अर्थात् सुख । प्रपञ्चम सुख कौन नहीं चाहता ? अतः विशेष फलका ध्वनन न होनेसे सर्वाभिलषित सुख ही फल माना जाता है । लोकव्यवहारमें भी यह बात प्रसिद्ध है कि कोई बर्गाचा, तालाब आदि बनवावे तो लोग कहते हैं कि 'इसने बाग आदि बनवाया है, अतः इसको अवश्य स्वर्ग मिलेगा' और यह भी देखा गया है कि जिन कर्मोंका फल स्वर्ग है, उन कर्मोंके विधानमें प्रायः फलनिर्देश नहीं होता है । अतः सिद्ध हुआ कि जिन विधियोंका फल निर्दिष्ट नहीं है उनका स्वर्ग ही फल समझना चाहिए । यह विश्वजिन्याय कहलाता है ।

विवक्षितगुणोपपत्तेश्च ॥ २ ॥

पदच्छेद—विवक्षितगुणोपपत्तेः, च ।

पदार्थोक्ति—विवक्षितगुणोपपत्तेः—उपासनार्थम् उपदिष्टानां सत्यसङ्कल्पत्व-
भारूपत्वादिगुणानां ब्रह्मण्येव उपपत्तेः, च—अपि [मनोमयः ब्रह्मैव, न जीवः] ।

भाषार्थ—उपासनाके लिए उपदिष्ट सत्यसङ्कल्पत्व, भारूपत्व आदि गुणोंका
ब्रह्ममें ही समन्वय हो सकता है । इस कारण भी मनोमय ब्रह्म ही है, जीव नहीं ।



भाष्य

वक्तुमिष्टा विवक्षिताः । यद्यप्यपौरुषेये वेदे वक्तुरभावान्नेच्छार्थः
संभवति तथाप्युपादानेन फलेनोपचर्यते । लोके हि यच्छब्दाभिहितमुपा-
देयं भवति तद्विवक्षितमित्युच्यते, यदनुपादेयं तदविवक्षितमिति । तद्वद्वेदेऽ-
प्युपादेयत्वेनाऽभिहितं विवक्षितं भवति, इतरदविवक्षितम् । उपादानानु-

भाष्यका अनुवाद

जिनका कथन अभीष्ट हो वे विवक्षित कहलाते हैं । यद्यपि अपौरुषेय
वेदमें उसका कोई वक्ता न होनेके कारण इच्छारूप सन्के अर्थका संभव नहीं
है । तो भी उपादेयगुणमें विवक्षितशब्दका उपचारसे प्रयोग होता है, क्योंकि
इच्छाका फल उपादान है । वस्तुतः लोकमें भी शब्दसे अभिहित जो पदार्थ
उपादेय होता है, वह विवक्षित कहलाता है और जो अनुपादेय है वह
अविवक्षित कहलाता है । इसी प्रकार वेदमें भी उपादेयरूपसे वर्णित पदार्थ विव-
क्षित और उससे भिन्न अविवक्षित होता है । उपादान और अनुपादान तो

रत्नप्रभा

वस्तुनो विवक्षायाः फलमुपादानम्—स्वीकारः, स च मकृतेषु गुणेषु अस्तीति
विवक्षोपचार इत्याह—तथाप्युपादानेनेति । ननु इदं ब्राह्मम्, इदं त्याज्य-
मिति धीरिवक्षाधीना वेदे कुतः स्यादित्यत आह—उपादानानुपादाने त्विति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

वस्तुकी विवक्षाका फल उपादान—स्वीकार है । यह फल प्रस्तुत सत्यकामन्व, सत्य-
संक्रन्तर आदि गुणोंमें है, इससे विवक्षारूप उपचार समझना चाहिये, ऐसा कहते हैं—
“तथाप्युपादानेन” इत्यादिमें । यदि कोई कहे कि यह ब्राह्म है, ऐसी मुझ विवक्षके
अर्थन है, वह वेदमें इस प्रकार है, इस आशङ्कपर कहते हैं—“उपादानानुपादाने तु”

भाष्य

पादाने तु वेदवाक्यतात्पर्यातात्पर्याभ्यामवगम्येते । तदिह ये विवक्षिता गुणा उपासनायामुपादेयत्वेनोपदिष्टाः सत्यसङ्कल्पप्रभृतयस्ते परस्मिन्ब्रह्मण्युपपद्यन्ते । सत्यसंकल्पत्वं हि सृष्टिस्थितिसंहारेऽप्रतिबद्धशक्तित्वात्परमात्मन एवाऽवकल्पते । परमात्मगुणत्वेन च 'य आत्मापहतपाप्मा' (छा० ८।७।१) इत्यत्र 'सत्यकामः सत्यसंकल्पः' इति श्रुतम् । आकाशात्मेत्यादिनाऽऽकाशवदात्माऽस्येत्यर्थः । सर्वगतत्वादिभिर्धर्मैः संभवत्याकाशेन साम्यं ब्रह्मणः । 'ज्यायान्पृथिव्याः' इत्यादिना चैतदेव दर्शयति । यदाऽप्याकाश आत्मा यस्येति व्याख्यायते, तदापि संभवति सर्वजगत्कारणस्य सर्वात्मनो ब्रह्मण आकाशात्मत्वम्, अत एव 'सर्वकर्मा' इत्यादि । एवमिहोपास्यतया विवक्षिता गुणा ब्रह्मण्युपपद्यन्ते । यत्तुक्तम्—'मनोमयः प्राण

भाष्यका अनुवाद

वेदवाक्यके तात्पर्य और अतात्पर्यसे समझे जाते हैं । इसलिए यहा सत्यसंकल्प आदि जो विवक्षित गुण उपासनामे उपादेयरूपसे उपदिष्ट हैं, वे परब्रह्ममे उपपन्न होते हैं । वस्तुतः सृष्टि, स्थिति और संहारमे अप्रतिबद्ध शक्ति होनेके कारण परमात्मा ही सत्यसंकल्प हो सकता है । 'य आत्मा०' (जो आत्मा पापरहित है) इसमे सत्यकामत्व और सत्यसंकल्पत्व परमात्माके गुणरूपसे प्रतिपादित है । 'आकाशात्मा' इत्यादिका आकाशके समान है आत्मा जिसकी ऐसा अर्थ है । सर्वगतत्व आदि धर्मोंसे आकाशके साथ ब्रह्मका साम्य (सादृश्य) संभव है । श्रुति 'ज्यायान्०' (पृथिवीसे बडा) इत्यादिसे यही दर्शाती है । और जब आकाश है आत्मा जिसकी ऐसा व्याख्यान होता है, तब भी सब जगत्का कारण सत्रकी आत्मा ब्रह्म आकाशकी आत्मा है ऐसा हो सकता है । इसी कारण ब्रह्मके लिए 'सर्वकर्मा' इत्यादिका निर्देश है । इस प्रकार यहा उपास्यरूपसे

रत्नप्रभा

तात्पर्यं नाम फलपदार्थप्रतीत्यनुकूलत्व शब्दधर्म, उपक्रमादिना तस्य ज्ञानात् तयोरवगम इत्यर्थ ॥ तदिहेति । तत् तस्मात् तात्पर्यवत्त्वाद् इत्यर्थ ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

इत्यादिसे । तात्पर्य अर्थात् प्रयोजन युक्त अर्थके ज्ञानके अनुकूल होना, यह शब्दधर्म है । उपक्रम आदि लिङ्गोंसे तात्पर्यका ज्ञान होता है और तात्पर्यज्ञानसे प्राद्य और स्वायक्यका ज्ञान होता है । "तदिह" तत्—इसलिए अर्थात् वेद तात्पर्यवाला है इसलिए । ब्रह्म सर्वस्वरूप है,

भाष्य

शरीरः' इति जीवलिंगं न तद् ब्रह्मण्युपपद्यत इति, तदपि ब्रह्मण्युपपद्यत इति ब्रूमः । सर्वात्मत्वाद्धि ब्रह्मणो जीवसम्बन्धीनि मनोमयत्वादीनि ब्रह्मसम्बन्धीनि भवन्ति । तथा च ब्रह्मविषये श्रुतिस्मृती भवतः—

“त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी ।
त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥”

(श्वे० ४।३) इति ।

“सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम् ।

सर्वतःश्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥”

(गी० १३।३३) इति च । ‘अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः’ इति श्रुतिः

भाष्यका अनुवाद

विवक्षित गुण ब्रह्ममे युक्त हैं । ‘मनोमयः०’ (मनोमय, प्राण है शरीर जिसका) यह जीवका लिंग है और ब्रह्ममें युक्त नहीं है, ऐसा जो (पूर्वपक्षीने) कहा है, उस विषयमें वह (जीवलिंग) भी ब्रह्ममें युक्त है, ऐसा हम कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म सबकी आत्मा (स्वरूप) है, अतः जीवसंबन्धी मनोमयत्व आदि धर्म उसके संबन्धी होते हैं । उसी प्रकार ‘त्वं स्त्री त्वं पुमानसि०’ (तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो तुम कुमार और कुमारी हो, जो वृद्ध पुरुष दण्डके सहारे चलता है, वह भी तुम हो, उत्पन्न हुआ बालक भी तुम ही हो, तुम सर्वतोमुख हो) यह श्रुति और ‘सर्वतः पाणिपादं तत्०’ (सब दिशाओंमें उसके नेत्र, सिर और मुख हैं, सब दिशाओंमें उसके कान हैं, लोकमें सबका आवरण करके वह रहता है) यह स्मृति ब्रह्मको सर्वस्वरूप तथा सर्वतोमुख बतलाती है । ‘अप्राणो०’ (प्राणसे

रत्नप्रभा

सर्वात्मत्वे प्रमाणमाह—तथा चेति । जीर्णः स्थविरो यो दण्डेन वञ्चति— गच्छति सोऽपि त्वमेव, यो जातो बालः स त्वमेव, सर्वतः सर्वासु दिक्षु श्रुतयः श्रोत्राणि अस्येति सर्वतश्श्रुतिमत्, सर्वजन्तूनां प्रसिद्धाः पाण्यादयः तस्येति सर्वात्मत्वोक्तिः ॥ २ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद


इसमें प्रमाण कहते हैं—“तथा च” इत्यादिसे । वृद्ध होनेसे जो दंड लेकर चलता है, वह यो तुम ही हो । मय दिशाओंमें जो धोपेन्द्रिय हैं वे ब्रह्मके ही हैं । मय प्राणियोंके प्रसिद्ध हाथ, पैर आदि उसके ही हैं, इस प्रकार ब्रह्मका सर्वात्मत्व समझना चाहिए ॥२॥

भाष्य

शुद्धब्रह्मविषया । इयं तु 'मनोमयः प्राणशरीरः' इति सगुणब्रह्मविषयेति विशेषः । अतो विवक्षितगुणोपपत्तेः परमेव ब्रह्मेहोपास्यत्वेनोपदिष्टमिति गम्यते ॥ २ ॥

भाष्यका अनुवाद

रहित, मनसे रहित और पवित्र) यह श्रुति निर्गुण ब्रह्मविषयक है, और 'मनो-मयः' (मनोमय, प्राण है शरीर जिसका) यह श्रुति तो सगुण ब्रह्मविषयक है, इतना भेद है । इससे सिद्ध होता है कि विवक्षित गुणोंकी उपपत्तिसे परब्रह्म ही यहां उपास्यरूपसे उपदिष्ट है ॥ २ ॥



अनुपपत्तेस्तु न शरीरः ॥ ३ ॥

पदच्छेद—अनुपपत्तेः, तु, न, शरीरः ।

पदार्थोक्ति—अनुपपत्तेः—सत्यसङ्कल्पत्वादिविवक्षितगुणानां जीवे समन्व-यामावात्, शरीरः—जीवः, न-सत्यसङ्कल्पत्वादिगुणैः न उपास्यः, तु—एव [ब्रह्मैव उपास्यम्] ।

भाषार्थ—उपासनाके लिए विवक्षित सत्यसङ्कल्पत्व आदि गुणोंका जीवमें सम-न्वय नहीं हो सकता है, अतः जीव उक्त गुणोंसे उपास्य नहीं है, ब्रह्म ही उपास्य है ।

भाष्य

३:

पूर्वेण सूत्रेण ब्रह्मणि विवक्षितानां गुणानामुपपत्तिरुक्ता । अनेन तु शरीरे तेषामनुपपत्तिरुच्यते । तुशब्दोऽवधारणार्थः । ब्रह्मैवोक्तेन

भाष्यका अनुवाद

पूर्व सूत्रसे विवक्षित गुणोंकी ब्रह्ममें उपपत्ति दिखलाई गई है । अब इस सूत्रसे शरीर—जीवमें उन गुणोंका अभाव दिखलाते हैं । सूत्रगत 'तु' शब्द

रत्नप्रभा

ननु जीवधर्माः चेद् ब्रह्मणि योज्यन्ते तर्हि ब्रह्मधर्मा एव जीवे किमिति न योज्यन्ते, तत्राह—अनुपपत्तेरिति । सूत्रं व्याचष्टे—पूर्वेणेति । सर्वात्मत्वादिः

रत्नप्रभाका अनुवाद

यदि जीवमें रहनेवाले मनोमयत्व आदि धर्म ब्रह्ममें अन्वित किये जाते हैं तो (जीव और ब्रह्ममें भेद न होनेसे) ब्रह्मगत सत्यसङ्कल्पत्व आदि धर्म जीवमें ही क्यों न अन्वित किये जायें, इसपर कहते हैं—“अनुपपत्ते” इत्यादिसे । “पूर्वेण” इत्यादिसे सूत्रका व्याख्यान

भाष्य

न्यायेन मनोमयत्वादिगुणम्, न तु शारीरो जीवो मनोमयत्वादिगुणः, यत्कारणं 'सत्यसंकल्पः, आकाशात्मा, अवाकी, अनादरः, ज्यायान् पृथिव्याः' इति चैवंजातीयका गुणा न शरीरे आज्ञस्येनोपपद्यन्ते । शरीर इति शरीरे भव इत्यर्थः । नन्वीश्वरोऽपि शरीरे भवति, सत्यम्, शरीरे भवति न तु शरीर एव भवति । 'ज्यायान्पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षात्, आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः' इति च व्यापित्वश्रवणात् । जीवस्तु शरीर एव भवति, तस्य भोगाधिष्ठानाच्छरीरादन्यत्र वृत्त्यभावात् ॥ ३ ॥

भाष्यका अनुवाद

निश्चयवाचक है । पूर्वोक्त रीतिके अनुसार ब्रह्म ही मनोमयत्व आदि गुणोंसे सम्पन्न है, जीव मनोमयत्व आदि गुणोंसे युक्त नहीं है, क्योंकि सत्यसङ्कल्प, आकाशात्मा, इन्द्रियरहित, निःस्पृह, पृथिवीसे बड़ा, इस प्रकारके गुण जीवमें यथार्थरूपसे संगत नहीं होते । 'शरीर, अर्थात् शरीरमें रहनेवाला । परन्तु ईश्वर भी शरीरमें रहता है । ठीक है, शरीरमें रहता है, किन्तु शरीरमें ही रहता हो ऐसा नहीं है, क्योंकि 'ज्यायान् पृथिव्याः०' (पृथिवीसे बड़ा, अन्तरिक्षसे बड़ा), 'आकाशवत्०' (आकाशके समान सर्वव्यापक और नित्य) इन श्रुतियोंसे वह व्यापक कहा गया है । जीव तो शरीरमें ही रहता है, क्योंकि वह भोगके अधिष्ठान शरीरको छोड़कर दूसरे स्थलपर नहीं रहता ॥ ३ ॥

रत्नप्रभा

उक्तन्यायः । कल्पितस्य धर्मा अधिष्ठाने सम्बध्यन्ते, न अधिष्ठानधर्माः कल्पिते इति भावः । वागेव वाकः सोऽस्यास्तीति वाकी न वाकी अवाकी अनिन्द्रिय इत्यर्थः । कुत्राप्यादरः कामोऽस्य नास्तीति अनादरः नित्यवृत्त इत्यर्थः । ज्यायस्त्वाद्यनुपपत्तौ शरीर इति परिच्छेदो हेतुः सूत्रोक्तः । स तु जीवस्यैव न ईश्वरस्य इत्याह—सत्यमित्यादिना ॥ ३ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

करते है । 'ब्रह्मवाक्तेन०' (पूर्वोक्त न्यायसे ब्रह्म ही मनोमयत्व आदि गुणोंसे युक्त है) इस भाष्यपक्षिमें वर्णित पूर्वोक्त न्याय सर्वात्मत्व आदि है । कल्पित (आरोपित) पदार्थके धर्मोंका अधिष्ठानमें सम्बन्ध हो सकता है, परन्तु अधिष्ठानके धर्म आरोपित वस्तुमें संबन्ध नहीं हो सकते ऐसा तात्पर्य है । वाक् ही वाक है और जितके वाक है, वह वाकी कहलता है, जो वाकी नहीं है वह अवाकी अर्थात् इन्द्रियरहित है । किसी भी वस्तुकी जितको अभिधान नहीं है वह अनादर अर्थात् नित्यवृत्त कहलाना है । सूत्रमें वही गई शरीरस्थितिरूप मर्यादा जीवमें महत्त्व आदिकी अनुपपत्तिमें हेतु है अर्थात् सूत्रमें जब शरीरमें रहता है इस प्रकार तीमाके निर्धारणसे जीवमें महत्त्वका नियम होता है । उक्त गीमाका निर्धारण जीवमें ही है, ईश्वरमें नही है, ऐसा कहते हैं—“सत्यम्” इत्यादिगे ॥३॥

कर्मकर्तृव्यपदेशाच्च ॥ ४ ॥

‘पदच्छेद—कर्मकर्तृव्यपदेशात्, च ।

पदार्थोक्ति—कर्मकर्तृव्यपदेशात्—‘एतमितः प्रेत्याभिसम्भवितास्मि’ इति श्रुतौ ‘एतं’ इति प्रकृतस्य ब्रह्मणः प्राप्यत्वेन ‘अभिसम्भवितास्मि’ इति शारीरस्य कर्तृत्वेन व्यपदेशात्, च—अपि [न शारीरः उपास्यः, किन्तु ब्रह्मैव मनोमयत्वादिगुणैः उपास्यम्]

भाषार्थ—‘एतमितः प्रेत्या०’ इस श्रुतिमें ‘एतं’ इस पदसे पूर्व प्रकृत ब्रह्म प्राप्य कहा गया है और ‘अभिसम्भवितास्मि’ इससे जीव प्राप्तिवर्ता कहा गया है, इस कारण भी जीव उपास्य नहीं है, किन्तु मनोमयत्व आदि गुणोंसे ब्रह्म ही उपास्य है ।

भाष्य

इतश्च न शारीरो मनोमयत्वादिगुणः, यस्मात् कर्मकर्तृव्यपदेशो भवति “एतमितः प्रेत्याभिसम्भवितास्मि” (छा० ३।१।४) इति । एतमिति प्रकृतं मनोमयत्वादिगुणमुपास्यमात्मानं कर्मत्वेन—प्राप्यत्वेन व्यपदिशति । अभिसम्भवितास्मीति शारीरमुपासकं कर्तृत्वेन—प्रापकत्वेन । अभिसम्भवितास्मीति, प्राप्त्यास्मीत्यर्थः । न च सत्यां गतावेकस्य कर्मकर्तृव्यपदेशो युक्तः । तथोपास्योपासकभावोऽपि भेदाधिष्ठान एव । तस्मादपि न शारीरो मनोमयत्वादिविशिष्टः ॥ ४ ॥

भाष्यका अनुवाद

‘एतमितः प्रेत्या०’ (इस शरीरसे छुटकारा पाकर उस आत्माको प्राप्त करूँगा) इस प्रकार श्रुतिमें कर्म और कर्तारूपसे दो पदार्थोंका उपदेश है, इससे भी जीवात्मा मनोमयत्व आदि गुणोंसे युक्त नहीं है । ‘एतम्’ पद प्रस्तुत मनोमयत्व आदि गुणोंसे युक्त उपास्य आत्माका कर्मरूपसे—प्राप्यरूपसे उपदेश करता है । ‘अभिसम्भवितास्मि’ पद उपासक जीवात्माका कर्तारूपसे—प्रापकरूपसे उपदेश करता है । ‘अभिसम्भवितास्मि’ अर्थात् प्राप्त करूँगा । दूसरे मार्गके रहते एकका ही कर्म और कर्तारूपसे उपदेश ठीक नहीं है । इसी प्रकार उपास्यभाव और उपासकभावका अधिष्ठान भी मित्र ही है । इससे सिद्ध हुआ कि जीव मनोमयत्व आदि गुणविशिष्ट नहीं है ॥ ४ ॥

रत्नप्रभा

कर्मकर्तृव्यपदेशाच्च । प्रापकत्वेन व्यपदिशति इति सम्बन्धः । कर्मकर्तृव्यपदेशपदस्य अर्थान्तरमाह—तथोपास्येति ॥ ४ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

“कर्मकर्तृव्यपदेशाच्च” । ‘प्रापकत्वेन’ का ‘व्यपदिशति’के साथ सम्बन्ध है । ‘कर्मकर्तृव्यपदेश’ पदका दूसरा अर्थ कहने हैं—“तथोपास्य” इत्यादिसे ॥४॥

शब्दविशेषात् ॥ ५ ॥

पदार्थोक्ति—शब्दविशेषात्—‘अन्तरात्मन् पुरुषो हिरण्मयः’ इति श्रुत्यन्तरे जीवपरमात्माभिधायकयोः सप्तम्यन्तप्रथमान्तान्तरात्मन्पुरुषशब्दयोः भेदात् [न शारीरः उपास्यः, किन्तु ब्रह्मैवोपास्यम्]

भाषार्थ—‘अन्तरात्मन् पुरुषो०’ इस अन्य श्रुतिमें सप्तमीविभक्त्यन्त ‘अन्तरात्मन्’ शब्द जीवका वाचक है और प्रथमान्त ‘पुरुष’ शब्द परमात्माका वाचक है, विभक्तिभेदसे शब्दभेद होता है, अतः इन शब्दोंसे प्रतिपाद्य जीव और ब्रह्म भी भिन्न भिन्न हैं, इस कारण जीव उपास्य नहीं है, ब्रह्म ही उपास्य है।

भाष्य

इतश्च शारीरादन्यो मनोमयत्वादिगुणः, यस्माच्छब्दविशेषो भवति समानप्रकरणे श्रुत्यन्तरे—‘यथा व्रीहिर्वा यवो वा श्यामाको वा श्यामाकतण्डुलो वैवमयमन्तरात्मन्पुरुषो हिरण्मयः’ (श० ब्रा० १०।६।३।२) इति । शारीरस्याऽऽत्मनो यः शब्दोऽभिधायकः सप्तम्यन्तोऽन्तरात्मन्निति, तस्माद्विशिष्टोऽन्यः प्रथमान्तः पुरुषशब्दो मनोमयत्वादिविशिष्टस्याऽऽत्मनोऽभिधायकः । तस्मात्तयोर्भेदोऽधिगम्यते ॥ ५ ॥

भाष्यका अनुवाद

और इससे भी मनोमयत्व आदि गुणवाला जीवसे भिन्न है, क्योंकि ‘यथा व्रीहिर्वा यवो वा०’ (जैसे व्रीहि या यव या श्यामाक या श्यामाकतण्डुल है, इस प्रकार अन्तरात्मामें यह हिरण्मय पुरुष है) इस समानार्थक श्रुतिमें शब्दका भेद है। ‘अन्तरात्मन्’ यह सप्तम्यन्त शब्द शारीर आत्मा अर्थात् जीवका अभिधान करता है और उससे भिन्न प्रथमान्त पुरुष शब्द मनोमयत्व आदि गुणोंसे विशिष्ट परमात्माका अभिधान करता है। इससे उनमें भेद प्रतीत होता है ॥५॥

रत्नप्रभा

शब्दविशेषात् । एकार्थत्वं प्रकरणस्य समानत्वम् । अन्तरात्मन्निति विभक्तिलोपश्छान्दसः । शब्दयोः विशेषो विभक्तिभेदः, तस्मात् तदर्थयोः भेद इति सूत्रार्थः ॥ ५ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

‘शब्दविशेषात्’ । अनेक प्रकरणोंका प्रतिपाद्य अर्थ यदि एक ही हो तो वे प्रकरण समान प्रकरण कहलाते हैं। ‘अन्तरात्मन्’ यहाँपर विभक्तिछान्दस लोप छान्दस है। शब्दोंका विशेष अर्थात् विभक्तिभेद, इससे उन शब्दोंके अर्थका भी भेद है, ऐसा सूत्रका अर्थ है ॥५॥


(१) ‘अन्तरात्मनि’ इस पदके मतमौलिकता लोप हुआ है। ‘अन्तरात्मन्’ यह वैदिक प्रयोग है।

स्मृतेश्च ॥ ६ ॥

पदच्छेद—स्मृतेः, च ।

पदार्थोक्ति—स्मृतेः—‘ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति’ इत्यादौ जीवब्रह्मणोः भेदस्मरणात्, च—अपि, [जीवः न उपास्य.] ।

भाषार्थ—‘ईश्वरः सर्वं०’ (हे अर्जुन ! शरीरधारी प्राणियोंको मायासे घुमाता हुआ ईश्वर सब भूतोंके हृदयमें रहता है) इस स्मृतिमें जीव और ब्रह्मका भेद कहा गया है, इससे भी जीव उपास्य नहीं है ।



भाष्य

स्मृतिश्च शरीरपरमात्मनोभेदं दर्शयति—

‘ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन ! तिष्ठति ।

भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥’ (गी० १८।६१) इत्याद्या ।

अत्राह—कः पुनरयं शरीरो नाम परमात्मनोऽन्यः, यः प्रतिपिध्यते ‘अनुपपत्तेस्तु न शरीरः’ इत्यादिना । श्रुतिस्तु—‘नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा

भाष्यका अनुवाद

‘ईश्वरः सर्वभूतानां०’ (हे अर्जुन ! शरीरधारी जीवोंको मायासे घुमाता हुआ ईश्वर सब भूतोंके हृदयमें रहता है) इत्यादि स्मृति भी शरीर और परमात्मामें भेद दिखलाती है ।

पूर्वपक्षी—परमात्मासे अन्य शरीरनामक कौन है, जिसका कि ‘अनुपपत्तेस्तु०’ इत्यादिसे प्रतिषेध किया जाता है ? ‘नान्योऽतोऽस्ति०’ (इससे अन्य द्रष्टा नहीं,

रत्नप्रभा-

स्मृतौ हृदिस्थस्य जीवाद् भेदोक्तेः अत्रापि हृदिस्थो मनोमय ईश्वर इत्याह—
स्मृतेश्चेति । भूतानि—जीवान् । यन्त्रम्—शरीरम् । अत्र सूत्रकृता सत्यभेद उक्त इति भ्रान्तिनिरासाय ईक्षत्यधिकरणे निरस्तमपि चोद्यमुद्भाष्य निरस्यति—

रत्नप्रभाका अनुवाद

हृदयमें रहनेवाला ईश्वर जीवसे भिन्न है, ऐसा स्मृतिमें भी कहा गया है, इस कारण यहाँ भी हृदयमें रहनेवाला मनोमय ईश्वर है, ऐसा कहते हैं—“स्मृतेश्च” से । भूतानि—जीवोंको । ‘यन्त्रम्’—शरीर । यहाँ सूत्रकारने सत्य भेद कहा है, इस भ्रान्तिका निराकरण करनेके लिए ईक्षत्यधिकरणमें निरस्त आशेषका पुन अनुवाद करके निरसन करते हैं—

भाष्य

नान्योऽस्तोऽस्ति श्रोता, (बृ० ३।७।२३) इत्येवंजातीयका परमात्मनोऽन्यमात्मानं वारयति । तथा स्मृतिरपि—

“क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत !।” (गी० १३।२) । इत्येवंजातीयकेति ।

अत्रोच्यते—सत्यमेवैतत् । पर एवाऽऽत्मा देहेन्द्रियमनोबुद्ध्युपाधिभिः परिच्छिद्यमानो बालैः शारीर इत्युपचर्यते । यथा घटकरकाद्युपाधिवशादपरिच्छिन्नमपि नभः परिच्छिन्नवदवभासते, तद्वत् । तदपेक्षया च कर्म-कर्तृत्वादिभेदव्यवहारो न विरुध्यते प्राक् ‘तत्त्वमसि’ इत्यात्मैकत्वोपदेशग्रहणात् । गृहीते त्वात्मैकत्वे बन्धमोक्षादिसर्वव्यवहारपरिसमाप्तिरेव स्यात् ॥ ६ ॥

भाष्यका अनुवाद

इससे अन्य श्रोता नहीं) इत्यादि श्रुतियां परमात्मासे अन्य आत्माका निषेध करती हैं । उसी प्रकार ‘क्षेत्रज्ञं चापि मां०’ (हे अर्जुन ! सब क्षेत्रों—शरीरोंमें क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही जानो) इत्यादि स्मृति भी [परमात्मासे अन्य आत्माका निषेध करती है] ।

सिद्धान्ती—यह कथन सत्य है । देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धिरूप उपाधियोंसे परिच्छिन्न परमात्माको ही अज्ञानी लोग शारीर कहते हैं । जैसे वस्तुतः अपरिच्छिन्न भी आकाश घट, कमण्डलु आदि उपाधियोंसे परिच्छिन्न-सा भासता है, उसी प्रकार । और अज्ञानियोंकी भ्रान्तिसे ‘तत्त्वमसि’ (वह तू है) इस प्रकार आत्माके एकत्वके उपदेशके पहले कर्मत्व, कर्तृत्व आदि भेदव्यवहार विरुद्ध नहीं है । आत्माका एकत्व समझनेपर तो बन्ध, मोक्ष आदि सब व्यवहारोंकी परिसमाप्ति ही हो जाती है ॥ ६ ॥

रत्नप्रभा

अत्राहेत्यादिना । त्वदुक्तरीत्या वस्तुत एकत्वमेव, भेदस्तु कल्पितः सूत्रेष्वनूयते इत्याह—सत्यमिति ॥ ६ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

“अत्राह” इत्यादिमे । तुम्हारे कथनानुसार दोनोंमें वस्तुतः एकत्व ही है । भेद तो कल्पित है, उसका सूत्रमें अनुवाद होता है, ऐसा कहते हैं—“सत्यम्” इत्यादिमे ॥६॥

अर्भकौकस्त्वात्तद्व्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वा- देवं व्योमवच्च ॥ ७ ॥

पदच्छेद—अर्भकौकस्त्वात्, तद्व्यपदेशात्, च, न, इति, चेत्, न, निचाय्यत्वात्, एवम्, व्योमवत्, च ।

पदार्थोक्ति—अर्भकौकस्त्वात्—अल्पस्थानस्थितत्वात्, तद्व्यपदेशाच्च—अणीयानिति स्वशब्देन अणीयस्त्वव्यपदेशाच्च [जीव एव उपास्यः], न—न परमात्मा उपास्यः, इति चेत्, न, एवम्—अर्भकौकस्त्वाणीयस्त्वादिविशिष्टत्वरूपेण निचाय्यत्वात्—परमात्मनः उपास्यत्वात्, व्योमवच्च—यथा सर्वगतमपि व्योम सूच्याद्यवच्छेदेन अर्भकौकोऽणीयश्च व्यपदिश्यते तद्वत् ब्रह्मापि व्यपदिश्यते, [अतः ब्रह्मैवोपास्यम्] ।

भाषार्थ—अल्प स्थान—हृदयमे स्थिति और 'अणीयान्' शब्दसे परमसूक्ष्मता कही गई है, अतः जीव ही उपास्य है, परमात्मा उपास्य नहीं है । यह कथन ठीक नहीं है । क्योंकि अर्भकौकस्त्व, अणीयस्त्व आदि धर्मोंसे परमात्मा ही उपास्य है, जैसे आकाश सर्वगत होनेपर भी सुईके छिद्रसे परिच्छिन्न होकर अर्भकौका और अणीयान् कहा जाता है, वैसे ही ब्रह्म भी उपाधिर्मसर्गसे अर्भकौक, परम सूक्ष्म कहा जाता है, इसमें सिद्ध हुआ कि ब्रह्म ही उपास्य है ।

भाष्य

अर्भकमल्पमोको नीडम्, 'एष म आत्मान्तर्हृदये' इति परिच्छिन्ना-
यतनत्वात्, स्वशब्देन च 'अणीयान् व्रीहेर्वा यवाद्वा' इत्यणीयस्त्वव्यपदे-

भाष्यका अनुवाद

'एष म आत्मा०' (यह आत्मा मेरे हृदयके मध्यमें है) इस प्रकार परिच्छिन्न स्थानके कारण अर्भक—अल्प ओक—नीड अर्थात् स्थान होनेसे और 'अणी-

रत्नप्रभा

अर्भकम् ओको यस्य सोऽर्भकौकाः तस्य भावः तत्त्वं तस्मात् आर्थिकमल्प-
त्वम् अणीयानित्यल्पत्ववाचकशब्देनापि श्रुतम् इत्याह—स्वशब्देनेति । नायं

रत्नप्रभाका अनुवाद

अर्भकं—छोटा, ओकः—स्थान जिसका है वह 'अर्भकौकाः' कहलाता है, उसमें रहनेवाला धर्म 'अर्भकौकस्त्व' है । यहांपर जिसका अधिष्ठान अन्य होना है, वह स्वरूपसे अन्य

भाष्य

शात्, शरीर एवाऽऽराग्रमात्रो जीव इहोपदिश्यते, न सर्वगतः परमात्मेति यदुक्तं तत्परिहर्तव्यम् । अत्रोच्यते—नायं दोषः । न तावत्परिच्छिन्नदेशस्य सर्वगतत्वव्यपदेशः कथमप्युपपद्यते, सर्वगतस्य तु सर्वदेशेषु विद्यमानत्वात् परिच्छिन्नदेशव्यपदेशोऽपि कयाचिदपेक्षया सम्भवति, यथा समस्तवसुधाधिपतिरपि हि सन्नयोध्याधिपतिरिति व्यपदिश्यते । कया पुनरपेक्षया सर्वगतः सन्नीश्वरोऽर्भकौका अणीयांश्च व्यपदिश्यत इति । निचाय्यत्वादेवमिति ब्रूमः । एवमणीयस्त्वादिगुणगणोपेत ईश्वरस्तत्र हृदयपुण्डरीके निचाय्यो द्रष्टव्य

भाष्यका अनुवाद

यान्०' (धीहिसे या यवसे भी अणु) इस प्रकार स्वशब्दसे विशेष अणुत्वका उपदेश होनेसे आरके अग्रभागके बराबर शरीर जीवका ही यहां उपदेश किया जाता है, सर्वगत परमात्माका नहीं किया जाता, ऐसा जो कहा गया है, उसका परिहार करना चाहिए । यहां कहते हैं—यह दोष नहीं है । जिसका प्रदेश सीमित है, वह सर्वव्यापक किसी प्रकार भी नहीं बहा जा सकता है । परन्तु सर्वव्यापक तो सब जगह विद्यमान है, इसलिए किसीकी अपेक्षा उसमें परिच्छिन्न देशका उपदेश भी संभव है । जैसे कि समस्त पृथिवीका अधिपति भी अयोध्याका अधिपति कहलाता है । परन्तु किसकी अपेक्षासे सर्वगत ईश्वर अल्पस्थानवाला और विशेष अणु कहा जाता है ? ध्येय होनेके कारण वह 'अर्भकौका' और 'अणीयान्' कहलाता है, ऐसा हम

रत्नप्रभा

दोष इत्युक्तं विवृणोति—न तावदिति । कथमपि—ब्रह्मभावापेक्षयाऽपीत्यर्थः । परिच्छेदत्याग विना ब्रह्मत्वासम्भवात् तत्त्यागे च ब्रह्मण एवोपास्यत्वमायाति इति भावः । विभोः परिच्छेदोक्तौ दृष्टान्तमाह—यथा समस्तेति । सर्वेश्वरस्य अयोध्याया स्थित्यपेक्षया परिच्छेदोक्तिवत् अल्पहृदि ध्येयत्वेन तथोक्तिः इत्यर्थः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

होता है, ऐसा अर्थात् सूचित अल्पत्व श्रुतिमें 'अणीयान्' इस अल्पत्ववाचक शब्दसे भी कहते हैं—“स्वशब्देन” इत्यादिसे । 'यह दोष नहीं है' ऐसा जो कहा है, उसका विवरण करते हैं—“न तावत्” इत्यादिसे । 'किसी भी प्रकारसे’—ब्रह्मभावकी अपेक्षासे भी । परिच्छेदके त्यागके विना ब्रह्मत्व सम्भव नहीं है और उसका त्याग करनेमें ब्रह्म ही उपास्य होता है, ऐसा तात्पर्य है । विभुका भी परिच्छेद होता है इस कथनमें दृष्टान्त कहते हैं—“यथा समस्त” इत्यादिसे । जैसे सर्वेश्वरकी अयोध्यामें स्थितिकी अपेक्षासे परिच्छेद कहा जात ।

भाष्य

उपदिश्यते । यथा शालग्रामे हरिः । तत्राऽस्य बुद्धिविज्ञानं ग्राहकम् । सर्वगतोऽपीश्वरस्तत्रोपास्यमानः प्रसीदति । व्योमवच्चैतद् द्रष्टव्यम् । यथा सर्वगतमपि सद् व्योम सूचीपाशाद्यपेक्षयाऽर्भकौकोऽणीयश्च व्यपदिश्यते, एवं ब्रह्माऽपि । तदेवं निचाय्यत्वापेक्षं ब्रह्मणोऽर्भकौकस्त्वमणीयस्त्वं च न पारमार्थिकम् । तत्र यदाशङ्क्यते, हृदयायतनत्वाद् ब्रह्मणो हृदयायतनानां च प्रतिशरीरं भिन्नत्वाद्भिन्नायतनानां च शुकादीनामनेकत्वसावयवत्वानि-

भाष्यका अनुवाद

कहते हैं । जैसे शालग्राममें हरिके ध्यानका उपदेश होता है, उसी प्रकार विशेष अणुत्व इत्यादि गुणोंसे युक्त ईश्वरका हृदयकमलमें ध्यान करना चाहिए, ऐसा उपदेश किया जाता है । वहां उसको बुद्धिविज्ञान ग्रहण कर सकता है । ईश्वर सर्वगत है, तो भी वहां उपासना करनेसे प्रसन्न होता है । और उसको आकाशके समान समझना चाहिए । जैसे आकाश सर्वगत है, तो भी सुईके छेद आदिकी अपेक्षासे अल्प स्थानवाला और विशेष अणु है, ऐसा उसका उपदेश होता है, उसी प्रकार ब्रह्मका भी उपदेश किया जाता है । इसलिए इस प्रकार ध्यान करनेकी योग्यताकी अपेक्षासे ब्रह्म अल्प स्थानवाला और विशेष अणु है, परमार्थतः उसमें अणुत्व आदि धर्म नहीं हैं । यहां पर जो यह आशङ्का की जाती है कि ब्रह्मका स्थान हृदय है, हृदय प्रत्येक शरीरमें भिन्न भिन्न हैं, और भिन्न स्थान

रत्नप्रभा

ननु किमिति हृदयमेव प्रायेण उच्यते, तत्राह—तत्रेति । हृदये परमात्मनो बुद्धिवृत्तिः ग्राहिका भवति । अत ईश्वराभिव्यक्तिस्थानत्वात् तदुक्तिः इत्यर्थः । व्योमदृष्टान्तासिना शङ्कालताऽपि काचिच्छिन्ना इत्याह—तत्र यदाशङ्क्यत इत्यादिना । भिन्नायतनत्वेऽपि व्योमनः सत्यमेदाद्यभावादिति भावः ॥ ७ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

है, उसी प्रकार अल्प हृदयमें ध्येय होनेसे ब्रह्मका परिच्छेद कहा है । परन्तु हृदय ही मुख्यरूपसे ध्येयस्थान क्यों कहा गया है, इसपर कहते हैं—“तत्र” इत्यादिसे । बुद्धिवृत्ति हृदयमें परमात्माका ग्रहण करती है । इस प्रकार हृदय ईश्वरकी अभिव्यक्तिका स्थान है, इसलिए उसे ध्येयस्थान कहा है । आकाशदृष्टान्तरूप तलवारसे अन्य शङ्का रूप लता भी काटी गई है, ऐसा कहते हैं—“तत्र यदाशङ्क्यते” इत्यादिसे । आकाशके स्थान भिन्न भिन्न हैं, तो भी उसमें सत्य भेद नहीं है [उपाधिके परिच्छेदसे आकाशमें जैसे अनित्यत्व आदि देखनेमें नहीं आते, उसी प्रकार उपाधिके परिच्छेदसे परब्रह्ममें अनित्यत्व आदि दोष नहीं होते हैं] ॥ ७ ॥

भाष्य

त्यत्वादिदोषदर्शनाद् ब्रह्मणोऽपि तत्प्रसङ्ग इति, तदपि परिहृतं भवति ॥७॥

भाष्यका अनुवाद

वाले शुक्र आदि अनेक, अवयवयुक्त तथा अनित्य देखनेमें आते हैं, इस कारण ब्रह्म भी अनेक, अवयवयुक्त तथा अनित्य हो जायगा, इस आशङ्काका भी उपर्युक्त कथनसे परिहार हो जाता है ॥ ७ ॥

सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न वैशेष्यात् ॥ ८ ॥

पदच्छेद—सम्भोगप्राप्ति, इति, चेत्, न, वैशेष्यात् ।

पदार्थोक्ति—सम्भोगप्राप्ति—[परमात्मन सर्वगतत्वे चेतनत्वाविशेषात् जीववत्] सुखदुःखानुभवप्रसङ्ग, इति चेत्, न, वैशेष्यात्—जीवब्रह्मणो भोक्तृत्वाभोक्तृत्वादिविशेषसद्भावात्, [न जीवभोगेन परमात्मन भोगप्राप्ति, अत मनोमयत्वादिगुणक परमात्मेवोपास्य इति सिद्धम्] ।

भाषार्थ—परमात्मा यदि सर्वगत हो तो चेतन होनेके कारण जीवकी तरह सुखदुःखका अनुभव करनेवाला हो, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जीव भोक्ता है परमेश्वर भोक्ता नहीं है इत्यादि भेदके कारण जीव और ब्रह्म भिन्न भिन्न है, अत जीवमें भोगसे ब्रह्ममें भोगका प्रसंग नहीं है । इससे सिद्ध हुआ कि मनोमयत्व आदि गुणोंसे निशिष्ट परमात्मा ही उपास्य है ।

भाष्य

व्योमवत् सर्वगतस्य ब्रह्मणः सर्वप्राणिहृदयसम्बन्धात्, चिद्रूपतया च शारीरादविशिष्टत्वात्, सुखदुःखादिसम्भोगोऽप्यविशिष्टः प्रसज्येत । एक-

भाष्यका अनुवाद

आकाशके समान सर्वव्यापक ब्रह्मका सब प्राणियोंके हृदयके साथ सम्बन्ध होने तथा चैतन्य होनेके कारण ब्रह्ममें और शरीरमें भेद नहीं है, इससे भी जीवकी तरह ब्रह्ममें भी सुख दुःख आदिका सम्भोग मानना पड़ेगा । और ध्रुति

रत्नप्रभा

ब्रह्मणो हार्दत्वेऽनिष्टसंभोगापत्ते जीव एव हार्द उपास्य इति शङ्का न्याचष्टे—व्योमवदिति । ब्रह्म भोक्तृ स्यात्, हार्दत्वे सति चेतनत्वात् जीवाभिनत्वाच्च, रत्नप्रभाका अनुवाद

ब्रह्म यदि हृदयस्थ हो तो उसको अनिष्ट सम्भोग प्राप्त होगा, अत जीव ही हृदयस्थ है और उपास्य है ऐसी शङ्का करते हैं—'व्योमवत्' इत्यादिस । हृदयमें रहकर चेतन हो गया

भाष्य

त्याच्च । नहि परस्मादात्मनोऽन्यः कश्चिदात्मा संसारी विद्यते, 'नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता' (वृ० ३।७।२३) इत्यादिश्रुतिभ्यः । तस्मात् परस्यैव ब्रह्मणः संसारसम्भोगप्राप्तिरिति चेत्, न; वैशेष्यात् । न तावत् सर्वप्राणिहृदयसम्बन्धात् चिद्रूपतया च शारीरवद् ब्रह्मणः सम्भोगप्रसङ्गः, वैशेष्यात् । विशेषो हि भवति शारीरपरमेश्वरयोः । एकः कर्ता भोक्ता धर्माधर्मसाधनः सुखदुःखादिमांथ,

भाष्यका अनुवाद

प्रतिपादित एकत्वसे भी (उक्त प्रसङ्ग आवेगा) । 'नान्योऽतोऽस्ति' (इससे अन्य विज्ञाता नहीं है) इत्यादि श्रुतियोंसे निश्चय होता है कि परमात्मासे अन्य कोई संसारी आत्मा नहीं है, इससे परमात्माको ही संसारभोगकी प्राप्ति होगी ऐसा यदि कहो, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि जीव और ब्रह्ममें परस्पर भेद है । सब प्राणियोंके हृदयके साथ संबन्ध होनेसे ही जीवके समान ब्रह्ममें भोगप्राप्तिका सम्भव नहीं है, क्योंकि दोनोंमें भेद है । जीव और परमात्मामें भेद इस प्रकार है—एक—जीव कर्ता, भोक्ता, धर्म एवं अधर्म साधनवाला और सुख-दुःखादिमान् है, दूसरा—

रत्नप्रभा

जीववत् इत्युक्तं निरस्यति—न वैशेष्यादिति । धर्माधर्मवत्त्वम् उपाधिः इत्यर्थः । अथमेव विशेषो वैशेष्यम् । स्वार्थे प्यञ् प्रत्ययः, विशेषस्य अतिशयार्थो वा । धर्मादेः स्वाश्रये फलहेतुत्वम् अतिशयः, तस्मादिति सूत्रार्थः । किञ्च, विभवो

रत्नप्रभाका अनुवाद

जीवसे अभिन्न होनेके कारण जीवोंकी तरह ब्रह्म भोक्ता है, इस पूर्वोक्त अनुमानका निराकरण करते हैं—'न वैशेष्यात्' इत्यादिसे । उक्त अनुमानमें 'धर्माधर्मवत्त्वम्' उपाधि है । यह धर्माधर्मवत्त्व ही भेदक है । 'वैशेष्यात्' इम शब्दमें 'प्यञ्' प्रत्यय स्वार्थमें है । अथवा अतिशयवाचक है । धर्म आदिवा अपने आश्रय जीवमें होनेवाले सुख आदिके प्रति कारण होना अतिशय है ।

(१) 'साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापक उपाधिः' जो साध्यका व्यापक हो और साधनका अव्यापक हो, वह उपाधि कहलाती है । प्रकृतमें 'भोक्तृत्व' साध्य है, 'हार्दत्वे सति चेतनत्व' और 'जीवाभिन्नत्व' साधन है । धर्माधर्मवत्त्वरूप उपाधि साध्यव्यापक है अर्थात् जहाँ जहाँ भोक्तृत्व है, वहाँ धर्माधर्मवत्त्व है, जीव भोक्ता है और धर्माधर्मवाले हैं । साधनका अव्यापक है अर्थात् जहाँ जहाँ साधन है वहाँ सर्वत्र उपाधि नहीं है, हृदयस्थ चेतन तथा जीवाभिन्न ब्रह्म भी है उसमें धर्माधर्मवत्त्व नहीं है, क्योंकि ब्रह्म निर्धर्मक है । अनुमानमें उपाधि लगनेसे उस अनुमानमें कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता ।

भाष्य

एकस्तद्विपरीतोऽपहतपाप्मत्वादिगुणः । एतस्मादनयोर्विंशोपादेकस्य भोगो नेतरस्य । यदि च संनिधानमात्रेण वस्तुशक्तिमनाश्रित्य कार्यसम्बन्धोऽभ्युपगम्येत, आकाशादीनामपि दाहादिप्रसङ्गः । सर्वगतानेकात्मवादिनामपि समावेतौ चोद्यपरिहारौ । यद्यपि एकत्वाद् ब्रह्मण आत्मान्तराभावाच्छारीरस्य भोगेन ब्रह्मणो भोगप्रसङ्ग इति । अत्र वदामः—इदं तावद् देवानांप्रियः प्रष्टव्यः—कथमयं त्वयाऽऽत्मान्तराभावोऽध्यवसित इति । 'तत्त्वमसि' 'अहं ब्रह्मास्मि' 'नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता' इत्यादिशास्त्रेभ्य

भाष्यका अनुवाद

ब्रह्म उससे विपरीत पापरहितत्व (पापका न होना) आदि गुणोंसे युक्त है । इस प्रकार इन दोनोंमें भेद होनेके कारण एकको सुख, दुःख आदिका भोग प्राप्त होता है, दूसरेको नहीं । यदि वस्तुशक्तिका आश्रय किये बिना संनिधानमात्रसे कार्यके साथ संबन्ध माना जाय तो आकाश आदिमें भी दाह आदि मानने पड़ेगे । जिन लोगोंका यह मत है कि जीव सर्वव्यापक तथा अनेक हैं, उनके मतमें भी यह शङ्का और समाधान समान ही हैं । यह जो कहा है कि ब्रह्मके एकत्वसे अन्य आत्माका अभाव है, इससे शारीरके भोगसे ब्रह्मको भोगका प्रसङ्ग आवेगा । उसपर कहते हैं—प्रथम तो इस मूढ़से यह पूछना चाहिए कि परमात्मासे अन्य आत्माके अभावका निश्चय तुमने किस प्रमाणसे किया है ? यदि कहे कि 'तत्त्वमसि' (वह तू है) 'अहं ब्रह्मास्मि' (मैं ब्रह्म हूँ) 'नान्योऽतोऽस्ति' (इससे अन्य विज्ञाता नहीं है) इत्यादि शास्त्रोंसे [यह निर्णय किया है], तो [हम कहते

रत्नप्रभा

वहव आत्मान इति वादिनाम् एकस्मिन् देहे सर्वात्मनां भोक्तृत्वप्रसङ्गः, स्वकर्मार्जित एव देहे भोग इति परिहारश्च तुल्य इति न वयं पर्यनुयोज्या इत्याह—सर्वगतेति । वस्तुतस्तेषामेव भोगसाङ्ख्यम् इत्यग्रे वक्ष्यते । ब्रह्मणो

रत्नप्रभाका अनुवाद

उस वैशेष्यसे, यह सूत्रका अर्थ है । और व्यापक बहुत आत्मा हैं ऐसा माननेवालोंको भी एक ही देहमें सब आत्माओंको भोक्ता मानना पड़ेगा—यह शङ्का और अपने कर्मसे सम्पादित देहमें ही भोग होता है—यह परिहार समान है, इस कारण हमसे ऐसा प्रश्न न करना चाहिए, ऐसा कहते हैं—“सर्वगत” इत्यादिसे । वस्तुतः तो उनके मतमें ही भोगसाङ्ख्य होता है, यह आगे

(१) आशय यह है कि वदामे दाहकता शक्ति है, अतः वदामे दाहरूप कार्य होता है । आकाश सर्वगत है उससे वदामे साश्रित्य रहता ही है, उस मानिष्यसे आकाशमें भी दाह मानना पड़ेगा ।

भाष्य

इति चेत्, यथाशास्त्रं तर्हि शास्त्रीयोऽर्थः प्रतिपत्तव्यो न तत्रार्धजरतीयं लभ्यम् । शास्त्रं च 'तच्चमसि' इत्यपहतपाप्मत्वादिविशेषणं ब्रह्म शरीर-स्याऽऽत्मत्वेनोपदिशच्छारीरस्यैव तावदुपभोक्तृत्वं चारयति । कुतस्तदुप-भोगेन ब्रह्मण उपभोगप्रसङ्गः ।

भाष्यका अनुवाद

हैं कि] शास्त्रके अनुसार शास्त्रीय अर्थ समझना चाहिए, उसमें अर्धजरतीय युक्त नहीं है । 'तच्चमसि' इत्यादि शास्त्र तो पापरहितत्व आदि विशेषणोंसे युक्त ब्रह्मका शरीरके आत्मारूपसे उपदेश करता हुआ शरीरके ही भोक्तृत्वका निषेध करता है । ऐसी स्थितिमें उसके उपभोगसे ब्रह्मके उपभोगका प्रसङ्ग कैसे प्राप्त हो सकता है ?

रत्नप्रभा

जीवाभिन्नत्वं श्रुत्या निश्चित्य तेन भोक्तृत्वानुमाने उपजीव्यश्रुतिबाधमाह—यथा-शास्त्रमिति । अर्थ मुखमात्रं जरत्या वृद्धायाः कामयते, न अङ्गानि इति सोऽयमर्ध-जरतीयन्यायः । स च अत्र न युक्तः । नहि अभेदम् अङ्गीकृत्य अमोक्तृत्वं त्यक्तुं युक्तम्, श्रुत्यैव अभेदसिद्धयर्थं भोक्तृत्ववारणात् इत्याह—शास्त्रं चेति । ननु एकत्वं मया श्रुत्या न गृहीतम्, येन उपजीव्यश्रुत्या बाधः स्यात्, किन्तु त्वदुक्त्या गृहीतम् इत्याशङ्क्य विम्बप्रतिविम्बयोः कल्पितभेदेन भोक्तृत्वाभोक्तृत्वव्यवस्थोपपत्तेः अप्रयोजको

रत्नप्रभाका अनुवाद

कहेंगे । ब्रह्म जीवसे अभिन्न है ऐसा श्रुतिसे निश्चय करके उससे ब्रह्ममें भोक्तृत्वका अनुमान करे, तो उपजीव्य श्रुतिका बाध हो जायगा, ऐसा कहते हैं—“यथाशास्त्रम्” इत्यादिसे । जरती—वृद्धस्त्रीके मुखमात्रको पुरुष चाहता है, अन्य अङ्गोंको नहीं चाहता, यह अर्धजरतीयन्याय है । यह न्याय यहाँ युक्त नहीं है । ब्रह्म और जीवमें अभेदका अङ्गीकार कर ब्रह्ममें अभोक्तृत्वका त्याग करना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति ही अभेद सिद्ध करनेके लिए जीवमें भोक्तृत्वका निषेध करती है, ऐसा कहते हैं—“शास्त्रं च” इत्यादिसे । हमको ब्रह्म और जीवका अभेदज्ञान श्रुतिसे नहीं हुआ है, जिससे कि उपजीव्य श्रुतिका बाध होगा, किन्तु तुम्हारे कथनसे वह ज्ञान हुआ है, ऐसी आशङ्का कर विम्ब और प्रतिविम्बमें कल्पित भेदसे विम्ब—ब्रह्म अभोक्ता है और प्रति-

(१) आनन्दगिरिको टीकामें इस न्यायको इस प्रकार समझाया है—“नहि कुक्कुटादेरेकदेशो भोगाय वधिकैः पच्यते एकदेशस्तु प्रसवाय कल्प्यते विरोधात्” कुक्कुटी आदिका एक भाग भोजनके लिये पकाया जाय और दूसरा भाग प्रसव (अंडे देने) के लिए रक्ता जाय यह युक्त नहीं है, क्योंकि विरोध है । आनन्दगिरि अर्धजरतीयन्यायका ऐसा व्याख्यान करें, यह सम्भव नहीं है । सम्भव है उनकी भाष्यपुस्तकमें 'अर्धकुक्कुटीयन्याय' पाठ हो, प्रकृतस्थलमें दोनों न्याय संगत हैं, दोनोंका आशय भी एक ही है ।

भाष्य

अथाऽगृहीतं शारीरस्य ब्रह्मणैकत्वं तदा मिथ्याज्ञाननिमित्तः शारीर-
स्योपभोगः, न तेन परमार्थरूपस्य ब्रह्मणः संस्पर्शः । नहि बालैस्तलमलि-
नतादिभिर्व्योम्नि विकल्प्यमाने तलमलिनतादिविशिष्टमेव परमार्थतो
व्योम भवति । तदाह—न वैशेष्यादिति । नैकत्वेऽपि शारीरस्योपभोगेन
ब्रह्मण उपभोगप्रसङ्गः, वैशेष्यात् । विशेषो हि भवति मिथ्याज्ञानसम्य-
ग्ज्ञानयोः । मिथ्याज्ञानकल्पित उपभोगः, सम्यग्ज्ञानदृष्टमेकत्वम् । न च
मिथ्याज्ञानकल्पितेनोपभोगेन सम्यग्ज्ञानदृष्टं वस्तु संस्पृश्यते । तस्मान्नोप-
भोगगन्धोऽपि शक्य ईश्वरस्य कल्पयितुम् ॥ ८ ॥

भाष्यका अनुवाद

यदि शारीरका ब्रह्मके साथ अभेद ज्ञान नहीं हुआ, तो शारीरको मिथ्याज्ञानसे
उपभोग उत्पन्न होता है, परमार्थरूप ब्रह्मको उसका संस्पर्श नहीं है । अज्ञानी
आकाशमें तलमलिनता आदिकी कल्पना करते हैं, उससे आकाश वस्तुतः तल-
मलिनता आदिसे युक्त नहीं होता । इसलिए सूत्रकार कहते हैं—‘न वैशेष्यात्’ ।
एकत्व होनेपर भी शारीरके उपभोगसे ब्रह्ममें उपभोगका प्रसङ्ग नहीं है, क्योंकि
भेद है । वस्तुतः मिथ्याज्ञान और सम्यग्ज्ञानमें भेद है । उपभोग मिथ्याज्ञानसे
कल्पित है और एकत्व सम्यग्ज्ञानसे दिखता है । सम्यग्ज्ञानसे देखी हुई वस्तु
मिथ्याज्ञानकल्पित उपभोगसे संबन्ध नहीं रखती । इस कारण ईश्वरमें लेशमात्र
भी उपभोगकी कल्पना नहीं की जा सकती है ॥ ८ ॥

रत्नप्रभा

हेतुः इत्याह—अथागृहीतमित्यादिना । कल्पितासन्नित्वम् अधिष्ठानस्य
वैशेष्यम् इत्यस्मिन् अर्थेऽपि सूत्रं पातयति—तदाहेति । ब्रह्मणो हार्दत्वे
बाधकाभावात् शाण्डिल्यविद्यावाक्यं ब्रह्मणि उपास्ये समन्वितमिति सिद्धम् ॥८॥(१)

रत्नप्रभाका अनुवाद

बिम्ब—जीव भोक्ता है, यह व्यवस्था हो सकती है, इसलिए तुमसे कहा गया हेतु अप्रयोजक
है, ऐसा कहते हैं—“अथागृहीतम्” इत्यादिसे । कल्पित पदार्थसे अधिष्ठानका संबन्ध नहीं होता
यह अधिष्ठानगत विशेष है, इस विषयमें भी सूत्रकी योजना करते हैं—“तदाह” इत्यादिसे ।
इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मकी हृदय स्थितिमें कोई बाधक नहीं है, अतः शाण्डिल्यविद्यामें पठित
‘मनोमय प्राणशरीर’ यह वाक्य उपास्य ब्रह्ममें समन्वित है ॥ ८ ॥

[२ अत्राधिकरण सू० ९-१०]

जीवोऽग्निरीशो वाऽत्ता स्यादोदने जीव इप्यताम् ।

स्वाद्वत्तीति श्रुतेर्वह्निर्वाग्निरत्ताद इत्यदः ॥१॥

ब्रह्मक्षत्रादिजगतो भोज्यत्वात् स्यादिहेश्वरः ।

ईशमश्रोत्तरत्वाच्च संहारस्तस्य चावृता * ॥२॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—‘यस्य ब्रह्म च क्षत्र च०’ इस मंत्रमें प्रतीयमान अत्ता—भोक्ता जीव है या अग्नि अथवा परमेश्वर ?

पूर्वपक्ष—जीव भोक्ता है, क्योंकि श्रुतिमें ‘तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्वत्ति’ (उन दोनोंमें एक मधुर कर्मफल भोगता है) जीव भोक्ता कहा गया है । अथवा अग्नि भोक्ता हो सकती है, क्योंकि ‘अग्निरन्नादः’ (अग्नि अन्नभक्षक है) इस श्रुतिमें अग्नि अन्नभक्षक कही गई है ।

सिद्धान्त—श्रुतिमें ‘ब्रह्म’ ‘क्षत्र’ पद उपलक्षक हैं अर्थात् समस्त जगत् भक्ष्य होनेसे यहा-पर अत्तारूपसे ईश्वर ही लिया जाता है । दूसरी बात यह भी है कि उक्त वाक्य ईश्वर विषयक प्रश्नके उत्तरमें कहा गया है, अतः ईश्वर ही अत्ता है । अत्ता अर्थात् सहारकर्ता । जगत्वा सहार ईश्वर ही करता है ।

* निष्कर्ष यह है कि कठोपनिषद्में द्वितीय बहोके अन्तमें ‘यस्य ब्रह्म च क्षत्र च उभे भवत ओदनः । मृत्युर्यस्योपसेचन क इत्या वेद यत्र सः ।’ यह मन्त्र पढा गया है । इस मन्त्रका अर्थ है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों जिसकी भक्ष्य हैं, मृत्यु जिसके भक्ष्यका सङ्कार करनेवाला अर्थात् घृतरूप है, वह महापुरुष जिस स्थानमें रहता है उसे यथायंरूपसे कौन जानता है ? अर्थात् कोई भी नहीं जानता । यहापर ओदन (भक्ष्य) और उपसेचन (धी) इन दो पदोंसे किसी भक्षककी प्रतीति होती है । उसके विषयमें तीन तरहका सशय होता है कि वह जीव है अथवा अग्नि है या परमेश्वर है ?

(२) पूर्वपक्षी कहता है कि यहा जाव ही भक्षक हो सकता है, क्योंकि ‘तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्वत्ति’ (उन दोनोंमेंसे एक मधुर कर्मफलोंका भोग करता है) इस श्रुतिमें जीव भक्षक कहा गया है । अथवा अग्नि भक्षक हो सकती है, क्योंकि ‘अग्निरन्नादः’ (अग्नि अन्नभक्षक है) इस श्रुतिमें अग्नि भक्षक कही गई है ।

सिद्धान्त कहते हैं कि यहापर ‘ब्रह्म’ और ‘क्षत्र’ पद सारे ससारके उपलक्षक हैं, अतः सारा ससार ही भक्ष्यरूपसे प्रतीय होता है । ससाररूप भक्ष्यका ईश्वरको छोडकर दूसरा भक्षक नहीं हो सकता । दूसरी बात यह भी है कि

“अन्यत्र धर्माद्व्यवनाऽधर्माद्व्यवनाऽरमात् कृताकृतात् ।

अन्यत्र भूताच्च भ्रम्याच्च यत्तरपर्यायि तद्वद ॥” (क० १।१।१४)


(धर्म और अधर्मसे अतिरिक्त कार्य और कारणमें पूर्वक् पव भूत, भविष्यत् तथा वर्तमानसे भिन्न जिम वस्तुको आप जानते हैं, उसका मेरे लिये उपदेश कौनिये) इस प्रकार धर्म, अधर्म, वायं,

अत्ता चराचरग्रहणात् ॥ ९ ॥

पदच्छेद—अत्ता, चराचरग्रहणात् ।

पदार्थोक्ति—अत्ता—['यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोमे भवत ओदनः' इत्यादि-श्रुतौ प्रतीयमानः] - भक्षकः [परमात्मैव, नामिः जीवो वा, कुतः] चराचर-ग्रहणात्—उक्तश्रुतौ लक्षणया स्थावरजङ्गमयोरधत्वेन ग्रहणात् [सर्वसंहारं परमात्मानं विनाऽन्यस्य चराचरातृत्वायोगात्] ।

भाषार्थ—“यस्य ब्रह्म च०” इस श्रुतिमें प्रतीयमान भक्षक परमात्मा ही है, अग्नि अथवा जीव नहीं है, क्योंकि उक्त वाक्यमें ब्रह्मपद और क्षत्रपदकी लक्षणासे स्थावर तथा जङ्गमरूप सकल जगत्का भक्ष्यरूपसे ज्ञान होता है । सर्वसंहारक परमात्माके बिना और कोई सकल जगत्का भक्षक नहीं हो सकता ।



भाष्य

कठवल्लीपु पठ्यते—‘यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोमे भवत ओदनः । मृत्यु-र्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः’ (१।२।२४) इति । अत्र कश्चिदो-

भाष्यका अनुवाद

‘यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च०’ (ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जिसके ओदन हैं और मृत्यु जिसका उपसेचन—ओदनके साथ मिलाने योग्य थी है, वह जहां है, इस रत्नप्रभा

अत्ता चराचरग्रहणात् । यस्य ब्रह्मक्षत्रादिजगद् ओदनः, मृत्युः सर्व-प्राणिमारकोऽपि यस्य उपसेचनम्—ओदनसंस्कारकघृतप्रायः, सोऽत्ता यत्र शुद्धे चिन्मात्रेऽभेदकल्पनया वर्तते, तच्छुद्धं ब्रह्म इत्था—इत्थम् ईश्वरस्याऽपि

रत्नप्रभाका अनुवाद

‘अत्ता चराचरग्रहणात्’ । जिस परमात्माका ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जगत् अन्न है, और सर्वप्राणिनाशक मृत्यु भी जिसका उपसेचन—ओदनका संस्कार करनेवाला घृत है, वह अत्ता—भक्षक, कारणात्मा, जिस शुद्ध चिन्मात्रमें अभेदसे रहता है, वह शुद्ध ब्रह्म ईश्वरका भी अधि-

कारण, भूत, भविष्यत् और वर्तमानसे पृथक् परमेश्वरके विषयमें नचिकेता द्वारा प्रदत्त किये जानेपर ‘यस्य ब्रह्म च’ इस वाक्य द्वारा यमने उत्तर दिया । हमने सिद्ध हुआ कि उपर्युक्त वाक्यमें भक्षकरूपसे ईश्वर ही लिया जाता है । यदि कहो कि “अनश्नन्नन्योऽभिषाकज्ञाति” (उनमें दूसरा अर्थात् ईश्वर भोग न करता हुआ केवल वेद्यता है) यह श्रुति ईश्वरमें भोक्तृत्वका निषेध करती है । यहाँपर अत्ताका अर्थ महाभक्षकता है । महाभक्षकत्व तो ईश्वरमें ही सब देशान्तोंमें प्रसिद्ध है ।

भाष्य

दनोपसेचनसूचितोऽत्ता प्रतीयते । तत्र किमग्निरत्ता स्यात्, उत जीवः, अथवा परमात्मा, इति संशयः, विशेषानवधारणात्, त्रयाणां चाऽग्निजीव-परमात्मनामस्मिन् ग्रन्थे प्रश्नोपन्यासोपलब्धेः । किं तावत्प्राप्तम् ?

भाष्यका अनुवाद

प्रकार उसको कौन जानता है) ऐसा फठवल्लीमें कहा है । यहांपर ओदन और उपसेचनसे सूचित किसी एक भक्षककी प्रतीति होती है । वह भक्षक क्या अग्नि है, या जीव है, या परमात्मा है ? ऐसा संशय प्राप्त होता है । इस ग्रन्थमें अग्नि, जीव और परमात्मा इन तीनोंके प्रश्नोंका निर्देश दिखाई देता है, इसलिए अमुक ही लिया जाय ऐसा निश्चय नहीं है । तब क्या प्राप्त होता है ?

रत्नप्रभा

अधिष्ठानभूतं को वेद, चित्तशुद्ध्याद्युपायं विना कोऽपि न जानाति इत्यर्थः । संशयबीजमाह—विशेषेति । “स त्वमग्निं प्रब्रूहि” (क० १।१२) इति अग्नेः, “येयं प्रेतो विचिकित्सा” (क० १।२१) इति जीवस्य, “अन्यत्र धर्माद्” (क० २।१४) इति ब्रह्मणः प्रश्नः । “लोकादिमग्निं तमुवाच” (क० १।१५) इति अग्नेः, “हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि” (क० २।६) इति इतरयोः प्रतिवचन-मुपलभ्यते इत्यर्थः । पूर्वत्र ब्रह्मणो भोक्तृत्वं नास्ति इति उक्तम्, तदुपजीव्य पूर्वपक्षयति—किं तावदिति । अग्निप्रकरणम् अतीतम् इति अरुचेः आह—

रत्नप्रभाका अनुवाद

ष्ठानभूत है, यह कौन जानता है । चित्तशुद्धि आदि उपायोंके विना कोई भी नहीं जानता, ऐसा अर्थ है । संशयका कारण कहते हैं—“विशेष” इत्यादिसे । ‘स त्वमग्निं’ (हे मृत्यो ! तुम स्वर्ग-लोक प्राप्त करनेके साधनभूत अग्निको जानते हो, उसको जाननेकी मुझे बड़ी थका है, इसलिए थक्यायुक्त मुझको उसका उपदेश करो) यह अग्निबंधनी प्रश्न है, ‘येयं प्रेतो’ (मनुष्यके मरने पर परलोकमें शरीर, इन्द्रिय, मन एवं बुद्धिसे भिन्न देहान्तरबंधनी आत्मा है, ऐमा कितने ही मानते हैं, और नहीं है ऐमा कितने ही मानते हैं इसमें संशय होनेसे हमको निर्णयज्ञान नहीं होता, परम पुत्र्यार्थ निर्णयके अधीन है, इसलिए हे मृत्यो ! तुममे उपदेश पाया हुआ मैं उस विद्याको जानना चाहता हूँ । परोंमें यह मेरा तीसरा वर है) यह जीव-सम्बन्धी प्रश्न है और ‘अन्यत्र धर्माद्’ (धर्मसे—शास्त्रीयधर्मके अनुष्ठानसे, उसके फलसे और उसके कारकोंसे जो भिन्न है और अधर्मसे भी जो भिन्न है, इस कार्य और कारणसे जो भिन्न है, भूत, भविष्य और वर्तमान कालसे जो भिन्न है अर्थात् कालत्रयसे जिसका परिच्छेद नहीं होता, इस प्रकार सब व्यवहार और मर्यादासे अतिक्रान्त जिय वस्तुको तुम जानते हो, उसे कहो) यह ब्रह्मसंबन्धी प्रश्न है । इसी प्रकार तीनोंके सम्बन्धमें उत्तर है । ‘लोकादिमग्निं’ (यमने

भाष्य

अग्निरत्तेति । कुतः ? 'अग्निरन्नादः' (वृ० १।४।६) इति श्रुतिप्रसिद्धिम्याम् । जीवो वाऽत्ता स्यात्, 'तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति' इति दर्शनात् । न परमात्मा, अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति' (मु० ३।१।१) इति दर्शनात् ।

इत्येवं प्राप्ते द्रूमः—अत्ताऽत्र परमात्मा भवितुमर्हति । कुतः ? चराचरग्रहणात् । चराचरं हि स्थावरजङ्गमं मृत्यूपसेचनमिहाऽद्यत्वेन प्रतीयते ।

भाष्यका अनुवाद

पूर्वपक्षी—अग्नि भक्षक है, यह प्राप्त होता है । किससे ? 'अग्निरन्नादः' (अग्नि अन्नका भक्षक है) इस श्रुतिसे और लोकप्रसिद्धिसे । अथवा जीव भक्षक हो सकता है, क्योंकि 'तयोरन्यः०' (उन दोनोंमें एक मधुर कर्मफलका भोग करता है) ऐसी श्रुति देखनेमें आती है । परन्तु परमात्मा भक्षक नहीं हो सकता, क्योंकि 'अनश्नन्नन्यो०' (दूसरा न भोगता हुआ देखता रहता है) ऐसी श्रुति देखनेमें आती है ।

सिद्धान्ती—ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं—यहां परमात्मा ही भक्षक है; क्योंकि श्रुतिमें चर और अचरका ग्रहण है । चर और अचर—जंगम और स्थावर जगत् (जिसका मृत्यु उपसेचन है), यहां भक्ष्यरूपसे प्रतीत होता है,

रत्नप्रभा

जीवो वेत्ति । पूर्वपक्षे जीवोपास्तिः, सिद्धान्ते निर्विशेषब्रह्मज्ञानम् इति फलभेदः । ओदनशब्दो भोग्यवाचीति पूर्वपक्षः । सिद्धान्तस्तु ब्रह्मक्षत्रशब्दैः उपस्थापितकार्यमात्रे गौण ओदनशब्दः । गुणश्च अत्र मृत्यूपसेचनपदेन

रत्नप्रभाका अनुवाद

नचिकेताको लोकोंके आदिभूत अग्निका ज्ञान दिया । और जो ईंट जोड़नी चाहिएँ और जिस प्रकार अग्निचयन होता है, वह सब कहा) यह अग्निके सम्बन्धमें उत्तर है और 'हन्त त इदं०' (हे गौतम ! मैं फिर भी तुमसे गोप्य चिरंतन ब्रह्म कहता हूँ, जिसके ज्ञानसे सारे संसारका उपरम हो जाता है और जिसके अज्ञानमे मरण पाकर आत्मा जैसे संसरण करता है, वह सुनो) यह जीव और ब्रह्मके सम्बन्धमे उत्तर उपलब्ध होता है । पूर्वमें ब्रह्म भोक्ता नहीं है ऐसा कहा है, उनके आधारपर पूर्वपक्ष करते हैं—'किं तावत्' इत्यादिसे । अग्निका प्रकरण समाप्त हो गया है, इस अक्षयसे कहते हैं—'जीवो वा' इत्यादि । पूर्वपक्षमें जीवकी उपामना फल है, सिद्धान्तमें निर्गुण ब्रह्मज्ञान फल है, यह फलमें भेद है । पूर्वपक्षमें ओदन शब्द भोग्यवाचक है । सिद्धान्तमें तो ओदनशब्द ब्रह्म और क्षत्रशब्दोंमे उपस्थापित कार्यमात्रया लक्षक है । यहांपर मृत्यूपसेचन पदके सन्निधानसे प्रसिद्ध ओदनमें रहनेवाले विनाशस्वरूप

भाष्य

तादृशस्य चाऽऽद्यस्य न परमात्मनोऽन्यः कात्स्न्येनाऽत्ता सम्भवति, परमात्मा तु विकारजातं संहरन् सर्वमत्तीत्युपपद्यते । नन्विह चराचरग्रहणं नोपलभ्यते, तत् कथं सिद्धवच्चराचरग्रहणं हेतुत्वेनोपादीयते । नैष दोषः, मृत्यूपसेचनत्वेनेह आद्यत्वेन सर्वस्य प्राणिनिकायस्य प्रतीयमानत्वात्, ब्रह्मक्षत्रयोश्च प्राधान्यात् प्रदर्शनार्थत्वोपपत्तेः । यत्तु परमात्मनोऽपि नाऽत्तृत्वं सम्भवति, 'अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति' इति दर्शनात् इति । अत्रोच्यते—कर्मफलभोगस्य प्रतिषेधकमेतद्दर्शनम्, तस्य संनिहितत्वात्, न विकारसंहारस्य प्रतिषेधकम्, सर्ववेदान्तेषु सृष्टिस्थितिसंहारकारणत्वेन ब्रह्मणः प्रसिद्धत्वात् । तस्मात् परमात्मैवेहाऽत्ता भवितुमर्हति ॥ ९ ॥

भाष्यका अनुवाद

और ऐसे भक्षक पूर्णतासे भक्षक परमात्मासे अन्य नहीं हो सकता । परमात्मा तो सब विकारका संहार करता है, इस कारण उसका सर्वभक्षक होना संगत है । परन्तु यहां चर और अचरका ग्रहण उपलब्ध नहीं होता, तो श्रुतिमें चराचरका ग्रहण सिद्ध-सा मान कर हेतुरूपसे उसका कैसे ग्रहण करते हो । यह दोष नहीं है, क्योंकि मृत्यु उपसेचन है, इस कथनसे सब प्राणिसमूह भक्ष्य हैं ऐसी प्रतीति होती है, ब्राह्मण और क्षत्रियके मुख्य होनेके कारण उनका प्रदर्शन करना ठीक है । यह जो कहा है कि परमात्माका भी भक्षक होना संभव नहीं है, क्योंकि 'अनश्नन्नन्यो' (दूसरा खाये बिना साक्षीरूपसे देखता रहता है) ऐसी श्रुति दिखाई देती है । इसपर कहते हैं—यह श्रुतिवाक्य कर्मफलके उपभोगका प्रतिषेध करता है, क्योंकि यह संनिधिमें है । विकारके संहारका प्रतिषेध नहीं करता, क्योंकि ब्रह्म सब वेदान्तोंमें सृष्टि, स्थिति और संहारका कारणरूपसे प्रसिद्ध है । इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही यहां भक्षक है ॥ ९ ॥

रत्नप्रभा

सन्निधापितं प्रसिद्धौदमगतं विनाश्यत्वं गृह्यते, गौणशब्दस्य सन्निहितगुणग्राहित्वात् । तथा च सर्वस्य विनाश्यत्वेन भानात् लिङ्गाद् ईश्वरोऽचेत्याह—नैष दोष इति । तस्य सन्निहितत्वादिति । "पिप्पलं स्वाद्दत्ति" इति भोगस्य पूर्वोक्तत्वाद् इत्यर्थः ॥ ९ ॥ (२)

रत्नप्रभाका अनुवाद

गुणका ग्रहण होता है, क्योंकि गौणशब्द समीपवर्ती पदार्थके गुणका ग्रहण करता है । इस प्रकार सब पदार्थोंके विनाश्य होनेके कारण उसके नाशकत्वरूप लिंगसे ईश्वर ही भक्षक है, ऐसा कहते हैं—'नैष दोष.' इत्यादिसे । "तस्य सन्निहितत्वात्" अर्थात् 'पिप्पलं' (मधुर कर्मफलका भोग करता है) इस प्रकार पहले भोग कहनेके कारण ॥९॥

प्रकरणाच्च ॥ १० ॥

पदच्छेद—प्रकरणात्, च ।

पदार्थोक्ति—प्रकरणात्—['न जायते म्रियते वा विपश्चित्' इत्यादिना ब्रह्मणः] प्रकृतत्वात्, च—'क इत्या वेद यत्र सः' इति दुर्विज्ञेयत्वरूपलिङ्गाच्च [अक्षुवाक्योक्तः अत्ता परमात्मैव] ।

भाषार्थ—'न जायते म्रियते० (आत्मा न उत्पन्न होता है और न मरता है) इत्यादि पूर्ववाक्यसे ब्रह्म ही प्रस्तुत है और 'क इत्या वेद०' (वह अमुक स्थानमें है इस प्रकार उसको कौन जानता है) ऐसा दुर्विज्ञेयत्वरूप ब्रह्मका लिङ्ग भी कहा गया है, अतः अक्षुवाक्यमें उक्त भक्षक परमात्मा ही है ।



भाष्य

इतश्च परमात्मैवेहाऽत्ता भवितुमर्हति, भक्कारणं प्रकरणमिदं परमात्मनः, 'न जायते म्रियते वा विपश्चित्' (का० १।२।१८) इत्यादि । प्रकृतग्रहणं च न्याय्यम् । 'क इत्या वेद यत्र सः' इति च दुर्विज्ञानत्वं परमात्मलिङ्गम् ॥ १० ॥

भाष्यका अनुवाद

'न जायते म्रियते०' (आत्मा न जन्म लेता है और न मरता है) इत्यादि परमात्माका प्रकरण है, इससे मी परमात्मा ही यहाँ अत्ता होना चाहिए । और प्रकृतका ग्रहण करना युक्त है । 'क इत्या वेद०' (वह अमुक स्थानमें है, इस प्रकार उसको कौन जानता है) ऐसा दुर्विज्ञेयत्वरूप परमात्माका लिङ्ग भी है ॥ १० ॥



[३ गुहाप्रविष्टाधिकरण सू० ११-१२]

गुहां प्रविष्टौ धीर्जीवौ जीवेशौ वा हृदि स्थितौ ।

छायातपस्वदृष्टान्ताद् धीर्जीवौ स्तो विलक्षणौ ॥ १ ॥

पिबन्ताविति चैतन्यद्वयं जीवेश्वरौ ततः ।

हृत्स्थानमुपलब्धं स्याद्वैलक्षण्यमुपाधितः ॥ २ * ॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—‘ऋत पिबन्तौ’ इस श्रुतिमें उक्तः प्रवेशकर्ता बुद्धि और जीव हैं अथवा जीव और परमेश्वर ?

पूर्वपक्ष—हृदयमें स्थिति कही गई है और छाया एव आतप दृष्टान्तरूपसे कहे गये हैं, अतः परस्पर विलक्षण बुद्धि और जीव ही प्रवेशकर्ता हैं ।


सिद्धान्त—‘पिबन्तौ’ इसमें द्विवचनसे मालूम होता है कि दोनों चेतन हैं, अतः जीव और ईश्वर प्रवेशकर्ता हैं । हृदयरूप स्थान उपासनाके लिए कहा गया है । जीव सोपाधिक होनेसे छायाके समान है और ईश्वर निरुपाधिक होनेसे आतपके समान है इस प्रकार दोनोंमें वैलक्षण्य हो सकता है ।

* कठोपनिषद्की तृतीय ब्रह्मीमें यह पहला मंत्र है—‘ऋत पिबन्तौ मुकुन्तस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्थे । छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति पश्चात्प्रयो ये च त्रिणाचिकेता ’ ॥ इस मंत्रका अर्थ है—पुण्यकर्मोंका फलभूत ब्राह्मणादि शरीर परब्रह्मका उपलम्बिस्थान है । ब्रह्मविषयमें अधिकारी होनेके लिए उपयुक्त शम, दम आदि साधनोंसे सम्पन्न होनेके कारण वह (शरीर) श्रेष्ठ है । उक्त शरीरके मध्यभागमें स्थित हृदयकमरूप गुहामें दो प्रविष्ट हैं । अथवा कर्मफलका भोग करनेवाले छाया और आतपके समान विरुद्ध धर्मवाले दो हैं ऐसा ब्रह्मज्ञानी तथा कर्मानुष्ठान करनेवाले गृहस्थ कहते हैं ।

इसमें सशय होता है कि वे दो बुद्धि और जीव है या जीव और परमात्मा है ?

पूर्वपक्षी कहता है कि वे दो बुद्धि और जीव हैं, क्योंकि गुहारूप अल्प स्थानमें परिच्छिन्न—अल्प परिमाणवाले ही प्रवेश कर सकते हैं । दूसरी बात यह भी है कि जड़ तथा चेतन होनेके कारण छाया एव आतपके समान बुद्धि और जीवमें विलक्षणता भी है ।

सिद्धान्ती कहते हैं कि ‘पिबन्तौ’ इसमें द्विवचनसे दोनों चेतन मालूम होते हैं । अतः चेतन जीव और ईश्वर यथा गुहाप्रवेशकर्ता हैं । यद्यपि ईश्वर सर्वव्यापक है तो भी उपासनाके लिए हृदयमें उसकी स्थिति कही जाती है । यद्यपि दोनों चेतन होनेसे समान हैं तो भी ईश्वर उपाधिरहित है, जीव उपाधिसहित है, इस प्रकार दोनोंमें वैलक्षण्य है ही । अतः जीव और ईश्वर ही गुहाप्रवेश कर्ता निर्दिष्ट हैं ।



गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तद्दर्शनात् ॥ ११ ॥

पदच्छेद—गुहाम्, प्रविष्टौ, आत्मानौ, हि, तद्दर्शनात् ।

पदार्थोक्ति—गुहा प्रविष्टौ—‘ऋत पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहा प्रविष्टौ परमे परार्धे’ इति श्रुतौ गुहाप्रविष्टत्वेन निर्दिष्टौ जीवपरमात्मानौ एव, [न बुद्धिजीवौ, कुत] तद्दर्शनात्—सङ्ख्याश्रवणे सङ्ख्यावतोरैकरूपत्वस्य लोके दर्शनात् [जीवपरमात्मनो चेतनत्वेनैकरूपत्वात्, बुद्धिजीवयो तत्त्वेन तदभावात्] ।

भाषार्थ—‘ऋत पिबन्तौ०’ इस मन्त्रमे जीव और परमात्मा ही गुहाप्रविष्ट कहे गये हैं, बुद्धि और जीव नहीं, क्योंकि सख्याके श्रवणसे अर्थात् किसी एक वस्तुका निर्देश करके दूसरा, तीसरा इत्यादि कहनेसे उस वस्तुके सजातीय पदार्थका ही ग्रहण होना लोकाव्यग्रहारेमें भी प्रसिद्ध है । अतः ‘पिबन्तौ’ (पान करनेवाले) इसमें पानकर्तारूपसे सिद्ध जीवात्माका साथी परमात्मा ही हो सकता है, क्योंकि दोनों चेतन होनेके कारण सजातीय हैं । बुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि बुद्धि चेतन नहीं है, अतः वह चेतनत्वरूपसे जीवात्माकी सजातीय नहीं है ।



भाष्य

कठप्रह्वीष्वेव पठ्यते—‘ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहा प्रविष्टौ

भाष्यका अनुवाद

‘ऋत पिबन्तौ०’ (अवश्य भोक्तव्य कर्मफलका भोग करनेवाले, सुकृतके कार्य देहके श्रेष्ठ हृदयमें जो आकाशरूप गुहा है उसमें प्रवेश किये हुए, छाया

रत्नप्रभा

अचृवाक्यानन्तरवाक्यस्याऽपि ज्ञेयात्मनि समन्वयमाह—गुहामिति । ऋतम् अवश्यम्भावि कर्मफल पिबन्तौ भुञ्जानौ, सुकृतस्य कर्मणो लोके कार्ये देहे परस्य

रत्नप्रभाका अनुवाद

‘यस्य ब्रह्म च क्षत्र च’ इत्यादि अचृवाक्य—जिसमें परमात्माको अन्ता कहा है उस वाक्यके उत्तरवर्ती वाक्यका भी शेष आन्तमें समन्वय करते हैं—‘गुहाम्’ इत्यादिसे । अवश्य

(१) कठप्रह्वीके ‘ग्राह्यरभाष्यमें ‘सुकृतस्य’ वा अन्वय ‘ऋतम्’ के साथ करके सुकृत अर्थात् स्वयंभूतका ऋत अर्थात् अवश्यभावा फल, ऐसा अर्थ किया गया है ।

भाष्य

परमे परार्थे। छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाम्रयो ये च त्रिणाचिकेताः' (का० १।३।१) इति । तत्र संशयः—किमिह बुद्धिजीवी निर्दिष्टावुत जीवपरमात्मानाविति । यदि बुद्धिजीवी, ततो बुद्धिप्रधानात् कार्यकरण-सहाताद्विलक्षणो जीवः प्रतिपादितो भवति । तदपीह प्रतिपादयितव्यम्, 'येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । एतद्विद्या-

भाष्यका अनुवाद

और आतपके समान परस्पर विरुद्ध दोको ब्रह्मवेत्ता, पंचाम्रिवाले और नाचिकेत अम्रिका जिन्होंने तीन धार चयन किया है, वे जानते हैं) ऐसा कठवल्लीमें कहा है । इसमें संशय होता है कि यहां क्या बुद्धि और जीव निर्दिष्ट हैं या जीव और परमात्मा । यदि बुद्धि और जीव हों, तो बुद्धि जिसमें प्रधान है ऐसे शरीरेन्द्रिय-समूहसे विलक्षण जीव प्रतिपादित होगा । वह भी यहा प्रतिपादन करने योग्य है, क्योंकि 'येयं प्रेते विचिकित्सा०' (मनुष्यके मरनेपर परलोकमें आत्मा है ऐसा

रत्नप्रभा

ब्रह्मणोऽर्धं स्थानमर्हतीति परार्धं हृदय परम श्रेष्ठ तस्मिन् या गुहा नभोरूपा बुद्धिरूपा या ता प्रविश्य स्थितौ छायातपवत् मिथो विरुद्धौ तौ च ब्रह्मविदः कर्मिणश्च वदन्ति । त्रि नाचिकेतोऽग्नि चित्तौ ये ते त्रिणाचिकेताः, तेषुपि वदन्ति इत्यर्थः । नाचिकेतवाक्यानाम् अध्ययनम्, तदर्थज्ञानम्, तदनुष्ठान चेति त्रित्व बोध्यम् । बुद्धयवच्छिन्नजीवस्य परमात्मनश्च प्रकृतत्वात् सशय-माह—तत्रेति । पूर्वोत्तरपक्षयो फलं स्वयमेवाह—यदीत्यादिना । तदपि जीवस्य बुद्धिवैलक्षण्यमपि इत्यर्थः । मनुष्ये प्रेते मृते सति या इय विचिकित्सा

रत्नप्रभाका अनुवाद

होनेवाले कर्मफलका भोग करनेवाले, कर्मसे संपादित देहमें ब्रह्मके रहने योग्य स्थानभूत मेष्ठ हृदयमें जो आकाशरूप अथवा बुद्धिरूप गुहा है, उसमें प्रवेश करके स्थित, छाया और आतपके समान परस्पर विरुद्ध ऐसे दोको ब्रह्मवेत्ता, पञ्चाम्रिवाले (गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय, सभ्य और आवसथ्य, इन पांच अग्नियोंसे युक्त अथवा स्वर्ग, पर्जन्य, पृथिवी, पुरुष और योषितमें अग्निदृष्टि करनेवाले) अर्थात् गृहस्थ और जिन्होंने तीन बार नाचिकेत अम्रिका चयन किया है, वे कहते हैं, ऐसा धृतिका अर्थ है । नाचिकेत अम्रिके तीन चयन हैं—नाचिकेत वाक्योंका अध्ययन, उनके अर्थका ज्ञान और उनमें प्रतिपादित कर्मोंका अनुष्ठान । बुद्धिसे अवच्छिन्न जाव और परमात्मा दोनोंके प्रकृत होनेमें सशय कहते हैं—'तत्र' इत्यादिसे । 'यदि' इत्यादिमें पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षका फल स्वयं ही कहते हैं । 'तदापि' अर्थात् बुद्धिसे

भाष्य

मनुशिष्टस्त्वयाहं चराणामेपं वरस्तृतीयः' (का० १।१।२०) इति पृष्टत्वात् । अथ जीवपरमात्मानौ, ततो जीवाद्विलक्षणः परमात्मा प्रतिपादितो भवति । तदपीह प्रतिपादयितव्यम्, 'अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृता-कृतात् । अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद' (का० १।२।१४) इति पृष्टत्वात् । अत्राऽऽहाऽऽक्षेप्ता उभावप्येतौ पक्षौ न सम्भवतः । कस्मात् ? ऋतपानं हि कर्मफलोपभोगः, 'सुकृतस्य लोके' इति लिङ्गात् । तच्च चेतनस्य क्षेत्रज्ञस्य सम्भवति, नाऽचेतनाया बुद्धेः । 'पिवन्तौ' इति च द्विवचनेन द्वयोः पानं दर्शयति श्रुतिः । अतो बुद्धिक्षेत्रज्ञपक्षस्तावन्न सम्भवति । अत एव क्षेत्रज्ञपरमात्मपक्षोऽपि न सम्भवति, चेतनेऽपि

भाष्यका अनुवाद

कितने ही मानते हैं और कितने ही नहीं मानते, ऐसा संशय उपस्थित होनेपर तुमसे उपदिष्ट हुआ मैं यह विद्या जानना चाहता हूँ, वरोंमें यह मेरा तीसरा वर है) यह प्रश्न पूछा है । यदि जीव और परमात्मा हों, तो जीवसे विलक्षण परमात्मा प्रतिपादित होता है । वह भी यहां प्रतिपादन करने योग्य है, क्योंकि 'अन्यत्र धर्मादन्यत्रा०' (धर्मसे, अधर्मसे, कार्य और कारणसे, भूत, भविष्य और वर्तमान-से जिसे भिन्न देखते हो, उस वस्तुको कहो) ऐसा प्रश्न किया है । यहां आक्षेप करनेवाला कहता है कि ये दोनों पक्ष संभव नहीं हैं, क्योंकि ऋतपान अर्थात् कर्मफलका उपभोग, और 'सुकृतस्य लोके' (सुकृतके कार्य देहमें) ये लिङ्ग हैं । वह (ऋतपान) चेतन जीवमें संभव है, अचेतन बुद्धिमें संभव नहीं है । 'पिवन्तौ' (दो पान करनेवाले) इस द्विवचनसे श्रुति दोनोंका पान दिखलाती है । इससे बुद्धि और जीवका पक्ष तो संभव है नहीं । इसी कारणसे जीव और परमात्माका

रत्नप्रभा

संशयः परलोकभोक्ताऽस्ति इति एके, नास्ति इति अन्ये । अतस्त्वयोपदिष्टोऽहमेतत् आरामतत्त्वं जानीयाम् इत्यर्थः । तदपीति । परमात्मस्वरूपमपि इत्यर्थः । उभयोः भोक्तृत्वायोगेन संशयमाक्षिपति—अत्राहेति । छत्रिपदेन गन्तार इव

रत्नप्रभाका अनुवाद

जीवका विलक्षणता भी । ('येवं प्रते०' इत्यादि) कई लोग मनुष्य मरनेपर परलोकमें जीवका अस्तित्व मानते हैं और कई नहीं मानते, अतः यहाँ संशय होता है । इस संशयकी निवृत्तिके लिए तुमसे उपदिष्ट हुआ मैं इस आरामतरवको जानना चाहता हूँ । 'तदपि' अर्थात् परमात्मस्वरूप भी । दोनों भोक्ता नहीं हो सकते, इससे संशयपर आक्षेप करते हैं—'अत्राह'

भाष्य

परमात्मनि ऋतुपानासम्भवात् । 'अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति' इति मन्त्रवर्णादिति । अत्रोच्यते—नैष दोषः, छत्रिणो गच्छन्तीत्येकेनापि छत्रिणा बहूनां छत्रित्वोपचारदर्शनात् । एवमेकेनापि पिबता द्वौ पिबन्ताबुच्येयाताम् । यद्वा, जीवस्तावत्पिबति, ईश्वरस्तु पाययति । पाययन्नपि पिबतीत्युच्यते । पाचयितर्यपि पक्वत्वप्रसिद्धिदर्शनात् । बुद्धि-

भाष्यका अनुवाद

पक्ष भी संभव नहीं है, क्योंकि परमात्मा यद्यपि चेतन है तो भी परमात्मानं श्रुत-पानका संभव नहीं है, क्योंकि 'अनश्नन्नन्यो' (दूसरा खाये बिना साक्षीरूपसे देखता रहता है) ऐसी श्रुति है । इसपर कहते हैं—यह दोष नहीं है, क्योंकि 'छत्रिणो गच्छन्ति' (छातेवाले जाते हैं) इस प्रकार एक छत्रीवाला हो तो भी बहुत छत्रीवाले ऐसा उपचार देखनेमें आता है । इसी प्रकार एक पान करता हो, तो भी दो पान करते हैं, ऐसा कहा जाता है । अथवा जीव पान करता है और ईश्वर पान कराता है । पान कराते हुए ईश्वरमें भी पान करता है ऐसा व्यवहार होता है, क्योंकि पकवानेवाले भी पकानेवाले कहे-

रत्नप्रभा

पिबत्पदेन अजहल्लक्षणया प्रविष्टौ उच्येते इत्याह—अत्रोच्यत इति । पानकर्तृ-वाचिपदेन पानानुकूलौ वा लक्ष्यौ इत्याह—यद्वेति । नियतपूर्वभाविकृतिमत्त्वरूपम् अनुकूलत्वं कर्तृकारयित्रोः साधारणम्, यः कारयति स करोत्येव इति न्याया-दिति भावः । अत्र प्रकृतिः मुख्यार्थां शतृमत्यये लक्षणा । मिश्रास्तु कृतिः प्रत्ययार्थो मुख्यः, प्रकृत्या त्वजहल्लक्षणया पायनं लक्ष्यमित्याहुः । पूर्वपक्षे 'पिबन्तौ' इति कर्तृवाचिदातृप्रत्ययेन बुद्धिजीवसाधारणं कारकत्वं लक्ष्यम् इत्याह—

रत्नप्रभाका अनुवाद

इत्यादिसे । 'छत्रिणो यान्ति' (छत्रावाले जाते हैं) यहांपर जैसे छत्रीपदसे अजहल्लक्षणाद्वारा छत्रीवाले और छत्रीरहित दोनों साथ समझे जाते हैं, वैसे ही 'पिबन्तौ' (पीनेवाले) इस पदसे अजहल्लक्षणा द्वारा भोग करनेवाले और भोग न करनेवाले हृदयाकाशमें प्रविष्ट दोनोंका ग्रहण होता है, ऐसा कहते हैं—“अत्रोच्यते” इत्यादिसे । अथवा 'पिबन्तौ' (पान करनेवाले) इस पदसे पानके अनुकूल दोनों लक्ष्य होते हैं, ऐसा कहते हैं—“यद्वा” इत्यादिसे । नियमसे पूर्वमें हुई जो कृति (यत्न) है, उससे युक्त होना अनुकूलत्व है, वह करनेवाले और करानेवाले दोनोंमें साधारण है, क्योंकि जो कराता है, वह करता भी है यह न्याय है । इसमें प्रकृति 'पा'के मुख्यार्थका ही ग्रहण है । लक्षणा 'शतृ' प्रत्ययमें होती है । श्री वाचस्पतिमिश्र कहते हैं—कृतिरूप प्रत्ययके मुख्यार्थका ही ग्रहण है । प्रकृति 'पा' का अजहल्लक्षणाद्वारा 'पायन' (पान

भाष्य

क्षेत्रज्ञपरिग्रहोऽपि सम्भवति, करणे कर्तृत्वोपचारात्, एधांसि पचन्तीति प्रयोगदर्शनात् । न चाऽध्यात्ममाधिकारेऽन्यौ कौचिद् द्वाष्टं पिबन्तौ सम्भवतः । तस्माद् बुद्धिजीवौ स्याताम्, जीवपरमात्मानौ वेति संशयः । किं तावत् प्राप्तम् ?

बुद्धिक्षेत्रज्ञाविति । कुतः ? 'गुहां प्रविष्टौ' इति विशेषणात् । यदि शरीरं गुहा, यदि वा हृदयम्, उभयथापि बुद्धिक्षेत्रज्ञौ गुहां प्रविष्टावुपपद्येते । न च सन्ति सम्भवे सर्वगतस्य ब्रह्मणो विशिष्टदेशत्वं युक्तं कल्पयितुम् ।

भाष्यका अनुवाद

जाते हैं । बुद्धि और जीवका ग्रहण भी संभव है, क्योंकि करणमे कर्तृत्वका उपचार है, 'एधांसि पचन्ति' (लकड़ियां पकाती हैं) ऐसा प्रयोग देखनेमे आता है । और अध्यात्म प्रकरणमें दूसरे कोई दो पान करते, हों, यह संभव नहीं है । इसलिए बुद्धि और जीव निर्दिष्ट हों अथवा जीव और परमात्मा हों ऐसा संशय होता है । तब क्या प्राप्त होता है ?

पूर्वपक्षी—बुद्धि और जीव निर्दिष्ट हैं ऐसा प्राप्त होता है, क्योंकि गुहामं प्रविष्ट-हुए, इस विशेषणसे । चाहे गुहा शरीर हो, चाहे हृदय हो, दोनों पक्षोंमें भी बुद्धि और जीव गुहामे प्रविष्ट हुए यह (कहना) युक्त है और संभव हो तो

रत्नप्रभा

बुद्धीति । एधांसि—काष्ठानि । पचन्तीत्याख्यातेन कारकत्वं लक्ष्यम्, प्रकृतिस्तु मुख्यैव इति भावः । मुख्यपातारौ प्रसिद्धपक्षिणौ ब्राह्मौ इत्यत आह—न चेति । ब्रह्मक्षत्रपदस्य सन्निहितमृत्युपदादनित्यवस्तुपरत्ववत् इहापि पितृपदस्य सन्निहितगुहापदाद् बुद्धिजीवपरता इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति—किं तावदिति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

कराना) अर्थ होता है । पूर्वपक्षमें 'पिबन्तौ' इसमें कर्तृवाचक 'शतृ' प्रत्ययसे बुद्धि और जीव दोनोंमें साधारण कारकत्व लक्ष्य है, ऐसा कहते हैं—'बुद्धि' इत्यादिसे । 'एधांसि पचन्ति' (लकड़ियां पाक करती हैं) इसमें आख्यातसे कारकत्व लक्षित होता है, प्रकृति तो मुख्य ही है यह आशय है । मुख्य पान करनेवाले प्रसिद्ध दो पक्षियोंका ग्रहण करना चाहिए, इस आशाङ्कापर कहते हैं—'न च' इत्यादिसे । निकटवर्ती मृत्युपदके प्रयोगसे ब्रह्म और क्षत्रपद अनित्य वस्तुमात्रके लक्षक हैं, वैसे यहां भी निकटवर्ती गुहापदके प्रयोगसे 'पिबत्' पद बुद्धि और जीवका लक्षक है, इस प्रकार दृष्टान्तसे पूर्वपक्ष करते हैं—'किं तावत्' इत्यादिसे ।

भाष्य

‘सुकृतस्य लोके’ इति च कर्मगोचरानतिक्रमं दर्शयति । परमात्मा तु न सुकृतस्य वा दुष्कृतस्य वा गोचरे वर्तते; ‘न कर्मणा वर्धते न कृनीयान्’ इति श्रुतेः । ‘छायातपौ’ इति च चेतनांचेतनयोर्निर्देश उपपद्यते छायातपवत् परस्परविलक्षणत्वात् । तस्माद् बुद्धिक्षेत्रज्ञाविहोच्येयाताम् ।

इत्येवं प्राप्तं ब्रूमः—विज्ञानात्मपरमात्मानाविहोच्येयाताम् । कस्मात् आत्मानौ हि तावुभात्रपि चेतनौ समानस्वभावौ । संख्याश्रवणे चं सेमा

भाष्यका अनुवाद

सर्वव्यापक ब्रह्मके विशिष्ट देशकी कल्पना करना युक्त नहीं है । ‘सुकृतस्य लोके (सुकृतके कार्य देहमे) यह कर्मगोचरका अनतिक्रम दिखलाता है । परमात्मा तो सुकृत अथवा दुष्कृतके गोचरमें नहीं रहता, क्योंकि ‘न कर्मणा०’ (कर्मसे न बढ़ता है, न छोटा होता है) ऐसी श्रुति है । ‘छायातपौ’ (छाया और आतपवे समान परस्पर विरुद्ध) ये भी चेतन और अचेतनका निर्देश हो तो युक्त होते हैं; क्योंकि छाया और आतपके समान परस्पर विलक्षण हैं । इस कारण बुद्धि और जीव ही यहां कहने चाहिए ।

सिद्धान्ती—ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं । जीवात्मा और परमात्म यहां कहने चाहिए, क्योंकि दोनों आत्मा चेतन और समान स्वभाववाले हैं । जब संख्याका श्रवण होता है, तब समान स्वभाववालोंकी ही लोक में प्रतीति होती

रत्नप्रभा

गोचरः फलम् । एकस्मिन् जातिमति क्लृप्ते सजातीयमेव द्वितीयं प्राक्ष्यम्, व्यक्तिमात्रग्रहे लक्षणात्; न विजातीयम्, जातिव्यक्त्युभयकल्पनागौरवात् । न चाऽस्तु कारकत्वेन सजातीया बुद्धिरेव जीवस्य द्वितीया इति वाच्यम्, चेतनत्वस्य जीवस्वभावस्य कारकत्वादन्तरङ्गत्वात् । तथा च लोके द्वितीयस्य अन्तरङ्गजाति-

रत्नप्रभाका अनुवाद

गोचर’—फल । जहां एक जातिवाला क्लृप्त रहता है वहां दूसरा भा उसका सजातीय ही लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करनेसे केवल व्यक्तिका ग्रहण होता है, अत लक्षण है, विजातीयका ग्रहण न करना चाहिए, क्योंकि वैसा करनेसे जाति और व्यक्ति दोनोंकी कल्पना हरनी पड़ेगी, अत गौरव होगा । ‘ऋत पिबन्ती’ यद्वापर जीवके साथ दूसरी बुद्धिका ही ग्रहण हो, क्योंकि कारक होनेसे दोनों सजातीय हैं, ऐसी शङ्का न करना चाहिए क्योंकि जावका स्वभाव—चेतनत्व कारकत्वसे अन्तरंग है । लोकव्यवहारमें भी अन्तरंग जातिवाला ही द्वितीय

भाष्य

नस्वभावेष्वेव लोके प्रतीतिर्दृश्यते । अस्य गोद्वितीयोऽन्वेष्टव्य इत्युक्ते गौरेव द्वितीयोऽन्विष्यते, नाऽथः पुरुषो वा । तदिह ऋतपानेन लिङ्गेन निश्चिते विज्ञानात्मनि द्वितीयान्वेषणायां समानस्वभावश्चेतनः परमात्मैव प्रतीयते । ननूक्तम्—गुहाहितत्वदर्शनात् परमात्मा प्रत्येतव्य इति । गुहाहितत्वदर्शनादेव परमात्मा प्रत्येतव्य इति वदामः । गुहाहितत्वं तु श्रुतिस्मृतिष्वसकृत्परमात्मन एव दृश्यते—‘गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्’ (का० १।२।१२) ‘यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्’ (तै० २।१) ‘आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्टम्’ इत्याद्यासु । सर्वगतस्याऽपि ब्रह्मण भाष्यका अनुवाद

है । ‘अस्य गो०’ (इस वृषभका दूसरा अर्थात् साथी खोजना चाहिए) ऐसा कहनेपर दूसरा वृषभ ही खोजा जाता है, अश्व अथवा पुरुष नहीं खोजा जाता । इसलिए यहां ऋतपानरूप लिङ्गसे विज्ञानात्मा—जीवात्माका निश्चय होनेपर द्वितीयकी खोजमें समान स्वभाववाले चेतन परमात्माकी प्रतीति होती है । परन्तु कहा है कि गुहामें प्रविष्ट हुए, ऐसा देखनेमें आता है, इसलिए परमात्माकी प्रतीति न होनी चाहिए । हम कहते हैं कि गुहामें प्रविष्ट हुए ऐसा देखनेमें आता है, इसीसे ही परमात्माकी प्रतीति होनी चाहिए । गुहामें रहना तो श्रुति और स्मृतिमें अनेक धार परमात्माका ही देखा गया है— ‘गुहाहितं०’ (गुहामें प्रविष्ट, गह्वरमें स्थित, चिरन्तन) ‘यो वेद निहितं०’ (श्रेष्ठ हृदयाकाशरूप गुहामें प्रविष्टको जो जानता है), ‘आत्मानमन्विच्छ०’ (गुहामें प्रविष्ट आत्मा-

रत्नप्रभा

मत्त्वदर्शनात् जीवस्य द्वितीयश्चेतन एवेति सूत्रार्थमाह—संख्याश्रवणे चेति । गुहायां बुद्धौ स्थितम्, गह्वरे अनेकानर्थसंकुले देहे स्थितम्, पुराणम् अनादिपुरुषम्, विदित्वा हर्षशोकौ जहाति । परमे श्रेष्ठे व्योमन् हार्दाकाशे या गुहा बुद्धिः तस्यां निहितं ब्रह्म यो वेद सोऽश्नुते सर्वान् कामान् इति अन्वयः । अन्विच्छ—विचारय इत्यर्थः ॥ ११ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

होता है ऐसा देखनेमें आता है । इसलिए जीवका द्वितीय चेतन ही है, ऐसा सूत्रार्थ कहते हैं—‘संख्याश्रवणे च’ इत्यादिसे । बुद्धिमें स्थित, बहुत प्रकारके अनर्थोंसे भरे हुए देहमें स्थित, चिरन्तन—अनादि पुरुष, परमात्माकी जानकर हर्ष और शोकका त्याग करता है । श्रेष्ठ हृदय पुण्डरीक आकाशमें जो गुहा अर्थात् बुद्धि है, उसमें स्थित ब्रह्मको जो जानता है, वह सब कामनाओंका भोग करता है, ऐसा अन्वय है । ‘अन्विच्छ’—विचार करो, निश्चय करो ॥११॥

भाष्य

उपलब्ध्यर्थो देशविशेषोपदेशो न विरुध्यत इत्येतदप्युक्तमेव । सुकृत-
लोकप्रतिवंतं तु छत्रित्ववदेकस्मिन्नपि वर्तमानमुभयोरविरुद्धम् । छाया-
तपानित्यप्यविरुद्धम्, छायातपवत् परस्परविलक्षणत्वात् संसारित्वासंसा-
रित्वयोः । अविद्याकृतत्वात् संसारित्त्वस्य, पारमार्थिकत्वाच्चासंसा-
रित्त्वस्य । तस्माद्विज्ञानात्मपरमात्मानौ गुहां प्रविष्टौ गृह्येते ॥११॥

कुतश्च विज्ञानात्मपरमात्मानौ गृह्येते ?

भाष्यका अनुवाद

को रोजो) इत्यादि [भुक्ति और स्मृतियोंमें स्पष्ट है] । सर्वव्यापक ब्रह्मका भी साक्षात्कारके लिए देशविशेषमें उपदेश विरुद्ध नहीं होता, ऐसा भी पीछे कहा गया है । सुकृतके कार्य देहमें रहना तो छत्रित्वके समान एकमें होनेपर भी दोनोंमें लागू होता है । 'छाया और आतपके समान' यह भी अविरुद्ध है, क्योंकि ससारित्व और अससारित्व ये छाया और आतपके समान परस्पर विलक्षण हैं, ससारित्व अविद्याजन्य है और अससारित्व वास्तविक है । इससे गुहामें प्रविष्ट विज्ञानात्मा और परमात्मा हैं, ऐसा ग्रहण किया जाता है ॥ ११ ॥

और किस कारणसे विज्ञानात्मा और परमात्माका ग्रहण होता है ?

विशेषणाच्च ॥ १२ ॥

पद डेढ—विशेषणात्, च ।

पदार्थोक्ति—विशेषणात्—['सोऽध्वन पारमान्जोति तद्विष्णो परम पदम्' 'अध्यात्मयोगाधिगमेन देव भवा वीरो हर्षशोकौ जहाति' इत्यादौ जीवपरमात्मनो] गन्तृगन्तव्यत्वेन मन्तृमन्तव्यत्वेन च विशेषितत्वात्, च—अपि [गुहा प्रविष्टौ जीवपरमात्मानावेव] ।

भाषार्थ—'सोऽध्वन पार०' (वह प्रवृत्तिमार्गसे परे उस व्यापक ब्रह्मके परम स्थानको पाता है), 'अध्यात्मयोगाधि०' (स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरोके लयके क्रमसे प्रत्यगात्मामें चित्तैकाग्रता करनेपर महावाक्योंके श्रवणसे चित्तकी जो ब्रह्माकार धृति होती है, उससे परमात्माको जानकर हर्ष, शोक आदिका त्याग करता है) इन श्रुतियोंमें जीव गमनकर्ता है, ईश्वर गन्तव्यस्थान है एव जीव मननकर्ता है ईश्वर मन्तव्य है, इस प्रकार विशेषण कहे गये हैं । इससे भी सिद्ध हुआ कि गुहाप्रविष्ट जीवात्मा तथा परमात्मा ही हैं ।

भाष्य

विशेषणं च विज्ञानात्मपरमात्मनोरेव संभवति । 'आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु' (का० १।३।३) इत्यादिना परेण ग्रन्थेन रथि-रथादिरूपककल्पनया विज्ञानात्मानं रथिनं मंमारमोक्षयोर्गन्तारं कल्पयति । 'सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्' (का० १।३।९) इति च परमात्मानं गन्तव्यं कल्पयति । तथा 'तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् । अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो .

भाष्यका अनुवाद

विशेषण भी विज्ञानात्मा और परमात्मामे ही लागू होता है 'आत्मान रथिन०' (आत्माको रथी जानो और शरीरको रथ जानो) इत्यादि उत्तर वाक्यसन्दर्भसे रथी, रथ आदिके रूपककी कल्पना करके यम विज्ञानात्माको रथी—संसार और मोक्षके प्रति जानेवाला कहता है और 'सोऽध्वनः पारमाप्नोति०' (वह प्रवृत्ति-मार्गसे परे उस व्यापक ब्रह्मके परम स्थानको पाता है) इससे परमात्माको गन्तव्यरूपसे कहता है । इसी प्रकार 'तं दुर्दर्शं गूढमनु०' (दुर्विज्ञेय, गूढ—मायामें प्रविष्ट, गुहा—बुद्धिमें स्थित, गह्वर अनेक अनर्थोंसे व्याप्त देहमें स्थित, चिरन्तन, अध्यात्मयोग—विषयोंमेंसे चित्तको हटाकर आत्मामें संलग्न करना, उसकी प्राप्ति-

रत्नप्रभा

विशेषणं गन्तृगन्तव्यत्वादिक लिङ्गमाह—विशेषणाच्चेति । स जीवोऽध्वनः संसारमार्गस्य परम पारम्, किं तत् ? विष्णोः व्यापनशीलस्य परमात्मनः पदं स्वरूपम् आप्नोति इत्यर्थः । दुर्दर्शं दुर्ज्ञानम्, तत्र हेतुः—गूढम्—मायावृत मायानु-प्रविष्टं पश्चाद् गुहाहित गुहाद्वारा गह्वरेष्ठम्, एव बहिरागतम् आत्मानम् अध्यात्म-योगः स्थूलसूक्ष्मकारणदेहलयक्रमेण प्रत्यगात्मनि चित्तसमाधाने तेनाऽधिगमो

रत्नप्रभाका अनुवाद

गन्तृत्व, गन्तव्यत्व आदि विशेषणरूप लिङ्ग कहते हैं—'विशेषणाच्च' । वह अर्थात् जीव संसारमार्गका पार पाता है, वह पार क्या है ? व्यापनशील परमात्मका पद अर्थात् स्वरूप प्राप्त करता है । दुर्दर्शं—दुर्ज्ञेय, दुर्ज्ञेय होनेमें कारण—गूढ—मायासे आवृत (डका हुआ), मायामें प्रविष्ट, उसके अनन्तर बुद्धिरूप गुहामें स्थित और गुहा द्वारा अनेक अनर्थोंसे व्याप्त विषम प्रदेश—देहमें स्थित, इन प्रकार बाहर आये हुए आत्माको स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीराके लयके क्रमसे प्रत्यगात्मामें चित्तकाप्रता करनेपर महावाक्योंके ध्वनिमें चित्तकी जो

भाष्य

हर्षशोकौ जहाति ॥” (का० १।२।१२) इति पूर्वस्मिन्नपि ग्रन्थे मन्तु-
मन्तव्यत्वेनैतावेव विशेषितौ । प्रकरणं चेदं परमात्मनः । ‘ब्रह्मविदो
वदन्ति’ इति च वक्तृविशेषोपादानं परमात्मपरिग्रहे घटते । तस्मादिह
जीवपरमात्मानावुच्येयाताम् । एष एव न्यायः ‘द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया’
(मु० ३।१।१) इत्यवमादिष्वपि । तत्रापि ह्यध्यात्माधिकारान्न प्राकृतौ

भाष्यका अनुवाद

से आत्माका मनन करके धीर पुरुष हर्ष और शोकका त्याग करता है) इस प्रकार
पूर्वसन्दर्भमें भी मनन करनेवाले और मननके विषयरूपसे इन दोनों
(जीव और परमात्मा) के ही विशेषण दिये गये हैं । यह प्रकरण भी परमात्माका
है । ‘ब्रह्मविदो०’ (ब्रह्मवेत्ता कहते हैं) इस प्रकार विशिष्ट वक्ताका ग्रहण परमात्माका
स्वीकार करनेसे ही संगत होता है । इसलिए यहां जीव और परमात्मा कहने
चाहिएँ । ‘द्वा सुपर्णा सयुजा०’ (दो सुन्दर पक्षवाले—समान धर्मवाले,
सदा एकत्र रहनेवाले, सहचर एक ही वृक्ष—शरीरको आश्रय कर स्थित हैं,
उनमेंसे एक मधुर कर्मफल भोगता है और दूसरा स्वयं न भोगता हुआ साक्षी रूपसे
देखता रहता है) इत्यादिमें भी यही न्याय है । वहां भी अध्यात्म प्रकरणके कारण

रत्नप्रभा

महावाक्यजा वृत्तिः, तथा विदित्वा इत्यर्थः । ऋतपानमन्त्रे जीवानुवादेन वाक्यार्थ-
ज्ञानाय तत्पदार्थो ब्रह्म प्रतिपाद्यते इति उपसंहरति—तस्मादिहेति । उक्तन्यायम्
अतिदिशति—एष इति । द्वा—द्वौ छान्दसो द्विवचनस्याऽऽकारः । सुपर्णा-
विव सहैव युज्येते नियम्यनियामकभावेन इति सयुजौ । सखायौ चेतनत्वेन
तुल्यस्वभावौ । समानम् एकं वृक्षं छेदनयोग्यं शरीरम् आश्रित्य स्थितौ इत्यर्थः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

ब्रह्माकार वृत्ति होती है उससे जानकर हर्ष, शोक आदिका त्याग करता है, ऐसा धृतिका अर्थ
है । ऋतपानमंत्रमें अर्थात् ‘ऋतं पिवन्तौ’ इस मंत्रमें जीवके अनुवादेसे वाक्यार्थ ज्ञानके
लिए ‘तत्’ पदका अर्थ ब्रह्मका प्रतिपादन किया जाता है, ऐसा उपसंहार करते हैं—
“तस्माद्” इत्यादिसे । उक्त न्यायका ही अतिदेश करते हैं—“एष” इत्यादिसे । ‘द्वा’—द्वौ ।
‘द्वा’ यह द्विवचनका आकार छान्दस्य है । दो पक्षियोंके समान नियम्य और नियामक भावसे
जो साथ ही जुड़े हुए हैं, और चेतन होनेके कारण समान स्वभाववाले हैं, शुद्धमें प्रविष्ट वे
आत्मा और परमात्मा एक वृक्ष—छेदन योग्य शरीरका आश्रय करके स्थित हैं, ऐसा अर्थ

भाष्य

सुपर्णावुच्येते । 'तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति' इत्यदनलिङ्गाद्विज्ञानात्मा भवति । 'अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति' इत्यनश्नचेतनत्वाभ्यां परमात्मा । अनन्तरे च मन्त्रे तावेव द्रष्टृद्रष्टव्यभावेन विशिनष्टि—'समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः । जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥' (सु० ३।१।२) इति । अपर आह—'द्वा सुपर्णा

भाष्यका अनुवाद

साधारण पक्षी नहीं कहे गये हैं । इसमें 'तयोरन्यः' (उन दोनोंमें एक मधुर कर्मफलका भोग करता है) इस प्रकार भक्षणके लिङ्गसे विज्ञानात्मा समझा जाता है और 'अनश्नन्नन्यो' (दूसरा न भोगता हुआ देखता रहता है) इन अभक्षण और चेतनत्वरूप लिङ्गोंसे परमात्मा समझा जाता है । उसके आगेके मंत्रमें इन दोनोंके ही द्रष्टा और द्रष्टव्यभावसे विशेषण दिये गये हैं—'समाने वृक्षे पुरुषो' (समान अर्थात् एकही वृक्षमें—छेदनयोग्य शरीरमें निमग्न हुआ जीव दीनभावसे मोहको प्राप्त हुआ शोक करता है । जब अनेक योगमार्गोंसे सेवन किये हुए ईशको—परमात्माको और उसकी महिमाको जानता है, तब शोकरहित

रत्नप्रभा

गुहां प्रविष्टौ इति यावत् । एता आत्मनौ, तल्लिङ्गदर्शनाद् इत्याह—तयोरन्य इति । विशेषणाच्चेत्याह—अनन्तरे चेति । अनीशया स्वस्य ईश्वरत्वा-प्रतीत्या देहनिमग्नः पुरुषो जीवः शोचति । निमग्नपदार्थमाह—मुह्यमान इति । नरोऽहमिति भ्रान्त इत्यर्थः । जुष्टं ध्यानादिना सेवितं यदा ध्यानपरिपाक-दशायाम् ईशमन्यं विधिष्टरूपाद् मिश्रं शोचितचिन्मात्रं प्रत्यक्त्वेन पश्यति तदा अस्य महिमानं—स्वरूपम् एति प्राप्नोति इव ततो वीतशोको भवति इत्यर्थः । द्वा सुपर्णा इति वाक्यं जीविदतरपरम् कृत्वा चिन्तितम् अधुना कृत्याचिन्ताम्

रत्नप्रभाका अनुवाद

है, ये दोनों आत्मा हैं, क्योंकि उनके लिङ्ग देखनेमें आते हैं, ऐसा करने है—'तयोरन्य.' इत्यादिसे । और विशेषणमें भी दोनों आत्मा हैं, ऐसा कहते हैं—'अनन्तरे च' इत्यादिसे । 'मैं ईश्वर हूँ' ऐसा ज्ञान न होनेसे देहमें निमग्न जीव शोक करता है ; 'निमग्न' पदका अर्थ कहते हैं—'मुह्यमान' अर्थात् 'मैं मगुह्य हूँ' ऐसा विचारनेवाला प्रकृत । ध्यानकी परिष्कार करनेमें ध्यान आदिसे सेवित ईश्वरका जब मगुह्यमें प्राप्त होनेपर चिन्ताप्र प्रकृत्याचिन्तामें देवता है, तब उनके—ईश्वरके स्वरूपमें जाने हुएकी तरह होता है तब ईश्वरदेह हो जाता है । 'द्वा सुपर्णा' यह वाक्य जब जब ईश्वरके इ एका रूपका करने काका दिव

भाष्य

इति नेयमृगस्याधिकरणस्य सिद्धान्तं भजते, पैङ्गिरहस्यब्राह्मणेनान्यथा व्याख्यातत्वात् । 'तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति' इति सत्त्वम्, 'अनश्नन्न-न्योऽभिचाकशीतीति, अनश्नन्नन्योऽभिपश्यति जः, तावेतां सत्त्वक्षेत्रज्ञौ' इति । सत्त्वशब्दो जीवः क्षेत्रज्ञशब्दः परमात्मेति यदुच्यते, तन्न; मत्त्वक्षेत्रज्ञशब्दयोरन्तःकरणशारीरपरतया प्रसिद्धत्वात् । तत्रैव च व्याख्या-तत्वात्—'तदेतत्सत्त्वं येन स्वप्नं पश्यति, अथ योज्यं शारीर उपद्रष्टा स क्षेत्रज्ञस्तावेतां मत्त्वक्षेत्रज्ञौ' इति । नाप्यस्याधिकरणस्य पूर्वपक्षभावं

भाष्यका अनुवाद

होता है) । दूसरे कहते हैं—'द्वा सुपर्णा' यह ऋक् इस अधिकरणके सिद्धान्तका प्रतिपादन नहीं करती, क्योंकि पैङ्गिरहस्य ब्राह्मणमें उसका दूसरे प्रकारसे व्याख्यान किया है । 'तयोरन्यः पिप्पलं' उनमेंसे एक स्वादुयुक्त फल खाता है वह सत्त्व (बुद्धि) है और दूसरा खाये बिना देखता रहता है अर्थात् उपभोग किये बिना देखता रहता है वह ज्ञ (क्षेत्रज्ञ) है ये दो मत्त्व और क्षेत्रज्ञ हैं) । सत्त्वशब्द जीवका वाचक है और क्षेत्रज्ञ शब्द परमात्माका वाचक है ऐसा जो कहा है, वह युक्त नहीं है, क्योंकि सत्त्व और क्षेत्रज्ञशब्द अन्तःकरण और शारीरके वाचक हैं, यह प्रसिद्ध है, और उसमें ही (पैङ्गिरहस्य ब्राह्मणमें ही) ऐसा व्याख्यान किया है—'तदेतन् सत्त्वं' (जिससे स्वप्न देखता है वह सत्त्व है और जो यह शारीर उपद्रष्टा है, वह क्षेत्रज्ञ है, ऐसे ये दो सत्त्व और क्षेत्रज्ञ हैं)

रत्नप्रभा

उद्घाटयति—अपर इति । अन्यथा—बुद्धिविलक्षणत्वंपदलक्ष्यपरत्वेन इत्यर्थः । सत्त्वम् बुद्धीरिति । शङ्कते—सत्त्वशब्द इति । बुद्धिर्जीवो चेत् पूर्वपक्षार्थः स्याद् इत्यत आह—नापीति । पूर्वपक्षार्थः तदा म्याद्, यद्यत्र बुद्धिभिन्नः

रत्नप्रभाका अनुवाद

है । अब "अपरः" इत्यादिमें कृत्वाचिन्ताका उद्घाटन करते हैं । अन्यथा अर्थात् बुद्धिमें भिन्न जो 'त्वं' पदका लक्ष्यार्थ है तत्परत्वसे । सत्त्व बुद्धि है । शङ्का करते हैं—"सत्त्वशब्दः" इत्यादिसे । यदि बुद्धि और जीव पूर्वपक्षके अर्थ ही मन्त्रप्रतिपाद्य हों ? इस शङ्कापर कहते हैं—"नापि" इत्यादिसे । यदि यहाँ बुद्धिमें भिन्न समारी जीवके प्रतिपादनका इच्छा होती

(२) यद्यपि 'द्वा सुपर्णा' यह ऋक् जीवईशपरकन होनेसे इस अधिकरणका विषय नहीं है, तो भी जीवईशपरक मानकर इस ऋक्को इस अधिकरणका विषय कहा है । अब क्यों यह ऋक् जीवईशपरक नहीं है—क्यों कृत्वाचिन्ता है ? इन बातका उद्घाटन—स्पष्टीकरण करते हैं 'अपर' इत्यादिसे ।

भाष्य

भजते । नखत्र शारीरः क्षेत्रज्ञः कर्तृत्वभोक्तृत्वादिना संसारधर्मैणोपेतो विवक्ष्यते । कथं तर्हि सर्वसंसारधर्मातीतो ब्रह्मस्वभावश्चैतन्यमात्रस्वरूपः 'अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति, अनश्नन्नन्योऽभिपश्यति ज्ञः' इति वचनात् । 'तत्त्वमसि' 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि' (गी० १३।२) इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यश्च । तावता च विद्योपसंहारदर्शनमेवमेवावकल्पते, 'तावेतौ सत्त्वक्षेत्रज्ञौ, न ह

भाष्यका अनुवाद

इसी प्रकार यह ऋक् इस अधिकरणके पूर्वपक्षका भी प्रतिपादन नहीं करती । वस्तुतः यहां शारीर क्षेत्रज्ञ अर्थात् कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि संसारधर्मोंसे युक्तकी विवक्षा नहीं है । तब किसकी विवक्षा है ? सब संसारधर्मोंसे अतिक्रान्त, ब्रह्मस्वभाव, चैतन्यमात्र स्वरूपकी विवक्षा है, क्योंकि 'अनश्नन्नन्यो०' ऐसा वचन है और 'तत्त्वमसि' (यह तू है) 'क्षेत्रज्ञं चापि०' (क्षेत्रज्ञ भी मुझको ही जानो) इन और दूसरी श्रुतिस्मृतियोंसे भी [इसी अर्थका प्रतिपादन है] । इतनेसे—केवल मंत्र-व्याख्यानसे 'तावेतौ सत्त्वक्षेत्रज्ञौ०' वे दोनों सत्त्व और क्षेत्रज्ञ हैं, ऐसे जाननेवालेमें

रत्नप्रभा

संसारी प्रतिपाद्येत । नहि अत्र संसारी विवक्ष्यते किन्तु शोषितस्त्वमर्थो ब्रह्म इत्यर्थः । श्रुतिस्मृतिभ्यश्च, अयमर्थो युक्त इति शेषः । 'तावता—मन्त्र-व्याख्यामात्रेण । एवमेव—जीवस्य ब्रह्मत्वोक्तावेव । नहि जीवो बुद्धिभिन्नं इति विवेकमात्रेण उपसंहारो युक्तः । भेदज्ञानस्य भ्रान्तित्वात् वैफल्याच्च इति भावः । अविद्या विदुषि किमपि स्वकार्यं नाऽऽध्वंसते—न सम्पादयति, ज्ञानामिना स्वस्या एव दग्धत्वाद् इत्यर्थः । अविद्या नाऽऽगच्छति इति वाऽर्थः । जीवस्य ब्रह्मत्व-परमिदं वाक्यमिति पक्षे शक्यते—कथमिति । बुद्धेर्भोक्तृत्वोक्तौ अतात्पर्यात्

रत्नप्रभाका अनुवाद

तो पूर्वपक्षके अर्थका स्वीकार होता, यहाँ संसारीका विवक्षा तो है नहीं, किन्तु शोषितत्वपदार्थ ब्रह्मकी विवक्षा है । 'श्रुतिस्मृतिभ्यश्च' के बाद 'अयमर्थो युक्तः' (यह अर्थ ठीक है) इतना शेष समझना चाहिए । तावता—केवल मंत्रके व्याख्यानसे । एवमेव—जीव ब्रह्म है ऐसा कहनेसे ही । जीव बुद्धिसे भिन्न है, ऐसा विवेकमात्रसे उपसंहार करना ठीक नहीं है, क्योंकि भेदज्ञान मिथ्या है और विफल है अर्थात् भेदज्ञानसे परम पुरुषार्थ नहीं हो सकता । 'विद्वान् पुरुषमे अविद्या अपने किसी कार्यका संपादन नहीं कर सकती, क्योंकि ज्ञानामिसे स्वयं दग्ध होनेके कारण उसकी सत्ता ही नहीं रहती । अथवा विद्वान्के पास अविद्या नहीं आती ऐसा अर्थ है । यह वाक्य जीवमे ब्रह्मत्वका बोध कराता है इस पक्षमें शक्य करते हैं—'कथम्' इत्यादिसे ।

माध्य

वा एवंविदि किञ्चन रज आध्वंसते' इत्यादि । कथं पुनरस्मिन् पक्षे 'तयो-
रन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्तीति सत्त्वम्' इत्यचेतने सत्त्वे भोक्तृत्ववचनमिति ।
उच्यते । नेयं श्रुतिरचेतनस्य सत्त्वस्य भोक्तृत्वं वक्ष्यामीति प्रवृत्ता । किं
तर्हि ? चेतनस्य क्षेत्रज्ञस्याऽभोक्तृत्वं ब्रह्मस्वभावंतां च वक्ष्यामीति ।
तदर्थं सुखादिविक्रियावति सत्त्वे भोक्तृत्वमध्यारोपयति । इदं हि कर्तृत्वं
भोक्तृत्वं च सत्त्वक्षेत्रज्ञयोरितरेतरस्वभावाविवेककृतं कल्प्यते । परमार्थ-
तस्तु नान्यतरस्यापि सम्भवति, अचेतनत्वात् सत्त्वस्य, अविक्रियत्वाच्च

माध्यका अनुवाद

निश्चय अविद्या कुठ भी संस्पर्श नहीं करती) इत्यादि इस प्रकारसे विद्याका
उपसंहारदर्शन जीवको ब्रह्म कहनेसे ही संगत होता है । परन्तु इस पक्षमे
'तयोरन्यः पिप्पलं' (उन दोनोंमेंसे एक स्वादु कर्मफलोंका भोग करता है, वह
सत्त्व है) इस प्रकार अचेतन सत्त्वमें 'भोक्ता है' यह कथन कैसे घटेगा ?
कहते हैं—अचेतन सत्त्वमें भोक्तृत्वका प्रतिपादन करनेके लिए यह श्रुति प्रवृत्त
नहीं हुई है, किन्तु चेतन क्षेत्रज्ञ अभोक्ता और ब्रह्मस्वभाव है यह प्रतिपादन
करना ही श्रुतिका लक्ष्य है । इसके लिए सुखादिविकारवाले सत्त्वमें भोक्तृत्वका
अध्यारोप करती है । वस्तुतः भोक्तृत्व और कर्तृत्व सत्त्व और क्षेत्रज्ञके परस्पर
स्वभावके अविवेकसे जन्य हैं ऐसी कल्पना की जाती है । वास्तविक रीतिसे
तो दोनोंमेंसे एकमें भी सम्भव नहीं है, क्योंकि सत्त्व अचेतन है और क्षेत्रज्ञ

रत्नप्रभा

नाऽत्र युक्तिचिन्तया मनः खेदनीयमिति आह—उच्यते इति । तदर्थम्—ब्रह्मत्व-
बोधनार्थं भोक्तृत्वम् उपाधिस्तके निक्षिपति इत्यर्थः । वस्तुतो जीवस्याऽभोक्तृत्वे
भोक्तृत्वधीः कथमित्यत आह—इदं हीति । चित्तादात्म्येन कल्पिता बुद्धिः
सुखादिरूपेण परिणमते बुद्ध्यविवेकात् चिदात्मनः सुखादिरूपवृत्तिव्यक्तचैतन्य-

रत्नप्रभाका अनुवाद

बुद्धि भोक्तृत्वी है ऐसा प्रतिपादन करनेमें इस श्रुतिका तात्पर्य नहीं है, अतः उस पक्षको दृष्ट
करनेके लिए युक्तियोंके विचारसे मनको खिन्न करना ठीक नही है, ऐसा कहते हैं—“उच्यते”
इत्यादिसे । श्रुति जीवमें ब्रह्मत्वका बोध करानेके लिए भोक्तृत्वको उपाधिके सिरपर लादती है,
ऐसा अर्थ है । यदि वस्तुतः जीव अभोक्ता है, तो जीव भोक्ता है यह बुद्धि क्यों होती है,
इसपर कहते हैं—“इदं हि” इत्यादिसे । चैतन्यके तादात्म्यसे कल्पित बुद्धि सुख आदिके रूपमें

भाष्य

क्षेत्रज्ञस्य, अविद्याग्रत्युपस्थापितस्वभावत्वाच्च सत्त्वस्य सुतरां न सम्भवति । तथा च श्रुतिः—‘यत्र वा अन्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्पश्येत्’ इत्यादिना स्वप्नद्रष्टृहस्त्यादिव्यवहारवदविद्याविषय एव कर्तृत्वादिव्यवहारं दर्शयति । ‘यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्’ (बृ०४।५।१५) इत्यादिना च विवेकिनः कर्तृत्वादिव्यवहाराभावं दर्शयति ॥१२॥

भाष्यका अनुवाद

विकाररहित है । और सत्त्वका स्वरूप तो अविद्यासे उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्वकी जरा भी संभावना नहीं है, क्योंकि ‘यत्र वा अन्यदिव स्यात्०’ (जहाँ द्वित्व-सा होता है, वहाँ एक पुरुष दूसरेको देखता है) इत्यादिसे श्रुति स्वप्नमें देखे हुए हस्ती आदिके व्यवहारके समान अविद्याविषयमें ही कर्तृत्व आदि व्यवहार दिखलाती है । और ‘यत्र त्वस्य०’ (परन्तु जहाँ सब इसका आत्मा ही हो जाता है, वहाँ किससे किसको देखे) इत्यादिसे विवेकीमें कर्तृत्व आदि व्यवहारका अभाव दिखलाती है ॥ १२ ॥

रत्नप्रभा

वत्त्वं भोक्तृत्वं भाति इत्यर्थः । भोक्तृत्वम् आविद्यकं न वस्तुत इत्यत्र मानमाह— तथा चेति । यत्र—अविद्याकाले चैतन्यं भिन्नमिव भवति, तदा द्रष्टृत्वादिकम्, न वस्तुनि ज्ञाते इत्यर्थः । तस्माद् “ऋतं पिबन्तौ” (क० १।३।१) इति वाक्यमेव गुहाधिकरणविषय इति स्थितम् ॥ १२ ॥ (३)

रत्नप्रभाका अनुवाद

परिणत होती है । बुद्धि मुझसे भिन्न है ऐसा विवेक न होनेके कारण आत्मामें भोक्तृत्व भासता है । मुखारिहूप श्रुतिमें व्यक्त चैतन्यसे युक्त होना ही भोक्तृत्व है । भोक्तृत्व अविद्याजन्य है वास्तविक नहीं है, इसमें प्रमाण कहते हैं—“तथा च” इत्यादिसे । जब—अविद्यावस्थामें चैतन्य भिन्न-सा भासता है, तब द्रष्टृत्व आदि धर्म भासते हैं, वस्तुका यथार्थज्ञान होनेपर नहीं भासते हैं, ऐसा अर्थ है । इससे सिद्ध हुआ कि ‘ऋतं पिबन्तौ’ यह वाक्य ही गुहाधिकरणका विषय है ॥१२॥



[४ अन्तराधिकरण सू० १३-१७]

छायाजीवो देवतेषां वाऽसौ योऽक्षिणि दृश्यते ।

आधारदृश्यतोक्त्येसादन्येषु त्रिषु कथन ॥

क स ब्रह्म यदुक्तं प्राग् तदेवाक्षिण्युपासते ।

वामनीत्वादिनाऽन्येषु नामृतत्वादितम्भयः * ॥

[अधिकरणमार]

सन्देह—‘य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते’ इस अतिमं प्रतिपादित पुरुष छायात्मा है अथवा जीव है अथवा देवता है या परमात्मा है ?

पूर्वपक्ष—उस पुरुषका नेत्ररूप आधार कहा गया है तथा वह दृश्य कहा गया है, अतः परमात्मासे भिन्न छायात्मा आदि तीनोंमेंसे एव है ।

सिद्धान्त—‘क ब्रह्म’ इस पूर्ववाक्यमें जो ब्रह्म कहा गया है, वही प्रकृत वाक्यमें वामनीत्व आदि गुणोंसे उपास्य कहा गया है । छायात्मा आदि तीनोंमें अमृतत्व आदि धर्म सम्भव नहीं हैं, अतः उनका उपदेश नहीं है ।

* निष्कर्ष यह कि छान्दोग्यके अतुर्थ अध्यायमें उपकोसलविद्याप्रकरणमें शिष्य उपकोसलके प्रति गुरु सत्यकाम उपदेश देते हैं । वहाँका वाक्य है—‘य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते, एष आत्मेति होवाच एतद्मृतमभयमेतद्ब्रह्म’ । इसका अर्थ है कि गुरुने कहा—आरामें यह जो पुरुष दीखता है, वह आत्मा है, वह अमृत है, अभय है, वह ब्रह्म है ।

इसमें सन्देह होता है कि वह पुरुष छायात्मा है अथवा जीव है अथवा देवतात्मा है या परमेश्वर है ?

पूर्वपक्षी कहता है कि वह छायात्मा है, क्योंकि नेत्र उस पुरुषके निवास स्थान बड़े गये हैं और वह दृश्य कहा गया है, छायात्मा नेत्रमें रहता है और दृश्य है वह बात प्रत्यक्ष है । अथवा वह जीव हो सकता है, क्योंकि चक्षुरिन्द्रियद्वारा रूपको देखते समय जीव नेत्रमें सञ्चिहित होता है । अथवा देवता हो सकता है, क्योंकि ‘आदित्यक्षत्रभृत्वाऽक्षिणी प्राविशत्’ (ऐ० आ० २।४।२) (सूर्यने चक्षुरिन्द्रिय होकर नेत्र गोलकमें प्रवेश किया) ऐसी श्रुति है । परमात्मा कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि परमात्मा निराधार एव अदृश्य है । अतः छायात्मा, जीव और देवता इन तीनोंमेंसे एक है ।


सिद्धांता कहते हैं कि ‘क ब्रह्म क्व ब्रह्म’ इस प्रकार सुखरूप आकाशके समान परिपूर्ण जो ब्रह्म पूर्ववाक्यमें कहा गया है, उसी ब्रह्मका ‘य एषोऽक्षिणि’ इसमें प्रकृतवाचक ‘एतत्’ शब्दसे परामश करके वह चक्षुरिन्द्रियमें उपास्य है ऐसा उपदेश कर वामनीत्व, वामनीत्व, सत्यब्रह्मत्व आदि गुणोंकी उपासनाके लिये [गुरु] उसीका उपदेश करता है । वामनीत्व—कर्मोंकी प्राप्ति कराना । वामनीत्व—जगत्का भासक होना । सत्यब्रह्मत्व—प्राप्तकाम होना । इन गुणोंसे उपास्यमान ब्रह्म सोपाधिक है अतः नेत्र उसके आधार होने है और वह शास्त्रदृष्टिसे दृश्य—देय भी है । इस प्रकार नेत्राधारत्व एव दृश्यत्व परमात्मामें उपपन्न होते हैं । छायात्मा, जीव और देवताओंमें श्रुत्युक्त अमृतत्व, अभयत्व आदि धर्म नहीं हैं । अतः यहाँ परमात्मा का उपास्य है ।

अन्तर उपपत्तेः ॥१३॥

पदच्छेद—अन्तरः, उपपत्तेः ।

पदार्थोक्ति—अन्तरः—‘य एपोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते’ इति श्रुतौ प्रतिपाद्यमानः अक्षिमध्यगतः [परमात्मैव, न छायात्मादिः, कुतः] उपपत्तेः—इहोक्तानां आत्मत्वामृतत्वाभयत्वादिधर्माणां परमात्मन्येवोपपत्तेः [अतः नेत्राभ्यन्तरः परमात्मैव ।

भाषार्थ—‘य एपोऽक्षिणि०’ (आंखमें जो यह पुरुष दीखता है) इस श्रुतिसे प्रतिपाद्यमान नेत्राभ्यन्तरगत पुरुष परमात्मा ही है, छायात्मा आदि नहीं, क्योंकि उक्त श्रुतिमें कथित आत्मत्व, अमृतत्व, अभयत्व आदि धर्म परमात्मामें ही उपपन्न होते हैं, छायात्मा आदिमें उपपन्न नहीं होते, अतः नेत्रके भीतर रहनेवाला पुरुष परमात्मा ही है ।



भाष्य

‘य एपोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते एष आत्मेति होवाचैदमृतमभयमेतद् ब्रह्मेति, तद्यद्यप्यस्मिन् सर्पिर्वोदकं वा सिञ्चति वर्त्मनी एव गच्छति’ (छा०४।१५।१) इत्यादि श्रूयते । तत्र संशयः—किमयं प्रतिबिम्बाभाष्यका अनुवाद

‘य एपोऽक्षिणि पुरुषो०’ (आंखमें जो यह पुरुष दीखता है, वह आत्मा है, ऐसा उसने कहा, वह अमृत है, अभय है और ब्रह्म है, उस पुरुषके स्थानमें यदि घी या जल डाला जाय तो वह पक्ष्मोंमें ही जाता है) इत्यादि श्रुति है । यहांपर संशय होता है कि आंखमें स्थित यह क्या प्रतिबिम्बात्मा है या विज्ञा-

रत्नप्रभा

अन्तर उपपत्तेः । उपकोसलविद्यावाक्यम् उदाहरति—य इति । तद् अक्षिस्थानम् असङ्गत्वेन ब्रह्मणोऽनुरूपम्, यतः अस्मिन् क्षिप्तं वर्त्मनी पक्ष्मणी एव गच्छति इत्यर्थः । दर्शनस्य लौकिकत्वशास्त्रीयत्वाभ्यां संशयमाह—तत्रेति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

“अन्तर उपपत्तेः” । उपकोसल विद्यामें पठित वाक्यको उद्धृत करते हैं—“यः” इत्यादिसे । वह—नेत्ररूप स्थान संगरहित होनेके कारण ब्रह्मके अनुरूप है, क्योंकि उसमें डाला हुआ पानी या घी पक्ष्मोंमें ही जाता है अर्थात् निलेंप इंद्रके लिए निलेंप आँख ही अनुरूप स्थान है ।

भाष्य

त्माक्षयधिकरणो निर्दिश्यतेऽथवा विज्ञानात्मा उत देवतात्मेन्द्रियस्याधि-
ष्ठाताऽथेश्वर इति । किं तावत्प्राप्तम् ?

छायात्मा पुरुषप्रतिरूप इति । कुतः ? तस्य दृश्यमानत्वप्रसिद्धेः ।
'य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते' इति च प्रसिद्धवदुपदेशात् । विज्ञानात्मनो
वाऽयं निर्देश इति युक्तम् । स हि चक्षुषा रूपं पश्यंश्चक्षुषि सन्निहितो
भवति, आत्मशब्दश्चाऽस्मिन् पक्षेऽनुकूलो भवति । आदित्यपुरुषो वा
चक्षुषोऽनुग्राहकः प्रतीयते, 'रश्मिभिरेषोऽस्मिन् प्रतिष्ठितः' (बृ० ५।५।२)

भाष्यका अनुवाद

नात्मा या इन्द्रिय (आंख) का अधिष्ठाता देवता या ईश्वर है । यहां क्या
प्राप्त होता है ?

पूर्वपक्षी—पुरुषके प्रतिबिम्ब छायात्माका निर्देश है, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष
दिखाई देना प्रसिद्ध है । और 'य एषोऽक्षिणि०' (आंखमें जो यह पुरुष
सीखता है) इस प्रकार प्रसिद्धके समान उपदेश भी है, अतः छायात्मा ही है ।
अथवा यह विज्ञानात्माका निर्देश हो सकता है, क्योंकि वह आंखसे रूपको
देखता हुआ आंखमें स्थित होता है । इस पक्षमें आत्मशब्द भी अनुकूल होता
है । अथवा आंखके ऊपर अनुग्रह करनेवाले आदित्यपुरुषकी प्रतीति होती है,

रत्नप्रभा

पूर्वत्र पिबन्तौ इति प्रथमश्रुतचेतनत्वानुसारेण चरमश्रुता गुहाप्रवेशादयो नीता,
तद्वद् इहाऽपि दृश्यते इति चाक्षुषत्वानुसारेण अमृतत्वादयो ध्यानार्थं कल्पि-
तत्वेन नेया इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति—छायात्मेति । पूर्वपक्षे प्रतिबिम्बो-
पास्ति, सिद्धान्ते ब्रह्मोपास्ति इति फलम् । प्रसिद्धवदिति । चाक्षुषत्वेन
इत्यर्थः । सम्भावनामात्रेण पक्षान्तरमाह—विज्ञानात्मन इत्यादिना । "मनो

रत्नप्रभाका अनुवाद

दर्शन लौकिक और शास्त्रीय होता है, इससे संशय कहते हैं—“तत्र” इत्यादिसे । पिछले अधिकरणमें
'ऋत पिबन्तौ' इसमें जीव और परमात्माके चेतन होनेके कारण प्रथम अवगति हुई अतः उसके
अनुसार चरमश्रुत गुहाप्रवेश आदिका व्याख्यान किया है, उसी प्रकार ['य एषोऽक्षिणि
पुरुषो दृश्यते'] यहाँ भी 'दृश्यते' (सीखता है) इस लौकिक दर्शनसे छायापुरुषकी अवगति
होती है, इसलिए उसका अनुसार अमृतत्व, अभयत्व आदिकी ध्यानके लिए कल्पना की गई है
इस दृष्टान्तसे पूर्वपक्ष करते हैं—“छायात्मा” इत्यादिसे । पूर्वपक्षमें प्रतिबिम्बकी उपासना फल
है और सिद्धान्तमें ब्रह्मकी उपासना फल है । “प्रसिद्धवद्”, चाक्षुष होनेके कारण । सम्भा-
वनामात्रेण पक्षान्तर कहते हैं—“विज्ञानात्मा इत्यादिसे । “मना ब्रह्म” (मन ब्रह्म है) इय

भाष्य

इति श्रुतेः । अमृतत्वादीनां च देवतात्मन्यपि कथंचित्संभवात् । नेश्वरः,
स्थानविशेषनिर्देशाद् ।

इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः—परमेश्वर एवाऽक्षिण्यभ्यन्तरः पुरुष इहोपदिष्ट इति ।
कस्मात् ? उपपत्तेः । उपपद्यते हि परमेश्वरे गुणजातमिहोपदिश्यमानम् ।
आत्मत्वं तावन्मुख्यया वृत्त्या परमेश्वर उपपद्यते, 'स आत्मा तत्त्वमसि'
इति श्रुतेः । अमृतत्वाभयत्वे च तस्मिन्नसकृच्छ्रुतौ श्रूयेते । तथा परमेश्वरा-
नुरूपमेतदक्षिस्थानम् । यथा हि परमेश्वरः सर्वदोषैरलिप्तः, अपहृतपाप्मत्वा-
दिश्रवणात् तथाऽक्षिस्थानं सर्वलेपरहितमुपदिष्टम्, 'तद्यद्यस्मिन् सर्पिर्वोदकं

भाष्यका अनुवाद

क्योंकि 'रश्मिरेपो' (किरणोंसे सूर्य आंखमें प्रतिष्ठित है) ऐसी श्रुति है,
और अमृतत्व आदिका देवतात्मामें यथाकथञ्चित् सम्भव भी है । परन्तु ईश्वर
नहीं (समझा जाता), क्योंकि स्थानविशेषका निर्देश है ।

सिद्धान्ती—ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं—आंखमें रहनेवाला पुरुष
परमेश्वर ही है ऐसा उपदेश किया गया है, क्योंकि श्रुतिमें कहे गये गुण उसीमें
घटते हैं । जिन गुणोंका यहां उपदेश है, वे परमेश्वरमें ही घटते हैं । प्रथम तो
आत्मत्व मुख्यवृत्तिसे परमेश्वरमें घटता है, क्योंकि 'स आत्मा' (यह आत्मा
है, वह तू है) ऐसी श्रुति है । अमृतत्व और अभयत्वका श्रुतिमें परमेश्वरके
लिए ही बारबार प्रयोग देखा गया है, इसी प्रकार यह नेत्र स्थान परमेश्वरके
अनुरूप है । जैसे परमेश्वर सब दोषोंसे अस्पृष्ट है, क्योंकि श्रुति उसमें पापरहितत्व
आदि धर्मोंका प्रतिपादन करती है, उसी प्रकार अक्षिस्थान सब लोपोंसे रहित

रत्नप्रभा

ब्रह्म" इतिवत् 'एतद् ब्रह्मेति' इति वाक्यस्य इतिपदशिरस्कत्वात् न स्वार्थपरत्व-
मिति पूर्वपक्षः । "मनो ब्रह्मेत्युपासीत" इत्यत्र इतिपदस्य प्रत्ययपरत्वात्, इह च
ब्रह्मेत्युवाच इत्यन्वयेन इतिपदस्य उक्तिसम्बन्धिदोषपरत्वाद् वैषम्यमिति सिद्धान्त-
यति—परमेश्वर एवेति । बहुप्रमाणसंवादः तात्पर्यानुग्राहक इति न्यायानु-

रत्नप्रभाका अनुवाद

वाक्यके समान 'एतद्ब्रह्मेति' (यह ब्रह्म है) इस वाक्यमें भी 'इति' शब्द ब्रह्मपदके बाद
पढ़ा गया है, इसलिए उक्त वाक्य स्वार्थपरक नहीं है, ऐसा पूर्वपक्ष है । 'मनो ब्रह्मे' (मनकी
ब्रह्मरूपसे उपासना करनी चाहिए) यहाँपर 'इति' पद ज्ञानपरक है और यहाँपर 'ब्रह्मेत्युवाच'में
'उक्ति' से सम्बन्ध रखनेवाला 'इति' पद अर्थपरक है, यह अन्तर है इस प्रकार सिद्धान्त
करते हैं—“परमेश्वर एव” इत्यादिसे । बहुत प्रमाणोंकी एक्यर्थापकता तात्पर्यका निश्चय

भाष्य

वा सिञ्चति वर्त्मनी एव गच्छति' इति श्रुतेः । संयद्दामत्वादिगुणोपदेशश्च तस्मिन्नवकल्पते 'एतं संयद्दाम इत्याचक्षते एतं हि सर्वाणि वामान्यभिसंयन्ति, एष उ एव वामनीरेष हि सर्वाणि वामानि नयति' 'एष उ एव वामनीरेष हि सर्वेषु लोकेषु भाति' (छा० ४।१।५।२,३,४) इति च । अत उपपत्तेरन्तरः परमेश्वरः ॥ १३ ॥

भाष्यका अनुवाद

कहा गया है, क्योंकि 'तद्यद्यस्मिन्' (यदि इसमें घी या जल डाला जाय तो वह पलकोंमें ही जाता है) ऐसी श्रुति है । श्रुतिमें कहे गये सकल कामनाओंका हेतु होना इत्यादि धर्म उसमें ही घटते हैं । 'एतं संयद्दाम' (इसको 'संयद्दाम' कहते हैं, क्योंकि सब कर्मफल इसके आश्रयसे ही उत्पन्न होते हैं), 'एष उ एत' (यही निश्चय वामनी है, क्योंकि यह सब फलोंको प्राप्त कराता है) और 'एष उ एव' (यही निश्चय वामनी है, क्योंकि यह सब लोकोंमें प्रकाशित होता है) ये सब श्रुतियां उसमें ही घटती हैं । श्रुत्युक्त धर्म परमेश्वरमें ही घटते हैं, इसलिए अक्षिपुरुष परमेश्वर है ॥ १३ ॥

रत्नप्रभा

गृहीताभ्याम् आत्मब्रह्मश्रुतिभ्यां दृश्यत्वलिङ्गं वाच्यम् इत्याह—संयद्दामेति । वामानि कर्मफलानि एतम् अक्षिपुरुषम् अभिलक्ष्य संयन्ति उत्पद्यन्ते, सर्वफलोदयहेतुः इत्यर्थः । लोकानां फलदाताऽपि अयमेवेत्याह—वामनीरिति । नयति फलानि लोकान् प्रापयति इत्यर्थः । वामानि—वामानि नयति अयम् इत्याह—वामनीरिति । सर्वार्थप्रकाशक इत्यर्थः ॥ १३ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

कराती है इस न्यायसे अनुगृहीत आत्मा और ब्रह्मनी श्रुतिसे दृश्यत्वलिङ्गका वाच्य होता है, ऐसा कहते हैं—“संयद्दाम” इत्यादिसे । वाम-कर्मफल, अक्षिपुरुषसे उत्पन्न होते हैं अर्थात् अक्षिपुरुष सब फलोंकी उत्पत्तिमें कारण है । लोकोंको कर्मका फल भी यही देता है ऐसा कहते हैं—“वामनी.” इत्यादिसे । नयति—लोकोंको फल पहुँचाता है । वाम-प्रकाश देनेवाला यही है, ऐसा कहते हैं—“वामनी.” इत्यादिसे । अर्थात् यह सर्वार्थप्रकाशक है ॥ १३ ॥



स्थानादिव्यपदेशाच्च ॥१४॥

पदच्छेद—स्थानादिव्यपदेशात्, च ।

पदार्थोक्ति—स्थानादिव्यपदेशात्—यश्चक्षुषि तिष्ठन् 'तस्योदिति नाम' 'हिरण्यश्मश्रुः' इति स्थाननामरूपाणां व्यपदेशात्, [इह] च—अपि [परमात्मनः अक्षिस्थानत्वव्यपदेशो नानुपपन्न इति अत्र परमात्मैव आन्तरः] ।

भाषार्थ—'यश्चक्षुषि०' (जो आंखमें रहकर), 'तस्योदिति०' (उसका 'उद्' नाम है), 'हिरण्य०' (उसकी ज्योतिर्मय मूँछे हैं) इस प्रकार श्रुतिमें स्थान, नाम तथा रूप कहे गये हैं, अतः यहाँ भी परमात्मा नेत्रमें है यह कहना ठीक ही है, इस कारण 'य एषोऽक्षिणि०' इस श्रुतिमें परमात्मा ही आन्तर पुरुष कहा गया है ।



भाष्य

कथं पुनराकाशवत्सर्वगतस्य ब्रह्मणोऽक्ष्यल्पस्थानमुपपद्यत इति । अत्रोच्यते—भवेदेपाऽनवकलसिः, यद्येतदेवैकं स्थानमस्य निर्दिष्टं भवेत् । सन्ति ह्यन्यान्यपि पृथिव्यादीनि स्थानान्यस्य निर्दिष्टानि—'यः पृथिव्यां तिष्ठन्' (बृ० ३।७।३) इत्यादिना । तेषु हि चक्षुरपि निर्दिष्टम्—'यश्च-

भाष्यका अनुवाद

परन्तु आकाशके समान सर्वव्यापक ब्रह्म नेत्ररूप अल्पस्थानमें किस प्रकार रह सकता है ? इस विषयमें कहा जाता है—यदि उसका यही एक स्थान निर्दिष्ट होता तो यह अनुपपत्ति होती । परन्तु 'यः पृथिव्यां०' (जो पृथिवीमें रहकर) इत्यादिसे पृथिवी आदि दूसरे स्थान भी उसके लिए निर्दिष्ट हैं । उनमें

रत्नप्रभा

स्थानादिव्यपदेशाच्च । स्थाननामरूपाणां ध्यानार्थं श्रुत्यन्तरेऽपि उपदेशाद् अक्षिस्थानत्वोक्तिः अत्र न दोष इति सूत्रयोजना । अनवकलसिः अकलसत्कल्पना

रत्नप्रभाका अनुवाद

"स्थानादिव्यपदेशाच्च" । स्थान, नाम और रूपका ध्यानके लिए दूसरी श्रुतिमें भी उपदेश है, इस कारण ब्रह्मको अक्षिस्थान कहना अयुक्त नहीं है, ऐसी सूत्रकी योजना करना चाहिए ।

भाष्य

क्षुपि तिष्ठन्' इति । 'स्थानादिव्यपदेशात्' इत्यादिग्रहणेनैतद्दर्शयति—न केवलं स्थानमेवैकमनुचितं ब्रह्मणो निर्दिश्यमानं दृश्यते, किं तर्हि ? नामरूपमित्येवंजातीयकमप्यनामरूपस्य ब्रह्मणोऽनुचितं निर्दिश्यमानं दृश्यते—'तस्योदिति नाम' 'हिरण्यश्मश्रुः' (छा० १।६।७, ६) इत्यादि । निर्गुणमपि सद् ब्रह्म नामरूपगतैर्गुणैः सगुणमुपासनार्थं तत्र तत्रोपदिश्यत इत्येतदप्युक्तमेव । सर्वगतस्याऽपि ब्रह्मण उपलब्ध्यर्थं स्थानविशेषो न विरुध्यते, शालग्राम इव विष्णोरित्येतदप्युक्तमेव ॥१४॥

भाष्यका अनुवाद


'यश्चक्षुषि०' (जो आंखमें रहकर) इस प्रकार आंख मी निर्दिष्ट है । 'स्थानादि०' इस सूत्रमें 'आदि' पदके ग्रहणसे सूत्रकार यह दिखाता है कि केवल अनुचित स्थानका ही ब्रह्ममें निर्देश नहीं दिखाई देता, किन्तु नाम और रूपसे रहित ब्रह्ममें अनुचित नाम और रूप आदिका मी निर्देश दिखाई देता है । 'तस्योदिति०' (उसका 'उद्' नाम है), 'हिरण्यश्मश्रुः' (वह सुवर्णमय मूँडवाला है) इत्यादि नाम और रूपका ग्रहण है । ब्रह्म निर्गुण है, तो मी उपासनाके लिए स्थल-स्थलपर सगुणकी तरह नाम और रूपसे उसका उपदेश किया जाता है, यह पीछे कहा जा चुका है । जैसे उपासनाके लिए विष्णुका शालग्राममें उपदेश अनुचित नहीं है, उसी प्रकार सर्वव्यापक ब्रह्मका मी ध्यानके लिए विशिष्ट स्थानमें उपदेश विरुद्ध नहीं है, यह भी पीछे कहा जा चुका है ॥ १४ ॥

रत्नप्रभा

तदा भवेद्, यदि अत्रैव निर्दिष्टं भवेद् इत्यन्वयः । ननु अनुचितबाहुल्योक्तिः असमाधानमित्याशङ्क्य युक्तिमाह—निर्गुणमपीति ॥ १४ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

यदि केवल यही स्थानका निर्देश होता तो अरुलभकी कल्पना होती ऐसा अन्वय है । अनुचित बहुत धर्मोंका कथनमात्र समाधान नहीं हो सकता है ऐसी आशङ्का करके उस विषयमें युक्ति कहते हैं—“निर्गुणमपि” इत्यादिसे ॥ १४ ॥



सुखविशिष्टाभिधानादेव च ॥१५॥

पदच्छेद—सुखविशिष्टाभिधानात्, एव, च ।

पदार्थोक्ति—सुखविशिष्टाभिधानादेव—‘प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म’ इति वाक्योपक्रमे श्रूयमाणसुखविशिष्टब्रह्मण एव अत्र अभिधानात्, च—अपि [इह परमात्मैव अन्तरः] ।

भाषार्थ—‘प्राणो ब्रह्म०’ (प्राण ब्रह्म है, सुख ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है) इस प्रकार वाक्यके उपक्रममें प्रतिपादित सुखविशिष्ट ब्रह्मका ही यहां अभिधान है, इससे भी सिद्ध होता है कि ‘य एषोऽक्षिणि०’ इस श्रुतिमें परमात्मा ही अन्तर पुरुष कहा गया है ।



भाष्य

अपि च नैवाऽत्र विवदितव्यम्—किं ब्रह्माऽस्मिन्वाक्येऽभिधीयते न वेति । सुखविशिष्टाभिधानादेव ब्रह्मत्वं सिद्धम् । सुखविशिष्टं हि ब्रह्म यद्वाक्योपक्रमे प्रक्रान्तम् ‘प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म’ इति, तदेवेहाऽभिहितम्, प्रकृतपरिग्रहस्य न्याय्यत्वात् । ‘आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता’ (छा०

भाष्यका अनुवाद

और इस वाक्यमें ब्रह्मका अभिधान है या नहीं इस विषयमें विवाद करना ठीक नहीं है, क्योंकि सुखविशिष्टके अभिधानसे ही ब्रह्मत्व सिद्ध है । ‘प्राणो ब्रह्म०’ (प्राण ब्रह्म है, कं ब्रह्म है, खं ब्रह्म है) इस प्रकार वाक्यके आरम्भमें जो सुखविशिष्ट ब्रह्म प्रस्तुत है, उसका ही यहां अभिधान है, क्योंकि प्रस्तुतका

रत्नप्रभा

प्रकरणादपि ब्रह्म ब्राह्ममित्याह—सुखविशिष्टेति । ध्यानार्थं भेदकल्पनया सुखगुणविशिष्टस्य ब्रह्मणः प्रकृतस्य य एष इति सर्वनाम्नाऽभिधानाद् अन्तरः परमात्मा स्याद् इति सूत्रार्थः । ननु प्रकरणात् प्रबलेन दृश्यत्वलिङ्गेन उपस्थापितः छायात्मा सर्वनामार्थ इत्यत्र आह—आचार्यस्त्विति । उपकोसलो नाम

रत्नप्रभाका अनुवाद

प्रकरणसे भी ब्रह्मका ही ग्रहण करना युक्त है ऐसा कहते हैं—“सुखविशिष्ट” इत्यादिसे । ध्यानके लिए भेदकी कल्पना की गई है, अतः सुखविशिष्ट प्रकृत ब्रह्मका ही ‘य एषः’ इस प्रकार सर्वनामपदसे अभिधान है, इससे आक्षिप्त पुरुष परमात्मा है, ऐसा सूत्रार्थ निष्पन्न होता है । परन्तु प्रकरणसे प्रबल ‘य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते’ इसमें जो दृश्यत्व लिङ्ग है, उससे ‘य

भाष्य

४।१।४।१) इति च गतिमात्रामिधानप्रतिज्ञानात् । कथं पुनर्वाक्योपक्रमे सुखविशिष्टं ब्रह्म विज्ञायत इति । उच्यते—‘प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म’ इत्येतदग्नीनां वचनं श्रुत्वोपकोसल उवाच—‘विजानाम्यहं यत्प्राणो ब्रह्म

भाष्यका अनुवाद

ग्रहण ही उचित है । ‘आचार्यस्तु ते०’ (आचार्य तो तुमसे मार्ग कहेगा) इस तरह गतिमात्रके अमिधानकी प्रतिज्ञा की है । परन्तु वाक्यके आरम्भमें सुख-विशिष्ट ब्रह्मका विज्ञान कैसे होता है ? इसपर कहते हैं—प्राणो ब्रह्म०’ (प्राण ब्रह्म है, कं ब्रह्म है, खं ब्रह्म है) अग्नियोंका यह वचन सुनकर उपकोसलने कहा—‘विजानाम्यहं०’ (सूत्रात्मा प्राण बृहत् होनेके कारण ब्रह्म है यह मैं जानता

रत्नप्रभा

कश्चिद् ब्रह्मचारी जावालस्य आचार्यस्य अग्नीन् द्वादश वत्सरान् परिचचार । तमनुपदिश्य देशान्तरगते जावाले गार्हपत्याद्यग्निभिः दयया ‘प्राणो ब्रह्म’ इत्यात्म-विद्याम् उपदिश्य उक्तम्—आचार्यस्त्विति । तव आत्मविद्याफलाद्याप्तये मार्गम् अर्चिरादिकं वदिष्यति इत्यर्थः । पश्चाद् आचार्येण आगत्य ‘य एषोऽक्षिणि’ इत्युक्त्वा अर्चिरादिका गतिः उक्ता । तथा चाऽग्निभिः उक्तात्मविद्यावाक्यस्य गति-वाक्येन एकवाक्यता वाच्या । सा च सर्वनाम्ना प्रकृतात्मग्रहे निर्वहति इत्येक-वाक्यतानिर्वाहकं प्रकरण वाक्यभेदकात् लिङ्गाद् बलवदिति भावः । श्रुतिं व्याचष्टे—उच्यत इति । प्राणश्च सूत्रात्मा बृहत्त्वाद् ब्रह्म, इति यत्तत् जानामि । कम्—विषयमुक्त्वम्, खम्—च भूताकाशं ब्रह्मत्वेन ज्ञातुं न शक्नोमि इत्यर्थः । खं कथम्—

रत्नप्रभाका अनुवाद

एष.’ इस सर्वनामका अर्थ छायात्मा है, इस शब्दापर कहते हैं—“आचार्यस्तु” इत्यादिसे । उपकोसल नामक किसी ब्रह्मचारीने जावाल आचार्यकी अग्नियोंकी चारह वर्ष तक परिचर्या की । जब उसको उपदेश किये बिना जावाल देशान्तर चले गये, तब दया करके गार्हपत्य आदि अग्नियोंने ‘प्राणो ब्रह्म’ इम प्रकार आत्मविद्याका उपदेश करके कहा—“आचार्यस्तु” इत्यादि । अर्थात् आत्मविद्याके फलकी प्राप्तिके लिए आचार्य तुम्हें अर्चि आदि मार्गका उपदेश देंगे । तदनन्तर आचार्यने परदेशमें लौटकर ‘य एषोऽक्षिणि’ इत्यादि कहकर अर्चि आदि मार्गका उपदेश दिया । अब अग्नियोंसे कहे गये आत्मविद्यावाक्यकी गतिवाक्यके साथ एकवाक्यता करनी चाहिए । उस एकवाक्यताका ‘य एष.’ इम सर्वनाममें प्रकृत आत्माका ग्रहण करने-पर ही निर्वाह होता है । इसलिए एकवाक्यताका निर्वाहक प्रकरण वाक्यभेदक लिङ्गसे बलवान् है ऐसा तात्पर्य है । धृतिका व्याख्यान करते हैं—“उच्यते” इत्यादिसे । प्राण—

भाष्य

कं च खं च तु न विजानामि' इति । तत्रेदं प्रतिवचनम्—'यद्वाच कं तदेव खं यदेव खं तदेव कम्' (छा० ४।१०।५) इति । तत्र खंशब्दो भूताकाशे निरूढो लोके । यदि तस्य विशेषणत्वेन कंशब्दः सुखवाची नोपादीयेत, तथा सति केवले भूताकाशे ब्रह्मशब्दो नामादिष्विव प्रतीकाभिप्रायेण प्रयुक्त इति प्रतीतिः स्यात् । तथा कंशब्दस्य विषयेन्द्रियसंपर्कजनिते सामये

भाष्यका अनुवाद ।

हूँ, किन्तु कम्—विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे जन्य सुख और खम्—भूताकाश किस प्रकार ब्रह्म है यह मैं नहीं जानता) । तब उसे यह प्रतिवचन मिला कि 'यद्वाच कं तदेव' (जो कं—सुख है वही खं—आकाश है, जो खं—आकाश है, वही कं—सुख है) इस श्रुतिमें कहे गये 'खं' शब्दकी भूताकाशमें व्यावहारिक रूढि है । यदि उसके विशेषणरूपसे सुखवाची 'कं' शब्दका ग्रहण न करें, तो नाम आदि प्रतीकोंमें जैसे ब्रह्मका प्रयोग है, वैसे ही प्रतीकके अभिप्रायसे केवल भूताकाशमें ब्रह्मशब्द प्रयुक्त है, ऐसी प्रतीति होगी । उसी प्रकार विषय और

रत्नप्रभा

तम्, यत्कं तदेव खमिति सुखेन विशेषितस्य खस्य भूतत्वनिरासः । तथा कं कथम्भूतम्, यत् खं तदेव कमिति विभुत्वेन विशेषितस्य कस्य जन्यत्वनिरास इति व्यतिरेकमुखेनाऽऽह—तत्र खमित्यादिना । "आत्मविद्या" (छा० ४।१।४।१) इति श्रुतिविरोधात् प्रतीकध्यानम् अत्रानिष्टमिति भावः । सामय इति । आमयो दोषः—साधनपारतन्त्र्यानित्यत्वादिः, तत्सहित इत्यर्थः । प्रत्येकग्रहणे दोषम्

रत्नप्रभाका अनुवाद

सूत्रात्मा चूहत् होनेके कारण ब्रह्म है, इसको मैं जानता हूँ, परन्तु कं—विषय और इन्द्रियोंके संसर्गमें उत्पन्न हुआ अनिल लौकिक सुख और खं—अचेतन भूताकाशको मैं ब्रह्म नहीं जान सकता ऐसा अर्थ है । यहाँपर खं कैसा लिया गया है ? जो कं है वही खं है इस प्रकार सुखविशेषित होनेके कारण खं (आकाश) में भूतत्वका निरास होता है । इसी प्रकार कं कैसा लिया गया है ? जो खं है वही कं है, ऐसा विभुत्वसे विशिष्ट होनेके कारण कं (सुख) में जन्यत्वका निरास होता है, ऐसा व्यतिरेकसे कहते हैं—"तत्र खम्" इत्यादिसे । 'आत्मविद्या' इस श्रुतिके साथ विरोध होनेके कारण प्रतीक द्वारा ध्यान यहाँ अभीष्ट नहीं है । आमय—साधन-

(१) 'एषा सौम्य तेऽस्मद्विद्याऽऽत्मविद्या चाचार्यस्तु ते गतिं वक्ता' (हे सौम्य ! यह अपनी विद्या तथा आत्मविद्या तुमसे कही गई, आचार्य मार्गका उपदेश करेंगे) इस श्रुतिसे सिद्ध है कि 'प्रागो ब्रह्म' इत्यादि आत्मविद्याका उपदेश है । आत्मविद्या तो वह सगुण ब्रह्म की उपासनारूप है, अतः 'खं ब्रह्म' इसमें भूताकाश प्रतीक है ऐसा मानें तो उपर्युक्त श्रुतिसे विरोध होगा ।

भाष्य

सुखे प्रसिद्धत्वात्, यदि तस्य खंशब्दो विशेषणत्वेन नोपादीयेत, लौकिकं सुखं ब्रह्मेति प्रतीतिः स्यात् । इतरेतरविशेषितौ तु कंखंशब्दौ सुखात्मकं ब्रह्म गमयतः । तत्र द्वितीये ब्रह्मशब्देऽनुपादीयमाने कं खं ब्रह्मेत्येवोच्यमाने कंशब्दस्य विशेषणत्वेनैवोपयुक्तत्वात् सुखस्य गुणस्याऽध्येयत्वं स्यात्, तन्मा भूदित्युभयोः कंखंशब्दयोर्ब्रह्मशब्दशिरस्त्वं 'कं ब्रह्म खं ब्रह्म' इति । इष्टं हि सुखस्यापि गुणस्य गुणिवद् ध्येयत्वम् । तदेवं

भाष्यका अनुवाद

इन्द्रियोंके संयोगसे उत्पन्न हुए सदोष सुखमें 'कं' शब्दकी प्रसिद्धि होनेके कारण यदि उसके विशेषणरूपसे 'खं' शब्दका ग्रहण न करेंगे तो लौकिक सुख ब्रह्म है, ऐसी प्रतीति होगी । परन्तु परस्पर एक दूसरेके विशेषण हुए 'कं' औ 'खं' शब्द सुखात्मक ब्रह्मकी प्रतीति कराते हैं । उसमें यदि दूसरे ब्रह्मशब्दका ग्रहण न करें—'कं खं ब्रह्म' इतना ही कहे, तो 'कं' शब्दका विशेषणरूपसे ही उपयोग होनेके कारण गुणभूत सुख ध्येय न होगा, ऐसा न हो इसके लिए दोनों—'कं और 'खं' शब्द—के साथ 'कं ब्रह्म खं ब्रह्म' इस प्रकार ब्रह्मशब्दका प्रयोग किया है । यद्यपि सुख गुण है, तो भी गुणी ब्रह्मकी तरह उसका ध्यान

रत्नप्रभा

उक्तया द्वयोः ग्रहणे फलितमाह—इतरेतरेति । विशेषितार्थकौ इत्यर्थः । ननु एकं ब्रह्मैवाऽत्र ध्येयं चेद्, ब्रह्मपदान्तरं किमर्थम् इत्यत आह—तत्रेति । विशेषणत्वेन—स्वस्य भूतत्वव्यावर्तकत्वेन इत्यर्थः । ब्रह्मशब्दः शिरो ययोस्तत्त्वमिति विग्रहः । अध्येयत्वे को दोषः, तत्राह—इष्टं हीति । मार्गोक्त्या सगुणविद्यात्वावगमात् इति भावः । आत्मविद्यापदेन उपसंहारादपि ब्रह्म इत्याह—

रत्नप्रभाका अनुवाद

परतन्त्रता और नाशवत्ता आदि दोष, उनसे युक्त "सामय" अर्थात् लौकिक सुख साधनके अधीन है और नाशवान है । प्रत्येकको पृथक् पृथक् लेनेमें दोष कहकर दोनोंको साथ लेनेमें फल कहते हैं—“इतरेतर” इत्यादिसे । अर्थात् दोनोंके अर्थमें परस्पर विशेष्यविशेषणभाव है । यदि यहाँ ध्येय एक ही ब्रह्म हो तो दूसरे ब्रह्मपदका क्या प्रयोजन है ? इसपर कहते हैं—“तत्र” इत्यादिसे । 'विशेषणत्वेन'—आकाशमें भूतत्वका व्यावर्तक होनेसे । ब्रह्मशब्द है शिरजिनका वे पद ब्रह्मशब्दशिरसी कहे जाते हैं, उनमें रहनेवाला धर्म ब्रह्मशब्दशिरस्त्व है, ऐसा विग्रह समझना चाहिए । यदि गुण ध्येय न हो तो क्या दोष है ? इसपर कहते हैं—“इष्ट हि” इत्यादिसे । मार्ग कहा गया है इससे मालूम होता है कि सगुणविद्याका उपदेश है । 'आत्म-

भाष्य

वाक्योपक्रमे सुखविशिष्टं ब्रह्मोपदिष्टं प्रत्येकं च गार्हपत्यादयोऽग्नयः स्वं स्वं महिमानमुपदिश्य 'एषा सोम्य तेऽसाद्विद्यात्मविद्या च' इत्युपसंहरन्तः पूर्वत्र ब्रह्म निर्दिष्टमिति ज्ञापयन्ति । 'आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता' इति च गतिमात्राभिधानप्रतिज्ञानमर्थान्तरविवक्षां वारयति । 'यथा पुष्करपलाशम् आपो न श्लिष्यन्त एवमेवंविदि पापं कर्म न श्लिष्यते' (छा० ४।१।४।३) इति चाऽक्षिस्थानं पुरुषं विजानतः पापेनाऽनुपघातं ब्रुवन्नक्षिस्थानस्य पुरुषस्य ब्रह्मत्वं दर्शयति । तस्मात् प्रकृतस्यैव ब्रह्मणोऽक्षिस्थानतां संयद्वा-

भाष्यका अनुवाद

करना अभीष्ट है । इसलिए इस प्रकार वाक्यके आरम्भमें सुरविशिष्ट ब्रह्मका उपदेश किया है । और गार्हपत्य आदि अग्नियोंमेंसे प्रत्येकने अपनी अपनी महिमाका उपदेश करके—'एषा सोम्य०' (हे सोम्य ! यह अपनी विद्या और आत्मविद्या हमने तुमसे कही) इस प्रकार उपसंहार करती हुई अग्नियों पहले ब्रह्मका उपदेश है ऐसा ज्ञान कराती हैं । 'आचार्यस्तु०' इस फलमात्रके अभिधानकी प्रतिज्ञा अन्य अर्थकी विवक्षा रोकती है । 'यथा पुष्करपलाश०' (जैसे कमलपत्रमें जल नहीं ठहरता, वैसे ही इस प्रकार जाननेवालेको पापकर्म स्पर्श नहीं करता) इस प्रकार श्रुति अक्षिगत पुरुषको जाननेवालेमें पापके संबन्धका निषेध

रत्नप्रभा

प्रत्येकं चेति । पृथिवी, अग्निः, अन्नम्, आदित्य इति मम चतस्रः तनवो विभूतिः इति गार्हपत्य उपदिदेश । आपो दिशो नक्षत्राणि चन्द्रमा इति अन्वाहार्यपचन उवाच । प्राण आकाशो द्यौः विद्युदिति स्वमहिमानम् आहवनीयो जगादेति भावः । इयम् अस्माकमग्नीनां विद्या प्रत्येकमुक्ता । आत्मविद्या तु पूर्वम् अस्माभिः मिलित्वा 'प्राणो ब्रह्म इत्युक्तेत्यर्थः । उच्यतामग्निभिर्ब्रह्म, छायात्मा गुरुणोच्य-

रत्नप्रभाका अनुवाद

विद्या' पदसे उपसंहार किया है, इससे भी प्रकृत ब्रह्म है, ऐसा कहते हैं—“प्रत्येकं च” इत्यादिसे । उपकोसलने गार्हपत्यने उपदेश किया कि पृथिवी, अग्नि, अन्न और आदित्य ये चार मेरे शरीर—विभूतियां हैं [और आदित्यमें जो यह पुरुष दीखता है, वह मैं हूँ] । अन्वाहार्य अग्निने भी उपदेश किया कि जल, दिशा, नक्षत्र और चन्द्रमा ये मेरी विभूतियां हैं [और चन्द्रमामें जो यह पुरुष दीखता है, वह मैं हूँ] । आहवनायने भी उपदेश किया कि प्राण, आकाश, धुलोक और विद्युत् ये चार मेरी विभूतियां हैं [और विद्युत्में यह जो पुरुष दीखता है, वह मैं हूँ] । इस प्रकार प्रत्येक अग्निने अपनी अपनी माहोमाका वर्णन कर कहा कि हे सोम्य ! यह अपनी अपनी विद्या तुमसे कही, आत्मविद्या तो हम सबने मिलकर पहले ही 'प्राणो ब्रह्म'

भाष्य

मत्त्रादिगुणतां चोक्तत्वाच्चिरादिकां तद्विदो गतिं वक्ष्यामीत्युपक्रमते—‘य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवाच’ (छा० ४।१५।१) इति ॥१५॥

भाष्यका अनुवाद

कर अक्षिस्थ पुष्पको ब्रह्म कहती है। ‘य एषोऽक्षिणि पुरुषोः’ (आंरमें जो पुरुष दीपता है, यह आत्मा है) इत्यादिसे आचार्य प्रकृत ब्रह्मके ही अक्षिस्थता, संयद्ब्रामता आदि गुणोंको यह कर उसको जाननेवालेकी अर्धि आदि गतिको कहूँगा, ऐसा उपक्रम करते हैं ॥ १५ ॥

रत्नप्रभा

ताम्, वक्तृभेदात् इति तत्राह—आचार्यस्त्विति । एकवाक्यतानिश्चयाद् वक्तृभेदेऽपि नार्थभेद इत्यर्थः ॥ १५ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

इस प्रकार कहा है, ऐसा अर्थ है । अग्नियों ब्रह्मका उपदेश करें, गुरु छायात्माका उपदेश करें, क्योंकि वक्ता भिन्न भिन्न हैं, इसपर कहते हैं—“आचार्यस्तु” इत्यादि । एकवाक्यताका निश्चय होता है, अतः वक्ताओंके भिन्न भिन्न होनपर भी अर्थभेद नहीं है ॥ १५ ॥

(१) अग्नियोंने उपकोसलसे कहा कि हमने ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया है, परन्तु ब्रह्मविद्को किस प्रकार फल प्राप्त होगा, यह विषय हमने नहीं कहा, इसे तुम्हारे आचार्य तुमसे कहेंगे । इस कथनसे अग्निवाक्यके अर्थसे सबद अर्थकी ही विवक्षा शात होती है, अमरबद अर्थान्तरकी विवक्षा नहीं, अतः अग्निवाक्य एव आचार्यवाक्योंमें एकवाक्यताका निश्चय होता है । एक ही अर्थका प्रतिपादन करना एकवाक्यता है ।

(*) उपकोसलका उपख्यान इस प्रकार है—वमलका पुत्र उपकोसल सत्यवाम जाबालके यहा ब्रह्मज्ञानके लिए ब्रह्मचर्यावस्थामें रहता था । पूरे बारह वर्ष तक उसने आचार्यके यहा अग्निवाक्यका सेवा की । आचार्यने दूसरे ब्रह्मचारियोंको स्वाध्याय सिखलाकर उनका समावर्तन कर दिया, परन्तु उपकोसलका समावर्तन नहीं किया । आचार्यसे उनकी पत्नीने कहा कि यह ब्रह्मचारी (उपकोसल) बहुत खिन्न है, इसने अग्निवाक्यकी परिचर्या बहुत ही अच्छा तरहसे की है, अतः अग्निवा हमारे भक्तका ममावर्तन नहीं किया ऐसा ममसत्कर आपकी निन्दा न करें । इस कारण विद्याका उपदेश कर हमका समावर्तन बीनिये । किन्तु आचार्यने उनकी कुछ न सुना और उसका ममावर्तन किये बिना ही परदेश चले गये । तब उस उपकोसलने मानसिक दुःखसे उपवास करनेका निश्चय किया । उसका यह निश्चय जानकर आचार्य पलान कहा कि हे उपकोसल ! भोजन क्यों नहीं करते हो ? उपकोसलने कहा—मैं मानसिक चिन्तासे पूर्ण हूँ अतः भोजन नहीं कर सकता हूँ । तब यह ब्रह्मचारी खिन्न है, इसने हम लोगोंकी परिचर्या की है, अतः हम लोगोंको इसे विद्याका उपदेश करना चाहिए ऐसा अग्निवाक्यने निश्चय करके ‘प्राणो ब्रह्म०’ इत्यादि आत्मविद्या और

श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च ॥१६॥

पदच्छेद—श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानात्, च ।

पदार्थोक्ति—श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाद्—तत्त्वज्ञानिनो या गतिः देवयानारूपा श्रुतिस्मृतिषु प्रतिपादिता तस्या एव इह 'आदित्याच्चन्द्रमसम्' इत्यादौ अक्षिस्वपुरुषज्ञस्य कथनात्, च—अपि [अक्षिस्थस्य पुरुषस्य ब्रह्मत्वम्] ।

भाषार्थ—तत्त्वज्ञानीके लिए जो देवयानरूप मार्ग श्रुति और स्मृतियोंमें कहा गया है, वही मार्ग यहा 'आदित्या०' (आदित्यसे चन्द्रमाको प्राप्त करता है) इत्यादि वाक्यमें नेत्रके अभ्यन्तरवर्ती पुरुषको जाननेवालेके लिए कहा गया है, इससे भी सिद्ध होता है कि चक्षुःस्थ पुरुष ब्रह्म ही है ।

भाष्य

इतश्चाक्षिस्थानः पुरुषः परमेश्वरः, यस्मात् श्रुतोपनिषत्कस्य श्रुतरह-

भाष्यका अनुवाद

इससे भी अक्षिस्थ पुरुष परमेश्वर ही है, क्योंकि जिसने उपनिषद् सुना है,

रत्नप्रभा

श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च । श्रुता अनुष्ठिता उपनिषद्-रहस्यं सगुण-
ब्रह्मोपासनं येन तस्य या गतिः श्रुतौ स्मृतौ च प्रसिद्धा तस्या अत्र अभिधानात्
रत्नप्रभाका अनुवाद

“श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च” । जिन्होंने सगुण ब्रह्मोपासनाका अनुष्ठान किया है वे श्रुतो-
निषत्क हैं । उनकी जो गति श्रुति और स्मृतिमें कही गई है, यहाँ उसका कथनरूप लिख है

'पृथिव्यग्निरन्नमादित्य०' इत्यादि अपनी अपनी विद्याका उसे उपदेश दिया । और कहा कि हे सोम्य ! अपनी विद्या तथा आत्मविद्या तुमसे कहा गई, आचार्य फलप्राप्तिके मार्गका उपदेश करेंगे । अनन्तर आचार्य प्रवाससे लौटकर आये और उपकोसलको देखकर उन्होंने कहा कि हे सोम्य ! तुम्हारा मुख ब्रह्मज्ञानीकी तरह प्रसन्न दीखता है, तुमको किमने उपदेश किया है ? तब उपकोसलने असल बातको छिपात हुपकी तरह कहा—हे भगवन् ! आप तो प्रवास गये थे मुझे उपदेश और कौन करेगा । इस वाक्यसे (मुझसे नहीं) कह दिया कि ये अग्निवां आपको देखकर कापती हैं अर्थात् इन्होंने उपदेश दिया है । तब आचार्यके यह पूछने पर कि अश्रियोंने क्या कहा ? उपकोसलने उपदिष्ट सब विषय कह सुनाया । इसवे बाद आचार्यने कहा— हे सोम्य ! इन अश्रियोंने तुमसे केवल पृथिवी आदि लोक ही कहे हैं, मैं तो उस वस्तु (ब्रह्म) को कहता हूँ, जिसके ज्ञानसे जैसे कमलपत्रमें पानीका स्पर्श नहीं होता, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानीको पापका सबन्ध नहीं होता यह सुनकर उपकोसलने कहा—हे भगवन् ! मुझे उस ब्रह्मविद्याका उपदेश दीजिये । तब 'य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते एष आत्मेति' इत्यादि कहकर आचार्यने उपकोसलको ब्रह्मोपदेश किया ।

भाष्य

स्वविज्ञानस्य ब्रह्मविदो या गतिर्देवयानारूपा प्रसिद्धा श्रुतौ—‘अधोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययाऽऽत्मानमन्विष्याऽऽदित्यममिजयन्त एतद्वै प्राणानामायतनमेतदमृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावर्तन्ते’ (प्र० १।१०) इति । स्मृतावपि—

‘अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः पण्मासा उत्तरायणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥’ (गी० ८।२४) इति ।

भाष्यका अनुवाद

अर्थात् जिसने सगुण ब्रह्मकी उपासनाकी है, उम सगुणब्रह्मज्ञानीकी देवयान नामक गति—‘अधोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण०’ (जरीर दूटनेके बाद तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्यासे आत्माका ध्यान कर उत्तरमार्गसे आदित्यलोकमें होकर हिरण्यगर्भलोकमें जाते हैं, यह ब्रह्म प्राणोंका आश्रय है, अमृत है, अभय है और यह परम गति है, इस लोकमें जाकर पुनः संसारमें नहीं लौटते ।) इस श्रुतिमें और ‘अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः०’ (अग्नि, दिन, शुक्लपक्ष और उत्तरायणके छः मास देवता हैं, मरकर इन देवताओंके मार्गसे जानेवाले ब्रह्मोपासक पुरुष ब्रह्मको पाते हैं ।)

रत्नप्रभा

लिङ्गात् इति सूत्रार्थम् आह—इतश्चेति । यस्याद् दृश्यते तत्—तस्माद् इह इत्यन्वयः । श्रुतिमाह—अथेति । देहपातानन्तरमित्यर्थः । स्वधर्मः—तपः । तपोब्रह्मचर्यश्रद्धा-विद्याभिः आत्मानं ध्यात्वा, तथा ध्यानविद्यया उत्तरं देवयानमार्गं प्राप्य तेन उत्तरेण पथा आदित्यद्वारा सगुणब्रह्मस्थानं गच्छन्ति । एतद्वै ब्रह्म प्राणानां व्यष्टिसमष्टिरूपाणाम् आयतनं लिङ्गात्मकं हिरण्यगर्भरूपं वस्तुतः । एतद् अमृतादिरूपं निर्गुणं सर्व-धिष्ठानम् । अतः कार्यं ब्रह्म प्राप्य, तत्स्वरूपं निर्गुणं जात्वा मुच्यन्ते इत्यर्थः । अभिरेव ज्योतिः—देवता । एवमहराद्या देवता एव स्मृतौ उक्ताः । अस्मिन्

रत्नप्रभाका अनुवाद

इस कारण [अक्षिस्थ पुरुष ब्रह्म है] यह सूत्रार्थ है, ऐसा कहते हैं—“इतश्च” इत्यादिसे । जिस कारण [उर्वा गतिका अभिधान] दीखता है, उस कारणसे यहाँ [अक्षिस्थ पुरुषमें ब्रह्मचका निश्चय होता है] ऐसा अन्वय है । “अथ” इत्यादिसे श्रुति कहते हैं । ‘अथ—देहपातके बाद । तप—अपने धर्मका आचरण । तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्यासे आत्माका ध्यान कर उस ध्यान-संज्ञक विद्यासे उत्तरमार्ग—देवमार्गमें पहुँचकर उस उत्तरमार्गसे आदित्यद्वारा हिरण्यगर्भलोकमें पहुँचते हैं । यह ब्रह्म व्यष्टि और समष्टिरूप प्राणोंका आयतन है—लिङ्गात्मक हिरण्यगर्भरूप है । वस्तुतः तो अमृतादिरूप निर्गुण ब्रह्म सबका अधिष्ठान है, इसलिए कार्यब्रह्मको प्राप्त करके उसके स्वरूपको निर्गुण जानकर मुक्त हो जाते हैं, ऐसा तात्पर्य है । अग्नि ही ज्योति—देवता है । इसी प्रकार स्मृतिमें उक्त ‘अह’ आदि देवता ही हैं । आरन्ध्र कर्मके फलभोगके अनन्तर

भाष्य

सैवेहाऽक्षिपुरुषविदोऽभिधीयमाना दृश्यते । 'अथ यद्दु चैवास्मिञ्छव्यं कुर्वन्ति यदि च नार्चिपमेवाभिसम्भवन्ति' इत्युपक्रम्य 'आदित्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स एनान् ब्रह्म गमयत्यप देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावतं नावर्तन्ते' (छा० ४।१।५।५) इति । तदिह ब्रह्मविद्विषयया प्रसिद्धया गत्याऽक्षिस्थानस्य ब्रह्मत्वं निश्चीयते ॥१६॥

भाष्यका अनुवाद

इस स्मृतिमें भी प्रसिद्ध है । यहां अक्षिपुरुषको जाननेवाले की वही गति कही गई है । 'अथ यद्दुचैवास्मिञ्छव्यं०' (उपासकके देहपातके पश्चात् उसके शवका संस्कार कोई करे या न करे, तो भी वह अर्चिरादि देवताओंको पाता है) इस प्रकार उपक्रम करके 'आदित्याचन्द्रमसं०' (आदित्यसे चन्द्रको और चन्द्रसे विद्युतको [पाते हैं] वहां अमानव पुरुष इनको ब्रह्मके पास पहुँचाता है । यह देवपथ ही ब्रह्मपथ है । इससे जानेवाले जन्म, मरण आदि प्रवाहसे युक्त इस प्रपञ्चमें नहीं लौटते) इसलिए ब्रह्मज्ञानियोंके लिए निर्दिष्ट प्रसिद्ध गमनका यहांपर अक्षिस्थ पुरुषको जाननेवालोंके लिए निर्देश किया गया है, इससे ज्ञात होता है कि अक्षिस्थ पुरुष ब्रह्म है ॥ १६ ॥

रत्नप्रभा

उपासकके मृते सति यदि पुत्रादयः शव्यम् शवसंस्कारादिकं कुर्वन्ति, यदि च न कुर्वन्ति उभयथापि उपास्तिमहिम्ना अर्चिरादिदेवान् क्रमेण गच्छन्ति । अर्चिपम्— अग्निम्, ततोऽहः, अहः शुक्रपक्षम्, तत उत्तरायणम्, तस्मात् संवत्सरम्, ततो देव-लोकम्, ततो वायुम्, वायोरादित्यम्, ततश्चन्द्रम्, चन्द्राद् विद्युतं गत्वा तत्र विद्युल्लोके स्थितानुपासकान् अमानवः पुरुषो ब्रह्मलोकाद् आगत्य कार्यब्रह्मलोकं प्रापयति । एषोऽर्चिरादिभिः देवैः विशिष्टः—देवपथः, गन्तव्येन ब्रह्मणा योगाद् ब्रह्मपथश्च । ते एतत् कार्यं ब्रह्म प्रतिपद्यमाना उपासकाः इमं मानवम् मनोः सर्गम् आवर्तम— जन्ममरणावृत्तियुक्तं नाऽऽवर्तन्ते नाऽऽगच्छन्तीत्यर्थः ॥ १६ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

जब यह उपासक मरता है, उसके पश्चात् उसके पुत्र या बान्धव शवसंस्कार करे या न करे दोनों दशाओंमें वे उपासक उपासनाकी महिमासे अर्चिरादि देवोंको क्रमसे प्राप्त करते हैं । अर्चिः— अग्निको, अग्निसे दिवसको, दिवससे शुक्रपक्षको; शुक्रपक्षसे उत्तरायणको, उत्तरायणसे संवत्सरको उससे देवलोकको, उससे वायुको, वायुसे आदित्यको, आदित्यसे चन्द्रको और चन्द्रसे विद्युतको प्राप्त कर वहां विद्युल्लोकमें विराजमान उन उपासकोंको अमानव पुरुष ब्रह्मलोकसे आकर कार्यब्रह्मलोकमें पहुँचाता है । अर्चिरादि देवोंका परंपरासे युक्त यह मार्ग देवपथ कहलाता है, प्राप्तव्य ब्रह्मसे संबन्ध रखता है, इसलिए ब्रह्मपथ भी कहलाता है । इस कार्यब्रह्मको प्राप्त करनेवाले उपासक इस मनुकी छाष्टिमें, जहाँ जन्म, मरण आदिकी आश्रति है, पुनः लौटकर नहीं आते ॥१६॥

अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः ॥ १७ ॥

पदच्छेद—अनवस्थितेः, असम्भवात्, च, न, इतरः ।

पदार्थोक्ति—अनवस्थितेः—उपासकस्य अक्षिण प्रतिबिम्बसम्पादकविम्बभूत-
पुरुषान्तरस्य सर्वदा अनवस्थानाद्, असम्भवाच्च—अमृतत्वादिगुणानां छायात्मादियु
असम्भवात् अपि, इतरः—ब्रह्मभिन्नः न-न अक्षिस्थाने उपदिश्यते [किन्तु
परमात्मा एव उपदिश्यते] ।

भाषार्थ—उपासकके नेत्रमें छाया करनेवाला—प्रतिबिम्ब डालनेवाला अन्य
पुरुष मद्रा पास नहीं रहता है [जब अन्य पुरुष नहीं रहेगा तब प्रतिबिम्ब भी नहीं
पड़ेगा] और अमृतत्व, अभयत्व आदि गुण छायात्मामें नहीं हो सकते, अतः ब्रह्मभिन्न
छायात्मा आदिका नेत्ररूप स्थानमें उपदेश नहीं है, किन्तु ब्रह्मका ही उपदेश है ।



भाष्य

यत्पुनरुक्तम्—छायात्मा, विज्ञानात्मा, देवतात्मा वा स्यादक्षिस्थान इति ।
अत्रोच्यते—न छायात्मादिरितर इह ग्रहणमर्हति । कस्मात् ? अनवस्थितेः ।
न तावच्छायात्मनश्चक्षुषि नित्यमवस्थानं सम्भवति । यदैव हि कश्चित्
पुरुषश्चक्षुरासीदिति तदा चक्षुषि पुरुषच्छाया दृश्यते, अपगते तस्मिन्
भाष्यका अनुवाद

अक्षिस्थ पुरुष छायात्मा है अथवा विज्ञानात्मा है या देवतात्मा है, ऐसा जो
पीछे कहा गया है । उसपर कहते हैं—ब्रह्मभिन्न छायात्मा आदिका यहा ग्रहण
करना ठीक नहीं है । किस कारण से ? अनवस्थितिसे । छायात्माका आंखमें
नित्य अवस्थान संभव नहीं है । जब कोई पुरुष आंखके पास जाता है, तब
आंखमें पुरुषकी छाया दीखती है, वह पुरुष दूर चला जाय तो नहीं दीखती ।

रत्नप्रभा

चक्षुरासीदतीति । उपगच्छति इत्यर्थः । अनवस्थितस्य उपास्यत्वं सदा न
सिध्यति इति भावः । किञ्च, अन्यवधानात् स्वाक्षिस्थ उपास्य, न च तस्य
रत्नप्रभाका अनुवाद

“चक्षुरासीदति”—नेत्रके पास जाता है । तात्पर्य यह है कि जिसकी सर्वदा स्थिति नहीं
है, उसकी सर्वदा उपासना सिद्ध नहीं होती । और व्यवधान न होनेके कारण स्वनेत्रस्थ पुरुष

भाष्य

दृश्यते । 'य एषोऽक्षिणि पुरुषः' इति च श्रुतिः संनिधानात् स्वचक्षुषि दृश्यमानं पुरुषमुपास्यत्वेनोपदिशति । न चोपासनाकाले छायाकरं कश्चित् पुरुषं चक्षुःसमीपे सन्निधाप्योपास्ते इति युक्तं कल्पयितुम् । 'अस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेप नश्यति' (छा० ८।१।१) इति श्रुतिश्छायात्मनोऽप्यनवस्थितत्वं दर्शयति । असम्भवाच्च तस्मिन्नमृतत्वादीनां गुणानां न छायात्मनि प्रतीतिः । तथा विज्ञानात्मनोऽपि साधारणे कृत्स्नशरीरेन्द्रियसम्बन्धे सति न चक्षुष्येवाऽवस्थितत्वं शक्यं वक्तुम् । ब्रह्मणस्तु व्यापिनोऽपि दृष्टः

भाष्यका अनुवाद

'य एषोऽक्षिणि०' (यह जो आंग्रमे पुरुष है) यह श्रुति सन्निहित होनेके कारण अपने नेत्रमें दिखाई देनेवाले पुरुषका उपास्यरूपसे उपदेश करती है । उपासनाके समय प्रतिबिम्बके कारणीभूत [जिसके सामने रहनेसे प्रतिबिम्ब पड़े] किसी पुरुषको नेत्रके पास बैठाकर उपासना करे, ऐसी कल्पना करना ठीक नहीं है । 'अस्यैव शरीरस्य०' (इसी शरीरके नाशके पश्चात् यह नष्ट हो जाता है) यह श्रुति छायात्माकी अनवस्थिति दिखलाती है । और उस छायात्माके अमृतत्व आदि गुणोंका सम्भव नहीं है, अतः 'य एषोऽक्षिणि०' इस वाक्यमें छायात्माकी प्रतीति नहीं होती है । इसी प्रकार विज्ञानात्माका सारे शरीर और इन्द्रियोंके साथ साधारणतया संबन्ध होनेपर वह नेत्रमें ही रहता है यह

रत्नप्रभा

स्वचक्षुषा दर्शनं सम्भवति इत्याह—य एष इति । अस्तु तर्हि परेण दृश्यमानस्य उपासितः इत्यत आह—न चेति । कल्पनागौरवात् इत्यर्थः । युक्तिसिद्धानवस्थितत्वे श्रुतिमाह—अस्येति । छायाकरस्य बिम्बस्य नाशम्—अदर्शनम् अनुसृत्य एष छायात्मा नश्यति इत्यर्थः । जीवं निरस्यति—तथेति । जात्यन्धस्याऽपि अह-

रत्नप्रभाका अनुवाद

ही उपासनायोग्य है । परन्तु उसका अपने नेत्रसे दर्शन होना सम्भव नहीं है, ऐसा कहते हैं— "य एष" इत्यादिसे । तब अपनी आत्ममें अन्य पुरुषको जो दिखाई देता है, उसकी उपासना कर, इस शब्दका निरसन करते हैं— "न च" इत्यादिसे । ऐसी कल्पना करनेमें गौरव होता है यह दोष है । छायात्माकी अनवस्थिति युक्तिसे दिखलाकर प्रमाणरूपमें श्रुतिको उद्धृत करते हैं— "अस्य" इत्यादिसे । छाया करनेवाले बिम्बका नाश—अदर्शन होनेसे प्रतिबिम्बरूप छायात्माका भी नाश होता है । जीवका निरसन करते हैं— "तथा" इत्यादिसे । जन्मान्ध

भाष्य

उपलब्ध्यर्थो हृदयादिदेशविशेषसम्बन्धः । समानश्च विज्ञानात्मन्यप्य-
मृतत्वादीनां गुणानामसम्भवः । यद्यपि विज्ञानात्मा परमात्मनोऽन्य
एव, तथाप्यविद्याकामकर्मकृतं तस्मिन्मर्त्यत्वमध्यारोपितं भयं चेत्यमृत-
त्वाभयत्वे नोपपद्यते । संयद्दामत्वादयश्चैतस्मिन्ननैश्वर्यादनुपपन्ना एव ।
देवतात्मनस्तु 'रश्मिभिरेपोऽस्मिन्प्रतिष्ठितः' इति श्रुतेर्यद्यपि चक्षुष्यवस्थानं
स्यात् तथाप्यात्मत्वं तावन्न सम्भवति, पराग्रूपत्वात् । अमृतत्वादयोऽपि
न सम्भवन्ति, उत्पत्तिप्रलयश्रवणात् । अमरत्वमपि देवानां चिरकाला-
वस्थानापेक्षम् । ऐश्वर्यमपि परमेश्वरायत्तं न स्वाभाविकम् ,

भाष्यका अनुवाद

नहीं कहा जा सकता । ब्रह्म यद्यपि सर्वव्यापक है, तो भी हृदय आदि स्थानविशेषमें
ध्यानके लिए उसका संबन्ध श्रुतिमें देखा गया है । और छायात्माके समान
विज्ञानात्मामें भी अमृतत्व आदि गुणोंका असंभव है । यद्यपि विज्ञानात्मा पर-
मात्मासे अन्य नहीं है, तो भी अविद्या, काम और कर्मसे उसमें मरण और भय
अध्यारोपित हैं, इसलिए अमृतत्व और अभयत्व उसमें संगत नहीं होते हैं । संय-
द्दामत्व आदि गुण भी ऐश्वर्यके अभावसे उसमें अनुपपन्न ही हैं । देवतात्मा
यद्यपि 'रश्मिभिरेपो' (किरणों द्वारा यह उसमें प्रतिष्ठित है) इस श्रुतिसे नेत्रमें
अवस्थित हो सकता है, तो भी उसमें आत्मत्व नहीं है, क्योंकि वह बाह्य—
अनात्मा है । उसमें अमृतत्व आदिका भी सम्भव नहीं है, क्योंकि उसके उदय
और प्रलय श्रुतिमें कहे गये हैं, देवताओंमें अमरका प्रयोग उनके चिरकाल तक
जीवित रहनेके कारण होता है [वस्तुतः वे अमर नहीं हैं] । उनका ऐश्वर्य भी

रत्नप्रभा

मित्यविशेषेण जीवस्याऽभिव्यक्तेः चक्षुरेव स्थानम् इति अयुक्तमित्यर्थः ।
दृष्ट इति । श्रुताविति शेषः । ननु "चक्षो. सूर्यो अजायत" "सूर्योऽस्तमेति" इति
वाक्यममरा देवा इति प्रसिद्धिबाधितमित्याशङ्क्याऽऽह—अमरत्वमपीति । मीमा

रत्नप्रभाका अनुवाद

पुरुषको भी "मैं" इस तरह साधारणतया जीवकी प्रतीति होती है, इसलिए नेत्र ही जीवका
स्थान है यह कथन युक्त नहीं है । 'दृष्ट' यहाँ पर 'श्रुती' (श्रुतिमें) इतना शेष है । 'चक्षो-
सूर्यो' (चक्षुसं सूर्य उत्पन्न हुआ), 'सूर्यो' (सूर्य अस्त होता है) यह वाक्य देवता
अमर हैं इस प्रसिद्धिमें बाधित है, ऐसी शङ्का करके कहते हैं—"अमरत्वमपि" इत्यादि ।

भाष्य

‘भीपास्माद्वातः पवते भीपोदेति सूर्यः ।

भीपास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥’

(तै० २।८) इति मन्त्रवर्णात् । तस्मात् परमेश्वर एवाऽयमक्षिस्थानः प्रत्येतव्यः । अस्मिश्च पक्षे दृश्यत इति प्रसिद्धवदुपादानं शास्त्राद्यपेक्षं विद्वद्विषयं प्ररोचनार्थमिति व्याख्येयम् ॥१७॥

भाष्यका अनुवाद

परमामाके अधीन है, म्वाभाधिक नहीं है, क्योंकि ‘भीपास्माद्वातः०’ (इस (परमात्मा) के भयसे वायु चलता है, इसके भयसे सूर्य उदित होता है, इसके भयसे अग्नि और इन्द्र अपना कार्य करते हैं, इनकी अपेक्षा पांचवीं मृत्यु गतायु लोगोंके पास दौड़ती है) ऐसा मंत्रमें कहा है । इससे यह समझना चाहिए कि अक्षिस्थ पुरुष परमेश्वर ही है इस पक्षमें ‘दृश्यते’ (दीखता है) इस प्रकार जिसका प्रसिद्धकी तरह ग्रहण किया है, वह शास्त्रकी अपेक्षा रखता है, विद्वद्विषयक है और प्ररोचनार्थक है ऐसी व्याख्या करनी चाहिए ॥ १७ ॥

रत्नप्रभा

भयेन अस्माद् ईश्वराद् वायुश्चलति । अग्निश्चेन्द्रश्च स्वस्वकार्यं कुरुतः । उक्तापेक्षया पञ्चमो मृत्युः समाप्तायुषां निकटे धावति इत्यर्थः । ईश्वरपक्षे दृश्यते इत्युक्तं तत्राह—अस्मिन्निति । दर्शनम्—अनुभवः । तस्य शास्त्रे श्रुतस्य शास्त्रमेव करणं कल्प्यम्, सन्निधानात् । तथा च शास्त्रकरणको विद्वदनुभव उपासनास्तुत्यर्थ उच्यते इत्यर्थः । तस्माद् उपकोसलविद्यावाक्यम् उपास्ये ब्रह्मणि समन्वितमिति सिद्धम् ॥ १७ ॥ (४)

रत्नप्रभाका अनुवाद

ईश्वरके भयसे वायु चलता है, [सूर्य उदित होता है], अग्नि और इन्द्र अपना अपना कार्य करते हैं और इनकी अपेक्षा पाँचवीं मृत्यु, जिनकी आयु समाप्त हो जाती है उनके पास दौड़ती है । परन्तु ईश्वरपक्षमें भी ‘दृश्यते’ (दीखता है) यह कथन असंगत है, [क्योंकि वह अदृश्य है] । इस पर कहते हैं—“अस्मिन्” इत्यादिसे । दर्शन—अनुभव । शास्त्रमें श्रुत अनुभवका साधन शास्त्र ही है, क्योंकि वही उसका निकटवर्ती है । इसलिए शास्त्रकरणक विद्वदनुभव उपासनाकी स्तुतिके लिए कहा गया है : इससे सिद्ध हुआ कि उपकोसलविद्या-वाक्यका उपास्य ब्रह्म ही समन्वय है ॥१७॥

[५ अन्तर्याम्यधिकरण सू० १८-२०]

प्रधानं जीव ईशो वा कोऽन्तर्यामी जगत्प्रति ।

कारणत्वात्प्रधानं स्याज्जीवो वा कर्मणो मुखात् ॥

जीवैकत्वामृतत्वादेरन्तर्यामी परेश्वरः ।

द्रष्टृत्वादेर्न प्रधानं न जीवोऽपि नियम्यतः * ॥

[अधिकरणमार]

सन्देह—‘यः पृथिवीमन्तरो यमयति’ इस धृतिमें पृथिवी आदि जगत्का जो अन्तर्यामी कहा गया है, वह प्रधान है अथवा जीव है या परमेश्वर है ?

पूर्वपक्ष—सकल जगत्का उपादान होनेके कारण प्रधान अन्तर्यामी है । अथवा धर्म और अधर्मरूप कर्मोंके अनुष्ठानद्वारा जगत्का स्रष्टा होनेसे जीव अन्तर्यामी है ।

सिद्धान्त—‘एष त आत्मान्तर्याम्यमृतः’ इस धृतिमें उक्त जीवसे अमेद तथा अमृतत्व धर्म परमेश्वरमें ही उपपन्न होते हैं । अन्तर्यामी द्रष्टा, श्रोता कहा गया है, अतः अचेतन प्रधान अन्तर्यामी नहीं है । नियम्य होनेके कारण जीव भी अन्तर्यामी नहीं है, अतः परमेश्वर ही अन्तर्यामी है ।

* निष्कर्ष यह कि बृहदारण्यकके पाचवें अध्यायमें याज्ञवल्क्यका उद्दालकके प्रति वचन है—‘यः पृथिवीमन्तरो यमयति त आत्मान्तर्याम्यमृतः’ । इसका अर्थ है—अन्दर रहनेवाला जो पुरुष पृथिवीका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा, अन्तर्यामी और अमृत है ।

यहाँ सशय होता है कि पृथिवी आदि जगत्का जो अन्तर्यामी धृति में कहा गया है, वह प्रधान है या जीव है अथवा परमेश्वर है ?

पूर्वपक्षी कहता है कि वह अन्तर्यामी प्रधान है, क्योंकि प्रधान सम्पूर्ण जगत्का उपादान कारण है, अतः अपने कार्यके प्रति नियामक होता है । अथवा जीव अन्तर्यामी हो सकता है, क्योंकि जीव अर्थ एव अधर्मरूप कर्मोंका अनुष्ठान करता है । वह कर्म फलें भोगनेके लिए फलभोगके साधनरूप इस जगत्को उत्पन्न करता है । अतः कर्मके द्वारा जगत्का उत्पादक होनेके कारण जीव अन्तर्यामी है ।


सिद्धान्ती कहते हैं कि ‘एष त आत्मान्तर्याम्यमृतः’ इस धृतिमें जीवके साथ अमेद तथा अमृतत्व कहा गया है । और पृथिवी, आकाश आदि सब पदार्थोंके अन्तर्यामीका उपदेश है, इससे सर्वव्यापकत्व प्रतीत होता है । इन कारणोंसे परमेश्वर ही अन्तर्यामी है । ‘अदृष्टो द्रष्टा अश्रुतः श्रोता’ (वह दृष्ट नहीं है, परन्तु द्रष्टा है, श्रुत नहीं है, किन्तु श्रोता है) इत्यादि धृतियोंमें अन्तर्यामी, द्रष्टा श्रोता आदि कहा गया है । द्रष्टृत्व, श्रोतृत्व आदि धर्म अचेतन प्रधानमें नहीं हैं, अतः प्रधान अन्तर्यामी नहीं है । ‘य आत्मान्तर्याम्यमयति’ इस धृतिसे जीव नियम्य कहा गया है, अतः जीव भी अन्तर्यामी नहीं है । इसमें निश्चय हुआ कि परमेश्वर ही अन्तर्यामी है ।

अन्तर्याम्यधिदैवादिषु तद्धर्मव्यपदेशात् ॥ १८ ॥

पदच्छेद—अन्तर्यामी, अधिदैवादिषु, तद्धर्मव्यपदेशात् ।

पदार्थोक्ति—अधिदैवादिषु—‘यः पृथिव्यां तिष्ठन्’ इत्यादिश्रुतिषु [श्रूय-
माणः], अन्तर्यामी—नियामकः, [परमात्मैव, कुतः श्रुतौ] तद्धर्मव्यपदेशात्—
आत्मत्वामृतत्वादिपरमात्मधर्माणामुपदेशात् ।

भाषार्थ—‘यः पृथिव्यां०’ इत्यादि श्रुतियोंमें प्रतीयमान नियमनकर्ता अन्त-
र्यामी परमात्मा ही है, क्योंकि श्रुतिमें आत्मत्व, अमृतत्व आदि परमात्माके धर्म
कहे गये हैं ।



भाष्य

‘य इमं च लोकं परं च लोकं सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो यमयति’
इत्युपक्रम्य श्रूयते—‘यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न
वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येव त आत्मान्तर्याम्य-
मृतः’ (बृ० ३।७।१, २) इत्यादि । अत्राधिदैवतमधिलोकमधिदेवमधिय-

भाष्यका अनुवाद

‘य इमं च लोकं परं च०’ (जो इस लोकका और परलोकका और सब भूतोंके
भीतर रहकर उनका नियमन्त्रण करता है) ऐसा उपक्रम करके श्रुति प्रतिपादन
करती है—‘यः पृथिव्यां तिष्ठन्०’) (जो पृथिवीमें रहकर पृथिवीके भीतर है,
जिसको पृथिवी नहीं जानती, जिसका शरीर पृथिवी है, जो भीतर रहकर
पृथिवीका नियन्त्रण करता है यह अन्यर्यामी तुम्हारा आत्मा अमृत है) इत्यादि ।

रत्नप्रभा

बृहदारण्यकवाक्यम् उदाहरति—य इति । अन्तर्यामिब्राह्मणे प्रतीयमानार्थः
माह—अत्रेति । “यः पृथिव्याम्” (बृ० ३।७।३) इत्यादिना देवताः पृथिव्याद्या
अधिकृत्य यमयिता श्रूयते । तथा यः सर्वेषु लोकेष्विति—अधिलोकम् । यः सर्वेषु
वेदेषु इति—अधिदेवम् । यः सर्वेषु यज्ञेषु इति—अधियज्ञम् । यः सर्वेषु भूतेषु इति

रत्नप्रभाका अनुवाद

बृहदारण्यकवाक्यका उल्लेख करते हैं—‘यः’ इत्यादिसे । अन्तर्यामिब्राह्मणमें निर्दिष्ट
विषयका प्रतिपादन करते हैं—‘अत्र’ इत्यादिसे । ‘यः पृथिव्याम्’ इत्यादिसे पृथिवी आदि
देवताओंका नियन्त्रणकर्ता प्रतीत होता है । और ‘यः सर्वेषु लोकेषु’ इत्यादिसे लोकोंका

भाष्य

ज्ञमधिभूतमध्यात्मं च कश्चिदन्तरवस्थितो यमयिताऽन्तर्यामीति श्रूयते । स किमधिदैवाद्यभिमानो देवतात्मा कश्चित्किंवा प्राप्ताणिमाद्यैश्वर्यः कश्चिद्योगी किंवा परमात्मा किंवाऽर्थान्तरं किञ्चिदित्यपूर्वसंज्ञादर्शनात् संशयः । किं तावन्नः प्रतिभाति,

संज्ञाया अप्रसिद्धत्वात् संज्ञिनाऽप्यप्रसिद्धेनाऽर्थान्तरेण केनचिद्भू-
वितन्वयमिति । अथवा नानिरूपितरूपमर्थान्तरं शक्यमस्तीति

भाष्यका अनुवाद

देवता, लोक, वेद, यज्ञ, भूत और आत्मामें रहकर उनका नियन्त्रण करनेवाला कोई अन्तर्यामी है, ऐसा उपर्युक्त श्रुतिसे प्रतीत होता है । वह क्या अधिदैव आदिका अभिमानी कोई देवतात्मा है अथवा अणिमा आदि ऐश्वर्यको प्राप्त किया हुआ कोई योगी है अथवा परमात्मा है अथवा कोई दूसरा ही पदार्थ है ? अन्तर्यामीरूप अपूर्व नामके श्रवणसे ऐसा संशय होता है । साधारणतः क्या प्रतीत होता है ?

पूर्वपक्षी—अन्तर्यामीरूप नामके अप्रसिद्ध होनेसे अन्तर्यामी नामक मी कोई एक अप्रसिद्ध अन्य पदार्थ होना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है । अथवा, यह

रत्नप्रभा

अधिभूतम् । “यः प्राणे तिष्ठन्” (वृ० ३।७।१६) इत्यादि “य आत्मनि” इत्यन्तमध्यात्मं चेति विभागः । अशरीरस्य नियन्त्रत्वसम्भवासम्भवाभ्यां संशयः पूर्वत्रेश्वरस्याऽक्षिस्थानत्वसिद्धये पृथिव्यादिस्थाननिर्देशो दृष्टान्त उक्तः । तस्य दृष्टान्तवाक्यस्य ईश्वरपरत्वम् अत्राऽऽक्षिप्य समाधीयते इति आक्षेपसङ्गतिः । अतः

रत्नप्रभाका अनुवाद

‘यः सर्वेषु वेदेषु’ इत्यादिसे वेदोंका, ‘यः सर्वेषु यज्ञेषु’ इत्यादिसे यज्ञोंका, ‘यः सर्वेषु भूतेषु’ इत्यादिसे भूतोंका, ‘यः प्राणेषु तिष्ठन्’ इत्यादिसे लेकर ‘य आत्मनि’ इत्यादि तक आत्मा (शरीर) की भीतरी वस्तुओंका नियन्त्रणकर्ता प्रतीत होता है ऐसा विभाग है । अशरीरमें नियामकत्वका सम्भव और असम्भव होनेसे संशय होता है—पूर्वाधिकरणमें ईश्वरका चक्षुः स्थान है इस बातको सिद्ध करनेके लिए दृष्टान्तरूपसे ईश्वरके पृथिवी आदि स्थान भी निर्दिष्ट किये गये हैं, अब वे दृष्टान्त वाक्य ईश्वरपरक कैसे हैं ऐसा आक्षेप करके समाधान किया जाता है, इसलिए पूर्वाधिकरणसे इस अधिकरणकी आक्षेप सङ्गति है ।

(१) आठ सिद्धियोंमेंसे एक । अणिमा, महिमा, लपिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, शंशित्व और वशित्व ये आठ सिद्धियां हैं । अणिमा—अणु होनेकी शक्ति, महिमा—विभुत्वकी शक्ति, लपिमा—दृक्का होनेकी शक्ति, गरिमा—भारो होनेकी शक्ति, प्राप्ति—चन्द्र आदिका छूना, प्रावाम्य—सावसङ्कल्पना, शंशित्व—सब भूतोंका स्वामी होना, वशित्व—सब भूतोंको वशमें रखना ।

भाष्य

अभ्युपगन्तुम् । अन्तर्यामिशब्दश्चाऽन्तर्यमनयोगेन प्रवृत्तो नाऽत्यन्तम-
प्रसिद्धः । तस्मात् पृथिव्याद्यभिमानी कश्चिद्देवोऽन्तर्यामी स्यात् । तथा च
श्रूयते—‘पृथिव्येव यस्यायतनमग्निर्लोको मनो ज्योतिः’ (वृ० ३।९।१०)
इत्यादि । स च कार्यकरणवत्त्वात् पृथिव्यादीनन्तस्तिष्ठन्मयतीति युक्तं
देवतात्मनो यमयितृत्वम् । योगिनो वा कस्यचित् सिद्धस्य सर्वानु-
प्रवेशेन यमयितृत्वं स्यात्, न तु परमात्मा प्रतीयेत, अकार्यकरणत्वादिति ।

भाष्यका अनुवाद

सम्भवं नहीं है कि जिसके रूपका निरूपण न हुआ हो ऐसे किसी दूसरे पदार्थका
स्वीकार किया जाय । ‘अन्तर्यामी’ शब्द तो भीतर नियन्त्रण रखना, इस व्युत्प-
त्तिसे सिद्ध हुआ है, अतः अत्यन्त अप्रसिद्ध नहीं है । इसलिए पृथिवी आदिका
अभिमानी कोई एक देवता अन्तर्यामी हो सकता है । पृथिव्येव यस्या०’
(पृथिवी ही जिसका शरीर है, अग्नि नेत्र है और ज्योति मन है) इत्यादि श्रुति
भी इस कथनकी पुष्टि करती है । पृथिवी आदिका अभिमानी देवता शरीर और
इन्द्रियोंसे युक्त होनेके कारण पृथिवी आदिके भीतर रहकर उनका नियन्त्रण
करता है, इससे यह उपपन्न होता है कि देवतात्मा नियन्त्रण करनेवाला है
अथवा कोई सिद्ध योगी सब पदार्थोंमें प्रवेश करके उनका नियन्त्रण करता हुआ
अन्तर्यामी हो सकता है । किन्तु परमात्माकी प्रतीति नहीं हो सकती, क्योंकि
उसके न शरीर है और न इन्द्रियां ही हैं ।

रत्नप्रभा

पूर्वफलेनाऽस्य फलवत्त्वम् । अवान्तरफलं तु पूर्वपक्षे अनीश्वरोपास्तिः सिद्धान्ते
प्रत्यग्ब्रह्मज्ञानमिति मन्तव्यम् । स्वयमेव अरुचिं वदन् पक्षान्तरमाह—अथवेति ।
अनिश्चितार्थे फलाभावेन अफलस्य वेदार्थत्वायोगादिति भावः । तथा च श्रूयते वेदे ।
पृथिवी यस्य देवस्य आयतनं शरीरम्, लोकयतेऽनेनेति लोकः चक्षुः, ज्योतिः सर्वार्थ-

रत्नप्रभाका अनुवाद

आशेषसङ्गति होनेके कारण पूर्वाधिकरणका फल ही इस अधिकरणका भी फल है और पूर्वपक्षमें
ईश्वरभिन्न जीव आदिकी उपासना करना अवान्तर फल है और सिद्धान्तमें ब्रह्मका ज्ञान ।
स्वयं ही अरुचि-प्रदर्शन करते हुए पक्षान्तर कहते हैं—“अथवा” इत्यादिसे । अनिश्चित
अर्थमें फलका अभाव है और जो अफल है वह वेदार्थ नहीं हो सकता है । ‘तथा च श्रूयते’
के बाद ‘वेदे’ (वेदमें) इतना शेष है । पृथिवी जिस देवका आयतन-शरीर है, [अग्नि]
लोक—जिससे देवता है, वह अर्थात् नेत्र है । ज्योतिः—सर्वार्थ प्रकाशक मन है । उपपन्न

भाष्य

एवं प्राप्त इदमुच्यते—योऽन्तर्याम्यधिदेवादिषु श्रूयते स परमात्मैव स्यात्, नाऽन्य इति । कुतः? तद्धर्मव्यपदेशात् । तस्य हि परमात्मनो धर्मा इह निर्दिश्यमाना दृश्यन्ते । पृथिव्यादि तावदधिदेवादिभेदभिन्नं समस्तं विकारजातमन्तस्तिष्ठन् यमयतीति परमात्मनो यमयितृत्वं धर्म उपपद्यते, सर्वविकारकारणत्वे सति सर्वशक्त्युपपत्तेः । 'एष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः' इति चाऽऽत्मत्वामृतत्वे मुख्ये परमात्मन उपपद्यते । 'यं पृथिवी न वेद' इति च पृथिवीदेवताया अविज्ञेयमन्तर्यामिणं ब्रुवन् देवतात्मनोऽन्यमन्त-

भाष्यका अनुवाद

सिद्धान्ती—ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं—अधिदैव आदिमें जो अन्तर्यामी-रूपसे सुना जाता है, वह परमात्मा ही है, अन्य नहीं है । क्योंकि उसके ही धर्मोंका कथन है । निश्चय ही यहां उस परमात्माके ही धर्मोंका निर्देश दिखाई देता है । अधिदैव आदि भेदसे भिन्न पृथिवी आदि समस्त विकार समूहके भीतर रहकर उनको नियन्त्रणमें रखना, यह नियन्त्रणकर्तृत्वरूप धर्म परमात्मामें ही संगत है, क्योंकि जो सब विकारोंका कारण है, उसमें सब शक्तियां उपपन्न होती हैं । 'एष त आत्मा' (यह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी और अमृत है) इस श्रुतिमें उक्त आत्मत्व और अमृतत्व ये दोनों धर्म प्रधानतया परमात्मामें संगत होते हैं । 'यं पृथिवी' (जिसको पृथिवी नहीं जानती) यह श्रुति पृथिवीरूप देवतासे अविज्ञेय अन्तर्यामीको कहकर देवतात्मासे अन्य अन्तर्यामीको दिखलाती

रत्नप्रभा

प्रकाशकं मन इत्यर्थः । उपक्रमादिनाऽन्तर्याम्यैक्यनिश्चयादनेकदेवपक्षो न युक्त इत्यरुचेराह—योगिनो वेति । आगन्तुकसिद्धस्य अन्तर्यामित्वे अप्रसिद्धसाधन-कल्पनागौरवात् नित्यसिद्ध एव अन्तर्यामी इति सिद्धान्तयति—एवं प्राप्त इति । देवतानिरासे हेत्वन्तरमाह—यं पृथिवीति । ईश्वरो न नियन्ताऽशरीरत्वात्

रत्नप्रभाका अनुवाद

और उपसंहारमें अन्तर्यामी एक है, ऐसा सिद्ध होनेपर पृथिवी आदि अनेकदेवपक्ष युक्त नहीं है, इस अरुचिसे कहते हैं—“योगिनो वा” इत्यादि । योगी स्वतः सिद्ध नहीं है, उसे साधनोंसे सिद्धिकी प्राप्ति होती है, यदि उसे अन्तर्यामी मानें, तो अप्रसिद्ध साधनोंकी कल्पना करनेमें गौरव होगा, इस कारण निगमिद्ध परमेश्वर ही अन्तर्यामी है, ऐसा सिद्धान्त करते हैं—“एवं प्राप्ते” इत्यादिसे । देवतापक्षके निराकरणमें दूसरा हेतु कहते हैं—“यं पृथिवी” इत्यादिसे । घटके समान अशरीरी होनेके कारण ईश्वर नियन्ता नहीं है—ऐसा जो कहा गया

भाष्य

र्यामिणं दर्शयति । पृथिवी देवता ब्रह्मस्मि पृथिवीत्यात्मानं विजानीयात् । तथा 'अदृष्टोऽश्रुतः' इत्यादिव्यपदेशो रूपादिविहीनत्वात् परमात्मन उपपद्यत इति । यत्तु अकार्यकरणस्य परमात्मनो यमयितृत्वं नोपपद्यत इति । नैप दोषः, यान्नियच्छति तत्कार्यकरणैरेव तस्य-कार्यकरणवच्चो-

भाष्यका अनुवाद

है । यदि पृथिवीकी अधिष्ठात्री देवी ही 'अन्तर्यामी' होती, तो 'मैं पृथिवी हूँ' इस प्रकार अपनेको जानती । उसी प्रकार 'अदृष्टो' (वह अदृष्ट है और अश्रुत है) इत्यादि व्यपदेश रूपादिविहीन परमात्मामें ही घटता है । शरीर और इन्द्रियरहित परमात्मामें नियामकत्व युक्त नहीं है, ऐसा जो दोष कहा गया है, वह युक्त नहीं है, क्योंकि जिनका वह नियन्त्रण करता है उनके

रत्नप्रभा

घटवत् इत्युक्तं निरस्यति—नैप दोष इति । नियम्यातिरिक्तशरीरशून्यत्वं वा हेतुः, शरीरासम्बन्धित्वं वा । आद्ये स्वदेहनियन्तरि जीवे व्यभिचारः, द्वितीयस्तु असिद्धः, ईश्वरस्य स्वाविद्योपार्जितसर्वसम्बन्धित्वादित्याह—यान्नियच्छतीति । सशरीरो नियन्ता इति लोकदृष्टिम् अनुसृत्यैतदुक्तम् । वस्तुतस्तु

रत्नप्रभाका अनुवाद

है, उसका निराकरण करते हैं—'नैप दोषः' इत्यादिसे । अशरीरत्व जो हेतु कहा है उसका क्या अर्थ है ? नियम्यसे भिन्न शरीरसे रहित होना है अथवा शरीरसम्बन्धी न होना है ? प्रथम पक्षमें स्वदेह नियन्ता जीवमें व्यभिचार होता है । दूसरा पक्ष तो असिद्ध है, क्योंकि अपनी अविद्यासे उपार्जित देहादिके साथ ईश्वरका सम्बन्ध है ऐसा कहते हैं—'यान्नियच्छति' इत्यादिसे । नियन्ता सशरीर होना चाहिए, यह लोकदृष्टिके अनुसार कहा है । वस्तुतः

(१) साध्याभावके अधिकरणमें हेतुका रहना व्यभिचार कहलाता है । प्रकृतमें 'ईश्वरो न नियन्ता, अशरीरत्वात्, घटवत्, इम अनुमानमें नियन्तृत्वाभाव साध्य है, अशरीरत्व हेतु है, अशरीरत्वका अर्थ यदि नियम्यातिरिक्तशरीरशून्यत्व (नियम्यसे अतिरिक्त शरीररहित होना) है तो वह साध्याभावाधिकरणवृत्ति होता है । नियन्तृत्वाभाव साध्य है, साध्याभाव—नियन्तृत्वाभावाका अभाव अर्थात् नियन्तृत्व है, उसका अधिकरण जीव है इम अधिकरणमें नियम्यातिरिक्त शरीरशून्यत्वरूप हेतु है, क्योंकि जीव केवल स्वदेहात् नियमन करता है, अन्य देहका नहीं, अतः नियम्य स्वदेहसे अतिरिक्त शरीररहित है, इस प्रकार हेतुमें व्यभिचार दोष है, ऐसे दोषसे युक्त हेतु व्यभिचरित कहलाता है ।

माप्य

पपत्तेः । तस्याऽप्यन्यो नियन्तेत्यनवस्थादोषश्च न संभवति, भेदाभावात् ।
भेदे हि सत्यनवस्थादोषोपपत्तिः । तस्मात्परमात्मैवाऽन्तर्यामी ॥ १८ ॥

माप्यका अनुवाद

शरीर और इन्द्रियों द्वारा ही वह शरीर और इन्द्रियोंवाला होता है । उसका भी
अन्य नियन्ता हो इस प्रकार अनवस्था दोष सम्भव नहीं है, क्योंकि वस्तुतः
ईश्वरसे भिन्न कोई नियन्ता नहीं है । यदि वास्तविक भेद हो तो अनवस्था दोष
हो सकता है । इसलिए परमात्मा ही अन्तर्यामी है ॥ १८ ॥

रत्नप्रभा

चेतनसाभिध्याज्जडस्य व्यापारो नियमनम्, तच्छक्तिमत्त्वं नियन्तृत्वम् । तच्चाऽ-
चिन्त्यमायाशक्तेश्चिदात्मनः शरीरं विनैवोपपन्नम् । ननु देहनियन्तुर्जीवस्याऽन्यो
नियन्ता चेत् तस्याऽप्यन्यः, इत्यनवस्था इत्यत आह—तस्याऽपीति ।
निरङ्कुशं सर्वनियन्तृत्वमीश्वरस्य श्रुतम् । तस्य नियन्त्रन्तरानुमाने श्रुतिबाध
इति नाऽनवस्थेत्यर्थः । यद्वा, ईश्वराद् भेदकल्पनया जीवस्य नियन्तृत्वोक्तेः
सत्यभेदाभावात् नाऽनवस्थेत्यर्थः ॥ १८ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

तो चेतनकी सक्ति होनेसे जो जड़का व्यापार वही जड़का नियमन है, नियमन शक्तिवाला
होना नियन्तृत्व है । यह नियन्तृत्व अचिन्त्य मायाशक्तिमाले चिदात्मामें शरीरके बिना ही
उपपन्न है । यदि देहनियन्ता जीवका अन्य नियन्ता हो, तो उसका भी नियन्ता अन्य हो
इस प्रकार अनवस्था हो जायगी इसपर कहते हैं—“तस्याऽपि” इत्यादिसे । ईश्वरका
सर्वनियन्तृत्व निरङ्कुश है, ऐसा श्रुतिमें प्रतिपादित है । इसके अन्य नियन्ताका अनुमान
करनेमें श्रुतिका बाध होता है, इसलिए अनवस्थादोष नहीं है, यह तात्पर्य है । अथवा
जीव जो लोकप्रसिद्ध नियन्ता है, वह परमात्मा ही है । उपाध्यवच्छेदसे भेद है । ईश्वरसे
भेद मानकर जीवको नियन्तृत्व कहा है, सत्य भेद नहीं है, इसलिए अनवस्था नहीं है, यह
अर्थ है ॥१८॥



(१) कुछ पुस्तकोंमें इसके बाद ‘कार्यकरणसङ्घातात्मको देहो भाषाः, तेन लिङ्गदेहस्य न्यायुक्तिः’
इतना अधिक पाठ है । उसका भाष्य यह मालूम होता है कि ‘सशरीरो नियन्ता’ इत्यादिमें
शरीरपरसे शूलशरीरका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जीव लिङ्गशरीरस्वरूप है, वह स्वयं
अपना नियमन नहीं करता है, किन्तु शूल शरीरका नियमन करता है, अतः लिङ्ग शरीर
नियन्तव्य न होनेके कारण उसकी न्यायुक्ति करना आवश्यक है, क्योंकि वह भी शरीर है ।

न च स्मार्तमतद्धर्माभिलापात् ॥ १९ ॥

पदच्छेद—न, च, स्मार्तम्, अतद्धर्माभिलापात् ।

पदार्थोक्ति—स्मार्तं च—साङ्ख्यस्मृतिकल्पितं प्रधानं तु, न—नाऽन्तर्यामि
[कुतः] अतद्धर्माभिलापात्—प्रधानभिनवृत्तिधर्माणां द्रष्टृत्वश्रोतृत्वादीनामिहाऽ-
भिधानात् ।

भाषार्थ—सांख्यशास्त्रमें कल्पित प्रधान तो अन्तर्यामी नहीं हो सकता,
क्योंकि श्रुतिमें प्रधानसे भिन्न चेतनमें रहनेवाले द्रष्टृत्व, श्रोतृत्व आदि धर्म कूहे
गये हैं ।

—१९—

भाष्य

स्यादेतत् । अदृष्टत्वादयो धर्माः सांख्यस्मृतिकल्पितस्य प्रधानस्याऽ-
प्युपपद्यन्ते, रूपादिहीनतया तस्य तैरभ्युपगमात् । 'अप्रतर्क्यमविज्ञेयं
प्रसुप्तमिव सर्वतः' (मनु० १।५) इति हि स्मरन्ति । तस्याऽपि नियन्तृत्वं
सर्वविकारकारणत्वादुपपद्यते । तस्मात् प्रधानमन्तर्यामिशब्दं स्यात् । 'ईक्ष-

भाष्यका अनुवाद

पूर्वपक्षी—अदृष्टत्व आदि धर्म सांख्यशास्त्रोक्त प्रधानमें भी संगत हो सकते
हैं, क्योंकि वे (सांख्यसिद्धान्ती) उसको (प्रधानको) रूपादिसे हीन मानते
हैं । 'अप्रतर्क्यमविज्ञेयं' (जो तर्कका विषय नहीं है, जिसका इन्द्रियोंसे ज्ञान
नहीं होता है और जो चारों दिशाओंमें जड़तासे व्याप्त है) ऐसा स्मृतिकार भी
कहते हैं । सब विकारोंका कारण होने से उसमें भी नियन्तृत्वधर्म युक्त होता
है । इसलिए 'अन्तर्यामी' शब्दसे प्रधानका कथन है ।

रत्नप्रभा

प्रधानं महदादिक्रमेण कथं प्रवर्तते इति तर्कस्याऽविषय इत्याह—अप्रतर्क्य-
मिति । रूपादिहीनत्वाद् अविज्ञेयं सर्वतो दिक्षु प्रसुप्तमिव तिष्ठति, जडत्वा-

रत्नप्रभाका अनुवाद

प्रधान इस प्रकार महदादिरूपसे ही क्यों परिणत होता है, अर्थात् प्रधानसे महत् और
महत्तमे अहङ्कार इसी प्रकार सृष्टि क्यों होती है, दूसरी रीतिसे क्यों नहीं होती ? उक्त सृष्टिमें
इस प्रकारके तर्क नहीं किये जा सकते ऐसा कहते हैं—“अप्रतर्क्यम्” इत्यादिसे । प्रधान
रूपादिरहित होनेसे अविज्ञेय है अर्थात् चक्षुरादिसे पाया नहीं है, जड़ होनेके कारण सब

भाष्य

तेर्नाशब्दम्' (ब्र० १।१।५) इत्यत्र निराकृतमपि सत् प्रधानमिहाऽदृष्टत्वा-
दिव्यपदेशसंभवेन पुनराशङ्क्यते ।

अत उत्तरमुच्यते—न च स्मार्तं प्रधानमन्तर्यामिशब्दं भवितुमर्हति ।
कस्मात् ? अतद्धर्माभिलाषात् । यद्यप्यदृष्टत्वादिव्यपदेशः प्रधानस्य
संभवति तथापि न द्रष्टृत्वादिव्यपदेशः संभवति, प्रधानस्याऽचेतनत्वेन
तैरभ्युपगमात् । 'अदृष्टो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोताऽमतो मन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता'
(वृ० ३।७।२३) इति हि वाक्यशेष इह भवति । आत्मत्वमपि न
प्रधानस्योपपद्यते ॥ १९ ॥

भाष्यका अनुवाद

'ईक्षतेर्ना०' इस सूत्रसे यद्यपि प्रधानका निराकरण हो चुका है, तो भी यहाँ
अदृष्टत्व आदि व्यपदेशके सम्भवसे फिर शङ्का होती है ।

सिद्धान्ती—इस शङ्काका उत्तर कहते हैं—स्मृत्युक्त प्रधान 'अन्तर्यामी'
शब्दका वाच्य नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें न रहनेवाले धर्मोंका व्यपदेश
है । यद्यपि अदृष्टत्व आदि धर्म प्रधानमें भी हैं, तो भी द्रष्टृत्व आदि धर्म प्रधानमें
नहीं हैं, क्योंकि वे (सांख्यसिद्धान्ती) प्रधान को अचेतन मानते हैं । यहाँ
'अदृष्टो द्रष्टाऽश्रुतः०' (वह अदृष्ट है, परन्तु द्रष्टा है, अश्रुत है, परन्तु श्रोता है,
अमत है, परन्तु मन्ता है, अविज्ञात है, परन्तु विज्ञाता है) ऐसा वाक्य शेष है ।
आत्मत्व धर्म भी प्रधानमें नहीं है ॥१९॥

रत्नप्रभा

दित्यर्थः । अतद् अप्रधानं चेतनं तस्य धर्माणाम् अभिधानादिति हेत्वर्थः ॥१९॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

दिशाओंमें सोता हुआ-सा रहता है । अतद्धर्माभिलाषात् तद्—प्रधान, अतद्—अप्रधान
चेतन उसके धर्मोंका अभिधान होनेसे [प्रधान अन्तर्यामी नहीं है] ॥१९॥

(१) यद्यपि जैसे राजाके सब कार्य करनेवाले मद्रसेनमें 'ममात्मा मद्रसेन' (मद्रसेन मेरी
आत्मा है) इस प्रकार आत्मशब्दका प्रयोग होता है, वैसे प्रधानमें भी आत्मशब्दका प्रयोग हो
सकता है, तो भी वह गौण होनेसे आदरणीय नहीं है । किंच, 'यस्य पृथिवी शरीरम्' इत्यादि
निर्देश भी प्रधानमें सगत नहीं हो सकता है, क्योंकि भोक्तृभोग्यभावरूप सबन्धकी विवक्षामें ही
यैसे प्रयोग हो सकते हैं । प्रधान तो भोक्ता नहीं है जिससे भोग्य पृथिवी उसका शरीर हो सके ।
परमात्मामें तो आत्मशब्दका प्रयोग मुख्य ही है, और वह (परमात्मा) जीवरूपसे भोक्ता है, अतः
उसमें 'यस्य पृथिवी शरीरम्' इत्यादि निर्देश भी हो सकते हैं ।

भाष्य

यदि प्रधानमात्मत्वद्रूपत्वाद्यसंभवान्त्रान्तर्याम्यभ्युपगम्यते, शारीरस्त-
 लन्तर्यामी भवतु । शारीरो हि चेतनत्वाद् द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता च
 भवति, आत्मा च प्रत्यक्त्वात् । अमृतश्च, धर्माधर्मफलोपभोगोपपत्तेः ।
 अदृष्टत्वादयश्च धर्माः शारीरे सुप्रसिद्धाः, दर्शनादिक्रियायाः कर्तारि प्रवृत्ति-
 विरोधात् । 'न दृष्टेर्द्रष्टारं पश्येः' (वृ० ३।४।२) इत्यादिश्रुतिभ्यश्च । तस्य
 च कार्यकरणसंघातमन्तर्यामयितुं शीलम्, भोक्तृत्वात् । तस्माच्छारीरोऽन्त-
 र्यामीति । अत उत्तरं पठति—

भाष्यका अनुवाद

यदि आत्मत्व, द्रष्टृत्व आदि धर्मोंके अभावसे प्रधान अन्तर्यामी नहीं माना
 जाता है, तो शारीर—जीव अन्तर्यामी हो । क्योंकि जीव चेतन होनेसे द्रष्टा,
 श्रोता, मन्ता, विज्ञाता है, प्रत्यक्—आभ्यन्तर होनेसे आत्मा भी है और धर्म
 तथा अधर्मके फलका उपभोग करनेसे अमृत भी है । अदृष्टत्व आदि धर्म भी
 जीवमें प्रसिद्ध हैं, क्योंकि दर्शन आदि क्रियाकी प्रवृत्तिका कर्तामें विरोध है
 अर्थात् दर्शनकर्ता दर्शनक्रियाका विषय नहीं हो सकता । और 'न दृष्टे०'
 (दृष्टिके द्रष्टाको तुम देख नहीं सकोगे) इत्यादि श्रुतियां हैं । तथा शरीर और
 इन्द्रियसमूहमें भीतर रहकर उनका नियंत्रण करना उसका स्वभाव है, क्योंकि
 वह भोक्ता है । इसलिए जीव अन्तर्यामी है । इसके उत्तरमें कहते हैं—

रत्नप्रभा

उत्तरसूत्रनिरस्यां शङ्कामाह—यदि प्रधानंमित्यादिना । अमृतश्चेति ।
 विनाशिनो देहान्तरभोगानुपपत्तेरित्यर्थः । यथा—देवदत्तकर्तृकगमनक्रियाया
 ग्रामः कर्म न देवदत्तः, तथाऽऽत्मकर्तृकदर्शनादिक्रियाया अनात्मा विषयः, न
 त्वात्मा, क्रियायाः कर्तृविषयत्वायोगादित्याह—कर्तरीति । क्रियायां गुणः
 कर्ता, प्रधानं कर्म, तत्र एकस्यां क्रियायामेकस्य गुणत्वप्रधानत्वयोः विरोधान्न कर्तुः
 कर्गत्वमित्यर्थः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

उत्तर सूत्रमें जिस शङ्काका निराकरण करना है, उसे कहते हैं—“यदि प्रधानम्” इत्यादि-
 से । “अमृतश्च” । विनाशी जीवमें देहान्तरद्वारा उपभोग सम्भव नहीं है, इसलिए वह
 अमृत है । गमनक्रियाका कर्म प्राग् है, न कि देवदत्त । उसी प्रकार आत्माकी दर्शन
 आदि क्रियाका विषय अनात्मा है, न कि आत्मा, क्योंकि कर्ता क्रियाका विषय नहीं हो सकता ।
 एक क्रियाका कर्ता उसी क्रियाका कर्म नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं—“कर्तारि” इत्यादिसे ।
 क्रियामें कर्ता गौण है और कर्म प्रधान है, एक ही क्रियामें एक ही का गौण और प्रधान होना
 विरुद्ध है, इसलिए कर्ता कर्म नहीं है ।

शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते ॥ २० ॥

पदच्छेद—शारीरः, च, उभये, अपि, हि, भेदेन, एनम्, अधीयते ।

पदार्थोक्ति—शारीरश्च—जीवोऽपि [नाऽन्तर्यामी], हि—यतः, उभयेऽपि—
काण्वाः माध्यन्दिनाश्च, एनम्—शारीरम्, भेदेन—अन्तर्यामिणो भेदेन [अन्तर्यामि-
नियम्यत्वेन] अधीयते—पठन्ति [अतः अधिदेवादिश्रुतिषु प्रतीयमानः
परमात्मैव] ।

भाषार्थ—जीव भी अन्तर्यामी नहीं है, क्योंकि काण्व और माध्यन्दिन
शाखावाले अन्तर्यामीसे नियम्य होनेके कारण जीवको अन्तर्यामीसे भिन्न कहते हैं ।
इससे सिद्ध हुआ कि अधिदेवादि श्रुतियोंमें प्रतीयमान अन्तर्यामी परमात्मा ही है ।

-०००-०००-

भाष्य

नेति पूर्वसूत्रादनुवर्तते । शारीरश्च नाऽन्तर्यामीप्यते । कस्मात् ? यद्यपि
द्रष्टृत्वादयो धर्मास्तस्य सम्भवन्ति तथापि घटाकाशवदुपाधिपरिच्छिन्न-
त्वान्न कात्स्न्येन पृथिव्यादिष्वन्तरवस्थातुं नियन्तुं च शक्नोति । अपि
चोभयेऽपि हि शास्त्रिनः काण्वा माध्यन्दिनाश्चाऽन्तर्यामिणो भेदेनैनं
शारीरं पृथिव्यादिवद्वाधिष्ठानत्वेन नियम्यत्वेन चाऽधीयते—‘यो विज्ञाने

भाष्यका अनुवाद

‘न’ की पूर्वसूत्रसे अनुवृत्ति होती है । शारीरका अन्तर्यामी होना इष्ट नहीं
है, क्योंकि यद्यपि द्रष्टृत्व आदि धर्म उसमें हैं, तो भी घटाकाशके समान उपाधिसे
परिच्छिन्न होनेके कारण सर्घतोभावेन पृथिवी आदिके भीतर रहनेकी अथवा
उनको नियंत्रणमें रखनेकी सामर्थ्य उसमें नहीं है । दूसरी बात यह भी है कि
काण्व और माध्यन्दिन दोनों शाखावाले अन्तर्यामीके भेदसे जीवका पृथिवी
आदिके समान अधिष्ठानरूपसे एवं नियम्यरूपसे अध्ययन करते हैं’ । काण्व ‘यो

रत्नप्रभा

दृष्टेर्द्रष्टारम् आत्मानं तथा दृश्यया दृष्ट्या न विषयीकुर्या इत्यादिश्रुतेश्चा-
दृष्टत्वादिधर्माः शारीरस्य इत्याह—नेति । अपिशब्दसूचितं हेतुमुक्त्वा कण्ठोक्तं

रत्नप्रभाका अनुवाद

‘दृष्टे.’ (लौकिकदृष्टि—युद्धिपरिणामके दृष्टा आत्माको तुम उसी दृष्टिसे नहीं देख
सकोगे) इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार अदृष्टत्व आदि धर्म जीवके ही हैं ऐसा कहते हैं—‘न’

१—यह प्रतीक ४७८ पृष्ठकी छठी पंक्ति के ‘न दृष्टेर्द्रष्टारम्’ का है ।

माध्य

तिष्ठन्' (बृ० ३।७।२२) इति काण्वाः । 'य आत्मनि तिष्ठन्' इति माध्यन्दिनाः । 'य आत्मनि तिष्ठन्' इत्यस्मिन्स्तावत् पाठे भवत्यात्मशब्दः शारीरस्य वाचकः । 'यो विज्ञाने तिष्ठन्' इत्यस्मिन्नापि पाठे विज्ञानशब्देन शारीर उच्यते । विज्ञानमयो हि शारीरः । तस्माच्छारीरादन्य ईश्वरोऽन्तर्यामीति सिद्धम् । कथं पुनरेकस्मिन् देहे द्वौ द्रष्टारानुपपद्येते, यथाऽयमीश्वरोऽन्तर्यामी यथाऽयमितरः शारीरः । का पुनरिहाऽनुपपत्तिः ? 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा' इत्यादि श्रुतिवचनं विरुध्येत । अत्र हि प्रकृतादन्तर्यामिणोऽन्यं द्रष्टारं, श्रोतारं, मन्तारं, विज्ञातारं चाऽऽत्मानं प्रतिपेधति । नियन्त्र-

भाष्यका अनुवाद

विज्ञाने०' (जो विज्ञानमें रहकर) और माध्यन्दिन 'य आत्मनि०' (जो आत्मामें रहकर) इस प्रकार अध्ययन करते हैं । 'य आत्मनि०' इस पाठमें आत्मशब्द शारीरवाचक है । 'यो विज्ञाने०' इस पाठमें भी विज्ञानशब्दसे शारीरका कथन होता है, क्योंकि शारीर विज्ञानमय है । इससे सिद्ध हुआ कि शारीरसे अन्य ईश्वर अन्तर्यामी है । परन्तु अन्तर्यामी ईश्वर और दूसरा शारीर दोनो द्रष्टा एक देहमें किस प्रकार रह सकते हैं ? दोनोंके रहनेमें अनुपपत्ति ही क्या है ? अनुपपत्ति यह है कि 'नान्योऽतो०' (इससे भिन्न द्रष्टा नहीं है) इत्यादि श्रुतिवचनोंसे विरोध होगा । क्योंकि यहां [श्रुति] प्रकृत अन्तर्यामीसे अन्य द्रष्टा, श्रोता, मन्ता और विज्ञाता आत्माका

रत्नप्रभा

हेतुमाह—अपि चोभयेऽपीति । भेदेनेति सूत्रात् तात्त्विकभेदभ्रान्तिं निरसितुं शक्यते—कथमिति । नन्वत्रैको भोक्ता जीवः, ईश्वरस्त्वभोक्ता इति, नं विरोध इति शक्यते—का पुनरिति । तयोर्भेदः श्रुतिविरुद्ध इति पूर्ववादी आह—नान्य इति । स एव श्रुत्यर्थमाह—अत्रेति । श्रुतेरर्थान्तरम् आशङ्क्य

रत्नप्रभाका अनुवाद

इत्यादिसे । 'अपि' शब्दसे सूचित हेतु कह कर शब्दतः उक्त हेतु कहते हैं—“अपि चोभयेऽपि” इत्यादिसे । 'भेदेन' इस सूत्रभागसे तात्त्विक भेदकी भ्रान्ति न हो जाय, इसलिए इसका निराकरण करनेके लिए शङ्का करते हैं—“कथम्” इत्यादिसे । यहां केवल जीव भोक्ता है, ईश्वर भोक्ता नहीं है, अतः कोई विरोध नहीं है ऐसी शङ्कामें शङ्का करते हैं—“का पुनः” इत्यादिसे । पूर्ववादी “नान्यः” इत्यादिसे कहता है कि इन दोनोंका भेद श्रुतिविरुद्ध है । स्वयं वही श्रुतिका अर्थ कहता है—“अत्र” इत्यादिसे । श्रुतिके दूसरे अर्थकी आशङ्का

भाष्य

न्तरप्रतिषेधार्थमेतद्वचनमिति चेत्, न; नियन्त्रन्तराप्रसङ्गादविशेषश्रवणाच्च । अत्रोच्यते—अविद्याप्रत्युपस्थापितकार्यकरणोपाधिनिमित्तोऽयं शरीरान्तर्यामिणोर्भेदव्यपदेशो न पारमार्थिकः । एको हि प्रत्यगात्मा भवति, न द्वौ प्रत्यगात्मानौ सम्भवतः । एकस्यैव तु भेदव्यवहार उपाधिकृतः, यथा घटाकाशो महाकाश इति । ततश्च ज्ञातृज्ञेयादिभेदश्रुतयः प्रत्यक्षादीनि च प्रमाणानि संसारानुभवो विधिप्रतिषेधशास्त्रं चेति सर्वमेतदुप-

भाष्यका अनुवाद

प्रतिषेध करती है । दूसरे नियन्ताके प्रतिषेधके लिए यह वचन है ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यहां दूसरे नियन्ताका प्रसङ्ग ही नहीं है और विशेषका श्रवण भी नहीं है । अर्थात् 'नान्योऽतो०' इस श्रुतिमें साधारणतः अन्य द्रष्टाका निषेध किया है, नियन्ताका निषेध नहीं किया है । इसपर कहते हैं—शरीर और अन्तर्यामीकी यह भेदोक्ति अविद्याजनित शरीर और इन्द्रियरूप उपाधिकी अपेक्षासे है, वास्तविक नहीं है । वस्तुतः प्रत्यगात्मा एक ही है, दो प्रत्यगात्माओंका सम्भव नहीं है । एकका ही भेदव्यवहार उपाधिसे होता है, जैसे कि घटाकाश और महाकाशमें भेदव्यवहार होता है । इससे ज्ञातृ, ज्ञेय आदिका भेद

रत्नप्रभा

निषेधति—नियन्त्रन्तरेत्यादिना । न केवलम् अप्रसक्तप्रतिषेधः, किन्तु अविशेषेण द्रष्टृन्तरनिषेधश्रुतेः अन्तर्याम्यन्तरनिषेधार्थत्वे बाधश्च इत्याह—अविशेषेति । तस्मात् सूत्रे "य आत्मनि तिष्ठन्" इति श्रुतौ च द्रष्टृभेदोक्तिः अयुक्ता, "नान्यः" इति वाक्यशेषे भेदनिरासादिति प्राप्ते, भेद उपाधिकल्पितः श्रुतिसूत्राभ्यामनुस्यूते इति समाधत्ते—अत्रोच्यते इति । भेदः सत्यः किं न म्यादत् आह—एको हीति । गौरवेण द्वयोरहृषीगोचरत्वासम्भवात् एक एव तद्गोचरः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

करके निषेध करते हैं—"नियन्त्रन्तर" इत्यादिसे । केवल अप्रसक्तप्रतिषेध ही नहीं है, किन्तु साधारणतया अन्य द्रष्टाका निषेध करनेवाली श्रुतिका 'अन्य अन्तर्यामी नहा ई' इस प्रकार अर्थ माननेमें बाध भी है ऐसा कहते हैं—"अविशेष" इत्यादिसे । इसलिए सूत्रमें और 'य आत्मनि तिष्ठन्' इस श्रुतिमें भी भिन्न द्रष्टा है, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा' इस वाक्यशेषमें भेदका निरास किया है, ऐसा प्राप्त होनेपर "अत्रोच्यते" इत्यादिसे समाधान करते हैं कि भेद उपाधि कल्पित है और उसका श्रुति और सूत्र अनुवाद करते हैं । भेद सत्य क्यों नहीं है ? इसपर कहते हैं—"एको हि" इत्यादिसे ।

भाष्य

पद्यते । तथा च श्रुतिः—‘यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति’ इत्यविद्याविषये सर्वं व्यवहारं दर्शयति । ‘यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्’ इति विद्याविषये सर्वं व्यवहारं वारयति ॥ २० ॥

भाष्यका अनुवाद

प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियाँ, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, संसारानुभव और विधिप्रति-
पेधशास्त्र ये सब उपपन्न होते हैं । उसी प्रकार ‘यत्र हि द्वैतमिव०’ (जहां
द्वैत-सा होता है, वहां स्वयं अन्य होकर अन्यको देखता है) यह श्रुति अविद्या
कालमें सब व्यवहारोंको दिखलाती है । ‘यत्र त्वस्य सर्व०’ (परन्तु जिस ज्ञान-
कालमें सब आत्मज्ञानीकी आत्मा ही हो गया, वहां कौन किसको किससे
देखे) यह श्रुति विद्याकालमें सब व्यवहारोंका निषेध करती है ॥ २० ॥

रत्नप्रभा

तद्गोचरस्य घटवदनात्मत्वाद् न आत्मभेदः सत्य इत्यर्थः । ततश्चेति । कल्पित-
भेदाङ्गीकाराद् भेदापेक्षं सर्वं युज्यते इत्यर्थः । तस्माद् अन्तर्यामिब्राह्मणं ज्ञेये
ब्रह्मणि समन्वितमिति सिद्धम् ॥ २० ॥ (५) ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

“में” ऐसी बुद्धिके दो विषय नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा माननेमें गौरव है । इससे एक ही इस
बुद्धिका गोचर—विषय है । इस बुद्धिका जो विषय नहीं है, वह घटके समान अनात्मक है, इसलिए
आत्मका भेद सत्य नहीं है, ऐसा अर्थ है । “ततश्च” इत्यादि । कल्पित भेदका अङ्गीकार
करनेसे तो भेदकी अपेक्षा रखनेवाले सभी व्यवहार सङ्गत होते हैं । इससे सिद्ध हुआ कि
अन्तर्यामी ब्राह्मणका शेष ब्रह्ममें समन्वय है ॥२०॥



[६ अदृश्यत्वाधिकरण सू० २१—२३]

भूतयोनिः प्रधानं वा जीवो वा यदि वेद्वरः ।

आद्यो पक्षावुपादाननिमित्तत्वाभिधानतः ॥१॥

इद्वरः भूतयोनिः स्यात्सर्वज्ञत्वादिकीर्तनात् ।

दिव्याद्युक्तेर्न जीवः स्यान्न प्रधानं भिदोक्तिः ॥२॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—‘तद्वच्यं यद् भूतयोनिं परिदयन्ति धीराः’ इयं धृतिर्मे उक्तं भूतयोनिं प्रधानं है या जीव है अथवा परमेस्वर ?

पूर्वपक्ष—योनिशब्दके अर्थ हैं—उपादानकारण और निमित्तकारण । अतः जगत् रूपसे परिणत होनेवाला प्रधान, जगत्का उपादानकारण होनेसे, भूतयोनि है । अथवा धर्म एव अधर्म द्वारा जगत्का उत्पादक जीव भूतयोनि है ।

सिद्धान्त—‘य सर्वज्ञः सर्ववित्’ इत्यादि धृतिमें सर्वज्ञत्व, सर्ववेत्तृत्व आदि ब्रह्मलक्षण कहे गये हैं, अतः परमेस्वर ही भूतयोनि है । भूतयोनि दिव्य, सर्व व्यापक तथा जन्मरहित कहा गया है, अतः परिच्छिन्न और जन्म आदि युक्त जीव भूतयोनि नहीं है । ‘अक्षरात् परतः परः’ इस धृतिमें भूतयोनि अक्षरशब्दवाच्य प्रधानसे भिन्न कहा गया है, अतः प्रधान भूतयोनि नहीं है । और ब्रह्म सफल जगत्का उपादान तथा निमित्तकारण है । इससे सिद्ध हुआ कि परमेस्वर ही भूतयोनि है ।

मुण्डकोपनिषद्वर प्रथमाध्यायक प्रथमखण्डमें यह धृति है—‘यद् भूतयानिं परिदयन्ति धीराः’ उक्तका अर्थ है कि निमको विद्वान् लोग भूतयानि समझत हैं, वह अक्षर परविषासे गम्य है ।

इसमें सशय होता है कि वह भूतयोनि प्रधान है अथवा जीव है या ईश्वर है ।

पूर्वपक्षी कहता है कि प्रधान अथवा जीव भूतयोनि है, क्योंकि योनिशब्दके दो अर्थ हैं—उपादान-कारण और निमित्तकारण । सम्पूर्ण जगत्के आकारमें परिणत होनेवाला प्रधान जगत्का उपादान कारण है । पुण्य और पाप क्रमोंसे जगत्की उत्पत्ति होती है, उन क्रमोंका कर्ता जीव है, अतः कर्म द्वारा जब जगत्का निमित्तकारण है ।


सिद्धान्ती कहत है कि ‘यः सर्वज्ञः सर्ववित् इत्यादि ज्ञानामय तपः’ (जो सामान्य रूपसे सब पदार्थोंका ज्ञान रखनेके कारण सर्वज्ञ है, विशेषरूपसे सब पदार्थोंको जाननेके कारण सर्ववित् है, जिसका तपः ब्रह्म ज्ञानरूप ही है) इस धृतिमें सर्वज्ञत्व, सर्ववेत्तृत्व आदि ब्रह्मलक्षण कहे गये हैं, अतः भूतयोनि परमेश्वर ही है । जीव भूतयानि नही हो सकता है, क्योंकि ‘दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याम्बन्तरो ह्यनः’ (वह स्वप्रकाश, पूर्ण, प्रत्यगात्मा, सर्वव्यापक एवं जन्मरहित है) इस प्रकार भूतयोनिमें सर्वव्यापकत्व, जन्मरहितत्व कहे गये हैं, वे परिच्छिन्न तथा जन्ममरणयुक्त जीवमें सम्भव नहीं हैं । प्रधान भी भूतयोनि नहीं हो सकता है, क्योंकि ‘अक्षरात् परतः परः’ इस प्रकार अक्षरशब्दवाच्य प्रधानसे भिन्न भूतयोनि पर उरूक कहा गया है । अतः परमेस्वर ही भूतयोनि है ।

अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः ॥ २१ ॥

पदच्छेद—अदृश्यत्वादिगुणकः, धर्मोक्तेः ।

पदार्थोक्ति—अदृश्यत्वादिगुणक —‘यत्तदद्रेश्यमग्राह्यम्’ इत्यादिश्रुत्युक्तादृश्य-
त्वादिगुणविशिष्टः भूतयोनिः [परमात्मैव, न प्रधान जीवो वा, कुतः]
धर्मोक्तेः—‘यः सर्वज्ञः सर्वविद्’ इत्यादिना सर्वज्ञत्वादिपरमेश्वरधर्माणां भूतयोनिः
निर्देशात्, [प्रधाने जीवे वा तादृशधर्माभावात्] ।

भाषार्थ—‘यत्तदद्रेश्य०’ (जो अदृश्य है अग्राह्य है उस अविनाशीको
विद्वान् लोग भूतयोनि कहते हैं) इत्यादि श्रुतिमें उक्त अदृश्यत्व आदि गुणनाला
भूतयोनि परमात्मा ही है, प्रधान अथवा जीव भूतयोनि नहीं हैं, क्योंकि ‘यः सर्वज्ञ’
(जो सर्वज्ञ है और सर्ववेत्ता है) इत्यादि श्रुतिसे भूतयोनिमें सर्वज्ञत्व आदि परमेश्वरके
धर्मोक्ता निर्देश किया गया है, प्रधानमें अथवा जीवमें वे सर्वज्ञत्व आदि धर्म नहीं हैं ।



‘अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते’, ‘यत्तदद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्ण-
मचक्षुःश्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद् भूत-
भाष्यका अनुवाद

‘अथ परा यया०’ ‘यत्तदद्रेश्यमग्राह्य०’ (अपरा विद्याके कथनके बाद परा
विद्या कही जाती है, जिससे वह अविनाशी ज्ञात होता है, जो अदृश्य,
अग्राह्य, अगोत्र, अवर्ण, चक्षुश्रोत्रशून्य, पाणिपादरहित, नित्य, विभु, सर्वगत,

रत्नप्रभा

अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः । मुण्डकनाक्यम् उदाहरति—अथेति ।
कर्मविद्यारूपापरविद्योक्त्यन्तरम् यया निर्गुण ज्ञायते परा सोच्यते, तामेव विप-
योक्त्या निर्दिशति—यत्तदिति । अद्रेश्यम्—अदृश्य जानेन्द्रियैः, अग्राह्य
कर्मैन्द्रियैः, गोत्रमवर्ण, वर्ण—ब्राह्मणत्वादिजाति, चक्षु श्रोत्रशून्यम्—अचक्षुश्श्रो-
रत्नप्रभाका अनुवाद

“अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः” । “अथ” इत्यादिसे मुण्डकनाक्यको उद्धृत करते हैं । कर्म-
विद्यारूप अपरविद्याका निरूपण करनेके पश्चात् जिससे निर्गुणका ज्ञान होता है, वह परा विद्या कही
जाती है । विषयके कथनद्वारा परा विद्याका निर्देश करते हैं—‘यत्तद्’ इत्यादिसे । अद्रेश्य-ज्ञानेन्द्रियोंसे
अदृश्य अर्थात् ज्ञानेन्द्रियोंका अविषय, अग्राह्य-कर्मैन्द्रियोंका अविषय, गोत्र-वर्ण [उससे रहित],
वर्ण-ब्राह्मणत्वादि जाति [उससे शून्य], अचक्षु श्रोत्र-चेतनरूपशून्य अर्थात् ज्ञानेन्द्रियरहित,

भाष्य

योनिं परिपश्यन्ति धीराः' (सु० १।१।५, ६) इति श्रूयते । तत्र संशयः—
किमयमदृश्यत्नादिगुणको भूतयोनिः प्रधानं स्यात्, उत शरीरः,
आहोस्वित् परमेश्वर इति ।

तत्र प्रधानमचेतनं भूतयोनिरिति युक्तम्, अचेतनानामेव तस्य
दृष्टान्तत्वेनोपादानात् ।

'यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोपधयः सम्भवन्ति ।

यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात्सम्भवतीह विश्वम् ॥'

भाष्यका अनुवाद

सुसूक्ष्म और अविनाशी है, विद्वान् लोग भूतोंके कारणरूपसे उसको देखते हैं)
यह श्रुति है । यहापर सन्देह होता है कि अदृश्यत्व आदि गुणवाला भूतयोनि
क्या प्रधान है, या जीव है, या परमेश्वर ?

पूर्वपक्षी—अचेतन प्रधान भूतयोनि हो सकता है, क्योंकि अचेतनोंका
ही दृष्टान्तरूपसे ग्रहण किया है, जैसे कि 'यथोर्णनाभि सृजते०' (जैसे
मकड़ी तन्तुओंको उत्पन्न करती है और पीछे उन्हें निगल जाती है, जैसे
पृथिवीमें ओपधिया उत्पन्न होती हैं एव जैसे जीवित पुरुषोंसे केश और
लोम उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार अक्षरसे यह सारा विश्व उत्पन्न होता है) ।

रत्नप्रभा

त्रम्, पाणिपादशून्यम्—अपाणिपादम्, ज्ञानकर्मेन्द्रियविकलमित्यर्थ । विभुम्—प्रभुम् ।
सुसूक्ष्म दुर्ज्ञेयत्वात् । नित्याव्ययपदाभ्या नाशापक्षययो निरास । भूताना योनिं
प्रकृतिं यत् पश्यन्ति धीरा पण्डिता, तद् अक्षर तद्विधा परा इत्यन्वय ।
अदृश्यत्वादिगुणाना ब्रह्मप्रधानसाधारणत्वात् संशय । पूर्ववद् द्रष्टृत्वादीना
चेतनधर्माणाम् अत्र अश्रुतेरस्तु प्रधानमिति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षयति—तत्रेति ।
पूर्वपक्षे प्रधानाद्युपास्ति, सिद्धान्ते निर्गुणधीरिति फलम् । ऊर्णनाभि लताकीट,

रत्नप्रभाका अनुवाद

और अपाणिपाद—हस्तपादरहित अर्थात् कर्मेन्द्रियरहित । विभु—प्रभु । दुर्ज्ञेय होनेसे सुसूक्ष्म—
अतिशय सूक्ष्म । नित्य और अव्ययपदोंसे नाशरहित तथा अपक्षय (क्षीण होना) रहित सम
झना चाहिए । इस प्रकारके जिस भूतयानिको पण्डित भूतोंके कारणरूपसे जानते हैं वह अक्षर
है और वह अक्षर जिस विधासे ज्ञात होता है, वह परा विधा है ऐसा अन्वय है । अदृश्यत्व
आदि धर्म ब्रह्म और प्रधान दोनोंमें साधारण हैं इससे संशय होता है । पूर्वके समान द्रष्टृत्व
आदि धर्म यहा नहीं कह गये हैं, इसलिए भूतयोनि अक्षर प्रधान है इस प्रकार प्रत्युदाहरण
सगतिसे पूर्वपक्ष करते हैं—'तत्र' इत्यादिस । पूर्वपक्षमें प्रधान आदिकी उपासना फल है,

भाष्य

स्याऽचेतनस्य शारीरस्य वोपाधिपरिच्छिन्नदृष्टेः सर्वज्ञत्वं सर्ववित्त्वं वा सम्भवति । नन्वक्षरशब्दनिर्दिष्टाद् भूतयोनेः परस्यैव तत् सर्वज्ञत्वं सर्ववित्त्वं च न भूतयोनिविषयमित्युक्तम् । अत्रोच्यते—नैवं संभवति । यत्कारणं 'अक्षरात् संभवतीह विश्वम्' इति प्रकृतं भूतयोनिमिह जायमान-प्रकृतित्वेन निर्दिश्याऽनन्तरमपि जायमानप्रकृतित्वेनैव सर्वज्ञं निर्दिशति—

'यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः ।

तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते ॥' इति ।

भाष्यका अनुवाद

परमेश्वरके धर्म कहे गये हैं । अचेतन प्रधानमें अथवा उपाधिसे परिच्छिन्न दृष्टिवाले (अल्पज्ञ) जीवमें सर्वज्ञत्व या सर्ववेत्तृत्व सम्भव नहीं है । परन्तु अक्षर शब्दसे निर्दिष्ट जो भूतयोनि है, उससे परमें सर्वज्ञत्व और सर्ववेत्तृत्व धर्म हैं, भूतयोनिमें नहीं है ऐसा पीछे कहा गया है । इसपर कहते हैं—ऐसा सम्भव नहीं है, क्योंकि 'अक्षरात् सम्भवतीह विश्वम्' (अक्षरसे यह विश्व उत्पन्न होता है) इस प्रकार प्रस्तुत भूतयोनिका उत्पद्यमान जगत्के कारणरूपसे निर्देश कर उसके अनन्तर मी "यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य०," (जो सर्वज्ञ और सर्ववेत्ता है, जिसका ज्ञानमय तप है, उससे यह [कार्य] ब्रह्म उत्पन्न होता है, उसी प्रकार नाम,

रत्नप्रभा

इति वाक्यशेषाद् ईश्वरत्वनिर्णय इत्युक्तम्, वाक्यशेषे भूतयोनेः प्रत्यभिज्ञापकाभावादिति शक्यते—नन्विति । "जनिकर्तुः प्रकृतिः" (पा० १।४।३०) इति सूत्रेण प्रकृतेः अपादानसञ्ज्ञायां पञ्चमीस्मरणाद् अक्षरात् सम्भवतीति प्रकृतित्वेनोक्ताक्षरस्य भूतयोनेः वाक्यशेषे तस्मादिति प्रकृतित्वलिङ्गेन प्रत्यभिज्ञानमस्तीति समाधत्ते—अत्रोच्यते इति । एतत्—कार्यं ब्रह्म सूक्ष्मात्मकम्, नामरूपम्—स्थूलम्,

रत्नप्रभाका अनुवाद

चेतन है या अचेतन है, ऐसा संशय होनेपर 'यः सर्वज्ञः' इस वाक्यशेषसे भूतयोनि ईश्वर है ऐसा निर्णय करना ठीक नहीं है, क्योंकि वाक्यशेषमें भूतयोनिकी प्रत्यभिज्ञा करनेवाला कोई पद नहीं है, ऐसी शङ्का करते हैं—"ननु" इत्यादिसे । "जनिकर्तुः" (उत्पत्तिके आधयका हेतु अपादान होता है) इस पाणिनिश्रुतिके अनुसार प्रकृतिकी अपादान संज्ञा होनेपर पंचमी विभक्ति होती है, 'अक्षरात् सम्भवति' इसमें 'अक्षरात्' यह पंचमीविभक्तिमन्त है, अतः प्रकृतिरूपसे कथित भूतयोनि अक्षरश्च 'तस्मादेतद् ब्रह्म' इस वाक्यशेषमें प्रकृतिबोधक पंचम्यन्त 'तस्मात्'से प्रत्यभिज्ञान होता है, इस प्रकार समापन करते हैं—"अत्रोच्यते" इत्यदिसे ।

भाष्य

तस्मान्निर्देशसाम्येन प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् प्रकृतस्यैवाऽक्षरस्य भूत-
योनेः सर्वज्ञत्वं सर्वविच्यं च धर्म उच्यते इति गम्यते । 'अक्षरात्परतः
परः' इत्यत्रापि न प्रकृताद् भूतयोनेरक्षरात्परः कश्चिदभिधीयते । कथ-
मेतदवगम्यते ? 'येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्'
(मु० १।२।१३) इति प्रकृतस्यैवाऽक्षरस्य भूतयोनेरदृश्यत्वादिगुणकस्य

भाष्यका अनुवाद

रूप और अन्न उत्पन्न होते हैं) इस प्रकार ध्रुति उत्पद्यमान जगत्के कारण-
रूपसे ही सर्वज्ञका निर्देश करती है । इससे प्रतीत होता है कि समान निर्देशसे
प्रत्यभिज्ञा होनेके कारण प्रस्तुत अक्षर भूतयोनिके ही सर्वज्ञत्व और सर्ववेत्तृत्व
धर्म कहे गये हैं । 'अक्षरात् परतः परः' इसमें मी प्रस्तुत भूतयोनि अक्षरसे पर
कोई है, यह अभिधान नहीं होता । यह कैसे जानते हो ? 'येनाक्षरं पुरुषम्०' (जिस
विद्यासे शिष्य अक्षर पुरुषको जाने, उस ब्रह्मविद्याको आचार्य शिष्यके लिए यथार्थ-
रूपसे कहे) इस प्रकार प्रस्तुत भूतयोनि अदृश्यत्व आदि गुणोंसे सम्पन्न अक्षर

रत्नप्रभा

ततोऽन्नं ग्रीहादि इत्यर्थः । यदुक्तं पञ्चम्यन्ताक्षरश्रुत्या भूतयोनेः प्रत्यभिज्ञानात्
अचेतनत्वमिति, तत्राऽऽह—अक्षरात्परत इति । नाऽयम् अक्षरशब्दो भूतयोनिं
परामृशति, परविद्याधिगम्यत्वेन उक्तस्य अक्षरस्य भूतयोनेः 'अक्षरं पुरुषं वेद'
इत्यक्षरश्रुत्या वेद्यत्वलिङ्गवत्या पूर्वमेव ब्रह्मत्वेन परामर्शाद् इत्याह—येनेति । येन
ज्ञानेन अक्षरं भूतयोनिं सर्वज्ञं पुरुषं वेद तां ब्रह्मविद्यां योग्याय शिष्याय प्रब्रूयात् इत्युप-
क्रम्य "अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः" (मु० २।१।२) इति उच्यमानः
परो भूतयोनिरिति गम्यते इत्यर्थः । तर्हि पञ्चम्यन्ताक्षरशब्दार्थः क इत्याशङ्क्य

रत्नप्रभाका अनुवाद

[तस्मादेतद्०]—पहले एतत्—कार्यब्रह्म सूक्ष्मभूतरूप हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता है, फिर स्थूल-
भूतात्मक नाम और रूप होते हैं, उनके बाद अन्न—ग्रीहि आदि उत्पन्न होते हैं । 'अक्ष-
रात्' इस पंचम्यन्त ध्रुतिसे भूतयोनिका प्रत्यभिज्ञान होता है, इससे भूतयोनि अचेतन है,
ऐसा जो कहा गया है, उसपर कहते हैं—'अक्षरात् परतः' इत्यादि । इसमें अक्षरशब्दसे
भूतयोनिका परामर्श नहीं होता है, क्योंकि पहले ही 'अक्षरं पुरुषं वेद' इस ध्रुतिमें ज्ञेयत्व-
लिङ्गसे युक्त अक्षरध्रुति द्वारा परविद्यासे प्राप्तव्य भूतयोनि अक्षर ब्रह्मत्वरूपसे परामृष्ट हो गया
है यह कहते हैं—'येन' इत्यादिसे । जिस ज्ञानसे अक्षर भूतयोनि सर्वज्ञ पुरुष जाना
जाता है, वह ब्रह्मविद्या योग्य शिष्यसे कहनी चाहिए, ऐसा उपक्रम करके 'अप्राणो ह्यमनाः'

भाष्य

(मु० १।१।७) इति । ननूर्णनाभिः पुरुषश्च चेतनाविह दृष्टान्तत्वेनोपात्तौ ।
नेति ब्रूमः । नहि केवलस्य चेतनस्य तत्र सूत्रयोनिष्वं केगलोमयोनिष्वं
चाऽस्ति । चेतनाधिष्ठितं ह्यचेतनमूर्णनाभिःशरीरं सूत्रस्य योनिः, पुरुष-
शरीरं च केशलोम्नामिति प्रसिद्धम् । अपि च पूर्वत्राऽदृष्टत्वाद्यभिलाष-
संभवेऽपि द्रष्टृत्वाद्यभिलाषासंभवान्न प्रधानमभ्युपगतम् । इह त्व-
दृश्यत्वादयो धर्माः प्रधाने संभवन्ति, न चाऽत्र विरुध्यमानो धर्मः
कश्चिदभिलप्यते । ननु 'यः सर्वज्ञः सर्ववित्' (मु० १।१।९) इत्ययं
वाक्यशेषोऽचेतने प्रधाने न सम्भवति, कथं प्रधानं भूतयोनिः प्रतिज्ञायते

भाष्यका अनुवाद

किन्तु मकड़ी और पुरुष—इन दो चेतनोंका यहां दृष्टान्तरूपसे ग्रहण
किया है । हम कहते हैं कि, नहीं । वस्तुतः केवल चेतन ही यहाँ तन्तुका
कारण या केशलोमका कारण नहीं हैं, किन्तु चेतनसे अधिष्ठित मकड़ीका
शरीर तन्तुका कारण है और पुरुष-शरीर केश और लोमोंका कारण
है, यह सर्वप्रसिद्ध है । किंच, पूर्व अधिकरणमें अदृश्यत्व आदि धर्मोंके
अभिधानका सम्भव था, तो भी द्रष्टृत्व आदि धर्मोंके अभिधानका असम्भव
होनेसे प्रधानका स्वीकार नहीं किया गया । यहां तो अदृश्यत्व आदि धर्म प्रधानमें
सम्भव हैं और किसी भी विरुद्ध धर्मका अभिधान नहीं है । यदि कोई कहे 'यः
सर्वज्ञः सर्ववित्, (जो सर्वज्ञ और सर्ववेत्ता है) यह वाक्यशेष प्रधानमें
सम्भव नहीं है, ऐसी अवस्थामें प्रधान भूतयोनि है यह प्रतिज्ञा किस प्रकार की

रत्नप्रभा

तन्तून स्वदेहात् सृजति उपसंहरति च इत्यर्थः । सतः जीवतः । ननु पूर्वं
निरस्तं प्रधानं कथमुत्थाप्यते तत्राऽऽह—अपि चेति । अत्र प्रधाने विरुध्य-
मानोऽसम्भावितो वाक्यशेषः श्रुत इति शङ्कते—ननु य इति । पञ्चम्यन्ताक्षर-

भाष्यका अनुवाद

सिद्धान्तमें निर्गुण ब्रह्मका ज्ञान फल है । यथोर्णनाभि०—मकड़ी अपने देहसे तन्तुओंको उत्पन्न
करती है एवं अपने देहमें ही उनका उपसंहार कर लेती है ऐसा अर्थ है । सत्—जीवित ।
यदि कोई कहे कि पूर्वमें निराकरण किये हुए प्रधानकी शङ्का क्यों होती है, इस शङ्कापर
कहते हैं—“अपि च” इत्यादिसे । यहांपर प्रधानमें विरुद्ध—असंगत वाक्यशेष है, ऐसी
शङ्का करते हैं—“ननु य.” इत्यादिसे । 'अक्षरात् परत पर.' इसमें पंचम्यन्त 'अक्षर' शब्द

भाष्य

इति । अत्रोच्यते—‘यया तदक्षरमधिगम्यते’ ‘यत्तदद्रेश्यम्’ इत्यक्षर-
शब्देनाऽद्रेश्यत्वादिगुणकं भूतयोनिं श्रावयित्वा पुनरन्ते श्रावयिष्यति—
‘अक्षरात्परतः परः’ (मु० २।१।२) इति । तत्र यः परोऽक्षराच्छ्रुतः स
सर्वज्ञः सर्ववित् संभविष्यति । प्रधानमेव त्वक्षरशब्दनिर्दिष्टं भूतयोनिः ।
यदा तु योनिशब्दो निमित्तवाची तदा शारीरोऽपि भूतयोनिः स्यात्,
धर्माधर्माभ्यां भूतजातस्योपार्जनादिति ।

एवं प्राप्तेऽभिधीयते—योऽयमद्रेश्यत्वादिगुणको भूतयोनिः स परमे-
श्वर एव स्यान्नाऽन्य इति । कथमेतदवगम्यते ? धर्मोक्तेः । परमेश्वरस्य
हि धर्म इहोच्यमानो द्रेश्यते—‘यः सर्वज्ञः सर्ववित्’ इति । नहि प्रधान-

भाष्यका अनुवाद

गई ? इसपर कहते हैं—‘यया तदक्षरमधिगम्यते’ ‘यत्तदद्रेश्यम्’ (जिससे वह
अधिनाशी ज्ञात होता है, जो वह अद्रेश्य है) इस प्रकार ‘अक्षर’ शब्दसे
अद्रेश्यत्व आदि गुणवाले भूतयोनिका प्रतिपादन करके अन्तमें फिर श्रुति
कहेगी कि ‘अक्षरान्०’ (सबसे उत्कृष्ट अक्षरसे मी जो उत्कृष्ट है) श्रुतिमें
अक्षरसे जो पर कहा गया है, वह सर्वज्ञ और सर्ववेत्ता हो सकता है ।
अक्षरशब्दसे निर्दिष्ट भूतयोनि तो प्रधान ही है । यदि योनिशब्द निमित्त-
वाचक माना जाय, तो शारीर भी भूतयोनि हो सकता है, क्योंकि जीवके धर्म
और अधर्मसे भूतसमूहकी सृष्टि होती है ।

सिद्धान्ती—ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं—अद्रेश्यत्व आदि गुणवाला जो
भूतयोनि है, वह परमेश्वर ही है, अन्य नहीं है । यह किस प्रकार समझा जाय ?
धर्मके कथनसे । यहां ‘यः सर्वज्ञः सर्ववित्’ (जो सर्वज्ञ एवं सर्ववेत्ता है) इत्यादिसे

रत्नप्रभा

श्रुत्या भूतप्रकृतेः प्रत्यभिज्ञानात् प्रथमान्तपरशब्दोक्तस्य जगन्निमित्तेश्वरस्य सर्व-
ज्ञत्वादिकमित्याह—अत्रोच्यत इति । “सन्दिग्धे तु वाक्यशेषात्” इति न्यायेन
सिद्धान्तयति—एवं प्राप्ते इति । चेतनाचेतनत्वेन सन्दिग्धे भूतयोनौ यः सर्वज्ञ

रत्नप्रभाका अनुवाद

है, उससे भूतयोनि जो अक्षर है, उसका प्रत्यभिज्ञान होता है, इसलिए प्रथमान्त ‘पर’
शब्दप्रतिपादित, अगतके निमित्तकारण ईश्वरमें सर्वज्ञत्व आदि धर्म संगत होते हैं, ऐसा
कहते हैं—“अत्रोच्यते” इत्यादिसे । ‘सन्दिग्धे तु वाक्यशेषात्’—सन्दिग्धविषयमें वाक्यशेषसे
निर्णय करना चाहिए, इन न्यायसे सिद्धान्त करते हैं—“एवं प्राप्ते” इत्यादिसे । भूतयोनि

भाष्य

वक्तव्यत्वेन प्रतिज्ञातत्वात् । कथं तर्हि 'अक्षरात्परतः परः' इति व्यप-
दिश्यत इति ? उत्तरसूत्रे तद्वक्ष्यामः । अपि चाऽत्र द्वे विद्ये वेदितव्ये
उक्ते--'परा चैवाऽपरा च' इति । तत्राऽपरामृग्वेदादिलक्षणां विद्यामुक्त्वा
ब्रवीति--'अथ परा यया तदक्षरमाधिगम्यते' इत्यादि । तत्र परस्या
विद्याया विषयत्वेनाऽक्षरं श्रुतम् । यदि पुनः परमेश्वरादन्यददृश्यत्वादि-
गुणकमक्षरं परिकल्प्येत, नेयं परा विद्या स्यात् । परापरविभागो ह्ययं विद्य-
योरभ्युदयनिःश्रेयसफलतया परिकल्प्यते । न च प्रधानविद्या निःश्रेयस-

भाष्यका अनुवाद

उपदेश्य है, ऐसी प्रतिज्ञा की है । इससे ज्ञात होता है कि भूतयोनि अक्षरसे पर
कोई नहीं है । तब 'अक्षरात् परतः परः' यह कथन कैसे सञ्जत होगा ? इसका
अग्रिम सूत्रमें स्पष्टीकरण करेंगे । दूसरी बात यह भी है कि यहां दो विद्याएँ जानने
योग्य कही गई हैं--'परा चाऽपरा च' (परा और अपरा) । इनमें ऋग्वेदादिको
अपरा विद्या कह कर 'अथ परा यया०' (अपराके निरूपणके पश्चात् परा विद्या
कहते हैं, जिससे वह अक्षर जाना जाता है) इत्यादि कहते हैं । श्रुतिमें परा
विद्याके विषयरूपसे अक्षरका श्रवण होता है । परन्तु यदि परमेश्वरसे भिन्न
अदृश्यत्व आदि गुणवाले अक्षरकी कल्पना करें, तो यह परा विद्या न
होगी । निश्चय, अभ्युदय और निश्रेयसरूप फलकी अपेक्षासे विद्याओंके
परा और अपरा विभागकी कल्पना की गई है । प्रधानविद्याका फल

रत्नप्रभा

अज्ञानमिति वक्ष्यते इत्याह—कथमिति । परविद्येति समाख्ययाऽपि तद्विषयस्य
ब्रह्मत्वमित्याह—अपि चेति । ननु प्रधानविद्याऽपि कारणविषयत्वात् परा इत्यत
आह—परापरविभागो हीति । अनित्यफलत्वेनाऽपरविद्यां निन्दित्वा मुक्त्यर्थिने
ब्रह्मविद्यां प्रोवाच इति वाक्यशेषोक्तेः इत्यर्थः । अस्तु प्रधानविद्याऽपि मुक्ति-

रत्नप्रभाका अनुवाद

इस प्रकार कहा गया पर भूतयोनि समझा जाता है । तब पंचम्यन्त अक्षरशब्दका क्या अर्थ है
'कथम्' इत्यादिसे ऐसी आशङ्का करके कहते हैं कि उसका अर्थ अज्ञान-अव्याकृत है यह अग्रिम
सूत्रमें कहेंगे । "अपि च" इत्यादिसे कहते हैं कि परा विद्या इस संज्ञासे या विद्याका विषय ब्रह्म
ही होना चाहिए । यदि कोई कहे कि प्रधानविद्या भी तो जगत्कारणविषयक है, अतः वह
भी परा विद्या है, इस शङ्काका निराकरण करते हैं--"परापरविभागो हि" इत्यादिसे । तात्पर्य
यह है कि अपराविद्याका फल अनित्य है, इसलिए उसकी निन्दा करके मोक्षभित्तिका
परा विद्याका उपदेश किया है, इस प्रकार वाक्यशेषके होनेके कारण [विभागकी कल्पना है] ।

भाष्य

फला केनचिदभ्युपगम्यते । तिस्रश्च विद्याः प्रतिज्ञायेरन्, त्वत्पक्षेऽक्षराद् भूतयोनेः परस्य परमात्मनः प्रतिपाद्यमानत्वात् । द्वे एव तु विद्ये वेदितव्ये इह निर्दिष्टे, 'कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति' (मु० १।१।३) इति चैकविज्ञानेन सर्वविज्ञानापेक्षणं सर्वात्मके ब्रह्मणि विवक्ष्यमाणेऽवकल्प्यते, नाऽचेतनमात्रैकायतने प्रधाने, भोग्यव्यतिरिक्ते वा भोक्तारि । अपि च 'स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय भाष्यका अनुवाद

निःश्रेयस है ऐसा कोई भी स्वीकार नहीं करता । और तुम्हारे पक्षमें भूतयोनि अक्षरसे पर परमात्माका प्रतिपादन किया जाता है इससे तीन विद्याओंकी प्रतिक्षा की जानी चाहिये थी, परन्तु दो ही विद्याएँ जानने योग्य हैं, ऐसा यहां निर्देश किया है । 'कस्मिन्नु भगवो' (हे भगवन् किसको जाननेसे यह सब जाना जाता है) इस प्रकार एक विज्ञानसे सब विज्ञानोंकी इच्छा की गई है, वह तमी सम्भव हो सकती है जब कि सर्वात्मक ब्रह्मकी विवक्षा हो । अचेतन-मात्रके एक आश्रय प्रधान अथवा भोग्यसे भिन्न भोक्ताकी विवक्षा होनेपर सम्भव नहीं है । और 'स ब्रह्मविद्यां' (उसने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वके लिए

रत्नप्रभा

फलत्वेन परा इत्यत आह—न चेति । ननु यः सर्वज्ञ इत्यग्रे परविद्याविषय उच्यते, अद्रेश्यवाक्येन तु प्रधानविद्या उच्यते इत्यत आह—तिस्रश्चेति । इतश्च भूतयोनेः ब्रह्मत्वमित्याह—कस्मिन्निति । अचेतनमात्रस्य एकायतनम्—उपादानं तज्ज्ञानात् कार्यज्ञानेऽपि तदकार्याणाम् आत्मनां ज्ञानं न भवति । एवं जीवे ज्ञाते तदकार्यस्य भोग्यस्य ज्ञानं न भवतीत्यर्थः । ब्रह्मविद्याशब्दाच्च भूतयोनिः ब्रह्म इत्याह—अपि चेति । स ब्रह्मा सर्वविद्यानां प्रतिष्ठां समाप्तिभूमिं ब्रह्मविद्यामु-

रत्नप्रभाका अनुवाद

परन्तु प्रधानविद्या भी तो मुक्तिदायक होनेके कारण परा हो सकती है ! इस शब्दाको दूर करते हैं—“न च” इत्यादिसे । यदि कोई कहे कि ‘यः सर्वज्ञ’ इस अग्रिम वाक्यमें पराविद्याका विषय कहा गया है और अद्रेश्यवाक्यसे (‘यत्तदद्रेश्यम्’ इत्यादिसे) प्रधानविद्याका विषय कहा गया है इस शब्दाका “तिस्रश्च” इत्यादिसे निराकरण करते हैं । भूतयोनि ब्रह्म ही है इसकी पुष्टिके लिए दूसरा हेतु कहते हैं—“कस्मिन्” इत्यादिसे । अचेतन मात्रके एक आश्रय—उपादान प्रधानके ज्ञानसे उसके कार्यरूप भोग्यवर्गाका ज्ञान होनेपर भी उसके अकार्यरूप भोक्ता—आत्माका ज्ञान नहीं होता है । इसी प्रकार जीवका ज्ञान होनेपर उसका अकार्य जो भोग्य है उसका ज्ञान नहीं होता है ऐसा तात्पर्य है । “अपि च” इत्यादिसे कहते हैं—ब्रह्मविद्या शब्दसे

भाष्य

प्राह' (मु० १।१।१) इति ब्रह्मविद्यां प्राधान्येनोपक्रम्य परापरविभागेन परां विद्यामक्षराधिगमनीं दर्शयंस्तस्या ब्रह्मविद्यात्वं दर्शयति । सा च ब्रह्मविद्यासमाख्या तदधिगम्यस्याऽक्षरस्याऽब्रह्मत्वे बाधिता स्यात् । अपरा ऋग्वेदादिलक्षणा कर्मविद्या ब्रह्मविद्योपक्रम उपन्यस्यते ब्रह्म-विद्याप्रशंसायै—

‘प्लवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म ।

एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवापियन्ति ॥

भाष्यका अनुवाद

सबविद्याओंकी आश्रयरूपा ब्रह्मविद्याका उपदेश किया) इस प्रकार ब्रह्मविद्याका प्रधानरूपसे उपक्रम करके, पर और अपर विभाग कर, परा विद्या अक्षरका ज्ञान कराती है, ऐसा दिखलाकर वह ब्रह्मविद्या है, ऐसा (श्रुति) दिखलाती है । वह ब्रह्मविद्या संज्ञा, उससे ज्ञेय जो अक्षर है, वह ब्रह्म न हो, तो बाधित हो जायगी । ऋग्वेद आदि अपरा कर्मविद्याका ब्रह्मविद्याके उप-क्रममें ब्रह्मविद्याकी प्रशंसाके लिए उपन्यास किया है, क्योंकि ‘प्लवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपा०’ (ये विनाशी अस्थिर यज्ञरूप अठारह हैं, जिनमें कर्म अवर-हल्का कहा गया है, जो मूढ़ इनका श्रेयरूपसे अभिनन्दन करते

रत्नप्रभा

वाच । ब्रह्मणि सर्वविद्यानां विद्याफलानां चान्तर्भावोद् ब्रह्मविद्या सर्वविद्याप्रतिष्ठा । ननु अपरविद्या परप्रकरणे किमर्थमुक्ता इत्यत आह—अपरेति । प्लवन्ते गच्छन्ति इति प्लवा.—विनाशिनः, अदृढाः—नित्यफलसम्पादनाशक्ताः, षोडश ऋत्विजः, पत्नी यजमानश्चेति अष्टादश । यज्ञेन नामनिमित्तेन निरूप्यन्ते इति यज्ञरूपाः । तथाहि—ऋतुपु याजयन्ति यज्ञं कारयन्ति इति—ऋत्विजः । यजते इति यजमानः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

यही सिद्ध होता है कि भूतयोनि ब्रह्म ही है । ब्रह्माने अपने ज्येष्ठ पुत्रके लिए सब विद्याओंकी समाप्तिस्थानरूप ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया । ब्रह्ममें सब विद्याएँ और उनके फल गतार्थ हैं, अतः ब्रह्मविद्या सब विद्याओंकी प्रतिष्ठा है । यदि कोई कहे कि पर और अपर विद्यामें इतना वैलक्षण्य होनेपर परविद्याके प्रकरणमें अपरविद्या क्यों कही गई है इसपर कहते हैं— “अपरा” इत्यादि । ‘प्लवा’—विनाशी । ‘अदृढा’—नित्यफल देनेमें असमर्थ । सोलह ऋत्विक्, पत्नी और यजमान ये सब मिलाकर अठारह होते हैं । अर्थात् यज्ञनामसे इनका निरूपण होता है, अतः ये यज्ञरूप हैं । जो ऋतुमें यज्ञ कराते हैं, वे ऋत्विज कहलाते हैं । जो यज्ञ करता है

भाष्य

(मु० १।२।७) इत्येवमादिनिन्दावचनात् । निन्दित्वा चापरां विद्यां ततो विरक्तस्य परविद्याधिकारं दर्शयति—

‘परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन ।

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥’

(मु० १।२।१२) इति । यत्तुक्तम्—अचेतनानां पृथिव्यादीनां दृष्टान्तत्वेनोपादानादार्ष्टान्तिकेनाऽप्यचेतनेन भूतयोनिना भवितव्यम् इति, तदयुक्तम् ।

भाष्यका अनुवाद

हैं, वे फिर जरा और मृत्युको प्राप्त होते हैं) इत्यादि निन्दाका कथन है । श्रुति इस प्रकार अपरा विद्याकी निन्दा करके इससे विरक्त पुरुषका परा विद्यामें अधिकार दिखलाती है । ‘परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान्’ (कर्मसे प्राप्त हुए लोकोंकी परीक्षा करके ब्राह्मण वैराग्यको प्राप्त हो कि कर्मसे मोक्ष नहीं होता, उसके (ब्रह्मके) विज्ञानके लिए उसको हाथमें समित् लेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास जाना चाहिए) । पृथिवी आदि अचेतन पदार्थोंका दृष्टान्तरूपसे ग्रहण करनेसे दार्ष्टान्तिक मी अचेतन भूतयोनि होना चाहिए, ऐसा जो

रत्नप्रभा

‘पत्युर्नो यज्ञसंयोगे’ (पा० ४।१।३३) इति सूत्रेण पतिशब्दस्य नकारोऽन्तादेशो यज्ञसम्बन्धे विहित इति पत्नी । एवम् ऋत्विगादिनामप्रवृत्तिनिमित्तं यज्ञ इति यज्ञरूपाः । येषु अवरम् अनित्यफलकं कर्म श्रुत्युक्तम्, एतदेव कर्म श्रेयः नान्यत् आत्मज्ञानमिति ये मूढाः तुष्यन्ति, ते पुनपुन.र्जन्ममरणम् आप्नुवन्तीत्यर्थः । तद्विज्ञानार्थं—ब्रह्मज्ञानार्थं गुरुम् अभिगच्छेद् एवेति नियमः । ब्रह्मनिष्ठस्याऽपि अनधीतवेदस्य गुरुत्वं वारयति—श्रोत्रियमिति । कार्यम् उपादानाभिन्नमित्यंशो

रत्नप्रभाका अनुवाद

यह यजमान कहलाता है, यज्ञका फल भोगनेवाली पत्नी है, क्योंकि ‘पत्युर्नो यज्ञसंयोगे’ (यज्ञके सम्बन्धमें पति शब्दके इकारके स्थानमें ‘न’ आदेश होता है) इस सूत्रके यज्ञसंबन्धमें पतिशब्दके इकारके स्थानमें नकार विधान किया है । इस प्रकार ‘ऋत्विग्’ आदि नामकी व्युत्पत्तिमें यज्ञ कारण है, अतः ऋत्विग् आदि यज्ञरूप हैं । जिन अठारहोंमें अवर—अनित्यफलदायक कर्म श्रुत्युक्त हैं ऐसा धृति कहती है । जो मूढ लोग यह मानकर सन्तोष करते हैं कि यह कर्म ही श्रेय है, इससे भिन्न अर्थात् आत्मज्ञान श्रेय नहीं है वे बारंबार जन्म-मरण प्राप्त करते हैं । उस ब्रह्मज्ञानके लिए गुरुके पास जाना ही चाहिए, ऐसा

भाष्य

नहि दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोरत्यन्तसाम्येन भवितव्यमिति नियमोऽस्ति । अपि च स्थूलाः पृथिव्यादयो दृष्टान्तत्वेनोपात्ता इति न स्थूल एव दार्ष्टान्तिको भूतयोनिरभ्युपगम्यते । तस्माददृश्यत्वादिगुणको भूतयोनिः परमेश्वर एव ॥ २१ ॥

भाष्यका अनुवाद

पीछे कहा गया है, वह ठीक नहीं है । दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिककी सर्वांशमें समानता हो, ऐसा नियम नहीं है । स्थूल पृथिवी आदि दृष्टान्तरूपसे लिये गये हैं, इसलिए स्थूल ही दार्ष्टान्तिक भूतयोनि नहीं माना जाता । इससे सिद्ध हुआ कि अदृश्यत्व आदि गुणवाला भूतयोनि परमेश्वर ही है ॥ २१ ॥

रत्नप्रभा

दृष्टान्तः, सर्वसाम्ये तवापि अनिष्टापत्तेः इत्याह—अपि च स्थूला इति ॥२१॥

रत्नप्रभाका अनुवाद


नियम है । “श्रोत्रिय” पदसे कहते हैं कि ब्रह्मनिष्ठ होनेपर भी जिसने वेदका अध्ययन नहीं किया है, वह गुरुपदके योग्य नहीं है । कार्य उपादानकारणसे भिन्न नहीं है, इतने अंशमें ही दृष्टान्त है, दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिकमें सब अंशोंमें समानता लेनेपर तुमको भी अनिष्ट आपत्ति होगी, ऐसा कहते हैं—“अपि च” इत्यादिसे ॥२१॥

विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॥ २२ ॥

पदच्छेद—विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां, च, न, इतरौ ।

पदार्थोक्ति—विशेषण भेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ—दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः’ इत्यादिना भूतयोनेः दिव्यत्वादिविशेषणात् न जीवः [भूतयोनिः], ‘अक्षरात् परतः परः’ इति अक्षरपरमात्मनोर्भेदोक्तेः न प्रधानं [भूतयोनिः, किन्तु परमात्मैव] ।

भाषार्थ—‘दिव्यो ह्यमूर्तः’ इत्यादि श्रुतियोंमें दिव्यत्व, अपरिच्छिन्नत्व, सर्वव्यापकत्व आदि विशेषण भूतयोनिके लिए कहे गये हैं, अतः (जीवमें इन गुणोंके न होनेके कारण) जीव भूतयोनि नहीं है । ‘अक्षरात्०’ इस श्रुतिमें अक्षर और परमात्मामें भेद कहा गया है, अतः प्रधान भूतयोनि नहीं है, किन्तु परमात्मा ही भूतयोनि है ।



भाष्य

इत्थं परमेश्वर एव भूतयोनिर्नेतरौ—शारीरः प्रधानं वा । कस्मात् ? विशेषणभेदव्यपदेशाभ्याम् । विशिनष्टि हि प्रकृतं भूतयोनिं शारीराद्विलक्षणत्वेन—‘दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः’ (मु० २।१।२) इति । न ह्येतद्विव्यत्वादिविशेषणमविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपपरिच्छेदाभिमानिनस्तद्धर्मान् स्वात्मनि कल्पयतः शारीरस्योपपद्यते । तस्मात् साक्षादौपनिषदः पुरुष इहोच्यते । तथा

भाष्यका अनुवाद

और इससे मी परमेश्वर ही भूतयोनि है, दूसरे दो—शारीर या प्रधान भूतयोनि नहीं हैं । किससे ? विशेषण और भेदके व्यपदेशसे । ‘दिव्यो ह्यमूर्तः०’ (वही स्वयंज्योति, प्रत्यगात्मा, पूर्ण, स्थूल और सूक्ष्म पदार्थोंका अधिष्ठानरूप, अजन्मा, श्रुतिमें प्रसिद्ध, प्राणरहित, मनरहित, एवं शुभ्र है) यह श्रुति शारीरसे प्रकृत भूतयोनिको विलक्षण सिद्ध करनेवाले विशेषण देती है । निश्चय, ये दिव्यत्व आदि विशेषण अविद्याजनित नामरूपसे अपनेको परिच्छिन्न समझनेवाले और उनके धर्मोंकी अपनेमें कल्पना करनेवाले जीवमें सङ्गत नहीं होते हैं । इसलिये साक्षात् वेदान्तवेद्य पुरुषका ही यहां अभिधान है । उसी प्रकार

रत्नप्रभा

विशेषणात् न जीवः, भेदोक्तेः न प्रधानमिति हेतुद्वयं विभज्य व्याचष्टे— विशिनष्टि हीत्यादीना । दिव्यः—द्योतनात्मकः स्वयंज्योतिः, अमूर्तः—पूर्णः, पुरुषः—पुरिशयः प्रत्यगात्मा, बाह्यम्—स्थूलम्, आभ्यन्तरम्—सकारणं सूक्ष्मं ताभ्यां सह अधिष्ठानत्वेन तिष्ठतीति सबाह्याभ्यन्तरः, हि—तथा श्रुतिषु प्रसिद्ध इत्यर्थः । अविद्याकृतं नामरूपात्मकं शरीरं तेन परिच्छेदोऽल्पत्वम् । तस्य शरीरस्य धर्मान् जाड्य-

रत्नप्रभाका अनुवाद

[दिव्यत्व आदि] विशेषणोंसे जीव भूतयोनि नहीं है और भेदके कथनसे प्रधान भी भूतयोनि नहीं है, इस प्रकार दो हेतुओंका विभाग करके व्याख्यान करते हैं—“विशिनष्टि हि” इत्यादिसे । दिव्यः—प्रकाशस्वरूप अर्थात् स्वयंज्योति, अमूर्तः—सर्वमूर्तिवर्जित अर्थात् पूर्ण, पुरुषः—पुरिशय अर्थात् देहमें शयन करनेवाला प्रत्यगात्मा, सबाह्याभ्यन्तरः—बाह्य अर्थात् स्थूल और आभ्यन्तर अर्थात् कारणसहित सूक्ष्म, उन दोनोंके साथ अधिष्ठानरूपसे रहनेवाला अर्थात् कार्यकारणरूपसे सब कल्पनाओंका अधिष्ठान, हि—श्रुतिमें प्रसिद्ध । अल्पत्व अर्थात् अविद्याजनित नामरूपात्मक शरीरसे परिच्छेद । उस शरीरके धर्म—जड़ता, गूतत्व (अल्पत्व) आदि । ‘अक्षर’ का अर्थ यदि प्रधान हो तो

भाष्य

प्रधानादपि प्रकृतं भूतयोनिं भेदेन व्यपदिशति—‘अक्षरात्परतः परः’ इति । अक्षरमव्याकृतं नामरूपबीजशक्तिरूपं भूतसूक्ष्ममीश्वराश्रयं भाष्यका अनुवाद

‘अक्षरात् परतः परः’ यह श्रुति प्रधानसे भी प्रस्तुत भूतयोनिको विलक्षण बतलाती है । जो अव्याकृत नामरूपके कारण ईश्वरका शक्तिरूप है, जिसमें भूतोंके संस्कार

रत्नप्रभा

मूर्तत्वादीन् इत्यर्थः । ननु अक्षरशब्देन प्रधानोक्तौ अशब्दत्वं प्रधानस्य प्रतिज्ञातं बाध्येत, तत्राऽऽह—अक्षरमव्याकृतमिति । अश्नोति व्याप्नोति स्वविकारजातमिति अक्षरम् । अव्याकृतम्—अव्यक्तम्, अनादि इति यावत् । नामरूपयोः बीजम् ईश्वरः, तस्य शक्तिरूपं परतन्त्रत्वाद् उपादानम् अपि शक्तिः इति उक्तम् । भूतानां सूक्ष्माः संस्काराः यत्र तद् भूतसूक्ष्मम् । ईश्वरः चिन्मात्र आश्रयो यस्य तत्तथा । तस्यैव चिन्मात्रस्य जीवेश्वरभेदोपाधिभूतम् । यत्तु ईश्वर आश्रयो विषयो यस्येति नानाजीववादिनां व्याख्यानम्, तद् भाष्यवहिर्भूतम् । “एतस्मिन् खल्वक्षरे गार्गी आकाश ओतश्च प्रोतश्च” (बृ० ३।८।११) इत्योतप्रोतभावेन अव्याकृतस्य चिदाश्रयत्वश्रुतेः आश्रयपदलक्षणाया निर्मूलत्वात् । नहि मूलप्रकृतेः भेदे किञ्चित् मानमस्ति । न च “इन्द्रो मायाभिः” (बृ० २।५।१९) इति श्रुतिर्मानम्, “अजामेकां” (श्वे० ४।५) इत्याद्यनेकश्रुतिवलेन लघवतर्कसहायेन तस्याः श्रुतेः

रत्नप्रभाका अनुवाद

प्रधान श्रुतिप्रतिपाद्य नहीं है, ऐसी जो पीछे प्रतिज्ञा की है उसका बाध होगा । इसपर कहते हैं—“अक्षरमव्याकृतम्” इत्यादि । अपने विकारसमूहको व्याप्त करनेवाला अक्षर कहलाता है, अव्याकृत—व्याकार न पाया हुआ—अव्यक्त अर्थात् अनादि । नमरूपका बीज जो ईश्वर, ब्रह्म है, उसका शक्तिभूत । ईश्वरके अधीन होनेके कारण मायारूप उपादान भी ईश्वरकी शक्ति है, ऐसा कहा है । भूतसूक्ष्मम्—जिसमें भूतोंके संस्कार सूक्ष्मरूपसे रहते हैं । ईश्वराश्रयम्—अर्थात् चिन्मात्र जिसका आश्रय है, उसी चिन्मात्रका उपाधिभूत । अनेकजीववादियोंका जो यह व्याख्यान है कि ‘ईश्वर जिसका आश्रय अर्थात् विषय है ।’ वह भाष्यसम्मत नहीं है, क्योंकि ‘एतस्मिन् खल्वक्षरे’ (हे गार्गी ! इस अक्षरमें आकाश ओत-प्रोत है) इस प्रकार ओत-प्रोतभावसे अव्याकृतका आश्रय चेतन है ऐसा श्रुति कहती है, इसलिए आश्रय पदकी लक्षणा करनेमें कोई कारण नहीं है । मूल प्रकृतिकी अनेकतामें कोई प्रमाण नहीं है । ‘इन्द्रो मायाभिः’ (इन्द्र मायाओंसे अनेक-सा दासता है) यह श्रुति मायामें अनेकत्वका निर्देश करती है, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि लघव रूप तर्कके सहायसे युक्त ‘अजामेकां’ (सत्त्व, रज, तमोगुणात्मक अपने घरश अर्थात् उन्हीं तीन गुणोंसे युक्त

भाष्य

तस्यैवोपाधिभूतं सर्वस्माद्विकारात् परो योऽविकारस्तस्मात् परतः पर इति

भाष्यका अनुवाद

हैं, चिन्मात्र ईश्वर जिसका आश्रय है उसीका उपाधिभूत, सर्वविकारसे परे जो

रत्नप्रभा

बुद्धिभेदेन मायाभेदानुवादित्वात् । तदुक्तं सुरेश्वराचार्यः—“स्वतस्त्वविद्याभेदोऽत्र मनागपि न विद्यते” इति । सांख्ययोगाचार्याः पुराणेतिहासकर्तारश्च मूलप्रकृत्यैक्यं वदन्ति । ननु अविद्यैक्ये बन्धमुक्तिव्यवस्था कथम् । न च व्यवस्था नास्तीति वाच्यम्, श्रवणे प्रवृत्त्यादिबाधापाताद् इति चेत्; उच्यते—ये हि अविद्यानानात्व-मिच्छन्ति, तैरपि परिणामित्वेन सांशत्वम् अविद्याया अङ्गीकार्यम् । तथा च अन-र्यात्मकस्वीयसङ्घातात्मना परिणताविद्यांशोपहितजीवभेदाद् व्यवस्था सिध्यति । यस्य ज्ञानम् अन्तःकरणे जायते तस्य अन्तःकरणपरिणाम्यज्ञानांशनाशो मुक्तिरिति । एवं च श्रोतुः स्वरूपानन्दप्राप्तिः, श्रवणादौ प्रवृत्तिः, विद्वदनुभवः, जीवन्मुक्तिशास्त्रं चेति सर्वमवाधितं भवति । न चैवं नानाजीवपक्षादविशेषः, मूलप्रकृतिनानात्वा-भावाद् इत्यलम् । परत्वे हेतुः—अविकार इति । ननु सूत्रकृता श्रुतौ प्रधानाद्

रत्नप्रभाका अनुवाद

यद्विषय प्रजाओंकी सृष्टि करनेवाली अनादि माया एक है) इत्यादि अनेक धृतियोंके बलसे सिद्ध होता है कि ‘इन्द्रो मायाभिः’ यह धृति सुन्दरे भेदसे मायाभेदका अनुवाद करती है। इसी बातको सुरेश्वराचार्यजीने वार्तिकमें ‘स्वतस्त्वाविद्या०’ (स्वरूपतः अविद्याका कुछ भी भेद नहीं है) इस प्रकार कहा है। सांख्याचार्य—कपिल, योगाचार्य—पतञ्जलि, पुराण और इतिहासकर्ता-व्यास आदि मूलप्रकृतिको एक मानते हैं। यदि अविद्याको एक मानें, तो बन्ध और मोक्षकी व्यवस्था कैसे होगी ? बन्ध और मोक्षकी व्यवस्था ही नहीं है, यह नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा माननेसे श्रवण आदिमें प्रवृत्ति रुक जायगी। इस शास्त्रपर कहते हैं—जो अविद्याको अनेक मानते हैं, उनको भी परिणामशील होनेसे अविद्या सावयव माननी होगी। तब अनर्थरूप अपने संपात (कार्यसमूह) रूपसे परिणत हुई अविद्याके अंशसे उपहित जीवके भेदसे बन्ध-मोक्षकी व्यवस्था सिद्ध होती है। जिस जीवके अन्तःकरणमें ज्ञान उत्पन्न होता है, उस जीवके अन्तःकरणरूपसे परिणत अविद्याके अंशका नाश मोक्ष कहलता है। इस प्रकार श्रोताको अपने स्वरूपभूत आनन्दकी प्राप्ति, श्रवण आदिमें प्रवृत्ति, विद्वानोंका अनुभव, जीवन्मुक्तिप्रतिपादन करनेवाले शास्त्र, ये सब अवाधित होते हैं। तब नाना जीवपक्षसे एक जीव पक्षमें कोई विशेष नहीं है ऐसा कहना सम्भव नहीं है, क्योंकि मूलप्रकृतिको अनेक न मानना इस पक्षमें विशेष है। इतना ही पर्याप्त है। वह सब विकारोंसे परे है, इस विषयमें हेतु देते हैं—“अविकार”। यदि कोई कहे कि सूत्रकारने धृतिमें प्रधानसे ईश्वरका भेद कहा है,

भाष्य

भेदेन व्यपदेशात् परमात्मानमिह विवक्षितं दर्शयति । नाऽत्र प्रधानं नाम किञ्चित्स्वतन्त्रं तत्त्वमभ्युपगम्य तस्माद् भेदव्यपदेश उच्यते । किं तर्हि ? यदि प्रधानमपि कल्प्यमानं श्रुत्यविरोधेनाऽव्याकृतादिशब्दवाच्यं भूतसूक्ष्मं परिकल्प्येत, परिकल्प्यताम् । तस्माद् भेदव्यपदेशात् परमेश्वरो भूतयोनिरित्येतदिह प्रतिपाद्यते ॥ २२ ॥

कुतश्च परमेश्वरो भूतयोनिः—

भाष्यका अनुवाद

अधिकार—अक्षर है उससे पर ईश्वर है, इस प्रकार ईश्वरका अक्षरसे भेद दिखलानेके कारण परमात्मा ही यहां विवक्षित है, ऐसा यह श्रुति दिखलाती है । यहां प्रधान नामका कोई स्वतन्त्र तत्त्व मानकर उससे पृथक् ईश्वरका कथन है, ऐसा नहीं कहा गया है । तब क्या कहा गया है ? यदि कल्प्यमान प्रधानकी श्रुतिके अविरोधसे अव्याकृतादि शब्दवाच्य और भूतसूक्ष्मरूपसे कल्पना की जाती है तो ऐसी कल्पना करो । उससे भिन्नरूपसे व्यपदेश होनेके कारण भूतयोनि परमेश्वर है, ऐसा यहां प्रतिपादन किया है ॥ २२ ॥

और कैसे परमेश्वर भूतयोनि है ?

रत्नप्रभा

भेदव्यपदेश उक्तः, तत्र कथमज्ञानाद् भेदोक्तिः व्याख्यायते तत्राह—नात्रेति । कार्यरूपमना प्रधीयते इति प्रधानम् अज्ञानमेव । ततोऽन्यस्य अप्रामाणिकत्वात् इत्यर्थः । अतोऽत्र अज्ञानमेव भूतयोनिरिति पूर्वपक्षं कृत्वा निरस्यते । तन्निरासेन अर्थात् सांख्यकल्पितप्रधाननिरास इति मन्तव्यम् ॥ २२ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

ऐसी स्थितिमें अज्ञानसे ईश्वरका भेद है, ऐसा व्याख्यान कैसे करते हो ? इस शङ्कापर कहते हैं—“नात्र” इत्यादि । कार्यरूपसे जो परिणत होता है वह प्रधान अर्थात् अज्ञान ही है, उससे अन्य प्रधान प्रमाणगम्य नहीं है, ऐसा तात्पर्य है । इससे यहां अज्ञान ही भूतयोनि है, ऐसा पूर्वपक्ष करके उसका निरासन करते हैं, उसके निराकरणसे अर्थात् सांख्यकल्पित प्रधानका निराकरण समझना चाहिए ॥२२॥



रूपोपन्यासाच्च ॥ २३ ॥

पदच्छेद—रूपोपन्यासात्, च ।

पदार्थोक्ति—रूपोपन्यासात्—‘अग्निर्मूर्धा’ इत्यादिना भूतयोनेः सर्वात्मकत्व-
कथनात्, च—अपि [परमात्मैव भूतयोनिः]

भाषार्थ—‘अग्निर्मूर्धा’ इत्यादि श्रुतिसे भूतयोनि सर्वात्मक कहा गया है। इससे भी सिद्ध हुआ कि भूतयोनि परमात्मा ही है।



भाष्य

अपि च ‘अक्षरात्परतः परः’ इत्यस्याऽनन्तरम् ‘एतस्माज्जायते प्राणः’
इति प्राणप्रभृतीनां पृथिवीपर्यन्तानां तत्त्वानां सर्गमुक्त्वा तस्यैव भूतयोनेः
सर्वविकारात्मकं रूपमुपन्यस्यमानं पश्यामः—

‘अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः ।

वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येव सर्वभूतान्तरात्मा ॥’

भाष्यका अनुवाद

‘अक्षरात् परतः परः’ इसके अनन्तर ‘एतस्माज्जायते प्राणः’ (इससे प्राण उत्पन्न होता है) इस प्रकार प्राणसे लेकर पृथिवी पर्यन्त सब तत्त्वोंकी सृष्टि कह कर उस भूतयोनिके सर्वविकारात्मक रूपका निर्देश किया गया है। ‘अग्निर्मूर्धा०’ (द्युलोक जिसका सिर है, चन्द्रमा और सूर्य आँख हैं, दिशाएँ, कान हैं, प्रसिद्ध वेद जिसकी वाणी है, वायु प्राण है, विश्व हृदय है, और पृथिवी पांव है, यह देव सब भूतोंका अन्तरात्मा है) यह कथन परमेश्वरमें

रत्नप्रभा

वृषिकृन्मतेन आदौ सूत्रं व्याचष्टे—अपि चेत्यादिना । “प्राणो मनः
सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी” (मु० २।१।३) इति श्रुतिः ।
अग्निः—द्युलोकः “असौ वाव लोको गोतमाम्निः” इति श्रुतेः । विवृताः वेदा

रत्नप्रभाका अनुवाद

पहले श्रुतिकारके मतानुसार सूत्रका व्याख्यान करते हैं—“अपि च” इत्यादिसे । ‘एतस्माज्जायते प्राणः’ इत्यादि श्रुति है । ‘असौ वाव०’ (हे गौतम, यह लोक निश्चय अग्नि है) इस श्रुतिके अनुसार अग्नि द्युलोक है विवृता, वेदा वाक् विवृत-प्रसिद्ध वेद जिसकी वाणी है ऐसा

भाष्य

(मु० २।१।४) इति । तच्च परमेश्वरस्यैवोचितम्, सर्वविकारकारणत्वात् । न शारीरस्य तनुमहिम्नः । नापि प्रधानस्याऽयं रूपोपन्यासः सम्भवति, सर्वभूतान्तरात्मत्वासम्भवात् । तस्मात् परमेश्वर एव भूतयोनिनेतराविति गम्यते । कथं पुनर्भूतयोनेरयं रूपोपन्यास इति गम्यते ? प्रकरणात् । 'एयः' इति च प्रकृतानुकर्षणात् । भूतयोनिं हि प्रकृत्य 'एतस्माज्जायते प्राणः' 'एष सर्वभूतान्तरात्मा' इति वचनं भूतयोनिविषयमेव भवति । यथोपाध्यायं प्रकृत्यैतस्मादधीष्वैव वेद वेदाङ्गपारग इति वचनमुपाध्याय-

भाष्यका अनुवाद

ही सद्गत होता है, क्योंकि वह सब विकारोंका कारण है । जीवमें उक्त धर्मोंका सम्भव नहीं है, क्योंकि उसकी महिमा अल्प है । इसी प्रकार प्रधानमें भी इस रूपका उपन्यास सम्भव नहीं है, क्योंकि वह सब भूतोंका अन्तरात्मा नहीं हो सकता । इसलिए परमेश्वर ही भूतयोनि है, दूसरे दो (शारीर और प्रधान) भूतयोनि नहीं हैं, ऐसा समझा जाता है । परन्तु यह किससे प्रतीत हुआ कि यह भूतयोनिके रूपका उपन्यास है ? प्रकरणसे । 'एयः' (यह) इस प्रकार प्रकृतका अनुकर्षण है । भूतयोनिको प्रस्तुत करके 'एतस्माज्जायते प्राणः' 'एष सर्वभूतान्तरात्मा' (इससे प्राण उत्पन्न होता है, यह सब भूतोंका अन्तरात्मा है) यह कथन भूतयोनिमें ही सद्गत होता है, जैसे कि उपाध्यायको उद्देश करके कहा गया 'एतस्मादधीष्व' 'एष वेदवेदाङ्गपारगः' (इसके पास

रत्नप्रभा

वागिति अन्वयः । पद्भ्यां पादौ इत्यर्थः । यस्य इदं रूपं स एष सर्वप्राणिनाम् अन्तरात्मा इत्यर्थः । तनुमहिम्न इति । अल्पशक्तेः इत्यर्थः । यथा कश्चिद् ब्रह्मवित् स्वम्य सर्वात्मत्वप्रकटनार्थम् अहमन्नमिति साम गायति, न तु अब्रत्वादिकम्

रत्नप्रभाका अनुवाद

अन्वय है । पद्भ्याम्०' अर्थात् दो पाद [अर्थात् पृथिवी उसके दो पांव हैं] आशय यह कि जिसका ऐसा रूप है, वह सब भूतोंका अन्तरात्मा है । "तनु महिम्नः" अल्पशक्ति जीवका [ऐसा रूप सम्भव नहीं है] जैसे कोई ब्रह्मवेत्ता अपनी सर्वात्मताको प्रकट करनेके लिए 'अहमन्नम्०' (मैं अन्न हूँ) इन प्रकार साम गाता है, परन्तु अपनी आत्मामें अन्नत्व आदिकी विवक्षा नहीं करता, क्योंकि आत्मामें

(१) श्री रत्नप्रभाकार और आनन्दगिरि तृतीया विभाषि को प्रथमाके अर्थमें मान कर अर्थ करते हैं—जिसके पैर पृथिवी है, भाष्यकार श्री शंकरभगवत्पादाचार्य तो 'परम पद्भ्यां जाता पृथिवी (पृथिवी जिसके पैरोंसे उत्पन्न हुई है) देमा अर्थ करते हैं ।

भाष्य

विषयं भवति तद्वत् । कथं पुनरदृश्यत्वादिगुणकस्य भूतयोनेर्विग्रहवद्रूपं
संभवति । सर्वात्मत्वविवक्षयेदस्युच्यते न तु विग्रहवच्चविवक्षयेत्यदोषः,
'अहमन्नमहमन्नादः' (तै० ३।१०।६) इत्यादिवत् ।

अन्ये पुनर्मन्यन्ते नायं भूतयोने रूपापन्यासः, जायमानत्वेनोपन्यासात् ।

'एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ।

खं वायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥'

इति हि पूर्वत्र प्राणादिपृथिव्यन्तं तत्त्वजातं जायमानत्वेन निर-

भाष्यका अनुवाद

अध्ययन करो, यह वेद और वेदाङ्गका पारंगत विद्वान् है) यह वचन उपाध्यायमें
सङ्गत होता है । परन्तु अदृश्यत्व आदि गुणवाले भूतयोनिका मूर्तिमान् रूप
कैसे सम्भव है ? सर्वात्मत्वविवक्षासे यह कहा गया है, विग्रहवत्त्वकी विवक्षासे
नहीं कहा गया, इसलिए दोष नहीं है । 'अहमन्नम०' (मैं अन्न हूं, मैं अन्नमक्षक
हूं) इत्यादिके समान ।

किन्तु दूसरे कहते हैं कि यह भूतयोनिके रूपका उपन्यास नहीं है,
क्योंकि इसका उत्पाचरूपसे उपन्यास है । 'एतस्माज्जायते०' (इससे प्राण,
मन, सब इन्द्रियां, आकाश, वायु, ज्योति, जल और विश्वको धारण
करनेवाली पृथिवी उत्पन्न होती है) इस प्रकार पूर्वमन्त्रमें प्राणसे आरम्भ करके
पृथिवीपर्यन्त तत्त्वसमूहका जायमानरूपसे श्रुतिने निर्देश किया है । आगे भी

रत्नप्रभा

आत्मनो विवक्षति, अफलत्वात्, तथा इहापि इत्याह—अहमन्नमिति ।

वृत्तिकृद्ग्राह्यां दूषयति—अन्ये पुनरिति । एष सर्वभूतान्तरात्मा सूत्रात्मा
एतस्माद् भूतयोनेः जायते इति श्रुत्यन्वयेन हिरण्यगर्भस्याऽत्र जायमानत्वेन
उपन्यासाद् इत्यर्थः । निरदिक्षद् अवोचद् इत्यर्थः । अग्नि शुद्धोको यस्य

रत्नप्रभाका अनुवाद

अमलत्वकी विवक्षा निष्फल है, उसी प्रकार यहाँ भी है, ऐसा कहते हैं—“अहमन्नम्०” इत्यादिसे ।

श्रुतिकारकी व्याख्याको दूषित करते हैं—“अन्ये पुन” इत्यादिसे । सब भूतोंका
अन्तरात्मा यह सूत्रात्मा भूतयोनिसे उत्पन्न होता है, इस प्रकार श्रुतिके अन्वयसे यहाँ
हिरण्यगर्भका जायमानरूपसे उपन्यास है, ऐसा अर्थ है । निरदिक्षत्—कहा है । अग्नि

(१) भूतयोनि सबका आत्मा है, ऐसा कहनेकी इच्छासे ।

(२) इनके शरीर है, ऐसा कहने की विवक्षासे ।

भाष्य

दिक्षत् । उत्तरत्रापि च 'तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः' इत्येवमादि,
'अतश्च सर्वा ओपधयो रसाश्च' इत्येवमेतन्तं जायमानत्वेनैव निर्देक्षयति । इहैव
कथमकस्मादन्तराले भूतयोने रूपमुपन्यसेत् । सर्वात्मत्वमपि सृष्टिं परिसमा-
प्योपदेक्षयति—'पुरुष एवेदं विश्वं कर्म' (मु० २।१।१०) इत्यादिना ।
श्रुतिस्मृत्योश्च त्रैलोक्यशरीरस्य प्रजापतेर्जन्मादि निर्दिश्यमानमुपलभामहे—

'हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं धामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥'

भाष्यका अनुवाद

ध्रुति 'तस्मादग्नि०' जिसका समिध सूर्य है, वह अग्नि (ध्रुलोक) उसीसे उत्पन्न
हुई) यहांसे लेकर 'अतश्च०' (और इससे सब ओपधियां और रस उत्पन्न हुए)
यहां तक सबका जायमानरूपसे निर्देश करेगी । यहीं पर बीचमें एकदम
भूतयोनिके रूपका किस प्रकार उपन्यास किया ? सर्वात्मत्वका भी सृष्टिकी
परिसमाप्ति करके 'पुरुष एवेदं०' (पुरुष ही यह विश्व कर्म है) इत्यादिसे निर्देश
करेगी । त्रैलोक्य जिसका शरीर है, उस प्रजापतिके जन्मादिका निर्देश हम
श्रुति और स्मृतिमें देखते हैं । 'हिरण्यगर्भ०' (पहले हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ,
उत्पन्न होकर वह भूतोंका एकमात्र अधिष्ठाता हुआ, उसने ध्रुलोक और पृथिवीको

रत्नप्रभा

समिद्रूपः सूर्यः सोऽपि ध्रुलोकामिः । तस्मादजायतेत्यर्थः । "तस्य आदित्य एव
समित्" (छा० ५।४।१) इति श्रुत्यन्तरात् । अतो मध्येऽपि सृष्टिरेव वाच्या न
रूपमिति भावः । यदुक्तम्—'अग्निर्गूर्धा' इत्यत्र भूतयोनेः सर्वात्मत्वं विवक्षितमिति,
तत्र इत्याह—सर्वात्मत्वमपीति । ननु हिरण्यगर्भस्य जन्माऽन्यत्राऽनुक्तं कथमत्र
वक्तव्यम्, तत्राह—श्रुतीति । अग्रे समवर्तत जातः सन् भूतग्रामस्य एकः
पतिः ईश्वरप्रसादाद् अभवत् । सः सूत्रात्मा धामिमां पृथिवीं च स्थूलं सर्वम-

रत्नप्रभाका अनुवाद

—ध्रुलोक सूर्य जिसका समित् रूप है, वह ध्रुलोक रूप अग्नि भी उससे उत्पन्न हुई है,
ऐसा अर्थ है, क्योंकि दूसरी ध्रुतिमें भी "तस्य आदित्य एव समित्" (सूर्य ही उसका समिध
है) ऐसा प्रतिपादित है । जैसे पहले और अन्तमें सृष्टि कही गई है, वैसे मध्यमें भी सृष्टि
ही कहनी चादिए, रूप नहीं । अग्निर्गूर्धा' (अग्नि मस्तक है) इत्यादिमें भूतयोनिके सर्वा-
त्मत्वरूपकी विवक्षा है, यह कथन युक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं—'सर्वात्मत्वमपि' इत्यादिसे ।
यदि कोई कहे कि हिरण्यगर्भका जन्म अन्यत्र कहीं नहीं कहा गया, यहां पर कैसे कहते हो ?
इसपर कहते हैं—'ध्रुति' इत्यादिसे । हिरण्यगर्भ पहले उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर यह

भाष्य

(ऋ० सं० १०।१२।१) इति । समवर्ततेत्यजायतेत्यर्थः । तथा

‘स वै शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते ।

आदिकर्ता म भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत ॥’ इति च ।

विकारपुरुषस्याऽपि सर्वभूतान्तरात्मत्वं सम्भवति, प्राणात्मना सर्वभूताना-

र भाष्यका अनुवाद

धारण किया, ‘उस प्रजापतिदेवकी हविषसे परिचर्या करें) ‘समवर्तत’ का अर्थ है उत्पन्न हुआ । उसी प्रकार ‘स वै शरीरी०’ निश्चय वह प्रथम शरीरी एवं पुरुष कहलाता है, भूतोंका आदिकर्ता वह ब्रह्मा पहले-पहल उत्पन्न हुआ) विकार पुरुष भी सब भूतोंका अन्तरात्मा हो सकता है, क्योंकि वह प्राणरूपसे

रत्नप्रभा

धारयत् । कशब्दस्य प्रजापतिसंज्ञात्वे सर्वनामत्वाभावेन स्मे इत्ययोगाद् एकार-लोपेन एकस्मै देवाय प्राणात्मने हविषा विधेम परिचरेम इति व्याख्येयम्, “कतम एको देव इति प्राण ” (वृ० ३।९।९) इति श्रुते । यद्वा, यस्माद् अय जातस्तस्मै एकस्मे देवाय इत्यर्थे । “एको देव सर्वभूतेषु गूढ ” (श्वे० ६।११) इति श्रुत्यन्तरात् । ननु तस्य भूतान्तरात्मत्व कथम् तत्राऽऽह—विकारेति । पूर्वकल्पे प्रकृष्टोपासनाकर्मसमुच्चयानुष्ठानाद् अस्मिन् कल्पे सर्वप्राणिव्यष्टिलिङ्गाना व्यापक सर्वप्राण्यन्तर्गत ज्ञानकर्मेन्द्रियप्राणात्मक समष्टिलिङ्गशरीर जायते । तद्रूपस्य

रत्नप्रभाका अनुवाद

इक्षर प्रसादसे भूतसमूहका एकमात्र पति हुआ । उस सूत्रात्मान शुलेक, पृथिवी और सब स्थूल पदार्थोंको धारण किया । ‘कस्मै’—यहाँपर यदि प्रजापतिवाचक कशब्द ल, तो उसकी सर्वनामसंज्ञा न होगी और उसके अनन्तर आए हुए ‘हे’ प्रत्ययके स्थानमें ‘ह्यै’ न होगा । इसलिए एवारका लोप मानकर ‘कस्मै’ का अर्थ एकस्मै करना चाहिए और एक देव अर्थात् परमात्माकी हविषसे हम परिचर्या करें, ऐसा व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि ‘कतम एको०’ (कौन एक देव है, प्राण है) इस श्रुतिसे प्रतात होता है कि प्राणात्मा एक देव है । अथवा, निश्चयसे यह उत्पन्न हुआ है, उस एक देवकी [परिचर्या करें] ऐसा अर्थ करना चाहिए, क्योंकि ‘एको देव सर्वभूतेषु गूढ’ (एक देव सब भूतोंमें गूढ है) ऐसी दूसरी श्रुति है । यदि कोई शङ्का करे कि वह भूतोंका अन्तरात्मा किस प्रकार है ? इसपर कहते हैं—‘विकार इत्यादिसे । पूर्वकल्पमें उत्कृष्ट उपासना और कर्मोंके अनुष्ठानसे इस कल्पमें सब प्राणियोंके व्यष्टिलिङ्गका व्यापक, सब प्राणियों अन्तर्गत एवं ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और प्राणात्मक समष्टिरूप लिङ्गशरीर उत्पन्न होता है । तद्रूप सूत्रात्माका सर्वभूतोंका अन्तरात्मा होना युक्त है,

भाष्य

मध्यात्ममवस्थानात् । अस्मिन् पक्षे 'पुरुष एवेदं विश्वं कर्म' इत्यादिसर्व-
रूपोपन्यासः परमेश्वरप्रतिपत्तिहेतुरिति व्याख्येयम् ॥ २३ ॥

भाष्यका अनुवाद


सब भूतोंके शरीरमें स्थित है। इस पक्षमें 'पुरुष एवेदं विश्वं कर्म' (पुरुष ही कर्म, तप, ज्ञान और इनके फलरूप यह सारा प्रपञ्च है) इत्यादि सर्वात्मकताका उपन्यास परमेश्वरकी प्रतिपत्तिके अर्थ है, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए ॥ २३ ॥

रत्नप्रभा

सूत्रात्मनः सर्वभूतान्तरात्मत्वं युक्तमित्यर्थः । स्वपक्षे सूत्रार्थमाह—'अस्मिन् पक्षे इति ।
कर्म सफलं सर्वं श्रौतस्मार्तादिकं तपश्च पुरुष एव इति सर्वान्तरत्वरूपोपन्यासाच्च
भूतयोनौ ज्ञेये वाक्यं समन्वितमित्यर्थः ॥ २३ ॥ (६) ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

ऐसा अर्थ है। अपने मतानुसार सूत्रका अर्थ करते हैं—“अस्मिन् पक्षे” इत्यादिसे । धृति और स्मृतिमें प्रतिपादित फलसहित सब कर्म और तप पुरुष ही है इस प्रकार सर्वात्मकताके उपन्याससे भी ज्ञेय भूतयोनिमें वाक्यका समन्वय है, ऐसा अर्थ है ॥ २३ ॥



[७ वैश्वानराधिकरण सू० २४-३२]

वैश्वानरः कौक्षभूतदेवजीवेश्वरेषु कः । वैश्वानरात्मशब्दाभ्यामीश्वरान्येषु कश्चन ।
धुमूर्धत्वादितो ब्रह्मशब्दाच्चेत्पर इष्यते । वैश्वानरात्मशब्दो तावीश्वरस्यापि वाचको ॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—‘आत्मान वैश्वानरमुपास्ते’ इस धृतिमें उक्त वैश्वानर जटराग्नि है या भूताग्नि है या देवता है या जीव है अथवा परमेश्वर है ?

पूर्वपक्ष—वैश्वानर शब्द जटराग्निमें, भूताग्निमें एव देवतामें रूढ है और आत्मशब्द जीवका वाचक है, इसलिए ईश्वरको छोड़कर उक्त चारोंमेंसे कोई एक वैश्वानर शब्दसे बंधा गया है ।

सिद्धान्त—‘दुलोक उसका मस्तक है’ इस तरहसे वैश्वानरके अवयवोंका वर्णन है और ‘को न आत्मा, किं ब्रह्म’ इस प्रकार उपक्रम हुआ है, अतः वैश्वानर ब्रह्म ही है । वैश्वानरशब्द योगवृत्तिसे ब्रह्ममें समन्वित होता है और आत्मशब्द तो मुख्यवृत्तिसे ही ब्रह्मका वाचक है ।

छान्दोग्यके पंचम अध्यायमें वैश्वानरविषयमें यह धृति है—“आत्मान वैश्वानरमुपास्ते” (जो वैश्वानरकी आत्मरूपसे उपासना करता है) ।

यहा सशय होना है कि उक्त वैश्वानर उदरमें रहनवाला अग्नि है अथवा भूताग्नि है या देवता है किंवा जीवात्मा है या परमेश्वर है ?

पूर्वपक्षी कहता है कि वैश्वानरशब्दके प्रयागसे प्रथम तीन वैश्वानर है, क्योंकि ‘अयमग्निं वैश्वानरो योऽयमन्त पुरुषे येनेदमन्न पच्यते’ (यह अग्नि वैश्वानर है जो कि शरीरके भीतर है और जिससे खाया हुआ अन्न पचता है) इस धृतिमें वैश्वानरशब्द जटराग्निमें प्रयुक्त है । ‘विश्वरमा अग्निं भुवनाय देवा वैश्वानर वेतुमहामकुण्वन्’ (देवताओंने सध भुवनोंके लिए वैश्वानर अग्निको दिवसोंका चिह्न अयात् सूर्य बनाया) इन धृतिमें वैश्वानरशब्द ब्रह्म अग्निमें प्रयुक्त है । ‘वैश्वानरस्य सुमतौ स्वाम’ (वैश्वानरकी सुमतिमें हम लोग रहें अर्थात् हम लोगोंके प्रति वैश्वानरकी अच्छी बुद्धि हो) इस धृतिमें वैश्वानरशब्द देवतामें प्रयुक्त है । आत्मशब्दका प्रयोग है, अत जीवत्मा वैश्वानर हो सकता है, क्योंकि आत्मशब्द जीवमें रूढ है । ईश्वर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका बोधक कोई शब्द नहीं है ।

सिद्धान्ती कहते हैं कि वैश्वानर ब्रह्म है, क्योंकि दुलोक उसका मस्तक है इत्यादि सुना जाता है । ‘तस्य ह वा एतस्याऽऽत्मनो वैश्वानरस्य मूर्ध्व सुतेजाः’ (उस वैश्वानर आत्माका मस्तक अति तेजस्वी है) इत्यादिसे दुलोक आदि सम्पूर्ण जगत् वैश्वानरके अवयवरूपसे निर्दिष्ट है । सारे जगत्का अवयवो ईश्वरसे अन्य कोई नहीं हो सकता । और ‘को न आत्मा, किं ब्रह्म’ इस प्रकार उपक्रम हुआ है । ब्रह्मशब्द ईश्वरमें मुख्य है । वैश्वानरशब्द योगवृत्तिसे ब्रह्मका बोधक होता है । विश्वव्याप्तो नरश्च विश्वानरः’ अर्थात् सर्वात्मक पुरुष । विश्वानर ही वैश्वानर कहलाता है । आत्मशब्द जैसे जाववा वाचक है वैसे ब्रह्मका भी वाचक है, अत वैश्वानर परमेश्वर ही है ।

वैश्वानरः साधारणशब्दविशेषात् ॥२४॥

पदच्छेद—वैश्वानरः, साधारणशब्दविशेषात् ।

पदार्थोक्ति—वैश्वानरः—‘यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते’ इत्यादिश्रुतौ प्रतीयमानः वैश्वानरः [परमात्मैव, कुतः] साधारणशब्दविशेषात्—यद्यपि जाठरभूताग्न्यादित्यदेवतासु जीवपरमात्मनोश्च साधारणौ वैश्वानरात्मशब्दौ तथापि ‘मूर्धैव सुतेजाः’ इति विशेषणस्य परमात्मनि एव सम्भवात् ।

भाषार्थ—‘यस्त्वेतमेव०’ (जो प्रादेशमात्र, सर्वज्ञ, आत्मा वैश्वानरकी उपासना करता है, उसे सब भोग प्राप्त होते हैं) इत्यादि श्रुतिमें प्रतीयमान वैश्वानर परमात्मा ही है, क्योंकि यद्यपि वैश्वानरशब्द जठराग्नि, भूताग्नि और सूर्यका प्रतिपादक है एवं आत्मशब्द जीव तथा ब्रह्मका प्रतिपादक है, तो भी ‘मूर्धैव सुतेजाः’ यह विशेषण परमात्मामें ही सङ्गत होता है ।



भाष्य

‘को न आत्मा किं ब्रह्म’ इति, ‘आत्मानमेवेमं वैश्वानरं संप्रत्यध्ये-
भाष्यका अनुवाद

‘को न आत्मा किं ब्रह्म’ (हमारा आत्मा कौन है, ब्रह्म क्या है) ऐसा

रत्नप्रभा

छान्दोग्यमुदाहरति—को न इति । प्राचीनशालसत्ययज्ञेन्द्रद्युम्नजनकबुडिला मिलित्वा भीमांसां चक्रुः—‘को न आत्मा किं ब्रह्म’ (छा० ५।१।१) इति । आत्मैव ब्रह्मेति ज्ञापनार्थं पदद्वयम् । ते पञ्चाऽपि निश्चयार्थम् उद्दालकमाजमुः । सोऽपि सम्यक् न वेद इति तेन उद्दालकेन सह पडपि अश्वपतिं कैकेयं राजानमागत्य उचुः—‘आत्मानमिति । “अध्येषि”

रत्नप्रभाका अनुवाद

‘वैश्वानरः साधारणशब्दविशेषात्’ । छान्दोग्यवाक्यको उद्धृत करते हैं—‘को न.’ इत्यादिसे । उपमन्युपुत्र प्राचीनशाल, पुल्लके पुत्र सत्ययज्ञ, भाष्यविके पुत्र इन्द्रद्युम्न, शर्कराक्षपुत्र जनक और अश्वतराश्वके पुत्र बुडिल, इन पाँचोंने मिलकर विचार किया—‘को न आत्मा०’ (हमारी आत्मा कौन है, ब्रह्म क्या है) । आत्मा ही ब्रह्म है, यह सूचित करनेके लिए दो पद दिये गये हैं । निश्चय करनेकी इच्छासे वे पाँचों अरुणपुत्र उद्दालकके पास गये । वह भी आत्मस्वरूपको ठाक ठीक नहीं जानता था । इसलिए उद्दालकको लेकर वे छहों अश्वपति

भाष्य

पि तमेव नो ब्रूहि' (छा० ५।११।१, ६) इति चोपक्रम्य द्युसूर्यवाय्वाकाशवारिपृथिवीनां सुतेजस्त्वादिगुणयोगमेकैकोपासननिन्दया च वैश्वानरं

भाष्यका अनुवाद

और 'आत्मानमेवेमं० (इस समय उस आत्मा वैश्वानरका ही तुम स्मरण करते हो उसीको हमसे कहो) ऐसा उपक्रम करके धु, सूर्य, वायु, आकाश, जल और पृथिवीमेंसे एक एककी उपासनाकी निन्दा कर, सुतेजस्त्व आदि गुणसम्बन्ध और

रत्नप्रभा

(छा० ५।११।६) "स्मरसि तमेव नो ब्रूहि" (छा० ५।११।६) इति । राजा तु तेषां भ्रान्तिनिरासार्थं तान् प्रत्येकमपृच्छत्—“कं त्वमात्मानमुपास्ते” “कं त्वमात्मानमुपास्ते” (छा० ५।१२—१६।१) इति । ते च प्राचीनशालादयः क्रमेण तं प्रत्येकमूचुः । “दिवमेव” (छा० ५।१२।१) अहं वैश्वानरं वेद्मि । “आदित्यमेव” (छा० ५।१३।१) अहं वेद्मि । “वायुमेव” (छा० ५।१४।१) “आकाशमेव (छा० ५।१५।१) “अप एव” (छा० ५।१६।१) “पृथिवीमेव” (छा० ५।१७।१) अहं वेद्मीति । ततो राजा द्युसूर्यादीनां षण्णां यथाक्रमेण सुतेजस्त्वविश्वरूपत्व-पृथग्बर्त्मात्मत्वबहुलत्वरयित्वप्रतिष्ठात्वगुणान् विधाय भवन्तो यदि मामपृष्ट्वा द्युसूर्यादिषु भगवतो वैश्वानरस्य अङ्गेष्वेव प्रत्येकं वैश्वानरत्वदृष्टयो भवेयुः, तदा क्रमेण मूर्धपातान्धत्वप्राणोत्क्रमणदेहविशीर्णत्ववस्तिभेदपादशोषा भवतां स्युरिति प्रत्येकोपासनं

रत्नप्रभाका अनुवाद

नामक कैरेयके पास जाकर बोले—“आत्मानम्” इत्यादि । ‘अध्येयि’—तुम आत्माका ही स्मरण करते हो, उस आत्माका हमें उपदेश करो । अश्वपति राजाने उनका भ्रम दूर करनेके लिए उनमेंसे प्रत्येकसे पूछा—“कं त्वमात्मानं” (तुम किसकी आत्मरूपसे उपासना करते हो, तुम किसकी आत्मरूपसे करते हो) । प्राचीनशाला आदिमेंसे प्रत्येकने क्रमसे उत्तर दिया—मैं धुलोकको ही वैश्वानर जानता हूँ, मैं आदित्यको ही वैश्वानर जानता हूँ, मैं वायुको ही वैश्वानर जानता हूँ, मैं आकाशको ही वैश्वानर समझता हूँ, मैं जलको ही वैश्वानर समझता हूँ, मैं पृथिवीको ही वैश्वानर समझता हूँ । उसके उपरान्त राजाने धुलोक, आदित्य, वायु, आकाश, जल और पृथिवी, इन छ.को क्रमसे सुतेजस्त्व,—पुच्छल तेजवाला होना, विश्वरूपत्व—सर्वस्वरूप होना, पृथग्बर्त्मात्मत्व—नानाविध गतिरूप स्वभाव, बहुलत्व—व्यापकपना, रयित्व—धनत्व और प्रतिष्ठात्व गुण धताकर कहा कि यदि तुम मुझसे न पूछते और भगवान् वैश्वानरके अङ्गभूत धुलोक, आदित्य आदि प्रत्येकको वैश्वानररूपसे जानते, तो तुमको क्रमसे मूर्धपात, अन्धत्व, प्राणोत्क्रमण, देहविशीर्णत्व, वस्तिभेद, पादशोषरूप अनर्थकी प्राप्ति होती । इस प्रकार प्रत्येककी उपासनाका निन्दा करके सुतेजस्त्वगुणवान् धुलोक इस

भाष्य

प्रत्येषां मूर्धादिभावमुपदिश्याऽऽज्ञायते—‘यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्व्वात्मस्वन्नमत्ति तस्य ह वा एतस्याऽऽत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धेव सुतेजाश्चक्षुर्विश्वरूपः

भाष्यका अनुवाद

वैश्वानरके प्रति इनके मूर्धादिभावका उपदेश करके श्रुति—‘यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रं’ (जो ऐसे प्रादेशमात्र अभिविमान वैश्वानरकी उपासना करता है, वह सब लोकोंमें, सब भूतोंमें, सब आत्माओंमें अन्नका भक्षण करता है । उस आत्मा वैश्वानरका मस्तक ही पुष्कल तेजवाला (द्युलोक) है, चक्षु विश्वरूप (सूर्य्य)

रत्नप्रभा

निन्दित्वा, सुतेजस्त्वगुणको द्युलोकोऽस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धा, विश्वरूपत्वगुणकः सूर्यो यस्य चक्षुरित्येवं द्युसूर्यादीनां मूर्धादिभावमुपदिश्य समस्तवैश्वानरध्यानविधिराज्ञायते—यस्त्वेतमिति । आभिमुख्येन—अपरोक्षतया विश्वं विमिमीते—जानाति इति अभिविमानः, तम्—सर्वज्ञं, सः—तदुपासकः, सर्वत्र भोगं भुङ्क्ते इत्यर्थः । लोकाः—भूरादयः, भूतानि—शरीराणि, आत्मानः—जीवाः, इति भेदः । सुष्ठु तेजः कान्तिर्यस्य द्युलोकस्य स सुतेजाः, विश्वानि रूपाणि अस्य सूर्यस्य—“एष शुक्ल एष नीलः” (छा० ८।६।१) इति श्रुतेः । पृथक् नानाविधं वर्त्म गमनम् आत्मा स्वभावो यस्य वायोः, स नानागतित्वगुणकोऽस्य प्राणः । बहुलत्वं व्यापित्वं तद्गुण आकाशः, अस्य सन्देहो देहमध्यम् । रयित्वं धनत्वं तद्गुणा आपो यस्य, वस्तिः—मूत्रस्थानम्

रत्नप्रभाका अनुवाद

आत्मा वैश्वानरका मस्तक है, विश्वरूपत्वगुणाविशिष्ट आदित्य उसका नेत्र है इत्यादि प्रकारसे द्यु, सूर्य आदिका मस्तक, नेत्र आदिके रूपसे उपदेश करके राजा समस्त—संपूर्ण वैश्वानरकी ध्यानविधिका प्रतिपादन करता है—“यस्त्वेतम्” इत्यादिसे । आभिविमानम्—प्रत्यक्षरूपसे विश्वको जाननेवाला—सर्वज्ञ । जो ऐसे तथोक्त सुमूर्धादि अवयवविशिष्ट प्रादेशपरिमाण, अभिविमान आत्माको जानता है, वह द्युलोक आदि सर्वलोकोंमें, स्थावर-जङ्गम भूतोंमें, देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, जीवरूप सब आत्माओंमें अन्न भक्षण करता है अर्थात् सर्वत्र भोग प्राप्त करता है । लोक—भू. आदि लोक, भूत—शरीर, आत्मा—जीव । जिसका (द्युलोकका) तेज—कान्ति सुन्दर है वह सुतेजा, विश्वरूप—सब रूप हैं जिसके—सूर्यके वह विश्वरूप, क्योंकि ‘एष शुक्ल’ (यह सूर्य देवत है, यह नील है) इत्यादि श्रुति है, पृथक्—अनेक प्रकारका गमन—स्वभाव है जिसका—वायुका, वह अनेक गतिवाला वायु इमका प्राण है, बहुलत्वं—व्यापकता गुणवाला आकाश इसका मध्यदेह है, रयित्व—

भाष्य

प्राणः पृथग्वर्त्मात्मा सन्देहो बहुलो वस्तिरेव रयिः पृथिव्येव पादाद्युर
एव वेदिलोमानि बर्हिर्हृदयं गार्हपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमाहव-
नीयः' (छा० ५।१।८।२) इत्यादि । तत्र संशयः—किं वैश्वानरशब्देन
जाठरोऽग्निरुपदिश्यते, उत भूताग्निः, अथ तदमिमानीनी देवता, अथवा
शारीरः, आहोस्वित् परमेश्वर इति ? किं पुनरत्र संशयकारणम् ? वैश्वानर
इति जाठरभूताग्निदेवतानां साधारणशब्दप्रयोगादात्मेति च शारीरपरमे-
श्वरयोः । तत्र कस्योपादानं न्याय्यम्, कस्य वा हानमिति भवति
संशयः । किं तावत् प्राप्तम् ?

भाष्यका अनुवाद

है, प्राण नाना प्रकारकी गतिवाला (वायु) है, देहका मध्यभाग आकाश है,
मूत्रस्थान ही धन (जल) है, पाद पृथिवी है, उरःस्थान वेदी है, लोम बर्हि
हैं, हृदय गार्हपत्य अग्नि है, मन अन्वाहार्य है और मुख आहवनीय है) इत्यादि
कहती है । यहां संशय होता है कि वैश्वानरशब्दसे जठराग्निका उपदेश किया
जाता है अथवा भूताग्निका अथवा उसके अमिमानी देवताका अथवा जीवका
अथवा परमेश्वरका । प्रश्न उठता है कि यहां संशयका कारण क्या है ? जठ-
राग्नि, भूताग्नि और देवतामें समभावसे लागू होनेवाले वैश्वानरशब्दका प्रयोग
एवं शारीर और परमेश्वरमें समभावसे लागू होनेवाले आत्माशब्दका प्रयोग है ।
उनमेंसे किसका ग्रहण उचित है और किसका त्याग ऐसा संशय होता है ? तब
क्या प्राप्त होता है ?

रत्नप्रभा

प्रतिष्ठात्वगुणा पृथिवी तस्य पादौ । तस्य होमाधारत्व सम्पादयति—उर एवेत्य-
दिना । पूर्वमुपक्रमस्यादृश्यत्वादिसाधारणधर्मस्य वाक्यशेषस्यसर्वज्ञत्वादिलिङ्गेन
ब्रह्मनिष्ठत्वमुक्तम्, तद्बदत्राऽपि उपक्रमस्यसाधारणवैश्वानरशब्दस्य वाक्यशेषस्यहोमा-
धारत्वलिङ्गेन जाठरनिष्ठत्वमिति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति—किं तावदित्यादिना । पूर्वो-
रत्नप्रभाका अनुवाद

धन होना, यह गुणवाले जल इसके मूत्रस्थान हैं, प्रतिष्ठात्व गुणवाली पृथिवी इसके पाद हैं ।
“उर एव” इत्यादि वाक्यसे कहा है किं यह वेदवानर होमका आधार होता है । जैसे
पूर्व अधिकरणमें वाक्यके आरम्भमें ज्ञायमान अदृश्यत्व आदि साधारण (ब्रह्म और
प्रधान दोनोंमें रहनेवाले) धर्म वाक्यशेषमें स्थित सर्वज्ञत्व आदि लिंगोंसे ब्रह्मपरक कहे
गये हैं, उसी प्रकार यहां भी उपक्रममें स्थित साधारण वेदवानरशब्द वाक्यशेषमें स्थित
होमाधारत्वलिङ्गसे जठराग्निपरक है, इस प्रकार दृष्टान्तसंगतिसे पूर्वपक्ष करते हैं—“किं तावद्”

भाष्य

जाठरोऽग्निरिति । कुतः ? तत्र हि विशेषेण क्वचित्प्रयोगो दृश्यते—
‘अयमग्निर्वैश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते यदिदमघते’ (बृ०
५।१।१) इत्यादौ । अग्निमात्रं वा स्यात्, तत्सामान्येनाऽपि प्रयोगदर्शनात्
‘विश्वस्मा अग्निं भुवनाय देवा वैश्वानरं केतुमहामकृष्वन्’ (ऋ० सं०
१०।८८।१२) इत्यादौ । अग्निशरीरा वा देवता स्यात्, तस्यामपि प्रयोग-
दर्शनात्—‘वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि कं भुवनानामभिथ्रीः’

भाष्यका अनुवाद

पूर्वपक्षी—जठराग्नि प्राप्त होती है । किससे ? क्योंकि उसमें ही कहीं कहीं
निश्चितरूपसे वैश्वानर शब्दका प्रयोग देवनेमें आता है—‘अयमग्निर्वैश्वानरोऽ’ (यह
अग्नि वैश्वानर है, जो इस पुरुषके अन्दर है, जिससे खाया हुआ अन्न पचता है)
इत्यादिमें । अथवा भूताग्नि हो सकती है, क्योंकि सामान्यतः अग्निमें भी वैश्वानरका
प्रयोग देवनेमें आता है—‘विश्वस्मा अग्निं भुवनाय देवाऽ’ (सब भुवनोंके लिए
देवताओंने वैश्वानर अग्निको दिवसका चिह्न बनाया) इत्यादिमें । अथवा
अग्निका अधिष्ठाता देवता हो सकता है, क्योंकि उसमें भी वैश्वानरशब्दका प्रयोग
देखा जाता है—‘वैश्वानरस्य सुमतौऽ’ (हमें वैश्वानरकी सुमतिमें रहना चाहिए,
क्योंकि वह सुख देनेवाला भुवनोंका राजा है और श्री उसके अभिमुख है)

रत्नप्रभा

चरपक्षयोः जाठरब्रह्मणोर्ध्यानं फलम् । यदघते तदन्नम्, येन पच्यते सोऽयं पुरुषे
शरीरेऽन्तरस्तीत्यर्थः । पक्षान्तरमाह—अग्निमात्रं वेति । विश्वस्मै भुवनाय विश्वान-
नरम् अग्निम् अह्नां केतुं चिह्नं सूर्यं देवाः अकृष्वन् कृतवन्तः । सूर्योदये दिन-
व्यवहारादित्यर्थः । स्वाद्वैश्वानर इत्यनुपङ्गः । हि यस्मात् कं सुखप्रदो भुवनानां
राजा वैश्वानरोऽभिमुखा श्रीरस्येति अभिथ्रीः ईश्वरः तस्मात्तस्य वैश्वानरस्य सुमतौ
वयं स्याम । तस्याऽस्सद्विषया शुभमतिर्भवतु इत्यर्थः । पक्षत्रयेऽप्यरुचिं वदन्

रत्नप्रभाका अनुवाद

इत्यादिसे । पूर्वपक्षमें जठराग्निका ध्यान और उत्तरपक्षमें ब्रह्मध्यान फल है । जो खाया
जाता है, वह अन्न जिससे पचता है, वह अग्नि पुरुषशरीरके भीतर है, यह अर्थ है ।
पक्षान्तर कहते हैं—‘अग्निमात्रं वा’ इत्यादिसे । देवताओंने सब भुवनोंके लिए वैश्वानर
अग्निको दिवसोंका चिह्न अर्थात् सूर्य बनाया । दिवसोंका केतु सूर्य है, क्योंकि सूर्योदय होनेपर
दिन माना जाता है । ‘अग्निशरीरा वा देवता स्यात्’ इसके बाद ‘वैश्वानरः’ इस पदकी
अनुवृत्ति करनी चाहिए । क्योंकि भुवनोंका यह राजा सुखका हेतु है, और अभिमुख है
श्री जिसकी वह अभिथ्री कहलाना है । इसलिए उस वैश्वानरकी शुभ बुद्धिमें हम लोग रहें ।

भाष्य ।

(ऋ० सं० १।९८।१) इत्येवमाद्यायाः श्रुतेर्देवतायामैश्वर्याद्युपेतायां सम्भवात् । अथाऽऽत्मशब्दसामानाधिकरण्यादुपक्रमे च 'को न आत्मा किं ब्रह्म' इति केवलात्मशब्दप्रयोगादात्मशब्दवशेन च वैश्वानरशब्दः परिणेतव्य इत्युच्यते, तथापि शरीर आत्मा स्यात्, तस्य भोक्तृत्वेन वैश्वानरसंनिर्कर्षात् । प्रादेशमात्रमिति च विशेषणस्य तस्मिन्नुपाधिपरिच्छिन्ने सम्भवात् । तस्मान्नेश्वरो वैश्वानर इति ।

एवं प्राप्तं तत् इदमुच्यते—वैश्वानरः परमात्मा भवितुमर्हतीति ।
भाष्यका अनुवाद

इत्यादि श्रुतिसे ऐश्वर्य आदिसे युक्त देवताके लिए वैश्वानरशब्दका प्रयोग संभव है । यदि आत्मशब्दके सामानाधिकरण्यसे और आरम्भमें 'को न आत्मा किं ब्रह्म' (कौन हमारा आत्मा है ब्रह्म क्या है) इस प्रकार केवल आत्मशब्दका प्रयोग होनेके कारण आत्मशब्दके अनुरोधसे वैश्वानरशब्द आत्मपरक है, ऐसा मान लिया जाय, तो भी वह जीवात्मापरक ही हो सकता है, क्योंकि भोक्ता होनेके कारण वह वैश्वानरके समीप है । और दूसरी बात यह भी है कि प्रादेशमात्र विशेषण उपाधिपरिच्छिन्न शरीरमें ही संगत होता है । इसलिए वैश्वानर ईश्वर नहीं है ।

सिद्धान्ती—ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं—वैश्वानर परमात्मा ही है,

रत्नप्रभा

कल्पान्तरमाह—अथेत्यादिना । “आत्मा वैश्वानरः” इति श्रुतेरित्यर्थः । केवलत्वं वैश्वानरशब्दशून्यत्वम् । अत्र जाठरो वैश्वानर इति मुख्यः पूर्वपक्षः, प्राणाग्निहोत्रहोमाधारत्वलिङ्गात् । तस्य देहव्यापित्वादात्मत्वम्, श्रुत्या द्युमूर्धत्वादिकल्पनया बृहत्त्वाद् ब्रह्मत्वमिति ध्येयम् ।

सिद्धान्तयति—तत् इदमिति । साधारणश्रुत्योरुपक्रमस्थयोर्विशेषात् प्रथम-
रत्नप्रभाका अनुवाद

अर्थात् हमपर वैश्वानरकी शुभ बुद्धि हो । तीनों पक्षोंमें अरुचि—असन्तोष दिखलाकर दूसरा पक्ष कहते हैं—“अयं” इत्यादिसे । अर्थात् 'आत्मा वैश्वानरः' (आत्मा वैश्वानर है) इस श्रुतिमें आत्मशब्दका वैश्वानरशब्दके साथ सामानाधिकरण्य है । केवल आत्मशब्दका प्रयोग अर्थात् वैश्वानरशब्दके बिना केवल आत्मशब्दका प्रयोग । यहां प्राणाग्निहोत्रमें होमके आधाररूप लिङ्गसे जाठरग्नि वैश्वानर है, यह मुख्य पूर्वपक्ष है । वह देहव्यापी है, इसलिए आत्मा है और श्रुतिने शुक्लक मूर्धा है इत्यादि कल्पना की है, इसलिए बृहत्—महान होनेसे ब्रह्म है, यह समझना चाहिए ।

, माप्य

कुतः ? साधारणशब्दविशेषात् । साधारणशब्दयोर्विशेषः साधारणशब्द-
विशेषः । यद्यप्येतावुभावप्यात्मवैश्वानरशब्दौ साधारणशब्दौ, वैश्वानर-
शब्दस्तु त्रयाणां साधारणः, आत्मशब्दश्च द्वयोः, तथापि विशेषो दृश्यते,
येन परमेश्वरपरत्वं तयोरभ्युपगम्यते, 'तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य
मूर्ध्वं सुतेजाः' इत्यादिः । अत्र हि परमेश्वर एव द्युमूर्धत्वादिविशिष्टोऽव-

माप्यका अनुवाद

क्योंकि साधारणशब्द होनेपर भी कुछ विशेष है । साधारण शब्दोंका विशेष
साधारणशब्दविशेष कहलाता है । यद्यपि आत्मा और वैश्वानर ये दोनों शब्द
साधारण हैं, वैश्वानरशब्द तो तीन अर्थोंमें साधारण है और आत्मशब्द दो
अर्थोंमें, तो भी 'तस्य ह वा०' (उस आत्मारूप वैश्वानरका मस्तक ही अति-
तेजस्वी है) इत्यादि विशेष देखनेमें आता है जिससे कि वे परमेश्वरपरक हैं
ऐसा स्वीकार किया जाता है । मालूम होता है कि द्युमूर्धत्व आदि गुणविशिष्ट

रत्नप्रभा

श्रुतमुख्यत्रैलोक्यशरीरलिङ्गात् सर्वात्मकेश्वरपरत्वं युक्तम् । न चरमश्रुतकल्पित-
होमाधारत्वलिङ्गेन जाठरपरत्वमित्यर्थः । ननु निर्विशेषस्य कुतो विशेष इत्यत आह—
अत्र हीति । अवस्थान्तरगतः—त्रैलोक्यात्मना स्थित इत्यर्थः । जाठरस्याऽपि ध्यानार्थं
विशेषकल्पनेति चेत्, न; असत्कल्पनापत्तेः । ईश्वरस्य तु उपादानत्वाद् विशेषः

रत्नप्रभाका अनुवाद

सिद्धान्त कहते हैं—“तत इदम्” इत्यादिसे । आरम्भिक साधारण धृतियोंमें
(अनेकार्थ वैश्वानर और आत्मशब्दसे सम्बन्ध रखनेवाली धृतियोंमें) स्थित
वैश्वानर और आत्मशब्द विशेषसे—प्रथमप्रतिपादित मुख्य त्रैलोक्यशरीररूप लिङ्गसे
(सुलोक मूर्धा है, आदित्य नेत्र है, वायु प्राण है, इस प्रकार वैश्वानरका शरीर त्रैलोक्य-
रूप है, ऐसा प्रतिपादन हुआ है, इस लिङ्गसे) सर्वात्मक ईश्वरपरक हैं, यह युक्त है ।
परन्तु धृतिके अन्तमें प्रतिपादित कल्पितहोमाधारत्वरूप लिङ्गसे ('उर एव वेदिः' जिसमें
उरस्थानकी वेदीरूपसे कल्पना की गई है, उस चरम धृतिके लिङ्गसे) वैश्वानरशब्द जाठरपरक
नहीं है, ऐसा तात्पर्य है । परन्तु निर्विशेष ब्रह्ममें सुलोक मूर्धा है, आदित्य चक्षु है
इत्यादि विशेषकी कल्पना कैसे हो सकती है, इस शङ्काका निवारण करनेके लिए कहते हैं—“अत्र
हि” इत्यादिसे । 'अन्य अवस्थाको प्राप्त हुआ'—त्रैलोक्यरूपसे, रहा हुआ । परन्तु जाठरपरक
की भी ध्यानके लिए विशेष कल्पना हो सकती है, यह शङ्का ठीक नहीं है, क्योंकि
असत्कल्पना करनी पड़ेगी । परन्तु ईश्वरका ता उपादान होनेसे विशेष (द्युमूर्धत्वादिरूप)

भाष्य

स्थान्तरगतः प्रत्यगात्मत्वेनोपन्यस्त आध्यानायेति गम्यते, कारणत्वात् । कारणस्य हि मर्वाभिः कार्यगताभिरवस्थाभिरवस्थावत्त्वाद् द्युलोकाद्यवयवत्वमुपपद्यते । 'स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्व्वात्मस्वन्नमत्ति' इति च सर्वलोकाद्याश्रयं फलं श्रूयमाणं परमकारणपरिग्रहे सम्भवति । 'एवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते' (छा० ५।२४।३) इति च तद्विदः सर्वपाप्मप्रदाहश्रवणम् । 'को न आत्मा किं ब्रह्म' इति चाऽऽत्मब्रह्मशब्दाभ्यामुपक्रम इत्येवमेतानि लिङ्गानि परमेश्वरमेवाऽवगमयन्ति । तस्मात् परमेश्वर एव वैश्वानरः ॥ २४ ॥

भाष्यका अनुवाद

अधिदैव-विराट् अवस्थाको प्राप्त हुआ परमेश्वर ही ध्यानके लिए प्रत्यगात्मरूपसे यहां कहा गया है, क्योंकि वह कारण है । वस्तुतः कारण कार्यगत सब अवस्थाओंसे अवस्थावाला होता है, इसलिए परमेश्वरके द्युलोक आदि अवयव हो सकते हैं । 'स सर्वेषु लोकेषु' (वह सब लोकोंमें, सब भूतोंमें और सब आत्माओंमें अन्नभक्षण करता है) इस प्रकार सर्वलोकगत फलका श्रुति जो प्रतिपादन करती है, वह परम कारणके ग्रहणसे ही सम्भव होता है । 'एवं हास्य सर्वे' (निस्सन्देह इस प्रकार उसके सब पाप जल जाते हैं) इस प्रकार भी उसके ज्ञाताके सब पापोंके नाशकी श्रुति और 'को न आत्मा किं ब्रह्म' इस प्रकार आत्मा और ब्रह्मशब्दोंसे उपक्रम ये सब लिङ्ग परमेश्वरका ही ज्ञान कराते हैं । इसलिए परमेश्वर ही वैश्वानर है ॥ २४ ॥

रत्नप्रभा

सन्नेव ध्यानार्थमुच्यतामित्याह—कारणत्वादिति । लिङ्गान्तराणि आह—स सर्वेष्वित्यादिना । यथाऽग्नौ विक्षिप्तमिर्पीकानूल दह्यते, एव हास्य—विदुष इत्यर्थः ॥ २४ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद


यत् ही है, वही ध्यानके लिए शुभूर्धत्व आदिसे युक्त कहा जाता है, ऐसा कहते हैं—'कारणत्वात्' इत्यादिसे । और वैश्वानर परमात्मा है, उसके दूसरे लिङ्ग कहते हैं—'स सर्वेषु' इत्यादिसे । जैसे अग्निमें जाले हुए मूँजकी रूई जल जाती है, उसी प्रकार इस विद्वानके सब पाप—कर्म जो अनर्थके हेतु हैं, वे जल जाते हैं यह 'एवं हास्य सर्वे' इत्यादि श्रुतिका अर्थ है ॥२४॥

स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति ॥२५॥

पदच्छेद—स्मर्यमाणम्, अनुमानम्, स्यात्, इति ।

पदार्थोक्ति—स्मर्यमाणम्—‘यस्याग्निरास्यं द्यौर्मूर्धा’ इत्यादिस्मृत्युक्तं त्रैलोक्यात्मकं रूपम्, स्वमूलभूतां श्रुतिमनुमापयत् अनुमानम्—(परमात्मनः) ज्ञापकम्, स्यात्—भवति, इति—तस्मात् (वैश्वानरः परमात्मैव) ।

भाषार्थ—‘यस्याग्निरास्यं०’ (जिसका अग्नि मुख है, दुलोक मस्तक है) इत्यादि स्मृतिसे प्रतिपादित त्रैलोक्यात्मक रूप अपनी मूलभूत श्रुतिका अनुमान कराता हुआ परमात्माका ज्ञापक है, अतः वैश्वानर परमात्मा ही है ।



भाष्य

इतश्च परमेश्वर एव वैश्वानरः, यस्मात् परमेश्वरस्यैव ‘अग्निरास्यं द्यौर्मूर्धा’ इतीदृशं त्रैलोक्यात्मकं रूपं स्मर्यते—

‘यस्याग्निरास्यं द्यौर्मूर्धा खं नामिश्वरणौ क्षितिः ।

सूर्यश्चक्षुर्दिशः श्रोत्रं तस्मै लोकात्मने नमः’ ॥ इति ।

(म० भा० शा० ४७/६८)

तत् स्मर्यमाणं रूपं मूलभूतां श्रुतिमनुमापयदस्य वैश्वानरशब्दस्य परमेश्वरपरत्वेऽनुमानं लिङ्गं गमकं स्यादित्यर्थः । इतिशब्दो हेत्वर्थः ।

भाष्यका अनुवाद

और इससे भी परमेश्वर ही वैश्वानर है, क्योंकि उसका अग्नि मुख है, दुलोक मस्तक है, इत्यादि परमेश्वरके ही त्रैलोक्यात्मक रूपका स्मृति प्रतिपादन करती है । ‘यस्याग्निरास्यं०’ (जिसका अग्नि मुख, दुलोक मस्तक, आकाश नामि, पृथिवी चरण, सूर्य नेत्र और दिशाएँ कान हैं, उस त्रैलोक्यात्माको नमस्कार है) यह स्मर्यमाण रूप मूलभूत श्रुतिका अनुमान कराता हुआ वैश्वानरके परमेश्वरपरक होनेमें ज्ञापक है । सूत्रगत इति शब्दका हेतु अर्थ है । अर्थात् उक्त रूप

रत्नप्रभा

स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति । ननु असदारोपेण अपि स्तुतिसम्भवाद् न

रत्नप्रभाका अनुवाद

यदि कोई कहे कि मिथ्या आरोपसे भा स्तुतिका सम्भव है, इसलिए मूलश्रुतिकी अपेक्षा

भाष्य

यस्मादिदं गमकं तस्मादपि वैश्वानरः परमात्मैवेत्यर्थः । यद्यपि स्तुतिरियं 'तस्मै लोकात्मने नमः' इति तथापि स्तुतित्वमपि नाऽसति मूलभूते वेद-वाक्ये सम्यगीदृशेन रूपेण सम्भवति ।

'द्यां मूर्धानं यस्य विप्रा वदन्ति खं वै नाभिं चन्द्रसूर्यां च नेत्रे ।

दिशः श्रोत्रे विद्धि पादौ क्षितिं च सोऽचिन्त्यात्मा सर्वभूतप्रणेता' ॥
इत्येवंजातीयका च स्मृतिरिहोदाहर्तव्या ॥२५॥

भाष्यका अनुवाद


झापक है, इससे भी वैश्वानर परमात्मा ही है । यद्यपि 'तस्मै लोकात्मने नमः' (उस लोकात्माके लिए नमस्कार है) यह स्तुति है, तो भी मूलभूत, वेद-वाक्यके अभावमें उस रूपसे स्तुति भी नहीं हो सकती । 'द्यां मूर्धानं' (विद्वान् शुलोकको जिसका मस्तक, आकाशको नाभी, चन्द्रसूर्यको नेत्र, दिशाओंको कान पृथिवीको पाद कहते हैं, वह अचिन्त्य आत्मा सब भूतोंका प्रणेता है, ऐसा जानो) ऐसी स्मृति भी उदाहरणरूपसे यहां कहनी चाहिये ॥२५॥

रत्नप्रभा

मूलश्रुत्यपेक्षा इत्याशङ्क्याह—यद्यपि स्तुतिरिति । तथापि इति पदमर्थतः पठति—
स्तुतित्वमपीति । द्युमूर्धत्वादिरूपेण स्तुतिः नरमात्रेण कर्तुमशक्या विना श्रुति-मित्यर्थः । सता रूपेण स्तुतिसम्भवाद् नाऽसदारोप इति भावः ॥ २५ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

नहां है, यह शङ्का दूर करनेको कहते हैं—“यद्यपि स्तुतिः” इत्यादि । “स्तुतित्वमपि” इससे 'तथापि' पद अर्थात् कहा गया है । आकाश जिसका मस्तक है इत्यादि स्तुतिके श्रुतिके बिना सब मनुष्य नहीं कर सकते । सद्रूपमें स्तुतिका सम्भव है, इसलिए असदारोप युक्त नहीं है ॥२५॥



शब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथादृष्ट्यु-
पदेशादसंभवात् पुरुषमपि चैनमधीयते ॥ २६ ॥

पदच्छेद—शब्दादिभ्यः, अन्तःप्रतिष्ठानात्, च, न, इति, चेत्, न, तथा,
दृष्ट्युपदेशात्, असम्भवात्, पुरुषम्, अपि, च, एनम्, अधीयते ।

पदार्थोक्ति—शब्दादिभ्यः—वैश्वानरशब्दाग्नित्रेताकरूपनप्राणाहुत्याधारता-
सङ्कीर्तनेभ्यः, अन्तःप्रतिष्ठानाच्च—शरीरान्तःस्थितिश्च वणाच्च, न—न वैश्वानरः
परमात्मा, इति चेत्, न, तथा—तस्मिन् जाठरे, दृष्ट्युपदेशात्—परमात्मदृष्टे-
रुपदेशात्, असम्भवात्—जाठरे 'मूर्धैव सुतेजाः' इत्यादेरसम्भवात्, च—किञ्च,
एनम्—वैश्वानरम्, पुरुषमपि, अधीयते—पठन्ति [वाजसनेयिनः, अतः वैश्वा-
नरः परमात्मैवेति सिद्धम्] ।

भाषार्थ—जाठराग्नि आदि अग्निमें वैश्वानरशब्द रूढ़ है, उसका हृदय गार्ह-
पत्य है इस प्रकारसे तीन अग्नियोंकी कल्पना की गई है, वह प्राणाहुतिका
आधार कहा गया है और श्रुतिमें शरीरके अन्दर रहनेवाला कहा गया है इन
कारणोंसे वैश्वानर परमात्मा नहीं हो सकता । यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि
जाठर अग्निमें परमात्मदृष्टिका उपदेश है और उसका चुलोक मस्तक और सूर्य नेत्र
नहीं हो सकता एवं वाजसनेयी लोग वैश्वानरको पुरुष कहते हैं, [जाठराग्नि तो
पुरुष नहीं है] अतः वैश्वानर परमात्मा ही है ।



भाष्य

अत्राऽऽह—न परमेश्वरो वैश्वानरो भवितुमर्हति । कुतः ? शब्दादि-
भ्योऽन्तःप्रतिष्ठानाच्च । शब्दस्तावद्वैश्वानरशब्दो न परमेश्वरे सम्भवति,

भाष्यका अनुवाद

पूर्वपक्षी—परमेश्वर वैश्वानर नहीं हो सकता है । किससे ? शब्दादिसे
और अन्तःप्रतिष्ठानसे । प्रथम तो शब्द—वैश्वानर शब्द का परमेश्वरके लिए

रत्नप्रभा

शब्दादीनां गतिं वक्तुमुक्तसिद्धान्तमाक्षिप्य समाधत्ते—शब्दादिभ्य इति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

शब्द आदियोंका गति कहनेके लिए सिद्धान्तका दूसरे प्रकारसे आशेष करके समाधान

भाष्य

अर्थान्तरे रूढत्वात् । तथाऽग्निशब्दः 'स एषोऽग्निर्वैश्वानरः' इति ।
आदिशब्दात् 'हृदयं गार्हपत्यः' (छा० ५।१।८।२) इत्याद्यग्नित्रेताप्रकल्प-
नम् । 'तद्यज्ञकं प्रथममागच्छेत्तद्धोमीयम्' (छा० ५।१।०।१) इत्यादिना
च प्राणाहुत्यधिकरणतासंकीर्तनम् । एतेभ्यो हेतुभ्यो जाठरो वैश्वानरः
प्रत्येतव्यः । तथाऽन्तःप्रतिष्ठानमपि श्रूयते—'पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद'

भाष्यका अनुवाद

प्रयोग सम्भव नहीं है, क्योंकि वह अन्य अर्थमें रूढ़ है। उसी प्रकार, स एषोऽग्नि-
र्वैश्वानरः' (यह वैश्वानर अग्नि है) इसमें अग्निशब्दका परमेश्वरके लिए प्रयोग
सम्भव नहीं है। (शब्दादिके) आदिशब्दसे 'हृदयं गार्हपत्यः' (हृदय गार्हपत्य
है) इत्यादि तीन अग्निओं की कल्पना की गई है और 'तद्यज्ञकं' (उसमें जो
अन्न प्रथम आवे, वह होमसाधन है) इत्यादिसे प्राणाहुतिका (वैश्वानर)
अधिकरण कहा गया है। इन हेतुओंसे वैश्वानरसे जठराग्निका ग्रहण उचित है।
उसी प्रकार अन्तःप्रतिष्ठान भी श्रुतिमें कहा गया है 'पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद'

रत्नप्रभा

"स एषोऽग्निर्वैश्वानरः" (शत० ब्रा० १०।६।१।११) इत्यग्निरहस्ये वैश्वानर-
विद्यायां श्रुतोऽग्निशब्द ईश्वरे न सम्भवति इत्यन्वयः । सूत्रस्यादिशब्दार्थमाह—
आदिशब्दादिति । भक्तम्—अन्नम्, होमीयम्—होमसाधनम् । तेन प्राणामिहोत्रं
कार्यमित्यर्थः । वाजसनेयिनामग्निरहस्ये सप्रपञ्चां वैश्वानरविद्यामुक्त्वा—“स यो
हैतमग्निं वैश्वानरं पुरुषविधं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद स सर्वज्ञानमग्निं” (शत०
ब्रा० १०।६।१।११) इत्युक्तं देहान्तःस्वत्वं जाठरे सम्भवति प्रसिद्धेरित्याह—
तथेति । अत्र सूत्रे आदिपदेन एवाऽन्तःप्रतिष्ठानस्य ग्रहे सम्भवति पृथगुक्तिः

रत्नप्रभाका अनुवाद

करते हैं—“शब्दादिभ्यः” इत्यादिसे । 'एषोऽग्निर्वैश्वानरः' इस अग्निरहस्यकी वैश्वानरविद्यामें
पठित अग्निशब्द परमेश्वरपरक नहीं है—ऐसा अन्वय है। सूत्रगत आदि शब्दका अर्थ करते
हैं—“आदिशब्दात्” इत्यादिसे । भक्त—अन्न । होमीय—होमसाधन । भोजनकालमें जो अन्न
प्राप्त हो, उससे प्राणामिहोत्र करना चाहिए । वाजसनेयी शाखाके अग्निरहस्यमें वैश्वानरविद्याका
विचारपूर्वक विवेचन करके 'स यो हैतमग्निं' जो पुरुष इस वैश्वानर अग्निकी पुरुषसदृश पुरुषमें
अन्तःप्रतिष्ठितरूपसे उपासना करता है वह सर्वज्ञ अन्नका भोग करता है—इस श्रुतिमें कथित
देहके भीतर रहना जठराग्निमें ही सम्भव है, क्योंकि यह बात प्रसिद्ध है ऐसा कहते हैं—“तथा”
इत्यादिसे । यहाँ सूत्रस्थ आदि पदसे ही अन्तःप्रतिष्ठानका ग्रहण संभावित है, तो भी जो

भाष्य

इति । तच्च जाठरे सम्भवति । यदप्युक्तम्—मूर्ध्वं सुतेजा इत्यादेर्विशेषात्
कारणात् परमात्मा वैश्वानर इति । अत्र घूमः—कुतो घेष निर्णयः,
यदुभयथापि विशेषप्रतिभाने सति परमेश्वरविषय एव विशेष आश्रयणीयो
न जाठरविषय इति । अथवा भूताग्नेरन्तर्बहिश्चाज्यतिष्ठमानस्यैव निर्देशो
भविष्यति । तस्यापि हि द्युलोकादिसम्बन्धो मन्त्रवर्णादवगम्यते—‘यो
भानुना पृथिवीं द्यामुतेमामाततान रोदसी अन्तरिक्षम्’ (ऋ० सं० १० ।

भाष्यका अनुवाद

(पुरुषके भीतर स्थितको यह जानता है) । और यह जठरामिमें संभव है ।
और ‘मूर्ध्वं सुतेजाः’ (मस्तक ही पुष्कल तेजवाला है) इत्यादि विशेषरूप
कारणसे वैश्वानर परमात्मा है, ऐसा जो कहा है, इसके लिए कहते हैं—ऐसा
निर्णय कैसे हो सकता है कि दोनों प्रकारके विशेषका प्रतिभान होने पर भी
परमेश्वरविषयक विशेषका ही आश्रयण करना और जठरामिविषयक विशेषका
आश्रयण नहीं करना चाहिये । अथवा भीतर और बाहर रहे हुए अमिका यह निर्देश
होगा, क्योंकि उसका भी द्युलोकादिके साथ सम्बन्ध इस मन्त्रवर्णसे जाना जाता है—
‘यो भानुना पृथिवीं’ (जिसने—भूतामिने इस पृथिवी, द्युलोक और अन्तरिक्षको

रत्नप्रभा

साधारणलिङ्गत्वद्योतनार्था । शब्दादिबलविदमपि जाठरं गमयति इति अभ्युचयः ।
यद्यपि द्युमूर्द्धत्वादिविशेषः ईश्वरपक्षपाती होमाधारत्वादिः जाठरपक्षपातीति
प्रतिभानं समम्, तथापि पारमेश्वरो विशेषो जाठरे न सम्भवतीति बलवानित्यत
आह—अथवेति । एषः—द्युमूर्द्धत्वादिनिर्देश इत्यर्थः । इमाम्—पृथिवीम्,
द्यामपि, ते एव द्यावापृथिव्यौ रोदसी, तयोर्मध्यम् अन्तरिक्षं च यो भूतामिः,

रत्नप्रभाका अनुवाद

पृथक कहा है, वह अन्तः प्रतिष्ठान भी वैश्वानरका अर्थ जठरामि लेनेमें साधारण लिङ्ग-ज्ञापक
है, यह बतानेके लिए है । शब्द आदिके बलसे अन्तःप्रतिष्ठान भी जठरामिका गमक है, ऐसा
समुचय है । यद्यपि द्युमूर्द्धत्वादि विशेष ईश्वरपक्षपाती हैं, और होमाधारत्वादि विशेष
जठरामि पक्षपाती हैं, इसलिए दोनों पक्षोंका समानरूपसे भान होता है, तो भी परमेश्वरका
जठरामिमें सम्भव नहीं है, इसलिए वह पक्ष बलवान् है, इसलिए पूर्वपक्षी कहता है—“अथवा”
इत्यादि । ‘यह’—द्युमूर्द्धत्वादि निर्देश यह अर्थ है । यह पृथिवी और द्युलोक वे ही हुए रोदसी—
द्यावापृथिवी उनको, उनके मध्य अन्तरिक्षको जिस भूतामिने सूर्यरूपसे व्याप्त किया है, उसका

भाष्य

८८।३) इत्यादौ । अथवा तच्छरीराया देवताया ऐश्वर्ययोगाद् द्युलोका-
घवयवत्वं भविष्यति । तस्मान्न परमेश्वरो वैश्वानर इति ।

अत्रोच्यते—न, तथादृष्ट्युपदेशादिति । न शब्दादिभ्यः कारणेभ्यः
परमेश्वरस्य प्रत्याख्यानं युक्तम् । कुतः? तथा—जाठरापरित्यागेन
दृष्ट्युपदेशात् । परमेश्वरदृष्टिर्हि जाठरे वैश्वानर इहोपदिश्यते, 'मनो
ब्रह्मेत्युपासीत' (छा० ३।१८।१) इत्यादिवत् । अथवा जाठरवैश्वानरो-
पाधिः परमेश्वर इह द्रष्टव्यत्वेनोपदिश्यते, 'मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः'

भाष्यका अनुवाद

तेजसे व्याप्त किया) इत्यादिमें । अथवा वह जिसका शरीर है, उस देवताके
ऐश्वर्यके योगसे द्युलोकादि अवयव होंगे । इसलिये वैश्वानर परमेश्वर नहीं है ।

सिद्धान्ती—इसपर कहते हैं—नहीं, उपर्युक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि
उस प्रकारकी दृष्टिका उपदेश है । शब्दादि कारणोंसे परमेश्वरका प्रत्याख्यान युक्त
नहीं है । क्योंकि उस प्रकारकी—जाठराभिका त्याग न करनेवाली दृष्टिका
उपदेश है, कारण कि यहां परमेश्वरकी दृष्टिका जाठर वैश्वानरमें उपदेश
किया है, जैसे 'मनो ब्रह्म०' (मनकी ब्रह्मरूपसे उपासना करे) इसमें
किया गया है । अथवा जाठर वैश्वानर जिसकी उपाधि है, उस परमेश्वरका
यहाँ द्रष्टव्यरूपसे उपदेश है जैसे 'मनोमयः०' (मनोमय, प्राणशरीर, भारूप)

रत्नप्रभा

भानुरूपेण व्याततान—व्यासवान्, स घ्यातव्य इत्यर्थः । जडमात्रस्य न ध्येयत्व-
मित्यत आह—अथवेत्ति ।

सिद्धान्तयति—न तथादृष्ट्युपदेशादिति । परमेश्वरदृष्ट्युपास्य-
जाठराभिप्रतीकवाचकाभ्यामभिवैश्वानरशब्दाभ्यां द्युमूर्द्धत्वादिमानीश्वरो लक्ष्य
इत्युक्त्वा कल्पान्तरमाह—अथवा जाठरेति । अस्मिन् पक्षे प्राधान्येन ईश्वरो-
पास्यता, पूर्वत्र गुणतयेति भेदः । उपाधिवाचिभ्यां पदाभ्यामुपहितो लक्ष्य

रत्नप्रभाका अनुवाद

ध्यान करना चाहिए, ऐसा अर्थ है । परन्तु जडमात्रका ध्यानका विषय होना सम्भव नहीं है,
इसपर कहते हैं—“अथवा” इत्यादि । सिद्धान्त कहते हैं । परमेश्वरदृष्टिसे उपास्य जाठराभिरूप
प्रतीकके वाचक अभि और वैश्वानरशब्दोंसे लक्षणा द्वारा शुभूर्द्धत्वादिमान् ईश्वरको लक्ष्य कहकर
अन्य कल्प कहते हैं—“अथवा जाठर” इत्यादिसे । इस पक्षमें प्रधानरूपसे ईश्वर उपास्य है और
पूर्व कल्पमें गौणरूपसे उपास्य है, इतना भेद है । आशय यह कि उपाधिवाचक अभि और वैश्वानरपद-

भाष्य

(छा० ३।१।४।२) इत्यादिवत् । यदि चेह परमेश्वरो न विवक्ष्येत, केवल एव जाठरोऽग्निर्विवक्ष्येत, ततो मूर्धैव सुतेजा इत्यादेर्विशेषस्याऽसम्भव एव स्यात् । यथा तु देवताभूताग्निव्यपाश्रयेणाऽप्ययं विशेष उपपादयितुं न शक्यते, तथोत्तरसूत्रे वक्ष्यामः । यदि च केवल एव जाठरो विवक्ष्येत, पुरुपेऽन्तःप्रतिष्ठितत्वं केवलं तस्य स्यान्न तु पुरुपत्वम् । पुरुपमपि चैनमधीयते वाजसनेयिनः—‘स एपोऽग्निर्वैश्वानरो यत्पुरुपः स यो हैतमेवमग्निं वैश्वानरं पुरुपविधं पुरुपेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद’ (शं०ब्रा० १०।६।१।११) इति ।

भाष्यका अनुवाद

इत्यादिमें है । यदि यहाँ परमेश्वरकी विवक्षा न हो, केवल जठराग्निकी ही विवक्षा हो, तो ‘मूर्धैव सुतेजाः’ (मस्तक ही पुष्कल प्रकाशवाला है) इत्यादि विशेषका असम्भव ही हो जायगा । जिस प्रकार देवता और भूताग्निके संबन्धसे भी यह विशेष उपपन्न नहीं हो सकता वह प्रकार अगले सूत्रमें कहेंगे । यदि केवल जठराग्निकी ही विवक्षा हो, तो पुरुपमें भीतर रहनामात्र ही उसमें सम्भव हो सकेगा, पुरुपत्व सम्भव नहीं होगा । वाजसनेयी शाखावाले वैश्वानरका पुरुपरूपसे भी अध्ययन करते हैं—‘स एपोऽग्निः’ (जो पुरुप है वहीं वैश्वानर अग्नि है, जो इस वैश्वानर अग्निको इस प्रकार पुरुपसदृश और पुरुपके अन्दर रहनेवाला जानता है, वह सब जगह भोग करता है) । सर्वात्मक होनेसे

रत्नप्रभा

इत्यर्थः । लक्षणाबीजमसम्भवं व्याचष्टे—यदि चेति । पुरुपमपीत्यादिसूत्रशेषं व्याचष्टे—यदि च केवल इति । ईश्वरप्रतीकत्वोपाधित्वशून्य इत्यर्थः । विवक्ष्येत तदेति शेषः । यद्—यः, पुरुपः—पूर्णः, स एपोऽग्निः वैश्वानरशब्दितजाठरोपाधिक इति श्रुत्यर्थः । यः वेद, स सर्वत्र भुङ्क्ते इत्यर्थः । पुरुपत्वं पूर्णत्वमचेतनस्य

रत्नप्रभाका अनुवाद

से उपाधिमान् ईश्वर लक्ष्य होता है । लक्षणाबीज जो असम्भव है, उसका व्याख्यान करते हैं—“यदि च” इत्यादिसे । ‘पुरुपमपि’ इत्यादि सूत्रके शेष अंशका व्याख्यान करते हैं—“यदि च केवल” इत्यादिसे । केवल अर्थात् ईश्वरके प्रतीकत्व अथवा उपाधित्वसे रहित । ‘विवक्ष्येत’ के बाद ‘तदा’ इतना शेष है । जो पुरुप पूर्ण है, वह यह अग्नि है—वैश्वानरशब्दवाच्य जाठर अग्नि उसकी उपाधि है, यह श्रुतिका अर्थ है । जो ऐसा जानता है वह सर्वत्र भोग करता है । अचेतन जाठरमें पुरुपत्व युक्त नहीं है, ऐसा कहकर पाठान्तरमें पुरुपविधित्व—

भाष्य

परमेश्वरस्य तु सर्वात्मत्वात् पुरुषत्वं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितत्वं चोभयमुप-
पद्यते । ये तु 'पुरुषविधमपि चैनमधीयते' इति सूत्रावयवं पठन्ति, तेपा-
मेयोऽर्थः—केवलजाठरपरिग्रहे पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितत्वं केवलं स्यान्न पुरुष-
विधत्वम् । पुरुषविधमपि चैनमधीयते वाजसनेयिनः—'पुरुषविधं
पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद' इति । पुरुषविधत्वं च प्रकरणाद्यधिदैवतं द्युमूर्-
धत्वादि पृथिवीप्रतिष्ठितत्वान्तम्, यच्चाऽध्यात्मं प्रसिद्धं द्युमूर्धत्वादि चुबुक-
प्रतिष्ठितत्वान्तं तत् परिगृह्यते ॥ २६ ॥

भाष्यका अनुवाद

परमेश्वरमें तो पुरुषत्व और पुरुषके अन्दर रहना ये दोनों संगत होते हैं ।
जो लोग 'पुरुषविधं०' इस प्रकार सूत्रके अन्तिम भागका पाठ स्वीकार करते हैं,
उनके मतमें यह अर्थ है—केवल जाठरामिका ग्रहण करे तो उसमें पुरुषका
अन्दर रहनामात्र ही सम्भव होगा, पुरुषसदृशत्व सम्भव नहीं होगा । और
वाजसनेयी शास्त्रवाले इसका पुरुषसदृशरूपसे भी अध्ययन करते हैं—
'पुरुषविधं०' (जो इसे पुरुषसदृश और पुरुषके अन्दर रहनेवाला जानता है)
द्युमूर्धत्वसे लेकर पृथिवीप्रतिष्ठितत्व तक जो अधिदैव पुरुषसदृशत्व है
और मूर्धसे लेकर चुबुक तक जो अध्यात्म पुरुषसदृशत्व प्रसिद्ध है,
उस पुरुषसदृशत्वका यहाँ प्रकरणसे ग्रहण किया जाता है ॥ २६ ॥

रत्नप्रभा

जाठरम्य नेत्युक्त्वा पाठान्तरे पुरुषविधत्व देहाकारत्व तस्य नेत्याह—ये त्विति ।
ननु जाठरस्याऽपि देहव्यापित्वात् तद्विधत्त स्यादित्यत आह—पुरुषविधत्वं च
प्रकरणादिति । न देहव्यापित्वं पुरुषविधत्वम्, किन्तु विराड्देहाकारत्वमधिदैव
पुरुषविधत्वम्, अध्यात्म चोपासकमूर्द्धादिचुबुकान्तेषु अङ्गेषु सम्पन्नत्वमीश्वरस्य
पुरुषविधत्वमित्यर्थ । ईश्वरस्य अङ्गेषु सम्पत्ति अत्रे वक्ष्यते ॥ २६ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

देहाकारत्व भी उसमें युक्त नही है, ऐसा कहत हैं—'ये तु' इत्यादिसे । यदि कोई शका करे
कि देहव्यापी होनेसे जाठर भी पुरुषविध हो सकता है, इसपर कहते हैं—'पुरुषविधत्व च
प्रकरणाद्' इत्यादि । पुरुषविधत्वका अर्थ देहव्यापित्व नहीं है, किन्तु विराड्देहाकारत्व है, यह
अधिदैव पुरुषविधत्व है और उपासकके मस्तकसे लेकर चुबुक—येडी तक अर्गों ईश्वरसपत्ति
अध्यात्म पुरुषविधत्व है, ऐसा समझना चाहिए । अर्गों ईश्वरसपत्ति कैसे होती है यह आगे
कह्ये ॥ २६ ॥

अत एव न देवता भूतं च ॥ २७ ॥

पदच्छेद—अतः, एव, न, देवता, भूतम्, च ।

पदार्थोक्ति—अत एव—द्युमूर्धत्वादिधर्माणामसंभवादेव, भूतम्—भूताग्निः, देवता च—अग्न्यग्निमानिनी देवता वा, न—वैश्वानरशब्दार्थो न भवति, [किन्तु जाठरान्युपाधिकः परमात्मैव] ।

भाषार्थ—भूताग्नि अथवा अग्न्यग्निमानिनी देवता वैश्वानरशब्दवाच्य नहीं हैं, क्योंकि द्युमूर्धत्व आदि धर्मका इनमें भी सम्भव नहीं है । किन्तु जठराग्नि-उपाधिक परमात्मा ही वैश्वानरशब्दवाच्य है ।



भाष्य

यत्पुनरुक्तम्—भूताग्नेरपि मन्त्रवर्णे द्यूलोकादिसम्बन्धदर्शनात् मूर्ध्वं सुतेजा इत्याद्यवयवकल्पनं तस्यैव भविष्यतीति, तच्छरीराया देवताया वा ऐश्वर्ययोगात् इति । तत् परिहर्तव्यम् । अत्रोच्यते—अत एवोक्तेभ्यो हेतुभ्यो न देवता वैश्वानरः । तथा भूताग्नेरपि न वैश्वानरः । नहि

भाष्यका अनुवाद

श्रुतिमें भूताग्निका भी द्यूलोक आदिके साथ संबन्ध देखनेमें आता है, इसलिए 'मूर्ध्वं सुतेजाः' (मस्तक ही पुष्कल प्रकाशवाला है) इत्यादि अवयव-कल्पना उसकी ही होगी अथवा वह जिसका शरीर है उस देवताकी ऐश्वर्य-योगसे उक्त अवयवकल्पना होगी, ऐसा जो कहा है, उसका परिहार करना चाहिए । इसपर कहते हैं—उक्त हेतुओंसे ही वैश्वानर देवता नहीं है । उसी प्रकार वैश्वानर भूताग्नि भी नहीं है । क्योंकि उष्णता और प्रकाशमात्र जिसका

रत्नप्रभा

एवं जाठरं निरस्य पक्षद्वयं निरस्यति—अत एवेति । सूत्र व्याचष्टे—यत्पुनरित्यादिना । द्युमूर्धत्वादिः, सर्वलोकफलभाक्त्वम्, सर्वपाप्मपदाहः, आत्म-ब्रह्मशब्दोपक्रम एते उक्तहेतवः । तानेव स्मारयति—नहि भूताग्नेरित्यादिना ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

जाठरपक्षका निरसन करके अन्य दो पक्षोंका निरसन करते हैं—'अत एव' इत्यादिसे । मूर्ध्ना विवरण करते हैं—'यत्पुन' इत्यादिसे । द्युमूर्धत्व आदि, सर्वलोकफलभोगित्व, सर्वपाप नाश और आत्म तथा ब्रह्मशब्दोंसे उपक्रम ये उक्त हेतु हैं । उनका हेतुओंका स्मरण करते हैं—

भाष्य ।

भूताग्नैरौष्ण्यप्रकाशमात्रात्मकस्य द्युमूर्धत्वादिकल्पनोपपद्यते, विकारस्य विकारान्तरात्मत्वासम्भवात् । तथा देवतायाः सत्यप्यैश्वर्ययोगे न द्युमूर्धत्वादिकल्पना सम्भवति । अकारणत्वात् परमेश्वराधीनैश्वर्यत्वाच्च । आत्मशब्दासम्भवश्च सर्वेष्वपे पक्षेषु स्थित एव ॥ २७ ॥

भाष्यका अनुवाद

स्वरूप है उस भूताग्निमें द्युमूर्धत्वादिकल्पना ठीक नहीं है, क्योंकि एक विकार अन्य विकारका स्वरूप नहीं हो सकता । उसी प्रकार ऐश्वर्ययोगसे देवतामें द्युमूर्धत्वादिकल्पना सम्भव नहीं है, क्योंकि देवता किसीके प्रति उपादानकारण नहीं है और उसका ऐश्वर्य परमेश्वरके अधीन है । उक्त सभी पक्षोंमें आत्मशब्दका असम्भव तो है ही ॥ २७ ॥

रत्नप्रभा

“यो भानुना” [ऋ० सं० १०।८।३] इति मन्त्रेण ईश्वरदृष्ट्या महिमा उक्त इति भावः ॥ २७ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

“नहि भूताग्ने” इत्यादिसं । आशय यह है कि ‘या भानुना’ यह मन्त्र ईश्वरदृष्टिसे भूताग्निका महिमा कहता है ॥२७॥

—०००—

साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः ॥ २८ ॥

पदच्छेद—साक्षाद्, अपि, अविरोधम्, जैमिनिः ।

पदार्थोक्ति—साक्षाद् अपि—जाठररूपोपाधि विनाऽपि, [ब्रह्मणि वैश्वानरशब्दस्य] अविरोधम्—विरोधाभावम्, जैमिनिः—जैमिनिनामको महर्षिः [मन्यते] ।

भाषार्थ—जैमिनि महर्षिका मत है कि ब्रह्ममें जाठराग्निरूप उपाधिके विना भी वैश्वानरशब्दका विरोध नहीं है अर्थात् वैश्वानरशब्द साक्षात् ही ब्रह्मनाचक है ।

—०००—

भाष्य

पूर्वं जाठरामिप्रतीको जाठराग्न्युपाधिको वा परमेश्वर उपास्य इत्युक्त-
मन्तःप्रतिष्ठितत्वाद्यनुरोधेन । इदानीं तु विनैव प्रतीकोपाधिकल्पनाभ्यां
साक्षादपि परमेश्वरोपासनपरिग्रहे न कश्चिद्विरोध इति जैमिनिराचार्यो मन्यते ।
ननु जाठराग्न्यपरिग्रहेऽन्तःप्रतिष्ठितत्ववचनं शब्दादीनि च कारणानि
विरुद्ध्येरन्निति । अत्रोच्यते—अन्तःप्रतिष्ठितत्ववचनं तावन्न विरुद्ध्यते ।

भाष्यका अनुवाद

पहले अन्तःप्रतिष्ठितत्व आदिके अनुसार कहा है कि जाठरामि जिसका
प्रतीक है अथवा जाठरामि जिसकी उपाधि है, ऐसा परमेश्वर उपास्य है ।
परन्तु अब जैमिनि आचार्य कहते हैं कि प्रतीक और उपाधिकी कल्पनाके
बिना भी साक्षात् ही परमेश्वरकी उपासना स्वीकार करनेमें कुछ विरोध नहीं
है । यदि कोई शंका करे कि जाठरामिका स्वीकार न करें, तो (परमेश्वरमें)
अन्तःप्रतिष्ठितत्व और शब्द आदि कारण असङ्गत हो जायेंगे । इसपर कहते

रत्नप्रभा

पूर्वमग्निवैश्वानरशब्दौ ईश्वरलक्षकौ इत्युक्तम्, अधुना प्रतीकोपाधिपरित्यागेन
विराट्पुरुषाकारस्य भगवतो वैश्वानरस्य अध्यात्ममूर्धादिचुबुकान्तेषु सम्पाद्य
उपास्यत्वाङ्गीकारेऽपि न शब्दादिविरोधः, शब्दयोरीश्वरे योगवृत्त्या मुख्यत्वात्,
अन्तःस्थत्वादीनां च तत्र सम्भवादित्याह—साक्षादपीति । साक्षात्पदस्याऽर्थ-
माह—विनैवेति । जाठरामिसम्बन्धं विना ईश्वरस्य उपास्यत्वेऽपि शब्दाद्य-
विरोधं जैमिनिर्मन्यते इत्यर्थः । इदमन्तःस्थत्वम्—उदरस्थत्वरूपं नोच्यते, किन्तु
नखादिशिखान्तावयवसमुदायात्मकपुरुषशरीरे मूर्धादिचुबुकान्ताङ्गानि वृक्षे शाखावत्
प्रतिष्ठितानि, तेषु सम्पन्नो वैश्वानरः पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठित इत्युच्यते, अतो यथा

रत्नप्रभाका अनुवाद

पहले अग्नि और वैश्वानरशब्द ईश्वरलक्षक हैं ऐसा कहा गया है । अब प्रतीक और
उपाधिके त्यागसे विराट्पुरुषस्वरूप भगवान् वैश्वानरका मस्तकसे लेकर ठोड़ी पर्यन्त अंगोंमें
संपादन करके ध्यान [अर्थात् संपदुपासना] करना चाहिए ऐसा स्वीकार करनेपर भी शब्द
आदिका विरोध नहीं है, क्योंकि अग्नि और वैश्वानरशब्द योगशक्तिसे ईश्वरवाचक हैं और अन्तः-
स्थत्व आदि धर्म परमेश्वरमें संभावित हैं, ऐसा कहते हैं—“साक्षादपि” इत्यादिसे । साक्षात्
पदका अर्थ कहते हैं—“विनैव” इत्यादिसे । जैमिनिका मत है कि जाठरामिके साथ संबन्धके
बिना ईश्वरको उपास्य माननेपर भी शब्द आदिका विरोध नहीं है । यहां अन्तःप्रतिष्ठितत्वका
अर्थ उदरमें रहना नहीं है, किन्तु नखसे लेकर शिखापर्यन्त अवयवसमुदायात्मक पुरुषशरीर-
में मस्तकसे ठोड़ी पर्यन्त अंग वृक्षमें शाखाकी तरह प्रतिष्ठित हैं, उन अंगोंमें संपन्न वैश्वानर

भाष्य

नहीह 'पुरुषविधं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद' इति जाठराग्रमिप्रायेणेदमुच्यते । तस्याऽप्रकृतत्वादसंशब्दितत्वाच्च । कथं तर्हि ? यत् प्रकृतं मूर्धादिचुबु-
कान्तेषु पुरुषावयवेषु पुरुषविधत्वं कल्पितं तदभिप्रायेणेदमुच्यते---'पुरुष-
विधं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद' इति । यथा वृक्षे शाखां प्रतिष्ठितां पश्य-
तीति तद्वत् । अथवा यः प्रकृतः परमात्माऽध्यात्ममधिदैवतं च पुरुष-
विधत्वोपाधिस्तस्य यत्केवलं साक्षिरूपं तदभिप्रायेणेदमुच्यते---'पुरुषेऽन्तः-
प्रतिष्ठितं वेद' इति । निश्चिते च पूर्वापरालोचनवशेन परमात्मपरिग्रहे

भाष्यका अनुवाद

हैं—वैश्वानर अन्तःप्रतिष्ठित है, यह कथन तो असंगत नहीं है, क्योंकि यहां 'पुरुषविधं०' (पुरुषसदृश और पुरुषके अन्दर रहनेवालेको जो जानता है) यह जाठराग्निके उद्देशसे नहीं कहा गया है, क्योंकि वह अप्रकृत है और अग्नि आदि शब्दवाच्य नहीं है । तब किसके उद्देशसे कहा गया है ? मस्तकसे लेकर चुबुकपर्यन्त पुरुषके अवयवोंमें जो प्रकृत पुरुषसदृशत्व कल्पित है, उसके उद्देशसे 'पुरुषविधं०' यह कहा गया है । जैसे 'वृक्षमें शाखाको प्रतिष्ठित हुआ देरता है' यह व्यवहार होता है उसी प्रकार [पुरुषके अवयवोंमें रहनेवाला वैश्वानर पुरुषके अन्दर रहनेवाला कहा गया है] । अथवा जिस प्रकृत परमात्माकी अधिदैव और अध्यात्म पुरुषसदृशत्व उपाधियां हैं, उसका केवल जो साक्षिरूप है, उसके उद्देशसे

रत्नप्रभा

शाखास्थस्य पक्षिणो वृक्षान्तःस्थत्वम्, तथा वैश्वानरस्य पुरुषान्तःस्थत्वमित्याह—
नहीह पुरुषविधमित्यादिना । अग्न्यादिशब्दस्य ईश्वरवाचित्वाद् जाठराग्नेः
असंशब्दितत्वम् । अत्र ईश्वरस्य पुरुषावयवेषु सम्पादनात् पुरुषविधत्वमन्तःस्थत्वं
चेत्यर्थः । पक्षान्तरमाह—अथवेति । पुरुषविधत्वं पूर्ववत् । अन्तःस्थत्वम् माध्य-
स्थ्यम्, साक्षित्वमित्यर्थः । एवमन्तःस्थत्वमीश्वरे व्याख्याय शब्दादीनि व्याचष्टे—

रत्नप्रभाका अनुवाद

पुरुषमें अन्त प्रतिष्ठित है ऐसा कहलाता है । इसलिए जैसे शाखा पर बैठा हुआ पक्षी वृक्षके अन्दर बैठा हुआ कहलाता है, उसी प्रकार वैश्वानर पुरुषमें अन्त स्थित है, ऐसा कहते हैं—'नहीह पुरुषविधम्' इत्यादिसे । अग्नि आदि शब्द ईश्वरवाचक होनेसे जाठराग्नि असंशब्दित है—
अग्निशब्दवाच्य नहीं है । यहां पुरुषके अवयवोंमें ईश्वरकी संपत्तिले वह पुरुषसदृश और अन्त स्थ है, ऐसा तात्पर्य है । दूसरा पक्ष कहते हैं—'अथवा' इत्यादिसे । पुरुषविधत्व-
का अर्थ पूर्वकल्पके अनुसार मानना चाहिए । अन्तःप्रतिष्ठित—मध्यस्थ अर्थात् साक्षिरूप । इस

भाष्य

तद्विषय एव वैश्वानरशब्दः केनचिद्योगेन वर्तिष्यते । विश्वश्चाऽयं नरश्चेति, विश्वेषां वाऽयं नरः, विश्वे वा नरा अस्येति विश्वानरः परमात्मा, सर्वात्मत्वात् । विश्वानर एव वैश्वानरः । तद्धितोऽनन्यार्थः, राक्षसवायसादिवत् । अग्निशब्दोऽप्यग्रणीत्वादियोगाश्रयणेन परमात्मविषय एव

भाष्यका अनुवाद

‘पुरुषे०’ कहा गया है । पूर्वापरपर्यालोचनसे परमात्माका ही ग्रहण है यह निश्चित होनेपर वैश्वानरशब्द भी योगवृत्तिसे परमेश्वरपरक ही होगा । ‘विश्वश्चाऽयं०’ सकलप्रपंचरूप नर पुरुष, अथवा ‘विश्वेषां०’ सबका कर्ता, ‘विश्वे नरा०’ सब जीवोंका नियन्ता विश्वानर, अर्थात् परमात्मा, क्योंकि वह सर्वात्मक है । ‘विश्वानर०’ विश्वानर ही वैश्वानर कहलाता है । यहांपर तद्धित प्रत्यय स्वार्थमें है राक्षस, वायस आदिके समान । अग्निशब्द भी अग्रणीत्व (कर्मफलकी प्राप्ति

रत्नप्रभा

निश्चिते चेति । विश्वश्चाऽयं नरो जीवः च सर्वात्मत्वात् । विश्वेषां विकाराणां वा नरः कर्ता । विश्वे सर्वे नराः जीवाः अस्य आत्मत्वेन नियम्यत्वेन वा सन्तीति विश्वानरः । रक्ष एव राक्षस इतिवत् स्वार्थे तद्धितप्रत्ययः । “नरे संज्ञायाम्” (पा० सू० ६।३।१२९) इति पूर्वपदस्य दीर्घता । अग्निधातोर्गत्यर्थस्य निप्रत्ययान्तस्य रूपमग्निरिति । अङ्गयति गमयत्यग्रं कर्मफलं प्रापयतीति अग्निग्रणीरुक्तः । अमितोऽगत इति वा अग्निः । वैश्वानरोपासकस्याऽतिथिभोजनात् पूर्वं प्राणाग्निहोत्रं

रत्नप्रभाका अनुवाद

प्रकार अन्तःस्थत्व धर्म ईश्वरमें है यह व्याख्यान करते हैं—“निश्चिते च” इत्यादिसे । ‘विश्वश्चाऽयं०’—सकलप्रपंचरूप नर—जीव, क्योंकि वह सर्वात्मक है । अथवा विश्वेषां०—सब विकारोंका कर्ता, क्योंकि विश्व—प्रपंच उसका विकार है । ‘विश्वे०’ सब जीव उसके आत्मरूप अथवा नियम्यरूप हैं, अतः वह विश्वानर कहलाता है । ‘रक्ष एव राक्षसः’ इसमें जैसे स्वार्थवाचक तद्धित प्रत्यय है, उसी प्रकार ‘विश्वानर एव वैश्वानरः’ इसमें भी स्वार्थवाचक तद्धित प्रत्यय है । ‘नरे०’ (संज्ञामें नरशब्द पर—आगे हो तो पूर्वपदका अंत्य दीर्घ हो जाता है) इस सूत्रसे विश्वके अंत्यका अकार दीर्घ हो गया है । ‘नि’ प्रत्ययान्त गत्यर्थक ‘अग्नि’ धातुसे अग्निशब्द सिद्ध हुआ है । [परमात्मा] अग्र—कर्मफल—उसको प्राप्त कराता है, अतः अग्नि है, इसी कारणसे ‘अग्रणी’ भी कहलाता है । अथवा जो अभिमुख गमन करे, वह अग्नि है । अतिथि भोजनसे पहले विश्वके अंगरूपसे वैश्वानरके उपासकके लिए प्राणा-

भाष्य

भविष्यति । गार्हपत्यादिकल्पनं प्राणाहुत्यधिकरणत्वं च परमात्मनोऽपि सर्वात्मत्वादुपपद्यते ॥ २८ ॥

कथं पुनः परमेश्वरपरिग्रहे प्रादेशमात्रश्रुतिरूपपद्यत इति तां व्याख्या-
तुमारभते—

भाष्यका अनुवाद

कराना) आदि योगका आश्रय करनेसे परमात्मामें ही लागू होता है । गार्हपत्य आदि कल्पना और प्राणाहुतिका अधिकरणत्व परमात्मामें भी युक्त है, क्योंकि वह सर्वात्मा है ॥ २८ ॥

परमेश्वरका परिग्रह करें तो प्रादेशमात्र श्रुति किस प्रकार संगत होगी ? इस प्रश्नकी संभावनासे श्रुतिका व्याख्यान करते हैं ।

रत्नप्रभा

विद्याङ्गत्वेन विहितम् । तदर्थमग्नित्रेतादिकल्पन प्रधानाविरोधेन नेतव्यम् इत्याह—
गार्हपत्येति ॥ २८ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

मिहोत्रका विधान किया है, इसलिए गार्हपत्य आदि तीन अग्नियोंकी कल्पना इस प्रकार करनी चाहिए कि मुख्य अर्थमें विरोध न हो, ऐसा कहते हैं—“गार्हपत्य” इत्यादिसे ॥२८॥

अभिव्यक्तेरित्याश्मरथ्यः ॥२९॥

पदच्छेद—अभिव्यक्तेः, इति, आश्मरथ्यः ।

पदार्थोक्ति—अभिव्यक्तेः—[उपासकानामनुग्रहाय हृदयाद्युपासनास्थानेषु प्रादेशमात्रपरिमाणस्यैव परमेश्वरस्य] अभिव्यक्तेः, इति—प्रादेशमात्रश्रुतिरूप-
पद्यत इति, आश्मरथ्यः [मन्यते] ।

भाषार्थ—आश्मरथ्य आचार्यका मत है कि परमेश्वर उपासकोंपर अनुग्रह करनेके लिए हृदय आदि उपासना स्थानोंमें प्रादेशमात्रपरिमाण अभिव्यक्त होता है, अतः परमेश्वरको प्रादेशमात्र कहनेवाली श्रुति उपपन्न होती है ।

भाष्य

अतिमात्रस्याऽपि परमेश्वरस्य प्रादेशमात्रत्वमभिव्यक्तिनिमित्तं स्यात् । अभिव्यज्यते किल प्रादेशमात्रपरिमाणः परमेश्वर उपासकानां कृते । प्रदेशविशेषेषु वा हृदयादिपूपलब्धिस्थानेषु विशेषेणाऽभिव्यज्यते । अतः परमेश्वरेऽपि प्रादेशमात्रश्रुतिरभिव्यक्तेरुपपद्यते इत्याश्मरथ्य आचार्यो मन्यते ॥ २९ ॥

भाष्यका अनुवाद

निःसीम परमेश्वरको प्रादेशमात्र कहना अभिव्यक्तिके निमित्त है । उपासकोंके निमित्त परमेश्वर प्रादेशमात्रपरिमाण अभिव्यक्त होता है । अथवा प्रदेशोंमें अर्थात् हृदय आदि उपलब्धिस्थानोंमें विशेषरूपसे अभिव्यक्त होता है । इसलिए परमेश्वरमें भी प्रादेशमात्र श्रुति अभिव्यक्तिके कारण संगत होती है, यह आश्मरथ्य आचार्यका मत है ॥ २९ ॥

:

रत्नप्रभा

अभिव्यक्तेरित्याश्मरथ्यः । मात्राम्—परिमाणम् अतिक्रान्तोऽतिमात्रः तस्य विभोः इत्यर्थः । उपासकानां कृतेऽनुग्रहाय प्रादेशमात्रोऽभिव्यज्यते, प्रदेशेषु वा मीयतेऽभिव्यज्यते इति प्रादेशमात्रः ॥ २९ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

मात्रा अर्थात् परिमाण, जो परिमाणसे रहित होता है यह अतिमात्र कहलाता है, अतिमात्र अर्थात् व्यापक । सर्वव्यापक परमात्मा उपासकोंके ऊपर अनुग्रह करनेके लिए प्रादेशमात्र अभिव्यक्त होता है । अथवा प्रदेशों—हृदय आदि स्थानोंमें अभिव्यक्त होता है, अतः प्रादेशमात्र कहलाता है ॥ २९ ॥

अनुस्मृतेर्वादरिः ॥ ३० ॥

पदच्छेद—अनुस्मृतेः, वादरिः ।

पदार्थोक्ति—अनुस्मृतेः—प्रादेशमात्रहृदयस्थेन मनसा ध्यानात् [परमेश्वरः प्रादेशमात्र इत्युच्यते इति] वादरिः आचार्यः [मन्यते] ।

भाषार्थ—वादरि आचार्यका मत है कि प्रादेशमात्रपरिमाणवाले हृदयमें स्थित मनसे ध्येय होनेके कारण परमेश्वर प्रादेशमात्र कहलाता है ।

भाष्य

प्रादेशमात्रहृदयप्रतिष्ठेन वाऽयं मनसाऽनुस्मर्यते तेन प्रादेशमात्र इत्युच्यते । यथा प्रस्थमिता यवाः प्रस्था इत्युच्यन्ते, तद्वत् । यद्यपि च यवेषु स्वगतमेव परिमाणं प्रस्थसम्बन्धाद् व्यज्यते, न चेह परमेश्वरगतं किञ्चित् परिमाणमस्ति यद्दृढयसम्बन्धाद् व्यज्येत । तथापि प्रयुक्तायाः प्रादेशमात्रश्रुतेः सम्भवति यथाकथंचिदनुस्मरणमालम्बनमित्युच्यते । प्रादेशमात्रत्वेन वाऽयमप्रादेशमात्रोऽप्यनुस्मरणीयः प्रादेशमात्रश्रुत्यर्थवत्तायै । एवमनुस्मृतिनिमित्ता परमेश्वरे प्रादेशमात्रश्रुतिरिति वादरिराचार्यो मन्यते ॥ ३० ॥

भाष्यका अनुवाद

अथवा प्रादेशमात्र हृदयमें रहनेवाले मनसे (परमेश्वरका) स्मरण किया जाता है, इसलिए (परमेश्वर) प्रादेशमात्र कहलाता है । जैसे कि प्रस्थसे नापे हुए यव प्रस्थ कहलाते हैं । यद्यपि यवोंका ही परिमाण प्रस्थके संबन्धसे अभिव्यक्त होता है और यहां परमेश्वरका कुछ भी परिमाण नहीं है जो हृदयके संबन्धसे व्यक्त हो, तो भी (परमेश्वरका) ध्यान, प्रयुक्त हुई प्रादेशमात्र श्रुतिका किसी प्रकारसे आलम्बन हो सकता है, इसलिए ऐसा कहा है । अथवा प्रादेशमात्र श्रुतिके सार्थक होनेके लिए प्रादेशमात्र न होनेपर भी उस परमेश्वरका प्रादेशमात्ररूपसे स्मरण करना चाहिए । इस प्रकार प्रादेशमात्र श्रुति परमेश्वरके ध्यानके निमित्त है, यह वादरि आचार्यका मत है ॥ ३० ॥

रत्नप्रभा

मतान्तरमाह—अनुस्मृतेरिति । प्रादेशेन मनसा मितः प्रादेशमात्र इत्यर्थः । यथाकथञ्चिदिति । मनस्थं प्रादेशमात्रत्वं स्मृतिद्वारा स्मर्यमाणे कल्पितं श्रुते-
शालम्बनमित्यर्थः । सूत्रस्याऽर्थान्तरमाह—प्रादेशेति ॥ ३० ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

मतान्तर कहते हैं—“अनुस्मृतेः” इत्यादिसे । प्रादेश परिमाण मनसे नापा हुआ प्रादेशमात्र कहलाता है । “यथाकथञ्चिदिति”—तात्पर्य यह है कि मनमें स्थित प्रादेशमात्रत्व स्मृतिद्वारा स्मर्यमाण परमेश्वरमें कल्पित होकर श्रुतिका आलम्बन-आश्रय है । सूत्रका दूसरा अर्थ कहते हैं—“प्रादेश” इत्यादिसे ॥ ३० ॥

(१) “अष्टमुष्टिर्भवेत् कुञ्चिः कुञ्चयोऽष्टौ तु पुष्कलम् । पुष्कलानि च चत्वारि आढकः परिकीर्तितः ॥ ” इस मतके अनुसार २५६ मुष्टिका एक आढक होता है, उसका चतुर्धाश पुष्कल प्रस्थ कहलाता है । किसीके मतमें १०२४ मुष्टिका एक आढक होता है, उसका चतुर्धाश २५६ मुष्टिका एक प्रस्थ होता है । “प्रादेशप्रसृतिभिः कुञ्चः, तच्चतुर्गुणः प्रस्थः” अर्थात् ४८ प्रसृति—अर्थात्जलिका एक प्रस्थ होता है ।

सम्पत्तेरिति जैमिनिस्तथाहि दर्शयति ॥ ३१ ॥

पदच्छेद—सम्पत्तेः, इति, जैमिनिः, तथाहि, दर्शयति ।

पदार्थोक्ति—सम्पत्तेः—मूर्धादिचुबुकान्तप्रादेशमात्रस्थाने सम्पत्त्या वैश्वानरस्योपास्यत्वात् [परमेश्वरस्य प्रादेशमात्रत्वम्] इति जैमिनिः आचार्यः मनुते । तथाहि दर्शयति—वाजसनेयिब्राह्मणमपि वैश्वानरस्य प्रादेशमात्रत्वसम्पत्तिं व्यपदिशति ।

भाषार्थ—मस्तकसे लेकर ठोड़ी तक प्रादेशमात्र स्थानमें सम्पत्तिसे वैश्वानर उपास्य है, अतः परमेश्वर प्रादेशमात्र कहलाता है, ऐसा जैमिनि आचार्य मानते हैं । वाजसनेयिब्राह्मण भी मस्तक आदि ठोड़ी पर्यन्त स्थानमें वैश्वानरकी संपत्तिका प्रतिपादन करता है ।



भाष्य

सम्पत्तिनिमित्ता वा स्यात् प्रादेशमात्रश्रुतिः । कुतः ? तथाहि—समान-प्रकरणं वाजसनेयिब्राह्मणं द्युप्रभृतीन् पृथिवीपर्यन्तांस्त्रैलोक्यात्मनो वैश्वानरस्यांश्वयवानध्यात्ममूर्धप्रभृतिषु चुबुकपर्यन्तेषु देहावयवेषु सम्पादयत् प्रादेशमात्रसम्पत्तिं परमेश्वरस्य दर्शयति—‘प्रादेशमात्रमिवं ह वै देवाः

भाष्यका अनुवाद

अथवा प्रादेशमात्र श्रुति सम्पत्तिनिमित्तरु हो सकती है, क्योंकि समान-प्रकरणवाला वाजसनेयिब्राह्मण तुलोकसे लेकर पृथिवीपर्यन्तत्रैलोक्यस्वरूप वैश्वानरके अवयवोंको अध्यात्म मस्तकसे चुबुकतक देहके अवयवोंमें संपन्न करता हुआ परमेश्वरकी प्रादेशमात्र संपत्ति दिखलाता है—‘प्रादेशमात्रमिवं ह वै देवाः०’ (पहले देवताओंने अपरिच्छिन्न ईश्वरको भी संपत्तिसे प्रादेशमात्रके

रत्नप्रभा

सम्प्रति श्रुत्युक्तां प्रादेशमात्रश्रुतेर्गतिमाह—सम्पत्तेरिति । ब्राह्मणं पठति—प्रादेशमात्रमिवेति । अपरिच्छिन्नमपि ईश्वरं प्रादेशमात्रत्वेन सम्पत्त्या कल्पितं

रत्नप्रभाका अनुवाद

अब प्रादेशमात्र धृतिका धृतिगे हा समर्पण करते हैं—‘सम्पत्ते’ इत्यादिसे । ब्राह्मणवाक्यको उद्धृत करते हैं—‘प्रादेशमात्रमिव’ इत्यादिसे । परमेश्वर यद्यपि अपरिच्छिन्न—अनन्त हैं, तो भी संपत्तिमें उममें प्रादेशमात्रत्वका कल्पना करके पूर्वकालमें देवताओंने

भाष्य

सुविदिता अभिसम्पन्नास्तथा नु व एतान् वक्ष्यामि यथा प्रादेशमात्र-
मेवाभिसंपादयिष्यामीति स होवाच, मूर्धानमुपदिशन्नुवाच एष वा अतिष्ठा
वैश्वानर इति । चक्षुपी उपदिशन्नुवाचैष वै सुतेजा वैश्वानर इति ।
नासिके उपदिशन्नुवाचैष वै पृथग्वर्त्मात्मा वैश्वानर इति । मुख्यमाकाश-
भाष्यका अनुवाद

समान जानकर प्राप्त किया । जैसे मैं वैश्वानरको प्रादेशमात्र संपन्न कर सकूँ, वैसे
उनको (द्युलोक आदि अवयवोंको) कहूँगा, ऐसा उसने कहा । मस्तकका उपदेश
करके उसने कहा—निश्चय यह मेरा मस्तक भूरादि लोकोंसे अतिक्रान्त हुआ
द्युलोक वैश्वानर है । आंरोंका उपदेश करके कहा—निश्चय यह पुष्कल तेजवाला
वैश्वानर है । नासिकाका उपदेश करके कहा—निश्चय यह मित्र मित्र गति-

रत्नप्रभा

० सम्यग् विदितवन्तो देवाः तमेवेश्वरम् अभि-प्रत्यक्त्वेन सम्पन्नाः—प्राप्तवन्तः ह वै
पूर्वकाले, ततः वः युष्मभ्यं तथा द्युप्रभृतीनवयवान् वक्ष्यामि, यथा प्रादेशमात्रं
प्रादेशपरिमाणमनतिक्रम्य मूर्धाध्यात्माङ्गेषु वैश्वानरं सम्पादयिष्यामि इति प्राचीन-
शालादीन् प्रति राजा प्रतिज्ञाय स्वकीयमूर्धानमुपदिशन्—करेण दर्शयन् उवाच—
एष वै मे मूर्धा भूरादीन् लोकानतीत्य उपरि तिष्ठतीति अतिष्ठा असौ द्युलोको
वैश्वानरः । तस्य मूर्धेति यावत् । अध्यात्ममूर्धाभेदेन अधिदैवमूर्धा सम्पाद्य ध्येय
इत्यर्थः । एष चक्षुरादिषु उहनीयम् । स्वकीयचक्षुपी दर्शयन् एष वै सुतेजाः सूर्यो
वैश्वानरस्य चक्षुरिति उवाच । नासिकापदेन तन्निष्ठः प्राणो लक्ष्यते, तस्मिन्ना-
ध्यात्मिकप्राणेऽधिदैवप्राणस्य वायोर्दृष्टिमाह—नासिके इति । अत्र सर्वत्र वैश्वा-

रत्नप्रभाका अनुवाद

उसका सम्यग्ज्ञान प्राप्त किया था और उसी ईश्वरको प्रत्यक्स्वरूपसे—प्रत्यगात्मरूपसे प्राप्त
किया था, इसलिए तुमसे उसके द्युलोक आदि अवयव वैसे कहूँगा कि जैसे प्रादेशके बराबर
शरीरके मस्तक आदि अंगोंमें वैश्वानरका सम्पादन कर सकूँगा । इस प्रकार अश्वपति राजा
प्राचीनशाल आदित्से प्रतिज्ञा करके अपने मस्तककी ओर हाथसे इशारा करता हुआ बोला कि यह
मेरा मस्तक भूरादि लोकोंके ऊपर स्थित है, अतः यह द्युलोक वैश्वानर है अर्थात् वैश्वानरका
मस्तक है । आशय यह कि अध्यात्म मस्तकका, अधिदैव मस्तकके साथ संपत्तिसे अभेद
करके, ध्यान करना चाहिए । इसी प्रकार चक्षु आदिमें भी समझना चाहिए । अपने
नेत्रको दिखलाकर कहा कि यही पुष्कल तेजवाला सूर्य वैश्वानरका नेत्र है । लक्षणासे नासिका
शब्दका अर्थ उसमें रहनेवाला प्राण समझना चाहिए । “नासिके” इत्यादिमें कहते हैं कि

भाष्य

मुपदिशन्नुवाचैष वै बहुलो वैश्वानर इति । मुख्या अप उपदिशन्नु-
वाचैष वै रयिवैश्वानर इति । चुबुकमुपदिशन्नुवाचैष वै प्रतिष्ठा वैश्वानर
इति' । चुबुकमित्यधरं मुखफलकमुच्यते । यद्यपि वाजसेनयके घौरतिष्ठा-
त्वगुणा समाम्नायते, आदित्यश्च सुतेजस्त्वगुणः । छान्दोग्ये पुनर्घोः सुते-
जस्त्वगुणा समाम्नायते, आदित्यश्च विश्वरूपत्वगुणः । तथापि नैतावता

भाष्यका अनुवाद

स्वरूप वैश्वानर है । मुखस्थ आकाशको बताकर कहा—निश्चय यह बहुल—व्यापक
वैश्वानर है । मुखस्थ जलको बताकर कहा—निश्चय यह रयिस्वरूप वैश्वानर है ।
चुबुकको बताकर कहा—निश्चय यह प्रतिष्ठास्वरूप वैश्वानर है) चुबुक
अर्थात् नीचे का मुखफलक । यद्यपि वाजसेनयकमें घुलोकको अतिष्ठात्व
गुणवाला कहा है और आदित्यको सुतेजस्त्व गुणवाला कहा है. तथा
छान्दोग्यमें घुलोकको सुतेजस्त्व गुणवाला और आदित्यको विश्वरूपत्व गुण-
वाला कहा है, तो भी इतने विशेषसे कुछ हानि नहीं होती, क्योंकि प्रादेशमात्र श्रुति

रत्नप्रभा

नरशब्दः तदङ्गपरः । मुखस्थं—मुख्यं तस्मिन्नाधिदैवं बहुलाकाशदृष्टिः, मुखस्थः-
लालारूपासु अप्सु रयिशब्दिततदीयवस्तिस्वोदकदृष्टिः, चुबुके प्रतिष्ठा पादरूपा
पृथिवी द्रष्टव्या । ननु गुणवैषम्येण विद्योः भेदादमिरहस्यश्रुत्यनुसारेण छान्दो-
ग्यस्यप्रादेशमात्रश्रुतिः कथं व्याख्येयेत्याशङ्क्याऽऽह—यद्यपीत्यादिना । एतावता
अल्पवैषम्येण बहुतरप्रत्यभिज्ञासिद्धं विद्यैक्यं न हीयते । शास्त्राभेदेऽपि सर्वशा-

रत्नप्रभाका अनुवाद

आध्यात्मिक प्राणमें वैश्वानरके अधिदैव प्राणवायुकी दृष्टि करनी चाहिए । मुखस्थ अध्यात्म
आकाशमें अधिदैव आकाशकी दृष्टि करनी चाहिए । मुखस्थ स्वरूप अध्यात्म
जलमें वैश्वानरकी वस्तिमें स्थित अधिदैव अरुकी दृष्टि करनी चाहिए । अध्यात्म विषुवमें
प्रतिष्ठा—पादरूप पृथिवीकी दृष्टि करनी चाहिए । परन्तु घुलोक आदिके गुणोंमें विषमता
होनेमें छान्दोग्यगत और वाजसेनयकगत विद्याओंमें भेद है, इसलिये वाजसेनयकके
अनुसार छान्दोग्यमें प्रादेशमात्र श्रुतिका व्याख्यान कैसे किया जाय ? ऐसा आनाहू करके
कहते हैं—“यद्यपि” इत्यादि । घुलोककी विषमताके कारण प्रचुरगाहदपते गिर विषमता
देकर नष्ट नष्ट होता । शास्त्राभेद होनेपर भी सब शास्त्राओंमें विषमता वैश्वानर आदिकी

भाष्य

विशेषेण किञ्चिद्दीयते, प्रादेशमात्रश्रुतेरविशेषात्, सर्वशाखाप्रत्ययत्वाच्च ।
संपत्तिनिमित्तां प्रादेशमात्रश्रुतिं युक्ततरां जैमिनिराचार्यो मन्यते ॥ ३१ ॥

भाष्यका अनुवाद

समान ही है और सब शाखाओंमें प्रतीयमान वैश्वानरकी उपासना समान है । अतः प्रादेशमात्र श्रुतिको संपत्तिनिमित्तक कहना ही विशेष युक्त है, यह जैमिनि आचार्यका मत है ॥ ३१ ॥

रत्नप्रभा

स्वासु प्रतीयमानं वैश्वानराद्युपासनम् एकमिति न्यायस्य वक्ष्यमाणत्वाच्च । अति-
ष्ठात्वगुणः छान्दोग्ये उपसंहर्तव्यः । विश्वरूपत्वगुणश्च वाजिभिर्ब्राह्मः । तथा च
द्युसूर्ययोः सुतेजस्त्वं समम् अतिष्ठात्वविश्वरूपत्वयोः व्यवस्था । यद्वा, शाखाभेदेन
गुणव्यवस्थाऽस्तु, न विद्याभेद इति भावः ॥ ३१ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

उपासना एक ही है, यह न्याय गुणोपसंहाराधिकरणमें कहा जायगा । अतिष्ठात्वगुणका
उपसंहार छान्दोग्यमें करना चाहिए । वाजसनेयकमें विश्वरूपत्वगुणका उपसंहार करना
चाहिए । इस प्रकार परस्परउपसंहारसे द्यु और सूर्यमें सुतेजस्त्वगुण उपपन्न होता है और
अतिष्ठात्व तथा विश्वरूपत्वकी व्यवस्था भी होती है । अथवा शाखाभेदसे गुणकी व्यवस्था
भले ही हो, किन्तु विद्याभेद नहीं है ऐसा तात्पर्य है ॥३१॥

आमनन्ति चैनमस्मिन् ॥ ३२ ॥

पदच्छेद—आमनन्ति, च, एनम्, अस्मिन् ।

पदार्थोक्ति—एनम्—परमेश्वरम्, अस्मिन्—मूर्धचिबुकान्तराले, आमनन्ति

च—उपास्यं भुवन्ति जावालः ।

भाषार्थ—जावाल कहते हैं कि मस्तक-और ठोड़ीके बीचमें परमेश्वरकी
उपासना करनी चाहिए ।

भाष्य

आमनन्ति चैनं परमेश्वरमस्मिन् मूर्धचुबुकान्तराले जावालाः—‘य एषोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा सोऽविमुक्ते प्रतिष्ठित इति । सोऽविमुक्तः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति । वरणायां नासां च मध्ये प्रतिष्ठित इति । का वै वरणा का च नासीति’ । तत्र चेमामेव नासिकां या सर्वाणीन्द्रिय-कृतानि पापानि वारयतीति—सा वरणा, सर्वाणीन्द्रियकृतानि पापानि नाशयतीति—सा नासीति वरणा नासीति निरुच्य पुनरामनन्ति—

भाष्यका अनुवाद

जावाल मस्तक और चिबुकके मध्यमें परमेश्वरका स्थान कहते हैं—‘य एषोऽनन्तोऽव्यक्त०’ (जो अनन्त, अव्यक्त आत्मा है वह जीवमें प्रतिष्ठित है । जीव किसमें प्रतिष्ठित है ? वरणा और नासीके मध्यमें प्रतिष्ठित है । वरणा और नासी क्या हैं ?) और वहां इस भूसहित नासिकाका ही वरणा नासी ऐसा निर्वचन करके जो इन्द्रियकृत सब पापोंका वारण करती है वह वरणा है और इन्द्रियकृत सब पापोंका नाश

रत्नप्रभा

प्रादेशत्वस्य सम्पत्तिप्रयुक्तत्वे श्रुत्यन्तरं संवादयति—आमनन्तीति । य एषोऽनन्तः अपरिच्छिन्नः अतः अव्यक्तो दुर्विज्ञेयः तं कथं जानीयाम् इति अत्रेः प्रश्ने याज्ञवल्क्यस्य उत्तरम्—स ईश्वरः अविमुक्ते कामादिभिर्बद्धे जीवे भेदकल्पनया प्रतिष्ठितः उपास्यः । पुनरत्रिप्रश्नः—स इति । उत्तरम्—वरणायामिति । एवं प्रश्नोत्तरे अग्रेऽपि ज्ञेये । तत्र च श्रुतौ इमामेव भूसहितां नासिकां निरुच्येति भाष्ययोजना । सर्वानिन्द्रियकृतान् दोषान् वारयतीति वरणा भूः । सर्वान् दोषान् नाशयतीति नासी नासिकेति निर्वचनं श्रुतम् । नासाभ्रुवोः जीवद्वारा ईश्वरस्थानत्व-

रत्नप्रभाका अनुवाद

संपत्तिषु प्रादेशत्वकी कल्पना है, इसमें दूसरी श्रुतिकी सम्मति दिखलते हैं—‘आमनन्ति’ इत्यादिसे । जो यह प्रसिद्ध अनन्त—अपरिच्छिन्न अत एव अव्यक्त—दुर्विज्ञेय आत्मा है, उसको किस प्रकार जानें, अत्रिके इस प्रश्नपर याज्ञवल्क्यका उत्तर है—वह ईश्वर अविमुक्त—काम आदिसे बद्ध जीवमें भेदकल्पनासे प्रतिष्ठित है, उसकी उपासना करनी चाहिए । ‘सः’ इत्यादि अत्रिका फिर प्रश्न हैं । ‘वरणायाम्’ इत्यादि उसका उत्तर है । इस प्रकारके प्रश्नोत्तर आगे भी समझने चाहिएं । और वहाँ अर्थात् श्रुतिमें इती भूसहित नासिकाका निर्वचन करके, ऐसी भाष्यकी योजना करनी चाहिए । जो सब इन्द्रियकृत दोषोंका वारण करती है वह वरणा—भू है और जो सब इन्द्रिय-दोषोंका नाश करती है वह नासी—नासिका है ।

भाष्य

‘कतमच्चास्य स्थानं भवतीति, भ्रुवोर्घ्राणस्य च यः सन्धिः स एष द्युलोक-
स्य परस्य च संधिर्भवतीति’ (जावा० १) । तस्मादुपपन्ना परमेश्वरे
प्रादेशमात्रश्रुतिः । अभिविमानश्रुतिः प्रत्यगात्मत्वाभिप्राया । प्रत्य-
गात्मतया सर्वैः प्राणिभिरभिविमीयत इत्यभिविमानः । अभिगतो वायं
प्रत्यगात्मत्वाद्विमानश्च मानवियोगादित्यभिविमानः । अभिविमिमीते

भाष्यका अनुवाद

करती है वह नासी है ऐसा कहकर फिर कहते हैं—‘कतमच्चास्य स्थानं०’
(उसका कौन-सा स्थान है ? भौं और नासिकाकी जो संधि है वह इस द्युलोक
और परलोककी संधि है) । इसलिए परमेश्वरमें प्रादेशमात्र श्रुति युक्त है ।
अभिविमान श्रुति प्रत्यगात्माके अभिप्रायसे है । प्रत्यगात्मरूपसे सब प्राणियोंको
जिसका ज्ञान हो वह अभिविमान है । अथवा प्रत्यगात्मरूपसे सर्वव्यापक
तथा विमान—मानरहित होनेके कारण वह अभिविमान है । अथवा सब जगत्का

रत्नप्रभा

ध्यानात् पापवारकत्वमिति मन्तव्यम् । तयोर्मध्येऽपि विशिष्य जीवस्य स्थानं
पृच्छति—कतमदिति । भ्रुवोरिति उत्तरम् । प्राणस्येति पाठेऽपि प्राणस्येत्यर्थः ।
स एष सन्धिः द्युलोकस्य स्वर्गस्य परस्य च ब्रह्मलोकस्य सन्धित्वेन ध्येय इत्याह—
स एष इति । आभिमुख्येनाऽहं ब्रह्मेति विमीयते ज्ञायते इति अभिविमानः—
प्रत्यगात्मा । अभिगतश्चासौ विमानश्च सर्वस्वरूपत्वे सति आनन्त्यात् । मानमत्र

रत्नप्रभाका अनुवाद

इस प्रकार उस श्रुतिमें वरणा और नासीका निर्वचन है । जीवद्वारा ईश्वरस्थान होनेके कारण
ईश्वरस्थानत्वेन ध्यान करनेसे नासिका और भ्रू पापनिवारक हैं । उनके बीचमें भी जीवका
विशिष्ट स्थान पूछते हैं—‘कतमत्’ इत्यादिसे । उत्तर है—‘भ्रुवोः’ इत्यादि । ‘प्राणस्य’
के स्थानमें यदि ‘प्राणस्य’ पाठ हो, तो भी यही अर्थ है । नासिका और भ्रू की संधिके
स्थानमें द्युलोक—स्वर्गलोक और परलोक—ब्रह्मलोकके संधिस्थानरूपसे ध्यान करे, ऐसा
कहते हैं—‘स एष’ इत्यादिसे । जो ‘मैं ब्रह्म हूँ’ ऐसे अपरोक्ष ज्ञानका विषय हो, वह
अभिविमान—प्रत्यगात्मा है । अथवा अभि अपात् अभिगत—प्राप्त और विमान—परिमाण-
रहित, आत्मा सर्वस्वरूप और अनन्त होनेके कारण प्राप्त तथा परिमाणरहित है । यहाँपर

भाष्य

वा सर्वं जगत्कारणत्वादित्यभिविमानः । तस्मात् परमेश्वर एव वैश्वानर इति सिद्धम् ॥ ३२ ॥

इति श्रीमच्छङ्करभगवत्पादकृतौ शारीरकमीमांसाभाष्ये
प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २ ॥

भाष्यका अनुवाद

कारण होनेसे वह सबका निर्माता है इसलिए अभिविमान है । इससे सिद्ध हुआ कि वैश्वानर परमेश्वर ही है ॥ ३२ ॥

यातिवर श्रीभोलेबाबा कृत प्रथम अध्यायके द्वितीय पादके भाष्यका अनुवाद समाप्त ।

रत्नप्रभा

परिमाणम् । अभिविमिमीते-निर्मिमीते । तस्माद् वैश्वानरवाक्यमुपास्ये ब्रह्मणि समन्वितमिति सिद्धम् ॥ ३२ ॥ (७) ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्गोपालसरस्वतीपूज्यपादशिष्य
श्रीरामानन्दसरस्वतीकृतौ श्रीमच्छारीरकमीमांसादर्शन-
भाष्यव्याख्यायां भाष्यरत्नप्रभायां प्रथमाध्यायस्य
द्वितीयः पादः समाप्तः ॥ १ ॥ २ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

'मान' का अर्थ परिमाण है । अथवा जो सबका निर्माण करे वह अभिविमान है । इससे सिद्ध हुआ कि वैश्वानरवाक्यका उपास्य ब्रह्ममें समन्वय है ॥३२॥

* यातिवर श्रीभोलेबाबा कृत प्रथमाध्यायके द्वितीय पादका रत्नप्रभानुवाद समाप्त *



* ॐ नम परमात्मने *

प्रथमाध्याये तृतीयः पादः ।

[अत्राऽस्पष्टब्रह्मलिङ्गाना प्रायो ज्ञेयब्रह्मविषयाणां विचारः ।]

[१ द्युभ्वाद्यधिकरण सू० १-७]

सूत्र प्रधान भोक्तेशो द्युभ्वाद्यायतन भवेत् ।

श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धिभ्या भोक्तृत्वाच्चेत्परतः ॥१॥

नाद्यौ पक्षावात्मशब्दाच्च भोक्ता मुक्तगम्यतः ।

ब्रह्मप्रकरणादीशः सर्वज्ञत्वादितस्तथा ॥२॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—‘यस्मिन् द्यौ पृथिवी०’ इत्यादि श्रुतिम उक्त द्युलोक, भूलोक आदिका आधार सूत्रात्मा [हिरण्यगर्भ] है, अथवा प्रधान है, अथवा जीव है या परमेश्वर है ?

पूर्वपक्ष—श्रुतिप्रसिद्धि, स्मृतिप्रसिद्धि और आत्मशब्दसे माहूम होता है कि ईश्वरको छोड़कर सूत्रात्मा या प्रधान अथवा जीव द्यु, भू आदिका आधार है ।

सिद्धान्त—श्रुतिमें आत्मशब्द है, इससे सूत्रात्मा या प्रधान द्यु, भू आदिका आधार नहा हो सकते हैं । जीव भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उक्त आधार मुक्त पुरुषोंसे प्राप्य कहा गया है, यह प्रकरण ब्रह्मका है तथा सर्वज्ञत्व आदि धर्म ब्रह्ममें ही युक्त हो सकते हैं, अत ब्रह्म ही द्यु, भू आदिका आधार है ।

मुण्डकोपनिषद्में “यस्मिन् द्यौ पृथिवी चाऽतरिक्षमोत मन सह प्राणैश्च सर्वे । तमेवैक जानवाऽऽत्मानमन्या दाचो विमुञ्जथामृतस्यैव सेतु ” यह श्रुति है । इसका अर्थ है कि जिसमें द्युलोक, पृथिवी, आकाश, मन और सब इन्द्रियों आश्रित हैं, उस एक आधारको ही आत्मा जानो, आश्रित द्यु, पृथिवी आदिको नहीं । अनात्मप्रतिपादक तर्कशास्त्र आदि वाणियोंको छोड़ो, क्योंकि वे पुरुषार्थप्रद नहीं हैं, यही ब्रह्मका प्रापक है ।

इसमें संशय हाता है कि द्यु, भू आदिका आश्रय सूत्रात्मा है अथवा प्रधान है अथवा जीव है या ब्रह्म ?

यद्यपि पूर्वपक्षी कहता है कि सबका आश्रय सूत्रात्मा है, क्योंकि ‘वायुना वै गौतम सूत्रेणायं लोक परश्च लोक सर्वाणि च भूतानि सद्गुणानि भवन्ति” (इ गौतम ’ सूत्रात्मा वायुसे ही यह लोक, पर लोक और सब भूत गूँये गये हैं) इस श्रुतिसे स्पष्ट मालूम हाता है कि सूत्रात्मा वायु द्यु, भू आदिका आश्रय है । अथवा प्रधान आश्रय हो सकता है, क्योंकि सांख्यस्मृतिस प्रधान तस्य पदार्थोक्ता आधार जाना जाता है । अथवा भोक्ता—जीव हो सकता है, क्योंकि “तमेवैक जानवाऽऽत्मानम्” इसमें आत्मशब्द है ।


सिद्धान्ती कहते है कि वायु तथा प्रधान आधार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि श्रुतिमें उक्त आत्मशब्दसे उनका बोध नहीं हो सकता है । जीव भी आधार नहीं हो सकता, क्योंकि

द्युभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात् ॥ १ ॥

पदच्छेद—द्युभ्वाद्यायतनम्, स्वशब्दात् ।

पदार्थोक्ति—द्युभ्वाद्यायतनम्—‘यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतम्’ इत्यादिश्रुतौ प्रतीयमानं द्युभ्वादीनामधिष्ठानं [ब्रह्मैव, कुतः] स्वशब्दात्—परब्रह्मवाचकात्मशब्दस्य श्रुतौ विद्यमानत्वात् ।

भाषार्थ—‘यस्मिन् द्यौः०’ (जिसमें द्युलोक, भूलोक, अन्तरिक्ष आदि कल्पित हैं) इत्यादि श्रुतिमें प्रतीयमान द्युलोक, भूलोक आदिका आश्रय परब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्मका वाचक आत्मशब्द श्रुतिमें है ।



रत्नप्रभा

द्युभ्वोत्भूमपदमक्षरमीक्षणीयं श्रीराममल्पहृदि भान्तमधीशितारम् ।

इन्द्रादिवेद्यमस्त्रिलस्य च शासितारं ज्योतिर्नभःपदमनिद्रमजं भजेऽहम् ॥१॥

एवं रूढिपदबहुलानां प्रायेण सविशेषवाक्यानां समन्वयो द्वितीयपादे दर्शितः ।

अधुना यौगिकपदबहुलानां निर्विशेषप्रधानानां वाक्यानां समन्वयं वक्तुं तृतीय-

रत्नप्रभाका अनुवाद

द्यु और भू आदि जिसमें ओत—गुंथे हुए हैं, भूमा—महान्, अक्षर—अविनाशी, साक्षात्करणीय, दहर—हृदयकमलमें भासित होनेवाले, अधीश्वर, इन्द्र आदि देवताओंके भी प्येय, सबके शासक, ज्योति और आकाशपदवाच्य, सदा जागरूक और जन्मरहित श्रीरामचन्द्रजीका मैं ध्यान करता हूँ ।

दूसरे पादमें रूढपदप्रचुर सविशेष वाक्योंका ब्रह्ममें समन्वय दिखलाया गया है अब यौगिकपदप्रचुर निर्विशेषवाक्योंका ब्रह्ममें समन्वय करनेके लिए तीसरा पाद प्रारम्भ होता है ।

“तत्रा विद्वान् पुण्यपापे विध्य निरञ्जनः परम साम्यमुपैति” (तब ब्रह्मज्ञानी पुण्यपापसे मुक्त हो कर परमात्माको प्राप्त करता है) इस प्रकार पु, भू आदिका आधार मुक्त पुरुषमें प्राप्य कहा गया है, भोक्ता जीव मुक्तोसे प्राप्य नहीं हो सकता है । “करिष्यन् भगवो विज्ञाने सर्वमिदं विज्ञात भवति” (दे भगवन् ! किन्के ज्ञात होनेपर यह सब विज्ञात हो जाता है) इस प्रकार एकके ज्ञानसे सबके ज्ञानका उपक्रम है, “ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति” (ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता है) इस प्रकार उपसहार किया गया है, अतः यह प्रकरण ब्रह्मका है एवं भूत-योग्यधिकरण (१।२।६) में उक्त सर्वव्याप्य आदि धर्म ब्रह्ममें ही सगत हो सकते हैं, इसलिये पु, भू आदिका आधार ब्रह्म ही है ।

(१) इस तृतीय पादमें प्रतिपाद्य सब अभिकरणोंका सार इस श्लोकमें वर्णित है ।

(२) मयुगलब्रह्मनिपादक । (३) निर्गुणब्रह्मप्रतिपादक ।

भाष्य

इदं श्रूयते—

‘यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः ।

तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथामृतस्यैप सेतुः ॥’

(मु० २।२।५) इति । अत्र यदेतद् द्युप्रभृतीनामोतत्ववचनादायतनं
भाष्यका अनुवाद‘यस्मिन् द्यौः पृथिवी०’ (जिसमें द्यलोक, पृथिवी और अन्तरिक्ष गुंथे हुए हैं
और सब इन्द्रियोंके साथ मन भी जिसमें कल्पित है, उसी एकाको आत्मा जानो,

रत्नप्रभा

पादः आरभ्यते । अतोऽत्र अधिकरणानां श्रुत्यध्यायपादसङ्गतयः । तत्र पूर्व-
मुपक्रमस्यसाधारणशब्दस्य वाक्यशेषस्थद्युमूर्द्धत्वादिना ब्रह्मपरत्वमुक्तम् । तद्वद्
अत्रापि उपक्रमस्यसाधारणायतनत्वस्य वाक्यशेषस्थसेतुश्रुत्या वस्तुतः परि-
च्छिन्ने प्रधानादौ व्यवस्था इति दृष्टान्तलक्षणाधिकरणसङ्गतिः । पूर्वपक्षे
प्रधानाद्युपास्तिः, सिद्धान्ते निर्विशेषब्रह्मधीरिति फलम् । मुण्डकवाक्य-
मुदाहरति—इदमिति । यस्मिन् लोकत्रयात्मा विराद् प्राणैः सर्वैः सह
मनः—सूत्रात्मकम्, चकाराद् अभ्याकृतं कारणम् ओतम् कल्पितं तदपवादेन
तमेव अधिष्ठानात्मानं प्रत्यगभिनं जानथ श्रवणादिना, अन्याः अनात्मवाचो
विमुञ्चथ विशेषेण निशेषं त्यजथ, एषः—वाग्विमोकपूर्वकार्मसाक्षात्कारः, अमृतस्य—

रत्नप्रभाका अनुवाद

इस पादमें वेदान्तवाक्योंका समन्वय किया गया है, अतः इस पादके अधिकरणोंकी श्रुति,
अध्याय और पादके साथ संगतियां हैं । जैसे पूर्वाधिकरणमें उपक्रमस्य साधारणशब्द
वाक्यशेषस्थ द्युमूर्द्धत्व आदिके बलमे ब्रह्मपरत्व कहा गया है, उसी प्रकार यहां भी उपक्रमस्य
साधारण आयतनत्व वाक्यशेषमें आये हुए सेतुशब्दके श्रवणसे परिच्छिन्न प्रधानादिपरक है
ऐसा पूर्वपक्ष है, अतः पूर्वाधिकरणसे इस अधिकरणकी दृष्टान्तसंगति है । पूर्वपक्षमें प्रधान
आदिकी उपासना फल है और सिद्धान्तमें निर्विशेष ब्रह्मका ज्ञान फल है । मुण्डकवाक्यको
उद्धृत करते हैं—“इदम्” इत्यादिसे । जिसमें सकलजगत्स्वरूप विराद्, सब प्राणोंके
साथ सूक्ष्म मन, और चकारसे अभ्याकृत कारण कल्पित हैं, उन कल्पित पदार्थोंका
अपवाद करके उसी अधिष्ठानभूतको श्रवणादिसे आत्मा जानो अर्थात् प्रत्यगात्मासे अभिन्न
जानो और अन्य अनात्माओंका प्रतिपादन करनेवाली वातांको विलकुल छोड़ दो । इस
प्रकार अनात्म-वातांके त्यागपूर्वक हुआ आत्मसाक्षात्कार असार, अपार और दुर्वार संसार-

भाष्य

किञ्चिदवगम्यते, तत् किं परं ब्रह्म स्यादाहोस्विदर्थान्तरमिति सन्दिह्यते ।

तत्रार्थान्तरं किमप्यायतनं स्यादिति प्राप्तम् । कस्मात् ? 'अमृत-
स्यैव सेतुः' इति श्रवणात् । पारवान् हि लोके सेतुः प्रख्यातः । न च

भाष्यका अनुवाद

अन्य बातोंको छोड़ो, वह मोक्षका सेतु है) ऐसी श्रुति है । यहां द्युलोक आदि
कल्पित हैं इस कथनसे उनका कोई एक आश्रय प्रतीत होता है, वह परब्रह्म है
या कोई अन्य पदार्थ है, इस तरह सन्देह होता है ।

पूर्वपक्षी—कोई अन्य पदार्थ ही उनका आश्रय है ऐसा प्रतीत होता है,
क्योंकि श्रुति कहती है कि 'अमृत०' (यह अमृत का सेतु है) । यह प्रसिद्ध
है कि लोकमें सेतु परतीरसे संबद्ध—मर्यादित होता है । परब्रह्म मर्यादित

रत्नप्रभा

मोक्षस्य असारापारदुर्वारसंसारवारिधेः परपारस्य सेतुरिव सेतुः—प्रापक इति
मातृवत् श्रुतिः मुमुक्षूनुपदिशति । तत्र आयतनत्वस्य साधारणधर्मस्य दर्शनात्
संशयमाह—तत्किमिति । अमृतस्य—ब्रह्मणः सेतुरिति पृष्ठथा ब्रह्मणो भिन्नत्वेन
सेतोः श्रुतत्वाद् एपशब्दपरामृष्टं द्युभ्याद्यायतनम् अब्रह्मैव सेतुरिव सेतुरित्याह—
अमृतस्येति । भेदश्रवणात्, सेतुरिति श्रवणाच्च इत्यर्थः । तत्र भेदश्रवणं व्या-
ख्यातम् । सेतुश्रवणं स्वयं विवृणोति—पारवानिति । अनन्तं कालतः, अपारं
देशतः । जलविधारकमुख्यसेतोः ग्रहणासम्भवाद् गौणसेतुप्रद्वे कर्तव्ये मुख्यसेत्व-
विनाभूतपारवत्त्वगुणवानेव कश्चिद् ग्राह्यः, न तु मुख्यस्य अनियतविधारणगुणवान्

रत्नप्रभाका अनुवाद

सागरका सेतुकी तरह परपार—मोक्षको प्राप्त करानेवाला है, इस तरह श्रुति माताके समान
मुमुक्षुओंको उपदेश करती है । इस श्रुतिमें आयतनत्वरूप साधारण धर्म दिखाई देता है,
इसलिए संशय दर्शाते हैं—“तत्किम्” इत्यादिसे । 'अमृतस्य—ब्रह्मणः सेतुः' इस पद्योसे सेतु
ब्रह्मसे भिन्न प्रतीत होता है, इस कारण 'एप' शब्दसे परामृष्ट द्युलोक आदिका आयतन
अब्रह्म ही सेतुसदृश सेतु है ऐसा "अमृतस्य" इत्यादिसे कहते हैं । 'अमृतस्य' (अमृतका)
इस प्रकार भेदका श्रवण है और 'सेतु' पदका श्रवण है, इसलिए ऐसी योजना करनी
चाहिए । सेतु ब्रह्मसे किस प्रकार भिन्न है, इसका व्याख्यान किया गया । सम्प्रति सेतुश्रुतिका
स्वयं व्याख्यान करते हैं—“पारवान्” इत्यादिसे । अनन्त—कालमें अपरिच्छिन्न ।
अपार—देशसे अपरिच्छिन्न । जलविधारक मुख्य सेतुका ग्रहण असंभव होनेसे गौण
सेतुके ग्रहणमें मुख्य सेतुसे नित्यसंबद्ध पारवत्त्व गुणवाले किसी पदार्थका ग्रहण करना

भाष्य

परस्य ब्रह्मणः पारवच्चं शक्यमभ्युपगन्तुम्, 'अनन्तमपारम्' (वृ० २।४।१२) इति श्रवणात्। अर्धान्तरे चाऽऽयतने परिगृह्यमाणे स्मृतिप्रसिद्धं प्रधानं परिग्रहीतव्यम्, तस्य हि कारणत्वादायतनत्वोपपत्तेः। श्रुतिप्रसिद्धो वा वायुः स्यात्, 'वायुर्वै गौतम तत् सूत्रं वायुना वै गौतम सूत्रेणाऽयं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि सन्दृब्धानि भवन्ति' (वृ० ३।७।२)

भाष्यका अनुवाद

नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रुति कहती है—'अनन्त०' (वह अनन्त एवं अपार है)। अन्य पदार्थको आश्रय मानना अभीष्ट हो तो स्मृतिप्रसिद्ध प्रधानका स्वीकार करना उचित है, क्योंकि वह कारण होनेसे सबका आश्रय हो सकता है। अथवा श्रुतिप्रसिद्ध वायु आश्रय हो सकता है, क्योंकि 'वायुर्वै गौतम०' (हे गौतम ! वायु ही वह सूत्र है, हे गौतम ! वायुरूप सूत्रसे ही यह लोक, पर लोक और सब भूत गुंथे हुए हैं) इस प्रकार श्रुतिमें वायु भी

रत्नप्रभा

ईश्वर इति भावः। यथा लोके मणयः सूत्रेण ग्रथिता एवं हे गौतम समष्टि-
लिङ्गात्मकवायुना स्थूलानि सर्वाणि संदृब्धानि ग्रथितानि भवन्तीति श्रुत्यर्थः।

रत्नप्रभाका अनुवाद

चादिप, परन्तु मुख्यका जो अनियत विधारणरूप गुण है, उस गुणवाले ईश्वरका प्रदण करना युक्त नहीं है, यह पूर्वपक्षका तात्पर्य है। जैसे लोकमें मणियां सूतमें गुंथी रहती हैं, वैसे ही हे गौतम ! समष्टिलिङ्गात्मक वायुमें सब स्थूल पदार्थ गुंथे

(१) मुख्य सेतुका पारवच्च नियत लिङ्ग है विधारण अनियत है क्योंकि अदृढ सेतुमें विधारण नहीं रहता है।

(२) यदि अमृतसे भिन्न पारवच्च गुणवाला सेतु माना जाय तो सांख्यस्मृतिकल्पित प्रधानको ही सेतु मानना उचित है। वह अपनी कार्यरूप उपाधिसे मर्थादित होनेके कारण पुरुषको प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए पारवाला है और सुलोक, भूलोक आदिका आयतन भी है, क्योंकि उनकी प्रकृति है। प्रकृति विकारोंकी आयतन होती ही है। प्रधान आत्मा भी है, क्योंकि आत्मशब्द स्वभाववाचक है जैसे 'प्रकाशात्मा प्रदीप' इसमें स्पष्ट है। उसी प्रकार प्रधानका ज्ञान भी मोक्षमें उपयोगी है, क्योंकि उसका ज्ञान न हो तो 'प्रधानसे पुरुष भिन्न है' यह ज्ञान न होनेसे अपवर्ग प्राप्त नहीं होगा। यदि प्रमाणके अभावसे प्रधानको आयतन आदि माननेमें परितोष न हो तो नामरूपके बीज ईश्वरके शक्तिभूत अव्याकृत भूतसूक्ष्मको आयतन मानो। भूतसूक्ष्म प्रमाणगम्य है, अतः उसमें सब सम्भव हो सकते हैं। यदि साक्षात् धृतिके कहे हुए आयतनका ही स्वीकार करते हो, तो वायुर्वै० इत्यादि धृतिके अनुसार वायुको स्वीकार करो, यह तात्पर्य है।

भाष्य

इति वायोरपि विधारणत्वश्रवणात् । शारीरो वा स्यात्, तस्यार्जं भोक्तृत्वाद् भोग्यं प्रपञ्चं प्रत्यायतनत्वोपपत्तेरिति ।

एवं प्राप्त इदमाह—द्युभ्वाद्यायतनमिति । द्यौश्च भूश्च द्युभुवौ द्युभुवावादी यस्य तदिदं द्युभ्वादि । यदेतदस्मिन् वाक्ये द्यौः पृथिव्यन्तरिक्षं मनः प्राणा इत्येवमात्मकं जगदोत्तत्वेन निर्दिष्टं तस्याऽऽयतनं परं ब्रह्म भवितुमर्हति । कुतः ? स्वशब्दात्, आत्मशब्दादित्यर्थः । आत्मशब्दो हीह भवति—‘तमेवैकं जानथ आत्मानम्’ इति । आत्मशब्दश्च परमात्मपरिग्रहे सम्यगवकल्पते,

भाष्यका अनुवाद

विधारक कहा गया है । अथवा जीव आश्रय हो सकता है, क्योंकि वह भी भोक्ता होनेसे भोग्य प्रपञ्चका आयतन हो सकता है ।

सिद्धान्ती—ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं—‘द्युभ्वाद्यायतनम्’ इत्यादि । द्युलोक और भूलोक ‘द्युभुवौ’ हैं । वे जिसके आदि हैं, वह द्युभ्वादि है । इस वाक्यमें (‘यस्मिन् द्यौः’ इत्यादि वाक्यमें) द्युलोक, पृथिवी, अन्तरिक्ष, मन, प्राण आदि स्वरूप जो जगत् गुंथा कहा गया है, उसका आश्रय परब्रह्म ही हो सकता है; क्योंकि स्वशब्दसे अर्थात् आत्मशब्दसे । यहां ‘तमेवैकं०’ (उस एक-को ही आत्मा जानो) इस श्रुतिमें आत्मशब्दका प्रयोग है और आत्मशब्द

रत्नप्रभा

आत्मशब्दात् पक्षद्वयमपि अयुक्तम् इत्यत आह—शारीरो वेति । सद्वितीयत्वेन सेतुशब्दोपपत्तेश्च इत्यर्थः ।

ननु आत्मशब्दो जीवे सम्भवतीत्यत आह—आत्मशब्दश्चेति । उपाधिपरिच्छिन्नस्य जीवस्य सर्ववस्तुप्रत्यक्त्वं मुख्यं नास्तीत्यर्थः । उपक्रमस्यसाधारणायतनत्वस्य गौणसेतुत्वलिङ्गात् प्रथमश्रुतात्मश्रुत्या ब्रह्मत्वनिश्चय इति भावः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

हुए हैं, ऐसा श्रुतिका अर्थ है । श्रुतिमें आत्मशब्द है, अतः प्रधान या वायु द्युलोक आदिका आयतन नहीं हो सकता है, इसपर कहते हैं—“शारीरो वा” इत्यादि । सद्वितीय होनेके कारण शारीरमें सेतुशब्द भी उपपन्न होता है ।

आत्मशब्द तो जीवमें संभव है, इस शङ्कापर कहते हैं—“आत्मशब्दश्च” इत्यादि । जीव उपाधिपरिच्छिन्न होनेके कारण मुख्यरूपसे सब वस्तुओंका आन्तर नहीं हो सकता । इस प्रकार निश्चय होता है कि उपक्रमस्य साधारण आयतनशब्द गौणसेतुत्वलिङ्गसे और प्रथम पठित आत्मशब्दसे ब्रह्मवाचक

भाष्य

नाऽर्थान्तरपरिग्रहे । क्वचिच्च स्वशब्देनैव ब्रह्मण आयतनत्वं ध्रुयते—
'सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः' (छा० ६।८।४)
इति । स्वशब्देनैव चेह पुरस्तादुपरिष्ठाच्च ब्रह्म संकीर्त्यते—'पुरुष एवेदं
विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम्' (मु० २।१।१०) इति । ब्रह्मैवेदममृतं
पुरस्ताद्ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणतथोत्तरेण' (मु० २।२।११) इति च । तत्र
त्वायतनायतनबद्धावश्रवणात् 'सर्वं ब्रह्म' इति च सामानाधिकरण्यात् ।

भाष्यका अनुवाद

परमात्माके ग्रहण करनेमें ही ठीक ठीक उपपन्न होता है, दूसरे पदार्थके स्वीकार
करनेमें उसकी ठीक ठीक उपपत्ति नहीं होती । कहीं कहीं श्रुतिमें स्वशब्दसे
ही ब्रह्म आश्रय कहा गया है, जैसे—'सन्मूलाः सोम्येमाः०' (हे सोम्य ! सत्
इन सब प्रजाओंका मूल है, सत् ही आयतन है और सत् ही प्रतिष्ठा है)
इत्यादिमें । यहां भी 'पुरुष एवेदं०' (पुरुष ही यह सब कर्म और तप है, ब्रह्म है,
पर अमृत है) और 'ब्रह्मैवेदममृतं०' (ब्रह्म ही यह अमृत है, आगे ब्रह्म है, पीछे
ब्रह्म है, दक्षिणमें और उत्तरमें ब्रह्म है) इन श्रुतियोंमें पहले और पीछे स्वशब्दसे

रत्नप्रभा

स्वशब्दाद् इत्यस्य अर्थान्तरमाह—क्वचिच्चेति । प्रजानाम् उत्पत्तौ सदेव मूलम्,
स्थितौ आयतनम्, लये प्रतिष्ठेति ब्रह्मवाचिसत्पदेन छान्दोग्ये ब्रह्मण आयतनत्व-
श्रुतेः अत्रापि तथा इत्यर्थः । अर्थान्तरमाह—स्वशब्देनैवेति । 'यस्मिन् यौः' इति
वाक्यात् पूर्वोत्तरवाक्ययोः पुरुषब्रह्मादिशब्देन ब्रह्मसङ्कीर्तनाद् मध्येऽपि ब्रह्म
ग्राह्यमित्यर्थः । पुरुष इति पूर्ववाक्यम्, ब्रह्मैवेति उत्तरवाक्यम्, सर्वास्तु दिक्षु स्थितं
सर्वं ब्रह्मैवेत्यर्थः । उत्तरेण—उत्तरस्यां दिशि । उदाहृतवाक्यस्य सविशेषब्रह्मपरत्वमा-

रत्नप्रभाका अनुवाद

ही है । सप्रगत 'स्वशब्दात्' का दूसरा अर्थ कहते हैं—'क्वचिच्च' इत्यादिसे । सत् ही
प्रजाकी उत्पत्तिमें कारण है, स्थितिमें आश्रय है और लयमें प्रतिष्ठा है, इस प्रकार छान्दोग्यमें
ब्रह्मवाचक सत्पदेसे ब्रह्म आयतन कहा गया है, इसलिए यहाँ भी वैसा ही है ऐसा अर्थ
है । उक्त पदका फिर अन्य अर्थ करते हैं—'स्वशब्देनैव' इत्यादिसे । तात्पर्य यह है कि
'यस्मिन् यौः' इस वाक्यसे पूर्व और उत्तर वाक्योंमें पुरुष, ब्रह्म आदि शब्दोंसे ब्रह्मका
सङ्कीर्तन किया है, इसलिए मध्यगत इस वाक्यमें भी ब्रह्मका ही ग्रहण करना चाहिए, 'पुरुष
एवेदं०' यह पूर्व वाक्य है । 'ब्रह्मैवेदममृतं०' यह उत्तर वाक्य है । सब दिशाओंमें
स्थित सब पदार्थ ब्रह्मरूप ही हैं, ऐसा अर्थ है । 'उत्तरेण'—उत्तर दिशामें । 'पुरुष एवेदं०'

भाष्य

यथा ह्यनेकात्मको वृक्षः शाखा स्कन्धो मूलं चेति, एवं नानारसो विचित्र आत्मेत्याशङ्का सम्भवति, तां निवर्तयितुं सावधारणमाह—‘तमेवैकं जानथ आत्मानम्’ इति । एतदुक्तं भवति—न कार्यप्रपञ्चविशिष्टो विचित्र आत्मा विज्ञेयः । किं तर्हि ? अविद्याकृतं कार्यप्रपञ्चं विद्यया प्रविलापयन्तस्तमेवैकमायतनभूतमात्मानं जानथैकरसमिति । यथा यस्मिन्नास्ते देवदत्तदानयेत्युक्त आसनमेवाऽऽनयति न देवदत्तम्, तद्वदायतनभूतस्यैवेकरसस्याऽऽत्मनो विज्ञेयत्वमुपदिश्यते । विकारानृताभि-

भाष्यका अनुवाद

ही ब्रह्मका सङ्कीर्तन है । इन श्रुतियोंमें आधार आधेय भावसे ब्रह्म श्रुत है और ‘सर्वं ब्रह्म’ (सब ब्रह्मरूप है) ऐसा सामानाधिकरण्य है इसलिए जैसे शाखा, स्कन्ध और मूलके भेदसे वृक्ष अनेक स्वरूपवाला है, वैसे भिन्न भिन्न स्वरूपवाला विचित्र आत्मा है, ऐसी शङ्का होती है, उसका निराकरण करनेके लिए निश्चयपूर्वक [श्रुति] कहती है—‘तमेवैकं०’ । तात्पर्य यह है कि कार्यप्रपञ्चसे विशिष्ट विचित्र आत्मा ज्ञेय नहीं है, किन्तु अविद्याजन्य कार्य-प्रपञ्चका विद्यासे बाध करके आयतनभूत उसी एकको एकरस आत्मा जानो । जैसे ‘जिस पर देवदत्त बैठा है उसे लोओ’ ऐसा कहने पर सन्तुष्य आसनेको ही लाता है, देवदत्तको नहीं लाता, वैसे ही आश्रयभूत एकरस आत्मा ही विज्ञेय है, ऐसा उपदेश किया गया है । मिथ्याकल्पित विकारमें जिसे अभिमान है,

रत्नप्रभा

शङ्क्य वाक्यं व्याचष्टे—तत्रेत्यादिना । सामानाधिकरण्यात् विचित्र आत्मेति सम्बन्धः । यस्मिन् सर्वम् ओतं तमेवैकम् इत्येवकारैकशब्दाभ्यां निर्विशेषं ज्ञेयम् इत्युक्त्वा हेत्वन्तरमाह—विकारानृतेति । विकारे अनृते कल्पिते अभिसन्धोऽभिमानो यस्य तस्य अनर्थभाक्त्वेन निन्दाश्रुतेश्च कूटस्थसत्यं ज्ञेयम् इत्यर्थः । कथं तर्हि

रत्नप्रभाका अनुवाद

इत्यादि उदाहृत वाक्य सविशेष—सगुण ब्रह्मपरक है, ऐसी आशङ्का कर उसका निराकरण करनेके लिए वाक्यका विवरण करते हैं—“तत्र” इत्यादिसे । ‘सामानाधिकरण्यात्’ का ‘विचित्र आत्मा’ के साथ संबन्ध है । ‘यस्मिन्.....तमेवैकं’ (जिसमें सारा जगत् कल्पित है उस एकको ही) इस प्रकार ‘एव’ और ‘एक’ शब्दोंसे निर्विशेष ब्रह्म स्मृतम् है यह कहकर दूसरा हेतु कहते हैं—“विकारानृत” इत्यादिसे । विकार—अनृत अर्थात् कल्पित अनात्म

भाष्य

सन्धस्य चाऽपवादः श्रूयते—‘मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेन पश्यति’ (का० २।४।११) इति । ‘सर्वं ब्रह्म’ इति तु सामानाधिकरण्यं प्रपञ्चप्रतिपादनार्थं नाऽनेकरमताप्रतिपादनार्थम्, ‘स यथा सैन्धवघनोऽनन्तरोऽप्राह्यः कृत्स्नो रसघन एवैवं वा अरेऽयमात्मानन्तरोऽप्राह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव’ (वृ० ४।५।१३) इत्येकरसताश्रयणात् । तस्माद् द्युम्नाद्यायतनं परं ब्रह्म । यत्तुक्तम्—सेतुश्रुतेः सेतोश्च पारवत्त्वोपपत्तेर्ब्रह्मणोऽ-

भाष्यका अनुवाद

उसकी ‘मृत्यो स मृत्यु०’ (जो एकरूप ब्रह्ममें भेद-सा देसता है वह जन्म-मरणपरम्परामें पडता है) इस प्रकार निन्दा सुनी जाती है । ‘सर्वं ब्रह्म’ (सब ब्रह्मरूप है) यह सामानाधिकरण्य तो प्रपञ्चके बाधके लिए है, ब्रह्मके अनेकरूप प्रतिपादन करनेके लिए नहीं है, क्योंकि ‘स यथा सैन्धवघनो०’ (जैसे लवण-पिण्ड भीतर बाहर सर्वत्र लवणैकरस है, उसमें दूसरे रसका गन्ध नहीं है, उसी प्रकार हे मैत्रेयि ! यह आत्मा भीतर बाहर सर्वत्र ज्ञानैकरस है, इसमें दूसरे रसका स्पर्श नहीं है) इस प्रकार आत्मा एकरस सुना जाता है । इसलिए द्युलोक, भूलोक आदिका आश्रय ब्रह्म है । वह सेतु कहा गया है और सेतु

रत्नप्रभा

सामानाधिकरण्यं तत्राह—सर्वं ब्रह्मेति । यश्चोर स स्वाणुरित्तिवद्, यत्सर्वं तद् ब्रह्मेति सर्वेद्देशेन ब्रह्मत्वविधानाद् बाधनार्थम्, न तु यद् ब्रह्म तत् सर्वम् इति नानारसत्वार्थम् इत्यर्थं । तत्र नियामकमाह—स यथेति । लवणपिण्डोऽन्तर्बहिश्च रसान्तरशून्यं सर्वो लवणैकरसो यथा, एवमरे मैत्रेयि विदेकरस आत्मा इत्यर्थं । यद्यपि पारवत्त्वसावयवत्वादिकं मुख्यसेत्वव्यभिचारि, तथापि सेतो जलादिवन्धन-

रत्नप्रभाका अनुवाद

पदाथमें जिसका अभिमान है, वह दुःखी होता है इस प्रकार भेद—प्रपञ्चको सत्य माननवालेकी धृतिमें निन्दा की गई है अतः कृत्यस्य सत्यं ब्रह्म ही ज्ञेय है ऐसा अर्थ है । तब सामानाधिकरण्यकी क्या गति होगी ? इसपर कहते हैं—‘सर्वं ब्रह्म इत्यादि । जो चार है वह स्वाणु है इसका समान जो सकलप्रपञ्च है वह ब्रह्म है, इस प्रकार सबके उद्देशसे ब्रह्मत्वका विधान किया है, यह प्रपञ्चके बाधक लिए है, जो ब्रह्म है वह प्रपञ्च है द्वैत प्रकार ब्रह्मक भिन्न भिन्न स्वरूपोंके प्रतिपादनके लिए नहीं है । इसमें नियामक धृति कहते हैं— स यथा इत्यादसे । अर्थात् जैसे लवणपिण्ड भीतर और बाहर रसान्तररहित है सब लवणैकरस ही—खाण ही है वैसे ही हे मैत्रेयि ! आत्मा ज्ञानैकरस है । यद्यपि पारवत्त्व सावयव आदि मुख्य

भाष्य

र्थान्तरेण द्युभ्वाद्यायतनेन भवितव्यम् इति । अत्रोच्यते—विधारणत्व-
मात्रमात्र सेतुश्रुत्या विवक्ष्यते, न पारवत्त्वादि । नहि मृदारुमयो लोके
सेतुर्दृष्ट इत्यत्रापि मृदारुमय एव सेतुरभ्युपगम्यते । सेतुशब्दार्थोऽपि
विधारणत्वमात्रमेव न पारवत्त्वादि, पिञ्जो बन्धनकर्मणः सेतुशब्दव्युत्पत्तेः ।

भाष्यका अनुवाद

पारवान् ही होता है, अतः द्युलोक, भूलोक आदिका आश्रय ब्रह्मसे अन्य पदार्थ
होना चाहिए, ऐसा जो कहा है; उसके उत्तरमें कहते हैं—यहां सेतुश्रुतिसे उसमें
विधारणत्वकी ही विवक्षा है, पारवत्त्व आदिकी विवक्षा नहीं है । लोकमें
मिट्टी और लकड़ीका बना हुआ सेतु देखनेमें आता है, इसलिए यहां भी मिट्टी
और लकड़ीका ही बना हुआ सेतु स्वीकार नहीं किया जा सकता । सेतुशब्दका
अर्थ भी विधारण करना मात्र ही है, पारवत्त्व आदि उसका अर्थ नहीं है,
क्योंकि बन्धनार्थक 'पिञ्' धातुसे सेतुशब्द निष्पन्न होता है ।

रत्नप्रभा

रूपं यद् विधारणं तदेव व्यभिचारित्वेऽपि सेतुपदार्थैकदेशत्वाद् गुणत्वेन ब्राह्मम्,
न तु सेतुपदार्थबहिर्भूतं पारवत्त्वादिकमित्याह—अत्रोच्यते इति । दृष्टत्वात्
तद्ग्रहेऽतिप्रसङ्गमाह—नहीति । अत्र—श्रुतौ, परेणेति शेषः । विधारणस्य
शब्दार्थत्वं स्फुटयति—पिञ् इति । सिनोति बध्नातीति सेतुपदार्थैकदेशो
विधारणम् इत्यर्थः । तथा चाऽमृतपदस्य भावप्रधानत्वादमृतस्य सेतुः विधारकं
ब्रह्म, अस्त्यैव अमृतत्वं नाऽन्यस्येत्यर्थः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

सेतुके अव्यभिचारी गुण है और सेतुका जलादिबन्धनरूप जो विधारण है वह व्यभिचारी
गुण है, तो भी यह व्यभिचारी गुण सेतुपदके अर्थका एकदेश—भाग होनेसे गुणरूपसे ब्रह्म
है और सेतुपदार्थके बहिर्भूत पारवत्त्व आदिका गुणरूपसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसा
कहते हैं—“अत्रोच्यते” इत्यादिसे । दृष्ट होनेके कारण पारवत्त्व आदि धर्मोंके ग्रहणमें
आपात्ति दिसलाते हैं—“नहि” इत्यादिसे । अत्र—श्रुतिमें । ‘अभ्युपगम्यते’ के पहले ‘परेण’
इतना शेष समझना चाहिए । विधारण सेतुशब्दका अर्थ है, यह स्पष्ट करते हैं—“पिञ्”
इत्यादिसे । ‘सिनोति बध्नाति’ (बाँधता है) इस प्रकार सेतुपदके अर्थका एकदेश विधारण
है, ऐसा अर्थात् है । उगी प्रकार ‘अमृतस्य’ इसमें ‘अमृत’ पदको भावप्रधान (अमृतत्व
जिसमें प्रधान है ऐसा) माननेसे अमृतत्वका सेतु—विधारक ब्रह्म है, अथवा इगमें अमृत
तत्त्व है, दूसरेमें नही है ऐसा अर्थ होता है ।

भाष्य

अपर आह—‘तमेवकं जानथ आत्मानम्’ इति यदेतत्सङ्कीर्तितमात्म-
ज्ञानम्, यच्चैतत् ‘अन्या वाचो विमुञ्चथ’ इति वाग्विमोचनम्, तदत्राऽ-
मृतत्वसाधनत्वात् ‘अमृतस्यैप सेतुः’ इति सेतुश्रुत्या संकीर्त्यते, न तु
द्युम्वाघायतनम् । तत्र यदुक्तम्—सेतुश्रुतत्रेदणोऽर्थान्तरंण द्युम्वाघायतनेन
भवितव्यमिति, एतदुक्तम् ॥ १ ॥

भाष्यका अनुवाद

दूसरा कहता है—‘तमेवकं०’ इस प्रकार जो आत्मज्ञानका संकीर्तन किया
है और ‘अन्या वाचो०’ इस प्रकार जो अभ्य वाणियोंके त्याग का संकीर्तन
किया है, यहां उसका अमृतत्वके साधन होनेसे ‘अमृतस्यैप०’ (यह अमृतका
सेतु है) इस श्रुति द्वारा सेतुरूपसे संकीर्तन होता है, द्युलोक, भूलोक आदिके
आश्रयका संकीर्तन नहीं होता । इसलिए सेतुश्रुतिसे द्युलोक, भूलोक आदिका
आयतन ब्रह्मसे अन्य पदार्थ होना चाहिए, ऐसा जो कहा है, वह युक्त
नहीं है ॥ १ ॥

रत्नप्रभा

यद्वा द्युम्वाघाधारो ब्रह्म न सेतुशब्दार्थः, किन्तु अव्यवहितं ज्ञानमित्याह—
अपर इति । फलितमाह—तत्र यदुक्तमिति । ज्ञाने सेतौ गृहीते सति
इत्यर्थः ॥ १ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

अथवा द्युलोक आदिका आधार ब्रह्म सेतुशब्दका अर्थ नहीं है, किन्तु अव्यवहित ज्ञान
है, ऐसा कहते हैं—“अपरः” इत्यादिसे । सेतु शब्दका अनात्मवाणीके त्यागपूर्वक आत्म-
ज्ञान अर्थ है, ब्रह्म अर्थ नहीं है, ऐसा माननेपर फलित अर्थ कहते हैं—“तत्र यदुक्तम्”
इत्यादिसे । अर्थात् ज्ञानको सेतु माननेपर ॥१॥



मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात् ॥ २ ॥

पदार्थोक्ति—मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात्—‘तथा विद्वान् नामरूपाद्विमुक्तः’ इत्यादिश्रुतौ ब्रह्मणो मुक्तप्राप्यत्वेन व्यपदिश्यमानत्वात् [द्युभ्वाद्यायतनं ब्रह्मैव] ।

भाषार्थ—‘तथा विद्वान्०’ (उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी नामरूपोंसे मुक्त होकर अर्थात् अविद्या और उसके कारणोंसे छुटकारा पाकर परसे भी पर अर्थात् सर्वोत्कृष्ट दिव्य पुरुषको प्राप्त करता है) इस श्रुतिमें ब्रह्म मुक्तोंसे प्राप्य कहा गया है, अतः द्यु, भू आदिका अधिष्ठान ब्रह्म ही है ।

—१०७—१०७—

भाष्य

इतश्च परमेव ब्रह्म द्युभ्वाद्यायतनम्, यस्मान्मुक्तोपसृप्यताऽस्य व्यपदिश्यमाना दृश्यते । मुक्तैरुपसृप्यम् मुक्तोपसृप्यम् । देहादिष्वनात्मस्वहमस्मीत्यात्मबुद्धिरविद्या, ततस्तत्पूजनादौ रागः, तत्परिभवादौ च द्वेषः, तदुच्छेददर्शनाद् भयं मोहश्चेत्येवमयमनन्तभेदोऽनर्थव्रातः सन्ततः सर्वेषां नः प्रत्यक्षः । तद्विपर्ययेणाऽविद्यारागद्वेषादिदोषमुक्तैरुपसृप्यमुपगम्यमेतदिति द्युभ्वाद्यायतनं प्रकृत्य व्यपदेशो भवति । कथम् ?

‘मिद्यते हृदयग्रन्थिश्लिघन्ते सर्वसंशयाः ।

भाष्यका अनुवाद

इससे भी द्युलोक, भूलोक आदिका आयतन परब्रह्म ही है, क्योंकि वह मुक्तोंसे प्राप्य कहा गया है । मुक्तोंसे प्राप्त होनेवाला मुक्तोपसृप्य कहलाता है । देह आदि अनात्म पदार्थोंमें ‘मैं हूँ’ ऐसी आत्मबुद्धि अविद्या है । उससे उनके (देह आदिके) संमानमें राग, अपमान आदिमें द्वेष, उनके नाशके दर्शनसे भय और मोह आदि अनन्त भेदवाला अनर्थसमुदाय सर्वत्र फैला हुआ हम सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है । उससे विपरीत यह अविद्या, राग, द्वेष आदि दोषोंसे मुक्त पुरुषोंसे उपसृप्य—गम्य है, इस प्रकार व्यपदेश द्युलोक, भूलोक आदिके आयतनके प्रकरणमें है । किस प्रकार ? मिद्यते हृदयग्रन्थि०’

रत्नप्रभा

मुक्तैः उपसृप्यम्—प्रत्यक्त्वेन भाष्यं यद् ब्रह्म तस्य अत्रोक्तेरिति सूत्रार्थः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

मुक्त पुरुषोंसे उपसृप्य अर्थात् प्रत्यक् रूपसे प्राप्य ब्रह्मका यहाँ कथन है, ऐसा

भाष्य

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥' (मु० २।२।८)
इत्युक्त्वा ब्रवीति—'तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति
दिव्यम् ।' (मु० ३।२।८) इति । ब्रह्मणश्च मुक्तोपसृप्यत्वं प्रसिद्धं शास्त्रे—

'यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि धिताः ।

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥' (चृ० ४।४।७)

भाष्यका अनुवाद

(उस सर्वश्रेष्ठ परमात्माका ज्ञान होनेपर इस-पुरुष की हृदयग्रन्थि दूट जाती है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं और सब कर्म क्षीण हो जाते हैं) ऐसा कह कर [श्रुति] कहती है—'तथा विद्वान्०' (उसी प्रकार नाम रूपसे विमुक्त होकर विद्वान् परसे पर दिव्य पुरुषको प्राप्त होता है) । ब्रह्मका मुक्त पुरुषोंसे प्राप्य होना 'यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते०' (हृदयमें रहनेवाली सब अमिलापाएँ जब समूल नष्ट हो जाती हैं, तब मनुष्य अमृत हो जाता है, इसी शरीरमें रहता हुआ ही ब्रह्म-

रत्नप्रभा

मुक्तिप्रतियोगिनं चन्धं दर्शयति—देहादिष्विति । तद्विपर्ययेणेति । उक्तपञ्च-
क्लेशात्मकचन्धनिवृत्त्यात्मना स्थितमित्यर्थः । यथा—नद्यः गङ्गाद्याः नामरूपे
विहाय समुद्रात्मना तिष्ठन्ति, तथा ब्रह्मात्मविदपि ससारं विहाय परात् कारणा-
दव्यक्तात् परं पूर्णं स्वयंज्योतिरानन्दं प्रत्यक्त्वेन प्राप्य तिष्ठति इत्याह—तथा
विद्वानिति । इदं प्रधानादेः किं न स्यादत आह—ब्रह्मणश्चेति । अस्य
मुमुक्षोः, हृदीति पदेन आत्मधर्मत्वं कामानां निरस्तम्, यदा कामनिवृत्तिः अथ—
तदा अमृतो भवति, मरणहेत्वभावात् न केवलमनर्थनिवृत्तिः, किन्तु अत्र देहे तिष्ठन्नेव

रत्नप्रभाका अनुवाद

सुखार्थ है । मुक्तिके प्रतियोगी चन्धको दिखलाते हैं—'देहादिषु' इत्यादिसे ।
'तद्विपर्ययेण' इत्यादि । अर्थात् अविद्या, राग, द्वेष, भय और मोह इन पाँच क्लेशात्मक
चन्धोंकी निवृत्ति जिसकी हो गई है ऐसे आत्मस्वरूपसे स्थित । जैसे गङ्गा आदि नदियों नाम
और रूपको छोड़कर समुद्ररूप हो जाती हैं, उसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता भी संसारको छोड़कर पर
अर्थात् कारणसे—अव्यक्तसे पर पूर्ण, ज्योति स्वरूप आत्माको प्रत्यक् स्वरूपसे प्राप्त होता
है, ऐसा कहते हैं—'तथा विद्वान्' इत्यादिसे । प्रधान आदि मुक्त पुरुषोंसे गम्य क्यों नहीं
है ? इसपर कहते हैं—'ब्रह्मणश्च' इत्यादिसे । 'अस्य'—समुच्छ्रुते । 'हृदि' (हृदयमें) इस
पदसे काम आत्माके धर्म नहीं हैं ऐसा कहा गया । जब समस्त कामनाएँ निवृत्त हो जाती हैं
अर्थात् ब्रह्मवेत्ताके सब काम समूल नष्ट हो जाते हैं, तब पुरुष मुक्त हो जाता है, क्योंकि
मरणके हेतु जाते रहते हैं । केवल अनर्थकी निवृत्ति ही नहीं होती है, किन्तु जीवनावस्थामें

भाष्य

इत्येवमादौ । प्रधानादीनां तु न क्वचित् मुक्तोपसृप्यत्वमस्ति प्रसिद्धम् । अपि च 'तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथामृतस्यैप सेतुः' इति वाग्विमोकपूर्वकं विज्ञेयत्वमिह द्युभ्वाद्यायतनस्योच्यते । तच्च श्रुत्यन्तरे ब्रह्मणो दृष्टम्—'तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः ।

नानुध्यायाद्बहुंशब्दान् वाचो विग्लापनं हि तत् ॥'

(दृ० ४।४।२१) इति । तस्मादपि द्युभ्वाद्यायतनं परं ब्रह्म ॥ २ ॥

भाष्यका अनुवाद

भावको प्राप्त होता है) इत्यादि शास्त्रमें प्रसिद्ध है । और प्रधान आदिका मुक्त पुरुषोंसे प्राप्य होना कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है । 'तमेवैकं जानथ०' इस प्रकार वाणीके त्यागपूर्वक द्यु, भू आदिका आश्रय यहां विज्ञेय रूपसे कहा गया है और 'तमेव धीरो विज्ञाय०' (उसे ही जानकर धीमान् ब्राह्मण वाक्यार्थ-ज्ञानका संपादन करे, बहुत शब्दोंका विचार न करे, क्योंकि वह वाणीके लिए श्रमकारक है) इस दूसरी श्रुतिसे ब्रह्म विज्ञेय है, ऐसा जाननेमें आता है । इससे भी सिद्ध हुआ कि द्यु, भू आदिका आयतन परब्रह्म है ॥ २ ॥

रत्नप्रभा

ब्रह्म आनन्दम् अश्नुते इत्यर्थः । लिङ्गान्तरमाह—अपि चेति । धीरः विवेकी तमेव आत्मानं विज्ञाय विशुद्धं लक्ष्यपदार्थं ज्ञात्वा वाक्यार्थज्ञानं कुर्यात् । ज्ञानार्थिनो ज्ञानप्रतिबन्धककर्मकाण्डादेर्वैमुख्यमाह—नेति । बहूनित्युक्त्या अल्पान् वेदान्तशब्दानङ्गीकरोति । 'अथै स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा ।

जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च ॥

(पा० शिक्षा १३) इति एतानि वागिन्द्रियस्थानत्वाद् वाक्शब्देनोच्यन्ते । तेषां शोषणमात्रम् अनात्मशब्दोच्चारणफलम्, तद्ध्यानाद् मनसो ग्लानिमात्रमित्यर्थः ॥२॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

ही ब्रह्मानन्दका अनुभव करता है । अन्य हेतु कहते हैं—'अपि च' इत्यादिसे । विवेकी पुरुषको चाहिए कि आत्माको विशुद्ध लक्ष्यपदार्थ जानकर वाक्यार्थज्ञान प्राप्त करे । मुमुक्षुको ज्ञानके प्रतिबन्धक कर्मकाण्ड आदिसे विमुख रहना चाहिए, ऐसा कहते हैं—'न' इत्यादिसे । बहुत शब्दोंका प्रतिषेध करनेसे आत्माके प्रतिपादक स्वल्प वेदान्तशब्दोंका अंगीकार किया है । हृदय, कण्ठ, सिर, जिह्वामूल, दाँत, नासिका, ओठ और तालु ये आठ वागिन्द्रियके स्थान हैं, अतः 'वाक्'शब्दसे कहे जाते हैं । अनात्मविषयक बहुत शब्दोंके उच्चारणसे उन स्थानोंका केवल शोषण होता है और अनात्माके ध्यानसे मनको केवल ग्लानि होती है, ऐसा अर्थ है ॥२॥



नानुमानमतच्छब्दात् ॥ ३ ॥

पदच्छेद—न, अनुमानम्, अतच्छब्दात् ।

पदार्थोक्ति—अनुमानम्—सांख्यस्मृतिकल्पितं प्रधानम्, न-न द्युभ्वाद्यायतनम्, [कृतः] अतच्छब्दात्—‘यस्मिन् द्यौः०’ इत्यादिश्रुतो प्रधानप्रतिपादकशब्द्राश्रयणात् ।

भाषार्थ—सास्यमें कल्पित प्रधान द्यु, भू आदिका आश्रय नहीं है, क्योंकि ‘यस्मिन् द्यौ’ इत्यादि श्रुतिमें प्रधानवाचक शब्द नहीं है ।

भाष्य

यथा ब्रह्मणः प्रतिपादको वैशेषिको हेतुरुक्तो नैवमर्थान्तरस्य वैशेषिको हेतुः प्रतिपादकोऽस्तीत्याह—नाऽऽनुमानिकम्—सांख्यस्मृतिपरिकल्पितं प्रधानमिह द्युभ्वाद्यायतनत्वेन प्रतिपत्तव्यम् । कस्मात् ? अतच्छब्दात् । तस्याऽचेतनस्य प्रधानस्य प्रतिपादकः शब्दस्तच्छब्दः, न तच्छब्दोऽतच्छब्दः । न ह्यत्राचेतनस्य प्रधानस्य प्रतिपादकः कश्चित्छब्दोऽस्ति, येनाऽचेतनं प्रधानं कारणत्वेनाऽयतनत्वेन वाऽवगम्येत । तद्विपरीतस्य चेतनस्य ‘प्रतिपादकशब्दोऽत्रास्ति—‘यः सर्वज्ञः सर्ववित्’ (मुं० १।१।९) इत्यादिः । अत एव न वायुरपीह द्युभ्वाद्यायतनत्वेनाऽऽश्रीयते ॥ ३ ॥

भाष्यका अनुवाद

जैसे ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाला असाधारण हेतु कहा है, वैसे दूसरे पदार्थका प्रतिपादन करनेवाला असाधारण हेतु नहीं है, इसलिए कहते हैं कि आनुमानिक—सांख्यस्मृतिमें कल्पित प्रधानको यहाँ द्यु, भू आदिका आश्रय समझना ठीक नहीं है । किससे ? अतच्छब्दसे । उसका अर्थात् अचेतन प्रधानका प्रतिपादक शब्द तच्छब्द है, तच्छब्दसे भिन्न अतच्छब्द है । यहाँ अचेतन प्रधानका प्रतिपादक कोई शब्द नहीं है जिससे अचेतन प्रधान कारणरूप अथवा आयतनरूप समझा जाय । उसके विपरीत ‘यः सर्वज्ञ ०’ (जो सर्वज्ञ और सर्ववेत्ता है) इत्यादि चेतनका प्रतिपादक शब्द यहाँ है । इसी कारण वायु भी यहाँ द्यु, भू आदिका आयतनरूपे नहीं माना जा सकता ॥ ३ ॥

१. रत्नप्रभा

वैशेषिक इति । असाधारण आत्मशब्दादि । इत्यर्थः । अतच्छब्दाद् इत्यस्या-
ऽर्थान्तरस्माह—तद्विपरीतस्येति । अत एव—अतच्छब्दादेव ॥ ३ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

‘वैशेषिक’—असाधारण अर्थात् आत्मशब्द आदि । ‘अतच्छब्दात्’ पदका दूसरा अर्थ कहते हैं—‘तद्विपरीतस्य’ इत्यादिते । ‘अत एव’ अर्थात् अतच्छब्दसे ही ॥ ३ ॥

प्राणभृच्च ॥ ४ ॥

पदच्छेद—प्राणभृत्, च ।

पदार्थोक्ति—प्राणभृत्—शारीर., च—अपि न द्युम्नाद्याश्रयः, [कुतः 'यस्मिन् द्यौः' इत्यादिश्रुतौ जीववाचकशब्दाभावात्]

भाषार्थ—जीव भी द्यु, भू आदिका आश्रय नहीं है, क्योंकि 'यस्मिन् द्यौः' इत्यादि श्रुतिमें जीवका प्रतिपादक शब्द नहीं हैं ।

भाष्य

यद्यपि प्राणभृतो विज्ञानात्मन आत्मत्वं चेतनत्वं च सम्भवति, तथाप्युपाधिपरिच्छिन्नज्ञानस्य सर्वज्ञत्वाद्यसम्भवे सत्यस्मादेवाऽतच्छब्दात् प्राणभृदपि न द्युम्नाद्यायतनत्वेनाऽऽश्रयितव्यः । न चोपाधिपरिच्छिन्नस्याऽविभोः प्राणभृतो द्युम्नाद्यायतनत्वमपि सम्यक् सम्भवति । पृथग्योगकरणमुत्तरार्थम् ॥ ४ ॥

कुतश्च न प्राणभृद् द्युम्नाद्यायतनत्वेनाऽऽश्रयितव्यः—

भाष्यका अनुवाद

यद्यपि प्राणभृत् अर्थात् जीवमें आत्मत्व और चेतनत्व सम्भव है, तो भी जिसका ज्ञान उपाधिसे परिच्छिन्न है, उसमें सर्वज्ञत्व आदिका संभवे न होनेके कारण इससे अर्थात् अतच्छब्दसे ही जीवात्माका भी द्यु, भू आदि के आयतनरूपसे ग्रहण करना ठीक नहीं है । और उपाधिपरिच्छिन्न, अविभु, विज्ञानात्मा द्यु, भू आदिका आश्रय भी नहीं हो सकता । अभिम सूत्रमें केवल प्राणभृत्का ही सम्वन्ध हो, इसलिए इस सूत्रकी पृथक् रचना की गई है ॥४॥

और किस कारणसे जीवको द्यु, भू आदिका आश्रय नहीं मानना चाहिए ?

रत्नप्रभा

प्राणभृच्चेति—सूत्रे चकार पूर्वसूत्रस्थनञोऽनुपङ्गार्थः । सर्वज्ञपदसमानाधिकरण आत्मशब्दो न जीववाची इति अतच्छब्दस्तस्मादित्यर्थः । ननु "नानुमानप्राणभृतावतच्छब्दात्" इति एकमेव सूत्रं किमर्थं न कृतम्, उभयनिरासहेतौरेकत्वात् इत्यत आह—पृथगिति । योग—सूत्रम्, उत्तरसूत्रस्थहेतूना जीवमात्रनिरासेनाऽन्वयेऽपि सुबोधार्थं प्राणभृच्च इति पृथक् सूत्रकरणमित्यर्थः ॥४॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

"प्राणभृच्च" सूत्रमें चकार पूर्वसूत्रस्थ 'न' की अनुश्रुतिके लिए है । सर्वज्ञपदका समानाधिकरण आत्मशब्द जीववाचक नहीं है, इसलिए जीवात्मा अतच्छब्द होनेसे द्यु, भू आदिका आयतन नहीं है । यदि कोई शङ्का करे कि 'नानुमानप्राणभृतावतच्छब्दात्' (प्रधान और जीव द्यु, भू आदिके आयतन नहीं हैं, क्योंकि श्रुतिमें तद्विपरीत ब्रह्मवाचक शब्द है) ऐसा एक ही सूत्र क्यों नहीं किया, क्योंकि दोनोंका निराकरण करनेका हेतु एक ही है, इसपर कहते हैं—"पृथग्" इत्यादि । योग—सूत्र । उत्तर सूत्रगत हेतुआका जीवमात्रके निरासमें समन्वय होनेपर भी बोधसौकर्यके लिए 'प्राणभृच्च' यह पृथक् सूत्र रचा है ॥ ४ ॥

भेदव्यपदेशात् ॥ ५ ॥

पदार्थोक्ति—भेदव्यपदेशात्—‘तमेवैक जानथ’ इति श्रुतौ ज्ञातृज्ञेयभावेन जीवपरयोर्भेदेन व्यपदिश्यमानत्वात् [न जीवः द्युभ्याद्याश्रय] ।

भाषार्थ—‘तमेवैक०’ (उसी एक आत्माको जानो) इस प्रकार श्रुतिमें ज्ञाता और ज्ञेयरूपसे जीव और परमात्माका भेदसे कथन किया गया है, अतः जीव दु, भू आदिका आश्रय नहीं है ।

—१०७—

भाष्य

भेदव्यपदेशश्चेह भवति—‘तमेवैकं जानथ आत्मानम्’ इति ज्ञेयज्ञातृ-भावेन । तत्र प्राणभृत्तावत् मुमुक्षुत्वाज्ज्ञाता, परिशेषादात्मशब्दवाच्यं ब्रह्म ज्ञेयं द्युभ्याद्यभ्यतनमिति गम्यते, न प्राणभृत् ॥ ५ ॥

कुतश्च न प्राणभृद् द्युभ्याद्यायतनत्वेनाऽऽश्रयितव्यः—

भाष्यका अनुवाद

‘तमेवैक०’ (उसी एक आत्माको जानो) इस प्रकार यहाँ ज्ञेय और ज्ञातृभाषसे भेदका व्यपदेश है । उनमें जीव मुमुक्षु होनेके कारण ज्ञाता है और अवशिष्ट आत्मशब्दवाच्य ज्ञेय ब्रह्म दु, भू आदिका आश्रय है, यह ज्ञात होता है, जीव [आश्रय] नहीं है ॥ ५ ॥

और किस कारणसे जीवको दु, भू आदिका आश्रय नहीं मानना चाहिए ?

रत्नप्रभा

‘तानेव हेतून् आकाङ्क्षाद्वारा व्याचष्टे—कुतश्च नेत्यादिना । यद्यपि विशुद्ध प्रत्यगात्मैव अत्र ज्ञेय, तथापि जीवत्वाकारेण ज्ञातु ज्ञेयाद् भेदात् न ज्ञेयरूपत्वम् इत्यर्थः । एव च जीवत्वलिङ्गविशिष्टत्वेन जीवस्य द्युभ्यादिवाक्यार्थत्वं निरस्यते, न शुद्धरूपेण इति मन्तव्यम् ॥ ५ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

उही कारणोंसे आकाङ्क्षाके द्वारा विवरण करते हैं—‘कुतश्च न’ इत्यादिस । यद्यपि विशुद्ध प्रत्यगात्मा ही यहापर ज्ञेय है, तो भी ज्ञाताका ज्ञेयसे भेद हानके कारण वह जीवरूपसे ज्ञेय नहीं है, ऐसा अर्थ है । तात्पर्य यह है कि इस प्रकार जीव-रूपलिङ्गविशिष्ट जीव दु भू आदिका आश्रय नहीं है, किन्तु विशुद्ध आश्रयतन है ॥ ५ ॥

प्रकरणात् ॥ ६ ॥

पदार्थोक्ति—प्रकरणात्—‘कस्मिन्नु, भगवो विज्ञाते०’ इत्युपक्रमाद् ब्रह्मण एवेद प्रकरणम्, तस्मात् (न जीवो द्युभ्वाद्याश्रय) ।

भाषार्थ—‘कस्मिन्नु०’ (हे भगवन् ! किसके ज्ञात होनेपर यह सब विज्ञात हो जाता है) इस प्रकार आरम्भ होनेके कारण यह प्रकरण ब्रह्मका ही है, अत जीव द्यु, भू आदिका आश्रय नहीं है ।

भाष्य

प्रकरणं चेदं परमात्मनः, ‘कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति’ (मु० १।१।३) इत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानापेक्षणात् । परमात्मनि हि सर्वात्मके विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं स्यात्’ न केवले प्राणभृति ॥ ६ ॥
कुतश्च न प्राणभृद् द्युभ्वाद्यायतनत्वेनाऽऽश्रयितव्यः—

भाष्यका अनुवाद

यह प्रकरण भी परमात्माका ही है, क्योंकि ‘कस्मिन्नु भगवो०’ (हे भगवन् ! किसका विज्ञान होनेपर इस सबका विज्ञान हो जाता है ?) इस प्रकार एकके विज्ञानसे सबके विज्ञानकी अपेक्षाकी गई है । निश्चय सर्वस्वरूप परमात्माके ज्ञान होनेपर यह सब विज्ञात हो जाता है, केवल जीवका ज्ञान होनेपर सबका विज्ञान नहीं हो सकता ॥ ६ ॥

और किस कारणसे जीवको द्यु, भू आदिका आश्रय नहीं मानना चाहिए ?

स्थित्यदनाभ्यां च ॥ ७ ॥

पदच्छेद—स्थित्यदनाभ्याम्, च ।

पदार्थोक्ति—स्थित्यदनाभ्याम्—‘द्वा सुपर्णा’ इति मन्त्रे औदासीन्यपूर्वक-स्थिति कर्मफलभोगाभ्या परक्षेत्रज्ञयोर्भेदनिर्देशात्, च-अपि [न जीव द्युभ्वाद्याश्रय, किन्तु ब्रह्मैव] ।

भाषार्थ—‘द्वा सुपर्णा’ (सदा एक साथ रहनेवाले, समान आख्यानवाले दो पक्षी एक शरीरमें रहते हैं, उनमें एक (जीव) मधुर कर्मफलोका भोग करता है, दूसरा (ईश्वर) भोग नहीं करता किन्तु केवल साक्षीरूपसे देखता रहता है] इस मन्त्रमें औदासीन्यसे स्थिति और कर्मफलभोगसे ईश्वर और क्षेत्रज्ञमें भेद कहा गया है, इससे भी सिद्ध होता है कि द्यु, भू आदिका आश्रय जीव नहीं है, किन्तु ब्रह्म ही है ।

भाष्य

द्युभ्याद्यायतनं च प्रकृत्य 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' (सु० ३।१।१) इत्यत्र स्थित्यदने निर्दिश्येते 'तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति' इति कर्मफलाशनम्, 'अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति' इत्यौदासीन्येनावस्थानं च । ताभ्यां च स्थित्यदनाभ्यामीश्वरक्षेत्रज्ञौ तत्र गृह्येते । यदि चेश्वरो द्युभ्याद्यायतनत्वेन विवक्षितः, ततस्तस्य प्रकृतस्येश्वरस्य क्षेत्रज्ञात् पृथग्वचनमवकल्पते अन्यथा ह्यप्रकृतवचनमाकस्मिकमसम्बद्धं स्यात् । ननु तत्राऽपि क्षेत्रज्ञस्येश्वरात् पृथग्वचनमाकस्मिकमेव प्रसज्येत, न, तस्याऽवि-

भाष्यका अनुवाद

द्यु, भू आदिके आश्रयको प्रस्तुत करके 'द्वा सुपर्णा०' इस मंत्रमें स्थिति और अदन (भक्षण) का निर्देश किया गया है । 'तयोरन्यः०' (उनमेंसे एक (जीव) मधुर कर्मफलका भोग करता है) इसमें कर्म फलका उपभोग निर्दिष्ट है और 'अनश्नन्नन्यो०' (दूसरा ईश्वर भोग न कर केवल प्रकाशमान रहता है) इसमें उदासीनतापूर्वक स्थितिका निर्देश किया गया है । इस स्थिति और अदनसे वहाँ ईश्वर और जीवका ग्रहण किया जाता है । यदि ईश्वर द्यु, भू आदिके आश्रयरूपसे विवक्षित हो, तब उस प्रकृत ईश्वरका क्षेत्रज्ञसे पृथक् वचन उपपन्न होता है, नहीं तो यह अप्रकृत वचन, आकस्मिक और असंबद्ध हो जायगा । परन्तु तुम्हारा भी क्षेत्रज्ञका ईश्वरसे पृथक् कथन आकस्मिक ही

रत्नप्रभा

ननु स्थित्या ईश्वरस्य अदनाद् जीवस्य 'द्वा सुपर्णा' इत्यत्रोक्तावपि ईश्वर आयतनवाक्येन किमर्थं ग्राह्य इत्यत आह—यदि चेश्वर इति । अत्र चेश्वरः शुद्धचिन्मात्रो ग्राह्यः, न सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट, तस्य अत्र अप्रतिपाद्यत्वात् । तथा च अप्रतिपाद्यार्थस्य अकस्मान्मध्ये वचनासम्भवादाद्यवाक्येन ग्रहण कार्यमित्यमिसन्धिः । तमज्ञात्वाऽऽशङ्कते—ननु तवापीति । ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनार्थमकस्मादप्रकृतस्याऽपि

रत्नप्रभाका अनुवाद

'द्वा सुपर्णा' इत्यादिमें स्थितिसे ईश्वरका और अदन (भक्षण) से जीवका निर्देश है, तो भी आयतन वाक्यमें ईश्वरका ही कर्मों ग्रहण होता है, इसपर कहते हैं—“यदि चेश्वर” इत्यादि । आशय यह है कि यहाँपर ईश्वरपदसे शुद्ध चिन्मात्रका ग्रहण करना चाहिए । सर्वज्ञत्व आदि गुणविशिष्टका नहीं, क्योंकि वह यहाँ प्रतिपाद्य नहीं है, इसलिए अप्रतिपाद्य अर्थका अकस्मात् मध्यमें कथन असंभावित होनेके कारण आद्यवाक्यसे उसीका ग्रहण है । उसको जाने बिना शक्य करता है—“ननु तवापि” इत्यादिसे । ब्रह्मस्वरूपका प्रतिपादन

भाष्य

वक्षितत्वात् । क्षेत्रज्ञो हि कर्तृत्वेन भोक्तृत्वेन च प्रतिशरीरं बुद्ध्याद्युपाधिसम्बद्धो लोकत एव प्रसिद्धः नाऽसौ श्रुत्या तात्पर्येण विवक्ष्यते । ईश्वरस्तु लोकतोऽप्रसिद्धत्वाच्छ्रुत्या तात्पर्येण विवक्ष्यत इति न तस्याऽऽकस्मिकं वचनं युक्तम् । 'गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि' इत्यत्राऽप्येतद्दर्शितं 'द्वा सुपर्णा' इत्यस्यामृचीश्वरक्षेत्रज्ञाबुच्येते इति । यदापि पैङ्गुपनिपत्कृतेन व्याख्यानेनाऽस्यामृचि सत्त्वक्षेत्रज्ञाबुच्येते तदापि न विरोधः कश्चित् । कथम् ? प्राणभृद्दीह घटादिच्छिद्रवत्, सत्त्वाद्युपाध्यभिमानित्वेन प्रतिशरीरं

भाष्यका अनुवाद

है ? नहीं, क्योंकि जीव अविबक्षित है । क्षेत्रज्ञ तो कर्ता और भोक्तारूपसे प्रतिशरीरमें बुद्धि आदि उपाधियोंसे संबद्ध है और लोकमें प्रसिद्ध है, इसलिए उसके प्रतिपादनमें श्रुतिका तात्पर्य नहीं है । ईश्वर तो लोकप्रसिद्ध नहीं है इस कारण उसीके प्रतिपादनमें श्रुतिका तात्पर्य है, इसलिए उसको आकस्मिक कहना ठीक नहीं है । 'गुहां प्रविष्टा०' इस सूत्रमें भी यह दिखलाया गया है कि 'द्वा सुपर्णा०' इस ऋचामें ईश्वर और क्षेत्रज्ञ कहे गये हैं । यद्यपि पैङ्गी उपनिषद्के व्याख्यानके अनुसार इस ऋक्में सत्त्व और क्षेत्रज्ञ कहे गये हैं, ऐसा मानें, तो भी कुछ विरोध नहीं है । क्योंकि यहां घटादिच्छिद्रके समान

रत्नप्रभा

लोकप्रसिद्धस्य जीवस्य अनुवादसम्भव इति परिहरति—नेति । ननु 'द्वा सुपर्णा' इत्यत्र बुद्धिजीवयोः उक्तेः कथमिदं सूत्रमित्यत आह—गुहामिति । स्थित्यदनाभ्यामीश्वरक्षेत्रज्ञयोरनुवादेनैक्यं दर्शितमित्यर्थः । नन्वत्र जीवेशौ नाऽनुवाद्यौ पैङ्गिव्याख्याविरोधात्, अतः सूत्रासंगतिरित्यत आह—यदापीति । तदापि सूत्रस्य असंगतिः नास्तीत्यर्थः । अदनवाक्येन बुद्धिमनूय स्थितिवाक्येन बुद्ध्यादिविलक्षण-

रत्नप्रभाका अनुवाद

करनेके लिए अकस्मात् अप्रकृत भी लोकप्रसिद्ध जीवका अनुवाद संभावित है, इस तरह शंकाका परिहार करते हैं—“न” इत्यादिसे । यदि कोई कहे कि 'द्वा सुपर्णा' इत्यादिमें बुद्धि और जीव कहे गये हैं, ऐसी अवस्थामें यह सूत्र किसलिए है, इसपर कहते हैं—“गुहाम्” इत्यादि । अर्थात् स्थिति और अदन द्वारा ईश्वर और क्षेत्रज्ञका अनुवादसे ऐक्य दिखलाया है । परन्तु यहाँ जीव और ईश्वर अनुवाय नहीं हैं, क्योंकि पैङ्गिव्याख्याके साथ विरोध होता है, अतः सूत्र असङ्गत है, इसपर कहते हैं—“यदापि” इत्यादि । 'तदापि'—तो भी सूत्रकी असङ्गति नहीं है । अदनवाक्यसे बुद्धिका अनुवाद करके स्थितिवाक्यसे बुद्धि

भाष्य

गृह्यमाणो घुम्वाद्यायतनं न भवतीति प्रतिपिध्यते । यस्तु सर्वशरीरेषु-
पाधिभिर्विनोपलक्ष्यते परमात्मैव स भवति । यथा घटादिच्छिद्राणि
घटादिमिरुपाधिभिर्विनोपलक्ष्यमाणानि महाकाश एव भवन्ति, तद्वत्प्राण-
भृतः परस्मादन्यत्रानुपपत्तेः प्रतिपेधो नोपपद्यते । तस्मात् सत्त्वाद्यु-
पाध्यभिमानिन एव घुम्वाद्यायतनत्वप्रतिपेधः । तस्मात् परमेव ब्रह्म
घुम्वाद्यायतनम् । तदेतत् 'अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः' इत्यनेनैव सिद्धम्,
तस्यैव हि भूतयोनिवाक्यस्य मध्य इदं पठितम्, 'यस्मिन् द्यौः पृथिवी
चान्तरिक्षम्' इति । प्रपञ्चार्थं तु पुनरुपन्यस्तम् ॥ ७ ॥

भाष्यका अनुवाद

सत्त्व आदि उपाधियोंका अभिमानी होनेके कारण प्रतिशरीरमें प्रतीत होनेवाला
विज्ञानात्मा घु, भू आदिका आश्रय नहीं है, ऐसा निषेध किया गया है । परन्तु
जो सब शरीरोंमें उपाधिके विना उपलक्षित होता है, वह परमात्मा ही है ।
जैसे घटादि उपाधिके विना उपलक्षित होनेवाले घटादिके छिद्र महाकाश ही
हैं, वैसे ही विज्ञानात्मा परमात्मासे अन्य नहीं है । इसलिए उसका घु, भू
आदिके आश्रयरूपसे प्रतिपेध करना ठीक नहीं है । अतः सत्त्व आदिके अभि-
मानीका ही घु, भू आदिके आश्रयरूपसे प्रतिपेध है । इससे सिद्ध होता है
कि परब्रह्म ही घु, भू आदिका आश्रय है । यह विषय 'अदृश्यत्वादि०' इस
सूत्रसे ही सिद्ध है । उसी भूतयोनिवाक्यके मध्यमें 'यस्मिन् द्यौः०' यह मंत्र है ।
तो भी उसीका विस्तारके लिए फिर निरूपण किया गया ॥ ७ ॥

रत्नप्रभा

शुद्धप्रत्यग्ब्रह्मणो ज्ञेयस्य उक्तेः घुम्वादिवाक्ये तदेव ब्राह्मं न बुद्धयुपहितो जीव इति
सूत्रसंगतिमाह—कथमित्यादिना । ननु अत्रानुपहितो जीव उक्तो न परं ब्रह्म
इत्यत आह—यस्त्विति । पौनरुक्त्यं शङ्कते—तदेतदिति । घुम्वादिवाक्यस्य
ब्रह्मपरत्वमित्यर्थः । समाधत्ते—प्रपञ्चार्थमिति । सेतुशब्दव्याख्यानान्न भूतयोनिः प्रत्य-
गात्मरसफुटीकारणार्थमित्यर्थः । तस्मात् मुण्डकोपनिषद् ब्रह्मणि समन्वितेति सिद्धम् ॥ ७ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

आदिसे विलक्षण शुद्ध प्रत्यग्ब्रह्मको ज्ञेय कहा है, इसलिए घुम्वादिवाक्यमें वही ब्राह्म है,
युद्ध्याद्युपाधिक जीव ब्राह्म नहीं है, इस प्रकार सूत्रकी संगति कहते हैं—“कथम्” इत्यादिसे ।
यदि कोई शङ्का करे कि यहाँपर उपाधिरहित जीव कहा गया है, परब्रह्म नहीं कहा गया है,
इसपर कहते हैं—“यस्य” इत्यादि । पुनरुक्तिकी शङ्का करते हैं—“तदेतत्” इत्यादिसे ।
'तदेतत्'—घु, भू आदिका ब्रह्मपरत्व । समाधान करते हैं—“प्रपञ्चार्थम्” इत्यादिसे ।
अर्थात् सेतुशब्दके व्याख्यानसे भूतयोनि प्रत्यगात्मा है, यह स्पष्ट करनेके लिए । इससे मुण्डक
उपनिषद्का ब्रह्ममें समन्वय सिद्ध हुआ ॥ ७ ॥

[२ भूमाधिकरण सू० ८-९]

भूमा प्राणः परेशो वा प्रदनप्रत्युक्तिवर्जनात् ।

अनुवर्त्यातिवादित्व भूमोक्तेर्वायुरेव सः ॥१॥

विच्छिद्यैव त्विति प्राणं सत्यस्योपक्रमात्तथा ।

महोपक्रम आत्मोक्तेरीशोऽयं द्वैतवारणात् * ॥२॥

[अधिहरणसार]

सन्देह—‘यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति’ इत्यादि वाक्यमें प्रतीयमान भूमा प्राण है या परमात्मा है ?

पूर्वपक्ष—प्राणके उपदेशके अनन्तर उससे आधिक्यका प्रश्न और उत्तर नहीं है और अतिवादित्वकी अनुवृत्ति करके भूमाका उपदेश है इस कारण भूमा प्राण है ।

सिद्धान्त—‘एष तु वा अतिवदति’ इसमें ‘तु’ शब्दसे प्रकरणका विच्छेद होता है, ‘य. सत्येनातिवदति’ इसमें सत्य शब्दसे अग्रिम अवान्तर प्रकरणका आरम्भ है, प्रकरणके आरम्भमें आत्मशब्द है एव ‘यत्र नान्यत्पश्यति’ इस प्रकार द्वैतका निषेध किया गया है, अतः भूमा परमात्मा ही है ।

• छान्दोग्यके सप्तम अध्यायमें नारदके प्रति सनत्कुमारन नाम आदिसे अधिवाधिक बहुत तत्त्वोंका उपदेश करके अन्तमें ‘यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा’ (जहाँ दूसरेको नहीं देखता, दूसरेको नहीं सुनता, दूसरेको नहीं जानता, वह भूमा है) इस प्रकार निरतिशय भूमाका उपदेश किया है ।

यहां पर संशय होता है कि ‘भूमा’ पदका अर्थ प्राण है या परमात्मा है ?

पूर्वपक्षी कहता है कि प्राण भूमा है, क्योंकि पहले प्रतिपादित नाम आदि तत्त्वोंमें नारदने पद पद पर पूछा है कि ‘हे भगवन् ! इससे भी बड़ा है ?’ सनत्कुमारने उत्तर दिया है कि ‘हां’ । इसी प्रकार प्रश्न और उत्तरपूर्वक नामसे लेकर प्राणतक तत्त्वोंका उपदेश कर प्राणके बाद प्रश्न एव उत्तरके बिना ही भूमाका उपदेश किया है, अतः प्राण और भूमाके बीचमें प्रकरणका विच्छेदक कोई नहीं है । और प्राणका उपदेश करके प्राणके उपासकमें अतिवादित्वरूप उत्कष्य वहकर बादमें प्रकरण विच्छेदकी शक्का न हो इसलिए उसी अतिवादित्वकी अनुवृत्ति करके भूमाका उपदेश किया है, इससे प्रतीत होता है कि प्राण ही भूमा है ।

सिद्धान्ती कहते हैं कि भूमा परमेश्वर है, क्योंकि ‘एष तु वा अतिवदति य सत्येनातिवदति’ (परन्तु वही अतिवादी है जो सत्यसे अतिवादी है) इसमें अतिवादित्वके कारणभूत प्राणोपासनाकी ‘तु’ शब्दसे व्यावृत्ति करके मुख्य अतिवादित्वके कारणभूत मद्मका सत्य शब्दसे उपक्रम किया है एव प्रकरणके आरम्भमें ‘तरति शोकमात्माविद्’ (आत्मश शोकसे मुक्त हो जाता है) इस प्रकार परमात्माको वेद कहा है । और ‘यत्र नान्यत्पश्यति’ इत्यादिसे द्वैतके निषेधसे भूमाका लक्षण कहा है । अतः सिद्ध है कि अद्वितीय परमात्मा ही भूमा है ।

भूमा संप्रसादादध्युपदेशात् ॥ ८ ॥

पदच्छेद—भूमा, सम्प्रसादाद्, अधि, उपदेशात् ।

पदार्थोक्ति—भूमा—‘भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः’ इतिश्रुत्युक्तो भूमा [परमात्मैव, कुतः] सम्प्रसादादधि—प्राणोपदेशानन्तरम्, उपदेशात्—उपदिश्यमानत्वात् ।

भाषार्थ—‘भूमा त्वेव०’ (भूमा ही जानने योग्य है) इस धृतिमें उक्त भूमा परमात्मा ही है, क्योंकि प्राणके उपदेशके अनन्तर उसका उपदेश है ।

—००००००—

भाष्य

इदं समांनन्ति—‘भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य’ इति, ‘भूमानं भगवो विजिज्ञास’ इति । ‘यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमाऽथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पम्, (छा०७।२३२४), इत्यादि । तत्र संशयः—किं प्राणो भूमा स्यात्, आहोस्वित् परमात्मेति ।

भाष्यका अनुवाद

छान्दोग्य उपनिषदमें कहा है—‘भूमा त्वेव०’ (भूमा ही जिज्ञासाका विषय है । हे भगवन् ! मैं भूमाको ही जानना चाहता हूँ । जिसमें स्थित पुरुष दूसरेको नहीं देखता, दूसरेको नहीं सुनता, दूसरेको नहीं जानता, वह भूमा है, जिसमें अन्यको देखता है, अन्यको सुनता है, अन्यको जानता है, वह अल्प है) इत्यादि । यहां पर संशय होता है कि प्राण भूमा है या परमात्मा ? संशय क्यों

रत्नप्रभा

भूमा । छान्दोग्यमुदाहरति—इदमिति । नाऽल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम् तस्मात् निरतिशयसुखार्थिना भूमैव विचार्य इति नारदं प्रति सनत्कुमारोक्ते सति नारदो ब्रूते—भूमानमिति । भूमनो लक्षणम् अद्वितीयत्वमाह—यत्रेति । भूमलक्षणम् परिच्छिन्नलक्षणोक्त्या स्फुटयति—अथेति । अत्र संशयबीजं प्रश्नपूर्वकम्

रत्नप्रभाका अनुवाद

छान्दोग्यवाक्यको उद्धृत करते हैं—“इदम्” इत्यादिसे । अल्पमें सुख नहीं है, भूमा ही सुख है, इसलिए निरतिशय सुखकी इच्छायालेको भूमाका ही विचार करना चाहिए, जब इस प्रकार सनत्कुमारने नारदसे कहा तब नारद कहने लगे—“भूमानम्”, इत्यादि । भूमाका अद्वितीयत्वरूप लक्षण कहते हैं—“यत्र” इत्यादिसे । परिच्छिन्न वस्तुका लक्षण कहकर भूमाका लक्षण स्पष्ट करते हैं—“अथ” इत्यादिसे । प्रश्नपूर्वक संशयका बीज कहते हैं—

भाष्य

कुतः संशयः ? भूमेति तावद्बहुत्वमभिधीयते, 'बहोर्लोपो भू च बहो' (पा० ६।४।१५८) इति भूमशब्दस्य भावप्रत्ययान्ततास्मरणात् । किमात्मकं पुनस्तद्बहुत्वमिति विशेषाकाङ्क्षायां 'प्राणो वा आशया भूयान्' (छा० ७।१।५।१) इति संनिधानात् प्राणो भूमेति प्रतिभाति । तथा 'श्रुतं ह्येव मे भगवद्दृशेभ्यस्तरति शोकमात्मवित्' इति, 'सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवान् शोकस्य पारं तारयतु' (छा० ७।१।३) इति प्रकरणोत्थानात् परमात्मा भूमेत्यपि प्रतिभाति । तत्र कस्योपादानं

भाष्यका अनुवाद

होता है ? भूमाशब्दका मुख्य अर्थ तो बहुत्व है, क्योंकि 'बहोर्लोपो' इस सूत्रसे 'भूमा' शब्द भावप्रत्ययान्त कहा गया है । उस बहुत्वका क्या आत्मा—आश्रय है, ऐसी विशेष आकाङ्क्षा होने पर 'प्राणो वाव०' (प्राण ही इच्छासे बड़ा है) इस प्रकार संनिधि—सामीप्यसे प्राण भूमा है, ऐसा जाना जाता है । इसी प्रकार 'श्रुतं ह्येव मे०' (मैंने आप जैसेसे सुना है कि आत्मवेत्ता पुरुष शोकसे निर्मुक्त हो जाता है । हे भगवन् ! मैं शोक युक्त हूँ, शोकमें मग्न हुए मुझे शोकसे निर्मुक्त कीजिए) इस प्रकार प्रकरणसे परमात्मा भी भूमा है, ऐसा

रत्नप्रभा

आह—कुत इत्यादिना । बहोर्भाव इति विग्रहे "पृथ्वादिभ्य इमनिच्वा" (पा० सू० ५।१।१२२) इतीमनिच्प्रत्यये कृते "बहोर्लोपो भू च बहो." इति सूत्रेण बहोः परस्येमनिच्प्रत्ययस्यादेरिकारस्य लोपः स्याद् बहोः स्थाने मूरित्वादेशश्च स्यादित्युक्तेः भूमन्निति शब्दो निष्पन्नः । तस्य भावार्थकेमनिच्प्रत्ययान्तत्वाद् बहुत्वं वाच्यम् । तत्किंघर्मिकमित्याकाङ्क्षायां सन्निहितप्रकरणस्थः प्राणो धर्मी भाति । वाक्योपक्रमस्थ आत्माऽपि स्वप्रतिपादनापेक्षो धर्मित्वेन भातीति सन्निहितव्यवहि-

रत्नप्रभाका अनुवाद

"कुत." इत्यादिसे । 'बहो०' (बहुतका भाव) ऐसे विग्रहमें 'पृथ्वादिभ्यः०' इस सूत्रसे इमनिच् प्रत्यय करने पर 'बहोर्लोपो०' इस सूत्रसे 'बहु'से पर 'इमनिच्' प्रत्ययके आदि इकारका लोप होता है और 'बहु'के स्थानमें 'भू' आदेश होता है, इस प्रकार 'भूमन्' शब्द निष्पन्न होता है । 'इमनिच्' प्रत्यय भाववाचक होनेसे 'इमनिच्' प्रत्ययान्त 'भूमन्' शब्दका अर्थ बहुत्व होता है । उसका धर्मी कौन है, ऐसी आकाङ्क्षा होनेपर प्रतीत होता है कि निकटवर्ती प्रकरणमें स्थित प्राण धर्मी है । उसी प्रकार वाक्यके आरम्भमें स्थित अपने प्रतिपादनकी अपेक्षा रखनेवाला आत्मा भी धर्मी प्रतीत होता है । इस प्रकार सन्निहित तथा

भाष्य

न्याय्यं कस्य वा हानमिति भवति संशयः । किं तावत् प्राप्तम् ?

प्राणो भूमेति । कस्मात् ? भूयः प्रश्नप्रतिवचनपरंपरादर्शनात् यथा हि 'अस्ति भगवो नाम्नो भूयः' इति, 'वाग्वाव नाम्नो भूयसी' इति, तथा 'अस्ति भगवो वाचो भूयः' इति, 'मनो वाव वाचो भूयः' इति च

भाष्यका अनुवाद

जान पढ़ता है । उनमेंसे किसका ग्रहण करना चाहिए और किसका परित्याग करना चाहिए इस प्रकार संशय होता है । तब क्या प्राप्त होता है ?

पूर्वपक्षी—प्राण भूमा है यह प्राप्त होता है, क्योंकि इसके बाद आधिक्यके प्रश्न और उत्तरकी परंपराका दर्शन नहीं होता है । जैसे 'अस्ति भगवो०' (हे भगवन् ! क्या नामसे अधिक कुछ है) 'वाग्वाव०' (वाणी ही नामसे अधिक है) और 'अस्ति भगवो०' (हे भगवन् ! वाणीसे कोई अधिक है) 'मनो वाव०' (मन

रत्नप्रभा

तप्रकरणाभ्यां संशय इत्यर्थः । पूर्वमात्मशब्दात् द्युभ्वाद्यायतनं ब्रह्मेत्युक्तम् । तदयुक्तम् । "तरति शोकमात्मविद्" (छा० ७।१।३) इति अत्रह्यप्यपि आत्मशब्दप्रयोगादिति आक्षेपसङ्गत्या पूर्वपक्षयति—प्राणो भूमेति । धर्मधर्मिणोः अमेदात् सामानाधिकरण्यं द्रष्टव्यम् । पूर्वोत्तरपक्षयोः प्राणोपास्तिः ब्रह्मज्ञानं च फलं क्रमेण मन्तव्यम् । अत्र अध्याये भूयःप्रश्नोत्तरमेदाद् अर्धमेदो दृश्यते । भूमा तु, प्राणात्परं भूयःप्रश्नं विनैवोक्तत्वलिङ्गेन, प्राणाद् अभिन्न इत्याह—कस्मादित्यादिना । प्राणाद् भूय इति, न दृश्यत इति पूर्वेण सम्बन्धः । नन्वेव तु वा अतिवदतीति तुशब्देन प्राणप्रकरण-

रत्नप्रभाका अनुवाद

व्यवहित प्रकरणोंसे संशय होता है । पूर्वाधिकरणमें आत्मशब्दके प्रयोगसे द्यु, भू आदिका आयतन ब्रह्म है, ऐसा जो निर्णय किया गया है, वह युक्त नहीं है, क्योंकि 'तरति शोक०' इन श्रुतिसे प्रतीत होता है कि आत्मशब्दका ब्रह्मभिषमं भी प्रयोग है । इस प्रकार आक्षेपसंगतिसे पूर्वपक्ष करते हैं—'प्राणो भूमा' इत्यादिसे । धर्म और धर्मिके अमेदसे 'प्राणो भूमा' यह सामानाधिकरण्य कहा गया है । पूर्वपक्षमें प्राणकी उपासना फल है और सिद्धान्तमें ब्रह्मज्ञान फल है । इस अध्यायमें कौन किससे अधिक है, इस तरह आधिक्यके प्रश्नोत्तरोंमें भिन्न भिन्न पदार्थोंकी प्रतीति होती है । प्राणके अनन्तर आधिक्य प्रश्नके विना ही भूमा कहा गया है, इस कारण भूमा प्राणसे अभिन्न है, ऐसा कहते हैं—'कस्मात्' इत्यादिगे । 'प्राणाद्भूय इति' इसका पूर्वोक्त 'न दृश्यते' इसके साथ संबन्ध है । यदि कोई

भाष्य

नामादिभ्यो ह्य प्राणाद् भूयःप्रश्नप्रतिवचनप्रवाहः प्रवृत्तः । नैवं प्राणात् परं भूयःप्रश्नप्रतिवचनं दृश्यते—अस्ति भगवः प्राणाद् भूय इत्यदो वाव प्राणाद् भूय इति । प्राणमेव तु नामादिभ्य आशान्तेभ्यो भूर्यासम् 'प्राणो वा आशाया भूयान्' इत्यादिना सप्रपञ्चमुक्त्वा, प्राणदर्शिनश्चाऽतिवादित्वम्—'अतिवाद्यसीति अतिवाद्यस्मीति ब्रूयान्नापहनुवीत' इत्यभ्यनुज्ञाय 'एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति' इति प्राणव्रत-

भाष्यका अनुवाद

ही वाणीसे अधिक है) इस प्रकार नामसे लेकर प्राण तक अधिकताके प्रश्न और प्रतिवचनका प्रवाह चलता गया है, किन्तु प्राणके आगे हे भगवन् ! प्राणसे अधिक कुछ है ? निश्चय अमुक प्राणसे अधिक है, इस प्रकार आधिक्यका प्रश्न और प्रतिवचन नहीं दीखता । परन्तु 'प्राणो वा०' (प्राण ही आशासे अधिक है) इत्यादिसे विस्तार-पूर्वक प्राणको ही नामसे लेकर आशापर्यन्त पदार्थोंसे बड़ा कह कर 'अतिवाद्यसी०' (तुम श्रेष्ठवादी हो ? किसीके ऐसा प्रश्न करने पर मैं श्रेष्ठवादी हूँ ऐसा कहे, अपने श्रेष्ठवादी होनेका अपह्वन न करे) इस प्रकार प्राणदर्शीमें श्रेष्ठवादित्वका स्वीकार करके 'एष तु वा०' (निश्चय यह श्रेष्ठवादी होता है, जो सत्यसे श्रेष्ठवादी होता है) इस प्रकार

रत्नप्रभा

विच्छेदाद् न प्राणो भूमेत्यत आह—प्राणमेवेति । नामाद्याशान्तान् उपास्यान् अतीत्य प्राणं श्रेष्ठं वदतीति—अतिवादी प्राणवित्, तं प्रति अतिवादी असीति केनचित् प्रश्ने कृते अस्मीति ब्रूयात्, नाहमतिवादीति अपह्ववं न कुर्यादिति उक्तम् । प्राणविदम् "एषः" इति परामृश्य सत्यवचनध्यानमननश्रद्धादिधर्मपरम्परा विधाय भूमोपदेशात् न प्रकरणविच्छेदः । तुशब्दो नामाद्युपासकस्याऽतिवादित्व-

रत्नप्रभाका अनुवाद

ज्ञा करे कि 'एष तु वा०' (यह तो निश्चय श्रेष्ठवादी है) इसमें 'तु' शब्दसे प्राणप्रकरणका विच्छेद होनेसे प्राण भूमा नहा है, इसपर कहते हैं—"प्राणमेव" इत्यादि । नामसे लेकर आशातक उपास्य पदार्थोंका उल्लेख कर प्राणको 'श्रेष्ठ कहनेवाला अतिवादी प्राणवेत्ता है । उस पुरुषसे कोई प्रश्न करे कि तुम अतिवादी हो, तो उसे 'हाँ' कहना चाहिए । मैं श्रेष्ठवादी नहीं हूँ इस प्रकार इन्कार नहीं करना चाहिए, यह कहा है । उक्त प्राणवेत्ताका 'एष तु वा०' इत्यादिके 'एष' पदसे परामर्श करके सत्यवचन, ध्यान, मनन श्रद्धा आदि र्मोंका परंपरासे भूमाका उपदेश किया है, इसलिए प्रकरणका विच्छेद नहा जाता । 'तु' शब्द तो

भाष्य

मतिवादित्वमनुकृत्याऽपरित्यज्यैव प्राणं सत्यादिपरम्परया भूमानमव-
तारयन् प्राणमेव भूमानं मन्यत इति गम्यते । कथं पुनः प्राणे भूमनि
व्याख्यायमाने 'यत्र नान्यत् पश्यति' इत्येतद् भूमनो लक्षणपरं वचनं
व्याख्यायेतेति । उच्यते—सुपुप्त्यवस्थायां प्राणग्रस्तेषु करणेषु दर्शना-
दिव्यवहारनिवृत्तिदर्शनात् सम्भवति प्राणस्यापि 'यत्र 'नान्यत्पश्यति'
इत्येतल्लक्षणम् । तथा च श्रुतिः—'न शृणोति न पश्यति' इत्यादिना
सर्वकरणव्यापारभत्यस्तमयरूपां सुपुप्त्यवस्थामुक्त्वा 'प्राणाग्रय एवैतस्मिन्
पुरे जाग्रति' (प्र० ४।२।३) इति तस्यामेवाऽवस्थायां पञ्चवृत्तेः प्राणस्य
जागरणं भ्रुवती प्राणप्रधानां सुपुप्त्यवस्थां दर्शयति । यच्चैतद् भूमनः सुखत्वं

भाष्यका अनुवाद

श्रेष्ठवादित्वरूप प्राणग्रतकी अनुवृत्ति करके प्राणका परित्याग किये बिना ही सत्य
आदि परम्परासे भूमाका अवतरण करते हुए सनत्कुमार प्राणको ही भूमा मानते
हैं, ऐसा प्रतीत होता है । यदि प्राण भूमा है ऐसी व्याख्या करो तो 'यत्र नान्य०'
(जहां दूसरेको नहीं देखता) भूमाके लक्षणका निर्देश करनेवाले इस वाक्यका
किस प्रकार व्याख्यान करोगे ? इस आशङ्कापर कहते हैं—सुपुप्ति अवस्थामें
इन्द्रियोंके प्राणमें लीन होनेपर दर्शन आदि व्यवहार निवृत्त हो जाते हैं, इस-
लिए 'यत्र नान्यत्पश्यति' यह प्राणका भी लक्षण हो सकता है, क्योंकि 'न
शृणोति०' (सुनता नहीं, देखता नहीं) इत्यादिसे श्रुति सुपुप्ति अवस्था, (जिसमें
सब इन्द्रियोंके व्यापार अस्त हो जाता है), को कहकर 'प्राणाग्रय०' (प्राणरूप
अग्नियां ही इस शरीरमें जागती हैं) इस प्रकार उसी अवस्थामें पांच
वृत्तिवाले प्राणका जागरण कहती हुई प्राणप्रधान सुपुप्ति अवस्थाको दिखलाती है ।

रत्नप्रभा

निरासार्थ इत्यर्थः । भूमनो लक्षणवचनं सुखत्वममृतत्वं च प्राणे प्रभुपूर्वकं
योजयति—कथं पुनरित्यादिना । प्राणग्रस्तेषु—प्राणे लीनेषु न शृणोति, सुपुप्तः
पुरुष इति शेषः । "गार्हपत्यो ह वा एपोऽपानो व्यानोऽन्वाहार्यपचन आह्वयनीयः

रत्नप्रभाका अनुवाद

नाम आदिका उपासक अतिवादी नहीं है, इस बातको दर्शानेके लिए है । भूमाके लक्षण—
सुखत्व और अमृतत्वकी प्राणमें प्रश्नपूर्वक योजना करते हैं—“कथं पुनः” इत्यादिसे ।
प्राणग्रस्त—प्राणमें लीन । 'न शृणोति' के अनन्तर 'सुपुप्तः पुरुषः' इतना शेष समझना
चाहिए । 'गार्हपत्यो ह वा०' (यह अपान गार्हपत्य है, व्यान अन्वाहार्य है और प्राण

भाष्य

श्रुतम्—‘यो वै भूमा तत्सुखम्’ (छा० ७।२।१) इति, तदप्यविरुद्धम्
 ‘अत्रैव देवः स्वप्नान्न पश्यत्यथ यदेतस्मिंश्शरीरे सुखं भवति’ (प्र० ४।६)
 इति सुषुप्त्यवस्थायामेव सुखश्रवणात् । यच्च—‘यो वै भूमा तदमृतम्’
 (छा० ७।२।४।१) इति, तदपि प्राणस्याऽविरुद्धम्, ‘प्राणो वा अमृतम्’
 (कौ० ३।२) इति श्रुतेः । कथं पुनः प्राणं भूमानं मन्यमानस्य ‘तरति
 शोकमात्मवित्’ इत्यात्मविविदिषया प्रकरणस्योत्थानमुपपद्यते ? प्राण
 एवेहाऽऽत्मा विवक्षित इति ब्रूमः । तथाहि—‘प्राणो ह पिता प्राणो माता
 प्राणो भ्राता प्राणः स्वसा प्राण आचार्यः प्राणो ब्राह्मणः’ (छा० ७।१।५।१)

भाष्यका अनुवाद

और ‘यो वै भूमा०’ (निश्चय जो भूमा है वह सुख है) इस प्रकार जो श्रुति भूमाको
 सुखरूप कहती है, वह भी विरुद्ध नहीं है, क्योंकि ‘अत्रैव देवः’ (सुषुप्तिमें यह
 जीवरूप देवता स्वप्न नहीं देखता, तब इस शरीरमें यह सुख होता है) इस प्रकार
 सुषुप्ति अवस्थामें ही सुख सुना जाता है । और ‘यो वै भूमा०’ (निश्चय जो भूमा
 है, वह अमृत है) ऐसा जो कहा है वह अमृतत्व भी प्राणमें विरुद्ध नहीं है, क्योंकि
 ‘प्राणो वा०’ (प्राण ही अमृत है) ऐसी श्रुति है, परन्तु प्राणको भूमा मानने-
 वालेके पक्षमें ‘तरति शोक०’ (आत्मवेत्ता शोकसे मुक्त हो जाता है) इस
 आत्मविज्ञानकी इच्छासे प्रकरणका आरम्भ कैसे उचित होगा ? प्राण ही यहां
 आत्मरूपसे विवक्षित है ऐसा हम कहते हैं, क्योंकि ‘प्राणो ह पिता०’ (प्राण
 ही पिता, माता, भ्राता, वहिन, आचार्य और ब्राह्मण है) यह श्रुति प्राणको

रत्नप्रभा

प्राणः” इति श्रुतेः प्राणा-अग्नयः इह-पुरे शरीरे जाग्रति सव्यापारा एव तिष्ठ-
 न्तीत्यर्थः । देवः—जीवः, अथ-तदा-स्वप्नादर्शनकाले सुखश्रवणात् प्राणस्य
 सुखत्वम् अविरुद्धमित्यन्वयः । आत्मपदेन उपक्रमविरोधं परिहरति—प्राण एवेति ।
 प्राणस्य आत्मत्वं कथमित्याशङ्क्य श्रुतत्वादित्याह—तथा हीति । सर्वं समर्पित-

रत्नप्रभाका अनुवाद

आहवर्नाय दे) ऐसी श्रुति है, इसलिए प्राणरूप अभियों इस शरीरमें स्वाभाविकतामें भी जागते
 हैं—व्यापार करते रहते हैं, ऐसा अर्थ है । देव-जीव । जब स्वप्नका दर्शन नहीं होता है,
 उस समय अर्थात् सुषुप्त्यवस्थामें सुगन्ध भवण है, इस कारण प्राणको सुगन्ध करना विरुद्ध
 नहीं है, ऐसा-अन्वय समझना चाहिए । इस प्रकरणका उपक्रम आत्मपदेन है, अतः संभावित
 उपक्रम विरोधका परिहार करते हैं—“प्राण एव” इत्यादिमें । प्राण आत्मा वेग दे,
 यह शङ्का करके श्रुतिमें प्रतिपादित होनेके कारण [प्राण आत्मा है] ऐसा करने है—
 “तथा हि” इत्यादिमें । ‘सर्वं समर्पितम्’ (प्राणमें सब समर्पित है) यह श्रुति प्राणको सबका

भाष्य

इति प्राणमेव सर्वात्मानं करोति । 'यथा वा अरा नाभौ समर्पिता एव-
मस्मिन्प्राणे सर्वं समर्पितम्' इति च सर्वात्मत्वारनाभिनिदर्शनाभ्यां
च सम्भवति वैपुल्यात्मिका भूमरूपता प्राणस्य । तस्मात् प्राणो
भूमेत्येवं प्राप्तम् ।

तत इदमुच्यते—परमात्मैवेह भूमा भवितुमर्हति, न प्राणः ।
कस्मात् ? सम्प्रसादादध्युपदेशात् । सम्प्रसाद इति सुषुप्तं स्थानमुच्यते,
सम्यक्प्रसीदत्यस्मिन्निति निर्वाचनात्, बृहदारण्यके च स्वप्नजागरितस्था-
नाभ्यां सह पाठात् । तस्यां च सम्प्रसादावस्थायां प्राणो जागर्तीति

भाष्यका अनुवाद

ही सर्वस्वरूप कहती है । और 'यथा वा अरा नाभौ०' (जैसे नाभिमें अर
अर्पित हैं, उसी प्रकार इस प्राणमें सब अर्पित है) इस प्रकार सर्वात्मत्व और
अर-नाभिके दृष्टान्तसे प्राणमें विपुलस्वरूपता (भूमरूपता) संभव है । इसलिए
प्राण भूमा है, ऐसा प्राप्त होता है ।

सिद्धान्ती—इसपर कहते हैं कि परमात्मा ही यहां भूमा है, प्राण भूमा
नहीं है । क्योंकि संप्रसादके अनन्तर भूमाका उपदेश किया गया है । संप्रसादसे
सुषुप्तिस्थानका अभिधान होता है, क्योंकि जिसमें यथार्थरूपसे प्रसन्न होता है,
ऐसी व्युत्पत्ति है । बृहदारण्यकमें स्वप्न और जाग्रत् स्थानोंके साथ इसका पाठ है
और उस संप्रसाद अवस्थामें प्राण जागता है, इसलिए यहां संप्रसादका अर्थ

रत्नप्रभा

मिति च सर्वाधिष्ठानं प्राणं स्वीकरोति श्रुतिरित्यन्वयः । अत आत्मत्वं प्राणेऽपि
मुख्यमिति भावः । भूमरूपत्वं योजयति—सर्वात्मत्वेति ।

सम्प्रसादशब्देन प्राणं लक्षयितुं मुख्यार्थं दर्शयति—सम्प्रसाद इति । "स
वा एष एतस्मिन् सम्प्रसादे स्थित्वा पुनराद्रवति" (बृ० ४।३।१५) इति
प्रयोगाच्च तत्पदं सुषुप्तिवाचकमित्याह—बृहदिति । वाच्यार्थसम्बन्धात् प्राणो लक्ष्य

रत्नप्रभाका अनुवाद

अधिष्ठान मानती है, ऐसा अन्वय है । इसलिए प्राणमें भी आत्मत्व मुख्य है । प्राणमें भूम-
रूपत्वका संभव कहते हैं—'सर्वात्मत्व' इत्यादिसे ।

लक्षणासे प्राणरूप अर्थ प्रतिपादन करनेके लिए संप्रसाद शब्दका मुख्य अर्थ
दिखाते हैं—'सम्प्रसादः' इत्यादिसे । 'स वा एष०' (वह इस संप्रसादमें—
सुषुप्त्यवस्थामें रहकर पुनः स्वप्नावस्थाको लौट आता है) इस प्रकार प्रयोग भी
है, अतः वह संप्रसादपद सुषुप्तिका वाचक है, ऐसा कहते हैं—'बृहत्' इत्यादिसे ।

भाष्य

प्राणोऽत्र सम्प्रसादोऽभिप्रेयते प्राणादूर्ध्वं भूम्न उपदिश्यमानत्वादित्यर्थः । प्राण एव चेद् भूमा स्यात्, स एव तस्मादूर्ध्वमुपदिश्येतेत्यश्लिष्टमेवैतत् स्यात् । नहि नामैव नाम्नो भूय इति, नाम्न ऊर्ध्वमुपदिष्टम् । किं तर्हि ? नाम्नोऽन्यदर्थान्तरमुपदिष्टं वागारख्यम्—‘वाग्वाव नाम्नो भूयसी’ इति । तथा वागादिभ्योऽप्या प्राणादर्थान्तरमेव तत्र तत्रोर्ध्वमुपदिष्टम्, तद्वत् प्राणादूर्ध्वमुपदिश्यमानो भूमा प्राणादर्थान्तरभूतो भवितुमर्हति ।

नन्विह नास्ति प्रश्नः ‘अस्ति भगवः प्राणाद् भूय’ इति, नापि प्रति-

भाष्यका अनुवाद

प्राण है। प्राणके अनन्तर भूमाका उपदेश किया गया है इससे, ऐसा अर्थ है। यदि प्राण ही भूमा हो, तो वही उसके अनन्तर उपदिष्ट हो, यह असंगत हो जायगा। क्योंकि नाम ही नामसे अधिक है, इस प्रकार नामके अनन्तर नामका ही उपदेश नहीं है। किन्तु नामसे अतिरिक्त वाग् नामक अर्थान्तरका ‘वाग्वाव०’ (वाणी ही नामसे अधिक है) इस प्रकार उपदेश है। इसी प्रकार वागादिसे लेकर प्राणतक तत् तत् स्थलपर अन्यान्य पदार्थ ही अधिक है, ऐसा उपदेश किया है। उसीके समान प्राणके अनन्तर उपदिश्यमान भूमाका भी प्राणसे अतिरिक्त होना युक्त है।

परन्तु यहां है भगवन् ! प्राणसे अधिक क्या है ? ऐसा प्रश्न नहीं है और

रत्नप्रभा

इत्याह—तस्यां चेति । अत्र—सूत्रे इत्यर्थः । भूमा प्राणाद् भिन्नः, अत्र अध्याये तस्मात् ऊर्ध्वमुपदिष्टत्वात् नामादेः ऊर्ध्वम् उपदिष्टवागादिवदित्यर्थः । विपक्षे हेतुच्छेदं बाधकमाह—प्राण एव चेदिति । स्वस्यैव स्वस्माद् ऊर्ध्वम् उपदिष्टत्वम् अयुक्त नामादिषु अदृष्टं चेत्यर्थः ।

हेत्वसिद्धिं शङ्कते—नन्विहेति । प्रकृतप्राणवित्परामर्शक एपशब्दो न भवति,

रत्नप्रभाका अनुवाद

वाच्यार्थते सघन्य होनेके कारण प्राणको सम्प्रसाद शब्दका लक्ष्य अर्थ है यह कहने हैं—“तस्या च” इत्यादिते । ‘अत्र’—इस सूत्रमें । भूमा प्राणमें भिन्न है, क्योंकि इस अध्यायमें प्राणके अनन्तर उपदिष्ट है [जो जिसके अनन्तर उपदिष्ट होता है, वह उससे भिन्न होता है] नाम आदिके अनन्तर उपदिष्ट वाग् आदिके समान, ऐसा आशय है । विपक्षमें हेत्वभावरूप बाधक कहते हैं—“प्राण एव चेद्” इत्यादिते । स्वयं ही अपनेमें अनन्तर उपदिष्ट है, यह संगत नहीं है और नाम आदिमें देखा भा नहीं गया है अर्थात् नामके बाद नाम ही उपदिष्ट नहीं है, किन्तु नाममें भिन्न वाग् आदि उपदिष्ट है ।

भाष्य

वचनमस्ति—‘प्राणाद्वाव भूयोऽस्ति’ इति, कथं प्राणादधि भूमोपदिश्यत इत्युच्यते । प्राणविषयमेव चाऽतिवादित्वमुत्तरत्राऽनुकृष्यमाणं पश्यामः—‘एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति’ इति । तस्मान्नास्ति प्राणादध्युपदेश इति । अत्रोच्यते—न तावत् प्राणविषयस्यैवाऽतिवादित्वस्यैतदनुकर्षणमिति शक्यं वक्तुम्, विशेषवादात्—‘यः सत्येनातिवदति’ इति ।

ननु विशेषवादोऽप्ययं प्राणविषय एव भविष्यति । कथम् ? यथैपोऽग्निहोत्री यः सत्यं वदतीत्युक्ते न सत्यवदनेनाऽग्निहोत्रित्वम्, केन

भाष्यका अनुवाद

प्राणसे अमुक बड़ा है, ऐसा प्रतिवचन भी नहीं है, तो प्राणके अनन्तर भूमाका उपदेश है, यह कैसे कहा जाय, तथा ‘एष तु वा०’ (जो सत्यसे श्रेष्ठवादी है वही श्रेष्ठवादी है) इस तरह प्राणविषयक श्रेष्ठवादित्वकी ही आगे अनुवृत्ति देखी जाती है, इसलिए प्राणके अनन्तर किसी द्वितीय पदार्थका उपदेश नहीं है । इस प्रश्नपर उत्तर कहते हैं—प्राणविषयक श्रेष्ठवादित्वकी ही यह अनुवृत्ति है, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ‘यः सत्येना०’ (जो सत्यसे श्रेष्ठवादी है) इस प्रकार विशेषवाद है ।

परन्तु यह विशेषवाद भी प्राणविषयक ही होगा । किस प्रकार ? जैसे कि ‘वह अग्निहोत्री है जो सत्य बोलता है’ ऐसा कहनेसे सत्यवादसे अग्निहोत्रित्व

रत्नप्रभा

तस्य यच्छब्दपरतन्त्रत्वेन सत्यवादिवाचित्वात्, अतः प्राणप्रकरणं विच्छिन्नमिति हेतुसिद्धिरित्याह—अत्रोच्यते इति । सत्येनाऽतिवादित्वं विशेषः, तद्वतो य एष इत्युक्तेः न पूर्वानुकर्ष इत्यर्थः ।

य एष प्राणविदतिवदति इत्यनुद्य स सत्यं वदेदिति विधानात् न प्राणप्रकरणविच्छेदः इति दृष्टान्तेन शङ्कते—नन्विति । सत्यशब्दो ह्यवाधिते रूढः

रत्नप्रभाका अनुवाद

हेतु असिद्ध है, ऐसी शङ्का करते हैं—“नन्विह” इत्यादिसे । ‘एष’ शब्द प्रकृत प्राणवेत्ताका परामर्श करनेवाला नहीं है, क्योंकि ‘यत्’ शब्दके परतंत्र होनेके कारण सत्यवादीरूप अर्थका प्रतिपादन करता है, इसलिए प्राणका प्रकरण समाप्त है, अतः हेतु सिद्ध है, ऐसा कहते हैं—“अत्रोच्यते” इत्यादिसे । सत्यसे अतिवादी होना विशेष है और अतिवादीके लिए ‘य एष’ कहा गया है, इसलिए पूर्वका (प्राणवेत्ताका) अनुकर्ष नहीं है, यह तात्पर्य है ।

परन्तु ‘य एष प्राण०’ (जो यह प्राणवेत्ता श्रेष्ठवादी है) इस प्रकार अनुवाद करके

भाष्य

तर्हि ? अग्निहोत्रेणैव, सत्यवदनं त्वग्निहोत्रिणो विशेष उच्यते । तथा 'एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति' इत्युक्ते न सत्यवदनेनाऽतिवादित्वम्, केन तर्हि ? प्रकृतेन प्राणविज्ञानेनैव । सत्यवदनं तु प्राणविदो विशेषो विवक्ष्यत इति । नेति ब्रूमः, श्रुत्यर्थपरित्यागप्रसङ्गात् । श्रुत्या ह्यत्र सत्यवदनेनाऽतिवादित्वं प्रतीयते—'यः सत्येनातिवदति सोऽतिवदति' इति । नाऽत्र प्राणविज्ञानस्य संकीर्तनमस्ति । प्रकरणात्तु प्राणविज्ञानं सम्बध्येत । तत्र प्रकरणानुरोधेन श्रुतिः परित्यक्ता स्यात् ।

भाष्यका अनुवाद

नहीं होता, किन्तु अग्निहोत्रसे ही होता है, सत्यवाद तो अग्निहोत्रीकी विशेषता है । उसी प्रकार 'एष तु वा०' (जो सत्यसे श्रेष्ठवादी है, वह निश्चय श्रेष्ठवादी है) ऐसा कहनेसे सत्यवादसे श्रेष्ठवादित्व नहीं है, किन्तु प्रकृत प्राणविज्ञानसे ही है, सत्यवाद तो प्राणवेत्ताकी विशेषतारूपसे विवक्षित है । हम कहते हैं कि नहीं, क्योंकि श्रुत अर्थका परित्याग हो जायगा । श्रुतिद्वारा सत्यवादसे श्रेष्ठवादित्वकी प्रतीति होती है—'यः सत्येना०' (जो सत्यसे श्रेष्ठवादी है, वह श्रेष्ठवादी है) यहां प्राणविज्ञानका संकीर्तन नहीं है । प्रकरणसे तो भले ही प्राणविज्ञानका संबन्ध हो । ऐसी अवस्थामें प्रकरणके अनुरोधसे श्रुतिका परित्याग हो जायगा ।

रत्नप्रभा

ब्रह्मवाचकः, तदन्यस्य मिथ्यात्वात् । सत्यवचने त्ववाधितार्थसम्बन्धात् लक्षणादिति नाऽत्र लक्ष्यवचनविधिरित्याह—नेति ब्रूम इति । किञ्च, सत्येन ब्रह्मणाऽतिवदतीति तृतीयाश्रुत्या ब्रह्मकरणकमतिवादित्वं श्रुतम्, तस्य प्रकरणाद् वाधो न युक्त इत्याह—श्रुत्या हीत्यादिना । नात्रेति । सत्यवाक्ये इत्यर्थः । एवं सत्येनेति श्रुत्या प्रकरणं वाध्यमिति उक्त्वा तुशब्देनाऽपि तद्वाधमाह—प्रकृतेति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

'स सत्यं०' (वह सत्य चेतने) ऐसा विधान होनेसे प्राणप्रकरणकी रामाधि नहीं है, दृष्टान्तपूर्वक यह शंका करते हैं—'ननु' इत्यादिसे । अवाधितमें रुद्ध सत्यशब्द ब्रह्मवाचक है, क्योंकि ब्रह्ममें निश्चय वस्तु मिथ्या है । सत्यवचन तो अवाधित अर्थके साथ संबन्ध होनेसे सत्यशब्दका लक्ष्यार्थ है । यहां लक्ष्यवचनकी विधि नहीं है, ऐसा करते हैं—'नेति ब्रूमः' इत्यादिसे । और 'सत्येन०' (सत्य-ब्रह्मसे श्रेष्ठवादी होता है) इसमें तृतीयाका श्रवण है, इसलिए ब्रह्मकरणक अतिवाद धुतिप्रतिपादित है, उसका प्रकरणसे वाध होना युक्त नहीं है, ऐसा करते हैं—'श्रुत्या हि' इत्यादिसे । 'नात्' । 'अत्र' अर्थात् सत्यवाक्यमें । इस प्रकार 'सत्येन' इस धुतिसे प्रकरण वाधि होता है, ऐसा करते हैं 'तु' शब्दमें भी उग्रा वाध करते हैं—'प्रकृत' इत्यादिसे ।

भाष्य

प्रकृतव्यावृत्त्यर्थश्च तुशब्दो न सङ्गच्छेत 'एष तु वा अतिवदति' इति । 'सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यम्' (छा० ७।१६) इति च प्रयत्नान्तरकरणमर्थान्तरविवक्षां सूचयति । तस्माद्यथैकवेदप्रशंसायां प्रकृतायामेव तु महाब्राह्मणो यश्चतुरो वेदानधीत इत्येकवेदेभ्योऽर्थान्तरभूतश्चतुर्वेदः प्रशस्यते तादृगेतद् द्रष्टव्यम् । न च प्रश्नप्रतिवचनरूपयैवाऽर्थान्तरविवक्षया भवि-

भाष्यका अनुवाद

और 'एष तु वा०' (परन्तु यह श्रेष्ठवादी है) इसमें प्रकरणभेदक 'तु' शब्द संगत नहीं होगा और 'सत्यं त्वेव०' (विशेषतः सत्यको ही जाननेकी इच्छा करनी चाहिए) इस प्रकार अन्य प्रयत्नका विधान अन्य अर्थकी विवक्षाकी सूचना करता है, इसलिए जैसे एक वेदकी प्रशंसा प्रस्तुत होनेपर जो चार वेदोंका अध्ययन करता है वह महाब्राह्मण है, इसमें एक वेदके पढ़नेवाले ब्राह्मणोंसे चतुर्वेदवेत्ताकी प्रशंसा होती है, इसी प्रकार यहां भी समझना चाहिए । और प्रश्न और प्रतिवचनके रूपमें ही अर्थान्तरकी विवक्षा हो, यह नियम नहीं है,

रत्नप्रभा

विजिज्ञास्यत्वलिङ्गाच्च पूर्वोक्ताद् भिन्नमित्याह—सत्यं त्वेवेति । प्रकरणविच्छेदे दृष्टान्तमाह—तस्मादिति । श्रुतिलिङ्गबलाद् एतत् सत्यं प्रकृतात् प्राणात् प्राधान्येन भिन्न द्रष्टव्यमित्यर्थः । एवमतिवादित्वस्य ब्रह्मसम्बन्धोक्त्या प्राणलिङ्गत्व निरस्तम् । यत्तु—प्रश्नं विनोक्तत्वलिङ्गाद् भूमा प्राण—इति । तन्न, तस्याऽप्रयोजकत्वादित्याह—न चेति । प्रश्नभेदादर्थभेद इति न नियमः, एकस्याऽऽत्मनो मैत्रेय्या बहुशः पृष्टत्वात् प्रश्नं विनोक्तचतुर्वेदस्य प्रकृतैकवेदाद् भिन्नत्वदर्शनाच्चेत्यर्थः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

विजिज्ञास्यस्वरूप लिङ्गसे भी पूर्वोक्त वस्तुसे भिन्न वस्तुका प्रतिपादन होता है, ऐसा कहते हैं— "सत्यं त्वेव" इत्यादिसे । प्रकरणकी समाप्तिमें दृष्टान्त देते हैं—"तस्माद्" इत्यादिसे । तात्पर्य यह कि श्रुति और लिङ्गके बलसे यह सत्य प्रकृत प्राणसे श्रेष्ठ एवं भिन्न है । इस प्रकार अतिवादित्वका ब्रह्मके साथ संबन्ध स्थापित करनेसे अतिवादित्वमें प्राणलिङ्गताका निरास किया गया । अब प्रश्नके बिना कहे जानेके कारण भूमा प्राण है, यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि प्रश्न प्रयोजक नहीं है, ऐसा कहते हैं— "न च" इत्यादिसे । प्रश्न भेदसे अर्थ भेद हो, यह नियम नहीं है, क्योंकि एक ही आत्माके बारेमें मैत्रेयीने बहुत-बार प्रश्न किया है और प्रश्नके बिना उक्त चतुर्वेदवेत्ता प्रकृत एकवेदज्ञसे भिन्न है, ऐसा

भाष्य

तव्यमिति नियमोऽस्ति, प्रकृतसम्बन्धासम्भवकारितत्वादर्थान्तरविवक्षायाः। तत्र प्राणान्तमनुशासनं श्रुत्वा तूष्णींभूतं नारदं स्वयमेव सनत्कुमारो व्युत्पादयति। यत् प्राणविज्ञानेन विकारानृतविषयेणातिवादित्वमनतिवादित्वमेव तत् 'एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति' इति। तत्र सत्यमिति परं ब्रह्मोच्यते, परमार्थरूपत्वात्, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (तै० २।१) इति च श्रुत्यन्तरात्। तथा व्युत्पादिताय नारदाय 'सोऽहं भगवः सत्येनातिवदानि' इत्येवं प्रवृत्ताय विज्ञानादिसाधनपर-

भाष्यका अनुवाद

क्योंकि अर्थान्तरकी विवक्षा प्रकृत पदार्थका संबन्ध न होनेसे होती है। पदार्थान्तरकी विवक्षा रहनेपर भी नामसे लेकर प्राणतक उपदेश सुनकर नारद चुप हो रहे, उन्हें सनत्कुमार स्वयं ही इस प्रकार चेताते हैं कि विकार और असत्य जिसका विषय है उस प्राणविज्ञानसे जो श्रेष्ठवादित्व है, वह अश्रेष्ठवादित्व ही है, 'एष तु वा०' (परन्तु जो सत्यसे श्रेष्ठवादी है, वही श्रेष्ठवादी है) इसमें सत्यशब्दसे परब्रह्मका अभिधान है, क्योंकि वह परमार्थरूप है और 'सत्यं ज्ञान०' (ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है) ऐसी दूसरी श्रुति है। [सत्य परमात्मा है] यह जानकर सावधान हुए और 'सोऽहं भगवः०' (हे भगवन् ! मैं सत्यसे श्रेष्ठवादी होऊँ) इस तरह प्रवृत्त हुए नारदको विज्ञान

रत्नप्रभा

तत्र यथा चतुर्वेदत्वस्य प्रकृतासम्बन्धादर्थभेदः, एवमिहापीति स्फुटयति-तत्रेत्यादिना। सत्यपदेन प्राणोक्तिरित्यत आह-तत्र सत्यमितीति। विज्ञानम्—निदिध्यासनम्। आदिपदात् मननश्रद्धाश्रवणमनश्शुद्धिनिष्ठातद्भेतुकर्मणि गृह्यन्ते। इमानि अपि श्रवणादीनि ज्ञेयस्य सत्यस्य ब्रह्मत्वे लिङ्गानि। एवं श्रुतिलिङ्गैः

रत्नप्रभाका अनुवाद

दिखाई देता है। यहां जैसे चतुर्वेदत्वका प्रकृतके साथ संबन्ध न होनेसे अर्थभेद है, ऐसे ही यहां भी है, वह स्पष्ट करते हैं—“तत्र” इत्यादिसे। सत्यपदसे प्राण ही कहा गया है, इसपर कहते हैं—“तत्र सत्यम्” इत्यादिसे। विज्ञान—निदिध्यासन। आदिपदसे मनन, श्रद्धा, श्रवण, मनःशुद्धि, निष्ठा और निष्ठाके देव कर्मोंका ग्रहण है। ज्ञेय जो सत्य है, वह ब्रह्म है, ऐसा प्रतिपादन करनेमें श्रवण आदि भी लिङ्ग-साधन है। इस प्रकार ध्याति और

भाष्य

म्परया भूमानमुपदिशति । तत्र यत् प्राणादधि सत्यं वक्तव्यं प्रतिज्ञातम्, तदेवेह भूमेत्युच्यत इति गम्यते । तस्मादस्ति प्राणादधि भूम्न उपदेश इत्यतः प्राणादन्यः परमात्मा भूमा भवितुमर्हति । एवं चेहात्मविविदिपया प्रकरणस्योत्थानमुपपन्नं भविष्यति । प्राण एवेहाऽऽत्मा विवक्षित इत्येतदपि नोपपद्यते । नहि प्राणस्य मुख्यया वृत्त्याऽऽत्मत्वमस्ति । न चाऽन्यत्र परमात्मज्ञानाच्छोकवृत्तिरस्ति, 'नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' (श्वे० ६ । १५) इति श्रुत्यन्तरात् । 'तं मा भगवान् शोकस्य पारं

भाष्यका अनुवाद

आदि साधनपरम्परासे भूमाका उपदेश करते हैं । भूमाका उपदेश प्रस्तुत होने-पर प्राणके अनन्तर जिस सत्यको कहनेकी प्रतिज्ञा की गई है, वही यहां भूमा कहा गया है, ऐसा प्रतीत होता है । इसलिए प्राणके अनन्तर भूमाका उपदेश होनेसे प्राणसे भिन्न परमात्माका भूमा होना उचित है । इस प्रकार यहां आत्माका विज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे हुआ प्रकरणका आरम्भ संगत होता है । प्राण ही यहां आत्मरूपसे विवक्षित है, यह कथन मी युक्त नहीं है, क्योंकि आत्मशब्द मुख्यवृत्तिसे प्राणका प्रतिपादन नहीं कर सकता है । परमात्माके ज्ञानके सिवा अन्य किसी प्रकारसे शोककी निवृत्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि 'नान्यः पन्था०' (मोक्षप्राप्तिके लिए दूसरा मार्ग नहीं है) ऐसी दूसरी श्रुति है । 'तं मा

रत्नप्रभा

प्राणस्य अवान्तरप्रकरण बाधित्वा प्रस्तुत सत्य ब्रह्म भूमपदोक्तबहुत्वधर्मि इत्याह— तत्र यदिति । किंच, "सन्निहितादपि व्यवहित साकाङ्क्ष चलीयः" इति न्यायेन सन्निहितं निराकाङ्क्ष प्राण दृष्ट्वा वाक्योपक्रमस्य आत्मा स्वप्रतिपादनाय भूमवाक्यापेक्ष इह भूमा ग्राह्य इत्याह—एवं चेति । किंच, "शोकस्य पारम्"

रत्नप्रभाका अनुवाद

लिङ्गोमे प्राणके अवान्तर प्रकरणका बाध करके प्रस्तुत सत्य ब्रह्म ही भूमपदसे प्रतिपादित बहुत्वधर्मवाला है, ऐसा कहते हैं—“तत्र यद्” इत्यादिसे । किञ्च सन्निहित—निकटवर्तीकी अपेक्षा व्यवहित साकांक्ष विशेष बलवान् होता है, इस न्यायसे सन्निहित भी निराकांक्ष प्राणको देखकर वाक्यके उपक्रमम आया हुआ आत्मा अपने प्रतिपादनके लिए भूमवाक्यकी अपेक्षा रखता है, इसलिए यहां भूमाको आत्मा समझना चाहिए, ऐसा कहते हैं—“एव च” इत्यादिसे । और 'शोकस्य०' (शोकका पार) ऐसा उपक्रम करके 'तमस' (तमका पार)

भाष्य

तारयतु' (छा० ७।१।३) इति चोपक्रम्योपसंहरति—'तस्मै मृदित-
कपायाय तमसः पारं दर्शयति भगवान् सनत्कुमारः' (छा० ७।२६।२)
इति । तम इति शोकादिकारणमविद्योच्यते । प्राणान्ते चानुशासने न
प्राणस्याऽन्यायत्ततोच्येत । आत्मनः प्राणः' (छा० ७।२६।१) इति
च ब्राह्मणम् । प्रकरणान्ते च परमात्मविवक्षा भविष्यति, भूमा तु प्राण
एवेति चेत्, न, 'स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि' (छा०

भाष्यका अनुवाद

भगवान्०' (मुझे भगवान् शोकसे मुक्त करें) ऐसा उपक्रम करके 'तस्मै मृदित-
कपायाय०' (राग, द्वेष आदि दोषोंसे रहित नारदको भगवान् सनत्कुमार
अविद्याका पार दिखलाते हैं) ऐसा उपसंहार करते हैं । तमस् शब्दसे शोका-
दिकी कारणभूत अविद्याका अभिधान होता है । यदि प्राणपर्यन्त ही उपदेश होता,
तो प्राण अन्यके अधीन है यह न कहा जाता, किन्तु 'आत्मनः प्राणः' (आत्मासे
प्राण उत्पन्न हुआ) ऐसा ब्राह्मण है । प्रकरणके अन्तमें परमात्माकी विवक्षा
होगी, भूमा तो प्राण ही है, ऐसा कहो तो यह कथन ठीक नहीं है । 'स भगवः
कस्मिन्०' (हे भगवन् ! वह भूमा किसमें प्रतिष्ठित है ? अपनी महिमामें

रत्नप्रभा

(छा० ७।१।३) इत्युपक्रम्य "तमसः पारम्" (छा० ७।२६) इत्युपसंहारात्
शोकस्य मूलोच्छेदं विना तरणायोगाच्च शोकपदेन मूलतमो गृह्यते, तन्नियतक-
ज्ञानगम्यत्वलिङ्गाद् आत्मा ब्रह्मेत्याह—न चान्यत्रेति । ब्राह्मणमात्मायत्तत्वं
प्राणस्य वदतीति सम्बन्धः । ननु इदं चरमं ब्राह्मणं ब्रह्मपरमस्तु, ततः प्रागुक्तो
भूमा प्राण इति शङ्कते—प्रकरणान्ते इति । तच्छब्देन भूमानुकर्षात् मैव-
मित्याह—नेति ॥ ८ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

ऐसा उपसंहार किया है और शोकका मूल काटे बिना पार उतरना अशक्य है, इसलिए
शोकपदसे मूल तमका ग्रहण दे, उसका निवर्तक ज्ञान है, तद्रम्यत्वरूप लिङ्गमे आत्मा ब्रह्म
है, ऐसा कहते हैं—'न चान्यत्र' इत्यादिमे । प्राण आत्मार्थन है, ऐसा ब्राह्मण कहता है,
यह संबन्ध है । परन्तु यह अन्तका प्राण ब्रह्मपरक हो, उसमे पूरा कहा हुआ भूमा तो
प्राण है, ऐसा दावा करते हैं—'प्रकरणान्त' इत्यादिमे । 'तत्' शब्दमे भूमाका अनुर्था
होता है, उसमे ऐसा नहीं है, यह कहते हैं—'न' इत्यादिमे ॥ ८ ॥

भाष्य

७।२४।१) इत्यादिना भूम्न एव आप्रकरणसमाप्तेरनुकर्षणात् । वैपुल्यात्मिका च भूमरूपता सर्वकारणत्वात् परमात्मनः सुतरामुपपद्यते ॥ ८ ॥

भाष्यका अनुवाद

प्रतिष्ठित है) इत्यादिसे प्रकरणकी समाप्ति तक भूमाकी ही अनुवृत्ति है । विपुलता रूप जो भूमा है, वह भी सबका कारण होनेसे परमात्मामें भली भांति उपपन्न होती है ॥८॥

धर्मोपपत्तेश्च ॥ ९ ॥

पदच्छेद—धर्मोपपत्तेः, च ।

पदार्थोक्ति—धर्मोपपत्तेः—‘यत्र नान्यत्पश्यति’ इत्यादिनोक्तानां सर्वव्यवहारभावादिभूमधर्माणां परमात्मन्येवोपपत्तेः, च—अपि [भूमा परमात्मैव]

भाषार्थ—‘यत्र नान्यत्पश्यति’ (जहां दूसरेको नहीं देखता, दूसरेको नहीं सुनता, दूसरेको नहीं जानता, वह भूमा है) इत्यादि श्रुतिसे कथित दर्शन, श्रवण आदि सर्वव्यवहाराभावरूप भूमधर्म परमात्मामें ही उपपन्न होते हैं, इससे भी भूमा परमात्मा ही है ।

—००७६००—

भाष्य

अपि च ये भूमिं श्रूयन्ते धर्मास्ते परमात्मन्युपपद्यन्ते । ‘यत्र नान्यत् पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा’ इति दर्शनादिव्यवहाराभावं भूमन्यवगमयति । परमात्मनि चाऽयं दर्शनादिव्यवहाराभावोऽ-

भाष्यका अनुवाद

दूसरी बात यह है कि भूमाके जो धर्म श्रुतिमें कहे गये हैं, वे परमात्मामें उपपन्न होते हैं । ‘यत्र नान्यत्पश्यति०’ (जहां दूसरेको नहीं देखता, दूसरेको नहीं सुनता, दूसरेको नहीं जानता, वह भूमा है) इस प्रकार श्रुति भूमामें दर्शन

रत्नप्रभा

भूमो ब्रह्मत्वे लिङ्गान्तरमाह—धर्मेति सूत्रम् । यदुक्तं भूमो लक्षणं

रत्नप्रभाका अनुवाद

भूमा ब्रह्म है इस बातको सिद्ध करनेके लिए दूसरा हेतु देते हैं—“धर्मोपपत्तेः” ।

भाष्य

वगतः, 'यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाऽभूत्तत्केन कं पश्येत्' (बृ० ४।५।१५) इत्यादिश्रुत्यन्तरात् । योऽप्यसौ सुपुत्रावस्थायां दर्शनादिव्यवहाराभाव उक्तः सोऽप्यात्मन एवाऽसङ्गत्वविवक्षयोक्तः, न प्राणस्वभावविवक्षया, परमात्मप्रकरणात् । यदपि तस्यामवस्थायां सुखमुक्तम्, तदप्यात्मन एव सुखरूपत्वविवक्षयोक्तम् । यत आह—'एपोऽस्य परम आनन्द एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति' (बृ० ४।३।३२) इति । इहापि 'यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम्' इति

भाष्यका अनुवाद

आदि व्यवहारका अभाव दिखलाती है । 'यत्र त्वस्य सर्वं' (जहां इसके लिए सब आत्मा ही हो गया, वहां किससे किसको देखे) इस दूसरी श्रुतिसे परमात्मामें दर्शन आदि व्यवहारका अभाव प्रतीत होता है । सुपुत्र अवस्थामें जो दर्शन आदि व्यवहारका अभाव कहा है, वह भी आत्मा असङ्ग है, इस विवक्षासे कहा गया है, न कि प्राणस्वभावकी विवक्षासे, क्योंकि प्रकरण परमात्माका है । उस अवस्थामें जो सुख कहा गया है, वह भी आत्मा सुखरूप है, इस विवक्षासे कहा गया है, क्योंकि कहते हैं कि 'एपोऽस्य परम आनन्दं' (यह इसका परम आनन्द है, अन्य भूत इसी आनन्दके अंशका अनुभव करते हैं) । यहां भी 'यो वै भूमा' (निश्चय जो भूमा है वह सुख है, अल्पमें सुख नहीं है,

रत्नप्रभा

सुखत्वम् अमृतत्वं च प्राणेषु योज्यमिति, तदनूद्य विधट्यति—योऽप्यसावित्यादिना । सति बुद्ध्याद्युपाधावात्मनो द्रष्टृत्वादिः, तदभावे सुपुत्रौ तदभाव इत्यसङ्गत्वज्ञानार्थं प्रश्नोपनिषदिः "न शृणोति न पश्यति" [प्र० ४।२] इति परमात्मानं प्रकृत्य उक्तम् । तथा तत्रैवाऽऽत्मनः सुखत्वमुक्तम्, न प्राणस्य । यतः श्रुत्यन्तरमात्मन एव सुखत्वमाह, तस्मादित्यर्थः । आमयः—नाशादिदोषः,

रत्नप्रभाका अनुवाद

भूमाके लक्षण—सुरात्व और अमृतत्वकी प्राणमें जो योजना की गई है, उसका अनुवाद करके निराकरण करते हैं—'योऽप्यसौ' इत्यादिसे । बुद्धि आदि उपाधिके रहनेपर आत्मा द्रष्टा आदि होता है, सुपुत्रमें उपाधिके न रहनेसे उसमें द्रष्टृत्व आदि नहीं रहता । इस प्रकार आत्माको असङ्ग साचित करनेके लिए प्रश्नोपनिषद्में परमात्माको लक्ष्य करके 'न शृणोति' (न सुनता है और न देखता है) कहा है । और वहां आत्माको मुख्य रूप कहा है, प्राणको मुख्य रूप नहीं कहा, क्योंकि अन्य श्रुति भी आत्माको ही मुख्य रूप कहती है । आमय

भाष्य

इति सामयसुखनिराकरणेन ब्रह्मैव सुखं भूमानं दर्शयति । 'यो वै भूमा तदमृतम्' इत्यमृतत्वमपीह श्रूयमाणं परमकारणं गमयति, विकाराणाम-मृतत्वस्याऽऽपेक्षितत्वात्, 'अतोऽन्यदार्तम्' (वृ० ३ । ४ । २) इति च श्रुत्यन्तरात् । तथा च सत्यत्वं स्वमहिमप्रतिष्ठितत्वं सर्वगतत्वं सर्वात्म-त्वमिति चैते धर्माः श्रूयमाणाः परमात्मन्येवोपपद्यन्ते, नाऽन्यत्र । तस्माद् भूमा परमात्मेति सिद्धम् ॥ ९ ॥

भाष्यका अनुवाद

भूमा ही सुख है) इस प्रकार सामय सुखके निराकरणसे ब्रह्म ही सुखरूप भूमा है, ऐसा [श्रुति] विरललाती है । 'यो वै भूमा०' (निश्चय जो भूमा है, वह अमृत है) इस श्रुतिमें प्रतिपादित अमृतत्व भी परम कारणका ज्ञान कराता है, क्योंकि विकारका अमृतत्व किसीकी अपेक्षासे होता है क्योंकि 'अतोऽन्य०' (इससे अन्य नश्वर है) ऐसी दूसरी श्रुति है । इस प्रकार श्रुतिप्रतिपादित सत्यत्व, अपनी महिमामें प्रतिष्ठा, सर्वगतत्व और सर्वात्मत्व ये धर्म परमात्मामें ही उपपन्न होते हैं, दूसरेमें उपपन्न नहीं होते । इससे सिद्ध हुआ कि भूमा परमात्मा ही है ॥९॥

रत्नप्रभा

तत्सहितं सामयम् । आर्तम्—नश्वरम् । "स एवाधस्तात् स उपरिष्ठात्" [छा० ७।२।५।१] इति सर्वगतत्वम्, "स एवेद सर्वम्" [छा० ७।२।५।१] इति सर्वा-त्मत्वं च श्रुतम् । तस्माद् भूमाध्यायो निर्गुणे समन्वित इति सिद्धम् ॥९॥ (२) ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

अर्थात् नाश आदि दोष, उन दोषोंसे जो युक्त हो वह सामय कहलाता है । आर्त—विनाशी, नश्वर । 'स एवाध०' (वह नीचे है और वही ऊपर है) इस प्रकार आत्माका सर्वगतत्व और 'स एवेद०' (वही यह सब है) से सर्वात्मत्व श्रुतिप्रतिपादित है । इससे सिद्ध हुआ कि भूमाध्याय निर्गुण ब्रह्ममें समन्वित है ॥ ९ ॥



[३ अक्षराधिकरण सू० १०-१२]

अक्षरं प्रणवः किं वा ब्रह्म लोकेऽक्षराभिधा ।

वर्णे प्रसिद्धा तेनाऽत्र प्रणवः स्यादुपास्तये ॥१॥

अव्याकृताधारतोक्तेः सर्वधर्मनिषेधतः ।

शासनाद् द्रष्टृतादेश्च ब्रह्मैवाऽक्षरमुच्यते* ॥२॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—‘एतद्वै तदक्षरं गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनण्वहस्वम्’ इत्यादि वाक्यमें पठित ‘अक्षर’ पद ओंकारका वाचक है अथवा ब्रह्मका ?

पूर्वपक्ष—लोकमें ‘अक्षर’ पद वर्ण—ओंकारमें प्रसिद्ध है, इससे शत होता है कि उक्त वाक्यमें ‘अक्षर’ से ओंकार ही उपास्यरूपसे कहा गया है ।

सिद्धान्त—‘अक्षर’ अव्याकृत—आकाशका आधार, सब धर्मोंसे शून्य, सकल जगत्का शासक एवं द्रष्टा कहा गया है, इससे प्रतीत होता है कि अक्षर ब्रह्मका ही वाचक है ।

* निष्कर्ष यह है कि बृहदारण्यकोपनिषद् पांचवें अध्यायमें गार्गीके प्रति याशवलक्यने कहा है—‘एतद्वै तदक्षरम्’ अर्थात् हे गार्गी ! यह वही अक्षर है जिसे ब्राह्मण न स्थूल कहते हैं, न सूक्ष्म कहते हैं और न ह्रस्व । यहां पर सन्देह होता है कि उक्त धृतिमें पठित अक्षरशब्द ओंकारका प्रातिपादन करता है अथवा ब्रह्मका ?

पूर्वपक्षी कहता है कि अक्षरशब्दसे ओंकारका ही बोध होता है, क्योंकि ‘येनाक्षरसमासाय-मधिगम्य महेश्वरात्’ इत्यादि स्थलोंमें अक्षरशब्दकी वर्णमें ही प्रसिद्धि देती जाती है और यहांपर ओंकार उपास्यरूपसे कहा गया है ।

सिद्धान्ती कहते हैं—अक्षरशब्द ब्रह्मका ही वाचक है, क्योंकि ‘एतस्मिन्प्रसूरे गार्गी आकाश ओतश्च’ (हे गार्गी ! इस अक्षरमें आकाश—अव्याकृत ओत-प्रोत है) इस धृतिमें अक्षर आकाश-शब्दवाच्य अव्याकृतका आधार कहा गया है । ओंकार—वर्ण उक्तका आधार नहीं हो सकता । ‘अरमूळमनण्वहस्वम्’ धृतिसे अक्षरमें सांसारिक सब धर्मोंका निषेध किया गया है, ‘एतरेषाक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्रमसौ विधृती तिष्ठतः’ (हे गार्गी ! सूर्य और चन्द्रमा उसी अक्षरके शासन—आशामें विशेषरूपसे स्थित रहते हैं) इस तरह सारे जगत्के ऊपर शासन करनेवाला भी वही अक्षर कहा गया है एव ‘तदा एतदक्षरं गार्ग्यदृष्ट द्रष्टुं अशुनं धीयुः’ (हे गार्गी ! यह अक्षर द्रष्टा है, किन्तु उसे कोई देख नहीं पाता, यह श्रोता है परन्तु उसे कोई सुन नहीं पाता) इत्यादि धृति में यह द्रष्टा, श्रोता और प्रत्यक्षीदि प्रमाणोंसे पर ब्रह्म कहा गया है । यदि अक्षरके ओंकारका वाचक माने, तो उसमें पूर्वोक्त कोई भी धर्म संगन नहीं होगा । इससे निश्चय हुआ कि ब्रह्म ही अक्षर है ।

अक्षरमम्बरान्तधृतेः ॥ १० ॥

पदच्छेद—अक्षरम्, अम्बरान्तधृतेः ।

पदार्थोक्ति—अक्षरम्—‘एतद्वै तदक्षरं गार्गी’ इति श्रुत्युक्तमक्षरं [ब्रह्मैव, कुतः] अम्बरान्तधृतेः—पृथिव्यादेराकाशान्तस्य विकारजातस्य धारणात् ।

भाषार्थ—‘एतद्वै तदक्षरं०’ (हे गार्गी ! यह वही अक्षर है, जो न स्थूल है, न अणु है) इस श्रुतिमें उक्त अक्षर ब्रह्म ही है, क्योंकि वही पृथिवीसे लेकर आकाशतक सब विकारोंको धारण करता है ।



भाष्य

‘कस्मिन्नु खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्चेति । स होवाचैतद्वै तदक्षरं गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनणु’ (वृ० ३।८।७,८) इत्यादि श्रूयते । तत्र संशयः—किमक्षरशब्देन वर्ण उच्यते किं वा परमेश्वर इति ।

भाष्यका अनुवाद

‘कस्मिन्नु खल्वाकाश०’ (गार्गी पूछती है—आकाश किसमें ओत-प्रोत है ? याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, हे गार्गी ! जिसे तू पूछती है, उसीको ब्रह्मवेत्ता अक्षर कहते हैं, वह न स्थूल है, न सूक्ष्म है) इत्यादि श्रुति है । यहांपर संशय होता है कि अक्षरशब्दसे वर्णका कथन है या परमेश्वरका ?

रत्नप्रभा

अक्षरमम्बरान्तधृतेः । बृहदारण्यकं पठति—कस्मिन्निति । “यद् भूतं च भवच्च भविष्यच्च” [वृ० ३।८।३] तत् सर्वं कस्मिन् ओतमिति गार्गी पृष्टेन मुनिना याज्ञवल्क्येन अव्याकृताकाशः कार्यमात्राश्रय उक्तः । आकाशः कस्मिन् ओत इति द्वितीयप्रश्ने सः मुनिरुवाच । तत्—अव्याकृतस्याऽधिकरणम्, एतदक्षरम्—अस्थूलादिरूपमित्यर्थः । उभयत्र अक्षरशब्दप्रयोगात् संशयः । यथा

रत्नप्रभाका अनुवाद

“कस्मिन्नु” इत्यादि बृहदारण्यकवाक्यको उद्धृत करते हैं । जो भूत, वर्तमान और भविष्यत् पदार्थ हैं, वे सब किसमें ओत-आधित हैं, गार्गीके इस प्रश्नके उत्तरमें याज्ञवल्क्यने कहा कि सब कार्यके आश्रय, अव्याकृत—आकाशमें वे सब आधित हैं । फिर गार्गीने प्रश्न किया कि अव्याकृतसंज्ञक आकाश किसमें आधित है ? इसपर याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे गार्गी ! अव्याकृत—आकाशका अधिकरण वह अक्षर है, जो न स्थूल है; न सूक्ष्म है । वर्ण और परमात्मा दोनोंमें

भाष्य

तत्राऽक्षरसमाम्नाय इत्यादावक्षरशब्दस्य वर्णे प्रसिद्धत्वात्, प्रसिद्धयतिक्रमस्य चाऽप्युक्तत्वात्, 'ॐकार एवेदं सर्वम्' (छा० २।२३।३) इत्यादौ च श्रुत्यन्तरे वर्णस्याऽप्युपास्यत्वेन सर्वात्मकत्वावधारणात्, वर्ण एवाऽक्षरशब्द इति ।

एवं प्राप्त उच्यते—पर एवाऽऽत्माऽक्षरशब्दवाच्यः । कस्मात् ?

भाष्यका अनुवाद

पूर्वपक्षी—'अक्षरसमाम्नाय' इत्यादिमें अक्षरशब्द वर्णमें प्रसिद्ध है, प्रसिद्धिका उल्लंघन करना ठीक नहीं है और 'ॐकार एवेदं०' यह सब ॐकार ही है) इत्यादि अन्य श्रुतियोंमें वर्ण उपास्य कहा गया है, इससे प्रतीत होता है कि वह सर्वात्मक है, इसलिए अक्षरशब्द वर्णवाचक ही है ।

सिद्धान्ती—ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं—परमात्मा ही अक्षर शब्दवाच्य

रत्नप्रभा

सत्यशब्दो ब्रह्मणि रूढ इति ब्रह्म भूमा इत्युक्तम्, तथा अक्षरशब्दो वर्णे रूढ इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षः । तत्र ओङ्कारोपास्तिः फलम्, सिद्धान्ते निर्गुणब्रह्मधीरिति विवेकः । ननु न क्षरतीति—अचलत्वानाशित्वयोगाद् ब्रह्मण्यपि अक्षरशब्दो मुख्य इत्यत आह—प्रसिद्धयतिक्रमस्येति । "रूढियोगमपहरति" इति न्यायादित्यर्थः । वर्णस्य—ओङ्कारस्य सर्वाश्रयत्वं कथमित्याशङ्क्य ध्यानार्थमिदम्, यथा श्रुत्यन्तरे सर्वात्मत्वमित्याह—ॐकार इति । प्रश्नप्रतिवचनाभ्याम् आकाशान्तजगदाधारत्वे तात्पर्यनिश्चयात् न ध्यानार्थता, अतः तल्लिङ्गबलाद् रूढिं

रत्नप्रभाका अनुवाद

अक्षरशब्दके प्रयोगसे संशय होता है । जैसे सत्यशब्दके ब्रह्ममें रूढ होनेके कारण भूमा ब्रह्म है, यह कहा गया है, उसी प्रकार अक्षरशब्दके वर्णमें रूढ होनेसे प्रकृतमें वर्ण ही अक्षरपदवाच्य है, इस प्रकार दृष्टान्तसे पूर्वपक्ष करते हैं । पूर्वपक्षमें ॐकारकी उपासना फल है, सिद्धान्तमें निर्गुण ब्रह्मका ज्ञान फल है, ऐसा समझना चाहिए । यदि कोई कहे कि 'न क्षरति' (जो न विचलित होता है और न नष्ट होता है) इस प्रकार अचलत्व और अविनाशित्वके योगसे अक्षर शब्दका ब्रह्म भी मुख्य अर्थ हो सकता है, इसपर कहते हैं—"प्रसिद्धयतिक्रमस्य" इत्यादिसे । क्योंकि 'रूढियोग०' (रूढि योगसे चलवती है) ऐसा न्याय है । ॐकार वर्ण सर्वाश्रय कैसे हो सकता है यह आशङ्क करके "ॐकारः" इत्यादिसे कहते हैं कि ध्यानके लिए जैसे दूसरी श्रुतिमें सर्वात्मत्व कहा गया है, वैसे ही यहां भी सर्वाश्रयत्व कहा गया है । प्रश्न और प्रतिवचनसे ब्रह्ममें आकाशान्त जगत्के आधारत्वका तात्पर्यनिश्चय होता है, इससे प्रतीत होता है कि ॐकारमें सर्वाश्रयत्व ध्यानके लिए नहीं है, अतः तात्पर्यनिश्चयरूप लिङ्गके

भाष्य

अम्बरान्तधृतेः—पृथिव्यादेराकाशान्तस्य विकारजातस्य धारणात् । तत्र हि पृथिव्यादेः समस्तविकारजातस्य कालत्रयविभक्तस्य 'आकाश एव तदोतं च प्रोतं च' इत्याकाशे प्रतिष्ठितत्वमुक्त्वा 'कस्मिन्नु खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्च' इत्यनेन प्रश्नेनेदमक्षरमवतारितम् । तथा चोपसंहृतम्—एतस्मिन्नु खल्वक्षरे गार्ग्याकाश ओतश्च प्रोतश्च' इति । न चैयमम्बरान्तधृतिर्ब्रह्मणोऽन्यत्र सम्भवति । यदपि—'ओंकार एवेदं सर्वम्' इति, तदपि ब्रह्मप्रतिपत्तिसाधनत्वात् स्तुत्यर्थं द्रष्टव्यम् । तस्मान्न क्षरत्यश्नुते चेति नित्यत्वव्यापित्वाभ्यामक्षरं परमेव ब्रह्म ॥ १० ॥

स्यादेतत् कार्यस्य चेत् कारणाधीनत्वमम्बरान्तधृतिरभ्युपगम्यते, प्रधानकारणवादिनोऽपीयमुपपद्यते, कथमम्बरान्तधृतेर्ब्रह्मत्वप्रतिपत्तिरिति, अत उत्तरं पठति—

भाष्यका अनुवाद

है, क्योंकि वह आकाशपर्यन्तको धारण करता है अर्थात् पृथिवीसे लेकर आकाशतक सब विकारसमूहको धारण करता है । तीन कालोंमें विभक्त हुए पृथिवी आदि समस्त विकारसमूहको 'आकाश एव' (आकाशमें ही वह ओत-प्रोत है) इससे आकाशमें प्रतिष्ठित कहकर 'कस्मिन्नु खल्वाकाश' (आकाश किसमें ओत-प्रोत है) इस प्रश्नसे इस अक्षरका उपनिषद्में अवतरण किया है और 'एतस्मिन्नु' (हे गार्गी ! इस अक्षरमें आकाश ओत-प्रोत है) इस प्रकार उपसंहार किया है । इस आकाशपर्यन्तको धारण करना ब्रह्मको छोड़कर दूसरेमें संभव नहीं है । 'ओंकार एवेदं' (ओंकार ही यह सब है) यह कथन भी ओम् ब्रह्मज्ञानका साधन है, इसलिए उसकी स्तुतिके लिए है, ऐसा तात्पर्य है । इसलिए 'न क्षरत्यश्नुते' (नष्ट नहीं होता और सर्वव्यापक है) इस व्युत्पत्तिसे निश्चित होता है कि नित्य और व्यापक होनेके कारण अक्षर परब्रह्म ही है ॥१०॥

कारणके अधीन कार्यका रहना ही यदि अम्बरान्त धृतिका (आकाशान्त-धारणका) अर्थ है यह स्वीकार किया जाय, तो प्रधानकारणवादियोंके प्रधानमें भी अम्बरान्तधृति उपपन्न हो सकती है । आकाशान्तधारणसे अक्षर ब्रह्म ही है, यह कैसे समझा जाय ? इस शंकाका समाधान करते हैं—

रत्नप्रभा

वाधित्वा योगवृत्तिः ब्राह्म इति सिद्धान्तयति—एवमित्यादिना ॥ १० ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

बलसे रुठिका बाध करके योगवृत्तिका प्रवृत्ति करना ही ठीक है, ऐसा सिद्धान्त करते हैं—
"एवम्" इत्यादिसे ॥१०॥

सा च प्रशासनात् ॥ ११ ॥

पदच्छेद—सा, च, प्रशासनात् ।

पदार्थोक्ति—सा च—अम्बरान्तधृतिश्च [परमेश्वरस्यैव कर्म नाऽचेतनस्य, कुतः] प्रशासनात्—‘एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि ! सूर्योचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः’ इत्यादिना प्रशासनश्रवणात् ।

भाषार्थ—आकाशान्त पदार्थोका धारण करना तो परमेश्वरका ही कर्म है, अचेतन प्रधान आदिका नहीं, क्योंकि ‘एतस्य वा’० (इसी अक्षर परमात्माके प्रशासन—आज्ञामें सूर्य और चन्द्रमा विशेषरूपसे स्थित रहते हैं) इत्यादि श्रुतिमें प्रशासनका कथन है ।



भाष्य

सा चाऽम्बरान्तधृतिः परमेश्वरस्यैव कर्म । कस्मात् ? प्रशासनात् । प्रशासनं हीह श्रूयते—‘एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः’ (वृ० ३।८।९) इत्यादि । प्रशासनं च पारमेश्वरं कर्म,

भाष्यका अनुवाद

यह आकाशपर्यन्तका धारण करना परमेश्वरका ही कर्म है । किससे ? प्रशासनसे । क्योंकि ‘एतस्य वा अक्षरस्य०’ (हे गार्गि ! इस अक्षरके अनुशासनमें सूर्य और चन्द्रमा रहते हैं और वही उनका धारण करता है) इत्यादि प्रशासनकी श्रुति है । प्रशासन परमेश्वरका कर्म है । अचेतन शासक नहीं हो

रत्नप्रभा

आकाशं भूतं कृत्वा शङ्कते—स्यादेतदिति । चेतनकर्तृकशिक्षाया अत्र श्रुतेः भैवमित्याह—सा चेति । सूत्रं व्याचष्टे—सा चेति । चकार आकाशस्य भूतत्वनिरासार्थः । भूताकाशस्य कार्यान्तःपातिनः श्रुतसर्वकार्याश्रयत्वायोगाद्

रत्नप्रभाका अनुवाद

आकाशको भूताकाश मानकर शङ्का करते हैं—“स्यादेतत्” इत्यादिमें । धृतिमें उक्त शिक्षाका कर्ता चेतन है, इसलिए अचेतन प्रधानमें अम्बरान्तधृति संभव नहीं है, यह कहते हैं—“सा च” इत्यादिसे । सूत्रका व्याख्यान करते हैं—“सा च” इत्यादिसे । सूत्रस्य चकारका तात्पर्य यह है कि ‘आकाशपदसे भूताकाशका ग्रहण नहीं करना चाहिए’, क्योंकि कार्यवर्गके भातर रहनेवाला भूताकाश धृतिके कथनानुसार गन कार्योंका आश्रय नहीं हो सकता, इसलिए

भाष्य

नाऽचेतनस्य प्रधानस्य प्रशासनं संभवति । नह्यचेतनानां घटादिकारणानां मृदादीनां घटादिविषयं प्रशासनमस्ति ॥ ११ ॥

भाष्यका अनुवाद

सकता, क्योंकि घट आदिके कारण अचेतन मृत्तिका आदि घट आदिके शासक नहीं देखे जाते ॥११॥

रत्नप्रभा

अव्याकृतम्—अज्ञानमेव आकाशः प्रधानशब्दित इति तदाश्रयत्वाच्च अक्षरं न प्रधानमित्यर्थः । विघृतौ—विषयत्वेन घृतौ ॥११॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

प्रधानसंज्ञक अव्याकृत अज्ञान ही आकाश है । उसका आश्रय होनेसे अक्षर प्रधान नहीं है, ऐसा अर्थ है । “विघृतौ” अर्थात् विषयरूपसे धारण किये गये ॥११॥

अन्यभावव्यावृत्तेश्च ॥ १२ ॥

पदच्छेद—अन्यभावव्यावृत्ते, च ।

पदार्थोक्ति—अन्यभावव्यावृत्तेः—प्रधानादिधर्मभूताचेतनत्वरहितत्वात्, च—अपि [न अक्षरं प्रधानादि, किन्तु ब्रह्मैव] ।

भाषार्थ—अक्षरमें प्रधान आदिका धर्म अचेतनत्व नहीं है । इससे भी अक्षर प्रधान आदि नहीं है, किन्तु ब्रह्म ही है ।



भाष्य

अन्यभावव्यावृत्तेश्च कारणाद् ब्रह्मैवाऽक्षरशब्दवाच्यम्, तस्यैवाऽम्ब-रान्तघृतिः कर्म, नाऽन्यस्य कस्यचित् । किमिदमन्यभावव्यावृत्तेरिति ? अन्यस्य भावोऽन्यभावस्तस्माद् व्यावृत्तिरन्यभावव्यावृत्तिरिति तस्याः ।

भाष्यका अनुवाद

अन्यभावव्यावृत्तिरूप कारणसे भी ब्रह्म ही अक्षरशब्दवाच्य है । आकाशान्त धारण उसीका कर्म है, दूसरेका नहीं । यह अन्यभावव्यावृत्ति क्या है ? अन्यका भाव अन्यभाव है, उससे जो भेद है, उसे अन्यभावव्यावृत्ति

भाष्य

एतदुक्तं भवति—यदन्यद्ब्रह्मणोऽक्षरशब्दवाच्यमिहाऽऽशङ्क्यते तद्भावादि-
दमन्वरान्तविधारणमक्षरं व्यावर्तयति श्रुतिः—‘तद्वा एतदक्षरं गार्ग्यदृष्टं
द्रष्टृश्रुतं श्रोत्रमतं मन्त्रविज्ञातं विज्ञातृ’ (वृ० ३।८।११) इति ।
तत्राऽदृष्टत्वादिव्यपदेशः प्रधानस्याऽपि संभवति, द्रष्टृत्वादिव्यपदेशस्तु
न संभवत्यचेतनत्वात् । तथा ‘नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ नान्यदतोस्ति श्रोतृ
नान्यदतोऽस्ति मन्त्र नान्यदतोऽस्ति विज्ञातृ’ इत्यात्मभेदप्रतिषेधात् । न
‘शारीरस्याऽप्युपाधिमतोऽक्षरशब्दवाच्यत्वम्, ‘अचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनः’

भाष्यका अनुवाद

कहते हैं । तात्पर्य यह है कि अक्षरशब्द ब्रह्मसे अन्य अर्थ—प्रधानमें प्रयुक्त है,
ऐसी जो यहां आशङ्का की जाती है, श्रुति उसके—प्रधानके स्वरूपसे उस
आकाशान्तका धारण करनेवाले अक्षरमें भेद दिखाती है—‘तद्वा एतदक्षरं
गार्ग्यदृष्टं’ (हे गार्गी ! वह अक्षर किसीसे भी दृष्ट नहीं है परन्तु स्वयं द्रष्टा है,
किसीसे श्रुत नहीं है किन्तु स्वयं श्रोता है, उसका कोई मनन नहीं कर सका
परन्तु स्वयं मननकर्ता है और किसीसे विज्ञात नहीं है परन्तु स्वयं विज्ञाता है)
इनमें अदृष्टत्व आदि धर्म प्रधानमें भी संभव हैं, परन्तु द्रष्टृत्व आदि धर्म
उसमें संभव नहीं हैं, क्योंकि वह अचेतन है । उसी प्रकार ‘नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ’
(उससे अन्य द्रष्टा नहीं है, उससे अन्य श्रोता नहीं है, उससे अन्य मननकर्ता
नहीं है और उससे अन्य विज्ञाता नहीं है) यह श्रुति आत्मासे भिन्न वस्तुका
प्रतिषेध करती है, इसलिए उपाधियुक्त जीव भी अक्षरशब्दवाच्य नहीं है,
क्योंकि ‘अचक्षुष्कं’ (उसके आंख नहीं हैं, श्रोत्र नहीं है, वाणी नहीं है और

रत्नप्रभा

प्रश्नपूर्वकं सूत्रं व्याकरोति—किमिदमिति । घटत्वाद् व्यावृत्तिरिति भ्रान्ति
निरस्यति—एतदिति । अन्वरान्तस्य आधारम् अक्षरं श्रुतिरचेतनत्वात् व्यावर्त-
यतीत्यर्थः । जीवनिरासपरत्वेनाऽपि सूत्रं योजयति—तथेति । अन्यभावः—भेदः,
तन्निषेधादिति सूत्रार्थः । तर्हि शोषितो जीव एव अक्षरं न पर इत्यत आह—

रत्नप्रभाका अनुवाद

प्रश्नपूर्वकं सूत्रका विवरण करते हैं—“किमिदम्” इत्यादिते । अन्यभावव्याप्तिपदका
‘घटत्वसे व्याप्ति’ यह भी अर्थ हो सकता है, इस भ्रान्तिका निराकरण करते हैं—“एतद्”
इत्यादिते । श्रुति आकाशान्तके धारण करनेवाले अक्षरमें अचेतनके भेद दिखाती है, यह
तात्पर्य है । जीवनिरास पक्षमें भी सूत्रकी योजना करते हैं—“तथा” इत्यादिते । अन्यभाव
अर्थात् भेद, उसके निषेधके, यह सूत्रका अर्थ है । तब शोषित जीव ही अक्षर है, परमात्मा

भाष्य

(वृ० ३।८।८) इति चोपाधिमत्ताप्रतिषेधात् । नहि निरुपाधिकः शारीरो नाम भवति । तस्मात् परमेव ब्रह्म अक्षरमिति निश्चयः ॥ १२ ॥

भाष्यका अनुवाद

मन नहीं है) इस प्रकार अक्षरमें उपाधिका प्रतिषेध किया है । उपाधिके बिना जीवत्व संभव नहीं है । इससे निश्चित होता है कि अक्षरशब्दवाच्य परब्रह्म ही है ॥ १२ ॥

रत्नप्रभा

नहीति । शोधिते जीवत्वं नास्तीत्यर्थः । तस्माद् गार्गिब्राह्मणं निर्गुणाक्षरेः समन्वितमिति सिद्धम् ॥१२॥ (३) ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

नहीं, इसपर कहते हैं—“नहि” इत्यादि । शोधितमें जीवत्व ही नहीं है अर्थात् जीव उपाधिरहित नहीं है और जो शोधित—निरुपाधिक है, वह जीव नहीं है । इससे सिद्ध हुआ कि गार्गिब्राह्मण निर्गुण अक्षरमें समन्वित है ॥१२॥



[४ ईक्षतिकर्मव्यपदेशाधिकरण सू० १३]

त्रिमात्रप्रणवे ध्येयमपरं ब्रह्म वा परम् ।

ब्रह्मलोकफलोकथादेरपरं ब्रह्म गम्यते ॥१॥

ईक्षितव्यो जीवघनात्परस्तत्प्रत्यभिज्ञया ।

भवेद्ध्येयं परं ब्रह्म क्रममुक्तिः फलिष्यति* ॥२॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—‘यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत’ इस श्रुतिमें उक्त तीन मात्रावाले ओंकारका अपरब्रह्मरूपसे ध्यान करना चाहिए या परब्रह्मरूपसे ?

पूर्वपक्ष—ब्रह्मलोकगमनरूप सीमित फलके कथनसे प्रतीत होता है कि यहाँपर अपर ब्रह्म ध्येय है ।

सिद्धान्त—वाक्यके अन्तमें सर्वोत्कृष्ट विराटरूप हिरण्यगर्भसे भी उत्कृष्ट साक्षात्करणीय कहा गया है, पर और पुरुष शब्दोंसे उसीकी प्रत्यभिज्ञा होती है । ब्रह्मध्यानका ब्रह्मलोकप्राप्तिमात्र फल नहीं है, किन्तु अन्तमें मुक्ति होती है । इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्म ही ध्येय है ।

* तात्पर्य यह कि प्रश्नोपनिषद्में वाक्य है—‘यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत’ अर्थात् जो इस तीन मात्रावाले ओंकारका परपुरुषरूपसे ध्यान करता है । यहापर सन्देह होता है कि इस वाक्यमें ध्येयरूपसे जो कहा गया है, वह अपर ब्रह्म—हिरण्यगर्भ है अथवा पर ब्रह्म ?

पूर्व पक्षी कहता है कि उक्त वाक्यमें अपर ब्रह्म ध्येय कहा गया है, क्योंकि ‘स सामभिरुच्रीयते ब्रह्मलोकम्’ (वह—उपासक सामद्वारा ब्रह्मलोकमें पहुँचाया जाता है) इस श्रुतिमें उपासकके प्रति ब्रह्मलोकप्राप्तिरूप फल कहा गया है । परब्रह्मका ध्यान परमपुरुषार्थरूप है, उसका फल केवल ब्रह्मलोकप्राप्ति हो यह सम्भव नहीं है और श्रुतिमें उक्त ‘पर’ विशेषण भी अपर ब्रह्ममें सगत हो सकता है, क्योंकि वह औरोंकी अपेक्षा पर है ।

सिद्धान्ती कहते हैं—यहा परब्रह्म ही ध्येय है, क्योंकि जो साक्षात्करणीय कहा गया है, उसीकी ध्येयरूपसे प्रत्यभिज्ञा होती है । वाक्यके अन्तमें कहा गया है—‘स पद्यसाञ्जीवघनात्परत्परं पुरिशय पुरुषमीक्षते’ इसका अर्थ है कि जो उपासक उपासनाद्वारा ब्रह्मलोकमें पहुँचता है, वह विराटरूप—जीवसमष्टिरूप सबसे उत्कृष्ट हिरण्यगर्भसे भी उत्कृष्ट और सबके घट रमें बास करनेवाले परमात्माको देखता है । इससे प्रतीत होता है कि वाक्यके अन्तमें जो परमात्मा साक्षात्करणीय कहा गया है, वाक्यके आरम्भमें उसीका ध्येयरूपसे कथन है । पर और पुरुष शब्दोंसे उसीकी प्रत्यभिज्ञा होती है । केवल ब्रह्मलोकप्राप्तिमात्र ही उसका फल नहीं है, क्योंकि उसके अनन्तर क्रममुक्तिकी सम्भावना है । इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्म ही ध्येय है ।

ईक्षतिकर्मव्यपदेशात् सः ॥ १३ ॥

पदच्छेद—ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्, सः ।

पदार्थोक्ति—सः—‘यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्या-
यीत’ इति श्रुतौ ध्येयत्वेनोपदिष्टः [परमात्मैव, नापरं ब्रह्म, कुतः] ईक्षतिकर्म-
व्यपदेशात्—‘परात् परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते’ इति वाक्यशेषे ध्येयस्य दर्शनविषय-
त्वेन व्यपदेशात् [कल्पितस्य दर्शनविषयत्वासम्भवात्] ।

भाषार्थ—‘यः पुनरेतं०’ (जो तीन मात्रावाले ओंकारका परपुरुषरूपसे
ध्यान करता है) इस श्रुतिमें ध्येयरूपसे उपदिष्ट पर ब्रह्म ही है, अपर ब्रह्म
नहीं है, क्योंकि ‘परात् परं०’ (परसे पर, शरीरप्रविष्ट-पुरुषको देखता है) इस
वाक्यशेषमें ध्येय दर्शनविषय कहा गया है, कल्पित पदार्थ दृष्टिगोचर नहीं
हो सकता है ।



भाष्य

‘एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारस्तस्माद्विद्वानेतेनैवाय-
तनेनैकतरमन्वेति’ इति प्रकृत्य श्रूयते—‘यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनै-

भाष्यका अनुवाद

‘एतद्वै सत्यकाम०’ (हे सत्यकाम ! जो ओंकार है, वह पर और अपर ब्रह्म
है, इसलिये विद्वान् इसी ओंकारध्यानरूप प्राप्तिसाधनसे दोनोंमेंसे एकको प्राप्त
करता है) इस तरह उपक्रम करके श्रुति कहती है—‘यः पुनरेतं०’ (तीन

रत्नप्रभा

ईक्षतिकर्मव्यपदेशात् सः । प्रश्नोपनिषदमुदाहरति—एतदिति । पिप्प-
लादो गुरुः सत्यकामेन पृष्टो ब्रूते—हे सत्यकाम । परम्—निर्गुणम्, अपरम्—सगुणं
च ब्रह्म एतदेव योऽयमोङ्कारः । स हि प्रतिमेव विष्णोस्तस्य प्रतीकः, तस्मात्
प्रणयं ब्रह्मात्मना विद्वान् एतेनैव ओङ्कारध्यानेन, आयतनेन—प्राप्तिसाधनेन

रत्नप्रभाका अनुवाद

“एतद्” इत्यादिसे प्रश्नोपनिषदके वाक्यको उद्धृत करते हैं । गुरु पिप्पलाद सत्य-
कामके प्रश्नका उत्तर देते हैं—हे सत्यकाम । पर अर्थात् निर्गुण और अपर अर्थात् सगुण ब्रह्म
ब्रह्म है जो कि यह ओंकार है, क्योंकि ओंकार विष्णुकी प्रतिमाके समान पर ब्रह्मका प्रतीक है,
इसलिये ओंकारको ब्रह्मस्वरूपसे जाननेवाला इसी ओंकारध्यानरूप आयतन—प्राप्तिसाधन द्वारा

भाष्य

वाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत' (प्र० ५।२,५) इति । किमस्मिन् वाक्ये परं ब्रह्माभिध्यातव्यमुपदिश्यते, आहोस्विदपश्मिति । एतेनैवाऽऽयतनेन परमपरं वैकतरमन्वेतीति प्रकृतत्वात् संशयः ।

भाष्यका अनुवाद

मात्रावाले इसी अक्षरका जो परपुरुषरूपसे ध्यान करता है) । क्या इस वाक्यमें परब्रह्मका ध्येयरूपसे उपदेश किया गया है अथवा अपर ब्रह्मका ? यहांपर प्रकरण यह है कि इसी प्राप्तिसाधनद्वारा पर और अपर दोनोंमेंसे एक ब्रह्मको प्राप्त करता है, इसलिए संशय होता है ।

रत्नप्रभा

यथाध्यानं परमपरं वा अन्वेति—प्राप्नोतीति प्रकृत्य मध्ये एकमात्रद्विमात्रोद्धारयोः ध्यानमुक्त्वा ब्रवीति—यः पुनरिति । इत्यम्भावे तृतीया, ब्रह्मोद्धारयोरभेदोपक्रमात् । यो ह्यकारादिमात्रात्रये एकस्या मात्राया अकारस्य ऋष्यादिकं जाग्रदादिविभूतिं च जानाति, तेन सम्यग् ज्ञाता एका मात्रा यस्य ओद्धारस्य स एकमात्रः । एवं मात्राद्वयस्य सम्यग्विभूतिज्ञाने द्विमात्रः तथा त्रिमात्रः । तमोद्धारं पुरुषं योऽभिध्यायीत, स ॐकारविभूतित्वेन ध्यातैः सामभिः सूर्यद्वारा ब्रह्मलोकं गत्वा परमात्मानं पुरुषम् ईक्षते इत्यर्थः । संशयं तद्बीजं चाऽऽह—किमित्यादिना । अस्मिन्—त्रिमात्रवाक्ये इत्यर्थः । पूर्वत्र पूर्व-

रत्नप्रभाका अनुवाद

ध्यानानुसार पर या अपर ब्रह्मको प्राप्त होता है । इस प्रकार ओंकारके प्रकरणमें एकमात्र और द्विमात्र ओंकारके ध्यानका वर्णन करते हैं—“यः पुनः” इत्यादिसे । तृतीया इत्यम्भाव अर्थात् अभेदमें है, क्योंकि आरम्भमें ब्रह्म और ओंकारका अभेद दर्शाया गया है । जो अकार आदि तीन मात्राओंमें अकाररूप एक मात्राके ऋषि आदि और जाग्रद् आदि विभूतियोंको जानता है, उसके द्वारा जिसकी एक मात्रा अच्छे प्रकार जानी गई वह एक मात्रावाला ओंकार कहलाता है । इसी प्रकार जिसकी दो मात्राएँ विभूति आदिके ज्ञानपूर्वक भली भाँति जानी गई वह द्विमात्रक ओंकार कहलाता है, इसी प्रकार त्रिमात्रकको भी जानना चाहिए । जो तीन मात्रावाले ओंकारका परमपुरुषरूपसे ध्यान करता है, वह ओंकारकी विभूतिरूपसे ध्यान दिये हुए सामसे सूर्यद्वारा ब्रह्मलोकमें जाकर परम पुरुषको देखता है, ऐसा अर्थ है । संशय और संशयके हेतुको कहते हैं—“किम्” इत्यादिसे । इस वाक्यमें—त्रिमात्रवाक्यमें । पूर्व अधि-

१ यहाँ 'निद्' शब्दक अर्थमें है ।

भाष्य

तत्राऽपरमिदं ब्रह्मेति प्राप्तम् । कस्मात् ? 'स तेजसि सूर्ये सम्पन्नः' 'स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्' इति च तद्विदो देशपरिच्छिन्नस्य फलस्योच्यमानत्वात् । नहि परब्रह्मविद् देशपरिच्छिन्नं फलमश्नुवीतेति युक्तम्,

भाष्यका अनुवाद

पूर्वपक्षी—ऐसा संशय होनेपर प्रतीत होता है कि यह ओंकार अपर ब्रह्म है । किससे ? 'स तेजसि०' (उपासक सूर्यलोकमें पहुँचता है) और 'स सामभि०' (वहाँसे वह सामद्वारा ब्रह्मलोकमें पहुँचाया जाता है) इस प्रकार ओंकारको जाननेवालेके लिए सूर्यलोक और ब्रह्मलोकगमनरूप सीमित फल कहा गया है, इसलिए [ओंकार अपर ब्रह्म है] । पर ब्रह्मको जाननेवाला

रत्नप्रभा

पक्षत्वेन उक्ते अकारे बुद्धिस्थ ध्यातव्य निश्चीयते इति प्रसगसगतिः । यद्वा, पूर्वत्र वर्णे रूढस्य अक्षरशब्दस्य लिङ्गाद् ब्रह्मणि वृत्तिरुक्ता, तद्ब्रह्माऽपि ब्रह्मलोक-प्राप्तिलिङ्गात् परशब्दस्य हिरण्यगर्भे वृत्तिरिति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति—तत्रापर-मिति । कार्यपरब्रह्मणोः उपास्ति उभयत्र फलम् । सः—उपासकः । सूर्ये सम्पन्नः—प्रविष्टः । ननु वसुदान ईश्वर इति ध्यानाद् "विन्दते वसु" (वृ० ४ । ४ । २४) इति अल्पमपि फल ब्रह्मोपासकस्य श्रुतमित्यत आह—नहीति । अन्यत्र तथात्वेऽपि अत्र परवित् परम् अपरविदपरमन्वेतीति उप-क्रमात् परविदोऽपरप्राप्तिरयुक्ता, उपक्रमविरोधात् । न चाऽत्र परप्राप्तिरेवोक्तेति वाच्यम्, परस्य सर्वगतत्वात् अत्रैव प्राप्तिः सम्भवेन सूर्यद्वारा गतिवैयर्थ्यात् । तस्माद्

रत्नप्रभाका अनुवाद

करणमें पूर्वपक्षरूपसे उक्त ओंकारम बुद्धिस्थ परमात्माका ध्यान करना चाहिए, ऐसा इस अधि-करणमें निश्चय होता है, अतः इसकी पूर्व अधिकरणके साथ प्रसगसगति है । अथवा पूर्व अधि-करणमें अक्षरशब्द वर्णमें रूढ था, तो भी जगदायतनत्वरूप लिङ्गसे योगवृत्तिका आश्रय करके उसकी ब्रह्ममें श्रुति कही थी, उसी प्रकार यह देशपरिच्छिन्नफलश्रुतिरूप लिङ्गसे परशब्दकी हिरण्यगर्भमें श्रुति है, इस प्रकार दृष्टान्तसे पूर्वपक्ष करते हैं—“तत्रापरम्” इत्यादिसे । पूर्वपक्षमें कार्यब्रह्मकी उपासना और सिद्धान्तमें पर ब्रह्मकी उपासना फल है । 'स'—उपासक सूर्यमें सम्पन्न अर्थात् सूर्यलोकमें पहुँचता है । यदि कोई शका करे कि ईश्वर ऐश्वर्य देनेवाला है, ऐसी भावनासे उपासना करनेवालेके लिए 'विन्दते०' (धन पाता है) इस प्रकार धनप्राप्तिरूप अल्प फल कहा गया है, इसपर कहत हैं—“नहि” इत्यादि । दूसरे स्थलोंमें भले ही ऐसा हा, किन्तु यहाँ तो परको जाननेवाला परको प्राप्त होता है, अपरका जाननेवाला अपरको प्राप्त होता है, ऐसा उपक्रम है, अतः परवेत्ता अपरको प्राप्त होता है, यह कहना अयुक्त है, क्योंकि ऐसा

भाष्य

सर्वगतत्वात् परस्य ब्रह्मणः । नन्वपरब्रह्मपरिग्रहे परं पुरुषमिति विशेषणं
नोपपद्यते । नैष दोषः, पिण्डापेक्षया प्राणस्य परत्वोपपत्तेः ।

इत्येवं प्राप्तेऽभिधीयते—परमेव ब्रह्मेहाभिध्यातव्यमुपदिश्यते । कस्मात् ?
ईक्षतिकर्मव्यपदेशात् । ईक्षतिर्दर्शनम्, दर्शनव्याप्यमीक्षतिकर्म, ईक्षति-
कर्मत्वेनाऽस्याऽभिध्यातव्यस्य पुरुषस्य वाक्यशेषे व्यपदेशो भवति—‘स
एतस्माज्जीवघनात् परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते’ इति । तत्राऽभिध्यायतेर-

भाष्यका अनुवाद

देशपरिच्छिन्न फलका भोग करे यह युक्त नहीं है, क्योंकि पर ब्रह्म सर्वव्यापक है ।
यदि अपर ब्रह्मका ग्रहण करे तो ‘परं पुरुषम्’ यह विशेषण संगत नहीं होगा ?
यह दोष नहीं है, क्योंकि पिण्डकी अपेक्षासे प्राण भी पर है, इस प्रकार
उपर्युक्त विशेषण संगत हो सकता है ।

सिद्धान्ती—ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं—पर ब्रह्मका ही यहां ध्येयरूपसे
उपदेश किया गया है, क्योंकि वह ईक्षणका कर्म कहा गया है । ईक्षति अर्थात्
दर्शन । ईक्षतिकर्म अर्थात् दर्शनविषय है । इस ध्येय पुरुषका वाक्यशेषमे दर्शन-
विषयरूपसे व्यपदेश है—‘स एतस्माज्जीव०’ (उपासक इस जीवघन—
हिरण्यगर्भरूप परसे पर, शरीरमें प्रविष्ट हुए पुरुष—परमात्माको देखता है) ।

रत्नप्रभा

उपक्रमानुगृहीतात् अपरप्राप्तिरूपात् लिङ्गात् परं पुरुषमिति परश्रुतिः बाध्या इत्यर्थः ।
परश्रुतेः गतिं पृच्छति—नन्विति । पिण्ड—स्थूलो विराट् । तदपेक्षया सूत्रस्य
परत्वमिति समाध्यर्थः । सूत्रे सशब्द ईश्वरपर इति प्रतिज्ञातत्वेन तं व्याचष्टे—
परमेवेति । सः—उपासक एतस्माद्—हिरण्यगर्भात् परं पुरुषं ब्रह्म अहमिती-
क्षते इत्यर्थः । ननु ईक्षणविषयोऽपि अपरोऽस्तु तत्राह—तत्राऽभिध्यायतेरिति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

माननेपर उपक्रमसे विरोध होगा । यहांपर ब्रह्मकी प्राप्ति हा कही गई है, ऐसा नहीं
कह सकते, क्योंकि पर ब्रह्म सर्वगत होनेके कारण यही प्राप्त है, तो सूर्यद्वारा गमन व्यर्थ
है । अतः उपक्रमसे अनुग्रहीत अपरप्राप्तिरूप लिंगसे ‘परं पुरुषं’ यह परश्रुति बाध्य
है, -ऐसा अर्थ है । परश्रुतिकी गति पृच्छते है—“ननु” इत्यादिते । पिण्ड—स्थूलदेह—
विराट्, उसकी अपेक्षा सूक्ष्मात्मा पर है, ऐसा समाधानका आशय है । सूत्रमें ‘स’ शब्द
ईश्वरपरक है, ऐसी प्रतिज्ञा की गई है, उसकी व्याख्या करते हैं—“परमेव” इत्यादिते ।
श्रुतिका अर्थ यह है कि उपासक इस हिरण्यगर्भसे पर पुरुषको ‘मैं मद्र हूँ’ इस
प्रकार देवता है । यदि कोई शंका करे कि ईक्षणका कर्म—विषय अपर ब्रह्म नहीं नहीं

भाष्य

तथाभूतमपि वस्तु कर्म भवति, मनोरथकल्पितस्याऽप्यभिध्यायतिकर्म-
त्वात् । ईक्षतेस्तु तथाभूतमेव वस्तु लोके कर्म दृष्टमित्यतः परमात्मैवार्थं
सम्यग्दर्शनविषयभूत ईक्षतिकर्मत्वेन व्यपदिष्ट इति गम्यते । स एव चेह
परंपुरुषशब्दाभ्यामभिध्यातव्यः प्रत्यभिज्ञायते ।

नन्वभिधाने परः पुरुष उक्तः, ईक्षणे तु परात्परः, कथमितर इतरत्र
प्रत्यभिज्ञायत इति । अत्रोच्यते—परंपुरुषशब्दौ तावदुभयत्र साधारणौ । न
भाष्यका अनुवाद

अतथाभूत—कल्पित वस्तु भी ध्यानविषय होती है, क्योंकि मनोरथसे कल्पित
वस्तुका भी ध्यान किया जाता है, परन्तु ईक्षणका कर्म सत्य पदार्थ ही होता
है, यह लोकमें प्रसिद्ध है । इसलिए प्रतीत होता है कि साक्षात्करणीय परमात्मा
ही दर्शनकर्मरूपसे कहा गया है । और वही यहां 'पर' और 'पुरुष' शब्दोंसे
ध्येय कहा गया है ।

परन्तु अभिधानमें पर पुरुष कहा गया है और दर्शनमें परसे पर कहा
गया है, ऐसी अवस्थामें एककी अन्यत्र प्रत्यभिज्ञा कैसे हो सकेगी ? इसपर कहते
हैं—पर और पुरुष शब्द दोनों वाक्योंमें समान हैं । यहां 'जीवघन' शब्दसे

रत्नप्रभा

ननु ईक्षणं प्रमात्वात् विषयसत्यतामपेक्षते इति भवतु सत्यः पर ईक्षणीयः, ध्यातव्य-
स्तु असत्योऽपरः किं न स्यादित्यत आह—स एवेति । श्रुतिभ्यां प्रत्यभिज्ञानात् स
एवाऽयमिति सौत्रः सशब्दो व्याख्यातः । अत्रैवं सूत्रयोजना—उंकारे यो ध्येयः
सः पर एव आत्मा, वाक्यशेषे ईक्षणीयत्वोक्तेः, अत्र च श्रुतिप्रत्यभिज्ञानात् स
एवाऽयमिति । ननु शब्दभेदान्न प्रत्यभिज्ञा इति शङ्कते—नन्विति । परात्पर
इति शब्दभेदम् अङ्गीकृत्य श्रुतिभ्याम् उक्तप्रत्यभिज्ञाया अविरोधमाह—
रत्नप्रभाका अनुवाद

हे, इसपर कहते हैं—“तत्राभिध्यायतेः” इत्यादिसे । कोई कहे कि ईक्षण प्रमा होनेसे सत्य
विषयकी अपेक्षा रजता है, इसलिए सत्य परब्रह्म ईक्षणका विषय हो, असत्य अपर ब्रह्म ध्यान-
का विषय क्यों नहीं है ? इसपर कहते हैं—“न एव” इत्यादि । श्रुतियोंसे प्रत्यभिज्ञा होती है,
इसलिए वह यही है, इस प्रकार सूत्रके 'सः' शब्दका व्याख्यान किया है । यहां सूत्रकी योजना
ऐसी करनी चाहिए—ओंकारमें जो ध्येय है, वह परमात्मा ही है, क्योंकि वाक्यशेषमें वही
साक्षात्करणीय कहा गया है और यहां श्रुतियोंसे प्रत्यभिज्ञा होती है, अतः वह यह है ।
शब्दभेदसे प्रत्यभिज्ञा नहीं होती है, ऐसी शंका करते हैं—“ननु” इत्यादिसे । 'परः'
और 'परात्परः' शब्दोंमें भेदका अंगीकार करके श्रुतियोंसे केंद्री हुई प्रत्यभिज्ञाका अविरोध कहते

माप्य

चाञ्च जीवधनशब्देन प्रकृतोऽभिध्यातव्यः परः पुरुषः परामृश्यते, येन तस्मात् परात्परोऽयमीक्षितव्यः पुरुषोऽन्यः स्यात् । कस्तर्हि जीवधन इति उच्यते ? घनो मूर्तिः, जीवलक्षणो घनो जीवधनः, सैन्धवखिल्यवद् यः परमात्मनो जीवरूपः खिल्यभावः उपाधिकृतः परश्च विषयेन्द्रियेभ्यः सोऽत्र जीवधन इति । अपर आह—‘स सामभिरुच्यते ब्रह्मलो-

माप्यका अनुवाद

प्रकृत ध्येय पर पुरुषका परामर्श नहीं होता, जिससे कि उस परसे पर—यह ईक्षणीय पुरुष भिन्न हो । तब जीवधन कौन है ? कहते हैं—घन अर्थात् मूर्ति । जीवलक्षण घन जीवधन । लवणपिण्डके समान परमात्माका उपाधिसे किया हुआ जीवरूप अल्पभाव जो विषय और इन्द्रियोंसे पर है, वही यहां जीवधन कहलाता है । दूसरा कहता है—‘स सामभिरु०’ (वह सामद्वारा ब्रह्मलोकमें पहुँचाया जाता

रत्नप्रभा

अत्रेति । ननु एतस्मात् जीवधनात् परात् इत्येतत्पदेन उपक्रान्तध्यातव्यपरा-
मर्शात् ईक्षणीयः परात्मा ध्येयात् अन्य इत्यत आह—न चाञ्चरेति । ध्यानस्य तत्फलक्षणस्य च लोके समानविषयत्वाद् ध्येय एव ईक्षणीयः । एवं चोपक्रमो-
पसंहारयोः एकवाक्यता भवतीति भावः । “स सामभिरुच्यते ब्रह्मलोकं स एतस्माज्जीवधनाद्” [प्र० ५ । ५] इत्येतत्पदेन सन्निहिततरो ब्रह्मलोकस्वामी परामृश्यते इति प्रश्नपूर्वकं व्याचष्टे—कस्तर्हीत्यादिना । “मूर्ती घनः” [पा० सू० २।४।७७] इति सूत्रादिति भावः । सैन्धवखिल्यः—लवणपिण्डः, खिल्यवत् अल्पो भावः परिच्छेदो यस्य सः खिल्यभावः । एतत्पदेन ब्रह्मलोको

रत्नप्रभाका अनुवाद

हे—“अत्र” इत्यादिने । यदि कोई कहे कि ‘एतस्माज्जीवधनात्परात्’ इगमें ‘एतत्’ पदसे उपक्रान्त ध्येय पदार्थका परामर्श होता है, अतः शास्त्रकारणीय परमात्मा ध्येयमें गिन्न है, इसपर कहते हैं—“न चात्र” इत्यादि । आशय यह है कि ध्यान और ध्यानके फल ईक्षणका विषय एकमें समान होता है, इसलिये जो ध्यानका विषय है वही ईक्षणका विषय है । इसी प्रकार उपक्रम और उपसंहारकी एकवाक्यता होती है । ‘स सामभिः०’ इगमें एतत्पदेन निवृत्तकी जीवधन, ब्रह्मलोकस्वामीका परामर्श होता है, ऐसा प्रश्नपूर्वक व्याख्यान करते हैं—“कस्तर्हि” इत्यादिसे । ‘मूर्ती घनः’ इग धृत्तमें घनका अर्थ मूर्ति समझना चाहिए । सैन्धव-
खिल्य—लवणपिण्ड । पिण्डके समान अल्पभाव—परिमाण है जिसका वह माप्यभाव कहलाता है । अथवा ‘एतत्’ पदमें ब्रह्मलोकका परामर्श होगा है, ऐसा कहते हैं—“अपरः”

भाष्य

कम्' इत्यतीतानन्तरवाक्यनिर्दिष्टो यो ब्रह्मलोकः परश्च लोकान्तरेभ्यः सोऽत्र जीवघन इत्युच्यते । जीवानां हि सर्वेषां करणपरिवृत्तानां सर्वकरणात्मनि हिरण्यगर्भे ब्रह्मलोकनिवासिनि संधातोपपत्तेर्भवति ब्रह्मलोको जीवघनः । तस्मात् परो यः पुरुषः परमात्मेक्षणकर्मभूतः स एवाऽभिध्यानेऽपि कर्मभूत इति गम्यते । परं पुरुषमिति च विशेषणं परमात्मपरिग्रह एवाऽवकल्पते । परो हि पुरुषः परमात्मैव भवति यस्मात् परं किञ्चिदन्यन्नास्ति, 'पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा मा परा गतिः' इति च श्रुत्यन्तरात् । 'परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः' इति च विभज्याऽनन्तरभाष्यका अनुवाद

है) इस अव्यवहित पूर्ववाक्यसे निर्दिष्ट ब्रह्मलोक जो अन्य लोकोंसे पर है, वही यहां जीवघन कहलाता है । ब्रह्मलोकनिवासी सर्वेन्द्रियात्मक हिरण्यगर्भ इन्द्रियोंसे घिरे हुए सभी जीवोंका समष्टिरूप है, इसलिए ब्रह्मलोक जीवघन है । उससे पर जो परमात्मा दर्शनक्रियाका कर्म है, वही अभिध्यानक्रियाका भी कर्म है, ऐसा जाना जाता है । और 'परं पुरुषम्' (पर पुरुष) यह विशेषण परमात्माका ग्रहण करनेसे ही संगत होता है, क्योंकि पर पुरुष परमात्मा ही है, जिससे पर कुछ नहीं है, 'पुरुषान्न परं०' (पुरुषसे पर कुछ नहीं है वह परम अवधि है, वह परम गति है) ऐसी दूसरी श्रुति है । 'परं चापरं च०' (जो ओंकार है,

रत्नप्रभा

वा परामृश्यत इत्याह—अपर इति । जीवघनशब्दस्य ब्रह्मलोके लक्षणा दर्शयति—जीवानां हीति । व्यष्टिकरणाभिमानिना जीवानां घनः सधातो यस्मिन् सर्वकरणाभिमानिनि स जीवघनः तत्स्वामिकत्वात् परम्परासम्बन्धेन लोको लक्ष्य इत्यर्थः । तस्मात् परः—सर्वलोकातीतः शुद्ध इत्यर्थः । परपुरुषशब्दस्य परमात्मनि मुख्यत्वाच्च स एव ध्येय इत्याह—परमिति । यस्मात् परं नाऽपरमस्ति किञ्चित्स एव मुख्यः परः, न तु पिण्डात् परः सूत्रात्मेत्यर्थः । किञ्च, रत्नप्रभाका अनुवाद

इत्यादिसे । जीवघनशब्दकी ब्रह्मलोकमें लक्षणा दिखलाते हैं—“जावानां हि” इत्यादिसे । व्यष्टिरूप इन्द्रियोंके अभिमानो जीवोंके घन अर्थात् संधात सब इन्द्रियोंके अभिमानो जिस हिरण्यगर्भमें है, वह जीवघन है और ब्रह्मलोकका स्वामी होनेसे परम्परासम्बन्धेन लोक लक्ष्यार्थ है । उससे पर—सब लोकोंसे अतीत अर्थात् शुद्ध । पर पुरुषशब्दका परमात्मा ही मुख्य अर्थ है, इसलिए वही ध्येय है ऐसा कहते हैं—“परम्” इत्यादिसे । तात्पर्य यह कि जिससे पर दूसरा कोई न हो, वही मुख्य पर है, पिण्डसे पर जो सूत्रात्मा है, वह पर नही

भाष्य

मोक्षकारेण परं पुरुषमभिध्यातव्यं ब्रुवन् परमेव ब्रह्म परं पुरुषं गमयति ।
 'यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यते एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुच्यते' इति
 पाप्मविनिर्मुक्तफलवचनं परमात्मानमिहामिध्यातव्यं सूचयति । अथ
 यदुक्तम्—परमात्माभिध्यायिनो न देशपरिच्छिन्नं फलं युज्यत इति ।
 अत्रोच्यते—त्रिमात्रेणोङ्कारेणाऽऽलम्बनेन परमात्मानमभिध्यायतः फलं
 ब्रह्मलोकप्राप्तिः क्रमेण च सम्यग्दर्शनोत्पत्तिरिति क्रममुक्त्यभिप्रायमेतत्
 मविष्यतीत्यदोषः ॥ १३ ॥

भाष्यका अनुवाद

वह पर और अपर ब्रह्म है) ऐसा विभाग करके ओंकारद्वारा पर पुरुषका
 अमिध्यान करना चाहिए, ऐसा कहती हुई श्रुतिपर ब्रह्मको ही पर पुरुष कहती
 है । 'यथा पादोदरस्त्वचा०' (जैसे सर्प कंचुलसे विनिर्मुक्त होता है, इसी प्रकार
 वह पापसे छुटकारा पा जाता है), इस प्रकार पापसे विनिर्मुक्तिरूप फलका
 कथन यहां परमात्मा ध्येय है ऐसा सूचित करता है । परमात्माका ध्यान करने-
 वालेके लिए देशपरिच्छिन्न फल युक्त नहीं है, यह जो पीछे कहा गया है, उसपर
 कहते हैं—तीन मात्रावाले ओंकाररूप आलम्बनसे परमात्माका अमिध्यान करने-
 वालेको ब्रह्मलोकप्राप्ति और क्रमसे सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति फल मिलता है, ऐसा
 क्रममुक्तिमें यहां अभिप्राय है, इसलिए कोई दोष नहीं है ॥ १३ ॥

रत्नप्रभा

परशब्देन उपक्रमे निश्चितं परं ब्रह्मैवाऽत्र वाक्यशेषे ध्यातव्यमित्याह—परं चापरं
 चेति । पापनिवृत्तिरिति च इत्याह—यथेति । पादोदरः—सर्पः । उँकारे
 परब्रह्मोपासनया सूर्यद्वारा ब्रह्मलोकं गत्वा परब्रह्म ईक्षित्वा तदेव शान्तम् अभयं
 परं प्राप्नोतीति अविरोधमाह—अत्रोच्यते इति । एवम् एकवाक्यतासमर्थन-
 प्रकरणानुगृहीतपरपुरुषश्रुतिभ्यां परब्रह्मप्रत्यभिज्ञया ब्रह्मलोकप्राप्तिलिङ्गं वाचित्वा
 वाक्यं प्रणवध्येये ब्रह्मणि समन्वितमिति सिद्धम् ॥ १३ ॥ (४) ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

है । और पर शब्दसे उपक्रममें निश्चित हुआ पर ब्रह्म ही वाक्यशेषमें ध्यातव्य है, ऐसा कहते
 हैं—“परं चापरं च” इत्यादिसे । पापनिवृत्तिरूप लिंगसे भी वाक्यशेषमें पर ब्रह्म ही ध्यातव्य
 है ऐसा कहते हैं—“यथा” इत्यादिसे । पादोदर—सर्प । ओंकारमें पर ब्रह्मकी उपासनासे सूर्य
 द्वारा ब्रह्मलोकमें जाकर, पर ब्रह्मका दर्शन करके उसी शान्त अभय परको प्राप्त करता है,
 ऐसा अविरोध दिखलाते हैं—“अत्रोच्यते” इत्यादिसे । इस तरह जिसमें एकवाक्यताका समर्थन
 है, उस प्रकरणसे अनुगृहीत पर और पुरुषशब्दकी श्रुति—ध्वज द्वारा पर ब्रह्मकी प्रत्यभिज्ञा
 होनेसे ब्रह्मलोकप्राप्तिरूप लिंगका वाच्य करके वाक्यका प्रणवध्येय ब्रह्ममें समन्वय सिद्ध हुआ ॥१३॥

[५ दहराधिकरण सू० १४-२१]

दहरः को वियञ्जीवो ब्रह्म वाऽऽकाशशब्दतः ।

वियत्स्यादथवाऽस्त्यश्रुतेर्जीवो भविष्यति ॥ १ ॥

वाद्याकाशोपमानेन द्युभूम्यादिसमाहितेः ।

आत्मापहतपाप्मत्वात्सेतुत्वाच्च परेश्वरः* ॥ २ ॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—‘अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म’ इस श्रुतिमें उक्त दहर भूताकाश है या जीव है अथवा ब्रह्म है ?

पूर्वपक्ष—दहर भूताकाश हो सकता है, क्योंकि श्रुतिमें ‘आकाश’ शब्द पढ़ा गया है और आकाशशब्द भूताकाशमें रूढ है। अथवा परिच्छिन्न जीव दहर हो सकता है, क्योंकि श्रुतिमें वह अल्प कहा गया है।

सिद्धान्त—वाद्य आकाशके साथ उपमा देने, द्यु, भू आदिका आधार कहने, आत्मत्व, पापराहित्य आदि धर्मोंसे एवं लोकमर्यादाका संस्थापक होनेसे दहर परमेश्वर ही है।

* तात्पर्य यह कि छान्दोग्य उपनिषद्के आठवें अध्यायमें श्रुति है—‘यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहर पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्न्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम् तदाव विजिज्ञासितव्यम्’ अर्थात् इस ब्रह्मपुरमें जो छोटा-सा हृदयकमलरूप गृह है, उसमें छोटा सा आकाश है, उसके मध्यमें जो है, उसका अन्वेषण करना चाहिए और विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिए। ब्रह्मकी उपलम्बिका न्यान होनेसे शरीर ब्रह्मपुर कहलाता है, उसमें हृदयकमलरूप छोटा घर है, उस घरमें छोटा-सा आकाश है। उक्त आकाशमें सन्देह होता है कि वह भूताकाश है या जीव है अथवा ब्रह्म है ?

पूर्वपक्षी कहता है कि यह भूताकाश ही है, क्योंकि आकाश शब्द भूताकाशमें रूढ है। अथवा दहरशब्दसे उक्त आकाशमें अल्पताके कथनसे यह परिच्छिन्न जीव हो सकता है, ब्रह्म तो कदापि नहीं हो सकता।

सिद्धान्ती कहते हैं कि ब्रह्म ही आकाशशब्दवाच्य है क्योंकि “यानान् वा अयमाकाशस्ता-यानेषोऽन्तर्द्वन्द्व आकाशः” (जितना बड़ा यह वाद्य आकाश है उतना ही बड़ा भीतरका आकाश है) इस श्रुतिमें प्रसिद्ध वाद्य आकाशसे उसकी उपमा दी गई है। आकाशको ही आकाशसे उपमा दी जाय यह संभव नहीं है। परिच्छिन्न (छोटे-से) जीवको भी विशालतम आकाशसे उपमा नहीं दी जा सकती। जो यह कहते हैं कि आकाश शब्द भूताकाशमें रूढ है, उक्त लौकिक रूढिका श्रुतिप्रसिद्धिसे परिहार हो जाता है। और दूसरी बात यह भी है कि “उभे अस्मिन् धावा-पृथिवी अन्तरेव समाहिते” इत्यादि श्रुतिद्वारा दहराकाश द्यु, पृथिवी आदि सकल जगत्का आधार कहा गया है, “अथैव आत्मापहतपाप्मा” इत्यादि श्रुतिसे उसमें आत्मत्व और पापराहित्य धर्म कहे गये हैं और “य आत्मा सेतुविपृतिः” इत्यादि श्रुतिद्वारा वह जगत्की मर्यादाको तहस नहस न होने देनेके लिए धारणकर्ता सेतु कहा गया है। उक्त हेतुओंसे प्रतीत होता है कि दहराकाश परमात्मा ही है।

दहर उत्तरेभ्यः ॥ १४ ॥

पदच्छेद—दहरः, उत्तरेभ्यः ।

पदार्थोक्ति—दहरः—‘अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः’ इत्यादिश्रुतौ प्रतीयमानो दहराकाशः [परमात्मैव, कुतः] उत्तरेभ्यः—वाक्यशेषगतेभ्य आकाशोपमानत्वद्यावापृथिव्यधिष्ठानत्वात्मत्वापहत-पाप्मत्वादिहेतुभ्यः ।

भाषार्थ—‘अथ यदिदमस्मिन्०’ (इस ब्रह्मपुर—शरीरमें स्थित अल्प हृदयकमलके अन्दर जो दहराकाश है) इत्यादि श्रुतिमें प्रतीत होनेवाला दहराकाश परमात्मा ही है, क्योंकि वाक्यशेषमें आकाशका उपमेय होना, द्युलोक और पृथिवीका अधिष्ठान होना, आत्मा होना और सकलपापशून्य होना आदि ब्रह्मके लिङ्ग हैं ।

—०००—०००—

भाष्य

‘अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यम्’ (छा० ८।१।१)

भाष्यका अनुवाद

‘अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे०’ (इस ब्रह्मपुर—शरीरमें जो अल्प हृदयकमलरूप घर है, उसमें अल्प अन्तराकाश है, उस आकाशमें जो है उसकी खोज करनी चाहिए, उसका ही विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहिए) श्रुतिमें

रत्नप्रभा

दहर उत्तरेभ्यः । छान्दोग्यम् उदाहरति—अथेति । भूमविद्यानन्तरं दहरविद्याभारम्भाथोऽथशब्दः । ब्रह्मणोऽभिव्यक्तिस्थानत्वाद् ब्रह्मपुरं शरीरम् । अस्मिन् यत् प्रसिद्ध दहरम् अल्प हृत्पद्मं तस्मिन् हृदये यद् अन्तराकाशशब्दितं ब्रह्म तद् अन्वेष्टव्यम्—विचार्य ज्ञेयम् इत्यर्थः । अत्र आकाशो जिज्ञास्य-

रत्नप्रभाका अनुवाद

छान्दोग्यवाक्यको उद्धृत करते हैं—‘अथ’ इत्यादिसे । अथशब्द भूमविद्याके बाद दहरविद्याके आरम्भको सूचित करता है । ब्रह्मकी अभिव्यक्तिका स्थान होनेके कारण शरीर ब्रह्मपुर है । इसमें जो प्रसिद्ध अल्प हृदयकमल है, उस हृदयमें जो अन्तराकाशनामक ब्रह्म है, उसका विचारपूर्वक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ऐसा धृतिका अर्थ है । यदा पहले

भाष्य

इत्यादिवाक्यं ममास्नायते । तत्र योऽयं दहरे हृदयपुण्डरीके दहर आकाशः
श्रुतः, स किं भूताकाशोऽथ विज्ञानात्माऽऽथवा परमात्मेति संशय्यते ।
कृतः संशयः ? आकाशब्रह्मपुरशब्दाभ्याम् । आकाशशब्दो ह्ययं भूताकाशे
परस्मिन् ब्रह्मणि प्रयुज्यमानो दृश्यते । तत्र किं भूताकाश एव दहरः
स्यात्, किं वा पर इति संशयः । तथा ब्रह्मपुरमिति किं जीवोऽत्र ब्रह्म-
नामा तस्येदं पुरं शरीरं ब्रह्मपुरम्, अथवा परस्यैव ब्रह्मणः पुरं ब्रह्मपुरमिति ।
तत्र जीवस्य परस्य वाऽन्यतरस्य पुरस्वामिनो दहराकाशत्वे संशयः ।

तत्राऽऽकाशशब्दस्य भूताकाशे रूढत्वाद् भूताकाश एव दहर-
भाष्यका अनुवाद

इत्यादि वाक्य है । यहांपर अल्प हृदयकमलमें जो यह अल्प आकाश कहा गया
है, वह क्या भूताकाश है या विज्ञानात्मा है अथवा परमात्मा है, ऐसा संशय
होता है । संशय क्यों होता है ? इससे कि श्रुतिमें आकाश और ब्रह्मपुर शब्द
कहे गये हैं । आकाशशब्दका भूताकाश और परब्रह्ममें प्रयोग देखा जाता है ।
इससे संशय होता है कि दहर भूताकाश है या परब्रह्म । उसी प्रकार 'ब्रह्मपुर'
में ब्रह्म जीववाचक है, उसका पुर होनेसे यह शरीर ब्रह्मपुर कहलाता है या पर-
ब्रह्मका पुर होनेसे ब्रह्मपुर है । ऐसा संशय होता है । उक्त संशय होनेपर यह
संशय होता है कि जीव और परब्रह्ममेंसे कौन दहराकाश है ?

रत्नप्रभा

तदन्तःस्थं वेति प्रथम संशयः कल्प्यः । तत्र यदि आकाशः, तदा संशयद्वयम् ।
तत्र आकाशशब्दादेकं संशयम् उक्त्वा ब्रह्मपुरशब्दात् संशयान्तरमाह—तथा
ब्रह्मपुरमितीति । अत्र—शब्दे । जीवस्य ब्रह्मणो वा पुरमिति संशयः । तत्र
तस्मिन् संशये सतीति योजना । परपुरुषशब्दस्य ब्रह्मणि मुख्यत्वाद् ब्रह्म ध्येयम्
इत्युक्तम्, तथेहापि आकाशपदस्य भूताकाशे रूढत्वाद् भूताकाशो ध्येय इति

रत्नप्रभाका अनुवाद

इस संशयकी कल्पना करना चाहिए कि दहराकाश जिज्ञास्य है या उसके भीतर रहनेवाला
अन्य पदार्थ जिज्ञास्य है । यदि आकाश जिज्ञास्य हो तब दो संशय उपस्थित होते हैं । उनमें
आकाशशब्दसे एक संशय कहकर ब्रह्मपुरशब्दसे दूसरा संशय कहते हैं—“तथा ब्रह्मपुरमिति”
इत्यादिसे । ‘यहाँ’—ब्रह्मपुरशब्दमें जीवका पुर या ब्रह्मका पुर ऐसा संशय होता है । ‘तत्र’—
उस संशयके होनेपर, ऐसी योजना करनी चाहिए । परपुरुषशब्द ब्रह्ममें रूढ होनेके कारण ब्रह्म
ही ध्येय है, एसा पूर्वाधिकरणमें कहा गया है, उसा प्रकार यहां भी आकाश पद भूताकाशमें रूढ

भाष्य

शब्द इति प्राप्तम् । तस्य च दहरायतनापेक्षया दहरत्वम् । 'यावान्वा अयमाकाशस्तावानेपोऽन्तर्हृदय आकाशः,' इति च बाह्याभ्यन्तरभावकृत-भेदस्योपमानोपमेयभावः द्यावापृथिव्यादि च तस्मिन्नन्तः समाहितम्,

भाष्यका अनुवाद

पूर्वपक्षी—आकाशशब्द भूताकाशमें रूढ़ है, अतः दहरशब्द भूताकाशका ही वाचक है, ऐसा प्राप्त होता है । उसका स्थान अल्प होनेसे वह दहर कहलाता है । 'यावान् वा०' (जितना भूताकाश है, उतना ही हृदयके भीतर यह दहराकाश है) इस प्रकार बाह्य और आभ्यन्तर भेदकी कल्पनासे भेद मानकर उपमानोपमेयभाव

रत्नप्रभा

दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति—तत्राकाशेत्यादिना । दहरवाक्यस्य अनन्तरप्रजापति-वाक्यस्य च सगुणे निर्गुणे च समन्वयोक्तेः श्रुत्यादिसगतयः । पूर्वपक्षे भूताकाशाद्युपास्तिः, सिद्धान्ते सगुणब्रह्मोपास्त्या निर्गुणधीरिति फलभेदः । न च "आकाशस्तल्लिङ्गाद्" (१।१।२२) इत्यनेन अस्य पुनरुक्तता शङ्कनीया । अत्र "तस्मिन्दन्तस्तदन्वेष्टव्यम्" (छा० ८।१।१) इत्याकाशान्त-स्थस्याऽन्वेष्ट-व्यत्वादिलिङ्गान्वयेन दहराकाशस्य ब्रह्मत्वे स्पष्टलिङ्गाभावात् । ननु भूताकाशस्याऽल्पत्वं कथम् ? एकस्य उपमानत्वम् उपमेयत्वं च कथम् ? "उभे अस्मिन् द्यावापृथिवी अन्तरेव समाहिते उभावग्निश्च वायुश्च" (छा० ८।१।३) इत्यादिना श्रुतसर्वाश्रयत्वं च कथम् ? इत्याशङ्क्य क्रमेण परिहरति—तस्येत्यादिना । हृदयापेक्षया अल्पत्वम्, ध्यानार्थं कल्पितभेदात् सादृश्यम्, स्वत एकत्वात् सर्वा-

रत्नप्रभाका अनुवाद

है, अतः भूताकाश ही ध्येय है, इस प्रकार दृष्टान्तसे पूर्वपक्ष करते हैं—“तत्राकाश” इत्यादिसे । दहरवाक्यका सगुण ब्रह्ममें और अनन्तर कथित प्रजापतिवाक्यका निर्गुण ब्रह्ममें समन्वय निया गया है, अतः इस अधिकरणकी श्रुति आदिके साथ सगतियों है । पूर्वपक्षमें भूताकाश आदिकी उपासना फल है, सिद्धान्तमें सगुण ब्रह्मकी उपासनासे निर्गुण ब्रह्मका ज्ञान फल है । 'आकाशस्तल्लिङ्गात्' इस सूत्रसे गतार्थ होनेके कारण यह सूत्र पुनरुक्त है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ 'तस्मिन् यदन्त०' (उसमें जो भीतर है, उसका अन्वेषण करना चाहिए) इस प्रकार आकाशके भीतर रहनेवालेका अन्वेष्टव्यत्व आदि लिंगोंके साथ अन्वय होनेसे दहर ब्रह्म ही है, इसमें स्पष्ट लिंग नहीं है । परन्तु भूताकाश अल्प किस प्रकार है ? 'उभे अस्मिन् द्यावापृथिवी०' (इसमें स्वर्ग और पृथिवी दोनों अन्दर ही रहते हैं एव अग्नि और वायु दोनों अन्दर रहते हैं) इस तरह आकाश सबका आश्रय किस प्रकार है ? ऐसी आशंका करके क्रमशः उसका परिहार करते हैं 'तस्य' इत्यादिसे । तात्पर्य यह कि हृदयरूप आश्रयकी अपेक्षासे वह अल्प है, ध्यानके लिए भेदका कल्पना की गई है, अतः सादृश्य है

भाष्य

अवकाशात्मनाऽऽकाशस्यैकत्वात् । अथवा जीवो दहर इति प्राप्तम्, ब्रह्म-
पुरशब्दात् । जीवस्य हीदं पुरं सच्छरीरं ब्रह्मपुरमित्युच्यते, तस्य स्वकर्मणो-
पार्जितत्वात् । भक्त्या च तस्य ब्रह्मशब्दवाच्यत्वम् । नहि परस्य ब्रह्मणः
शरीरेण स्वस्वामिभावः सम्बन्धोऽस्ति । तत्र पुरस्वामिनः पुरैकदेशेऽवस्थानं
दृष्टम्, यथा राज्ञः । मनउपाधिकश्च जीवः, मनश्च प्रायेण हृदये प्रतिष्ठित-
मित्यतो जीवस्यैवेदं हृदयेऽन्तरवस्थानं स्यात् । दहरत्वमपि तस्यैव आरा-
गोपमितत्वादवकल्पते । आकाशोपमितत्वादि च ब्रह्माभेदविवक्षया भवि-

भाष्यका अनुवाद

है और आकाश और पृथिवी आदि उसमें स्थित हैं, क्योंकि अवकाशस्वरूप
होनेसे आकाश एक है । अथवा जीव दहर है, ऐसा प्राप्त होता है, क्योंकि ब्रह्म-
पुरशब्द है । जीवका शरीर होनेसे शरीर ब्रह्मपुर कहलाता है, क्योंकि जीव
उसे अपने कर्मसे प्राप्त करता है और गौणीवृत्तिसे जीव ब्रह्मशब्दवाच्य है । पर-
ब्रह्मका शरीरके साथ स्वस्वामिभावसम्बन्ध नहीं है । व्यवहारमें देखा जाता है
कि नगरका स्वामी नगरके एक भागमें रहता है, जैसे राजा राजधानीके एक भाग
राजगृहमें रहता है । मन जीवकी उपाधि है और मन प्रायः हृदयमें रहता है,
इसलिए जीवकी ही हृदयमें स्थिति हो सकती है । दहरत्व भी उसीमें घटता

रत्नप्रभा

श्रयत्वमित्यर्थः । ननु “एष आत्मा” इत्यात्मशब्दो भूते न युक्त इत्यरुचेराह—
अथवेति । भक्त्येति । चैतन्यगुणयोगेन इत्यर्थः । मुख्यं ब्रह्म गृह्यतामित्यत
आह—नहीति । अस्तु पुरस्वामी जीवः, हृदयस्थाकाशस्तु ब्रह्म इत्यत आह—
तत्रेति । पुरस्वामिन एव तदन्तःस्थत्वसम्भवात् न अन्यापेक्षा इत्यर्थः । व्यापिनोऽ-
न्तःस्थत्वं कथमित्यत आह—मन इति । आकाशपदेन दहरमनुकूप्य उक्तो-

रत्नप्रभाका अनुवाद

और आकाश स्वयं एक होनेसे सबका आश्रय है । परन्तु ‘एष आत्मा’ इसमें आत्मशब्द
भूताकाशमें संगत नहीं हो सकता, इस अर्थसे कहते हैं—“अथवा” इत्यादि । “भक्त्या”—
चैतन्यरूप गुणके सम्बन्धसे । यदि कोई कहे कि मुख्य ब्रह्मका प्रहण करो, इसपर कहते
हैं—“नहि” इत्यादि । यदि कोई शका करे कि पुरस्वामी जीव हो, हृदयस्थ आकाश तो
ब्रह्म है, इसपर कहते हैं—“तत्र” इत्यादि । अर्थात् पुरस्वामीका पुरमें रहना सम्भव है,
उससे अन्यकी अपेक्षा नहीं है । जीवात्मा तो व्यापक है, वह हृदयके भीतर कैसे रह सकता
है, इस शङ्कापर कहते हैं—“मन” इत्यादि । आकाशपदम दहरकी अनुवृत्ति करने कथित

भाष्य

प्यति । न चाऽत्र दहरस्याऽऽकाशस्याऽन्वेष्टव्यत्वं विजिज्ञासितव्यत्वं च श्रूयते, 'तस्मिन् यदन्तः' इति परविषयत्वेनोपादानादिति ।

अत उत्तरं ब्रूमः—परमेश्वर एवाऽत्र दहराकाशो भवितुमर्हति न

भाष्यका अनुवाद

है, क्योंकि आरके अग्रसे उसकी उपमा दी गई है । आकाशके साथ उसकी उपमा तो ब्रह्मके साथ अभेदकी विवक्षासे होगी । श्रुतिमें दहराकाश अन्वेष्टण-योग्य है और विशेषरूपसे जिज्ञासा करने योग्य है, ऐसा नहीं कहा गया है, किन्तु 'तस्मिन्' (उसमें जो है) इस प्रकार आभ्यन्तर वस्तुके आधाररूपसे दहराकाशका ग्रहण किया गया है ।

सिद्धान्ती—ऐसा भास होनेपर हम कहते हैं—यहां परमेश्वर ही दहराकाश

रत्नप्रभा

पमादिकं ब्रह्माभेदविवक्षया भविष्यतीत्याह—आकाशेति । ननु जीवस्य आकाश-पदार्थत्वम् अयुक्तमित्याशङ्क्य तर्हि भूताकाश एव दहरोऽस्तु तस्मिन् अन्तःस्थं किञ्चिद् ध्येयमिति पक्षान्तरमाह—न चात्रेति । परम् अन्तःस्थं यन्तु, तद्विशेषण-त्वेन—आधारत्वेन दहराकाशस्य तच्छब्देन उपादानादित्यर्थः । यद्वा, अन्वेष्टव्यत्वादिलिङ्गाद् दहरस्य ब्रह्मत्वनिश्चयाद् "आकाशस्तस्मिन्नाद्" (१।१।२२) इत्यनेन गतार्थत्वमिति शङ्काऽत्र निरसनीया । अन्वेष्टव्यत्वादेः परविशेषणत्वेन ग्रहणात् दहरस्य ब्रह्मत्वे लिङ्गं नास्तीत्यर्थः ।

अपदतपाप्मत्वादिलिङ्गोपेतारमधुत्या फेयलाकाशश्रुतिः साध्या इति सिद्धान्त-यति—परमेश्वर इत्यादिना । आकाशस्य आशेषपूर्वकमिति सम्बन्धः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

भाष्य

भूताकाशो जीवो वा । कस्मात् ? उत्तरंभ्यो वाक्यशेषगतेभ्यो हेतुभ्यः । तथाहि—अन्वेष्टव्यतयाऽभिहितस्य दहरस्याऽऽकाशस्य 'तं चेद् ब्रूयुः' इत्युपक्रम्य 'किं तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाच विजिज्ञासितव्यम्' इत्येवमाक्षेपपूर्वकं प्रतिसमाधानवचनं भवति । 'स ब्रूयाद्यावान् वा अयमाकाशस्तावानेपोऽन्तर्हृदय आकाश उमे अस्मिन् द्यावापृथिवी अन्तरेव समाहिते' (छा०८।१।३) इत्यादि । तत्र पुण्डरीकदहरत्वेन प्राप्तदहरत्वस्याऽऽकाशस्य प्रज्ञिद्धाकाशौपम्येन दहरत्वं निवर्तयन् भूताकाशत्वं दहरस्याऽऽकाशस्य निव-

भाष्यका अनुवाद

है, भूताकाश या जीव दहराकाश नहीं है, क्योंकि वाक्यशेषमें कहे गये हेतुओंसे यही प्रतीत होता है । अन्वेष्टव्यरूपसे कहे हुए दहराकाशका 'तं चेद् ब्रूयुः' (आचार्यसे शिष्य यदि कहें) ऐसा उपक्रम करके 'किं तदत्र विद्यते०' (यहां वह क्या है जो अन्वेष्टव्य करने योग्य है और विशेषरूपसे जिज्ञासा करने योग्य है) इस प्रकार आक्षेपपूर्वक समाधान करते हैं—'स ब्रूयाद्यावान् वा०' (वह कहे कि जितना बड़ा यह धाह्य आकाश है, उतना ही हृदयमें यह आभ्यन्तर आकाश है, स्वर्ग और पृथिवी दोनों उसके अन्दर स्थित हैं) । इस वाक्यसे प्रतीत होता है कि कमलके अल्पत्वसे जिसको अल्पत्व प्राप्त हुआ है, उस आकाशकी प्रसिद्ध आकाशके साथ उपमा देकर उसके अल्पत्वकी निवृत्ति करते हुए आचार्य दहराकाशमें

रत्नप्रभा

तम्—आचार्य प्रति यदि ब्रूयुः हृदयमेव तावदल्पम् तत्रत्याकाशोऽल्पतरः, किं तदत्र अल्पे विद्यते, यद् विचार्य ज्ञेयम् इति, तदा स आचार्यो ब्रूयाद् आकाशस्य अल्पतानिवृत्तिम् इत्यर्थः । वाक्यस्य तात्पर्यमाह— तत्रेति । निवर्तयति आचार्य इति शेषः । ननु आकाशशब्देन रूढ्या भूताकाशस्य भानात् कथं तन्निवृत्तिः इत्याशङ्क्याऽऽह—यद्यपीति । ननु "रामरावण-

रत्नप्रभाका अनुवाद

साम्यन्ध है । यदि आचार्यसे शिष्य पूछें कि पहले तो हृदय ही छोटा है, उसमें रहनेवाला आकाश उससे भी छोटा है, उस आकाशमें कौन-सा तरेव है, जिसका विचारपूर्वक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ? तब आचार्य आकाशकी अल्पतारी निवृत्ति करें अर्थात् आकाश अल्प नहीं है, ऐसा कहें । वाक्यका तात्पर्य कहते हैं—'तत्र' इत्यादिते । 'निवर्तयति'के पहले 'आचार्यः' इतना शेष समझना चाहिये । यदि कोई कहे कि आकाशशब्दकी भूताकाशमें प्रसिद्धि है, अतः उससे भूताकाशका ही भान होता है, तो दहराकाशमें भूताकाश-

भाष्य

र्तयतीति गम्यते । यद्यप्याकाशशब्दो भूताकाशे रूढः, तथापि तेनैव तस्योपमा नोपपद्यत इति भूताकाशशब्दा निवर्तिता भवति ।

नन्वेकस्याऽप्याकाशस्य बाह्याभ्यन्तरत्वकल्पितेन भेदेनोपमानोपमेयभावः सम्भवतीत्युक्तम् । नैवं सम्भवति । अगतिका हीयं गतिः, यत्काल्प-

भाष्यका अनुवाद

भूताकाशत्वकी भी निवृत्ति करते हैं । यद्यपि आकाशशब्द भूताकाशमें रूढ है, तो भी उसीके साथ उसकी उपमा नहीं बन सकती है, इससे दहर भूताकाश है, इस शंकाकी निवृत्ति होती है ।

एक ही आकाशके बाह्य और आभ्यन्तर भेदकी कल्पनासे भेद मानकर उपमानोपमेयभाव हो सकता है, ऐसा जो पूर्वपक्षीने कहा है, वह संभव नहीं

रत्नप्रभा

योर्युद्धं रामरावणयोरिव" इत्यभेदेऽप्युपमा दृष्टा इति चेत्, न, अभेदे सादृश्यस्य अनन्वयेन युद्धस्य निरुपमत्वे तात्पर्यात् अयमनन्वयालंकार इति काव्यविदः ।

पूर्वोक्तम् अनूद्य निरस्यति—नन्वित्यादिना । "सीताश्लिष्ट इवाऽऽभाति कोदण्डप्रभया युतः" इत्यादौ प्रभायोगसीताश्लेषरूपविशेषणभेदाद् भेदाश्रयणम् एकस्यैव श्रीरामस्य उपमानोपमेयभावसिद्धयर्थम् अगत्या कृतमिति अनुदाहरणं द्रष्टव्यम् । नैवमत्राऽऽश्रयणं युक्तम्, वाक्यस्य अल्पत्वनिवृत्तिपरत्वेन गतिसद्भावात् । किञ्च, हार्दाकाशस्याऽऽन्तरत्वात्यागे अल्पत्वेन व्यापकबाह्याकाशसादृश्यं न युक्तमित्याह—

रत्नप्रभाका अनुवाद

त्वकी निवृत्ति कैसे हो सकती है ऐसी आशङ्का करके कहते हैं—“यद्यपि” इत्यादि । परन्तु ‘रामरावण०’ (राम और रावणका युद्ध राम और रावणके युद्धके सदृश है) इस प्रकार अभेदमें—उपमान और उपमेयभाव देखा गया है, यह शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि अभेदमें सादृश्यका अनन्वय न हानेसे युद्धकी निरुपमतामें तात्पर्य है, अतः उसे काव्यवेत्ता अनन्वय अलङ्कार कहते हैं ।

पूर्वोक्त विषयका अनुवाद करके निरास करते हैं—“ननु” इत्यादिसे । ‘सीताश्लिष्ट इवा०’ (धनुषकी प्रभासे युक्त राम सीतासे आश्लिष्टित जैसे मालूम पड़ते हैं) इत्यादिमें प्रभायोग और सीताश्लेषरूप विशेषणोंके भेदसे एक ही श्रीराममें उपमानोपमेयभाव सिद्ध करनेके लिए अगत्या भेद माना गया है, यह उदाहरण ठीक नहीं है । इस प्रकार यहाँ भेद मानना ठीक नहीं है, क्योंकि आकाशमें अल्पत्वकी निवृत्ति करनेसे वाक्य सार्थक है । और दृढयर्थ आकाशके आन्तरत्वका त्याग नहीं हो सकता, इसलिए वह अल्प है और अल्प होनेसे व्यापक

भाष्य

निकभेदाश्रयणम् । अपि च कल्पयित्वाऽपि भेदमुपमानोपमेयभावं वर्णयतः परिच्छिन्नत्वादभ्यन्तराकाशस्य न बाह्याकाशपरिमाणत्वमुपपद्येत ।

ननु परमेश्वरस्याऽपि 'ज्यायानाकाशात्' (श० ब्रा० १०।६।३।२) इति श्रुत्यन्तरानैवाऽऽकाशपरिमाणत्वमुपपद्यते । नैष दोषः । पुण्डरीकवेष्टन-प्राप्तदहरत्वनिवृत्तिपरत्वाद्वाक्यस्य न तावच्चप्रतिपादनपरत्वम् । उभय-प्रतिपादने हि वाक्यं भिद्येत । न च कल्पितभेदे पुण्डरीकवेष्टिते आकाशैक-देशे घावापृथिव्यादीनामन्तःसमाधानमुपपद्यते । 'एष आत्मापहतपाप्मा

भाष्यका अनुवाद

है, क्योंकि काल्पनिक भेद उपायान्तरके अभावमें ही माना जाता है । और दूसरी बात यह भी है कि भेदकी कल्पना करके उपमानोपमेयभावका वर्णन करनेवालेके मतमें आभ्यन्तर आकाश परिच्छिन्न होनेसे बाह्य आकाशके बराबर नहीं हो सकेगा ।

परन्तु 'ज्यायानाकाशात्' (आकाशसे बड़ा) इत्यादि दूसरी श्रुतिसे परमेश्वरका भी आकाशके परिमाणके बराबर परिमाण नहीं हो सकता है । यह दोष नहीं है, क्योंकि यह वाक्य पुण्डरीकके वेष्टनसे प्राप्त हुए अल्पत्वकी केवल निवृत्तिही करता है, भूताकाशके बराबर परिमाणका प्रतिपादन नहीं करता । दोनोंके प्रतिपादनमें वाक्यभेद हो जायगा । और काल्पनिक भेदवाले पुण्डरीकसे वेष्टित आकाशके एकदेशमें स्वर्ग, पृथिवी आदिका रहना नहीं घटता । 'एष आत्मा-

रत्नप्रभा

अपि चेति । आन्तरत्वत्यागे तु अत्यन्ताभेदात् न सादृश्यमिति भावः ।

ननु हार्दाकाशस्य अल्पत्वनिवृत्तौ तावत्त्वे च तात्पर्यं किं न स्यादित्यत आह—उभयेति । अतोऽल्पत्वनिवृत्तावेव तात्पर्यमिति भावः । एवम् आकाशोपमितत्वाद् दहराकाशो न भूतमिति उक्तम् । सर्वाश्रयत्वादिल्लिङ्गेभ्यश्च तथेत्याह—न चेत्या-

रत्नप्रभाका अनुवाद

बाह्य आकाशके साथ उसका सादृश्य ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं—“अपि च” इत्यादिके हृदयस्य आकाशके आन्तरत्वका त्याग करनेपर दोनों आकाशोंमें अत्यन्त अभेद होनेसे सादृश्य ही नहीं बन सकता, ऐसा तात्पर्य है ।

यदि कोई शङ्का करे कि हृदयस्य आकाशके अल्पत्वकी निवृत्ति और भूताकाशके बराबर परिमाण, इन दोनोंमें वाक्यका तात्पर्य क्यों न हो ? इसपर कहते हैं—“उभये” इत्यादि । इसलिए अल्पत्वनिवृत्तिमें ही तात्पर्य है, ऐसा अर्थ है । इस प्रकार बाह्य आकाशके सदृश होनेके कारण दहराकाश भूताकाश नहीं है, ऐसा कहा गया । अब सर्वाश्रयत्व आदि लिङ्गोंसे

भाष्य

विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः' इति चाऽऽत्मत्वापहतपाप्मत्वादयश्च गुणा न भूताकाशे सम्भवन्ति । यद्यप्यात्मशब्दो जीवे सम्भवति तथापीतरेभ्यः कारणेभ्यो जीवाशङ्कापि निवर्तिता भवति । नह्युपाधिपरिच्छिन्नस्याऽऽरागोपमितस्य जीवस्य पुण्डरीकवेष्टनकृतं दहरत्वं शक्यं निवर्तयितुम् । ब्रह्माभेदविवक्षया जीवस्य सर्वगतत्वादि विवक्ष्येतेति चेत् ? यदात्मतया जीवस्य सर्वगतत्वादि विवक्ष्येत, तस्यैव ब्रह्मणः साक्षात् सर्वगतत्वादि विवक्ष्यतामिति युक्तम् । यदप्युक्तम्—ब्रह्मपुरमिति जीवेन पुरस्योपलक्षितत्वाद्वाङ् इव जीवस्यैवेदं पुरस्वामिनः पुरैकदेशवर्तित्वमस्तु इति—अत्र ब्रूमः परस्यैवेदं ब्रह्मणः पुरं सत् शरीरं ब्रह्मपुरमित्युच्यते, भाष्यका अनुवाद

पहतपाप्मा०' (यह आत्मा है, पापसे विमुक्त, जरा, मरण और शोकसे रहित, भूख और प्याससे मुक्त, सत्यकाम और सत्य संकल्प है) इस प्रकार आत्मत्व, पापराहित्य आदि गुण भूताकाशमें नहीं रह सकते । यद्यपि आत्मशब्दका जीवमें प्रयोग हो सकता है, तो भी दूसरे कारणोंसे जीवविषयक आशंका की भी निवृत्ति हो जाती है । उपाधिसे परिच्छिन्न और आरके अभ्रभावसे उपमित जीवमें पुण्डरीकके वेष्टनसे प्राप्त हुए अल्पत्वकी निवृत्ति नहीं की जा सकती । ब्रह्मके साथ अभेदकी विवक्षासे जीवके सर्वगतत्व आदि धर्मोंकी विवक्षा होगी, ऐसा यदि कहो, तो ब्रह्मके साथ ऐक्य मानकर जीवके सर्वगतत्व आदि धर्मोंकी विवक्षा करनेसे यही ठीक है कि साक्षात् ब्रह्मके सर्वगतत्व आदि धर्मोंकी विवक्षा करो । 'ब्रह्मपुर'में जीवसे पुरका संबन्ध होनेसे राजाके समान पुरस्वामी जीवका ही पुरके एक भागमें रहना संभव है, ऐसा जो कहा है, उसपर कहते हैं—यह

रत्नप्रभा

दिना । विगता जिघत्सा—जग्धुमिच्छा यस्य सोऽयं विजिघत्सः—बुभुक्षाशून्य इत्यर्थः । प्रथमश्रुतब्रह्मशब्देन तत्सापेक्षचरमश्रुतपट्टीविभक्त्यर्थः सम्बन्धो नेयः, न तु ब्रह्मणः पुरमिति पठ्यर्थः स्वस्वामिभावो ब्राह्मः, 'निरपेक्षेण तरसापेक्षं वाच्यम्' इति रत्नप्रभाका अनुवाद

भी दहराकाश भूताकाश नहीं है, ऐसा कहते हैं—“न च” इत्यादिसे । 'विजिघत्सः'—जिसको नानेकी इच्छा नहीं है अर्थात् बुभुक्षाशून्य । 'ब्रह्मणः पुरम्' इसमें प्रथमश्रुत निरपेक्ष ब्रह्मशब्दके अनुसार ब्रह्मशब्दकी अपेक्षा रखनेवाली अनन्तरश्रुत पट्टीविभक्तिका अर्थ संबन्ध-सामान्य लेना चाहिए न कि स्वस्वामिभावम् विशेषसम्बन्ध, क्योंकि निरपेक्षसे सापेक्षका

भाष्य

ब्रह्मशब्दस्य तस्मिन् मुख्यत्वात् । तस्याऽप्यस्ति पुरेणाऽनेन सम्बन्धः, उपलब्ध्यधिष्ठानत्वात् । 'स एतस्माज्जीवघनात् परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते' (प्र० ५।५) 'स वा अयं पुरुषः सर्वासु पूर्णं पुरिशयः' (वृ० २।५।१८) इत्यादिश्रुतिभ्यः । अथवा जीवपुर एवाऽस्मिन् ब्रह्म संनिहितमुपलक्ष्यते यथा शालग्रामे विष्णुः सन्निहित इति तद्वत् । 'तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमेवाऽमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते' (छा० ८।१।६)

भाष्यका अनुवाद

शरीर परब्रह्मका ही पुर होनेसे ब्रह्मपुर कहलाता है, क्योंकि ब्रह्मशब्दका परब्रह्मही मुख्य अर्थ है । उसका भी इस पुरके साथ संबन्ध है, क्योंकि उसकी उपलब्धिका यह स्थान है, कारण कि 'स एतस्माज्जीवघनात्' (उपासक इस पर हिरण्यगर्भसे भी पर उत्कृष्ट और शरीरमें प्रविष्ट हुए परमात्माको देखता है) और 'स वा अयं' (वह पुरुष सब शरीरोंमें वर्तमान हृदयमें रहनेके कारण पुरुष कहलाता है) इत्यादि श्रुतियाँ हैं । जैसे शालग्राममें विष्णु संनिहित हैं, वैसे इस जीवपुरमें ही ब्रह्म संनिहित है, ऐसा उपलक्षित होता है । 'तद्यथेह कर्मचितो' (यहाँ जैसे कर्मसे सम्पादित फल क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार परलोकमें पुण्यसे उपार्जित फल

रत्नप्रभा

न्यायाद् इत्याह—अत्र ब्रूम इति । शरीरस्य ब्रह्मणा तदुपलब्धिस्थानत्वरूपे सम्बन्धे मानम् आह—स इति । पूर्णं शरीरेषु, पुरि हृदये शय इति पुरुषः इत्यन्वयः । ननु ब्रह्मशब्दस्य जीवेऽपि अत्रादिना शरीरवृद्धिहेतौ मुख्यत्वात् न पृथगर्थः कथंचित् नेय इत्यत आह—अथवेति । बृंहयति देहमिति ब्रह्म—जीवः, तत्स्वामिके पुरे हृदयं ब्रह्मवेश्म भवतु, राजपुरे मैत्रसद्यवदित्यर्थः । अनन्तफल-

रत्नप्रभाका अनुवाद

वाध होता है यह न्याय है, ऐसा कहते हैं—“अत्र ब्रूमः” इत्यादिसे । शरीर ब्रह्मकी उपलब्धिका स्थान है, इसलिए शरीरका ब्रह्मके साथ संबन्ध है, इसमें प्रमाण कहते हैं—“स” इत्यादिसे । 'पूर्णं'—शरीरोंमें, 'पुरिशयः'—हृदयमें रहनेवाला पुरुष कहलाता है, ऐसा अन्वय है । यदि कोई कहे कि जीव भी अत्र आदिसे शरीरकी वृद्धि करता है, इसलिए ब्रह्मशब्दका मुख्य अर्थ जीव भी हो सकता है, अतः पृष्ठीका अर्थ अपनी मनमानीसे नहीं करना चाहिए, इसपर कहते हैं—“अथवा” इत्यादि । 'बृंहयति' जो देहकी वृद्धि करता है, वह ब्रह्म अर्थात् जीव है, वह जिस पुरका स्वामी है, उसमें हृदय ब्रह्मग्रह हो सकता है, जैसे कि राजाके नगरमें मैत्रका घर होता है । अनन्त फलरूप लित्रसे भी दहर परमात्मा है, ऐसा

भाष्य

इति च कर्मणामन्तवत्फलत्वमुक्त्वा 'अथ य इहात्मानमनुविद्य ब्रजन्त्ये-
तांश्च सत्यान्कामांस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति' इति प्रकृतदहरा-
काशविज्ञानस्याऽनन्तफलत्वं वदन् परमात्मत्वमस्य सूचयति । यदप्येत-
दुक्तम्—न दहरस्याऽऽकाशस्याऽन्वेष्टव्यत्वं विजिज्ञासितव्यत्वं च श्रुतम्, पर-
विशेषणत्वेनोपादानात् इति । अत्र ब्रूमः—यद्याकाशो नाऽन्वेष्टव्यत्वेनोक्तः
स्यात् 'यावान्वा अयमाकाशस्तावानेपोऽन्तर्हृदय आकाशः' इत्याद्याकाशस्व-
रूपप्रदर्शनं नोपपद्येत ।

भाष्यका अनुवाद

क्षीण हो जाता है) इस प्रकार कर्मोंका फल नश्वर यतलाकर 'अथ य इहात्मानं०'
(जो यहां आत्माका और इन सत्य कामोंका आचार्यके उपदेशानुसार
ध्यानसे अनुभव कर परलोकमें जाते हैं, उनका सब लोकोंमें स्वेच्छाविहार होता
है) इस प्रकार प्रकृत दहराकाशके विज्ञानका फल अनन्त कहकर श्रुति दहर
परमात्मा ही है, ऐसा सूचित करती है । दहराकाश अन्वेष्टव्य करने और विशेष-
रूपसे जिज्ञासा करने योग्य है, ऐसा श्रुतिमें नहीं कहा गया है, क्योंकि परके
विशेषणरूपसे उसका ग्रहण किया गया है, ऐसा जो पीछे कहा है, उसपर कहते
हैं । यदि आकाश अन्वेष्टव्यरूपसे न कहा गया होता, तो 'यावान् वा०' (जितना
बड़ा यह धाह्य आकाश है, उतनाही हृदयके भीतर यह दहराकाश है) इत्यादि
आकाशके स्वरूपका प्रदर्शन उपयोगी न होता ।

रत्नप्रभा

लिङ्गादपि दहरः परमात्मा इत्याह—तद्यथेति । अथ—कर्मफलाद् वैराग्यानन्तरम् ।
इह—जीवद्दशामाम् आत्मानं दहरं तदाश्रितांश्च सत्यकामादिगुणान् आचार्योपदेशम्
अनुविद्य—ध्यानेनाऽनुभूय ये परलोकं गच्छन्ति, तेषां सर्वलोकेषु अनन्तमैश्वर्यं
स्वेच्छया संचलनादिकं भवति इत्यर्थः । दहरे उक्तलिङ्गानि अन्यथासिद्धानि
तेषां तदन्तःस्थगुणत्वाद् इत्युक्तं सारयित्वा दूषयति—यदपीत्यादिना ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

कहते हैं—'तद्यथा' इत्यादिते । 'अथ'—कर्मफलसे वैराग्य होनेके अनन्तर, 'इह'—
जीवद्दशामें आत्मा—दहरका और उसके आधित सत्यकाम आदि गुणोंका आचार्यके
उपदेशानुसार ध्यानसे अनुभव करके जो परलोक जाते हैं, उनको सब लोकोंमें अनन्त
ऐश्वर्य प्राप्त होता है और वे स्वेच्छासे सर्वत्र विचरण करते हैं, ऐसा अर्थ है । अन्यैश्वर्य आदि
लिङ्ग दहरमें लागू नहीं हो सकने हैं, क्योंकि वे दहरमें रहनेवालेके गुण हैं, ऐसा जो कहा
गया है, उनका स्मरण कराकर दूषण देते हैं—'यदपि' इत्यादिते ।

भाष्य

नन्वेतदप्यन्तर्वर्तिवस्तुसद्भावप्रदर्शनायैव प्रदर्श्यते 'तं चेद् ब्रूयुर्य-
दिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेदम दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः किं तदत्र
विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यम्' इत्याक्षिप्य परिहारावसर
आकाशौपम्योपक्रमेण द्यावापृथिव्यादीनामन्तःसमाहितत्वदर्शनात् । नैत-
देवम् । एवं हि सति यदन्तःसमाहितं द्यावापृथिव्यादि तदन्वेष्टव्यं
विजिज्ञासितव्यं चोक्तं स्यात् तत्र वाक्यशेषो नोपपद्येत । 'अस्मिन् कामाः
समाहिताः, एष आत्माऽपहतपाप्मा' इति हि प्रकृतं द्यावापृथिव्यादिसमा-

भाष्यका अनुवाद

परन्तु यह भी अन्दर रहनेवाली वस्तुके सद्भावप्रदर्शनके लिए ही दिखलाया
गया है, क्योंकि 'तं चेद् ब्रूयुर्यदिदमस्मिन्०' (यदि शिष्य आचार्यसे पूछे कि
इस ब्रह्मपुरमें जो अल्प पुण्डरीकवेदम है, उसमें अल्प अन्तराकाश है, उसमें
यह क्या है कि जो अन्वेष्टव्य करने योग्य है और विशेषरूपसे जिज्ञासा करने
योग्य है) ऐसा आक्षेप करके परिहार करते समय उपक्रममें आकाशकी उपमा
देकर स्वर्ग, पृथिवी आदि उसमें स्थित हैं, ऐसा दिखलाया है । नहीं, ऐसा
नहीं है । यदि ऐसा होता, तो स्वर्ग पृथिवी आदि जो अन्दर स्थित हैं, उनका
अन्वेष्टव्य करना चाहिए और विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिए, ऐसा अर्थ
होता । ऐसी स्थितिमें वाक्यशेष संगत नहीं होगा । 'अस्मिन् कामाः०' (इसमें
अमिलापाएँ अन्तर्हित हैं) 'एष आत्मा०' (यह आत्मा पापविमुक्त है) इस

रत्नप्रभा

उत्तरत्र आकाशस्वरूपप्रतिपादनान्यथानुपपत्त्या पूर्वं तस्याऽन्वेष्टव्यत्वादिक-
मित्यत्राऽन्यथोपपत्तिं शङ्कते—नन्विति । एतद् आकाशस्वरूपमाक्षेपवीजमाका-
शस्याऽरूपत्वमुपमया निरस्याऽन्तःस्ववस्तुक्तेः तदन्तःस्वमेव ध्येयमित्यर्थः । तर्हि
जगदेव ध्येयं स्याद् इत्याह—नैतदेवमिति । अस्तु को दोषः, तत्राह—

रत्नप्रभाका अनुवाद

आगे आकाशके स्वरूपका प्रतिपादन किया है, वह आकाशको ज्ञेय कहनसे ही उपपन्न
होता है अन्यथा उपपन्न नहीं होता, इस कारण पहले आकाशको अन्वेष्टव्य कहना चाहिए,
इस विषयमें उस प्रतिपादनकी अन्यथा भी उपपत्ति हो सकती है, ऐसी शङ्का करते
हैं—'ननु' इत्यादिसे । 'यद्'—आकाशस्वरूप । तात्पर्य यह कि आक्षेपके कारणभूत
आकाशके अल्पत्वका सादृश्य-प्रदर्शनपूर्वक निरसन करके आकाशके अन्दर रहनेवाला
पदार्थ कदा गया है, अतः वह अन्तःस्व ही ध्येय है । तब जगत् ही ध्येय होगा, ऐसा

भाष्य

धानाधारमाकाशमाकृष्य 'अथ य इहात्मानमनुविद्य ब्रजन्त्येतांश्च सत्यान् कामान्' इति समुच्चयार्थेन चशब्देनाऽऽत्मानं कामाधारमाश्रितांश्च कामान् विज्ञेयान् वाक्यशेषो दर्शयति । तस्माद्ब्रह्मयोपक्रमेऽपि दहर एवाऽऽकाशो हृदयपुण्डरीकाधिष्ठानः सहान्तःस्थैः समाहितैः पृथिव्यादिभिः सत्यैश्च कामैर्विज्ञेय उक्त इति गम्यते । स चोक्तेभ्यो हेतुभ्यः परमेश्वर इति स्थितम् ॥ १४ ॥

भाष्यका अनुवाद

प्रकार प्रकृत स्वर्ग, पृथिवी आदि जिसमें स्थित हैं, उस आकाशकी अनुवृत्ति करके 'अथ य इहात्मानं' (यहाँ जो आत्माका और इन सत्य कामोंका आचार्यके उपदेशानुसार ध्यानसे अनुभव करके परलोकमें जाते हैं) इस प्रकार वाक्यशेष समुच्चयवाचक 'च' शब्दसे कामोंके आधार आत्माको और उसके आश्रित कामोंको विज्ञेयरूपसे दिखलाता है । इससे प्रतीत होता है कि वाक्यके उपक्रममें भी हृदयकमल जिसका अधिष्ठान है, वह दहराकाश ही अन्दर रहनेवाले पृथिवी आदिके साथ और सत्य कामोंके साथ विज्ञेयरूपसे कहा गया है । उक्त हेतुओंसे सिद्ध होता है कि दहराकाश परमेश्वर ही है ॥१४॥

रत्नप्रभा

तत्रेति । सर्वनामभ्यां दहराकाशमाकृष्यात्मत्वादिगुणानुक्त्वा गुणैस्सह तस्यैव ध्येयत्वं वाक्यशेषो ब्रूते, तद्विरोध इत्यर्थः । "तस्मिन् यदन्तः" (छा० ८।१।१) इति तत्पदेन व्यवहितमपि हृदयं योग्यतया ब्राह्ममित्याह—तस्मादिति । यद्वा, आकाशः तस्मिन् यदन्तस्तदुभयमन्वेष्टव्यमिति योजनां सूचयति—सहान्तः-स्थैरिति ॥ १४ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

कहते हैं—“नैतदेवम्” इत्यादिसे । ऐसा हो, क्या दोष है, इसपर कहते हैं—“तत्र” इत्यादि । तात्पर्य यह कि सर्वनामोंसे ('अस्मिन्' और 'एष' इन सर्वनामोंसे) दहराकाशकी अनुवृत्ति करके आत्मत्व आदि गुणोंके कहकर गुणोंके साथ वही ध्येय है, ऐसा वाक्यशेष कहता है, उससे विरोध होगा । 'तस्मिन् यदन्तः' इसमें 'तद्' शब्दसे यद्यपि हृदय व्यवहित है, तो भी उसीका योग्यतासे ग्रहण करना चाहिए, ऐसा कहते हैं—“तस्माद्” इत्यादिसे । अथवा आकाश और उसके अन्दर जो है, उन दोनोंका अन्वेषण करना चाहिए, इस योजनाको सूचित करते हैं—“सहान्तं स्थै” इत्यादिसे ॥ १४ ॥

गतिशब्दाभ्यां तथाहि दृष्टं लिङ्गं च ॥ १५ ॥

पदच्छेद—गतिशब्दाभ्याम्, तथाहि, दृष्टम्, लिङ्गम्, च ।

पदार्थोक्ति—गतिशब्दाभ्यां—‘इमाः सर्वाः प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति’ इति दहरवाक्यशेषोक्तप्रत्यहगमनब्रह्मलोकशब्दाभ्यां [प्रतीयते दहरः ब्रह्मैवेति, किञ्च] तथाहि दृष्टम्—‘सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति’ इति दृष्टं श्रुत्यन्तरे । लिङ्गं च—प्रत्यहं हिरण्यगर्भलोकगमना-सम्भवाद् ब्रह्मव लोक इति सामानाधिकरण्यपरिग्रहे अहरहर्गमनं निपाद-स्थपतिन्यायश्च हेतुः ।

भाषार्थ—इमाः सर्वाः प्रजाः’ (ये सत्र जीव इस हृदयाकाशरूप ब्रह्मलोकमें प्रतिदिन जाते हैं, परन्तु उसको जानते नहीं हैं) इस दहरवाक्यके शेषमें काथित प्रति दिन गमन और ब्रह्मलोकशब्दसे माद्धम होता है कि दहर ब्रह्म ही है । और ‘सता सोम्य०’ (हे शुभदर्शन ! सुप्तिकालमें जीव ब्रह्ममें संपन्न हो जाता है) इस प्रकार अन्य श्रुति भी जीवगम्यको ब्रह्म कहती है । ‘ब्रह्मलोक’ पदमें ‘ब्रह्मका लोक’ ऐसा पष्ठीसमास नहीं है, किन्तु ‘ब्रह्म ही लोक’ ऐसा सामानाधिकरण्य ही है, क्योंकि प्रतिदिन गमन श्रुतिमें प्रतिपादित है, हिरण्यगर्भके लोकमें जीव प्रति-दिन नहीं जा सकता । और निपादस्थपतिन्यायसे भी सिद्ध होता है कि ‘ब्रह्म-लोक’ पदमें सामानाधिकरण्य है ।

भाष्य

दहरः परमेश्वर उत्तरेभ्यो हेतुभ्य इत्युक्तम् । त एवोत्तरे हेतव इदानीं प्रपञ्च्यन्ते । इतश्च परमेश्वर एव दहरः, यस्माद् दहरवाक्यशेषे परमेश्वरस्यैव प्रतिपादकौ गतिशब्दौ भवतः—‘इमाः सर्वाः प्रजा अहर-

भाष्यका अनुवाद

वाक्यशेषगत हेतुओंसे दहर परमेश्वर ही है, ऐसा कहा गया है । अब उन्हीं हेतुओंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता है । इससे भी दहर परमेश्वर ही है, क्योंकि वाक्यशेषमें उक्त गति और शब्द परमेश्वरके ही प्रतिपादक हैं—

रत्नप्रभा

दहराकाशस्य ब्रह्मत्वे हेत्वन्तरमाह—गतीति । प्रजा जीवा एतं हृदयस्थं

रत्नप्रभाका अनुवाद

दहराकाश ब्रह्म ही है इस विषयमें दूसरे हेतु दर्शाते हैं—“गति” इत्यादिसे । स्वापकालमें

भाष्य

हर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति' (छा० ८।३।२) इति । तत्र प्रकृतं दहरं ब्रह्मलोकशब्देनाऽभिधाय तद्विषया गतिः प्रजाशब्दवाच्यानां जीवानामभिधीयमाना दहरस्य ब्रह्मतां गमयति । तथाहहरहर्जीवानां सुषुप्तावस्थायां ब्रह्मविषयं गमनं दृष्टं श्रुत्यन्तरे—'सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति' (छा० ६।८।१) इत्येवमादौ । लोकेऽपि किल गाढं सुषुप्तमाचक्षते—'ब्रह्मीभूतो ब्रह्मतां गतः' इति । तथा ब्रह्मलोकशब्दोऽपि प्रकृते दहरे प्रयुज्यमानो जीवभूताकाशशङ्कां निवर्तयन् ब्रह्मतामस्य गमयति ।

भाष्यका अनुवाद

'इमाः सर्वाः प्रजाः' (ये सब प्रजाएँ इस हृदयाकाशसंज्ञक ब्रह्मलोकमें सुषुप्ति-कालमें प्रतिदिन जाती हैं, किन्तु उसको जानती नहीं हैं) । इसमें प्रकृत दहरका ब्रह्मलोकशब्दसे अभिधान कर उसमें प्रजाशब्दवाच्य जीवोंकी जो गति कही गई है, वह 'दहर ब्रह्म है' ऐसी प्रतीति कराती है, क्योंकि प्रतिदिन सुषुप्ति अवस्थामें जीवोंका ब्रह्ममें जाना दूसरी श्रुतिमें देखा जाता है—'सता सोम्यं' (हे सोम्य ! जब जीव सोता है, तब ब्रह्मके साथ एकीभूत होता है) इत्यादि । व्यवहारमें भी गाढ़ सुप्त पुरुष ब्रह्मीभूत, ब्रह्मताको प्राप्त हुआ कहा जाता है । उसी प्रकार प्रकृत दहरमें प्रयुक्त हुआ ब्रह्मलोकशब्द भी दहरमें जीव और

रत्नप्रभा

दहरं ब्रह्मस्वरूपं लोकम् अहरहः प्रत्यहं स्वापे गच्छन्त्यः तदात्मना स्थिता अप्य-
नृताज्ञानेनाऽऽवृताः तं न जानन्ति, अतः पुनरुचिष्ठन्ति इत्यर्थः । नन्वेतत्पदपरामृष्ट-
दहरस्य स्वापे जीवगम्यत्वेऽपि ब्रह्मत्वे किमायातमित्याशङ्क्य तथाहि दृष्टमिति
व्याचष्टे—तथाहीति । लोकेऽपि दृष्टमित्यर्थान्तरमाह—लोकेऽपीति । गति-
लिङ्गं व्याख्याय शब्दं व्याचष्टे—तथेति । जीवभूताकाशयोः ब्रह्मलोकशब्दस्य

रत्नप्रभाका अनुवाद

यद्यपि सब जीव हृदयकमलके अन्दर रहनेवाले दहराकाशसंज्ञक ब्रह्मरूप लोकको प्राप्त होकर तद्रूप हो जाते हैं, तो भी अनादि अविचारूप अन्धकारसे आवृत्त होनेके कारण उसको कोई नहीं जान पाते, इससे पुनः जागते हैं, यह श्रुतिकार्य है । 'एतं ब्रह्मलोकम्' में 'एतत्' पदसे परामृष्ट दहरमें स्वाप-कालमें जीव जावें, किन्तु इस कथनसे 'वह ब्रह्म है' यह कैसे सिद्ध हुआ ऐसी शङ्का करके सूत्रगत 'तथाहि दृष्टम्' का व्याख्यान करते हैं—'तथाहि' इत्यादिसे । 'तथाहि दृष्टम्' का लोकमें भी देखा गया है, ऐसा दूसरा अर्थ करते हैं—'लोकेऽपि' इत्यादिसे । गतिरूप लिङ्गकी व्याख्या करके शब्दकी व्याख्या करते हैं—'तथा' इत्यादिसे । तात्पर्य यह कि जीव और भूताकाशमें

भाष्य

ननु कमलासनलोकमपि ब्रह्मलोकशब्दो गमयेत्, गमयेद्यदि ब्रह्मणो लोक

भाष्यका अनुवाद

भूताकाशकी आशङ्काको निवृत्त करके 'दहर ब्रह्म है' ऐसी अवगति कराता है। परन्तु ब्रह्मलोकशब्द तो हिरण्यगर्भलोककी भी अवगति कराता है। हां, अवश्य

रत्नप्रभा

अप्रसिद्धेरिति भावः । ब्रह्मणि अपि तस्य अप्रसिद्धिं शङ्कते—नन्विति । निपाद-
स्वपतिन्यायेन समाधत्ते—गमयेदिति । पठे चिन्तितम् "स्वपतिर्निपादः

रत्नप्रभाका अनुवाद

ब्रह्मलोकशब्दका प्रयोग प्रसिद्ध न होनेके कारण जीव और भूताकाश दहर नहीं है। ब्रह्ममे भी ब्रह्मलोकशब्द अप्रसिद्ध है, ऐसी शङ्का करते हैं—"ननु" इत्यादिसे। निपादस्वपतिन्यायसे इसका समाधान करते हैं—"गमयेद्" इत्यादिसे। मीमांसादर्शनके छठे अध्यायमें इसका विचार किया गया है—"स्वपतिर्निपादः०" (स्वपति निपाद है, क्योंकि निपादशब्दकी शक्ति निपादमें

(१) वास्तुप्रकरणमें रौद्रेष्टिका विधान है, जिससे रुद्र सन्तुष्ट होकर प्रजाओंको शान्ति देता है। उसमें कहा है—'एतया निषादस्वपति याजेयद्' (निपादस्वपतिसे रौद्रेष्टि करानी चाहिए)। इस वाक्यमें संशय होता है कि निपादस्वपति कौन है? यद्यमें अधिकृत त्रैवर्णिकोंमेंसे कोई है अथवा उनसे भिन्न निपाद है?

पूर्वपक्षी कहता है कि त्रैवर्णिकोंमेंसे अन्यतम है, क्योंकि विद्वत्ता और भक्ति होनेके कारण वह समर्थ है। अतः 'निषादस्वपति' शब्दसे 'निषादोंका स्वपति' इस षष्ठी समासद्वारा त्रैवर्णिकोंका ही ग्रहण करना चाहिए। स्वपति—स्वामी।

सिद्धान्ती कहते हैं कि स्वपति निपाद ही है, क्योंकि निपादशब्द निषादमें शक्त है। 'निषादोंका स्वपति' यह अर्थ तो लक्षणासे करना पड़ता है। शक्ति और लक्षणामेंसे जब शक्तिसे अर्थ उपपन्न हो रहा है तब लक्षणासे अर्थ करना ठीक नहीं है। यदि कोई कहे कि 'निषाद' शब्दका अर्थ निषाद ही है, षष्ठीका अर्थ संबन्ध है, अतः 'निषाद' पदकी लक्षणाकी आवश्यकता नहीं है, यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि षष्ठीका अर्थन नहीं है। यदि कोई कहे कि यहाँ षष्ठीका लोप हुआ है, लोपसामर्थ्यसे अर्थका ज्ञान होता है। ठीक है, अर्थका ज्ञान तो होता है, परन्तु लोपसामर्थ्यसे नहीं होता है, किन्तु 'निषाद' शब्दकी लक्षणासे होता है। और यह पहले ही कह दिया है कि लक्षणासे अर्थ करना ठीक नहीं है। समानाधिकरण समास तो बलवाग् है, क्योंकि किसी पदकी लक्षणा नहीं करनी पड़ती है। 'निषादस्वपति' में जो द्वितीयाविभाक्ति है, वह निषाद और स्वपति, इन दोनों पदोंसे सबन्ध रखती है। इससे निषादाभिन्न स्वपतिसे याग कराना चाहिए, यह अर्थ होता है। अतः निषाद ही स्वपति है। और रौद्रेष्टिमें दक्षिणाप्रकरणमें कहा है 'कूटं दक्षिणा' (दक्षिणारूपमें लोहमुद्र देना चाहिए) लोहमुद्र निषादोंका उपकारक पदार्थ है, यह उन्हींके पास रहता है, त्रैवर्णिकोंके पास उसके रहनेकी आवश्यकता नहीं है। इससे भी सिद्ध होता है कि निषाद ही रौद्रेष्टिमें अधिकारी माना गया है। यह निषादस्वपतिन्याय कहलाता है।

भाष्य

इति पृष्ठीसमासवृत्त्या व्युत्पाद्येत । सामानाधिकरण्यवृत्त्या तु व्युत्पाद्य-
मानो ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोक इति परमेव ब्रह्म गमयिष्यति । एतदेव चाऽहर-
हर्मलोकगमनं दृष्टं ब्रह्मलोकशब्दस्य सामानाधिकरण्यवृत्तिपरिग्रहे लिङ्गम् ।
न ब्रह्महरहरिमाः प्रजाः कार्यब्रह्मलोकं सत्यलोकारूपं गच्छन्तीति शक्यं
कल्पयितुम् ॥ १५ ॥

भाष्यका अनुवाद

करा सकता है, यदि 'ब्रह्मका लोक' इस प्रकार पृष्ठीसमाससे यह शब्द व्युत्पन्न
किया जाय । किन्तु 'ब्रह्मरूप जो लोक वह ब्रह्मलोक है' इस प्रकार सामानाधि-
करण्यव्युत्पत्तिसे व्युत्पन्न हुआ ब्रह्मलोकशब्द परब्रह्मका ही बोध कराता है ।
प्रतिदिन ब्रह्मलोक गमन ही ब्रह्मलोकशब्दकी सामानाधिकरण्यव्युत्पत्ति माननेमें
हेतु है । प्रतिदिन ये जीव सत्यलोकसंज्ञक कार्यब्रह्मलोकमें जाते हैं, ऐसी कल्पना
नहीं की जा सकती ॥ १५ ॥

रत्नप्रभा

स्याच्छब्दसामर्थ्यात्" (जे० सू० ६।१।५१) रौद्रीमिष्टि विधाय एतया निपाद-
स्थपतिं याजयेदिति आग्नायते । तत्र निपादानां स्थपतिः स्वामी इति पृष्ठीसमासेन
त्रैवर्णिको ब्राह्मः, अग्निविद्यादिसामर्थ्यात् । न तु निपादश्चासौ स्थपतिरिति कर्म-
धारयेण निपादो ब्राह्मः, असामर्थ्यादिति प्राप्ते सिद्धान्तः—निपाद एव स्थपतिः
स्यात्, निपादशब्दस्य निपादे शक्तत्वात् । तस्य अश्रुतपठ्यर्थसम्बन्धलक्षकत्व-
कल्पनायोगात् श्रुतद्वितीयाविभक्तेः पूर्वपदसम्बन्धकल्पनायां लाघवात्, अतो
निपादस्य इष्टिसामर्थ्यमात्रं कल्पयामि । तद्ब्रह्म ब्रह्मलोकशब्दे कर्मधारय इत्यर्थः ।
कर्मधारये लिङ्गं चास्तीति व्याचष्टे—एतदेवेति । सूत्रे चकार उक्तन्याय-
समुच्चार्यः ॥ १५ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

है) इस सूत्रमें । रुद्रदेवताक इष्टि करके 'एतया निपाद०' (इससे निपादस्थपतिको यज्ञ करावे)
ऐसी श्रुति है । इनमें 'निपादानां०' अर्थात् निपादोंका स्वामी ऐसा पृष्ठीसमास मानकर
त्रैवर्णिकका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उसमें अग्नि, विद्या आदि सामर्थ्य है, परन्तु निपाद-
रूप स्थपति-यह अर्थ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं है ऐसा प्राप्त होनेपर
सिद्धान्त किया है कि निपादरूप स्थपतिको ही ग्रहण करना चाहिए क्योंकि निपादशब्द निपाद-
रूप अर्थमें रूढ है । जो पृष्ठीविभक्ति अधुत है, उसके अर्थ-संबन्धका 'निपाद' पद लक्षक है,
यह कल्पना ठीक नहीं है । जो द्वितीयाविभक्ति श्रुत है, उसका पूर्वपदके साथ संबन्ध माननेमें लाघव
है । इसलिये इष्टिमें निपादके अधिकारमात्रकी कल्पना करनी ठीक है । उसी प्रकार ब्रह्मलोकशब्दमें
कर्मधारय है और कर्मधारयसमास माननेमें हेतु भी है ऐसा कहते हैं—“एतदेव” इत्यादिसे ।
सूत्रगत चकार उक्त (निपादस्थपति) न्यायका समुच्चार्य है ॥ १५ ॥ ।

धृतेश्च महिम्नोऽस्यास्मिन्नुपलब्धेः ॥ १६ ॥

पदच्छेद—धृतेः, च, महिम्नः, अस्य, अस्मिन्, उपलब्धेः ।

पदार्थोक्ति—धृतेश्च—‘अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिः’ इति श्रुताया धृतेरपि हेतोः दहराकाशः परमात्मैव, अस्य महिम्नः—अस्य च सर्वलोक-विधारणलक्षणमहिम्नः, अस्मिन्—परमात्मनि, उपलब्धेः—‘एष भूतपाल एष सेतुर्विधारणः’ इत्यादिश्रुत्यन्तरेऽप्युपलब्धेः [अत्र धृतिः परमात्मन एव] ।

भाषार्थ—‘अथ य आत्मा०’ (उक्तलक्षण जो आत्मा है, वह सेतु है, सबका धारण करनेवाला है) इत्यादि श्रुतिमें उक्त धृतिरूप कारणसे भी प्रतीत होता है कि दहर परमात्मा ही है । सब लोकोंको धारण करना, यह महिमा ‘एष भूतपालः०’ (यह परमात्मा भूतोंका पालक है, सेतु है, सबको धारण करनेवाला है) इत्यादि दूसरी श्रुतिसे भी परमात्मामें ही है, ऐसा माध्यम होता है, अतः यहाँ-पर भी धृति परमात्माकी ही है ।

—०००—

भाष्य

धृतेश्च हेतोः परमेश्वर एवाऽयं दहरः । कथम् ? ‘दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः’ इति हि प्रकृत्याऽऽकाशौपम्यपूर्वकं तस्मिन् सर्वसमाधानमुक्त्वा तस्मिन्नेव चाऽऽत्मशब्दं प्रयुज्याऽपहतपाप्मत्वादिगुणयोगं चोपदिश्य भाष्यका अनुवाद

धृतिरूप हेतुसे भी दहर परमेश्वर ही है, क्योंकि ‘दहरोऽस्मिन्न०’ (इसमें दहर अन्तराकाश है) इस तरह आरम्भ करके आकाशके साथ सादृश्य दिखाकर, उसमें सब वस्तुएँ प्रतिष्ठित हैं, यह कहकर, उसीमें आत्मशब्दका प्रयोग करके,

रत्नप्रभा

सर्वज्ञगद्धारणलिङ्गाच्च दहरः पर इत्याह—धृतेरिति । ननु अथशब्दाद् दहरप्रकरणं विच्छिद्य श्रुता धृतिर्न दहरलिङ्गमिति शङ्कते—कथमिति । य आत्मेति

रत्नप्रभाका अनुवाद

सर्वज्ञगद्धारणकर्तृत्वरूप लिङ्गसे भी दहर परमात्मा ही है, ऐसा कहते हैं—‘धृतेः’ इत्यादिमें । परन्तु धृतिमें ‘अथ’ शब्दमें सूचित दहरप्रकरणकी समाप्तिके बाद जो धृति कही गई है, वह ‘दहर परमात्मा है’ इस विषयमें लिङ्ग नहीं हो सकती है, ऐसी शङ्का करते हैं—‘कथम्’ से । ‘य आत्मा’ इस प्रकार प्रष्टनकी ही अनुष्ठिति की गई है, इसलिए ‘अथ’ शब्द

भाष्य

तमेवाऽनतिवृत्तप्रकरणं निर्दिशति—‘अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिरेषां लोकानामसम्भेदाय’ (छा० ८।४।१) इति । तत्र विधृतिरित्यात्मशब्द-सामानाधिकरण्याद् विधारयिता उच्यते, क्विचः कर्तरि स्मरणात् । यथो-दकसन्तानस्य विधारयिता लोके सेतुः क्षेत्रसम्पदामसम्भेदाय, एवमयमात्मैषामध्यात्मादिभेदभिन्नानां लोकानां वर्णाश्रमादीनां च विधारयिता सेतुरसम्भेदायाऽसंकरायेति । एवमिह प्रकृते दहरे विधारणलक्षणं महि-

भाष्यका अनुवाद

पापराहित्य आदि गुणोंका संबन्ध दिखाकर प्रकरण समाप्त होनेके पहले उसीका अथ य आत्मा०’ (जो आत्मा है, यह सेतु है, इन लोकोंकी मर्यादाका साङ्कर्य न हो, इसलिए सबका विधारक है) इस प्रकार श्रुति निर्देश करती है । उसीमें विधृतिशब्दका आत्मशब्दके साथ सामानाधिकरण्य होनेसे ‘विधारण करने-वाला’ ऐसा अर्थ है, क्योंकि ‘क्विच्’ प्रत्ययका कर्ताके अर्थमें विधान है । जैसे उदकसन्तानका विधारण करनेवाला सेतु लोकमें क्षेत्रसंपत्तिका मिश्रण न होनेके लिए है, उसी प्रकार यह आत्मा अध्यात्म आदि भेदसे मित्र लोकोंका और वर्ण, आश्रम आदिका विधारण करनेवाला सेतु असम्भेदके लिए—सङ्कर न होनेके लिए है । इस प्रकार यहां प्रकृत दहरमें विधारणरूप महिमा श्रुति दिखलाती है

रत्नप्रभा

प्रकृतापकर्षादथशब्दो दहरस्य धृतिगुणविधिप्रारम्भार्थं इत्याह—दहरोऽस्मिन्नित्यादिना । श्रुतौ विधृतिशब्दः कर्तृवाचित्वात् क्विजन्तः । सूत्रे तु महिमशब्दसामानाधिकरण्याद् धृतिशब्दः क्विजन्तो विधारणं व्रूते । “स्त्रियां क्विन्” (पा० सू० ३।३।९४) इति भावे क्विनो विधानादिति विभागः । सेतुः असङ्करहेतुः, विधृतिस्तु स्थितिहेतुरित्यपौनरुक्त्यमाह—यथोदकेति । सूत्रं योजयति—

रत्नप्रभाका अनुवाद

दहरमें धृतिरूप गुणविधानका प्रारम्भवाचक है, ऐसा कहते हैं—“दहरोऽस्मिन्” इत्यादिसे । श्रुतिमें ‘विधृति’ शब्द कर्तृवाचक है, इसलिए ‘क्विन्’ प्रत्ययान्त है । सूत्रमें तो ‘महिम’ शब्दके साथ सामानाधिकरण्य होनेसे ‘धृति’ शब्द ‘क्विन्’ प्रत्ययान्त है और विधारण-वाचक है, क्योंकि ‘स्त्रियां क्विन्’ इससे भावमें ‘क्विन्’ प्रत्ययका विधान है । सेतु असङ्करका कारण अर्थात् मिश्रण न हो, उसमें कारण है और विधृति स्थितिका हेतु है, इस प्रकार पुनरुक्ति नहीं है,

भाष्य

मान दर्शयति । अयं च महिमा परमेश्वर एव श्रुत्यन्तरादुपलभ्यते, 'एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः' इत्यादेः । तथाऽन्यत्राऽपि निश्चिते परमेश्वरवाक्ये श्रूयते—'एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुविधरण एषां लोकानामसम्भेदाय' इति । एषं धृतेश्च हेतोः परमेश्वर एवाऽयं दहरः ॥ १६ ॥

भाष्यका अनुवाद

ओर यह महिमा 'एतस्य वा अक्षरस्य०' (हे गार्गी ! इसी अक्षरकी आज्ञामें सूर्य और चन्द्रमा हैं, उनका यही विधारक है) इत्यादि दूसरी श्रुतिसे परमेश्वरमें ही उपलब्ध होती है । इसी प्रकार दूसरे स्थलपर 'एष सर्वेश्वर एष०' (यही सर्वेश्वर है, भूतोंका पालक है, सेतु है, इन लोकोंकी मर्यादाका सफर न हो, इसलिए विधारक है) इत्यादि असन्दिग्ध परमेश्वरवाक्यमें सुना जाता है । इस प्रकार सिद्ध हुआ कि धृतिरूप हेतुसे दहर परमेश्वर ही है ॥ १६ ॥

रत्नप्रभा

एवमिहेति । धृतेश्च दहर पर अस्य धृतिरूपस्य नियमनस्य च महिम्न अस्मिन् परमात्मन्येव श्रुत्यन्तरे उपलब्धेरिति सूत्रार्थः । धृतेश्चेति चकारात् सेतुपदोक्त-नियामकत्वलिङ्गब्राह्मम् । तत्र नियमने श्रुत्यन्तरोपलब्धिमाह—इतरेति । धृतो तामाह—तथेति ॥ १६ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

ऐसा कहते हैं—“ययोदक इत्यादिसे । सूत्रकी योजना करते हैं—“एवमिह' इत्यादिसे । धृतिसे दहर परमात्मा है, क्योंकि यह धृतिरूप नियमन जा महिमा है उसकी इस परमात्मामें ही दूसरी धृतिमें उपलब्धि है ऐसा सूत्रार्थ है । 'धृतेश्च' में चकारसे सेतुपदसे उक्त नियामकत्वरूप लिङ्गका भी ग्रहण करना चाहिए । इस नियमनके लिए दूसरी धृति है, ऐसा कहते हैं—'एतस्य' इत्यादिसे । धृतिमें अन्य श्रुति कहते हैं—“तथा" इत्यादिसे ॥१६॥



प्रसिद्धेश्च ॥ १७ ॥

पदच्छेद—प्रसिद्धेः, च ।

पदार्थोक्ति—प्रसिद्धेः—‘आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निर्वहिता’ इत्यादि-
श्रुतौ आकाशशब्दस्य परमात्मन्येव प्रसिद्धेः, च—अपि [दहराकाश. परमात्मैव] ।

भाषार्थ—‘आकाशो वै०’ (प्रसिद्ध आकाश ही नाम और रूपका निर्माण
करनेवाला है) इत्यादि श्रुतिमें आकाशशब्द परमात्मामें ही रूढ है, इससे भी
प्रतीत होता है, कि दहराकाश परमात्मा ही है ।



भाष्य

इतश्च परमेश्वर एव ‘दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः’ इत्युच्यते । यत्कारण-
माकाशशब्दः परमेश्वरे प्रसिद्धः । आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निर्व-
हिता’ (छा० ८।१४।१), ‘सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्प-
द्यन्ते’ (छा० १।१।१) इत्यादिप्रयोगदर्शनात् । जीवे तु न क्वचिदाकाश-
शब्दः प्रयुज्यमानो दृश्यते । भूताकाशस्तु सत्यामप्याकाशशब्दप्रसिद्धा-
बुपमानोपमेयभावाद्यसम्भवान्न ग्रहीतव्य इत्युक्तम् ॥ १७ ॥

भाष्यका अनुवाद

वक्ष्यमाण हेतुसे भी ‘दहरोऽस्मि०’ इस वाक्यमें परमेश्वर ही कहा गया है,
क्योंकि ‘आकाशो वै नाम०’ (श्रुतियोंमें आकाशनामसे प्रसिद्ध आत्मा नाम
और रूपका निर्माण करनेवाला है) ‘सर्वाणि ह वा०’ (ये सब भूत आकाशसे
ही उत्पन्न होते हैं) इत्यादि प्रयोगोंको देखनेसे मालूम होता है कि आकाशशब्द
परमेश्वरका वाचक है । जीवके लिए तो आकाशशब्दका प्रयोग किसी स्थलपर
भी देखनेमें नहीं आता । यद्यपि भूताकाशमें आकाशशब्दकी प्रसिद्धि है, तो
भी उपमानोपमेयभाव आदिके असामञ्जस्यसे उसका ग्रहण करना उचित नहीं है,
ऐसा पीछे (१४ वे सूत्रमें) कहा गया है ॥ १७ ॥

रत्नप्रभा

प्रसिद्धेश्च । आ संमन्तात् काशते दीप्यत इति स्वयज्योतिषि ब्रह्मण्या-
काशशब्दस्य विभुत्वगुणतो वा प्रसिद्धिः प्रयोगप्राचुर्यम् ॥ १७ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

चारों ओर जो प्रकाशित होता है, वह आकाश है, इस व्युत्पत्तिसे अथवा विभुत्वगुणसे
स्वयंज्योति ब्रह्ममें आकाशशब्दकी प्रसिद्धि—प्रयोगवाहुव्य है ॥ १७ ॥

इतरपरामर्शात् स इति चेन्नासम्भवात् ॥ १८ ॥

पदच्छेद—इतरपरामर्शात्, सः, इति, चेत्, न, असम्भवात् ।

पदार्थोक्ति—इतरपरामर्शात्—‘एष सम्प्रसादः’ इति सम्प्रसादशब्देन अस्मिन् प्रकरणे इतरस्य—जीवस्य परामर्शात्, सः—जीवः [दहराकाशः] इति चेत्, न, असम्भवात्—आकाशोपमेयत्वापहततापमत्वादिधर्माणां जीवेऽसम्भवात् ।

भाषार्थ—‘एष सम्प्रसादः’ इस प्रकार इस प्रकरणमें सम्प्रसादशब्दसे जीवना परामर्श होता है, इसलिए जीव दहराकाश है, यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि आकाशका उपमेय होना, पापरहित होना आदि धर्म जीवमें सम्भव नहीं हैं ।

— ० —

भाष्य

यदि वाक्यशेषबलेन दहर इति परमेश्वरः परिगृह्येताऽस्ति हीतरस्याऽपि जीवस्य वाक्यशेषे परामर्शः—‘अथ य एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाऽमिनिष्पद्यत एष आत्मेति होवाच’ (छा० ८।३।४) इति । अत्र हि सम्प्रसादशब्दः श्रुत्यन्तरे सुपुत्रा-

भाष्यका अनुवाद

वाक्यशेषके बलसे यदि यह स्वीकार किया जाय कि दहरशब्दसे परमेश्वरका ग्रहण है तो ‘अथ य एष सम्प्रसादो’ (जो यह जीव इस शरीरसे उठकर पर ज्योति प्राप्त करके अपने स्वरूपसे अभिव्यक्त होता है, वह आत्मा है, ऐसा प्रजापतिने कहा है) इस वाक्यशेषमें दूसरेका अर्थात् जीवका भी परामर्श होता है ।

रत्नप्रभा

यदि “एष आत्माऽपहततापमा” (छा० ८।१।५) इत्यादिवाक्यशेषबलेन दहरः परः, तर्हि जीवोऽपीत्याशङ्क्य निषेधति—इतरेति । जीवस्याऽपि वाक्यशेषमाह—अथेति । दहरोक्त्यनन्तरं मुक्तोपसृप्यं शुद्धं ब्रह्म उच्यते । य एष सम्प्रसादः—

रत्नप्रभाका अनुवाद

‘एष आत्मा०’ (यह आत्मा है, पापविमुक्त है) इत्यादि वाक्यशेषके बलसे यदि दहर परमात्मा है, तो जीव भी है, ऐसी आशङ्का करके निषेध करते हैं—“इतर” इत्यादिसे । जीवके प्रतिपादक वाक्यशेषको दिखायते हैं—“अथ” इत्यादिसे । दहरके कथनके अनन्तर मुक्तोसे गम्य शुद्ध ब्रह्म कहा गया है । जो यह सम्प्रसाद—जीव है, यह इस

भाष्य

वस्थायां दृष्टत्वात् तदवस्थावन्तं जीवं शक्नोत्पुपस्थापयितुम्, नार्थान्तरम् । तथा शरीरव्यपाश्रयस्यैव जीवस्य शरीरात् समुत्थानं सम्भवति । यथाऽऽकाश-
व्यपाश्रयाणां वाय्वादीनामाकाशात् समुत्थानं तद्वत् । यथा चाऽदृष्टोऽ-
पि लोके परमेश्वरविषय आकाशशब्दः परमेश्वरधर्मसमभिव्याहारात्

भाष्यका अनुवाद

दूसरी श्रुतिमें सम्प्रसादशब्दका सुपुत्ति-अवस्थारूप अर्थमें प्रयोग है, इसलिए वह यहाँ उस अवस्थावाले जीवको ही जता सकता है, दूसरेको नहीं जता सकता । जैसे आकाशमें रहनेवाले चायु आदिका आकाशसे निकलना सम्भव है, उसी प्रकार शरीरमें रहनेवाले जीवका शरीरसे उठना सम्भव है । जैसे लोक-व्यवहारमें आकाशशब्दका परमेश्वरमें प्रयोग न दिखाई देने पर भी 'आकाशो

रत्नप्रभा

जीवः, अस्मात्—कार्यकरणसंघातात् सम्यग् उत्थाय—आत्मानं तस्माद् विविच्य विविक्तम् आत्मानं स्वेन ब्रह्मरूपेण अभिनिष्पद्य—साक्षात्कृत्य तदेव प्रत्यक् परं ज्योतिः उपसम्पद्यते—प्राप्नोतीति व्याख्येयम् । यथा मुखं व्यादाय स्वपितीति वाक्यं सुप्त्वा मुखं व्यादचे इति व्याख्यायते तद्वत् । ज्योतिपोऽनात्मत्वं निरस्यति—
एष इति । “सम्प्रसादे रत्वा चरित्वा” (बृ०४।३।४५) इति श्रुत्यन्तरम् । अवस्थावदुत्थानमपि जीवस्य लिङ्गमित्याह—तथेति । तदाश्रितस्य तस्मात् समुत्थाने दृष्टान्तः—यथेति । ननु क्वाऽपि आकाशशब्दो जीवे न दृष्ट इत्याशङ्क्य उक्तावस्थोत्थानलिङ्गबलात् कल्प्य इत्याह—यथा चेति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

देहेन्द्रिय समूहसे समुत्थान करके—उससे आत्माका विवेक करके विविक्त आत्माका स्वरूपसे—
ब्रह्मरूपसे साक्षात्कार करके उसी प्रत्यक् पर ज्योतिको प्राप्त करता है, ऐसी श्रुतिकी व्याख्या समझना चाहिए । जैसे 'मुखं व्यादाय०' इस वाक्यका अर्थ—'सोकर मुख खोलता है'—
किया जाता है, वैसे ही 'परं ज्योतिरुपसम्पद्य०' का अर्थ—'अपने रूपका साक्षात्कार करके पर ज्योति प्राप्त करता है—करना चाहिए । ज्योति अनात्मा है, इस शङ्काका निरसन करते हैं—“एष” इत्यादिसे । 'सम्प्रसादे रत्वा०' (सुपुत्त्यवस्थामें रमणकर, चलकर) इत्यादि दूसरी श्रुति है । सम्प्रसाद अवस्था जैसे जीवका लिङ्ग है, वैसे उत्थान भी जीवका लिङ्ग है, ऐसा कहते हैं—“तथा” इत्यादिसे । जो जिसके आश्रित रहता है, वह उससे उठता है, इसमें दृष्टान्त देते हैं—“यथा” इत्यादिसे । परन्तु किसी भी स्थलपर आकाशशब्द जीवमें प्रयुक्त नहीं देखा गया, ऐसी आशङ्का करके ऊपर कही गई अवस्था और उत्थानरूप लिङ्गसे इस अर्थकी कल्पना करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं—“यथा च” इत्यादिसे ।

भाष्य

‘आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निर्वहिता’ इत्येवमादौ परमेश्वरविषयोऽभ्युपगत एवं जीवविषयोऽपि भविष्यति । तस्मादितरपरामर्शात् ‘दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश’ इत्यत्र स एव जीव उच्यते इति चेत् ।

नैतदेवं स्यात् । कस्मात् ? असम्भवात् । नहि जीवो बुद्ध्याद्युपाधिपरिच्छेदाभिमानी सन्नाकाशेनोपमीयेत । न चोपाधिधर्मानभिमन्यमानस्याऽपहतपाप्मत्वादयो धर्माः सम्भवन्ति । प्रपञ्चितं चैतत् प्रथमसूत्रे । अतिरेकाशङ्कापरिहारायाञ्च तु पुनरुपन्यस्तम् । पठिष्यति चोपरिष्ठात् ‘अन्यार्थश्च परामर्शः’ (ब्र० १।३।२०) इति ॥ १८ ॥

भाष्यका अनुवाद

वै नाम०’ (श्रुतियोंमें आकाशनामसे प्रसिद्ध आत्मा नाम और रूपका निर्माण करनेवाला है) इत्यादिमें परमेश्वरके धर्मका निर्देश होनेके कारण आकाशशब्द परमेश्वरवाचक माना जाता है, उसी प्रकार जीवका वाचक भी माना जा सकता है, इसलिए अन्यके अर्थात् जीवके परामर्शसे ‘दहरोऽस्मि०’ वाक्यमें जीव ही कहा गया है ।

यह कथन ठीक नहीं है । किससे ? असम्भवसे । क्योंकि बुद्धि आदि उपाधियोंके अभिमानी जीवको आकाशकी उपमा नहीं दी जा सकती और उपाधिगत धर्मोंके अभिमानीमें पापराहित्य आदि धर्म सम्भव नहीं हैं । इस अधिकरणके प्रथम सूत्रमें इसका विस्तारसे वर्णन किया जा चुका है, यहां तो वक्ष्यमाण अधिक शङ्काके परिहारके लिए इसका पुनः उपन्यास किया है और आगे ‘अन्यार्थश्च०’ सूत्रमें जीवपरामर्शका प्रयोजन कहेंगे ॥ १८ ॥

रत्नप्रभा

नियामकाभावाद् जीवो दहरः किं न स्यादिति प्राप्ते नियामकमाह—नैतदित्यादिना । दहरे श्रुतधर्माणामसम्भवाद् न जीवो दहर इत्यर्थः । तर्हि पुनरुक्तिः, तत्राह—अतिरेकेति । उत्तराच्चेत्याधिकाशङ्कानिरासार्थमित्यर्थः । का तर्हि जीवपरामर्शस्य गतिः, तत्राह—पठिष्यतीति । जीवस्य स्वापस्थानमृतब्रह्मज्ञानार्थोऽयं परामर्श इति वक्ष्यते ॥ १८ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

यदि कोई नियामक ही नहीं तो दहरका अर्थ जीव क्यों न हो, ऐसा प्राप्त होनेपर नियामकका प्रतिपादन करते हैं—“नैतद्” इत्यादिसे । श्रुतिप्रतिपादित दहरके धर्मोंका जीवमें संभव न होनेसे जीव दहर नहीं है, यह अर्थ है । तब पुनरुक्ति है, इसपर कहते हैं—“अतिरेक” इत्यादि । तात्पर्य यह कि ‘उत्तराच्चे०’ इस सूत्रसे कही जानेवाली अधिक शङ्काका निरास करनेके लिए है । तब जीवका जो परामर्श है, उसकी क्या गति होगी ? इसपर कहते हैं—“पठिष्यति” इत्यादि । जबके स्वापस्थानभूत ब्रह्मके ज्ञानके लिए यह परामर्श है, ऐसा कहेंगे ॥ १८ ॥

उत्तराच्चेदाविर्भूतस्वरूपस्तु ॥ १९ ॥

पदच्छेद—उत्तराद्, चेद्, आविर्भूतस्वरूपः, तु ।

पदार्थोक्ति—उत्तराद्—‘य एपोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते’ इत्याद्युत्तरप्रजापतिवाक्याद् [जीवेऽपहतपाप्मत्वादिधर्मोक्तेः जीव एव दहराकाश इति] चेत्, तु—नैतदेवम् [यतः] आविर्भूतस्वरूपः—आविर्भूतपरमार्थस्वरूपः [जीव एव तत्र विवक्षितः, न तु जीवत्वविशिष्टः, अतः जीवो न दहरः किन्तु ब्रह्मैव] ।

भाषार्थ—‘य एपोऽक्षिणि०’ (यह जो आँखमें पुरुष दीखता है, वह आत्मा है) इत्यादि अग्रिम प्रजापतिवाक्यसे जीवमें अपहतपाप्मत्व आदि धर्म कहे गये हैं, अतः जीव ही दहराकाश है, ऐसा यदि कोई कहे, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उस वाक्यमें परमार्थस्वरूप—ब्रह्मभूत जीव ही विवक्षित है, जीवत्वधर्मविशिष्ट जीव विवक्षित नहीं है, अतः जीव दहराकाश नहीं है, किन्तु ब्रह्म ही दहराकाश है ।

१. वैयासिकन्यायमाला, ब्रह्मविद्याभरण आदिको देखनेसे प्रतीत होता है कि इस छत्रसे पृथक् आधिकरण आरम्भ होता है, किन्तु भाष्य एवं रत्नप्रभाके अनुसार पृथक् आधिकरणकी प्रतीति नहीं होती । इसलिये पृथक् आधिकरण न देकर पाठकोंके अवगमनके लिए टिप्पणीरूपसे आधिकरण-सार आदिका निर्देश किया जाता है—

[उचाराधिकरण]

यः प्रजापतिविद्यायां स किं जीवोऽथवेऽवरः ।

जाग्रत्स्वप्नसुप्तोक्तेस्तद्धान् जीव इहोचितः ॥१॥

आत्माऽपहतपाप्मेति प्रक्रम्यान्ते स उत्तमः ।

पुमानित्युक्त ईशोऽत्र जाग्रदाद्यवबुद्धये ॥२॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—प्रजापतिविद्यामें उक्त पुरुष जीव है अथवा ईश्वर ?

पूर्वपक्ष—जाग्रत्, स्वप्न और सुप्ति अवस्थाएँ कही गई हैं, अतः उन अवस्थाओंके क जीवका ही उक्त विद्यामें प्रतिपादन है ।

सिद्धान्त—श्रुतिमें ‘य आत्माऽपहतपाप्मा’ ऐसे ब्रह्मका उपक्रम करके ‘स उत्तमः रूपः’ इस प्रकार उपसंहारमें भी परमात्माका कथन है, अतः वह पुरुष परमेश्वर ही । जाग्रत् आदि अवस्थाओंका उपदेश परमेश्वरके बोधके लिए ही है ।

भाष्य

इतरपरामर्शाद् या जीवाशङ्का जाता साऽसम्भवान्निराकृता । अथेदानीं मृतस्येवाऽमृतसेकात् पुनः समुत्थानं जीवाशङ्कायाः क्रियते उत्तरस्मात् प्राजापत्याद्वाक्यात् । तत्र हि 'य आत्माऽपहतपाप्मा' इत्यपहतपाप्मत्वा-

भाष्यका अनुवाद

अन्यके परामर्शसे जो जीवकी आशङ्का उत्पन्न हुई थी, उसका परिहार जीवमें पापराहित्य आदि धर्मोंके असम्भवसे किया जा चुका है । अत्र अमृत छिड़कनेसे जैसे मरा हुआ जी जाता है, वैसे ही अनन्तरोक्त प्राजापतिवाक्यसे जीवकी शङ्काका पुनः उत्थान करते हैं । क्योंकि वहां 'य आत्मा०' (जो आत्मा है

रत्नप्रभा

असम्भवदिति हेतोः असिद्धिमाशङ्क्य परिहरति—उत्तराचेदिति । निराकृताया जीवाशङ्कायाः प्राजापतिवाक्यबलात् पुनः समुत्थानं क्रियते । तत्र जीवस्यैव

रत्नप्रभाका अनुवाद

पूर्व सूत्रमें असम्भवरूप हेतु कहा गया है, वह असम्भवरूप हेतु असिद्ध है ऐसी शङ्का करके उसका परिहार करते हैं—“उत्तराचेत्” इत्यादिते । पूर्वमें निराकृत जीवकी शङ्काका प्राजापतिवाक्यके बलसे पुनः उत्थान किया जाता है । प्राजापतिवाक्यमें पापराहित्य आदि

अर्थात् दहराविद्याके अनन्तर उक्त प्राजापति विद्यामें इन्द्र, विरोचन और प्राजापतिके संवादमें “य एषोऽक्षिणि पुरुषो हृदयते एष आत्मेति होवाच” ऐसी श्रुति है । श्रुतिका अर्थ है कि यह जो आँसुमें पुरुष दीखता है, वह आत्मा है, ऐसा प्राजापतिने कहा । उक्त श्रुतिमें प्रतिपादित पुरुष जीव है अथवा परमेश्वर ! यह सन्देह होनेपर पूर्वपक्षी कहना है कि 'अक्षिणि पुरुषः' (आँसुमें जो पुरुष है) इस प्रकार आग्रदवस्थाका 'य एष स्वप्ने महीयमानश्चरति' (यह जो स्वप्नमें वासनामय विषयोंसे पूज्यमान विचरता है) इस प्रकार स्वप्नावस्थाका 'सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्नं न विजानाति' (जब पुरुष गूढ निद्रामें सोता है, उसकी सब इन्द्रियों अपना अपना व्यापार त्याग देती है, प्रसन्न रहता है, स्वप्नको नहीं देखता है) इस प्रकार सुषुप्ति अवस्थाका उपन्यास है, अतः उक्त वाक्य उन अवस्थाओंसे विशिष्ट जीवका ही प्रतिपादन करता है ।

सिद्धान्ती कहता है कि यहाँ इन्द्रका ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि 'य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युः' (जो आत्मा पापराहित, जराशून्य, मरणरहित है) इस प्रकार उपक्रममें परमात्मा को कहकर 'स जन्तमः पुरुषः' (यह वेष्ट पुरुष है) इस प्रकार उपसंहारमें भी परमात्माका ही प्रतिपादन किया है । आग्रद् आदि अवस्थाओंका उपन्यास तो शास्त्राचन्द्रभाष्यसे परमात्माके बोधके लिए ही है । इसलिये अक्षिपुरुष परमात्मा ही है ।

भाष्य

दिगुणकमात्मानमन्वेष्टव्यं विजिज्ञासितव्यं च प्रतिज्ञाय 'य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मा' (छा० ८।७।४) इति ब्रुवन्नक्षिस्थं द्रष्टारं जीव-मात्मानं निर्दिशति । 'एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि' (छा० ८।९।३) इति च तमेव पुनः पुनः परामृश्य 'य एष स्वमे महीयमानश्चरत्येष आत्मा' (छा० ८।१०।१) इति, 'तद्यत्रैतत् सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्नं न वि-

भाष्यका अनुवाद

पापविमुक्त है) इस वाक्यसे पापराहित्य आदि धर्मवाला आत्मा अन्वेपणयोग्य है, विशेषरूपसे जिज्ञासायोग्य है, ऐसी प्रतिज्ञा करके 'य एषोऽक्षिणि०' (आँखमें जो यह पुरुष दीखता है, वह आत्मा है) ऐसा कहते हुए प्रजापति आँखमें रहनेवाले द्रष्टा जीवका आत्मरूपसे निर्देश करते हैं । 'एतं त्वेव ते०' (इस आत्माको ही मैं तुमसे फिर कहता हूँ) इस प्रकार उसीका बारंबार परामर्श करके 'य एष स्वप्ने०' (स्वप्नमें जो यह वासनामय विषयसे पूज्यमान विचरता है, यह आत्मा है) 'तद्यत्रैतत्सुप्तः०' (सुषुप्ति अवस्थामें पूर्वोक्त जो पुरुष गाढ़ निद्रामें सोया रहता है, जिसकी सब इन्द्रियाँ अस्त रहती हैं, फलुपता नष्ट हो गई रहती है,

रत्नप्रभा

अपहतपाप्मत्वादिग्रहणेन असम्भवासिद्धेरित्यर्थः । कथं तत्र जीवोक्तिः, तत्राह— तत्रेत्यादिना । यद्यप्युपक्रमे जीवशब्दो नास्ति, तथापि अपहतपाप्मत्वादिगुण-कमात्मानम् उपक्रम्य तस्य जाग्रदाद्यवस्थात्रयोपन्यासाद् अवस्थालिङ्गेन जीवनिश्चयात् तस्यैव ते गुणाः सम्भवन्तीति समुदायार्थः । इन्द्रं प्रजापतिः ब्रूते-य एष इति । प्राधान्याद् अक्षिग्रहणम् सर्वैरिन्द्रियैर्विषयदर्शनरूपजाग्रदवस्थापन्नमित्याह—द्रष्टारमिति । महीयमानः वासनामयैर्विषयैः पूज्यमान इति स्वप्नपर्याये, तद्यत्रेति सुषुप्तिपर्याये च जीवमेव प्रजापतिः व्याचष्टे इत्यन्वयः । यत्र काले तत्—एतत् स्वप्नं

रत्नप्रभाका अनुवाद

जीवके ही धर्म कहे गये हैं, अतः असम्भव सिद्ध नहीं होता, यह शङ्काका अर्थ है । ये धर्म जीवके किस प्रकार कहे गये हैं, इसपर कहते हैं—“तत्र” इत्यादि । यद्यपि उपक्रममें जीवशब्द नहीं है, तो भी पापराहित्य आदि गुणोंसे युक्त आत्माका उपक्रम करके जाग्रदादि तीन अवस्थाओंका उपन्यास किया है, इसलिए अवस्थारूप लिङ्गसे जीवका निश्चय होता है, उसके ही पापराहित्य आदि गुण हो सकते हैं, यह तात्पर्य है । इन्द्रसे प्रजापति कहते हैं—“य एष०” इत्यादि । प्रधान इन्द्रिय होनेके कारण धृतिमें अक्षिका ग्रहण है । “द्रष्टारम्” से भाष्यकार यह दिखलाते हैं कि जिस अवस्थामें सब इन्द्रियाँ अपने अपने विषयका ग्रहण करती हैं, उस जाग्रदवस्थाको प्राप्त हुए जीवका धृतिमें कथन है । महीयमानः—वासनामय

भाष्य

जानात्येव आत्मा' इति च जीवमेवाऽवस्थान्तरगतं व्याचष्टे । तस्यैव चाऽपहृतपाप्मत्वादि दर्शयति—'एतदमृतमभयमेतद् ब्रह्म' इति । 'नाह खल्वयमेवं सम्प्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि' (छा० ८।१।१, २) इति च सुपुत्रावस्थायां दोषमुपलभ्य 'एतं त्वेव ते भाष्यका अनुवाद

स्वप्नको नहीं जानता यह यह आत्मा है) इस प्रकार अन्य अवस्थाको प्राप्त हुए जीवका ही व्याख्यान करते हैं, 'एतदमृतं' (यह अमृत है, यह अभय है, यह ब्रह्म है) इस प्रकार उसीको पाप आदिसे रहित बताते हैं । 'नाह खल्वयमेवं' (निश्चय यह सुपुत्रि अवस्थामें 'यह मैं हूँ' इस प्रकार न आत्माको जानता है और न प्राणियोंको ही जानता है) इस प्रकार सुपुत्रि अवस्थामें दोष देखकर

रत्नप्रभा

यथा स्वात्तथा सुप्तः सम्यग् अस्तो निरस्तः करणग्रामो यस्य स समस्तः, अत एव उपसंहृतकरणत्वात् तत्कृतकालुष्यहीनः—संप्रसन्नः, स्वप्नं प्रपञ्चम् अज्ञानमात्रत्वेन विलापयति, अतोऽज्ञानसत्त्वाद् मुक्ताद् विलक्षणः भाज एषः स्वचैतन्येन कारण-शरीरसाक्षी तस्य साक्ष्यस्य सत्तास्फूर्तिप्रदत्वात् आत्मेत्यर्थः । चतुर्थपर्याये ब्रह्मोक्तेः तस्यैव अपहृतपाप्मत्वादिगुणा इत्याशङ्क्य तस्याऽपि पर्यायस्य जीवपरत्वमित्याह—नाहेति । अहेति—निपातः खेदार्थे । खिद्यमानो हि इन्द्र उवाच न खलु सुप्तः पुमान् अयं सम्प्रति सुपुत्र्यवस्थायाम् अयं देवदत्तोऽहमिति एवम् आत्मानं जानाति, नो एव—नैव इमानि भूतानि जानाति, किन्तु विनाशमेव प्राप्तो

रत्नप्रभाका अनुवाद

विषयोंसे पूज्यमान इस प्रकार स्वप्न पर्यायमें और 'तद्यज' इस प्रकार सुपुत्रि पर्यायमें जीवका ही प्रजापति उपदेश करते हैं, ऐसा अन्वय है । जब पुरुष गाव निद्रामें रहता है तब उसका सब इन्द्रियों अपने व्यापारसे सर्वथा रहित हो जाती हैं, इन्द्रियोंके व्यापारशून्य होनेके कारण ही विषयके सम्पर्कसे होनेवाली कल्पतासे रहित—संप्रसन्न होता है और स्वप्नरूप प्रपञ्चका अज्ञान-मात्रमें लय करता है, इसलिए अज्ञान होनेके कारण मुक्तसे विलक्षण यह प्राज्ञ स्वरूपभूत चैतन्यसे कारणदेहका साक्षी है और साक्ष्यको सत्ता और स्फूर्ति देनेके कारण आत्मा कहलाता है—यह श्रुतिका अर्थ है । चतुर्थ पर्यायमें ब्रह्म कहा गया है, इसलिए उसीके पापराहित्य आदि गुण हैं, ऐसी आशङ्का करके वह पर्याय मा जीवका ही प्रतिपादन करता है, ऐसा कहते हैं—'नाह' इत्यादिसे । 'अह' खेदसूचक निपात है । खिद्य होकर इन्द्र कहता है—निश्चय सुप्त पुरुष सुपुत्रि अवस्थामें 'मैं देवदत्त हूँ' इस प्रकार अपनेको नही जानता इसी प्रकार इन भूतोंको भी नहीं जानता, किन्तु विनाशको ही प्राप्त होता है । मैं इसमें कुछ भोग्य

भाष्य

भूयोऽनुव्याख्यास्यामि नो एवाऽन्यत्रैतस्मात्' इति चोपक्रम्य शरीरसम्बन्ध-
निन्दापूर्वकम् 'एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य
स्वेन रूपेणाऽभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः' इति जीवमेव शरीरात् समुत्थित-
सुत्तमं पुरुषं दर्शयति । तस्मादस्ति सम्भवो जीवे पारमेश्वराणां धर्मा-
णाम् । अतः 'दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः' इति जीव एवोक्त इति चेत्
कश्चिद् भ्रूयात् ।

तं प्रति भ्रूयात्—'आविर्भूतस्वरूपस्तु' इति । तुशब्दः पूर्वपक्षव्या-
भाष्यका अनुवाद

'एतं त्वेष ते भूयो०' (इसीको ही मैं तुमसे फिर कहता हूँ, इससे अन्यको
नहीं) ऐसा उपक्रम करके शरीरसंबन्धकी निन्दापूर्वक 'एष सम्प्रसादो०' (यह
जीव इस शरीरसे उठकर पर ज्योति प्राप्त कर अपने स्वरूपसे अभिव्यक्त होता
है) इस प्रकार शरीरसे उत्थित जीव ही उत्तम पुरुषरूपसे दिखलाया गया है ।
इसलिए जीवमें परमेश्वरके धर्मोंका संभव है । इस कारण 'दहरो०' इससे
जीव ही कहा गया है, ऐसा यदि कोई कहे ।

तो उससे कहना चाहिए कि 'आविर्भूत०' । इस सूत्र में 'तु' शब्द पूर्वपक्षकी

रत्नप्रभा

भवति । नाहमत्र भोग्यं पश्यामि इति दोषमुपलभ्य पुनः प्रजापतिम् उपससाद ।
तं दोषं श्रुत्वा प्रजापतिराह—एतमिति । एतस्मात् प्रकृतादात्मनः अन्यत्र अन्यं
न व्याख्यास्यामीति उपक्रम्य "मधवन्मर्त्यं वा इदं शरीरम्" (छा० ८।१२।१) इति
निन्दापूर्वकं जीवमेव दर्शयतीत्यर्थः । तस्मात्—प्रजापतिवाक्यात् । अतः—अस-
म्भवासिद्धेः ।

सिद्धान्तयति—तं प्रतीति । अवस्थान्रयात् शोधनेन आविर्भूतत्वम्—शोधितत्वम्
रत्नप्रभाका अनुवाद

नहीं देखता । इस प्रकार दोष जानकर इन्द्र फिर प्रजापतिके पास शिष्यरूपसे गया । उन दोषों
को सुनकर प्रजापतिने कहा—“एतम्” इत्यादि । आशय यह है कि इस प्रकृत आत्मासे
अन्यका मैं व्याख्यान नहीं करता हूँ, ऐसा उपक्रम करके 'मधवन्मर्त्यं०' (हे इन्द्र ! यह
शरीर नश्वर है) इस तरह निन्दापूर्वक जीवको ही दिखलाते हैं । 'तस्मात्—प्रजापतिके
वाक्यसे । 'अतः—असम्भवके सिद्ध न होनेसे ।

सिद्धान्त कहते हैं—“तं प्रति” इत्यादिसे । तानि अवस्थाओंसे शोधित होनेके कारण
आविर्भूत अर्थात् वाक्यसे उत्पन्न हुई शक्तिसे अभिव्यक्त हुआ अर्थ । ज्ञानसे जीवत्वकी

भाष्य

वृत्त्यर्थः । नोत्तरस्मादपि वाक्यादिह जीवस्याऽऽशङ्का सम्भवतीत्यर्थः । कस्मात् ? यतस्तत्राऽप्याविर्भूतस्वरूपो जीवो विवक्ष्यते । आविर्भूतं स्वरूप-मस्येत्याविर्भूतस्वरूपः । भूतपूर्वगत्या जीववचनम् ।

एतदुक्तं भवति—‘य एपोऽक्षिणि’ इत्यक्षिलक्षितं द्रष्टारं निर्दिश्यो-दशरावब्राह्मणैर्नैनं शरीरात्मताया व्युत्थाप्य ‘एतं त्वेव ते’ इति पुनः पुन-

भाष्यका अनुवाद

व्यावृत्तिके लिए है । अर्थात् उत्तरवाक्यसे भी यहां जीवकी आशङ्का नहीं हो सकती । क्योंकि उसमें भी आविर्भूतस्वरूप जीवकी विवक्षा है । जिसका स्वरूप आविर्भूत हुआ है, वह आविर्भूतस्वरूप कहलाता है । ‘भूतपूर्व जीवत्वकी अपेक्षासे यह कथन है ।

तात्पर्य यह है कि ‘य एपोऽक्षिणि’ इस प्रकार आँसूसे उपलक्षित द्रष्टाका निर्देश कर उदशरावब्राह्मणद्वारा शरीरसे इस जीवको अलग करके ‘एतं त्वेव

रत्नप्रभा

अर्थस्य वाक्योत्थवृत्त्यभिब्यक्तत्वमित्यर्थः । तर्हि सूत्रे पुँल्लिङ्गेन जीवोक्तिः कथम् ? ज्ञानेन जीवत्वस्य निवृत्तत्वादित्यत आह—भूतपूर्वेति । ज्ञानात् पूर्वमविद्या-तत्कार्यप्रतिबिम्बितत्वरूपं जीवत्वम् अभूदिति कृत्वा ज्ञानानन्तरं ब्रह्मरूपोऽपि जीव-नाम्ना उच्यते इत्यर्थः ॥

विश्वतैजसप्राज्ञतुरीयपर्यायचतुष्टयात्मकप्रजापतिवाक्यस्य तात्पर्यमाह—एतदि-त्ति । जन्मनाशवत्त्वात् प्रतिबिम्बवत् बिम्बदेहो नात्मा इति ज्ञापनार्थं प्रजापतिः इन्द्र-विरोचनौ प्रत्युवाच—“उदशरावे आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनो न विजानीथस्तन्मे प्रब्रूतम्” (छा० ८।८।१) इत्यादिब्राह्मणेन इत्याह—उदशरावेति । उदकपूर्णे शरावे प्रतिबिम्बितमात्मानम् देहं दृष्ट्वा स्वस्य अज्ञातं यत्तत् मह्यं वाच्यमिति उक्त-

रत्नप्रभाका अनुवाद

निवृत्ति तो हो ही गई, तब सूत्रमें पुँल्लिङ्गसे जीवका निर्देश कैसे किया गया ? इसपर कहते हैं—“भूतपूर्व” इत्यादि । आशय यह है कि ज्ञान होनेसे पहले अविद्या और उसके कार्यमें प्रतिबिम्बितस्वरूप जीवत्व था, इसलिए ज्ञान होनेके बाद ब्रह्मरूप होनेपर भी वह जीव कहलाता है ।

विश्व, तैजस, प्राज्ञ और तुरीय बोधक चार पर्यायरूप प्रजापतिके वाक्यका तात्पर्य कहते हैं—‘एतद्’ इत्यादिसे । जन्म-मरणशील होनेके कारण प्रतिबिम्बके समान बिम्ब देह भी आत्मा नहीं है । यह समझानेके लिए प्रजापतिने ‘उदशरावे’ इत्यादि ब्राह्मणसे इन्द्र और विरोचनके प्रति कहा, ऐसा कहते हैं—“उदशराव” इत्यादिसे । उदकपूर्ण

भाष्य

स्तमेव व्याख्येयत्वेनाऽऽकृष्य स्वप्नसुप्तोपन्यासक्रमेण 'परं ज्योतिरूपमम्पद्य स्वेन रूपेणाऽभिनिष्पद्यते' इति यदस्य पारमार्थिकं स्वरूपं परं ब्रह्म तद्रूप-
तयैवं जीवं व्याचष्टे न जैवेन रूपेण । यत्परं ज्योतिरूपसम्पत्तव्यं
श्रुतं तत्परं ब्रह्म, तच्चाऽपहृतपाप्मत्वादिधर्मकम्, तदेव च जीवस्य पार-
मार्थिकं स्वरूपम् 'तत्त्वमसि' इत्यादिशास्त्रेभ्यः, नेतरदुपाधिकल्पितम् ।

भाष्यका अनुवाद

ते०' (इसको ही तुमसे फिर कहता हूँ) इस तरह बारंबार उसीका व्याख्या-
योग्यरूपसे ग्रहण करके स्वप्न और सुप्तिके उपन्यासके क्रमसे 'परं ज्योतिरूपसं-
पद्य०' इस प्रकार जीवका पारमार्थिक स्वरूप जो परब्रह्म है, उस रूपसे इस जीवका
व्याख्यान करते हैं, जीवके रूपसे नहीं करते । प्राप्त करने योग्य जो परज्योति
श्रुतिप्रतिपादित है, वह परब्रह्म है । वह पापशून्यत्व आदि धर्मवाला
है और वह जीवका 'तत्त्वमसि' इत्यादि शास्त्रोंसे ज्ञात होनेवाला पार-
मार्थिक स्वरूप है, इससे भिन्न उपाधिकल्पित स्वरूप पारमार्थिक नहीं है ।

रत्नप्रभा

श्रुत्यर्थः । व्युत्थाप्य—विचाल्य । अभिनिष्पद्यते इत्यत्र एतदुक्तं भवतीति सम्बन्धः ।
किमुक्तमित्यत आह—यदस्येति । जीवत्वरूपेण जीवं न व्याचष्टे लोकसिद्धत्वात्,
किन्तु तमनूद्य परस्परव्यभिचारिणीभ्योऽवस्थाभ्यो विविच्य ब्रह्मस्वरूपं बोधयति ।
अतो यद् ब्रह्म तदेव अपहृतपाप्मत्वादिधर्मकं न जीव इत्युक्तं भवति, शोधितस्य
ब्रह्माभेदेन तद्ब्रह्मोक्तेरित्यर्थः । एवमवस्थोपन्यासस्य विवेकार्थत्वात् न जीवलिङ्गत्वम्,
एतदमृतमभयमेतद् ब्रह्म इति लिङ्गोपेतश्रुतिविरोधादिति मन्तव्यम् । ननु जीवत्वब्रह्म-
त्वविरुद्धधर्मवतोः कथमभेदः, तत्राह—तदेवेति । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां जीव-

रत्नप्रभाका अनुवाद

शावमें प्रतिबिम्बित देहको देखकर उसमें तुमको जो न जान पड़े वह मुझसे कहना, ऐसा
श्रुतिका अर्थ है । 'व्युत्थाप्य'—अलग कर । 'एतदुक्तं भवति' का 'अभिनिष्पद्यते इति'—
यहाँपर संबन्ध है । क्या कहा गया है ? यह कहते हैं—'यदस्य' इत्यादिसे । प्रजापति
जीवत्वरूपसे जीवका व्याख्यान नहीं करते हैं, क्योंकि वह लोकसिद्ध है, किन्तु उसका
अनुवाद करके परस्पर विलक्षण अवस्थाओंसे विवेचन करके ब्रह्मस्वरूपका बोध कराते हैं,
इसलिए जो ब्रह्म है, वही अपहृतपाप्मत्व आदि धर्मवाला है, जीव नहीं है, ऐसा
सात्पर्य है । जीवका शोधित स्वरूप ब्रह्मसे भिन्न नहीं है, इसलिए पापराहित्य आदि
धर्म जीवके कहे गये हैं । इस प्रकार अवस्थाओंका उपन्यास ब्रह्मस्वरूपका बोध
करानेके लिए है, इसलिए वे जीवप्रतिपादक नहीं हैं, क्योंकि ब्रह्मलिङ्गयुक्त 'एतदमृत०'

भाष्य

यावदेव हि स्थाणाविव पुरुषबुद्धिं द्वैतलक्षणामविद्यां निवर्तयन् कूटस्थ-
नित्यदृक्स्वरूपमात्मानमहं ब्रह्मास्मीति न प्रतिपद्यते तावज्जीवस्य जीव-
त्वम् । यदा तु देहेन्द्रियमनोबुद्धिसङ्घाताद् व्युत्थाप्य श्रुत्या प्रतिबोध्यते-
नासि त्वं देहेन्द्रियमनोबुद्धिसङ्घातः, नापि संसारी, किं तर्हि ? तद्यत्सत्यं
स आत्मा चैतन्यमात्रस्वरूपस्तच्चमसीति । तदा कूटस्थनित्यदृक्स्वरूप-
मात्मानं प्रतिबुध्याऽस्माच्छरीराद्यभिमानात् समुचिष्ठन् स एव कूटस्थ-
नित्यदृक्स्वरूप आत्मा भवति । 'स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव
भवति' (मु० ३।२।८) इत्यादिश्रुतिभ्यः । तदेव चाऽस्य पारमार्थिकं
स्वरूपं येन शरीरात् समुत्थाय स्वेन रूपेणाऽभिनिष्पद्यते ।

भाष्यका अनुवाद

जब तक स्थाणुमें पुरुषबुद्धिके समान द्वैतलक्षण अविद्याकी निवृत्ति करके
कूटस्थ और नित्यज्ञानस्वरूप आत्माको 'मैं ब्रह्म हूँ' इस प्रकार नहीं जान लेता,
तभी तक जीवका जीवत्व है । परन्तु जब देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धिके
संघातसे अलग करके तू देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धिका संघात नहीं है, तू
संसारी नहीं है, किन्तु जो सत्य, चैतन्यमात्रस्वरूप आत्मा है, वह तू है, इस
प्रकार श्रुतिद्वारा बोधित होता है, तब कूटस्थ और नित्यज्ञानस्वरूप आत्माको
जानकर, शरीर आदिके अभिमानको छोड़कर वही कूटस्थ और नित्यज्ञानस्वरूप
आत्मा हो जाता है, क्योंकि 'स यो ह वै' (जो उस परम ब्रह्मको जानता है, वह
निस्सन्देह ब्रह्म ही हो जाता है) इत्यादि श्रुतियां हैं । शरीरसे अलग होकर जो
अपना स्वरूप प्राप्त करता है, वही उसका पारमार्थिक स्वरूप है ।

रत्नप्रभा

त्वस्याऽविद्याकल्पितत्वादविरोध इति मत्वा दृष्टान्तेन अन्वयमाह—यावदिति । व्यति-
रेकमाह—यदेति । अविद्यायां सत्यां जीवत्वं वाक्योत्थपयोधात् तन्निवृत्तौ तन्निवृत्तिरि-
त्याविद्यकं तदित्यर्थः । संसारित्वस्य कल्पितत्वे सिद्धं निगमयति—तदेव चाऽस्येति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

इत्यादि श्रुतिसे विरोध होगा । परन्तु जीवत्व और ब्रह्मत्वरूप विरुद्ध धर्मकाले दो पदार्थोंका
अभेद किस प्रकार हो सकता है, इसपर कहते हैं—“तदेव” इत्यादि । अन्वय और
व्यतिरेकरो प्रतीत होता है कि जीवत्व अविद्याकल्पित है, इसलिए विरोध नहीं है, ऐसा मानकर
दृष्टान्तकथनपूर्वक अन्वय कहते हैं—“यावद्” इत्यादिसे । व्यतिरेक कहते हैं—“यदा”
इत्यादिसे । जब तक अविद्या रहती है तभी तक ही जीवत्व रहता है और श्रुतिवाक्योंसे ज्ञान
होनेपर जब अविद्या निवृत्त हो जाती है, तब जीवत्व भी निवृत्त हो जाता है, इसलिये जीवत्व

भाष्य

कथं पुनः स्वं च रूपं स्वेनैव च निष्पद्यत इति संभवति कूटस्थ-
नित्यस्य । सुवर्णादीनां तु द्रव्यान्तरसंपर्कादभिभूतस्वरूपाणामनभिव्यक्ता-
साधारणविशेषाणां क्षारप्रक्षेपादिभिः शोध्यमानानां स्वरूपेणाभिनिष्पत्तिः
स्यात् । तथा नक्षत्रादीनामहन्यभिभूतप्रकाशानामभिभावकवियोगे रात्रौ
स्वरूपेणाऽभिनिष्पत्तिः स्यात् । न तु तथाऽऽत्मचैतन्यज्योतिषो नित्यस्य केन-
चिदभिभवः संभवत्यसंसर्गित्वाद् व्योम्न इव, दृष्टविरोधाच्च । दृष्टिश्रुतिमति-

भाष्यका अनुवाद

परन्तु अपने ही रूपको आप ही प्राप्त करना कूटस्थ नित्यमें किस प्रकार
संभव है ? अन्य द्रव्यके संसर्गसे जिनके स्वरूपका अभिभव हो गया है अर्थात्
जिनका असाधारण विशेषगुण अभिव्यक्त नहीं है, उन सुवर्ण आदिकी तो खार
आदिसे शोधनद्वारा अपने स्वरूपसे अभिव्यक्ति होती है । इसी प्रकार दिनमें
जिनके प्रकाशका अभिभव हो जाता है, उन नक्षत्र आदिकी, रात्रिमें अभिभव
करनेवालेके अभावमें, स्वरूपसे अभिव्यक्ति होती है, परन्तु आत्मचैतन्यरूप नित्य
ज्योतिका इस प्रकार किसीसे अभिभव नहीं हो सकता है, क्योंकि आकाशकी

रत्नप्रभा

समुत्थाय परं ज्योतिरूपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते” [छा० ८।१२।२]
इति श्रुतिं व्याख्यातुमाक्षिपति—कथं पुनरित्यादिना । कूटस्थनित्यस्य स्वं रूपम्
इत्यन्वयः । मलसङ्गिनो हि क्रियया मलनाशादभिव्यक्तिः, न तु कूटस्थस्य असंगिन
इत्याह—सुवर्णेति । द्रव्यान्तरम्—पार्थिवो मलः । अभिभूतेति अस्य व्याख्यानम्-
अनभिव्यक्तेति । असाधारणः—भास्वरत्वादिः । अभिभावकः—सौरालोकः ।
जीवस्वरूपस्य अभिभवे बाधकमाह—दृष्टेति । “विज्ञानघन एव” [बृ० २।४।१२]

रत्नप्रभाका अनुवाद

अविद्याजन्य है । जीवत्वके कल्पित सिद्ध होनेपर जो निष्कर्ष निकला उसका निगमन कहते हैं—
“तदेव चाऽस्य” इत्यादिसे ।

“समुत्थाय परं” इस श्रुति का व्याख्यान करनेके लिए आक्षेप करते हैं—“कथं पुनः”
इत्यादिसे । ‘कूटस्थ नित्यस्य’ का ‘स्वं रूपं’ के साथ अन्वय है । संस्कारसे मलनाश होनेपर
मलिन वस्तुकी अभिव्यक्ति होती है, परन्तु असंग कूटस्थ नित्य वस्तुकी अभिव्यक्ति किस
प्रकार होगी, ऐसा कहते हैं—“सुवर्ण” इत्यादिसे । ‘अन्य द्रव्य’—पीतल आदि । ‘अनभिव्यक्त’
इत्यादि ‘अभिभूतस्वरूपाणाम्’ का व्याख्यान है । असाधारण—भास्वरत्व आदि । अभिभव करने
वाला—सूर्यका तेज आदि । जीवके स्वरूपका अभिभव माननेमें बाधक कहते हैं—“दृष्ट” इत्यादिने ।

भाष्य

विज्ञातयो हि जीवस्य स्वरूपम् । तच्च शरीरादसमुत्थितस्याऽपि जीवस्य सदा निष्पन्नमेव दृश्यते । सर्वो हि जीवः पश्यन् शृण्वन् मन्वानो विजानन् व्यवहरत्यन्यथा व्यवहारानुपपत्तेः । तच्चेच्छरीरात् समुत्थितस्य निष्पद्येत, प्राक्समुत्थानाद् दृष्टो व्यवहारो विरुध्येत । अतः किमात्मकमिदं शरीरात् समुत्थानम्, किमात्मिका वा स्वरूपेणाऽभिनिष्पत्तिरिति ।

भाष्यका अनुवाद

तरह वह संसर्गरहित है और प्रत्यक्षविरोध भी है । क्योंकि दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान ये जीवके स्वरूप हैं । शरीराभिमानी जीवमें भी ये सदा देखे जाते हैं, कारण कि सभी जीव देखते, सुनते, विचार करते और समझते हुए ही व्यवहार करते हैं, अन्यथा व्यवहार ही नहीं हो सकता । उक्त स्वरूप यदि शरीराभिमान छोड़नेके बाद निष्पन्न होता हो, तो समुत्थानसे पहले देखा गया व्यवहार विरुद्ध हो जायगा, इसलिए इस शरीरसे समुत्थानका स्वरूप क्या है और स्वरूपसे अभिव्यक्तिका स्वरूप क्या है ?

रत्नप्रभा

इति श्रुत्या चिन्मात्रस्तावदात्मा, तच्चैतन्यं चक्षुरादिजन्यवृत्तिव्यक्तं दृष्ट्यादिपद-वाच्यं सद् व्यवहाराद्गं जीवस्य स्वरूपं भवतीति तस्य अभिभूतत्वे दृष्टो व्यवहारो विरुध्येत । हेत्वभावाद् व्यवहारो न स्यादित्यर्थः । अज्ञस्याऽपि स्वरूपं वृत्तिषु व्यक्तम् इत्यङ्गीकार्यम्, व्यवहारदर्शनादित्याह—तच्चेति । अन्यथेत्युक्तं स्फुटयति—तच्चेदिति । स्वरूपं चेद् ज्ञानिन एव व्यज्येत ज्ञानात् पूर्वं व्यवहारोच्छित्तिरित्यर्थः । अतः—सदैव व्यक्तस्वरूपत्वाद् इत्यर्थः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

‘विज्ञान०’ इस श्रुतिसे प्रतीत होता है कि आत्मा चिन्मात्र है, वह चैतन्य चक्षु आदि जन्य वृत्तिमें व्यक्त होता है और दृष्टि आदि पदसे वाच्य होकर व्यवहारका अङ्ग एवं जीवका स्वरूप होता है, इसलिए जीवके दृष्टि आदि स्वरूपका अभिभव हो जायगा तो जो व्यवहार प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उसका बाध हो जायगा । अर्थात् हेतुके अभावसे व्यवहार ही न होगा । अतः पुरुषमा भी स्वरूप श्रुतिमें व्यक्त होता है, यह अङ्गीकार करना चाहिए, क्योंकि उसका व्यवहार देग्नेमें आता है, ऐसा कहते हैं—“तच्च” इत्यादिसे । अन्यथा इत्यादिसे कथित विषयको ही स्पष्ट करते हैं—“तच्चेद्” इत्यादिसे । यदि ज्ञान होनेके बाद ही जीवका स्वरूप अभिव्यक्त हो तो ज्ञान होनेसे पहलेका व्यवहार उच्छिन्न हो जायगा, ऐसा अर्थ है । ‘अतः’—सर्वदा जीवके व्यक्तस्वरूप होनेके कारण ।

माष्य

अत्रोच्यते—प्राग्बिवेकविज्ञानोत्पत्तेः शरीरेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेद-
नोपाधिभिरविविक्तमिव जीवस्य दृष्टयादिज्योतिःस्वरूपं भवति । यथा
शुद्धस्य स्फटिकस्य स्वाच्छद्यं शौकल्यं च स्वरूपं प्राग्बिवेकग्रहणाद् रक्तनी-
लाद्युपाधिभिरविविक्तमिव भवति । प्रमाणजनितविवेकग्रहणात् तु पराचीनः
स्फटिकः स्वाच्छद्येन शौकल्येन च स्वेन रूपेणाऽभिनिष्पद्यत इत्युच्यते
प्रागपि तथैव सन्; तथा देहाद्युपाध्यविविक्तस्यैव सतो जीवस्य श्रुतिकृतं

माष्यका अनुवाद

इसपर कहते हैं—जैसे शुद्ध स्फटिककी स्वच्छता और शुद्ध रूप विवेकज्ञान
होनेके पूर्व रक्त, नील आदि उपाधियोंसे संसृष्ट-सा होता है, उसी प्रकार विवेक-
ज्ञानकी उत्पत्तिके पूर्व शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, विषय, वेदनारूपी उपाधियोंसे
जीवका दर्शन आदि ज्योतिःस्वरूप संसृष्ट-सा होता है । यद्यपि पूर्वमें मी स्फटिक
वैसा ही था तो मी प्रमाण आदिसे उत्पन्न हुए विवेकज्ञानके अनन्तर वही
स्फटिक अपने स्वच्छ और शुद्धरूपसे प्रकट हुआ कहलाता है, उसी प्रकार देह
आदि उपाधियोंसे संसृष्ट जीवका मी श्रुतियोंसे उत्पन्न हुआ विवेकज्ञान ही

रत्नप्रभा

सदा वृत्तिषु व्यक्तस्य वस्तुतोऽसंगस्य आत्मन आविद्यकदेहाद्यविवेकरूपस्य
मलसंगस्य सत्त्वात् तद्विवेकापेक्षया समुत्थानादिश्रुतिरित्युत्तरमाह—अत्रेति । वेदना—
हर्षशोकादिः । अविविक्तमिव इति तादात्म्यस्य संगस्य कल्पितत्वमुक्तम् । तत्र
कल्पितसंगे दृष्टान्तः—यथेति । श्रुतिकृतमिति । त्वंपदार्थश्रुत्या “योऽयं विज्ञान-

रत्नप्रभाका अनुवाद

यद्यपि वस्तुतः असङ्ग आत्मा सदा चक्षु आदिजन्य वृत्तियोंमें व्यक्त है, तो भी अविद्यासे
उत्पन्न देहादि-अभेदज्ञानरूप मलका संबन्ध होनेके कारण देह आदिसे आत्माके विवेककी
अपेक्षासे समुत्थानश्रुति है ऐसा उत्तर कहते हैं—“अत्र” इत्यादिसे । “वेदना”—हर्ष, शोक
आदि । ‘अविविक्तमिव’ से कहा गया है कि तादात्म्य संबन्ध कल्पित है । कल्पित संबन्धका
दृष्टान्त देते हैं—“यथा” इत्यादिसे । “श्रुतिकृतम्” । अर्थात् ‘योऽयं विज्ञान-’ इत्यादि

(१) उत्तरका अभिप्राय यह है—उपनिषदोंका पूर्वोपर संबन्ध देखनेसे सात होता है कि
शुद्ध, उद, मुक्त, अप्रपंच ब्रह्म एक है, उससे भिन्न सब उसका विवर्त है जैसे कि रज्जुका विवर्त सर्प
है । ब्रह्म ही अविद्याकल्पित देह, इन्द्रिय आदि उपाधियोंसे संसृष्ट-सा प्रतीत होकर जीव कहलाता है ।
उपाधि-संसृष्ट होनेके कारण जीवमें अपहृतपाम्पत्व आदि धर्म नहीं हैं । वही जीव निरुपाधिक होनेपर
पापराहित्य आदि धर्मोंसे युक्त होना है, क्योंकि निरुपाधिक जीव ही ब्रह्म है ; निरुपाधिक होना ही
उसकी स्वरूपाभिप्यक्ति है ।

भाष्य

विवेकविज्ञानं शरीरात् समुत्थानम्, विवेकविज्ञानफलं स्वरूपेणाऽभि-
निष्पत्तिः केवलात्मस्वरूपावगतिः । तथा विवेकाविवेकमात्रेणैवाऽऽ-
त्मनोऽशरीरत्वं सशरीरत्वं च मन्त्रवर्णात् 'अशरीरं शरीरेषु'
(का० १।२।२२) इति, 'शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते'
(गी० १३।३१) इति च सशरीरत्वाशरीरत्वविशेषाभावस्मरणात् । तस्माद्
विवेकविज्ञानाभावाद्भावविर्भूतस्वरूपः सन् विवेकविज्ञानादाविर्भूत-

भाष्यका अनुवाद

शरीरसे समुत्थान है और इस विवेकज्ञानका फल—आत्मस्वरूपका साक्षात्कार
होना ही स्वरूपाभिव्यक्ति है । इसी प्रकार विवेक और अविवेकसे ही
आत्मा अशरीर और सशरीर है, क्योंकि 'अशरीरं' और 'शरीरस्थोऽपि' (हे
कौन्तेय ! वह शरीरस्थ है तो भी वह न कुछ करता है, न किसी कर्मसे लिप्त
होता है) इन श्रुति और स्मृतियोंसे सशरीरत्व और अशरीरत्वमें कोई विशेष—
भेद देखनेमें नहीं आता । इसलिए विवेकज्ञानके अभावसे अनभिव्यक्त स्वरूप हो-

रत्नप्रभा

मयः प्राणेषु" (बृ० ४।४।२२) इत्याद्यया सिद्धमित्यर्थः । प्राणादिभिन्नशुद्धत्वम्पदा-
र्थज्ञानस्य वाक्यार्थसाक्षात्कारः फलमित्याह—केवलेति । सशरीरत्वस्य सत्यत्वात्
समुत्थानम्—उत्क्रान्तिरिति व्याख्येयम्, न विवेक इत्याशङ्क्याऽऽह—तथा
विवेकेति । उक्तश्रुत्यनुसारेणेत्यर्थः । "शरीरेष्वशरीरम् अवस्थितम्" इति श्रुतेः
अविवेकमात्रकल्पितं सशरीरत्वम्, अतो विवेक एव समुत्थानमित्यर्थः । ननु
स्वकर्माजिते शरीरे भोगस्य अपरिहार्यत्वात् कथं जीवत एव स्वरूपाविर्भाव
इत्यत आह—शरीरस्थोऽपीति । अशरीरवत् शरीरस्थस्याऽपि बन्धाभावस्मृतेः
जीवतो मुक्तिर्युक्ता इत्यर्थः । अविरोद्धे श्रुत्यर्थे सूत्रशेषो युक्त इत्याह—तस्मादिति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

त्वंपदार्थश्रुतिसे सिद्ध । प्राणादिसे भिन्न शुद्ध त्वंपदार्थके ज्ञानका फल वाक्यार्थका साक्षात्कार है, ऐसा
कहते हैं—“केवल” इत्यादिसे । सशरीरत्व सत्य है, इसलिए समुत्थानका अर्थ करना चाहिए—
उत्क्रान्ति अर्थात् शरीरसे निकलना, उसका विवेक अर्थ नहीं करना चाहिए, ऐसी आशङ्का करके
कहते हैं—“तया विवेक” इत्यादिसे । 'तया'—उक्तश्रुतिके अनुसार । 'शरीरेष्व' (अशरीर
आत्मा शरीरमें अवस्थित है) इस प्रकार श्रुतिमें कहे जानेके कारण सशरीरत्व केवल अविवेकसे
कल्पित है, इसलिए विवेक ही समुत्थान है । परन्तु स्वकर्मसे सम्प्रादित देहमें दुःख आदिका
भोग अनिवार्य है, इसलिए जीते जी स्वरूपका आविर्भाव किस प्रकार हो सकता है, इसपर कहते
हैं—“शरीरस्थोऽपि” इत्यादि । स्मृति अशरीरके समान शरीरस्थमें भी बन्धनाभावका प्रतिपादन
करती है, इसलिए जीते जी मुक्त होनेमें कोई विरोध नहीं है । धृत्यर्थके अविरोद्ध सिद्ध होनेपर

भाष्य

स्वरूप इत्युच्यते । न त्वन्यादृशावाविर्भावानाविर्भावौ स्वरूपस्य सम्भवतः स्वरूपत्वादेव । एवं मिथ्याज्ञानकृत एव जीवपरमेश्वरयोर्भेदो न वस्तुकृतः, व्योमवदसङ्गत्वाविशेषात् । कुतश्चैतदेवं प्रतिपत्तव्यम् । यतो 'य एयोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते' इत्युपदिश्य 'एतदमृतमभयमेतद्ब्रह्म' इत्युपदिशति । योऽक्षिणि

भाष्यका अनुवाद

फर जीव विवेकज्ञानसे अभिव्यक्तस्वरूप फहलाता है । अन्य प्रकारसे स्वरूपकी अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वह स्वरूप है । उसी प्रकार जीव और परमेश्वरका भेद मिथ्याज्ञानजन्य ही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि आत्मा आकाशके समान असङ्ग है । परन्तु यह कैसे जाना जाय ? इससे

रत्नप्रभा

अन्यादृशौ सत्यावित्यर्थः । ज्ञानाज्ञानकृतौ आविर्भावतिरोभावाविति स्थिते भेदोऽप्यंशाशित्वकृतो निरस्त इत्याह—एवमिति । अंशादिशून्यत्वम् असंगत्वम् । आत्मा द्रव्यत्वव्याप्यजातिशून्यः, विमुत्वात् व्योमवत् इति आत्मैक्यसिद्धेः भेदो मिथ्या इत्यर्थः । प्रजापतिवाक्याच्च भेदो मिथ्या इति आकांक्षापूर्वकमाह—कुतश्चेत्यादिना । एतद्—भेदस्य सत्यत्वम्, एवम्—नास्तीति, कुत इत्यन्वयः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

सूत्रशेष संगत है, ऐसा कहते हैं—“तस्माद्” इत्यादिसे । ‘अन्यादृश’—सत्य । आविर्भाव और तिरोभाव ज्ञान और अज्ञानसे होते हैं यह सिद्ध होनेपर अंशत्व और अंशित्वसे कल्पित भेदका भी निरास होता है, ऐसा कहते हैं—“एवम्” इत्यादिसे । अंश आदिमें रहित होना ही आत्माका असंगत्व है । आकाशके समान विभु होनेके कारण आत्मा द्रव्यत्वव्याप्यजातिरहित है, इस अनुमानसे आत्माका ऐक्य सिद्ध होता है, अतः भेद मिथ्या है, ऐसा तात्पर्य है । “कुतश्च” इत्यादिसे आकांक्षापूर्वक यह कहते हैं कि प्रजापतिवाक्यसे भी भेद मिथ्या है । भेद सत्य नहीं है, ऐसा क्यों मानना चाहिए, ऐसा

(१) नैयायिकोंके मतमें नौ द्रव्य हैं—पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन । इन नवोंमें रहनेवाली जाति द्रव्यत्व कहलाती है । पृथिवी आदि प्रत्येकमें रहनेवाली पृथिवीत्व, जलत्व आदि जातियाँ द्रव्यत्वव्याप्यजातियाँ हैं, क्योंकि द्रव्यत्वकी अपेक्षा अल्पदेशमें रहती हैं । नैयायिक आकाश, काल, दिक्, और आत्माको विभु मानते हैं । इनमें आकाश, काल, और दिक्को एक एक ही मानते हैं, किन्तु आत्माओंको तो अनेक मानते हैं । आकाश आदि तीन अखण्ड हैं, अतः उनमें रहनेवाले आकाशत्व आदि धर्मों को जाति नहीं मानते हैं । अतः वेदान्ती नैयायिकोंके मतके अनुसार ही आत्माको द्रव्य मानकर अनुमान द्वारा उसमें द्रव्यत्वव्याप्यजातिके संभवका निराकरण करते हैं अर्थात् इस अनुमानसे आत्मा एक ही है, अनेक नहीं, ऐसा सिद्ध करते हैं ।

भाष्य

प्रसिद्धो द्रष्टा द्रष्टृत्वेन विभाव्यते सोऽमृताभयलक्षणाद् ब्रह्मणोऽन्यथेत् स्यात् ततोऽमृताभयब्रह्मसामानाधिकरण्यं न स्यात् । नाऽपि प्रतिच्छायात्माऽयमक्षि-
लक्षितो निर्दिश्यते, प्रजापतेर्मृपावादित्वप्रसङ्गात् । तथा द्वितीयेऽपि पर्याये 'य
एष स्वप्ने महीयमानश्चरति' इति न प्रथमपर्यायनिर्दिष्टादक्षिपुरुषाद् द्रष्टुरन्यो
निर्दिष्टः, 'एतं त्वेव ते भूयोऽनुच्यारुयास्यामि' इत्युपक्रमात् । किञ्च, अह-
मद्य स्वप्ने हस्तिनमद्राक्षं नेदानीं तं पश्यामीति दृष्टमेव प्रतिबुद्धः प्रत्या-

भाष्यका अनुवाद

कि 'य एषोऽक्षिणि०' (आँसुमें यह जो पुरुष दीरता है) ऐसा उपदेश करके
'एतदमृत०' (यह अमृत है, अभय है, यह ब्रह्म है) ऐसा उपदेश किया है ।
आँसुमें जो प्रसिद्ध द्रष्टा द्रष्टारूपसे घताया जाता है, यदि वह अमृत और
अभयस्वरूप ब्रह्मसे अन्य हो, तो अमृत और अभयरूप ब्रह्मके साथ उसका
सामानाधिकरण्य न होगा । उसी प्रकार आँसुमें लक्षित छायात्माका भी
'निर्देश नहीं है, क्योंकि प्रजापति असत्यवादी हो जायेंगे । इसी प्रकार 'य
एष महीय०' (स्वप्नमें जो यह वासनामय विषयोंसे पूज्यमान विचरता है) इस
द्वितीय पर्यायमें भी प्रथम पर्यायमें निर्दिष्ट अक्षिस्थ पुरुषरूप द्रष्टासे भिन्न
द्रष्टाका निर्देश नहीं है, क्योंकि 'एतं त्वेव ते०' (इसीको मैं तुमसे फिर कहता
हूँ) ऐसा उपक्रम है । और आज मैंने स्वप्नमें हाथी देखा था, किन्तु अब
उसको मैं नहीं देख रहा हूँ, इस प्रकार देखे हुएका ही जागकर निषेध करता

रत्नप्रभा

छायायां ब्रह्मदृष्टिपरम् इदं वाक्यम्, न अभेदपरम् इत्यत आह—नाऽपीति ।
यस्य ज्ञानात् कृतकृत्यता सर्वकामप्राप्तिः, तम् आत्मानम् अन्विच्छाव इति
प्रवृत्तयोः इन्द्रविरोचनयोः यथनात्मच्छायां प्रजापतिः ब्रूयात् तदा मृपावादी
स्यादित्यर्थः । प्रथमवद् द्वितीयादिपर्याये व्यावृत्तासु अवस्थासु अनुस्यूतात्मा
ब्रह्मत्वेनोक्त इत्याह—तथेति । अवस्थामेदेऽपि अनुस्यूतौ युक्तिमाह—

रत्नप्रभाका अनुवाद

अन्वय है । यह वाक्य तो छायामें ब्रह्मदृष्टिका उपदेश करता है, अभेदका प्रतिपादन नहीं करता,
इस शाङ्करपर कहते हैं—“नाऽपि” इत्यादि । जिसके ज्ञानसे कृतार्थता और सब कामनाओंकी प्राप्ति
होती है, उस आत्माकी खोज करनी चाहिए, इस अभिप्रायसे प्रवृत्त हुए इन्द्र और विरो-
चनके प्रति यदि प्रजापति आत्माके बदले अनात्माहृष छायाका उपदेश करें, तो असत्यवादी
हो जायेंगे । प्रथम पर्यायके समान द्वितीय आदि पर्यायोंमें भी भिन्न भिन्न अवस्थाओंमें
अनुस्यूत आत्मा ब्रह्म कहा गया है, ऐसा कहते हैं—“तथा” इत्यादिसे । अवस्थाभेद होनेपर

भाष्य

चष्टे । द्रष्टारं तु तमेव प्रत्यभिजानाति—य एवाऽहं स्वप्नमद्राक्षं स एवाऽहं जागरितं पश्यामि—इति । तथा तृतीयेऽपि पर्याये 'नाह खल्वयमेवं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि' इति सुषुप्तावस्थायां विशेषविज्ञानाभावमेव दर्शयति न विज्ञातारं प्रतिषेधति । यत्तु तत्र 'विनाशमेवापीतो भवति' इति, तदपि विशेषविज्ञानविनाशाभिप्रायमेव, न विज्ञातृविनाशाभिप्रायम्, 'नहि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्' (बृ० ४।३।३०) इति श्रुत्यन्तरात् । तथा चतुर्थेऽपि पर्याये 'एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि नो एवान्यत्रैतस्मात्' इत्युपक्रम्य 'मघवन् भाष्यका अनुवाद

है । द्रष्टा तो वही है, क्योंकि जिस मैंने स्वप्न देखा था, वही मैं जागरण देख रहा हूँ, ऐसी उसे प्रतीति होती है । इसी प्रकार तीसरे पर्यायमें 'नाह खल्वयमेवं' (निस्सन्देह यह खेदका विषय है कि 'यह मैं हूँ' इस प्रकार न यह आत्माको जानता है और न इन प्राणियोंको ही जानता है) इस तरह श्रुति सुषुप्त अवस्थामें विशेष विज्ञानका अभाव दिखलाती है, विज्ञाताका प्रतिषेध नहीं करती । उसमें 'विनाशमेवां' (वह विनाशको ही प्राप्त होता है) यह जो कहा गया है, उसका अभिप्राय विशेषविज्ञानके विनाशमें है, विज्ञाताके विनाशमें नहीं है, क्योंकि 'नहि विज्ञातुर्विज्ञाते' (विज्ञाताकी विज्ञानशक्तिका कमी नाश नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है) यह दूसरी श्रुति है । इसी प्रकार चौथे पर्यायमें भी 'एतं त्वेव ते' (इसीको मैं तुमसे फिर कहता हूँ,

रत्नप्रभा

किंचेति । सुषुप्तौ ज्ञातुर्व्यावृत्तिम् आशङ्क्याऽऽह—तथा तृतीय इति । सुषुप्तौ निर्विकल्पज्ञानरूप आत्मा अस्ति इत्यत्र बृहदारण्यकश्रुतिमाह—नहीति । बुद्धेः साक्षिणो नाशो नास्ति, नाशकाभावाद् इत्यर्थः । एवम् अवस्थाभिः असङ्गत्वेन उक्त आत्मैव तृतीयेऽपि ब्रह्मत्वेन उक्त इत्याह—तथेति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

भी अवस्थाओंमें अनुस्यूत एक ही है, इस विषयमें युक्ति दिखलाते हैं—'किञ्च' इत्यादिसे । सुषुप्तिमें ज्ञाता भिन्न है, ऐसी आशङ्का बरके कहते हैं—'तथा तृतीय' इत्यादिसे । सुषुप्तिमें निर्विकल्पज्ञानरूप आत्मा है, इस विषयमें प्रमाणरूप बृहदारण्यक श्रुति उद्धृत करते हैं—'नहि' इत्यादिसे । साक्षीकी विज्ञानशक्तिका विनाश नहीं होता, क्योंकि उसका कोई बाधक नहीं है । इस प्रकार अवस्थाओं द्वारा असङ्गरूपसे वर्णित आत्माका ही चौथे पर्यायमें ब्रह्मरूपसे वर्णन किया गया है ऐसा कहते हैं—'तथा' इत्यादिसे ।

भाष्य

मर्त्यं वा इदं शरीरम्' इत्यादिना प्रपञ्चेन शरीराद्युपाधिसम्बन्धप्रत्याख्यानेन सम्प्रसादशब्दोदितं जीवं 'स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यते' इति ब्रह्मस्वरूपापन्नं दर्शयन्न परस्माद् ब्रह्मणोऽमृताभयस्वरूपादन्यं जीवं दर्शयति ।

केचित्तु परमात्मविवक्षायाम् 'एतं त्वेव ते' इति जीवाकर्षणमन्याय्यं मन्यमाना एतमेव वाक्योपक्रमश्चितमपहृतपाप्मत्वादिगुणकमात्मानं ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामीति कल्पयन्ति । तेषामेतमिति संनिहिताचलम्बिनी सर्वनामश्रुतिर्विप्रकृष्येत । भूयःश्रुतिश्चोपरुध्येत, पर्यायान्तराभिहितस्य

भाष्यका अनुवाद

इससे अन्यको नहीं) ऐसा उपक्रम करके 'मघवन् मर्त्यं०' (हे इन्द्र ! यह शरीर निश्चय मरणशील है) इत्यादिसे विस्तारपूर्वक शरीर आदि उपाधियोंके सम्बन्धका निषेध करके 'सम्प्रसाद' शब्दसे निर्दिष्ट जीवमें 'स्वेन रूपेण०' (अपने स्वरूपसे अमिष्यक्त होता है) इससे ब्रह्मस्वरूपप्राप्ति कहकर प्रजापति अमृत और अभयस्वरूप परब्रह्मसे जीव अन्य नहीं है, ऐसा दिखलाते हैं ।

कई एक आचार्य तो परमात्माकी विवक्षामें 'एतं त्वेव०' इससे जीवकी अनुवृत्ति करना अनुचित समझकर वाक्यके उपक्रममें दिखाये गये पापविमुक्तत्व आदि गुणवाले इसी आत्माको मैं तुमसे बारंबार कहता हूँ, ऐसी अर्थकी कल्पना करते हैं । उनके मतमें सन्निहितका बोध करानेवाला 'एतं०' सर्वनाम दूरान्वित हो जायगा । और 'भूयः' श्रवणका बाध भी होगा, क्योंकि एक पर्यायमें

रत्नप्रभा

श्रुतेरेकदेशिव्याख्यां दूषयति—केचिचि वति । जीवपरयोर्भेदाद् इति भावः । श्रुतिवाधाद् भैवमित्याह—तेषामिति । सन्निहितो जीव एव सर्वनामार्थ इत्यर्थः । उक्तस्य पुनरुक्तौ भूय इति युज्यते । तव तु उपक्रान्तपरमात्मनश्चतुर्थ एवोक्तेः तद्वाध इत्याह—भूय इति । लोकसिद्धजीवानुवादेन ब्रह्मत्वं बोध्यत इति

रत्नप्रभाका अनुवाद

एकदेशी द्वारा किये गये श्रुतिके व्याख्यानको दूषित करते हैं—“केचित्तु” इत्यादिसे । जीव ईश्वर भिन्न भिन्न हैं, इसलिए जीवकी अनुवृत्ति करना उचित नहीं है, यह एकदेशीका मत है । सर्वनामश्रुतिको बाध होता है, इसलिए यह व्याख्यान ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं—“तेषाम्” इत्यादिसे । संनिहित जीव ही सर्वनामका अर्थ है । दूसरी बात यह भी है कि जब उक्तकी ही पुनरुक्ति होती है तभी 'भूयः' पदका प्रयोग किया जाता है । तुम्हारे—एकदेशीके मतमें तो उपक्रान्त परमात्माका चतुर्थ पर्यायमें ही कथन है, अतः उक्तका ('भूयः' श्रुतिका) बाध होता है, ऐसा कहते हैं—“भूयः” इत्यादिसे ।

भाष्य

पर्यायान्तरेणाऽनभिधीयमानत्वात्। 'एतं त्वेव ते' इति च प्रतिज्ञाय प्राक् चतुर्थात् पर्यायादन्यमन्यं व्याचक्षणस्य प्रजापतेः प्रतारकत्वं प्रसज्येत। तस्माद्यद्विद्याप्रत्युपस्थापितमपारमार्थिकं जैवं रूपं कर्तृत्वभोक्तृत्वरारागद्वेषादिदोषकलुषितमनेकानर्थयोगि तद्विलयनेन तद्विपरीतमपहतपाप्मत्वादिगुणकं पारमेश्वरं स्वरूपं विद्यया प्रतिपाद्यते, सर्पादिविलयनेनेव रज्ज्वादीन्।

अपरे तु वादिनः पारमार्थिकमेव जैवं रूपमिति मन्यन्तेऽस्मदीयाश्च केचित्। तेषां सर्वेषामात्मैकत्वसम्यग्दर्शनप्रतिपक्षभूतानां प्रतिषेधायेदं शारीरकमारब्धम्। एक एव परमेश्वरः कूटस्थनित्यो विज्ञानधातुरविद्यया

भाष्यका अनुवाद

जिसका कथन है, उसका दूसरे पर्यायमें कथन नहीं रहा। और 'एतं त्वेव ते' ऐसी प्रतिज्ञा करके चतुर्थ पर्यायके पूर्वतक अन्यान्य पदार्थोंका व्याख्यान करनेवाले प्रजापति प्रतारक हो जायेंगे। इसलिए जैसे सर्पके बाधसे रस्सीके पारमार्थिक स्वरूपका प्रतिपादन होता है, उसी प्रकार अविद्याजन्य कर्तृत्व, भोक्तृत्व, राग, द्वेष आदि दोषोंसे मलिन और अनेक अनर्थोंसे युक्त जीवके अपारमार्थिक स्वरूपका बाध करके विद्या उससे विपरीत पापराहित्य आदि गुणवाले परमेश्वरके स्वरूपका प्रतिपादन करती है।

परन्तु दूसरे वादी और हमारे पक्षके भी कुछ लोग जीवका रूप पारमार्थिक है, ऐसा मानते हैं। आत्मा एक है इस बातको न माननेवाले उन सभी वादियोंके निराकरणके लिए इस शारीरक शास्त्रका आरम्भ किया गया है। जिसमें

रत्नप्रभा

स्वमतमुपसंहरति—तस्मादिति। व्याख्यानान्तरासम्भवादित्यर्थः। विलयनं—शोधनम् विद्यया—महावाक्येन इति यावद्।

ये तु संसारं सत्यम् इच्छन्ति, तेषाम् इदं शारीरकमेव उत्तरम् इत्याह—अपरे त्वित्यादिना। शारीरकस्य अर्थं संक्षेपेण उपदिशति—एक एवेति।

रत्नप्रभाका अनुवाद

लोकसिद्ध जीवका अनुवाद करके उसीका ब्रह्मरूपमें बाध होता है—इस अपने मतका उपसंहार करते हैं—“तस्माद्” इत्यादिसे। ‘तस्मात्’ अर्थात् अन्य व्याख्यानोके सम्भव न होनेसे। विलयनसे—शोधनसे। विद्यासे—महावाक्यसे।

* जो संसारको सत्य मानते हैं, उनके लिए यह शारीरक ही उत्तर है ऐसा कहते हैं—“अपरे तु” इत्यादिसे। शारीरक (शास्त्र) का अर्थ संक्षेपसे दिसालेते हैं—“एक एव”

भाष्य

मायया मायाविवदनेकधा विभाव्यते नान्यो विज्ञानधातुरस्तीति । यच्चिदं परमेश्वरवाक्ये जीवमाशङ्क्य प्रतिषेधति सूत्रकारः—‘नासम्भवात्’ (ब्र० १।३।१८) इत्यादिना । तत्राऽयमभिप्रायः—नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावे कूटस्थनित्ये एकस्मिन्नसङ्गे परमात्मनि तद्विपरीतं जैवं रूपं व्योम्नीव तलमलादि परिकल्पितम् । तदात्मैकत्वप्रतिपादनपरैर्वाक्यैर्न्यायोपेतैर्द्वैतवादप्रतिषेधैश्चाऽपनेष्यामीति परमात्मनो जीवादन्यत्वं द्रढयति । जीवस्य तु न पर-

भाष्यका अनुवाद

परमेश्वर एक ही है, वह कूटस्थ नित्य है, विज्ञानस्वरूप है, किन्तु ऐन्द्रजालिकके समान मायासे अनेक प्रकारका प्रतीत होता है, उससे अन्य विज्ञानरूप कोई वस्तु नहीं है, ऐसा प्रतिपादन किया गया है । परमेश्वरवाक्यमें जीवकी आशङ्का करके सूत्रकार ‘नासम्भवात्’ इत्यादिसे जो प्रतिषेध करते हैं, इसका अभिप्राय यह है कि—नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्तस्वरूप कूटस्थ नित्य, एक, असंग परमात्मामें उससे विपरीत जीवरूप, आकाशमें भूतलकी मलिनता आदिके समान, परिकल्पित है । न्यायसे युक्त आत्माका एकत्व प्रतिपादन करनेवाले और द्वैतका प्रतिषेध करनेवाले वाक्यों द्वारा उसको दूर करूँगा, इस आशयसे परमात्माका जीवसे

रत्नप्रभा

अविद्यामाययोः भेदं निरसितुं सामानाधिकरण्यम् । आवरणविक्षेपशक्तिरूपशब्द-प्रवृत्तिनिमित्तभेदात् सहप्रयोगः, ब्रह्मैव अविद्यया संसरति, न ततोऽन्यो जीव इति शारीरकार्थः इत्यर्थः । तर्हि सूत्रकारः किमिति भेदं ब्रूते ? तत्राऽऽह—यच्चिति । परमात्मनोऽसंसारित्वसिद्धयर्थं जीवाद् भेदं द्रढयति । तस्य असंसारित्वनिश्चयाभावे तदभेदोक्तावपि जीवस्य संसारित्वानपायाद् इत्यर्थः । अधिष्ठानस्य कल्पिताद् भेदेऽपि कल्पितस्य अधिष्ठानान्न पृथक् सत्त्वमि-

रत्नप्रभाका अनुवाद

इत्यादिसे । अविद्या और मायामें किसीको भेदप्रतीति न हो, इसलिए दोनोंका सामानाधिकरण्य दिखलाया है । शब्दप्रवृत्तिके निमित्तभूत आवरणशक्ति और विक्षेपशक्तिके भेदसे दोनोंका एक साथ प्रयोग किया गया है । ब्रह्म ही अविद्यासे संसारी होता है । जीव उससे अन्य कोई वस्तु नहीं है, ऐसा शारीरक शास्त्रका प्रतिपाद्य अर्थ है । तब सूत्रकार दोनोंमें भेद कैसे दिखलाते हैं ? इसपर कहते हैं—“यत्तु” इत्यादि । परमात्मामें असंसारित्वकी सिद्धिके लिए वह जीवसे भिन्न कहा गया है । परमात्मा असंसारी है जब तक ऐसा निश्चय नहीं हो जाय, तब तक उससे जीव अभिन्न है ऐसा कहनेसे भी

भाष्य

स्मादन्यत्वं प्रतिपिपादयिषति किन्त्वनुवादत्येवाऽविद्याकल्पितं लोकप्रसिद्धं जीवभेदम् । एवं हि स्वाभाविककर्तृत्वभोक्तृत्वानुवादेन प्रवृत्ताः कर्मविधयो न विरुध्यन्त इति मन्यते । प्रतिपाद्यं तु शास्त्रार्थमात्मैकत्वमेव दर्शयति— 'शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्' (ब्र० १।१।३०) इत्यादिना । वर्णित-
शास्त्राविर्विद्वद्विद्वद्भेदेन कर्मविधिविरोधपरिहारः ॥१९॥

भाष्यका अनुवाद

भेद दृढ़ करते हैं । जीवका परमात्मासे भेदप्रतिपादन करना नहीं चाहते, किन्तु अविद्यासे कल्पित लोकप्रसिद्ध जीवभेदका केवल अनुवाद करते हैं । इस प्रकार स्वाभाविक कर्तृत्व और भोक्तृत्वका अनुवाद करनेसे प्रवृत्त हुई कर्म-विधियाँ विरुद्ध नहीं होती ऐसा मानते हैं । आत्माका एकत्वरूप जो शास्त्रार्थ—शास्त्र प्रतिपाद्य है, उसका सूत्रकार 'शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्' इत्यादिसे प्रतिपादन करते हैं, हमने विद्वान् और अविद्वान्के भेदसे कर्मविधिके विरोधके परिहारका वर्णन किया है ॥ १९ ॥

रत्नप्रभा

त्याह—जीवस्य त्विति । कल्पितभेदानुवादस्य फलमाह—एवं हीति । सूत्रेषु अभेदो नोक्त इति श्रान्तिं निरस्यति—प्रतिपाद्यमिति । “आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च” (ब्र० ४।१।३) इत्यादिसूत्राणि आदिपदार्थः । ननु अद्वैतस्य शास्त्रार्थत्वे द्वैतापेक्षविधिविरोधः, तत्राऽऽह—वर्णितश्चेति । अद्वैतम-
जानतः कल्पितद्वैताश्रया विधयो न विदुष इति सर्वम् उपपन्नमित्यर्थः ॥१९॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

जीवका संसारित्व नहीं मिट सकता । अधिष्ठानका कल्पित पदार्थसे भेद है, तां भी कल्पितका अधिष्ठानसे पृथक् अस्तित्व नहीं है, ऐसा कहते हैं—“जीवस्य तु” इत्यादिसे । कल्पित भेदके अनुवादका फल कहते हैं—“एवं हि” इत्यादिसे । सूत्रोंमें अभेद नहीं कहा गया है, इस श्रान्तिका निराकरण करते हैं—“प्रतिपाद्यम्” इत्यादिसे । आदिपदसे ‘आत्मेति तूप०’ इत्यादि सूत्रोंका ग्रहण करना चाहिए । यदि कोई कहे कि अद्वैत ही यदि शास्त्रतात्पर्य-विषय हो, तो द्वैतकी अपेक्षासे होनेवाली विधिकी विरोध होगा, इसपर कहते हैं—“वर्णितश्च” इत्यादि । अद्वैतको न जाननेवालेके लिए ही कल्पित द्वैतकी अपेक्षा रखनेवाली विधियाँ हैं, विद्वान्के लिए नहीं हैं, इस प्रकार सब उपपन्न होता है ॥ १९ ॥

अन्यार्थश्च परामर्शः ॥२०॥

पदच्छेद—अन्यार्थः, च, परामर्शः ।

पदार्थोक्ति—परामर्शश्च—‘सम्प्रसादः’ इति जीवपरामर्शस्तु, अन्यार्थः—
परमात्मप्रतिपादनपरः [न जीवप्रतिपादनपरः] ।

भाषार्थ—श्रुतिमें ‘सम्प्रसाद’ शब्दसे जो जीवका परामर्श किया है, वह परमात्मप्रतिपादनपरक है अर्थात् परमात्माका प्रतिपादक है, जीवका प्रतिपादक नहीं है ।

—००७९०७—

भाष्य

अथ यो दहरवाक्यशेषे जीवपरामर्शो दर्शितः—‘अथ य एष सम्प्रसादः’ (छा० ८।३।४) इत्यादिः, स दहरे परमेश्वरे व्याख्यायमाने न जीवोपासनोपदेशो न प्रकृतविशेषोपदेश इत्यनर्थकत्वं प्राप्नोतीति । अत आह—अन्यार्थः । अयं जीवपरामर्शो न जीवस्वरूपपर्यवसायी, किं तर्हि ?

भाष्यका अनुवाद

अब जो दहरवाक्यके शेषमें ‘अथ य एष०’ इत्यादिसे जीवका परामर्श दिखलाया गया है, वह—यदि दहर परमेश्वर है ऐसा मानें, तो जीवकी उपासनाका उपदेश न करने और प्रकृत दहराकाशरूप विशेषका भी उपदेश न करनेके कारण—अनर्थक हो जायगा । इसलिए कहते हैं कि जीवका परामर्श अन्यार्थ है, जीवके स्वरूपमें इसका पर्यवसान नहीं होता; किन्तु

रत्नप्रभा

एवं प्रजापतिवाक्ये जीवानुवादेन ब्रह्मण एवाऽपहतपाप्मत्वाद्युक्तेः जीवे तदसम्भावाद् न जीवो दहर इत्युक्तम्, तर्हि जीवपरामर्शस्य का गतिरित्यत आह—
अन्यार्थश्चेति । सूत्रं व्याचष्टे—अथेत्यादिना । प्रकृते दहरे विशेषो गुणः

रत्नप्रभाका अनुवाद

इस प्रकार प्रजापतिवाक्यमें जीवके अनुवादसे ब्रह्मके ही पापघटित्य आदि धर्म कहे गये हैं और जीवमें इन धर्मोंका असम्भव है, इसलिए जीव दहर नहीं है, ऐसा कहा है । तब दहरवाक्यशेषमें जो जीवपरामर्श किया गया है, उसकी क्या गति होगी ? इसपर कहते हैं—
‘अन्यार्थश्च’ इत्यादि । प्रकृत दहरके विशेष—गुणका भी उपदेश नहीं है । दहरवाक्यशेषरूप

भाष्य

परमेश्वरस्वरूपपर्यवसायी । कथम् ? सम्प्रसादशब्दोदितो जीवो जागरित-
व्यवहारे देहेन्द्रियपञ्जराध्यक्षो भूत्वा तद्वामनानिर्मितांश्च स्वप्नात्नाडीचरोऽ-
नुभूय श्रान्तः शरणं प्रेषुरुभयरूपादपि शरीराभिमानात् समुत्थाय
सुप्तमावस्थायां परं ज्योतिराकाशशब्दितं परं ब्रह्मोपसम्पद्य विशेषविज्ञानवत्त्वं
च परित्यज्य स्वेन रूपेणाऽभिनिष्पद्यते । यदस्योपसम्पत्तव्यं परं ज्योतिः येन
स्वेन रूपेणाऽयमभिनिष्पद्यते, स एव आत्माऽपहतपाप्मत्वादिगुणः उपास्य
इत्येवमर्थोऽयं जीवपरामर्शः परमेश्वरवादिनोऽप्युपपद्यते ॥२०॥

भाष्यका अनुवाद

परमेश्वरके स्वरूपमें पर्यवसान होता है । किस प्रकार ? 'संप्रसाद' शब्दसे उक्त
जीव जाग्रदवस्थामें देह और इन्द्रियोंके पंजरका अध्यक्ष होकर, नाडीमें जाकर,
उसकी वासनाओंसे उत्पन्न हुए स्वप्नका अनुभव करके जब थक जाता है, तब
विश्राम-स्थान प्राप्त करनेकी इच्छासे दोनों तरहके शरीराभिमानसे उठकर
सुप्त अवस्थामें परज्योति आकाशशब्दसे उक्त परब्रह्मको प्राप्त कर, विशेष
विज्ञानवत्त्वका परित्याग करके अपने स्वरूपसे अभिव्यक्त होता है । जो इसके
प्राप्त करनेके योग्य परम ज्योति है और जिस पारमार्थिक स्वरूपसे अभिव्यक्त
होता है, वह आत्मा अपहतपाप्मत्व आदि गुणवाला उपास्य है; इस आशयसे
कथित जीवका परामर्श परमेश्वरवादीके मतमें भी उपपन्न होता है ॥२०॥

रत्नप्रभा

तदुपदेशोऽपि नेत्यर्थः । तत्र दहरवाक्यशेषरूपं सम्प्रसादवाक्यम् आशङ्कापूर्वकं
दहरब्रह्मपरत्वेन व्याचष्टे— कथमित्यादिना ॥ २० ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

जो सम्प्रसादवाक्य है, उसका "कथम्" इत्यादिसे आशंकापूर्वक व्याख्यान करते हैं कि वह
वाक्य दहरब्रह्मका प्रतिपादक है ॥ २० ॥

(१) सूक्ष्मशरीराभिमान और स्थूलशरीराभिमान, इस प्रकार शरीराभिमान दो तरहका है
अथवा तादात्म्याभिमान और सम्बन्धाभिमान, इस रूपसे शरीराभिमान दो तरहका है । इस आभिमानका
त्याग करना ही शरीराभिमानसे उठना है ।

अल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम् ॥२१॥

पदच्छेद—अल्पश्रुतेः, इति, चेत्, तत्, उक्तम् ।

पदार्थोक्ति—अल्पश्रुतेः—‘दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः’ इत्यल्पत्वश्रवणात् [न दहरः परमात्मा, किन्तु जीव एव] इति चेत्, तदुक्तम्—तत्—तत्र उक्तम् समाधानम् अर्भकौकस्त्वादित्यत्र [अतः दहराकाशः परमात्मैव] ।

भाषार्थ—‘दहरोऽस्मिन्’ (इस हृदयमें अल्प अन्तराकाश है) इस वाक्यमें आकाश दहर—अल्प कहा गया है, अतः दहर परमात्मा नहीं है, किन्तु जीव ही है, ऐसा यदि कोई कहे तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि इसका समाधान ‘अर्भकौकस्त्वात्’ (ब्र० १।२।७) सूत्रमें कहा गया है, इस कारण दहराकाश परमात्मा ही है ।

भाष्य

यदप्युक्तम्—‘दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः’ इत्याकाशस्याऽल्पत्वं श्रूयमाणं परमेश्वरे नोपपद्यते, जीवस्य त्वाराग्नोपमितस्याऽल्पत्वमवकल्पत इति, तस्य परिहारो वक्तव्यः । उक्तो ह्यस्य परिहारः—परमेश्वरस्याऽऽपेक्षिकमल्पत्वमवकल्पत इति, ‘अर्भकौकस्त्वात्तद्व्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च’ (ब्र० १।२।७) इत्यत्र । स एवेह परिहारोऽनुसन्धातव्य इति सूचयति । श्रुत्यैव चेदमल्पत्वं प्रत्युक्तं प्रसिद्धेनाऽऽकाशेनोपमिमानया ‘यावान्वा अयमाकाशस्तावानेपोऽन्तर्हृदय आकाशः’ इति ॥ २१ ॥

भाष्यका अनुवाद

‘दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः’ इस प्रकार आकाश के विषयमें श्रुतिद्वारा प्रतिपादित अल्पत्व परमेश्वरमें उपपन्न नहीं होता किन्तु आरके अन्न भागके सदृश जीवमें तो अल्पत्व उपपन्न होता है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, उसका परिहार करना चाहिए । इसका परिहार ‘अर्भकौकस्त्वात्तद्व्य’ इस सूत्रमें कहा गया है कि परमेश्वरका अल्पत्व अपेक्षाकृत है, उसी परिहारका अनुसन्धान यहां भी करना चाहिए, ऐसा सूत्रकार सूचित करते हैं । और ‘यावान् वा अयमाकाशः’ (जितना बड़ा यह वाह्य आकाश है, उतना ही यह आकाश हृदयमें है) यह श्रुति ही प्रसिद्ध आकाश से उपमा देकर अल्पत्वका निरास करती है ॥२१॥

रत्नप्रभा

उपास्यत्वाद् अल्पत्वम् उक्तमिति व्याख्याय श्रुत्या निरस्तमित्यर्थान्तरमाह—श्रुत्यैव चेदमिति । एवं दहरवाक्यं प्रजापतिवाक्यं च सगुणे निर्गुणे च समन्वितमिति सिद्धम् ॥ २१ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

उपास्य होनेके कारण दहराकाश अल्प है, ऐसा व्याख्यान करके श्रुतिमें अल्पत्वका निरास किया है, ऐसा अन्य अर्थ कहते हैं—‘श्रुत्यैव चेदम्’ इत्यादिते । इस प्रकार दहरवाक्य और प्रजापतिवाक्यका क्रमशः सगुण और निर्गुणमें समन्वय सिद्ध हुआ ॥ २१ ॥

[६ अनुकृत्यधिकरण सू० २२-२३]

न तत्र सूर्यो भातीति तेजोऽन्तरमुतापि चित् ।

तेजोऽभिभावकत्वेन तेजोन्तरमिदं महत् ॥१॥

चित्स्यात्सूर्याद्यभास्यत्वात् तादृक् तेजोऽपसिद्धितः ।

सर्वस्मात्पुरतो भानात्तद्भासा चान्यभासनात्* ॥२॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—‘न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्’ इत्यादि श्रुतिमें प्रतिपादित जगद्भासक सूर्य आदिसे अतिरिक्त कोई दृष्टिगोचर तेजस्वी पदार्थ है अथवा चैतन्यरूप ब्रह्म ?

पूर्वपक्ष—सूर्य आदि तेजका अभिभावक होनेके कारण वह सूर्य आदिसे अतिरिक्त कोई विपुल तेज ही हो सकता है ।

सिद्धान्त—सूर्य आदिसे भास्य न होने, सूर्य आदिको अभिभूत करनेवाले किसी दूसरे तेजके प्रसिद्ध न होने, सबसे पहले भान होने एवं अपनी भासे अन्य सबको भासित करनेके कारण उक्त श्रुतिमें कथित जगद्भासक चैतन्यरूप ब्रह्म ही है ।

* निष्कर्ष यह कि मुण्डकोपनिषद्की श्रुति है कि ‘न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥’ अर्थात् पूर्व प्रस्तुत सब ज्योतियोंकी ज्योतिके सामने सूर्य आदिका प्रकाश फीका पड़ जाता है । इतना ही नहीं किन्तु सूर्य आदि सब ज्योतियोंके भासक उस अलौकिक पदार्थके पहले भासित होनेपर ही सारा जगत् भासित होता है । जगत् अपनी प्रकाशमान दशामें अपने स्वतन्त्र प्रकाशसे प्रकाशित नहीं होता, बल्कि उसी सर्वभासक पदार्थकी भासे ही प्रकाशित होता है । यद्वापर सन्देह होता है कि उक्त वाक्यमें प्रतिपादित जगद्भासक, सूर्य आदिके समान दृष्टिगोचर होनेवाला कोई अतिरिक्त तेज है, या चैतन्यरूप ब्रह्म है ।

पूर्व पक्षी कहता है कि वह अन्य तेज ही है, क्योंकि वह सूर्य आदिके तेजको अभिभूत करनेवाला कहा गया है, सूर्यके सामने दीपकी तरह बड़े तेजके ही सामने छोटा तेज अभिभूत होता है । इससे प्रतीत होता है कि सूर्य आदिको अभिभूत करनेवाला सूर्य आदिसे अधिक कोई अतिरिक्त तेज ही है ।

सिद्धान्ती कहते हैं कि जो पदार्थ सूर्य आदिसे अभास्य कहा गया है वह चैतन्यरूप ब्रह्म ही है, क्योंकि प्रथम तो सूर्य आदिका अभिभावक कोई विपुल तेज प्रसिद्ध ही नहीं है, दूसरे ‘तमेव भान्तमनुभाति’ के अनुसार सबसे पहले भासना चैतन्यरूप ब्रह्मका ही धर्म है, तीसरे प्रकाश और अप्रकाशरूप सारे जगत्का भासक होना भी चैतन्यका ही धर्म है । इससे सिद्ध हुआ कि उक्त वाक्यमें चैतन्यरूप ब्रह्म ही कहा गया है ।

अनुकृतेस्तस्य च ॥२२॥

पदच्छेद—अनुकृतेः, तस्य, च ।

पदार्थोक्ति—अनुकृतेः—['न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्' इत्यादि-
मन्त्रे प्रतीयमानं वस्तु न तेजोविशेषः, किन्तु ब्रह्मैव, कुत'] सर्वपदार्थानां तत्तेजोऽ-
नुकरणात्, तस्य च—ब्रह्मणो भासैव सर्वेषां भास्यत्वावगमात् ।

भाषार्थ—'न तत्र सूर्यो०, (न उसको सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा,
नक्षत्र, विजुली आदि ही प्रकाशित कर सकते हैं, इस अग्नि की तो कथा ही क्या है अर्थात्
अग्नि भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकती है । ये सब उसीके प्रकाशका अनुकरण करते
हैं, उसीके प्रकाशसे यह सारा जगत् प्रकाशित होता है) इत्यादि स्थलमें प्रतीयमान
वस्तु कोई तेजोविशेष नहीं है, किन्तु ब्रह्म ही है, क्योंकि श्रुतिमें कहा है कि
उसके प्रकाशका ही सब अनुकरण करते हैं, और श्रुतिसे यह भी प्रतीत होता
है कि ब्रह्मके प्रकाशसे ही सारा जगत् प्रकाशित होता है ।



भाष्य

'न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽप्यमग्निः ।
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥'

भाष्यका अनुवाद

न तत्र सूर्यो भाति०' (उस स्वात्मभूत ब्रह्मको न सूर्य, चन्द्रमा तथा तारे
प्रकाशित कर सकते हैं और न विजुलियां ही प्रकाशित कर सकती हैं, अग्नि की
तो कथा ही क्या है ? उसी परमेश्वरके प्रकाशित होनेके अनन्तर सब प्रकाशित
होते हैं, उसके प्रकाशसे यह सारा जगत् प्रकाशित होता है) ऐसी श्रुति है । उक्त

रत्नप्रभा

अनुकृतेस्तस्य च । मुण्डकवाक्यम् उदाहरति—न तत्रेति । तस्मिन् ब्रह्मणि
विषये न भाति, तं न भासयति इति यावत् । यदा चण्डभास्करादिर्न भासयति,
तदा अल्पदीप्तेः अग्नेः का कथा इत्याह—कुत इति । किञ्च, सर्वस्य सूर्यादिः

रत्नप्रभाका अनुवाद

'न तत्र' इत्यादि मुण्डकवाक्यको उद्धृत करते हैं । सूर्य उस ब्रह्ममें नहीं प्रकाशता
अर्थात् सूर्य ब्रह्मको प्रकाशित नहीं कर सकता । जब चण्ड भास्कर आदि ब्रह्मको प्रकाशित नहीं
कर सकते, तो जिसका प्रकाश बहुत थोड़ा है, वह अग्नि उसे कैसे प्रकाशित कर सकेगी,

भाष्य

(सु०२।२।१०) इति समामनन्ति । तत्र यं भान्तमनुभाति सर्वं यस्य च भासा सर्वमिदं विभाति, स किं तेजोधातुः कश्चिदुत प्राज्ञ आत्मेति विचिकित्सायां तेजोधातुरिति तावत् प्राप्तम् । कुतः ? तेजोधातूनामेव सूर्या-

भाष्यका अनुवाद

वाक्यमें जिसके प्रकाशित होनेसे ये सब सूर्य, चन्द्र आदि चमकते हैं और जिसके प्रकाशसे यह सारा जगत् प्रकाशित होता है, उसके विषयमें सन्देह होता है कि क्या वह कोई तेजस्वी पदार्थ है अथवा परमात्मा है ?

पूर्वपक्षी—वह तेजस्वी पदार्थ है, क्योंकि सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थोंके ही

रत्नप्रभा

तद्भास्यत्वाद् नै तद्भासकत्वमित्याह—तमेवेति । अनुगमनवद् अनुभानं स्वगत-भानकृतमिति शङ्कां निरस्यति—तस्येति । तत्रेति सप्तम्याः सति विषये च साधारण्यात् संशयमाह—तत्रेति । पूर्वत्र आत्मश्रुत्यादिबलाद् आकाशशब्दस्य रूढित्यागाद् ईश्वरे, वृत्तिराश्रिता, तथा इहाऽपि सतिसप्तमीबलाद् वर्तमानार्थत्यागेन यस्मिन् सति सूर्यादयो न भास्यन्ति, स तेजोविशेष उपास्य इति भविष्यदर्थे वृत्तिराश्रयणीया । अधुना भासमाने सूर्यादौ न भातीति विरोधाद् इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति—तेजोधातुरिति । तेजोघ्यानं निर्गुणस्वयंज्योतिरात्मज्ञानमिति उभयत्र फलम् । तेजोधातुत्वे लिङ्गमाह—तेजोधातूनामेवेति । यत्तेजसोऽभिभावकं

रत्नप्रभाका अनुवाद

ऐसा श्रुति कहती है—“कुतः” इत्यादिसे । और “तमेव” इत्यादिसे कहती है—सूर्य आदि सब पदार्थोंका भासक ब्रह्म है, इसलिए उसका भासक कोई नहीं है । जैसे कोई अपनी गतिसे अनुगमन करता है, उसी प्रकार स्वगत भान—प्रकाशसे अनुभान करता है, ऐसी आशङ्काको दूर करनेके लिए श्रुति कहती है—तस्य” इत्यादि । ‘तत्र’ यह सप्तमी सतिसप्तमी और विषयसप्तमी दोनों हो सकती है, अतः सन्देह करते हैं—“तत्र” इत्यादिसे । पूर्व अधिकरणमें आत्मश्रुति आदिके बलसे रूढिका त्याग करके आकाशशब्द ईश्वरवाचक माना गया है, उसी प्रकार यहां भी सतिसप्तमीके बलसे वर्तमानरूप अर्थका परित्याग करके जिसकी सत्तामें सूर्य आदि प्रकाशित नहीं होंगे, वह तेजोविशेष उपासनायोग्य है, इस प्रकार भविष्यदर्थमें वृत्तिकी आश्रयण करना चाहिए, क्योंकि जिस वर्तमान समयमें सूर्य आदि प्रकाशमान हैं उस समय ‘नहीं भासते हैं’ यह कहना विरुद्ध है, इस प्रकार दृष्टान्तसे पूर्वपक्ष करते हैं—“तेजोधातु” इत्यादिसे । पूर्वपक्षमें तेजोविशेषका घ्यान फल है और सिद्धान्तमें निर्गुण स्वयंज्योति आत्माका ज्ञान फल है । तेजोधातुको स्वीकार करनेमें हेतु देते हैं—“तेजोधातूनामेव”

भाष्य

दीनां भानप्रतिषेधात् । तेजःस्वभावकं हि चन्द्रतारकादि तेजःस्वभावक एव सूर्ये भासमानेऽहनि न भासत इति प्रसिद्धम्, तथा सह सूर्येण सर्वमिदं चन्द्रतारकादि यस्मिन्न भासते, सोऽपि तेजःस्वभाव एव कश्चिदित्यवगम्यते । अनुभानमपि तेजःस्वभावक एवोपपद्यते, समानस्वभावकेष्वनुकारदर्शनात्, गच्छन्तमनुगच्छतीतिवत् । तस्मात् तेजोधातुः कश्चित् ।

इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः—प्राज्ञ एवाऽयमात्मा भवितुमर्हति । कस्मात् ? अनु-

भाष्यका अनुवाद

भानका प्रतिषेध किया है । दिनमें जब कि तेजस्वी सूर्य प्रकाशमान रहता है, तब तेजःस्वभाववाले चन्द्र, तारे आदि नहीं चमकते हैं, यह प्रसिद्ध है । वसी प्रकार सूर्यके साथ चन्द्र, तारे आदि ये सब जिसके सामने फीके पड़ जाते हैं, वह भी तेजःस्वभाव ही है, ऐसा समझा जाता है । अनुभान भी तभी संगत होता है, जब कि तेज जिसका स्वभाव है, ऐसा कोई पदार्थ हो, क्योंकि समान स्वभाववालेमें ही अनुकरण दिखाई देता है, जैसे कि 'जाते हुएके पीछे जाता है' इसमें स्पष्ट है । इससे प्रतीत होता है कि वह कोई एक तेजस्वी पदार्थ ही है ।

सिद्धान्ती—ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं—वह परमात्मा ही है, क्योंकि

रत्नप्रभा

तचेज इति व्याप्तिमाह—तेजःस्वभावकमिति । यस्मिन् सति यन्न भाति तदनु तद् भातीति विरुद्धमित्यत आह—अनुभानमपीति । ततो निष्कृष्टभानं विवक्षितमिति भावः ।

मुख्यसम्भवे विवक्षानुपपत्तेः मुख्यानुभानलिङ्गात् सर्वभासकः परमात्मा स्वप्रकाशकोऽत्र ग्राह्य इति सिद्धान्तमाह—प्राज्ञ इति । प्राज्ञत्वम्—स्वप्रकाशकत्वं भासक-

रत्नप्रभाका अनुवाद

जो तेजका अभिभावक है, वह तेज है, ऐसी व्याप्ति कहते हैं—“तेज स्वभावकम्” इत्यादिसे । जिसके रहते जो प्रकाश नहीं करता वह उस तेज पदार्थके पीछे प्रकाश करे यह विरुद्ध है, हमपर कहते हैं—“अनुभानमपि” इत्यादि । अर्थात् उस अतितेजस्वी पदार्थके भानकी अपेक्षा निष्कृष्ट भान विवक्षित है ।

मुख्य अनुभानका सम्भव होने पर गौण निष्कृष्ट भानकी विविक्षा अनुपपन्न है, इसलिए मुख्य अनुभानलिङ्गसे सर्वभासक और स्वप्रकाश परमात्मा ही यहाँ ग्राह्य है, ऐसा सिद्धान्त करते हैं—“प्राज्ञ एव” इत्यादिसे । प्राज्ञ—स्वप्रकाशक । आत्मा स्वप्रकाशक है, यह दिखलानेके

भाष्य

कृतेः । अनुकरणमनुकृतिः । यदेतत् 'तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्'
इत्यनुभानम्, तत् प्राज्ञपरिग्रहेऽवकल्पते । 'भारूपः सत्यसङ्कल्पः'
(छा० ३।१।४।२) इति हि प्राज्ञमात्मानमानन्ति, न तु तेजोधातुं कश्चित् सूर्या-
दयोऽनुभान्तीति प्रसिद्धम् । समत्वाच्च तेजोधातूनां सूर्यादीनां न तेजोधातु-
मन्यं प्रत्यपेक्षाऽस्ति यं भान्तमनुभायुः । नहि प्रदीपः प्रदीपान्तरमनुभाति ।
यदप्युक्तम्—समानस्वभावकेष्वनुकारो दृश्यते—इति । नाऽयमेकान्तो
नियमः, भिन्नस्वभावकेष्वपि ह्यनुकारो दृश्यते, यथा सुतप्तोऽयःपिण्डोऽग्न्य-

भाष्यका अनुवाद

अनुकृति कही गई है । अनुकृति अर्थात् अनुकरण । 'तमेव भान्त०'
यह अनुभान परमात्माके ग्रहण करनेपर ही संगत हो सकता है ।
'भारूपः०' (दीप्ति—चैतन्य लक्षण जिसका स्वरूप है और जिसका संकल्प
सत्य है) इत्यादि श्रुतिमें परमात्मा स्वयंप्रकाशस्वरूप और सत्यसंकल्प कहा
गया है और किसी तेजस्वीके प्रकाशके अनन्तर सूर्य आदि का चमकना
प्रसिद्ध नहीं है । सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थ सब समान हैं अतः उनको अन्य
तेजस्वीकी अपेक्षा नहीं है कि जिसके चमकने पर वे चमकें । प्रदीप
किसी अन्य प्रदीपके प्रकाशके अनन्तर नहीं प्रकाशता । और पीछे यह जो
कहा गया है कि जिनका स्वभाव समान है, उनमें अनुकरण दिखाई देता है,
ऐसा कोई एकान्तिक—अटल नियम नहीं है, क्योंकि भिन्न स्वभाववालोंमें भी

रत्नप्रभा

त्वार्थमुक्तम्, तत्र श्रुतिमाह—भारूप इति । मानामावाच तेजोधातुर्न प्राज्ञ
इत्याह—न त्विति । किञ्च, सूर्यादयः तेजोऽन्तरभानमनु न भान्ति, तेजस्त्वात्
प्रदीपवदित्याह—समत्वाच्चेति । योऽयम् अनुकरोति स तज्जातीय इति नियमो
नाऽस्तीत्याह—नायमेकान्त इति । पौनरुक्त्यम् आशङ्क्य उक्तानुवादपूर्वकं

रत्नप्रभाका अनुवाद

लिए प्राज्ञशब्द कहा है । उसकी पुष्टिके लिए प्रमाणरूपसे धृति उद्धृत करते हैं—'भारूपः'
इत्यादि । प्रमाणके अभावसे भी तेजोपनुका ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं—
'न तु' इत्यादिते । और सूर्य आदि पदार्थ तेज होनेके कारण प्रदीपके समान दूसरे तेजके
प्रकाशसे नहीं प्रकाशते, ऐसा कहते हैं—'समत्वाच्च' इत्यादिते । जो जिसका अनुकरण
करता है, वह उसी जातिका हो, यह नियम नहीं है, ऐसा कहते हैं—'नायमेकान्तः' इत्यादिते

भाष्य

नुकृतिरग्निं दहन्तमनुदहति, भौमं वा रजो वायुं वहन्तमनुवहतीति । अनु-
कृतेरित्यनुमानमसूचत् । तस्य चेति चतुर्थं पादमस्य श्लोकस्य सूचयति ।
'तस्य भासा सर्वमिदं विभाति' इति तद्वेतुकं भानं सूर्यादेरुच्यमानं
प्राज्ञमात्मानं गमयति । 'तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासतेऽमृतम्'
(वृ० ४।४।१६) इति हि प्राज्ञमात्मानमामनन्ति । तेजोन्तरेण तु सूर्या-
दितेजो विभातीत्यप्रसिद्धं विरुद्धं च, तेजोन्तरेण तेजोन्तरस्य प्रतिघातात् ।

भाष्यका अनुवाद

अनुकरण देखनेमें आता है, जैसे कि भली भांति तपा हुआ लोहे का गोला
अग्निका अनुकरण करता है अर्थात् जलते हुए अग्निके पीछे जलता है अथवा
पृथिवीकी रज वहते हुए वायुके पीछे चलती हैं । 'अनुकृतेः' यह सूत्रभाग
अनुमानको सूचित करता है । 'तस्य च' यह सूत्रभाग उक्त श्लोकके चौथे
पादको सूचित करता है । 'तस्य भासा०' (उसके प्रकाशसे यह सब प्रकाशित
होता है) इस प्रकार तत्कृत जो सूर्य आदिका प्रकाश श्रुतिमें कहा गया है, वह
भी परमात्माकी अवगति कराता है । 'तद्देवा ज्योतिषां०' (वह ज्योतियोंका
ज्योति जो अमृत है, उसकी देव आयुरूपसे उपासना करते हैं) इस प्रकार श्रुति
परमात्माको कहती है । सूर्य आदि तेज अन्य तेजसे प्रकाशित होते हैं, यह
अप्रसिद्ध है और विरुद्ध भी है, क्योंकि एक तेज दूसरे तेजका प्रतिघात करता

रत्नप्रभा

सूत्रोक्तं हेत्वन्तरं व्याचष्टे—अनुकृतेरिति । तमेव भान्तमिति एवकारोक्तं
तद्भानं विना सर्वस्य पृथग्भानाभावरूपमनुमानमनुकृतेरित्यनेन उक्तम् । तस्य चेति
सर्वभासकत्वमुक्तमित्यपौरुक्ष्यमित्यर्थः । आत्मनः सूर्यादिभासकत्वं श्रुत्यन्तर-
प्रसिद्धमविरुद्धं चेत्याह—तद्देवा इति । सर्वशब्दः प्रकृतसूर्यादिवाचकत्वेन

रत्नप्रभाका अनुवाद

पुनरुक्तिकी आशका करके पूर्व कथितका अनुवादपूर्वक सूत्रमें कहा हुआ दूसरा हेतु
कहते हैं—'अनुकृतेरिति' इत्यादिसे । 'तमेव०' इसमें एवकारसे सूचित उसके प्रकाशके
विना सबका पृथक् पृथक् प्रकाशाभावरूप अनुमान 'अनुकृतेः' इस सूत्रभागसे कहा गया है
और 'तस्य च' इस सूत्रभागसे 'वह सर्वभासक है' ऐसा कहा है, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है,
यह तात्पर्य है । आत्मा सूर्य आदिका भासक है, यह अन्य श्रुतिमें प्रसिद्ध है और अविरुद्ध
भी है, ऐसा कहते हैं—'तद्देवा' इत्यादिसे । 'सर्वमिद०' में 'सर्व' शब्द प्रकृत सूर्य आदिका
वाचक है, ऐसा व्याख्यान किया गया है, अब उसकी असंबुधित श्रुति मानकर अर्थान्तर

भाष्य

अथवा न सूर्यादीनामेव श्लोकपरिपठितानामिदं तद्वेतुकं विमानमुच्यते । किं तर्हि ? 'सर्वमिदम्' इत्यविशेषश्रुतेः सर्वस्यैवाऽस्य नामरूपक्रियाकारकफलजातस्य याऽभिव्यक्तिः, सा ब्रह्मज्योतिःसत्तानिमित्ता । यथा सूर्यादिज्योतिःसत्तानिमित्ता सर्वस्य रूपजातस्याऽभिव्यक्तिः तद्वत् । 'न तत्र सूर्यो भाति' इति च तत्रशब्दमाहरन् प्रकृतग्रहणं दर्शयति । प्रकृतं च ब्रह्म 'यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतम्' (मु०२।२।५) इत्यादिना । अनन्तरं च 'हिरण्यमये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् ।

तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः ॥' इति ॥

भाष्यका अनुवाद

है अर्थात् अभिभावक है । अथवा श्लोकमें पढ़े हुए सूर्य आदि ही उससे प्रकाशित नहीं होते, किन्तु जैसे सूर्यज्योतिसे ही सब रूपसमुदायकी अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही 'सर्वमिदम्' इस साधारण श्रुतिसे नाम, रूप, क्रिया, कारक और फलसमुदायकी अभिव्यक्ति ब्रह्म ज्योति की सत्ता से ही होती है । 'न तत्र०' इसमें 'तत्र' शब्दका कथन करती हुई श्रुति प्रकृतका ग्रहण दिखलाती है और 'यस्मिन् द्यौः०' (जिसमें द्युलोक, पृथिवी और अन्तरिक्ष कल्पित हैं) इत्यादिसे ब्रह्म ही प्रकृत है, और तदन्तर 'हिरण्यमये परे कोशे०' (जिसको आत्मवेत्ता जानते हैं, वह ज्योतिर्मय आनन्दमय श्रेष्ठ कोशमें स्थित अविद्यादि दोषवर्जित निरवयव ब्रह्म है, वह शुद्ध एवं ज्योतियोंका ज्योति है)

रत्नप्रभा

व्याख्यातः, सम्प्रति तस्याऽसंकुचद्वृत्तितां मत्वाऽर्थान्तरमाह—अथवेति । तत्रेति सर्वनामश्रुत्या प्रकृतं ब्रह्म ब्राह्ममित्याह—न तत्र सूर्य इति । किञ्च, स्पष्टब्रह्मपरपूर्वमन्त्राकाङ्क्षापूरकत्वाद् अयं मन्त्रो ब्रह्मपर इत्याह—अनन्तरं चेति । हिरण्यमये ज्योतिर्मये, अन्नमयाद्यपेक्षया परे कोशे—आनन्दमयाख्ये पुच्छशब्दितं ब्रह्म

रत्नप्रभाका अनुवाद

कहते हैं—“अथवा” इत्यादिसे । 'तत्र' इस सर्वनामसे प्रकृत ब्रह्म ब्राह्म है, ऐसा कहते हैं—“न तत्र सूर्यः” इत्यादिसे । और पूर्व मंत्रमें ब्रह्म स्पष्टतया प्रतीत होता है और यह मंत्र उग्र मन्त्रकी आकांक्षा पूरी करता है, इसलिये यह भी ब्रह्मपरक है, ऐसा कहते हैं—“अनन्तरं च” इत्यादिसे । हिरण्यमय अर्थात् ज्योतिर्मय, पर अर्थात् अन्नमय आदि कोशोंके पर जो आनन्दमय कोश है, उसमें 'ब्रह्म पुच्छ०' ऐसा जो पुच्छशब्दप्रतिपाद्य ब्रह्म है, वह विरज है अर्थात् आगन्तुक मलमे शून्य है, निष्कल अर्थात् निरवयव है और शुभ्र अर्थात्

भाष्य

कथं तज्ज्योतिषां ज्योतिरित्यत इदमुत्थितम्—'न तत्र सूर्यो भाति'
इति । यदप्युक्तम्—सूर्यादीनां तेजसां भानप्रतिपेधस्तेजोधातावेवाऽन्य-
स्मिन्नवकल्पते सूर्य इवेतरेषाम् इति । तत्र तु स एव तेजोधातुरन्यो न
सम्भवतीत्युपपादितम् । ब्रह्मण्यपि चैषां भानप्रतिपेधोऽवकल्पते, यतो
यदुपलभ्यते तत् सर्वं ब्रह्मणैव ज्योतिषोपलभ्यते, ब्रह्म तु नाऽन्येन ज्योति-
षोपलभ्यते स्वयंज्योतिःस्वरूपत्वात्, येन सूर्यादयस्तस्मिन् भायुः ।

भाष्यका अनुवाद

इस श्रुतिसे ब्रह्म ही कहा गया है । वह ज्योतियोंका ज्योति किस प्रकार है ? इस
शंकाके उत्तरमें 'न तत्र०' इत्यादि मंत्र कहा गया है । सूर्यमें अन्य तेजोंके प्रतिपेधके
समान सूर्य आदि तेजोंके प्रकाशका प्रतिपेध तमी धन सकता है जब कि कोई
अन्य तेजस्वी पदार्थ हो, ऐसा जो पीछे कहा गया है, उसके उत्तरमें वह ब्रह्मही तेज
है उससे अन्यका सम्भव नहीं है, ऐसा उपपादन किया जा चुका है । ब्रह्ममें भी
इन तेजोंके प्रकाशका प्रतिपेध संभव है, क्योंकि जो उपलब्ध होता है, वह सब ब्रह्म-
रूप ज्योति द्वारा ही उपलब्ध होता है । यदि ब्रह्म अन्यभास्य होता तो सूर्य आदि
उसके भासक हो सकते, किन्तु ब्रह्म अन्य ज्योतिसे उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि

रत्नप्रभा

विरजम्—आगन्तुकमलशून्यम्, निष्कलम्—निरवयवम्, शुभ्रम्—नैसर्गिकमल-
शून्यं सूर्यादिसाक्षिभूतं ब्रह्मवित्प्रसिद्धमित्यर्थः । सतिसप्तमीपक्षमनुवदति—यदपीति ।
सूर्याद्यभिभावकतेजोधातौ प्रामाणिके तस्येह ग्रहणशङ्का स्यात् न तत्र प्रमाणमस्ति
इत्याह—तत्रेति । सिद्धान्ते तत्रेति वाक्यार्थः कथमित्याशङ्क्याह—ब्रह्मण्यपीति ।
सतिसप्तमीपक्षे न भातीति श्रुतं वर्तमानत्वं त्यक्त्वा तस्मिन् सति न भास्यन्ति

रत्नप्रभाका अनुवाद

स्वाभाविक मलसे शून्य है, ज्योतियोंका अर्थात् सूर्य आदिका ज्योति—साक्षिभूत है एवं
ब्रह्मवेत्ताओंमें प्रसिद्ध है, यह श्रुतिको अर्थ है । सतिसप्तमीपक्षका अनुवाद करते हैं—
“यदपि” इत्यादिसे । सूर्य आदिका अभिभव करनेवाला कोई तेजोधातु प्रमाणसे सिद्ध हो तो
उसका ग्रहण करें या न करें, ऐसा विचार हो, परन्तु उस तेजोधातुके अस्तित्वमें ही प्रमाण नहीं
है, ऐसा कहते हैं—“तत्र” इत्यादिसे । सिद्धान्तमें ‘तत्र’ इत्यादि वाक्यका क्या अर्थ है, ऐसी
शंका करके कहते हैं—“ब्रह्मण्यपि” इत्यादि । सतिसप्तमीपक्षमें ‘न भाति’ ऐसा जो वर्तमान
काल धृत है, उसका त्याग करके ‘तस्मिन्०’ वह हो तो प्रकाश नहीं करेंगे, ऐसे अश्रुत

भाष्य

ब्रह्म ह्यन्यद् व्यनक्ति, न तु ब्रह्म अन्येन व्यज्यते 'आत्मनैवायं ज्योतिपास्ते'
(बृ० ४।३।६) 'अगृह्यो नहि गृह्यते' (बृ० ४।२।४) इत्यादि-
श्रुतिभ्यः ॥ २२ ॥

- भाष्यका अनुवाद

यह स्वयंज्योतिःस्वरूप है। ब्रह्म अन्य पदार्थोंको व्यक्त करता है, परन्तु अन्यसे व्यक्त नहीं होता, क्योंकि 'आत्मनैवायं' (आत्मरूप ज्योतिसे ही यह प्रकाशित है) 'अगृह्यो नहि', (यह अगृह्य है, क्योंकि ग्रहण नहीं किया जा सकता) इत्यादि श्रुतियाँ हैं ॥ २२ ॥

रत्नप्रभा

इति अश्रुतभविष्यत्त्वं कल्पनीयं प्रत्यक्षविरोधनिरासाय, विषयसप्तमीपक्षे तु न भासयति इत्यश्रुतणिजध्याहारमात्रं कल्प्यम्, न श्रुतत्याग इति लाघवम्, अतो ब्रह्मणि विषये सूर्यादिर्भासकत्वनिषेधेन ब्रह्मभास्यत्वमुच्यते इत्यर्थः। येनाऽन्यभास्यत्वेन हेतुना सूर्यादयस्तस्मिन् ब्रह्मणि विषये भासकाः स्युः, तथा तु ब्रह्म अन्येन न उपलभ्यते स्वप्रकाशत्वादिति योजना। उक्तमेव श्रुत्यन्तरेण द्रढयति-ब्रह्मेति। स्वप्रकाशत्वे अन्याभास्यत्वे च श्रुतिद्वयम्। ग्रहणायोग्यत्वाद् अग्राह्य इत्यर्थः ॥२२॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

भविष्यत् कालकी कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि इस कल्पनासे ही प्रत्यक्ष विरोधका अर्थात् जो विरोध प्रत्यक्ष है कि प्रत्यक्ष प्रकाशित होनेवाला सूर्य 'नहीं प्रकाशता है' इस कथनका निरास होगा। और विषयसप्तमीपक्षमें तो 'न भासयति' प्रकाश नहीं करता' ऐसे अश्रुत 'णिच्' के अध्याहारकी ही कल्पना करनी पड़ेगी, और श्रुतका त्याग नहीं है, ऐसा लाघव है, इसीलिए ब्रह्मके विषयमें सूर्य आदिके भासकत्वके निषेधसे वे ब्रह्मसे भास्य हैं, ऐसा कहा गया, यह अर्थ है। यदि ब्रह्म अन्यभास्य होता तो सूर्य आदि उसके भासक होते, ब्रह्म तो अन्यभास्य नहीं है, क्योंकि स्वप्रकाश है, ऐसी योजना करनी चाहिए। उक्त अर्थको ही अन्य श्रुतिसे दृढ़ करते हैं—“ब्रह्म” इत्यादिसे। ब्रह्म स्वप्रकाशक है और अन्यमें भास्य नहीं है, इस विषयमें दो श्रुतियाँ हैं। ब्रह्म ग्रहण करने योग्य नहीं है, इसलिए अग्राह्य है, यह श्रुतिका अर्थ है ॥२२॥



अपि च स्मर्यते ॥ २३ ॥

पदच्छेद—अपि, च, स्मर्यते ।

पदार्थोक्ति—अपि च—किञ्च, स्मर्यते—इदं रूपम्—‘न तद् भासयते सूर्यो’ ‘यदादित्यगतं तेजो’ इत्यादिभगवद्गीतास्वपि ब्रह्मण एव स्मर्यते ।

भाषार्थ—और ‘न तद्भासयते०’ (न उसको सूर्य प्रकाशित करता है, न चन्द्रमा और न अग्नि) ‘यदादित्य०’ (आदित्यमें रहनेवाला जो तेज है, वही इस सारे जगत्को प्रकाशित करता है) इत्यादि भगवद्गीतामें भी यह पूर्वोक्त रूप ब्रह्मण ही कहा गया है ।



भाष्य

अपि चेद्वग्रूपत्वं प्राज्ञस्यैवाऽऽत्मनः स्मर्यते भगवद्गीतासु—

‘न तद् भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः ।

यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम ॥ (गी० १५।६) इति,

‘यदादित्यगतं तेजो जगद् भासयतेऽखिलम् ।

यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत् तेजो विद्धि मामकम् ॥’ (गी० १५।१२)

इति च ॥ २३ ॥

भाष्यका अनुवाद

और भगवद्गीतामें भी ऐसा स्वरूप परमात्माका ही कहा गया है ‘न तद्भासयते सूर्यो न०’ (उसको न सूर्य और चन्द्रमा प्रकाशित करते हैं और न अग्नि ही प्रकाशित करती है, जिसको प्राप्त करके पुरुष पीछे नहीं लौटता, वह मेरा परम धाम है) और ‘यदादित्यगतं०’ (आदित्यगत जो तेज सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशमान करता है और जो तेज चन्द्रमामें है और जो अग्निमें है वह तेज मेरा ही जानो) ॥२३॥

रत्नप्रभा

गिजध्याहारपक्षे स्मृतिबलमप्यस्ति इत्याह—अपि चेति । सूत्रं व्याचष्टे—अपि चेति । अभास्यत्वे सर्वभासकत्वे च श्लोकद्वयं द्रष्टव्यम् । तस्माद् अनुमानमन्त्रो ब्रह्मणि समन्वित इति सिद्धम् ॥ २३ ॥ (७) ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

“अपि च” इत्यादिसे कहते हैं कि ‘गिञ्’ के अध्याहार पक्षमें स्मृतिका भी बल है । सूत्रका व्याख्यान करते हैं—“अपि च” इत्यादिसे । ब्रह्म अन्यभास्य नहीं है और सर्वभासक है, इन दो विषयोंमें दो श्लोक हैं । इसमें अनुमानमन्त्रका ब्रह्ममें समन्वय सिद्ध हुआ ॥२३॥

[७ प्रमिताधिकरण सू० २४-२५]

अङ्गुष्ठमात्रो जीवः स्यादीशो वाऽल्पप्रमाणतः ।

देहमध्ये स्थितेश्चैव जीवो भावितुमर्हति ॥१॥

भूतभव्येशता जीवे नास्त्यतोऽसाविहेश्वरः ।

स्थितिप्रमाणे ईशेऽपि स्तो हृद्यस्योपलब्धितः* ॥२॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—‘अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति’ इस श्रुतिमें उक्त अङ्गुष्ठ-
मात्र पुरुष जीव है अथवा ईश्वर ?

पूर्वपक्ष—अँगूठेके बराबर अल्प प्रमाण होने एव देहके मध्यमे रहनेके कारण
उक्त पुरुष जीव ही हो सकता है ।

सिद्धान्त—जीव भूत और भाविष्यत् जगत्का शासक नहीं हो सकता, इसलिए वह
ईश्वर ही है । हृदयमें ईश्वरकी उपलब्धि होती है, अतः हृदयमे रहना, अँगूठेके
बराबर होना ईश्वरमें भी संभव है । इसलिए उक्त वाक्यमें ईश्वर ही कहा गया है ।

* निष्कर्ष यह है कि कठोपनिषत्की चौथी वहीमें—“अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ।
ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥” यह श्रुति है । इसका अर्थ है कि अँगूठेके बराबर पुरुष
देहके मध्यमें रहता है, वह भूत और भाविष्यत्का स्वामी है, उसके ज्ञात होनेके बाद जीव अपना
रक्षण करना नहीं चाहता, क्योंकि वह अमयको प्राप्त हो जाता है । यहाँपर सन्देह होता है कि
अङ्गुष्ठमात्र जो पुरुष कहा गया है, वह जीव है अथवा ईश्वर ?

पूर्वपक्षी कहता है कि उक्त अङ्गुष्ठमात्र पुरुष जीव ही है, क्योंकि अँगूठेके बराबर अल्प प्रमाण
एवं देहके मध्यमें स्थिति जीवकी ही हो सकती है ।

सिद्धान्ती कहते हैं कि अङ्गुष्ठमात्र परमात्मा ही है, क्योंकि ‘ईशानो भूतभव्यस्य’ से श्रुति
-उसे भूत और भाविष्यत् रूप सारे जगत्का नियन्ता कहती है । जीव तो स्वयं नियम्य है, अतः उसमें
जगन्नियन्तृत्व सम्भव नहीं है । अँगूठेके बराबर अल्प परिमाण तथा देहके मध्यमें स्थिति ईश्वरमें
भी सम्यक् है । ईश्वरकी अल्प तद्दयकर्मलमें उपलब्धि होती है, अतः अल्प परिमाण और देहमध्यमें
अवस्थितिका यहाँ संकीर्तन है । इससे सिद्ध हुआ कि अङ्गुष्ठमात्र परमेश्वर ही है ।

शब्दादेव प्रमितः ॥ २४ ॥

पदच्छेद—शब्दाद्, एव, प्रमितः ।

पदार्थोक्ति—प्रमितः—‘अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । ईशानो भूतभव्यस्य’ इति प्रमितवाक्यप्रतिपाद्यः [जीवामिन्न. परमात्मैव, कुतः] शब्दादेव—श्रुतौ ईशानशब्दसत्त्वादेव ।

भाषार्थ—‘अङ्गुष्ठमात्र ०’ (अङ्गुष्ठमात्र पुरुष जो धूमरहित ज्योतिके समान है, वह भूत एव भविष्यत्का शासक है) इत्यादि प्रमितवाक्यसे प्रतिपाद्य अङ्गुष्ठमात्र जीवसे अभिन्न परमात्मा ही है, क्योंकि श्रुतिमें ‘ईशान’ शब्द आया है । ईशान—सबका शासक परमात्मा ही है ।

भाष्य

‘अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति’ इति श्रूयते । तथा ‘अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स भाष्यका अनुवाद

‘अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ०’ (अङ्गुठके बराबर पुरुष देहके मध्यमे रहता है) और अङ्गुष्ठमात्र पुरुषो ज्योति ०’ (अङ्गुठके बराबर पुरुष धूमरहित ज्योति-सा है, भूत और भविष्यत्का स्वामी है, वही आज है, वही कल रहेगा, यही वह

रत्नप्रभा

शब्दादेव प्रमितः । काठकवाक्य पठति—अङ्गुष्ठेति । पुरुषः पूर्णोऽपि आत्मनि देहे मध्ये अङ्गुष्ठमात्रे हृदये तिष्ठति इत्यङ्गुष्ठमात्र इत्युच्यते । तस्यैव परमात्मत्ववादिवाक्यान्तरमाह—तथेति । अधूमकमिति पठनीयम् । योऽङ्गुष्ठमात्रो जीव, स वस्तुतो निर्धूमज्योतिर्वत् निर्मलप्रकाशरूप इति त्वमर्थं सशोध्य तस्य ब्रह्मत्वमाह—ईशान इति । तस्य अद्वितीयत्वमाह—स एवेति । कालत्रयेऽ-

रत्नप्रभाका अनुवाद

काठकवाक्यको उद्धृत करते हैं—“अङ्गुष्ठ” इत्यादिसे । पुरुष अर्थात् व्यापक भी देहके मध्यभागमें अङ्गुठके बराबर हृदयमें रहता है, इसलिए अङ्गुष्ठमात्र कहलाता है । उसीका परमात्मरूपसे प्रतिपादन करनेवाला दूसरा वाक्य कहते हैं—“तथा” इत्यादिसे । ‘ज्योति’ पद नपुंसरलिङ्ग है, अतः ‘अधूमक’ के स्थानमें ‘अधूमकम्’ पठना चाहिए । अङ्गुठके बराबर जो जीव है, वह वस्तुतः धूमरहित ज्योतिके समान निर्मल प्रकाशरूप है, इस प्रकार त्वपदार्थका शोधन करके वह ब्रह्म है, ऐसा कहते हैं—“ईशान” इत्यादिसे । वह अद्वितीय है, ऐसा

भाष्य

उ श्च एतद्वै तत्' (का० २।४।१३) इति च । तत्र योऽयमङ्गुष्ठमात्रः पुरुषः श्रूयते स किं विज्ञानात्मा किं वा परमात्मेति संशयः । तत्र परिमाणोपदेशात् तावद् विज्ञानात्मेति प्राप्तम् । नह्यनन्तायामविस्तारस्य परमात्मनोऽङ्गुष्ठपरिमाणत्वमुपपद्यते । विज्ञानात्मनस्तूपाधिमत्त्वात् सम्भवति कयाचित् कल्पनयाऽङ्गुष्ठमात्रत्वम् । स्मृतेश्च—

भाष्यका अनुवाद

नचिकेताके प्रश्नका विषय ब्रह्म है। ये दो श्रुतियाँ हैं। उन श्रुतियोंमें जो अङ्गुष्ठमात्र पुरुष कहा गया है, वह विज्ञानात्मा-जीव है या परमात्मा है? ऐसा संशय होता है।

पूर्वपक्षी—उक्त वाक्यमें परिमाणके कथनसे प्रतीत होता है कि वह विज्ञानात्मा है। क्योंकि जिसके दीर्घत्व और विस्तारकी इयत्ता नहीं है, वह परमात्मा अँगूठेके बराबर हो, यह युक्त नहीं है। सोपाधिक होनेसे विज्ञानात्मा तो किसी न किसी प्रकार अँगूठेके बराबर हो सकता है। और

रत्नप्रभा

पि स एवाऽस्ति नाऽन्यत् किञ्चित्, यत् नचिकेतसा पृष्टं ब्रह्म, तत् एतदेवेत्यर्थः । परिमाणेशानशब्दाभ्यां संशयमाह—तत्रेति । यथा अनुमानादिलिङ्गात् णिजध्याहारेण सूर्याद्यगोचरो ब्रह्म इति उक्तम्, तथा प्रथमश्रुतपरिमाणलिङ्गात् जीवप्रतीतौ 'ईशानोऽस्मि इति ध्यायेत्' इति विध्यध्याहारेण ध्यानपरं वाक्यमिति पूर्वपक्षयति—तत्र परिमाणेति । पूर्वपक्षे ब्रह्मदृष्ट्या जीवोपास्तिः, सिद्धान्ते तु प्रत्यग्ब्रह्मैक्यज्ञानं फलमिति मन्तव्यम् । आयागः—दैर्घ्यम्, विस्तारः—महत्त्वम् इति भेदः । कयाचिदिति । अङ्गुष्ठमात्रहृदयस्य विज्ञानशब्दितमुद्ध्यभेदाध्यामकरूपनया इत्यर्थः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

कहते हैं—“स एव” इत्यादिसे । अर्थात् वर्तमान कालमें यही है, भविष्यत्कालमें यही रहेगा और भूतकालमें यही था, उससे अन्य कोई नहीं है, नचिकेताने ‘अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात्’ इत्यादिसे जो ब्रह्म पूछा है, वह यही है । परिमाणकथन और ईशानशब्दप्रयोगसे संशय कहते हैं—“तत्र” इत्यादिसे । पूर्व अधिकरणमें अनुमान आदि लिङ्गोंसे विषयसप्तमी मानकर ‘णिच्’ का अध्याहार करके ब्रह्म सूर्य आदिके अगोचर है, ऐसा प्रतिपादन किया है, उगी प्रश्नर यही भी प्रथम धृत परिमाणलिङ्गमें जीवकी प्रतीति करके ‘ईशानोः’ (‘मै नियन्ता हूँ’ ऐसा ध्यान कर) इस प्रकार विधिक अध्याहार करके इस वाक्यको ध्यानपरम समझना चाहिए, ऐसा पूर्वपक्ष करते हैं—“तत्र परिमाण” इत्यादिसे । पूर्वपक्षमें ब्रह्मदृष्टिसे जबकी उपायना पात्र है और सिद्धान्तमें प्रत्यगामा और ब्रह्मता ऐक्यज्ञान पात्र है । ‘आयाग’ अर्थात् स्मृति और ‘विस्तार’ अर्थात् महत्ता । “कयाचिद्” इत्यादि । अर्थात् अङ्गुष्ठमात्र हृदयके साथ विज्ञान-

भाष्य

‘अथ सत्यवतः कायात् पाशवद्धं वशं गतम् ।

अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं निश्चर्क्य यमो बलात् ॥’

(म० भा० ३।२९७।१७) इति । नहि परमेश्वरो बलाद् यमेन निष्कृष्टुं शक्यः, तेन तत्र संसार्यङ्गुष्ठमात्रो निश्चितः स एवेहाऽपीति ।

एवं प्राप्ते ब्रूमः—परमात्मैवाऽयमङ्गुष्ठमात्रपरिमितः पुरुषो भवितुमर्हति । कस्मात्, शब्दात्—‘ईशानो भूतभव्यस्य’ इति । नखन्यः परमेश्वराद् भूतभव्यस्य निरङ्कुशमीशिता । ‘एतद्वै तत्’ इति च प्रकृतं

भाष्यका अनुवाद

‘अथ सत्यवतः०’ (इसके घाद यमने सत्यवान्के शरीरसे अपने पाशोंसे बँधे हुए और कर्मवशीभूत अङ्गुष्ठमात्र पुरुषको बलपूर्वक खींच लिया) यह स्मृति भी है । परमेश्वर यमसे बलपूर्वक कदापि नहीं खींचा जा सकता, इसलिए स्मृतिमें जीव ही अङ्गुष्ठके बराबर कहा गया है, वही यहाँ भी अङ्गुष्ठमात्र कहा गया है ।

सिद्धान्ती—ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं । यहाँ अङ्गुष्ठमात्र परिमाण पुरुष परमात्मा ही है । किससे ? ‘ईशानो०’ (भूत और भव्यका स्वामी) इस धृतिसे भूत और भव्यका निरङ्कुश नियन्ता परमेश्वरसे अन्य नहीं हो सकता ।

रत्नप्रभा

स्मृतिसंवादादपि अङ्गुष्ठमात्रो जीव इत्याह—स्मृतेश्चेति । अथ—मरणानन्तरम्, यमपाशैर्बद्धम्, कर्मवशं प्राप्तमित्यर्थः । तत्राऽपि ईश्वरः किं न स्यादित्यत आह—न हीति । “प्रभवति संयमने ममापि विष्णुः” इति यमस्य ईश्वरनियम्यत्वस्मरणादिति भावः ।

भूतभव्यस्य इति उपपदात् साधकात् बाधकाभावाच्च ईशान इतीशत्वशब्दात् निरङ्कुशमीशिता भाति इति श्रुत्या लिङ्गं बाध्यमिति सिद्धान्तयति—परमात्मैवेति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

शब्दप्रतिपादित बुद्धिके अभेदाध्यासकी कल्पनासे । स्मृतिके संवादसे भी अङ्गुष्ठमात्र जीव है, ऐसा कहते हैं—“स्मृतेश्च” इत्यादिसे । अथ—मरनेके अनन्तर, पाशवद्धम्—यमपाशोंसे बँधा हुआ, वशं गतम्—कर्मोंके अधीन । इस स्मृतिमें भी ईश्वर ही कहा गया है, ऐसा क्यों न माना जाय, इसपर कहते हैं—“नहि” इत्यादि । ‘प्रभवति०’ (विष्णु मुझे भी नियममें रखनेकी शक्ति रखते हैं) इस स्मृतिसे ज्ञात होता है कि यम ईश्वरसे नियम्य है, इसलिए यहाँ ईश्वर प्रतिपाद्य नहीं है ।

‘भूतभव्यस्य’ इस उपपदसे ‘ईशान.’ इस धृतिमें ‘ईश’ शब्दसे और कोई बाधक न होनेसे निरङ्कुश शासक प्रतीत होता है, इसलिए धृतिसे लिङ्गका बाध होता है, ऐसा सिद्धान्त

भाष्य

पृष्टमिहाऽनुसन्दधाति । एतद्वै तद्यत् पृष्टं ब्रह्मेत्यर्थः । पृष्टं चेह ब्रह्म—

‘अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात् कृताकृतात् ।

अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद’ (का० १।२।१४) इति ।
शब्दादेवेत्यभिधानश्रुतेरेवेशान इति परमेश्वरोऽत्रगम्यत इत्यर्थः ॥२४॥

कथं पुनः सर्वगतस्य परमात्मनः परिमाणोपदेश इत्यत्र ब्रूमः—

भाष्यका अनुवाद

‘एतद्वै०’ (यही वह है) इस प्रकार प्रकृत पूछे हुएका ही यहां श्रुति अनुसन्धान करती है । जो ब्रह्म पूछा गया है, वह यही है, ऐसा अर्थ है । और यहां ‘अन्यत्र धर्मा०’ (धर्मसे अन्य, अधर्मसे अन्य, कार्य और कारणसे अन्य एवं भूत, भविष्यत् तथा वर्तमानसे भिन्न जिसको आप देखते हो, उसे कहो) इस प्रकार ब्रह्म पूछा गया है । शब्दसे ही अर्थात् ‘ईशानः’ इस अभिधान श्रुतिसे ही यह परमेश्वर है ऐसा ज्ञात होता है ॥ २४ ॥

सर्वत्र व्याप्त परमेश्वरके परिमाणका उपदेश कैसे करते हैं ? इसपर सूत्रसे उत्तर कहते हैं—

रत्नप्रभा

प्रकरणाच्च ब्रह्मपरमिदं वाक्यमित्याह—एतदिति । शब्दः—वाक्यं लिङ्गाद् दुर्बलमित्याशङ्क्याऽऽह—शब्दादिति ॥ २४ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

करते हैं—“परमात्मं” इत्यादिसे । प्रकरणसे भी यह वाक्य ब्रह्मपरक ही है, ऐसा कहते हैं—
“एतद्” इत्यादिसे । शब्द अर्थात् वाक्य लिङ्गसे दुर्बल है, यह आशङ्का करके कहते हैं—
“शब्दात्” इत्यादि ॥२४॥

—१—

हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात् ॥ २५ ॥

पदच्छेद—हृदि, अपेक्षया, तु, मनुष्याधिकारत्वात् ।

पदार्थोक्ति—मनुष्याधिकारत्वात्—शास्त्रस्य मनुष्याधिकारत्वात्, हृद्यपेक्षया—मनुष्याणां हृदयस्य अद्गुष्ठमात्रत्वात् तदपेक्षया [परमात्मनोऽद्गुष्ठमात्रत्वमुक्तम्] ।

भाषार्थ—शास्त्रमें मनुष्य ही अधिकृत हैं, मनुष्योंका हृदय अँगूठेके बराबर है, उस हृदयमें रहनेके कारण उसकी अपेक्षासे परमेश्वर अद्गुष्ठमात्र कहा गया है ।

भाष्य

सर्वगतस्याऽपि परमात्मनो हृदयेऽवस्थानमपेक्ष्याऽङ्गुष्ठमात्रत्वमिदमुच्यते आकाशस्यैव वंशपर्वापेक्षमरत्निमात्रत्वम् । न ह्यञ्जसांऽतिमात्रस्यैव परमात्मनोऽङ्गुष्ठमात्रत्वमुपपद्यते । न चाऽन्यः परमात्मन इह ग्रहणमर्हतीशानशब्दादिभ्य इत्युक्तम् ।

ननु प्रतिप्राणिभेदं हृदयानामनवस्थितत्वात् तदपेक्षमप्यङ्गुष्ठमात्रत्वं नोपपद्यत इत्यत उत्तरमुच्यते—मनुष्याधिकारत्वादिति । शास्त्रं ह्यविशेषप्रवृत्तमपि मनुष्यानेवाऽधिकरोति, शक्तत्वात्, अर्थित्वात्, अर्पयुदस्तत्वात्,

भाष्यका अनुवाद

जैसे वांसके पर्वमें रहनेके कारण आकाश अरत्नि-हाथभरका कहलाता है, वैसे ही हृदयमें रहनेके कारण सर्वव्यापक परमेश्वर अङ्गुष्ठपरिमाण कहा जाता है । क्योंकि परिमाणातीत परमेश्वर वस्तुतः अङ्गुष्ठपरिमाण नहीं हो सकता है और ईशानशब्द आदि कारणोंके सद्भावसे परमेश्वरसे अन्यका ग्रहण भी यहाँ नहीं किया जा सकता, ऐसा पीछे कह चुके हैं ।

परन्तु प्रत्येक प्राणीका भिन्न भिन्न परिमाणवाला हृदय होता है एक-सा नहीं होता, अतः उसकी अपेक्षासे भी परमात्माका अङ्गुष्ठपरिमाण युक्त नहीं है, इसके उत्तरमें कहते हैं—‘मनुष्याधिकारत्वात्’ । यद्यपि शास्त्र सामान्यरीतिसे प्रवृत्त है, तो भी अपनेमें त्रैवर्णिकोंका ही अधिकार बतलाता है, क्योंकि वे समर्थ हैं, कामना विशेषसे युक्त हैं, श्रुत्युक्त कर्मके अनुष्ठानमें निपिद्ध नहीं हैं

रत्नप्रभा

‘हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्—करः सकनिष्ठिकः—अरत्निः । मुख्या-ङ्गुष्ठमात्रो जीवो गृह्यतां कि गौणग्रहणेन इत्यत आह—न चान्य इति । सति सम्भवे मुख्यग्रहो न्याय्यः । अत्र तु श्रुतिविरोधादसम्भव इति गौणग्रह इत्यर्थः ।

मनुष्यानेवेति । त्रैवर्णिकानेव इत्यर्थः । शक्तत्वादिति अनेन पश्वादीनां देवानाम् ऋषीणां च अधिकारो वारितः । तत्र पश्वादीनां शास्त्रार्थज्ञानादिसामग्र्य-

रत्नप्रभाका अनुवाद

कनिष्ठिकासे सहित कर अरत्नि अर्थात् बुहनीसे लेकर छिथुनी अँगुलीके सिरे तक । तब अङ्गुष्ठमात्रका मुख्यार्थ जीवका ग्रहण करो, गौण ईश्वरका ग्रहण क्यों करते हो ? हमपर कहते हैं—“न चान्यः” इत्यादि । सम्भव हो तो मुख्यका ग्रहण करना उचित ही है, किन्तु यहाँ तो श्रुतिविरोधसे मुख्य अर्थना ग्रहण नही किया जा सकता, इसलिए गौणका ग्रहण किया है ।

“मनुष्यानेव”—त्रैवर्णिकोंका ही अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यका ही । ‘शक्तत्वात्’

भाष्य

उपनयनादिशास्त्राच्चेति वर्णितमेतदधिकारलक्षणे (जै० ६।१) । मनुष्याणां

भाष्यका अनुवाद

और उपनयन आदि शास्त्र उन्हींसे संबन्ध रखते हैं, ऐसा अधिकारके लक्षणमें

रत्नप्रभा

भावात् कर्मणि अशक्तिः । इन्द्रादेः स्वदेवताके कर्मणि स्वोद्देशेन द्रव्यत्यागायोगाद् अशक्तिः । ऋषीणामार्षेयवरणे ऋष्यन्तराभावाद् अशक्तिः । अर्थित्वादिति अनेन निष्कामानां मुमुक्षूणां स्थावराणां चाऽधिकारो वारितः । तत्र मुमुक्षूणां शुद्धयर्थित्वे नित्यादिषु अधिकारो न काम्येषु । शुद्धचित्तानां मोक्षार्थित्वे श्रवणादिषु व्यञ्जकेषु अधिकारो, न कर्मसु इति मन्तव्यम् । शूद्रस्य अधिकारं निरस्यति— अपर्युदस्तत्वादिति । “शूद्रो यज्ञेऽनवकल्लसः” (तै० सं० ७।१।१।६) इति पर्युदासात्, “उपनयीत” “तमध्यापयीत” इति शास्त्राच्च न शूद्रस्य वैदिके कर्मणि अधिकारः । तस्य एकजातित्वस्मृतेः उपनयनप्रयुक्तद्विजातित्वाभावेन वेदाध्ययनाभावात् । अत्र अपेक्षितो न्यायः षष्ठाध्याये वर्णित इत्याह—वर्णितमिति । “स्वर्गकामो यजेत” इत्यादिशास्त्रस्य अविशेषेण सर्वान् फलार्थिनः प्रति प्रवृत्तत्वात्

रत्नप्रभाका अनुवाद

इस शब्दसे पशु आदिका, देवताओं और ऋषियोंका अधिकार नहीं है, ऐसा सूचित किया है । इनमें पशु आदिमें शास्त्रार्थज्ञान आदि सामग्री नहीं है, इसलिए कर्म करनेमें वे असमर्थ हैं । यज्ञ आदि कर्म देवताओंके उद्देशसे होते हैं और अपने उद्देशसे द्रव्यत्याग—होम नहीं हो सकता, इसलिए देवता भी कर्म करनेमें असमर्थ हैं । आर्षेय ऋषियोंके वरणमें तथाभूत अन्य ऋषियोंके न होनेसे ऋषि कर्मानुष्ठानमें असमर्थ हैं । ‘अर्थित्वात्’ इस शब्दसे सूचित होता है कि कामनाहित मुमुक्षुओं और स्थावरोंका कर्मानुष्ठानमें अधिकार नहीं है । इनमें मुमुक्षु यदि चित्तशुद्धि चाहते हों तो उनका नित्य, नैमित्तिक कर्मोंमें अधिकार है, काम्य कर्ममें नहीं है । जिनका चित्त शुद्ध है, यदि वे मोक्ष चाहते हैं, तो उनका मोक्षके अभिव्यञ्जक ध्वज आदिमें अधिकार है, कर्ममें नहीं है, ऐसा समझना चाहिए । “अपर्युदस्तत्वात्” इससे शूद्रोंका शास्त्रमें अधिकारका अभाव सूचित करते हैं । ‘शूद्रो यज्ञे०’ (शूद्र यज्ञके योग्य नहीं है) ऐसा निषेध होनेसे और ‘उपनयीत’ ‘तमध्यापयीत’ (उसका उपनयन करे और अध्यापन करे) इस शास्त्रसे शूद्रका वैदिक कर्ममें अधिकार नहीं है । क्योंकि शूद्र द्विज नहीं है, स्मृतिमें कहा है कि वह एकजाति है, इसलिए उपनयनप्रयुक्त द्विजातित्वके अभावसे उसको वेदाध्ययनका अधिकार नहीं है । यहाँ जिस न्यायकी अपेक्षा है, उसका पूर्वमीमांसाके छठे अध्यायमें वर्णन है, ऐसा कहते हैं—“वर्णितम्” इत्यादिसे । तात्पर्य यह कि ‘स्वर्गकामो०’ (स्वर्गकी कामनावाला यज्ञ करे) इत्यादि शास्त्र सामान्य रीतिसे सभी सुराभिलाषियोंके प्रति प्रवृत्त होता है और

भाष्य

च नियतपरिमाणः कायः, औचित्येन नियतपरिमाणमेव चैषामङ्गुष्ठमात्रं हृदयम् । अतो मनुष्याधिकारत्वाच्छास्त्रस्य मनुष्यहृदयावस्थानापेक्ष-मङ्गुष्ठमात्रत्वमुपपन्नं परमात्मनः । यदप्युक्तम्—परिमाणोपदेशात् स्मृतेश्च संसार्येवाज्यमङ्गुष्ठमात्रः प्रत्येतव्य इति, तत्प्रत्युच्यते—‘स आत्मा

भाष्यका अनुवाद

जैमिनिने वर्णन किया है । मनुष्योंके शरीरका परिमाण निश्चित है, इसलिए उनके हृदयका भी परिमाण निश्चित—अङ्गुष्ठमात्र होना चाहिए । इससे सिद्ध हुआ कि शास्त्रमें मनुष्योंका अधिकार होनेसे मनुष्यके हृदयमें रहनेके कारण परमात्मा अङ्गुष्ठमात्र है । परिमाणके उपदेशसे और स्मृतिसे यह अङ्गुष्ठमात्र जीव ही है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, उसका निराकरण करते हैं—‘स आत्मा०’ (वह

रत्नप्रभा

प्राणिमात्रस्य सुखार्थित्वाच्च फलार्थं कर्मणि पश्चादीनामपि अधिकार इत्याशङ्क्य उक्तरित्या तेषां शक्तत्वाच्चभावात् स्वर्गकामपदं मनुष्यपरतया संकोच्य मनुष्याधिकारत्वे स्थापिते चातुर्वर्ण्यधिकारित्वमाशङ्क्य “वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत ग्रीष्मे राजन्यः शरदि वैश्यः” इति त्रयाणामेवाऽग्निसम्बन्धश्रवणात् तेषामेवाऽधिकार इति वर्णितमित्यर्थः । अस्तु प्रस्तुते किमायातम्, तत्राह—मनुष्याणाञ्चेति । प्रायेण सप्तवितस्तिपरिमितो मनुष्यदेह इत्यर्थः । एवमङ्गुष्ठशब्दः ह्यपरिमाणवाचकः तत्रस्थं ब्रह्म लक्षयतीति उक्तम् । सम्प्रति तच्छब्देनाऽङ्गुष्ठमात्रं जीवमनुष्य अयमीशान इति ब्रह्माभेदो बोध्य इति वक्तुमुक्तम् अनुवादति—यदपीति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

प्राणिमात्र सुखकी इच्छा करते हैं, अतः फलके लिए निर्दिष्ट कर्ममें पशु आदिका भी अधिकार है, ऐसी आशङ्का करके पूर्वोक्तानुसार उनकी कर्मानुष्ठानमें सामर्थ्य आदि न होनेके कारण ‘स्वर्गकाम’ पद मनुष्यपरक है, ऐसा अर्थसंकोच करके केवल मनुष्यका अधिकार स्थापित करनेपर उक्त अधिकार चारों वर्णोंपर लागू होता है, ऐसी आशङ्का करके ‘वसन्ते ब्राह्मणो०’ (वसन्तमें ब्राह्मण, ग्रीष्ममें क्षत्रिय और शरदमें वैश्य अग्नियोंका आधान करे) इस प्रकार तीन ही वर्णोंका अग्निसंबन्ध धृतिनिर्दिष्ट होनेके कारण उनका ही शास्त्रमें अधिकार है, ऐसा वर्णन किया है । अस्तु, इससे प्रस्तुतमें क्या लाभ हुआ, इसपर कहते हैं—“मनुष्याणां च” इत्यादि । अर्थात् प्रायः मनुष्यशरीर सात बालित्तका होता है । इस प्रकार हृदयके परिमाणका वाचक अङ्गुष्ठशब्द हृदयमें रहनेवाले ब्रह्मका लक्षक है, ऐसा कहा है । अब उक्त शब्दसे अङ्गुष्ठमात्र जीवका अनुवाद करके ‘अयमीशानः’ (यह नियन्ता है) इस प्रकार उक्तका ब्रह्मसे अभेद जतानेके लिए पूर्वोक्तका अनुवाद करते हैं—“यदपि” इत्यादिसे । प्रतिपाद्य

भाष्य

तत्त्वमसि' इत्यादिवत् संग्रहिण एव सतोऽद्भुष्टमात्रस्य ब्रह्मत्वमिदमुपदिश्यत इति । द्विरूपा हि वेदान्तवाक्यानां प्रवृत्तिः—कचित् परमात्मस्वरूपनिरूपण-परा, कचिद् विज्ञानात्मनः परमात्मैकत्वोपदेशपरा । तदत्र विज्ञानात्मनः परमात्मनैकत्वमुपदिश्यते, नाऽद्भुष्टमात्रत्वं कस्यचित् । एतमेवार्थं परेण स्फुटीकरिष्यति—'अद्भुष्टमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनि-विष्टः । तं स्वाच्छरीरात् प्रवृहेन्मुञ्जादिवेपीकां धैर्येण तं विद्याच्छुक्रम-मृतम् ॥' (का० २।६।१७) इति ॥ २५ ॥

भाष्यका अनुवाद

आत्मा है, यह तू है) इत्यादिके समान यह अद्भुष्टमात्र संसारी ही परमात्मा यहांपर कहा गया है, क्योंकि वेदान्तवाक्य दो प्रकारसे प्रवृत्त हैं, कहींपर परमात्माके स्वरूप-का निरूपण करते हैं और कहींपर विज्ञानात्मा परमात्मासे अभिन्न है, ऐसा उपदेश करते हैं । यहां विज्ञानात्माका परमात्मासे अभेद दिखलाया है, किसीमें अद्भुष्ट-मात्र परिमाणका उपदेश नहीं है । इसी अर्थको 'अद्भुष्टमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा' (अंगूठेके बराबर अन्तरात्मा पुरुष लोगोंके हृदयमें सदा संनिविष्ट है, जैसे मूँजसे भूआ-रूई को पृथक् करते हैं, उसी प्रकार धैर्यसे अन्तरात्माको अपने शरीरसे पृथक् करे । उसको शुद्ध और अविनाशी जाने) इस उत्तरवाक्यसे स्पष्ट करेंगे ॥२५॥

रत्नप्रभा

प्रतिपाद्याभेदविरोधाद् अनुवाद्याद्भुष्टमात्रत्वं बाध्यम्, तात्पर्यार्थस्य बलवत्त्वाद् इत्याह—तदिति । कचिद्—अस्थूलमित्यादौ । कचित्—तत्त्वमसीत्यादौ । एक-त्वार्थे वाक्यशेषमनुकूलयति—एतमिति । श्रुतिः यमो वा कर्ता द्रष्टव्यः । तम्—जीवम्, प्रवृहेत्—पृथक् कुर्यात्, धैर्येण बलवदिन्द्रियनिग्रहादिना, तम्—विविक्तमात्मानम्, शुक्रम्—स्वप्रकाशम्, अमृतम्—कूटस्थं ब्रह्म जानीयादित्यर्थः । तस्मात् कठवाक्यं प्रत्यग्ब्रह्मणि ज्ञेये समन्वितमिति सिद्धम् ॥ २५ ॥ (७)

रत्नप्रभाका अनुवाद

परमात्माके साथ अभेदके विरोधसे अनुवाद्य अद्भुष्टपरिमाण बाध्य है, क्योंकि तात्पर्य बलवान् है, ऐसा कहते हैं—“तद्” इत्यादिषे । 'कहींपर'—'अस्थूलम्' इत्यादि स्थूलमें । 'कहींपर'—तत्त्वमसि इत्यादिमें । जीव ब्रह्मसे अभिन्न है, इस विषयमें वाक्यशेष भी अनुकूल है, ऐसा कहते हैं—“एतम्” इत्यादिषे । धृतिवाक्य या यमको स्फुटीकरणका कर्ता समझना चाहिए । 'तम्'—जीवको, 'प्रवृहेत्'—पृथक् करे । 'धैर्येण'—बलवान् इन्द्रियोंके निग्रह आदिसे । 'तम्'—पृथक् कृत आत्माको 'शुक्रम्'—स्वप्रकाश, 'अमृतम्'—कूटस्थ ब्रह्म समझना चाहिए । इसलिए कठवाक्यका समन्वय ज्ञेय ब्रह्ममें सिद्ध हुआ ॥२५॥

[८ देवताधिकरण सू० २६—३३]

नाधिक्रियन्ते विद्यायां देवाः किंवाऽधिकारिणः ।

विदेहत्वेन सामर्थ्यहानेर्नैपामाधिक्रिया ॥१॥

अविरुद्धार्थवादादिमन्नादेर्देहसत्त्वतः ।

अर्थित्वादेश्च सौलभ्याद् देवाद्या अधिकारिणः* ॥२॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—ब्रह्मविद्यामें देवताओंका अधिकार है या नहीं ?

पूर्वपक्ष—शरीर और सामर्थ्य आदिके न होनेके कारण उनका ब्रह्मविद्यामें अधिकार नहीं है ।

सिद्धान्त—प्रमाणान्तरसे अविरुद्ध अर्थवाद आदि और मंत्र आदिसे ज्ञात होता है कि देवताओंका शरीर है और देवता आदिमें अर्थित्व भी सुलभ है, अतः उनका ब्रह्मविद्यामें अधिकार है ।

* निष्कर्ष यह है कि बृहदारण्यकमें 'तद्यो यो देवाना प्रत्यबुद्ध्यत स एव तदभवत्, तद्यर्पीणाम्' यह श्रुति है । उसका अर्थ है—देवताओंमेंसे एवं ऋषियोंमेंसे जिस जिसने ब्रह्मको जान लिया, वह ब्रह्म ही हो गया ।

यहाँपर पूर्वपक्षी कहता है कि देवता और ऋषियोंको ब्रह्मविद्यामें अधिकार नहीं है, क्योंकि 'अथौ समर्थो विद्वान्शस्त्रेणापयुंद्स्तोऽधिक्रियते' इस प्रकार कथित अधिकारके कारण—अर्थित्व, सामर्थ्य, विद्वत्ता और शास्त्रसे अनिषिद्ध होना अशरीर देवताओंमें संभव नहीं है । यह नहीं कह सकते कि मंत्र, अर्थवाद आदिसे देवताओंका सशरीरत्व जाननेमें आता है, क्योंकि विधिके साथ एकवाक्यताको प्राप्त हुए मंत्र आदिका स्वार्थमें तात्पर्य नहीं हो सकता ।

सिद्धान्ती कहते हैं कि अर्थवाद, तीन प्रकारका है—गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद ।

“विरोधे गुणवादः स्यादनुवादोऽवधारिते ।

भूतार्थवादस्तद्वानादर्थवादस्त्रिधा मतः ॥”

'आदित्यो यूप' (यूपे यूप—यश्चतुष्टय है) 'यजमानः प्रस्तरः' (यजमान प्रस्तर—कुशमुष्टि है) इत्यादि अर्थवादोंमें प्रत्यक्ष विरोध है, क्योंकि रतम् आदित्य नहीं हो सकता और कुशमुष्टि यजमान नहीं हो सकती, अतः आदित्य आदि शब्दसे आदित्य आदिके समान यागका निर्वाह करणरूप गुण लक्षित होता है, इसलिये ये गुणवाद है । 'अग्निर्हिमस्य भेषजम्' (अग्नि जाड़ेकी ओषधि है) 'वायुर्वै खेपिष्ठा देवता' (वायु शीघ्र जानेवाला देवता है) इत्यादि अर्थवादोंमें प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाणोंसे सिद्ध अर्थका अनुवाद है, अतः ये अनुवाद है । उक्त गुणवाद और अनुवादका स्वार्थमें तात्पर्य भले ही न हो किन्तु 'इन्द्रो वृत्राय वज्रमुदयच्छत्' (इन्द्रने वृत्रासुरको वज्रसे मारा) इत्यादि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणान्तरसे अविरुद्ध एव प्रत्यक्ष आदिसे शायमान अर्थका अनुवाद न करनेवाले भूतार्थवादोंके स्वतः प्रामाण्य एव स्वार्थमें तात्पर्यका कार्य निराकरण नहीं कर सकता । भूतार्थवाद

तदुपर्यपि वादरायणः सम्भवात् ॥ २६ ॥

पदच्छेद—तदुपरि, अपि, वादरायणः, सम्भवात् ।

पदार्थोक्ति—तदुपर्यपि—मनुष्यादुपरिष्ठाद् ये देवादयस्तेषामपि, सम्भवात्—
अर्थत्वसामर्थ्याद्यधिकारकारणसम्भवात् [ब्रह्मविद्यायामधिकारोऽस्तीति] वादरायणः
[आचार्यो मनुते] ।

भापार्थ—मनुष्यसे श्रेष्ठ देवता आदिमें अर्थित, सामर्थ्य आदि अधिकारके कारण हैं, अत वे भी ब्रह्मविद्यामें अधिकारी हैं, ऐसा वादरायण आचार्य मानते हैं ।

— ० —

भाष्य

अद्गुष्टमात्रश्रुतिर्मनुष्यहृदयापेक्षा, मनुष्याधिकारत्वाच्छास्त्रस्येत्युक्तम्,

भाष्यका अनुवाद

अद्गुष्टमात्र श्रुति मनुष्यके हृदयके साथ संबन्ध रखती है, क्योंकि शास्त्रका

रत्नप्रभा

शास्त्रस्य मनुष्याधिकारत्वे देवादीनां ब्रह्मविद्यायामपि अनधिकारः स्यादित्याशङ्क्याऽऽह—तदुपर्यपि वादरायणः सम्भवादिति । ननु समन्वयाध्याये अधिकारचिन्ता न सङ्गता इत्यत आह—अद्गुष्टेति । स्मृतस्य उपेक्षानर्हत्वं प्रसङ्गः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

शास्त्रमें यदि मनुष्योंका ही अधिकार हो तो देवता आदिका ब्रह्मविद्यामें भी अधिकार नहीं होगा, ऐसी आशङ्का करके कहते हैं—“तदुपर्यपि वादरायण सम्भवात्” । यदि कोई कहे कि देव और ऋषियोंका ब्रह्मविद्यामें अधिकार है या नहा, यह विचार समन्वयाध्यायमें असङ्गत है,

पदैकवाक्यतासे स्वार्थमें अवान्तर तात्पर्यका प्रातिपादन करके वाक्यैकवाक्यताके विधिमें महातात्पर्यका प्रातिपादन करते हैं । मन्त्रोंमें भी इसी न्यायकी योजना करनी चाहिए । इस प्रकार मन्त्र और अर्थवादोंसे देवता आदि सशरीर हैं यह सिद्ध होने पर वेदान्तश्रवण आदिमें उनकी सामर्थ्य सुलभ ही है । पेशवर्यं नश्वर एव सातिशय है, यह ज्ञान होनेके कारण मोक्ष एव उसके साधन ब्रह्म विद्यामें उनकी कामना हो सक्ती है । उनके उपनयन, वेदाध्ययन आदि न होनेपर भी वेदका स्वत मान होनेके कारण उनमें विद्वत्ता भी है । इसलिये विद्यामें देवताओंका अधिकार कितासे नहीं रोका जा सकता । यद्यपि अन्य आदित्य आदि देवताओंके न होने एव आदित्यत्वादिप्रातिरूप विद्याफलके सिद्ध होनेके कारण आदित्य आदि देवताओंका आदित्यादिध्यानमिश्रित सगुणब्रह्मोपासनामें अधिकार न हो, तो भी निर्गुणब्रह्मविद्यामें उनका अधिकार माननेमें कोई दोष नहीं है, इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मविद्यामें देवताओंका अधिकार है ।

भाष्य

तत्प्रसङ्गेनेदमुच्यते । वाढं मनुष्यान् अधिकरोति शास्त्रम्, न तु मनुष्यान्नेवे-
तीह ब्रह्मज्ञाने नियमोऽस्ति, तेषां मनुष्याणामुपरिष्ठाद् ये देवादयस्तानप्य-
धिकरोति शास्त्रमिति वादरायण आचार्यो मन्यते । कस्मात् ? सम्भवात् ।
सम्भवति हि तेषामप्यर्थित्वाद्यधिकारकारणम् । तत्रार्थित्वं तावन्मोक्ष-

भाष्यका अनुवाद

अधिकारी मनुष्य है, ऐसा पीछे कहा है, उसीके सिलसिलेमें यह कहा जाता
है । अवश्य मनुष्य शास्त्रका अधिकारी है, परन्तु ब्रह्मज्ञानमें मनुष्य ही अधिकारी
है, ऐसा नियम नहीं है । वादरायण आचार्यका मत है कि उनसे अर्थात् मनुष्यों-
से श्रेष्ठ देवता आदि भी शास्त्रके अधिकारी हैं । किससे ? सम्भवसे । अधिकारके
कारण कामना आदिका उनमें भी संभव है । उन कारणोंमें मोक्षार्थी होना देवता

रत्नप्रभा

अत्र मनुष्याधिकारत्वोक्त्या स्मृतानां देवादीनां वेदान्तश्रवणादौ अधिकारोऽस्ति
न वा इति सन्देहे भोगासक्तानां वैराग्याद्यसम्भवात् नेति प्राप्ते सिद्धान्तमाह—
घाढमिति । एवमधिकारविचारात्मकाधिकरणद्वयस्य प्रासङ्गिकी सङ्गतिः । अत्र
पूर्वपक्षे देवादीनां ज्ञानानधिकाराद् देवत्वप्राप्तिद्वारा क्रममुक्तिफलासु द्बहराद्युपा-
सनासु क्रममुक्त्यर्थिनां मनुष्याणाम् अप्रवृत्तिः फलम्, सिद्धान्ते तु प्रवृत्तिः ।
उपासनाभिः देवत्वं प्राप्तानां श्रवणादिना ज्ञानाद् मुक्तिसम्भवादिति सफलोऽयं
विचारः । ननु भोगासक्तानां तेषां मोक्षार्थित्वाभावात् न अधिकार इत्यत आह—
अर्थित्वं तावदिति । विकारत्वेन अनृतविषयमुखस्य क्षयासूयादिदोषदृष्ट्या निर-

रत्नप्रभाका अनुवाद

इसपर कहते हैं—“अव्युष्ट” इत्यादि । स्मृतिपर्याय विषयकी उपेक्षा न करना प्रसङ्ग है ।
यहां मनुष्यका अधिकार कहा है, इसलिए स्मृतिपर्याय देवता आदिका वेदान्तश्रवण भादिके
अधिकार है या नहीं, ऐसा सन्देह होनेपर वे भोगासक्त हैं, अतः उनमें वैराग्य आदि साधन
सम्पत्तियोंका संभव नहीं है, इसलिए वे श्रवण आदिके अधिकारी नहीं हैं, ऐसा प्राप्त होनेपर
सिद्धान्त कहते हैं—“वाढम्” इत्यादिसे । इस प्रकार दोनों अधिकारोंमें अधिकारका विचार
होनेसे इस अधिकरणकी पूर्व अधिकरणके साथ प्रसङ्ग संगति है । यहां पूर्वपक्षमें देवता आदिके
ज्ञानमें अनधिकारी होनेके कारण देवत्वप्राप्ति द्वारा क्रममुक्तिके साधन द्बहर आदि उपासनाओंमें
क्रममुक्तिकी अपेक्षा करनेवाले मनुष्योंकी अप्रवृत्ति फल है, सिद्धान्तमें तो उनमें प्रवृत्ति फल
है । उपासनासे देवत्वकी प्राप्त हुए लोगोंको श्रवण आदिसे ज्ञानद्वारा मुक्ति हो सकती है, इसलिए
यह विचार (देवताओंका ज्ञानमें अधिकार है या नहीं यह विचार) सार्थक है । यदि कोई
शाङ्क करे कि विविध विचित्र आनन्दभोगमें आसक्त देवताओंमें वैराग्य न होनेसे मोक्षकी इच्छा

भाष्य

विषयं देवादीनामपि सम्भवति विकारविषयविभूत्यनित्यत्वालोचनादिनिमित्तम् । तथा सामर्थ्यमपि तेषां सम्भवति, मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणलोकेश्यो विग्रहवच्चाद्यवगमात् । न च तेषां कश्चित् प्रतिषेधोऽस्ति । न चोपनयनादिशास्त्रेणैवामधिकारो निवर्त्येत, उपनयनस्य वेदाध्ययनार्थत्वात्,

भाष्यका अनुवाद

आदिमें भी संभव है। देवताओंको यह ज्ञान होता है कि हमारा ऐश्वर्य परिणामशील एवं अनित्य है, इससे वे भी मोक्षार्थी हो सकते हैं। उसी प्रकार सामर्थ्य भी उनमें संभव है, क्योंकि मंत्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण और लोकानुभवसे अवगति होती है कि वे शरीरी हैं। और उनके लिए किसी कर्ममें निषेध नहीं है। और उपनयन शास्त्रसे उनका अधिकार निवृत्त नहीं होता, क्योंकि उपनयन वेदाध्ययनके

रत्नप्रभा

तिशयसुखमोक्षार्थित्वं सत्त्वप्रकृतीनां देवानां सम्भवतीत्यर्थः । ननु इन्द्राय स्वाहा इत्यादौ चतुर्थ्यन्तशब्दातिरिक्ता विग्रहवती देवता नास्ति, शब्दस्य च असामर्थ्यात् न अधिकार इत्यत्र आह—तथेति । अर्थित्ववद् इत्यर्थः । अपर्युदस्तत्वमाह— न च तेषामिति । “शुद्धो यज्ञेऽनवकलसः” (तै० सं० ७/१/१६) इतिवद् देवादीनां विद्याधिकारनिषेधो नास्तीत्यर्थः । ननु विग्रहवत्त्वेन दृष्टसामर्थ्ये सत्यपि उपनयनाभावात् शास्त्रीयसामर्थ्यं नास्तीत्यत्र आह—न चेति । जन्मान्तराध्ययनवत्त्वात् स्वयमेव प्रतिभाताः स्मृताः वेदाः येषां ते तथा तद्भावादित्यर्थः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

नहीं हो सकती, इसलिए उनका ब्रह्मविद्यामें अधिकार नहीं है, इसपर कहते हैं—“अर्थित्वं तावद्” इत्यादिसे। अन्त—मिथ्याभूत विषयसुखमें विकार होनेसे क्षय, ईर्ष्या आदि दोष देखकर निरतिशयसुखरूप मोक्षमें सत्त्वप्रकृतिवाले देवताओंकी भी कामना हो सकती है। यदि कोई कहे कि ‘इन्द्राय स्वाहा’ इत्यादि चतुर्थ्यन्त शब्दसे भिन्न कोई शरीरवाला देवता प्रतीत नहीं होता है, शब्दमें तो ज्ञानके साधनके अनुष्ठानकी सामर्थ्य नहीं है, अतः इन्द्र आदि देवताओंको अधिकार नहीं है, इसपर कहते हैं “तथा” इत्यादि। ‘तथा’—अर्थित्वके समान। पर्युदासका अभाव कहते हैं—“न च तेषाम्” इत्यादिसे। ‘शुद्धो यज्ञेऽनवकलसः’ इसमें जैसे शुद्धका कर्ममें निषेध कहा गया है; वैसे देवता आदिके अधिकारका निषेध नहीं है। यदि कोई शङ्का करे कि शरीरी होनेके कारण यद्यपि देवताओंमें ज्ञानसम्पादन करनेकी सामर्थ्य है, तो भी उपनयन न होनेसे उनमें शास्त्रीयसामर्थ्य नहीं है इसपर कहते हैं—“न च” इत्यादि। अन्य जन्मके अध्ययनके चलते उन्हें वेदका स्मरण स्वयं ही हो जाता है। गालक आदिमें

भाष्य

तेषां च स्वयंप्रतिभातवेदत्वात् । अपि च एषां विद्याग्रहणार्थं ब्रह्मचर्यादि दर्शयति—‘एकशतं ह वै वर्षाणि मघवान् प्रजापतौ ब्रह्मचर्यमुवास’ (छा० ८।१।३), ‘भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरमुपमसार अधीहि भगवो ब्रह्म’ (तै० ३।१) इत्यादि । यदपि कर्मस्वनधिकारकारणमुक्तम्—‘न देवानां देवतान्तराभावात्’ इति, ‘न ऋषीणामार्षेयान्तराभावात्’ (जै० ६।१।६, ७) इति, न तद्विद्यास्वस्ति नहीन्द्रादीनां विद्यास्वधिक्रियमाणानामिन्द्राद्युद्देशेन

भाष्यका अनुवाद

लिए है और उनको वेदका प्रकाश स्वयं ही होता है । और ‘एकशतं ह०’ (एक सौ एक वर्ष तक इन्द्र प्रजापतिके पास ब्रह्मचर्यपूर्वक रहा), ‘भृगुर्वै वारुणिः०’ (वरुणका पुत्र भृगु अपने पिता वरुणके पास गया और उसने कहा कि हे भगवन् ! मुझे ब्रह्मज्ञानका उपदेश कीजिए) इत्यादि श्रुतिवाक्यसे प्रतीत होता है कि विद्याग्रहणके लिए देवता आदि भी ब्रह्मचर्य आदि धारण करते हैं । ‘न देवानां०’ (देवताओंका कर्ममें अधिकार नहीं है, क्योंकि अन्य देवताओंका अभाव है) और ‘न ऋषीणां०’ (ऋषियोंका कर्ममें अधिकार नहीं है, क्योंकि दूसरा ऋषि-

रत्नप्रभा

बालादिषु प्रविष्टपिशाचादीनां वेदोद्घोषदर्शनात् । देवयोनीनां जन्मान्तरस्मरणम् अस्तीति स्मृतवेदान्तानामर्थविचारो युक्त इत्यर्थः । देवानां ऋषीणां च विद्याधिकारे कारणम् अर्थित्वादिकम् उक्त्वा श्रौतं गुरुकुलवासादिलिङ्गम् आह—अपि चेति । ननु ब्रह्मविद्या देवादीन् न अधिकरोति, वेदार्थत्वाद्, अग्निहोत्रवद् इत्यत आह—यदपीति । देवानां कर्मसु नाऽधिकारः देवतान्तराणाम् उद्देश्यानाम् अभावादिति प्रथमसूत्रार्थः । ऋषीणाम् अनधिकारः ऋष्यन्तराभावात् ऋषियुक्ते कर्मणि अशक्तेरिति द्वितीयसूत्रार्थः । असामर्थ्यम् उपाधिरिति परिहरति—

रत्नप्रभाका अनुवाद

प्रविष्ट हुए पिशाचादि द्वारा वेदका उद्घोष देखा जाता है, इसलिए देवता आदिको अन्य जन्मका स्मरण है, इसलिए स्मरण किए हुए वेदान्तोंका अर्थविचार युक्त है, ऐसा अर्थ है । देवों और ऋषियोंके विद्याधिकारमें कामना आदिको कारण कह कर गुरुकुलवास आदि धृतिमें कहे हुए लिङ्ग कहते हैं—“अपि च” इत्यादिसे । यदि कोई कहे कि अग्निहोत्रके समान वेदार्थ होनेके कारण ब्रह्मविद्यामें देवादिका अधिकार नहीं है, इसपर कहते हैं—“यदपि” इत्यादि । देवताओंका कर्ममें अधिकार नहीं है, क्योंकि जिनके उद्देश्यसे देवता कर्म करें, ऐसे अन्य देवता हैं ही नहीं, ऐसा प्रथम सूत्रका अर्थ है । ऋषियोंको कर्ममें अधिकार नहीं है क्योंकि अन्य ऋषियोंके न होनेसे ऋषियुक्त कर्ममें उनकी शक्ति नहीं है यह दूसरे सूत्रका

भाष्य

किञ्चित्कृत्यमस्ति, न च भृग्वादीनां भृग्वादिसगोत्रतया । तस्माद्देवादी-
नामपि विद्यास्वधिकारः केन वार्यते । देवाद्यधिकारेऽप्यङ्गुष्ठमात्रश्रुतिः
स्वाङ्गुष्ठापेक्षया न विरुध्यते ॥ २६ ॥

भाष्यका अनुवाद

समूह नहीं है) इत्यादिसे जो देवता आदिका कर्ममें अनधिकारका हेतु कहा है, वह विद्यामें नहीं है । वस्तुतः विद्याओंमें अधिकृत इन्द्र आदिका कोई भी कृत्य इन्द्र आदिके उद्देशसे नहीं है और भृगु आदि ऋषियोंका भी कोई कृत्य भृगु आदिके सगोत्रके उद्देशसे नहीं है । इस कारण देवताओंका भी विद्याओंमें अधिकार कौन रोक सकता है ? देवता आदिके अधिकारमें भी अङ्गुष्ठमात्र श्रुति उनके अङ्गुष्ठकी अपेक्षा रखती है, अतः विरुद्ध नहीं है ॥२६॥

रत्नप्रभा

न तदिति । असामर्थ्यरूपं कारणमित्यर्थः । नहि अस्ति, येन असामर्थ्यं स्यादिति शेषः । “तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्, तथर्षीणाम्” इति वाक्य-
वाच्योऽपि अनुमानस्य द्रष्टव्यः । ननु देवादीन् प्रति अङ्गुष्ठमात्रश्रुतिः कथम् ?
तेषां महादेहत्वेन हृदयस्य अस्मदङ्गुष्ठमात्रत्वाभावात् । अतः श्रुतिषु तेषां
नाधिकार इत्यत आह—देवाद्यधिकारेऽपीति ॥ २६ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

अर्थ है । असामर्थ्य उपाधि है, इस प्रकार शब्दाका परिहार करते हैं—“न तद्” इत्यादिसे ।
‘तद्’—असामर्थ्यरूप कारण । ‘नहि ... अस्ति’ के बाद ‘येनासामर्थ्यं स्यात्’ (जिससे
उनमें असामर्थ्य हो) इतना शेष समझना चाहिए ‘तद्यो यो देवानां’ (देव, ऋषि और मनुष्योंमें
जिस जिसने यह जान लिया कि ‘मैं ब्रह्म हूँ’ यह ब्रह्म ही हो गया) इस वाक्यसे पूर्वोक्त
अनुमानका बाध भी होता है, यह समझना चाहिए । यदि कोई कहे कि अङ्गुष्ठमात्र श्रुति
देवताओंके पक्षमें किस प्रकार संगत होगी ? क्योंकि उनके विपुलकाय होनेके कारण हमारे
अङ्गुष्ठके बराबर उनका हृदय नहीं है, इसलिए श्रुतिमें उनका अधिकार नहीं है, इसपर
कहते हैं—“देवाद्यधिकारेऽपि” इत्यादि ॥ २६ ॥

(१) ‘ब्रह्मविद्या देवादीनाधिकरोति, वेदार्यत्वात्, आग्निहोत्रवत्’ इस अनुमानमें ‘असामर्थ्य’
उपाधि है, क्योंकि वह साध्यका व्यापक तथा साधनका अव्यापक है, देवादि जहां जहां (कर्म
आदिमें) अनधिकृत है, वहां वहां अनधिकार असामर्थ्यरूप कारणसे ही है, इस प्रकार असामर्थ्य
साध्यका व्यापक है । वेदार्यत्वरूप हेतु ब्रह्मज्ञानमें भी है, वहां देव आदिका असामर्थ्य नहीं है,
क्योंकि श्रुतिसे पता होता है कि देव आदिको भी ब्रह्मज्ञान होना है, और वे मुक्त हो जाते हैं,
इस प्रकार साधनका अव्यापक है । अतः उक्त अनुमान उपाधिग्रस्त होनेके कारण ब्रह्मज्ञानमें देवता
आदिका अनधिकार सिद्ध नहीं कर सकता है ।

विरोधः कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेर्दर्शनात् ॥२७॥

पदच्छेद—विरोधः, कर्मणि, इति, चेत्, न, अनेकप्रतिपत्तेः, दर्शनात् ।

पदार्थोक्ति—कर्मणि विरोधः—[इन्द्रादीनां विग्रहवत्त्वे एकस्य शरीरस्याऽ-
नेकत्र कर्मणि युगपत्सन्निधानासम्भवात्] कर्मणि विरोधः प्रसज्येत, इति चेत्, न,
अनेकप्रतिपत्तेः—एकस्याऽप्यनेकशरीराणां युगपत् प्राप्तेः, दर्शनात्—‘स एकधा
भवति त्रिधा भवति’ इत्यादिश्रुतौ दर्शनात् । [अथवा] अनेकप्रतिपत्तेः—
अनेकत्र कर्मणि एकस्याऽङ्गभावस्य दर्शनात्, [इन्द्रादीनामपि अनेकत्र हवि-
ग्रहणमुपपद्यते] ।

भाषार्थ—इन्द्र आदि देवताओंके भी यदि शरीर हो तो एक शरीर अनेक
स्थलोंमें होनेवाले कर्ममें एक ही समय उपस्थित नहीं हो सकता, इसलिए कर्ममें
विरोध होगा अर्थात् यज्ञ आदि कर्मानुष्ठान असम्भव हो जायगा, ऐसा कहना
ठीक नहीं है, क्योंकि ‘स एकधा०’ (वह एक प्रकारका होता है, तीन प्रकारका
होता है पाँच प्रकारका होता है) इत्यादि श्रुतिमें एक ही समय एकका ही अनेक
शरीरोंका ग्रहण करना देखा जाता है । अथवा अनेक कर्मोंमें एक ही पदार्थ-
का अङ्ग होना लोकमें देखा जाता है, अतः इन्द्र आदिका भी अनेक स्थलोंमें
हवि ग्रहण करना उपपन्न होता है ।

—०००—०००—

भाष्य

स्यादेतत्, यदि विग्रहवत्त्वाद्यभ्युपगमेन देवादीनां विद्यास्वधिकारो

भाष्यका अनुवाद

ऐसा होता परन्तु हो नहीं सकता है, क्योंकि यदि शरीरवत्त्व आदि स्वीकार कर

रत्नप्रभा

ननु मन्त्रादीनां प्रतीयमानविग्रहवत्त्वे तात्पर्यं कल्पयित्वा देवादीनामधिकार
उक्तः, स च अयुक्तः, अन्यंपराणां तेषां प्रत्यक्षादिविरोधेन स्वार्थं तात्पर्यकल्पना-
नुपपत्तेरिति आक्षिप्य सूत्रचतुष्टयेन परिहरति—विरोधः कर्मणीत्यादिना ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

सशरीरं देवताओंमें मंत्र आदिके तात्पर्यकी कल्पना कर महाविद्यामें देवता आदिका
अधिकार कहा गया है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे विरोध होनेके कारण
उन मंत्रोंको अन्यार्थपरक मानना पड़ेगा, अतः स्वार्थमें उनके तात्पर्यकी कल्पना नहीं हो

भाष्य

वर्ष्येत विग्रहवत्त्वाद्द्विगादिवदिन्द्रादीनामपि स्वरूपसंनिधानेन कर्माङ्ग-
भावोऽभ्युपगम्येत, तदा च विरोधः कर्मणि स्यात्, नहीन्द्रादीनां स्वरूपसंनि-
धानेन यागेऽङ्गभावो दृश्यते, न च सम्भवति, बहुषु यागेषु युगपदेकस्ये-

भाष्यका अनुवाद

देवता आदिका विद्यामें अधिकार कहा जाय तो शरीरी होनेसे ऋत्विक् आदिके
समान इन्द्र आदिका भी स्वरूपके संनिधानसे कर्ममें अङ्गभाव स्वीकार करना
पड़ेगा, तब कर्ममें विरोध होगा। क्योंकि यागमें स्वरूपके संनिधानसे इन्द्र आदि-
का अंगभाव देखनेमें नहीं आता है। और हो भी नहीं सकता, क्योंकि बहुतसे
यागोंमें एक ही समय एक इन्द्रकी स्वरूपसे उपस्थिति हो नहीं सकती है, ऐसा

रत्नप्रभा

वर्ष्येत तर्हीति शेषः । स्वरूपम्—विग्रहः । अभ्युपगमे प्रत्यक्षेण देवता दृश्येत, न च
दृश्यते, अतो योग्यानुपलब्ध्या देवताया विग्रहवत्या अभावात् सम्प्रदानकारकाभावेन
कर्मनिष्पत्तिः न स्यादित्याह—तदा चेति । विग्रहस्य अद्गत्वम् अनुपलब्धि-
वाधितम्, युक्त्या च न सम्भवतीत्याह—न चेति । तस्माद् अर्थोपहितशब्द एव

रत्नप्रभाका अनुवाद

सकेगी, ऐसा आक्षेप करके “विरोधः कर्मणि” इत्यादि चार सूत्रोंसे उसका परिहार करते हैं।
‘वर्ष्येत’ के बाद ‘तर्ही’ (तो) यह शेष समझना चाहिए। स्वरूप अर्थात् शरीर। ऐसा स्वीकार
करनेपर देवताओंका प्रत्यक्ष दर्शन होना चाहिए, किन्तु होता नहीं, इसलिए योग्यानुपलब्धि
रूप प्रमाणसे प्रतीत होता है कि देवता शरीरयुक्त नहीं हैं, अतः सम्प्रदानकारकके न होनेके
कारण कर्मकी निष्पत्ति नहीं हो सकेगी, ऐसा कहते हैं—“तदा च” इत्यादिसे। शरीरका
यागमें अंग होना अनुपलब्धि प्रमाणसे वाधित है और युक्तिसे भी संभव नहीं है, ऐसा कहते
हैं—“न च” इत्यादिसे। इसलिए अर्थोपहित शब्द ही देवता है, अचेतन होनेके कारण
विद्यामें उसका अधिकार नहीं है, यह शङ्काका अर्थ है।

(१) वेदान्तियोंके माने हुए छः प्रमाणोंमें अनुपलब्धि एक प्रमाण है। प्रमाण वह कहलाता है
जो प्रमा—यथार्थानुभवका कारण—असाधारण कारण हो। ज्ञानरूप कारणसे अज्ञान, अभावके
अनुभवका कारण अनुपलब्धि है, इसलिए वह प्रमाण है। अनुपलब्धि प्रमाणसे अतीन्द्रिय धर्म,
अधर्म आदिका अभाव गृहीत नहीं होता है, इसलिए योग्य अनुपलब्धि ही अभावानुभवमें कारण है।
इससे यही कहा गया कि घट आदिके ज्ञानका अभाव घटाभावानुभवमें कारण है। पुष्कल आलोक
आदिसे युक्त भूतलमें यदि यह घट होता तो उपलब्ध होता, उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए नहीं
है, इस प्रकार आपादन आदिसे जो घटाभावका ज्ञान होता है, वह योग्य अनुपलब्धि
प्रमाणसे होता है।

भाष्य

न्द्रस्य स्वरूपसंनिधानानुपपत्तेरिति चेत्; नाऽयमस्ति विरोधः ।
कस्मात् ? अनेकप्रतिपत्तेः । एकस्याऽपि देवतात्मनो युगपदने-
कस्वरूपप्रतिपत्तिः सम्भवति । कथमेतदवगम्यते ? दर्शनात् ।
तथाहि—‘कति देवाः’ इत्युपक्रम्य ‘त्रयश्च त्री च शता त्रयश्च त्री च
सहस्रा’ इति निरुच्य ‘कतमे ते’ इत्यस्यां पृच्छायाम् ‘महिमान एवैषामेते
त्रयस्त्रिंशश्चैव देवाः’ (वृ० ३।९।१,२) इति द्रुवती श्रुतिरेकैकस्य

भाष्यका अनुवाद

कोई आक्षेप करे, तो यह आक्षेप नहीं हो सकता । किससे ? अनेक प्रतिपत्ति
होनेसे । एक ही समयमें एक ही देवता अनेक स्वरूप धारण कर सकता है ।
यह कैसे समझा जाय ? इससे कि श्रुतिमें देखा जाता है । क्योंकि ‘कति देवाः’
(देवता कितने हैं) ऐसा उपक्रम करके ‘त्रयश्च त्री च०’ (तीन सौ तीन और
तीन हजार तीन अर्थात् तीन हजार तीन सौ छः हैं) ऐसा निर्वचन करके
‘कतमे०’ (वे कौन हैं) ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर ‘महिमान एवैषां’ (ये
इनकी महिमा ही हैं, देवता कुल तैंतीस ही हैं) यह कहती हुई श्रुति एक

रत्नप्रभा

देवता तस्या अचेतनत्वात् न विद्याधिकार इति शङ्कार्थः ।
परिहरति—नायमिति । एकस्याऽपि देवस्य योगबलाद् अनेकदेहमाप्तिः
श्रुतिस्मृतिदर्शनात् सम्भवति, अतो न कर्मणि विरोध इति व्याचष्टे—कस्मादि-
त्यादिना । वैश्वदेवशस्त्रे शस्यमानदेवाः कति इति शाकल्येन पृष्ठो याज्ञवल्क्यो
निविदा त्रयश्च इत्यादिरूपया उत्तरं ददौ । निविन्नाम शस्यमानदेवसंख्यावाचकः
शब्दः । षडधिकानि त्रीणि शतानि त्रीणि सहस्राणीति संख्योक्तौ संख्येयस्वरूप-
प्रश्ने महिमानो विभूतयः—सर्वे देवाः, एषाम् त्रयस्त्रिंशद्देवानाम् । अतः अद्यै वसवः,

रत्नप्रभाका अनुवाद

शाङ्का निराकरण करते हैं—‘नायम्’ इत्यादिसे । श्रुति और स्मृतिको देखनेसे प्रतीत
होता है कि एक ही देवता योगबलसे अनेक देह धारणकर सकता है, इसलिए कर्ममें विरोध
नहीं है, ऐसा व्याख्यान करते हैं—‘कस्माद्’ इत्यादिसे । वैश्वदेवशस्त्रमें कितने देवताओंकी
श्रुति की गई है, जब शाकल्यने याज्ञवल्क्यसे इस प्रकार पूछा, तब याज्ञवल्क्यने ‘त्रयश्च’
इत्यादि निविदसे उत्तर दिया । शस्यमान देवताओंकी संख्याका वाचक मंत्रपद ‘निविद्’ कद-
म्यता है । तीन हजार तीन सौ छः, याज्ञवल्क्यके यह संख्या कहनेपर संख्येय देवताओंके स्वरूपके
विषयमें शाकल्यने फिर प्रश्न किया कि वे कौन हैं ? याज्ञवल्क्यने उसका उत्तर दिया कि इन

भाष्य

देवतात्मनो युगपदनेकरूपतां दर्शयति । तथा त्रयस्त्रिंशतोऽपि पडाद्यन्त-
र्भावक्रमेण 'कतम एको देवः' इति 'प्राणः' इति, प्राणैकरूपतां देवानां दर्श-
यन्ती तस्यैवैकस्य प्राणस्य युगपदनेकरूपतां दर्शयति । तथा स्मृतिरपि—

भाष्यका अनुवाद

ही देवतात्माके एक ही 'समयमें' अनेक रूप दिखलाती है । उसी प्रकार उन
तैंतीस देवोंका क्रमशः छः, तीन, दो और एक में अन्तर्भाव दिखलाकर 'कतम एको'
(वह एक देव कौन है ? प्राण है) इस प्रकार देवताओंका प्राणरूप एक स्वरूपको
दिखलाती हुई श्रुति उसी एक प्राणमें एक ही समयमें अनेक स्वरूप दिखलाती

रत्नप्रभा

एकादश रुद्राः, द्वादश आदित्याः, इन्द्रः प्रजापतिश्च इति त्रयस्त्रिंशद्देवाः, तेऽपि
पण्णाम् अग्निपृथिवीवाय्वन्तरिक्षादित्यदिवां महिमानः, तेऽपि पदसु देवेषु अन्त-
र्भवन्ति । पद् देवास्त्रिषु लोकेषु, त्रयश्च द्वयोः अन्नप्राणयोः, द्वौ च एकस्मिन् प्राणे
हिरण्यगर्भे, अन्तर्भवत इति दर्शितम् इत्यर्थः । त्रयस्त्रिंशतोऽपि देवानामिति सम्बन्धः ।
दर्शनं श्रौतं व्याख्याय स्मार्तं व्याचष्टे—तथा स्मृतिरिति । बलं योगसिद्धिम् ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

तैंतीस देवताओंकी ये सब देवता विभूति हैं । इसलिए ८ वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, १ इन्द्र और
१ प्रजापति ये तैंतीस देवता हैं । ये तैंतीस देवता अग्नि, पृथिवी, वायु, आन्तरिक्ष, आदित्य
और दिव इन छः की विभूतियां हैं, अतः छः हीमें सब अन्तर्भूत होते हैं । इन छः देवताओंका
तीनमें—पृथिवी, अन्तरिक्ष और दिव—में अन्तर्भाव होता है । ये तीन अन्न प्राण इन दोनों
अन्तर्भूत होते हैं और वे दो एक प्राण—हिरण्यगर्भमें अन्तर्भूत होते हैं, इस प्रकार दिखलाया
गया है । 'त्रयस्त्रिंशतोऽपि' का 'देवानां' के साथ संबन्ध है । श्रौतदर्शनके व्याख्यान करके
स्मार्त दर्शनका व्याख्यान करते हैं—"तथा स्मृतिः" इत्यादिसे । चल—योगसिद्धि । अणिमा,

(१) अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, दिव चन्द्रमा और नद्यश्च आठ वसु हैं । ये
प्राणियोंके कर्मफलके सहारे कार्यकारणरूप संपातमें परिणाम पाकर जगत् बसाते हैं, इसलिए वसु
कहलाते हैं । पाँच शानेन्द्रियों, पाँच कर्मेन्द्रियों और मन ये ११ रुद्र हैं, ये मरणकालमें शरीरसे
उत्क्रमण करते हुए प्राणियोंको रक्षते हैं, अतः रुद्र कहलाते हैं । संवत्सरके अवयव १२ मास द्वादश
आदित्य हैं । ये बारंबार परिवर्तन करते हुए प्राणियोंकी आयु और कर्मफलके उपभोगको देते लेते
हैं, अतः आदित्य कहलाते हैं । अग्नि वज्र ही इन्द्र हैं । यह इन्द्रका बल है, परम शक्ति है,
उससे वह सब प्राणियोंका शासन करता है, इसलिए अग्नि इन्द्र है, वसु प्रजापति हैं । यशका
साधन और यशरूप पशु प्रजापति हैं ।

भाष्य

‘आत्मनो वै शरीराणि बहूनि भरतर्षभ ।
योगी कुर्याद्बलं प्राप्य तैश्च सर्वैर्महीं चरेत् ॥
प्राप्नुयाद्विषयान् कैश्चित् कैश्चिदुग्रं तपश्चरेत् ।
संक्षिपेद्य पुनस्तानि सूर्यो रश्मिगणानिव ॥’

इत्येवंजातीयका प्राप्ताणिमाद्यैश्वर्याणां योगिनामपि युगपदनेकशरीर-
योगं दर्शयति । किमु वक्तव्यमाजानसिद्धानां देवानाम् । अनेकरूपप्रति-
पत्तिमम्भवाच्चैकैका देवता बहुमी रूपैरात्मानं प्रविभज्य बहुषु यागेषु

भाष्यका अनुवाद

है । उसी प्रकार ‘आत्मनो वै०’ (हे भरतपुत्रव ! योगी योगमहिमासे अपने
अनेक शरीर धारण कर सकता है और उन सबसे पृथिवीपर कुछ शरीरोंसे विच-
रण कर सकता है, कुछसे विषयभोग प्राप्त कर सकता है और कुछसे उग्र तप
कर सकता है और फिर जैसे सूर्य अपनी किरणोंको समेट लेता है वैसे उन
शरीरोंको समेट सकता है इत्यादि स्मृति भी जिन्होंने अणिमा आदि ऐश्वर्य
प्राप्त किये हैं, उन योगियोंका भी एक ही समयमें अनेक शरीरोंसे संबन्ध
दिखलाती है, तो जन्मसे सिद्ध देवताओंके विषयमें कहना ही क्या है ? अनेक
रूप धारण कर सकनेके कारण प्रत्येक देवता बहुत रूपोंमें विभक्त होकर एक

रत्नप्रभा

“अणिमा महिमा चैव लघिमा प्राप्तिरीशिता । प्राकाम्यं च वशित्वं च यत्रकामाव-
सायिता” ॥ (मार्कण्डेयपु०) इति अष्टैश्वर्याणि । क्षणेन अणुं महान् लघुः
गुरुश्च भवति योगी । अङ्गुल्या चन्द्रस्पर्शः—प्राप्तिः । ईशिता—सृष्टिशक्तिः ।
प्राकाम्यम्—इच्छानभिधातः । वशित्वं—नियमनशक्तिः । सङ्कल्पमात्राद् इष्टलामः—
यत्रकामावसायिता इति भेदः । आजानसिद्धानाम्—जन्मना सिद्धानाम् इत्यर्थः ।
फलितमाह—अनेकेति । अनेकेषु कर्मसु एकस्य प्रतिपत्तिः अङ्गभावः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

महिमा, लघिमा, प्राप्ति, ईशत्व, प्राकाम्य, वशित्व और यत्रकामावसायिता—आठ ऐश्वर्य हैं ।
योगी क्षणभरमें सूक्ष्म, महान्, हलका और भारी हो जाता है । प्राप्ति—अङ्गुलीसे चन्द्रका
स्पर्श । ईशिता—सृष्टि करनेकी शक्ति । प्राकाम्य—इच्छाका व्याधात न होना अर्थात् कहींपर
भी इच्छाका उच्छिद्य न होना । वशित्व—नियमनशक्ति । यत्रकामावसायिता—सङ्कल्पमात्रसे
इष्टकी प्राप्ति । ‘जन्मसे सिद्ध’—जन्मसे जिन्होंने सिद्धि प्राप्तकी है । फलित कहते हैं—“अनेक”
इत्यादिसे । अनेक कर्मोंमें एककी प्रतिपत्ति—अङ्गभाव ।

भाष्य

युगपदङ्गभावं गच्छति, परैश्च न दृश्यतेऽन्तर्धानादिक्रियाशक्तियोगादित्युपपद्यते ।

अनेकप्रतिपत्तेर्दर्शनादित्यस्याऽपरा व्याख्या—विग्रहवतामपि कर्माङ्ग-
भावचोदनास्वनेका प्रतिपत्तिर्दृश्यते । क्वचिदेकोऽपि विग्रहवाननेकत्र युग-
पदङ्गभावं न गच्छति, यथा बहुभिर्भोजयद्भिर्नैको ब्राह्मणो युगपद् भोज्यते ।
क्वचिच्चैकोऽपि विग्रहवाननेकत्र युगपदङ्गभावं गच्छति, यथा बहुभिर्नम-
स्कुर्वाणैरेको ब्राह्मणो युगपन्नमस्क्रियते । तद्वदिहोद्देशपरित्यागात्मकत्वाद्
यागस्य विग्रहवतीमप्येकां देवतामुद्दिश्य बहवः स्वं स्वं द्रव्यं युगपत् परि-
त्यक्ष्यन्तीति विग्रहवत्त्वेऽपि देवानां न किञ्चित्कर्मणि विरुध्यते ॥२७॥

भाष्यका अनुवाद

ही समय बहुत यागोंका अंग होसकता है और अन्तर्धान आदि सामर्थ्यसे अन्य
पुरुष उसे नहीं देख सकते । इसलिए देवताओंका विद्यामें अधिकार युक्त है ।

‘अनेकप्रतिपत्तेर्दर्शनात्’ इसकी दूसरी व्याख्या—शरीरियोंकी भी कर्मके
अंग बनानेमें भिन्न भिन्न प्रतिप्रत्तियां दियआई देती हैं । कहींपर एक ही शरीरी
अनेक स्थलोंपर एकही समयमें अंग नहीं बन सकता है जैसे कि भोजन कराने-
वाले बहुत मनुष्यों से एक ही समयमें एक ही ब्राह्मण नहीं खिलाया जा सकता ।
कहीं पर एक ही समय नमस्कार करनेवाले बहुत मनुष्यों से एक ही ब्राह्मण
नमस्कृत होता है । उसी प्रकार यहां यागके उद्देशपरित्यागात्मक होनेसे अर्थात्
देवताके उद्देशसे द्रव्यका त्याग करना, यही यागका स्वरूप होनेके कारण एक ही
शरीरी देवताके उद्देशसे बहुत लोग अपने अपने द्रव्यका एक ही समय त्याग कर
सकेगे, इसलिए देवताओंके शरीरी होनेपर भी कर्ममें कुछ विरोध नहीं है ॥२७॥

रत्नप्रभा

तस्य लोके दर्शनाद् इति वक्तुं व्यतिरेकमाह—क्वचिदेक इति । प्रकृतो-
पयुक्तमन्वयदृष्टान्तमाह—क्वचिच्चेति ॥ २७ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

यह बात व्यवहारमें देखी जाती है, ऐसा कहनेके लिए व्यतिरेक दिखाते हैं—“क्वचिदेक”
इत्यादिसे प्रस्तुत विषयमें उपयुक्त मन्वय दृष्टान्त कहते हैं—“क्वचिद्” इत्यादिसे ॥२७॥



शब्द इति चेन्नातः प्रभवात् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् ॥२८॥

पदच्छेद—शब्दे, इति, चेत्, न, अतः, प्रभवात्, प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् ।

पदार्थोक्ति—शब्दे—वेदवाक्ये [विरोधः] इति चेत्, न, अतः—वैदिक-शब्दात् [एव] प्रभवात्—देवादिजगत उत्पत्तेः, [तच्च] प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्—‘एत इति वै प्रजापतिर्देवानसृजत’ ‘वेदशब्देभ्य एवादौ’ इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्याम् [अवगम्यते] ।

भाषार्थ—वेदवाक्यमें विरोध होगा यह कथन भी युक्त नहीं है, क्योंकि वेदशब्दसे ही देवता आदि जगत्की उत्पत्ति होती है । यह बात ‘एत इति वै०’ (‘एते’ इस पदसे देवताओंका स्मरण करके प्रजापतिने देवताओंको उत्पन्न किया), ‘वेदशब्देभ्य०’ (सृष्टिके आदिमें महेश्वरने वेदशब्दोंसे ही भूतोंके नाम, रूप और कर्मोंका अनुष्ठान आदि उत्पन्न किये) इत्यादि श्रुति और स्मृतियोंसे जानी जाती है ।

भाष्य

मा नाम विग्रहवच्चे देवादीनामभ्युपगम्यमाने कर्मणि कश्चिद्विरोधः प्रसज्जि, शब्दे तु विरोधः प्रसज्येत । कथम् ? औत्पत्तिकं हि शब्दस्याऽ-

भाष्यका अनुवाद

देवता आदिका शरीर स्वीकार करनेसे कर्ममें भले ही कुछ विरोध न आवे, परन्तु शब्दमें विरोध होगा ही । क्योंकि अर्थके साथ शब्दका औत्पत्तिक—

रत्नप्रभा

कर्मण्यविरोधमङ्गीकृत्य शब्दप्रामाण्यविरोधमाशङ्क्य परिहरति—शब्द इति चेदिति । मा प्रसज्जि प्रसक्तौ मा भूत् नामेत्यर्थ । औत्पत्तिकसूत्रे शब्दार्थयोः अनाद्योः सम्बन्धस्य अनादित्वाद् वेदस्य स्वार्थे मानान्तरानपेक्षत्वेन प्रामाण्यमुक्तम् , इदानीम् अनित्यविग्रहव्यक्त्यभ्युपगमे तत्सम्बन्धस्याऽपि अनित्यत्वाद् मानान्तरेण

रत्नप्रभाका अनुवाद

कर्मम विरोध नहीं है, ऐसा अङ्गीकार करके पूर्वपक्षी शब्दप्रामाण्यमें विरोध है, ऐसी शङ्का करता है, “शब्द इति चेद्” इत्यादिसे सूत्रकार उसका परिहार करते हैं । ‘मा प्रसज्जि’—भले ही प्रसक्ति न हो । ‘औत्पत्तिकसूत्रे शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽप्यतिरेकधार्थेऽनुपलब्धे तत् प्रमाण मादरायणस्यानपेक्षत्वात्’ (अग्निहोत्र जुहुयात्’ इत्यादि वैदिक शब्दका अर्थके साथ वाच्यवाचकभावरूप सम्बन्ध स्वाभाविक—नित्य है, इससे—सम्बन्धके नित्य होनेसे धर्मके ज्ञान—ज्ञानका कारण उपदेश—वेद प्रत्यक्षादि प्रमाणके अगोचर अर्थमें—धर्ममें अव्यतिरेक—अव्यभिचारी है । इससे प्रत्यक्षादिकी अपेक्षा न होनेसे वैदिक शब्द धर्ममें प्रमाण है यह मादरायण आचार्य्यना मत है) अनादि शब्द और अर्थका सम्बन्ध भी अनादि है, इसलिये वेदको अपने अर्थका बोध करानेके लिए अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नहीं है, अत वेदमें

भाष्य

र्थेन सम्वन्धमाश्रित्य 'अनपेक्षत्वात्' इति वेदस्य प्रामाण्यं स्थापितम् । इदानीं तु विग्रहवती देवताऽभ्युपगम्यमाना यद्यप्यैश्वर्ययोगाद् युगपदनेक-कर्मसम्वन्धीनि हवींषि भुञ्जीत, तथापि विग्रहयोगादस्मदादिवद् जननमरणवती सेति नित्यस्य शब्दस्य नित्येनाऽर्थेन नित्ये सम्वन्धे प्रतीयमाने यद्वैदिके शब्दे प्रामाण्यं स्थितं तस्य विरोधः स्यादिति चेत् । नाऽयमप्यस्ति विरोधः । कस्मात् ? अतः प्रभवात् । अत एव हि वैदिकाच्छब्दाद् देवादिकं जगत् प्रभवति । ननु 'जन्माद्यस्य भाष्यका अनुवाद

स्वाभाविक अर्थात् नित्य संबन्ध मानकर 'अनपेक्षत्वात्' इस हेतुसे वेदके प्रामाण्यका स्थापन किया है । यद्यपि देव शरीरी हैं, ऐसा स्वीकार करनेसे ऐश्वर्ययोगसे वे एक ही समय अनेक कर्मोंके साथ संबन्ध रखनेवाले हविषोंका ग्रहण कर सकते हैं, तो भी शरीरके साथ सम्वन्ध होनेसे हम लोगोंके समान वे जन्म और मरणवाले हो जायेंगे, इसलिए नित्य शब्दका नित्य अर्थके साथ नित्य संबन्ध प्रतीयमान होनेसे वैदिक शब्दोंमें जो प्रामाण्य था, उसका अब विरोध हो जायगा, ऐसा यदि कोई कहे तो यह विरोध भी नहीं है । किससे ? इससे उत्पन्न होनेसे । इससे ही अर्थात् वैदिक शब्दसे ही देव आदि जगत् उत्पन्न होवा है । किन्तु 'जन्माद्यस्य'

रत्नप्रभा

व्यक्ति ज्ञात्वा शब्दस्य संकेतः पुंसा कर्तव्य इति मानान्तरापेक्षत्वात् प्रामाण्यस्य विरोधः स्यादित्याह—कथमित्यादिना । किं शब्दानाम् अनित्यतया सम्वन्धस्य कार्यत्वम् आपाद्यते—उत अर्थानाम् अनित्यतया, नाऽऽद्य इत्याह—नाऽयमपीति । कर्मणि अविरोधवदिति अपेः अर्थः । देवादिव्यक्तिहेतुत्वेन प्रागेव शब्दानां सत्त्वात् नाऽनित्यत्वमिति भावः । रत्नप्रभाका अनुवाद

प्रामाण्य है, ऐसा इस औत्पत्तिक सूत्रसे सिद्ध किया गया है, देवताओंका अनित्य शरीर स्वीकार करनेसे उनके साथ शब्दका संबन्ध भी अनित्य होगा, अतः अन्य प्रमाणसे शरीरका ज्ञान प्राप्त करके पुरुषको शब्दोंका संकेत करना पड़ेगा, इस प्रकार वेदको अन्य प्रमाणकी अपेक्षा होनेके कारण उक्त वेदप्रामाण्य अब विरुद्ध हो जायगा, ऐसा कहते हैं—“कथम्” इत्यादिसे । शब्द और अर्थके संबन्धमें अनित्यता शब्दके अनित्य होनेसे होती है, अथवा अर्थके अनित्य होनेसे ? पहला पक्ष ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं—“नाऽयमपि” इत्यादिसे । 'अपि' अर्थात् कर्ममें अविरोधके समान । आशय यह कि देवता आदि व्यक्तियों शब्दसे उत्पन्न होती हैं, अतः सृष्टिसे पहले शब्दोंके रहनेके कारण वे अनित्य नहीं हैं ।

भाष्य

यतः' (ब्र० १।१।२) इत्यत्र ब्रह्मप्रभवत्वं जगतोऽवधारितम्, कथमिह शब्दप्रभवत्वमुच्यते । अपि च यदि नाम वैदिकाच्छब्दादस्य प्रभवोऽभ्युपगतः, कथमेतावता विरोधः शब्दे परिहृतः, यावता वसु रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इत्येतेऽर्था अनित्या एवोत्पत्तिमत्त्वात्, तदनित्यत्वे च तद्वाचिनां वैदिकानां वस्वादिशब्दानामनित्यत्वं केन निवार्यते । प्रसिद्धं हि लोके देवदत्तस्य पुत्रे उत्पन्ने यज्ञदत्त इति तस्य नाम क्रियत इति । तस्माद्विरोध एव शब्द इति चेत्,

भाष्यका अनुवाद

सूत्रमें निश्चय किया गया है कि ब्रह्मसे जगत् उत्पन्न होता है, तब यहांपर यह कैसे कहते हैं कि शब्दसे जगत्की उत्पत्ति होती है ? और जब कि वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव और मरुत् आदि अर्थ उत्पन्न होनेके कारण अनित्य ही हैं, तब किसी प्रकार मान भी लिया जाय कि वैदिक शब्दसे इस जगत्की उत्पत्ति होती है, तो इतने ही से विरोधका परिहार किस प्रकार हुआ ? वसु आदि अर्थ ही जब अनित्य हैं, तब उनके वाचक वैदिक 'वसु' आदि शब्दोंका अनित्यत्व कौन रोक सकता है ? लोकमें प्रसिद्ध ही है कि देवदत्तके पुत्र होनेपर ही उसका नाम यज्ञदत्त रक्खा जाता है, इसलिए शब्दमें विरोध ही है ।

रत्नप्रभा

अत्र पूर्वापरविरोधं शङ्कते—नन्विति । शब्दस्य निमित्तत्वेन ब्रह्मसहकारित्वात् अविरोध इत्याशङ्क्य द्वितीयं कल्पमुत्थापयति—अपि चेति । अनित्यत्वम्—सादित्वम्, व्यक्तिरूपार्थानाम् अनित्यतया शब्दानां सम्बन्धस्याऽनित्यत्वं दुर्वारम्, तस्मात् पौरुषेयसम्बन्धसापेक्षत्वात् प्रामाण्यविरोध इत्यर्थः । न च व्यक्तीनाम् अनित्यत्वेऽपि घटत्वादिजातिसमवायवत् शब्दसम्बन्धोऽपि नित्यः स्यादिति वाच्यम् । उभया-

रत्नप्रभाका अनुवाद

यहां पूर्वापर विरोधकी शंका करते हैं—“ननु” इत्यादिसे । निमित्तकारण होनेसे शब्द ब्रह्मका सहकारी है, इसलिए विरोध नहीं है, ऐसी आशंका करके दूसरा पक्ष उठाते हैं—“अपि च” इत्यादिसे । अनित्य—सादि अर्थात् जिसकी उत्पत्ति होती है । व्यक्तिरूप अर्थके अनित्य होनेसे शब्दोंके संबन्धका अनित्यत्व दुर्वार है, इसलिए पुरुषकल्पित संबन्धकी अपेक्षा होनेसे प्रामाण्यका विरोध है, ऐसा अर्थ है । और व्यक्तियोंके अनित्य होनेपर भी जैसे घटत्व आदि जातिका घट आदि व्यक्तिके मायका समवाय नित्य है, नैम ही शब्दसंबन्ध भी नित्य

भाष्य

न; गवादिशब्दार्थसम्बन्धनित्यत्वदर्शनात् । नहि गवादिव्यक्ती-
नामुत्पत्तिमत्त्वे तदाकृतीनामप्युत्पत्तिमत्त्वं स्यात् । द्रव्यगुण-
कर्मणां हि व्यक्तय एवोत्पद्यन्ते नाऽऽकृतयः । आकृतिभिश्च
शब्दानां सम्बन्धो न व्यक्तिभिः । व्यक्तीनामानन्त्यात्

भाष्यका अनुवाद

ऐसा यदि कहो तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि गो आदि शब्दों और
अर्थोंका संबन्ध नित्य दिखाई देता है। गो आदि व्यक्तियोंकी उत्पत्ति
होनेपर उनमें रहनेवाली जातियोंकी भी उत्पत्ति हो, यह नियम नहीं है। द्रव्य,
गुण और कर्म व्यक्तियों ही उत्पन्न होती हैं, द्रव्यत्व आदि जातियों उत्पन्न नहीं
होती। और शब्दोंका संबन्ध जातियोंके साथ है, व्यक्तियोंके साथ नहीं है,

रत्नप्रभा

श्रितसम्बन्धस्य अन्यतराभावे स्थित्ययोगेन दृष्टान्तासिद्धेरिति भावः । यथा गोत्वादयो
गवादिशब्दवाच्याः तथा वसुत्वाद्याकृतयो वस्वादिशब्दार्थाः, न व्यक्तय इति
परिहरति—नेत्यादिना । शब्दानां तदर्थानां जातीनां च नित्यत्वात् तत्सम्बन्धोऽपि
नित्य इति प्रतिपादयति—नहीत्यादिना । व्यक्तीनामानन्त्यादिति । न च
गोत्वावच्छेदेन व्यक्तिपु शक्तिः सुग्रहेति वाच्यम् । सामान्यस्य अप्रत्यासत्तित्वेन सर्व-
व्यक्त्युपस्थित्यभावात् । गोत्वं शक्यतावच्छेदकमिति प्रहापेक्षया गोत्वं शक्य-
मिति लाघवात्, निरूढाऽजहल्लक्षणया व्यक्तेः लामेन अनन्यलभ्यत्वाभावाच्चेति
भावः । यद्वा, केवलव्यक्तिपु शक्तिः अत्र निरस्यते, अनुपपत्तिजानं विनैव व्यक्तेः शब्द-
शक्यतायत्तजातिजानविषयत्वेन उभयशक्तेरावश्यकत्वात् । तथा च नित्यजातितादा-

रत्नप्रभाका अनुवाद

हो, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शब्द और अर्थका संबन्ध दोनोंमें रहता है,
उन दोनोंमें एकके अभावमें संबन्ध नहीं रह सकता, इसलिए दृष्टान्त असिद्ध है। जैसे गो
आदि शब्दोंका अर्थ गोत्व आदि जाति है, वैसे 'वसु' आदि शब्दोंका अर्थ वसुत्व आदि जाति
ही है, व्यक्ति नहीं है, इस प्रकार प्रामाण्यविरोधका परिहार करते हैं—“नहि” इत्यादिसे।
“व्यक्तीनामानन्त्याद्” इत्यादि। व्यक्तियोंके अनुगमय गोत्वरूप जातिके सहारेसे सब व्यक्तियोंमें
शक्तिका प्रहण हो सकता है, यह नहीं कह सकते, क्योंकि जातिके प्रत्यासत्तिरूप—संबन्धरूप न
होनेके कारण सब व्यक्तियोंकी उपस्थिति नहीं हो सकती। गोत्वकी शक्यतावच्छेदक स्वीकार
करनेकी अपेक्षा शक्य माननेमें लाघव है और निम्न अजहल्लक्षणयो व्यक्तिना लाभ होता है,
इसलिए व्यक्ति अनन्यलभ्य नहीं है, ऐसा अर्थ है। अथवा यहां केवल व्यक्तियोंके शक्तिका
निरास किया जाता है, क्योंकि व्यक्तिके बिना जानि अनुपपन्न है, इस अनुपपत्तिमानके बिना ही
शब्दशक्तिके अर्थान जो जानिशन है, उभय विषय होनेसे व्यक्ति और जाति दोनोंमें

भाष्य

सम्बन्धग्रहणानुपपत्तेः । व्यक्तिपूतपद्यमानास्वप्याकृतीनां नित्यत्वान्न गवादिशब्देषु कश्चिद्विरोधो दृश्यते । तथा देवादिव्यक्तिप्रभवाम्पुपगमेऽप्याकृतिनित्यत्वान्न कश्चिद्वस्वादिशब्देषु विरोध इति द्रष्टव्यम् । आकृति-

भाष्यका अनुवाद

क्योंकि व्यक्तियाँ अनन्त हैं, अतः उनके साथ शब्दोंका संबन्ध-ग्रहण नहीं हो सकता । व्यक्तियोंके उत्पन्न होनेपर भी जातियोंके नित्य होनेसे गो आदि शब्दोंमें कुछ विरोध नहीं दिखाई देता । उसी प्रकार देव आदि व्यक्तियोंकी उत्पत्ति माननेपर भी जातिके नित्य होनेसे वसु आदि शब्दोंमें कुछ विरोध नहीं

रत्नप्रभा

त्येन व्यक्तेः अनादित्वात् तत्सम्बन्धोऽप्यनादिः, सत्कार्यवादात् । अत एव वाक्यवृत्तौ तत्त्वमस्यादिवाक्ये भागलक्षणा उक्ता युज्यते, केवलसामान्यस्य वाच्यत्वेऽस्वण्डार्थस्य वाच्यैकदेशत्वाभावात् “अतः प्रभवात्” इति सूत्रस्वारस्याच्च केवलव्यक्तिशक्ति-निरास इति गम्यते । केवलव्यक्तिवचनाः खलु डित्यादिशब्दा अर्थानन्तर-भाविनः सांकेतिकाः, गवादिशब्दास्तु व्यक्तिप्रभवहेतुत्वेन प्रागेव सन्तीति न व्यक्तिमात्रवचनाः सांकेतिकाः, किन्तु स्थूलसूक्ष्मभावेन अनुस्यूतव्यक्त्यविनाभूत-सामान्यवचना इति मन्तव्यम् । न च इन्द्रादिव्यक्तेः एकत्वेन जात्यभावाद् आकाश-शब्दवत् इन्द्रचन्द्रादिशब्दाः केवलव्यक्तिवचना इति साम्प्रतम्, अतीतानागतव्यक्ति-भेदेन जात्युपपत्तेः इत्यलं प्रपञ्चेन । दृष्टान्तमुपसंहृत्य दार्ष्टान्तिकमाह—

रत्नप्रभाका अनुवाद

शक्ति अवश्य माननी पड़ेगी । इसलिए नित्यजातिसे अभिन्न होनेके कारण व्यक्ति भी अनादि है, अतः उनका संबन्ध भी अनादि है, क्योंकि सत्कार्यवादका स्वीकार है । इसलिए वाक्यवृत्तिमें ‘तत्त्वमसि’ आदि वाक्योंमें भागलक्षणाका कथन संगत होता है, क्योंकि केवल जाति यदि शक्य हो, तो अस्वण्डार्थ वाच्यका एकदेश नहीं हो सकता, इससे और ‘अतः प्रभवात्’ इस सूत्र भागके स्वारस्यसे भी ज्ञात होता है कि केवल व्यक्तिशक्ति पक्षका निरास है । डित्य आदि शब्द केवल व्यक्तिवाचक हैं और व्यक्तिसे अनन्तर उत्पन्न होते हैं, इसलिए सांकेतिक हैं, परन्तु गो आदि शब्द व्यक्तिकी उत्पत्तिमें हेतु होनेके कारण व्यक्तिमें पहले रहते हैं, इसलिए व्यक्तिमात्र-वाचक तथा सांकेतिक नहीं हैं, किन्तु स्थूल अथवा सूक्ष्मभावेसे व्यक्तिमें अनुगत और व्यक्तिसे अविनाभूत सामान्य—जातिके वाचक हैं, ऐसा मानना चाहिए । इन्द्र आदि व्यक्तियोंके एक होनेके कारण उनमें जाति नहीं है, अतः आकाशशब्दके समान इन्द्र, चन्द्र आदि शब्द केवल व्यक्तिके वाचक हैं, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि अतीत और अनागत व्यक्तियाँ भिन्न भिन्न हैं, अतः उनमें जाति है ही । दृष्टान्तका उपसंहार करके दार्ष्टान्तिक कहते हैं—“व्यक्तिपु” इत्यादिमे ।

भाष्यः -

विशेषस्तु देवादीनां मन्त्रार्थवादादिभ्यो विश्वहवच्चाद्यवगमादवगन्तव्यः । स्थानविशेषसम्बन्धनिमित्ता वेन्द्रादिशब्दाः सेनापत्यादिशब्दवत् । ततश्च यो यस्तत्तत्स्थानमधितिष्ठति स स इन्द्रादिशब्दैरभिधीयत इति न दोषो भवति । न चेदं शब्दप्रभवत्वं ब्रह्मप्रभवत्ववदुपादानकारणत्वाभिप्रायेणोच्यते । कथं तर्हि ? स्थिते वाचकात्मना नित्ये शब्दे नित्यार्थसम्बन्धिनि शब्दव्यवहारयोग्यार्थव्यक्तिनिष्पत्तिरतः प्रभव इत्युच्यते ।

भाष्यका अनुवाद

है, ऐसा समझना चाहिए । मंत्र, अर्थवाद आदिसे देवताओंके शरीर आदिकी प्रतीति होनेसे उनकी जाति मी है, यह जानना चाहिए । अथवा सेनापति आदि शब्दोंके समान इन्द्र आदि शब्द विशिष्ट स्थानके संबन्धसे प्रवृत्त होते हैं । इसलिए जो-जो उस-उस स्थानपर आरूढ होता है । उस-उसका इन्द्र आदि शब्दोंसे अभिधान होता है, अतः कोई दोष नहीं है । और जगत् शब्दसे उत्पन्न होता है, यह कथन ब्रह्मसे उत्पन्न होनेके समान उपादान कारणके अभिप्रायसे नहीं है । तब किस अभिप्रायसे है ? नित्य अर्थके साथ संबन्ध रखनेवाला जय नित्य शब्द वाचकस्वरूपसे स्थित रहता है, तमी शब्दव्यवहारयोग्य अर्थकी निष्पत्ति होती है, इस आशयसे शब्दसे उत्पत्ति कही गई है ।

रत्नप्रभा

व्यक्तिष्वित्यादिना । आकृतिः—जातिः । का सा व्यक्ति. यदनुगता इन्द्रत्वादिजातिः शब्दार्थः स्यादित्यत आह—आकृतिविशेषस्त्विति । “वज्रहस्तः पुरन्दरः” इत्यादिभ्य इत्यर्थः । इन्द्रादिशब्दानां जातिः इन्द्रादिषु प्रवृत्तिनिमित्तमिति उक्त्वा उपाधिनिमित्तत्वमाह—स्थानेति । व्यक्तिप्रलयेऽपि स्थानस्य स्थायित्वात् शब्दार्थसम्बन्धनित्यता इत्यत आह—ततश्चेति । उक्तं पूर्वापरविरोधं परिहरति—न चेति । शब्दो निमित्तमिति अविरोधं मत्वा सूत्र-

रत्नप्रभाका अनुवाद

आकृति—जाति । यदि कोई कहे कि यह कौनसी व्यक्ति है ? जिसके अनुगत होकर इन्द्रत्व आदि जाति शब्दार्थ होती हैं, इसपर कहते हैं—“आकृतिविशेषस्तु” इत्यादि । “वज्रहस्तः” इत्यादि मंत्रोंसे ऐसा समझना चाहिए । इन्द्र आदि शब्दोंकी इन्द्र आदिमें प्रवृत्तिके प्रति जातिके निमित्त कहकर अब उपाधिके निमित्त कहते हैं—“स्थान” इत्यादिसे । व्यक्तिना नाश होनेपर भी स्थानके स्थायी होनेमें शब्दार्थसंबन्ध नित्य है, यह कहते हैं—“ततश्च” इत्यादि । जो पूर्वापर विरोध ऊपर कहा गया है, उसका परिहार करते हैं—“न च”

भाष्य

कथं पुनरवगम्यते शब्दात् प्रभवति जगदिति ? प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् । प्रत्यक्षं हि श्रुतिः, प्रामाण्यं प्रत्यनपेक्षत्वात् । अनुमानं स्मृतिः, प्रामाण्यं प्रति सापेक्षत्वात् । ते हि शब्दपूर्वां सृष्टिं दर्शयतः । 'एत इति वै प्रजापतिर्देवानसृजतासृग्रमिति मनुष्यानिन्दव इति पितृंस्तिरःपवित्रमिति ग्रहानाशव इति स्तोत्रं विश्वानीति शस्त्रमभिसौभगेत्यन्याः प्रजाः' इति

भाष्यका अनुवाद

परन्तु शब्दसे जगत् उत्पन्न होता है, यह कैसे माना जाय ? प्रत्यक्ष और अनुमानसे । प्रत्यक्ष अर्थात् श्रुति, क्योंकि उसके प्रामाण्यके लिए किसीकी अपेक्षा नहीं होती । अनुमान अर्थात् स्मृति, क्योंकि उसके प्रामाण्यके लिए श्रुतिकी अपेक्षा होती है । ये दोनों प्रमाण यह दिखाते हैं कि सृष्टि शब्दपूर्वक है । 'एत इति वै प्रजापतिः' ('एते' इस पदसे देवताओंका स्मरण करके प्रजापतिने देवताओंकी सृष्टि, 'असृग्रम्' से मनुष्योंका स्मरण करके मनुष्योंकी, 'इन्दवः' से पितरोंका स्मरण करके पितरोंकी, 'तिरःपवित्रम्' से ग्रहोंका स्मरण करके ग्रहोंकी, 'आशवः' से स्तोत्रका स्मरण करके स्तोत्रकी, 'विश्वानि' से-शस्त्रका स्मरण करके शस्त्रकी और 'अभिसौभगा' से अन्य प्रजाओंका स्मरण करके अन्य

रत्नप्रभा

शेषमवतारयति—कथं पुनरिति । स्मृत्या स्वप्रामाण्यार्थं मूलश्रुतिः अनुमीयत इति अनुमानम्—स्मृतिः । "एते असृग्रमिन्दवस्तिरःपवित्रमाशवः विश्वान्यभिसौभगा" [छन्दोगब्राह्मण०] इत्येतन्मन्त्रस्थैः पदैः स्मृत्वा ब्रह्मा देवादीन् असृजत । तत्र एत इति पदं सर्वनामत्वाद् देवानां स्मारकम्, असृग्—रुधिरम्, तत्प्रधाने देहे रमन्ते इति असृग्मा मनुष्याः, चन्द्रस्थानां पितृणाम् इन्दुशब्दः स्मारकः । पवित्रं सोमस्थानं स्वान्तस्तिरस्कुर्वतां ग्रहाणां तिरःपवित्रशब्दः । ऋचोऽशुवतां स्तोत्राणां गीतिरूपाणाम् आशुशब्दः । "ऋच्यध्यूढं साम" इति श्रुतेः । स्तोत्रानन्तरं प्रयोगं

रत्नप्रभाका अनुवाद

इत्यादिसे । शब्द निमित्त कारण है, इसलिए अविरोध है, ऐसा मानकर सूत्रशेषकी अवतरणिका देते हैं—"कथं पुनः" इत्यादिसे । स्मृति अपने प्रामाण्यके लिए अपनी मूलभूत श्रुतिकी अनुमान करती है, अतः अनुमान स्मृति है । "एते असृग्रमिन्दवः" इस मंत्रमें स्थित पदोंसे स्मरण करके ब्रह्मने देवता आदिकी सृष्टि की । उनमें 'एते' यह पद सर्वनाम होनेसे देवताओंका स्मारक है । असृग्—रुधिर । रक्तप्रधान देहके अभिमानां असृग्—मनुष्य । 'असृग्' शब्द मनुष्योंका स्मारक है । 'इन्दु' शब्द चन्द्रमण्डलमें रहनेवाले पितरोंका स्मारक है । 'तिरःपवित्र' शब्द पवित्र सोमस्थानका अपनेमें तिरस्कार करनेवाले ग्रहोंका स्मारक है । 'आशु' शब्द 'ऋच्यध्यूढं' श्रुतिके अनुसार ऋचामें व्याप्त होनेवाले गानरूप स्तोत्रोंका स्मारक

माध्य

श्रुतिः । तथाऽन्यत्राऽपि 'स मनसा वाचं मिथुनं समभवत्' (वृ० १।२।४)
इत्यादिना तत्र तत्र शब्दपूर्विका सृष्टिः श्राव्यते । स्मृतिरपि—

'अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा ।

आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥'

(म० भा० शा० २३३।२४) इति ।

उत्सर्गोऽप्ययं वाचः संप्रदायप्रवर्तनात्मको द्रष्टव्यः, अनादिनिधनाया
अन्यादृशस्योत्सर्गस्याऽसम्भवात् । तथा—

'नामरूपे च भूतानां कर्मणां च प्रवर्तनम् ।

वेदशब्देभ्य एवादौ निर्ममे स महेश्वरः ॥' (मनु० १।२१)

भाष्यका अनुवादः

प्रजाओंकी सृष्टि की) यह श्रुति है । इसी प्रकार दूसरे स्थानपर भी 'स मनसा
वाचं' (प्रजापतिने मनसे त्रयीरूप वाणीका आलोचन किया) इत्यादिसे
स्थल-स्थलपर श्रुति शब्दपूर्वक सृष्टिका निर्देश करती है । स्मृति भी 'अनादि-
निधना नित्या' (सृष्टिके आरम्भमें स्वयंभूने अनादि, अनन्त, नित्य और
दिव्य वेदमयी वाणीका उत्सर्ग किया, जिससे अन्य सृष्टियाँ हुई) यही निर्देश
करती है । वाणीका यह उत्सर्ग भी सम्प्रदायप्रवर्तनस्वरूप ही है, क्योंकि अनादि
और अनन्त वाणीका दूसरे प्रकारसे उत्सर्ग नहीं हो सकता । उसी प्रकार
'नामरूपे च' (उस महेश्वरने आरम्भमें वेदशब्दोंसे ही भूतोंके नाम,
रूप और सत्कर्मोंके अनुष्ठानमें प्रवृत्ति उत्पन्न की) और 'सर्वेषां तु स नामानि०'

रत्नप्रभा

विशतां शस्त्राणां विश्वशब्दः । सर्वत्र सौभाग्ययुक्तानाम् अभिसौभाग्यशब्दः स्मारक
इति छन्दोगब्राह्मणवाक्यार्थः । सः प्रजापतिर्मनसा वाचं त्रयीं मिथुनं समभवत् ।
मनो वाग्रूपं मिथुनं सम्भावितवान् । मनसा त्रयीप्रकाशितां सृष्टिमालोचितवान्
इत्यर्थः । "रश्मिरित्येवादित्यमसृजत" इत्यादिश्रुतिः आदिशब्दार्थः । सम्प्रदायः—

रत्नप्रभाका अनुवादः

है । 'विश्व' शब्द स्तोत्रके अनन्तर प्रयुक्त होनेवाले शस्त्रोंका स्मारक है । 'अभिसौभाग्य'
शब्द सर्वत्र सौभाग्ययुक्त प्रजाका स्मारक है । प्रजापतिने मनके साथ त्रयीरूप वाणीका
मिथुनभाव-संयोजन किया अर्थात् त्रयीसे प्रकाशित सृष्टिकी मनसे आलोचना की । 'आदि' परसे
'रश्मिरित्येवा०' (रश्मिपदका स्मरणकर आदित्यकी सृष्टि की) इत्यादि वाक्य समझना चाहिए ।

भाष्य

‘सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्पृथक् ।

वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे ॥’ इति च ।

अपि च चिकीर्षितमर्थमनुतिष्ठंस्तस्य वाचकं शब्दं पूर्वं स्मृत्वा पश्चात् तमर्थमनुतिष्ठतीति सर्वेषां नः प्रत्यक्षमेतत् । तथा प्रजापतेरपि स्रष्टुः सृष्टेः पूर्वं वैदिकाः शब्दा मनसि प्रादुर्बभूवुः, पश्चात्तदनुगतानर्थान् ससर्जेति गम्यते । तथा च श्रुतिः—‘स भूरिति व्याहरत् स भूमिमसृजत्’ (तै० ब्रा० २।२।४।२) इत्येवमादिका भूरादिशब्देभ्य एव मनसि प्रादुर्भूतेभ्यो भूरादिलोकान् सृष्टान् दर्शयति ।

किमात्मकं पुनः शब्दमभिप्रेत्येदं शब्दप्रभवत्वमुच्यते? स्फोटमित्याह ।

भाष्यका अनुवाद

(उसने आरंभमें सबके पृथक्-पृथक् नाम और कर्म एवं अवस्थाओंका वेद-शब्दोंसे ही निर्माण किया) ये सृष्टियों भी वेदशब्दसे ही सृष्टि दिखलाती हैं । और यह हम सब लोगोंको प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है कि जब कोई पुरुष किसी वस्तुको बनाना चाहता है तब पहले उसके वाचक शब्दका स्मरण करता है और उसके पश्चात् उस वस्तुको बनाता है । उसी प्रकार सृष्टि करनेवाले प्रजापतिके मनमें सृष्टिसे पहले वैदिक शब्द प्रादुर्भूत हुए, उसके पश्चात् शब्दके अनुगत अर्थों—वस्तुओंकी भी उसने रचना की, ऐसा समझा जाता है । उसी प्रकार ‘स भूरिति०’ (उसने ‘भू’ ऐसा उच्चारण करके पृथिवीकी सृष्टि की) इत्यादि श्रुति मनमें प्रादुर्भूत हुए भू आदि शब्दोंसे ही भू आदि लोकोंकी सृष्टि दिखलाती है । शब्दसे जो जगत्की सृष्टि कही गई है, वह शब्दको वर्णरूप मानकर कही

रत्नप्रभा

गुरुशिष्यपरम्पराध्ययनम् । संस्थाः—अवस्थाः । प्रजापतिसृष्टिः, शब्दपूर्विका, सृष्टित्वात्, प्रत्यक्षघटादिवदिति प्रत्यक्षानुमानाभ्यामित्यस्य अर्थान्तरमाह—अपि चेति । अतःप्रभवत्वप्रसङ्गात् शब्दस्वरूपं वक्तुम् उक्तमाक्षिपति—किमात्मकमिति । वर्णरूपं तदतिरिक्तस्फोटरूपं वेति किंशब्दार्थः । तत्र वर्णानाम् अनित्यत्वात् स्फोटस्य

रत्नप्रभाका अनुवाद

सम्प्रदाय—गुरुशिष्यकी परम्परासे चलनेवाला अध्ययन । संस्था—अवस्था । प्रत्यक्ष घटादि-सृष्टिके समान प्रजापतिसृष्टि शब्दपूर्विका है, क्योंकि वह भी सृष्टि है, इस प्रकार सूत्रस्य ‘प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्’ पदका द्वारा अर्थ कहते हैं—“अपि च” इत्यादिते । शब्दसे जगत्की सृष्टिके कथनके प्रसङ्गसे—स्रष्टृतिसे शब्दका स्वरूप स्पष्ट करनेके लिए पूर्वोक्तका आक्षेप करते हैं—

भाष्य

वर्णपक्षे हि तेषामुत्पन्नप्रध्वंसित्वान्नित्येभ्यः शब्देभ्यो देवादिव्यक्तीनां प्रभव इत्यनुपपन्नं स्यात् । उत्पन्नध्वंसिनश्च वर्णाः, प्रत्युच्चारणमन्यथा चाऽन्यथा च प्रतीयमानत्वात् । तथाहि—अदृश्यमानोऽपि पुरुषविशेषोऽध्ययनध्वनिश्रवणादेव विशेषतो निर्धार्यते—देवदत्तोऽयमधीते यज्ञदत्तोऽयमधीते इति । न चाऽयं वर्णविषयोऽन्यथात्वप्रत्ययो मिथ्याज्ञानम्,

भाष्यका अनुवाद

गई है या स्फोटरूप मानकर ? वैयाकरण कहते हैं कि स्फोट मानकर कही गई है । यदि वर्णरूप शब्दसे सृष्टि मानी जाय तो वर्णोंके उत्पन्न और नष्ट होनेके कारण 'नित्य शब्दोंसे देवता आदि व्यक्तियोंकी उत्पत्ति होती है, यह कथन असंगत हो जायगा । वर्ण उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, क्योंकि प्रत्येक उच्चारणमें वे भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं, जैसे कि किसी अदृश्य पुरुषके अध्ययनकी ध्वनि सुननेसे ही यह विशेष रीतिसे निर्धारण किया जा सकता है कि यह देवदत्त अध्ययन कर रहा है या यज्ञदत्त । और वर्णमें होनेवाली भेदप्रतीति मिथ्याज्ञान नहीं है, क्योंकि

रत्नप्रभा

चाऽसत्त्वात् न जगद्धेतुत्वम् इत्याक्षेपे द्वितीयपक्षं वैयाकरणो गृह्णाति—स्फोटमिति । स्फुट्यते वर्णैर्व्यज्यते इति स्फोटो वर्णव्यञ्ज्योऽर्थस्य व्यञ्जको गवादिशब्दो नित्यः, तमभिप्रेत्य इदमुच्यते इति पूर्वेणाऽन्वयः । स एव आद्यपक्षं दूषयति—वर्णेति । सोऽयं गकार इति प्रत्यभिज्ञया वर्णनित्यत्वसिद्धेर्नाऽनुपपत्तिरित्यत आह—उत्पन्नेति । तारत्वमन्द्रत्वादिविरुद्धधर्मवत्त्वेन तारो गकारो मन्द्रो गकार इति प्रतीयमानगकार-

रत्नप्रभाका अनुवाद

“किमात्मकम्” इत्यादिगे । शब्द वर्णरूप है अथवा उससे भिन्न स्फोटरूप है, यह 'किम्' शब्दका अर्थ है । इनमें वर्णके अनित्य होने और स्फोटके वेदान्तमतमें स्वीकृत न होनेके कारण शब्द जगत्का हेतु नहीं है, ऐसा आक्षेप होनेपर वैयाकरण द्वितीयपक्ष—स्फोटपक्षका ग्रहण करते हैं—“स्फोटम्” इत्यादिसे । ‘स्फुट्यते वर्णैर्व्यज्यते इति स्फोटः’ (वर्णोंसे व्यक्त होनेवाला स्फोट कहलाता है) इस व्युत्पत्तिसे वर्णोंसे व्यंग्य अर्थका व्यंजक गो आदि शब्द स्फोट है, वह नित्य है, उसीको शब्द मानकर यह कहा गया है, ऐसा पूर्वके साथ अन्वय है । वैयाकरण प्रथम पक्षमें—शब्द वर्णरूप है, इस पक्षमें दोष दिखलते हैं—“वर्ण” इत्यादिसे । ‘घोऽयं गकारः’ (यह वही गकार है) इस तरह प्रत्यभिज्ञा होती है, अतः वर्ण नित्य है, यह सिद्ध होनेपर कुछ अनुपपत्ति नहीं है, इसपर कहते हैं—“उत्पन्न” इत्यादि । ऊँचा गकार है, धीमा गकार है, इस प्रकार तारत्व, मन्द्रत्व आदि विरुद्धधर्मोंसे

भाष्य

वाधकप्रत्ययाभावात् । न च वर्णभ्योऽर्थावगतिर्युक्ता, न होकैको वर्णोऽर्थ
प्रत्याययेत्, व्यभिचारात् । न च वर्णसमुदायप्रत्ययोऽस्ति, क्रमवत्त्वाद्दर्शाना-
नाम् । पूर्वपूर्ववर्णानुभवजनितसंस्कारसहितोऽन्त्यो वर्णोऽर्थं प्रत्याययिष्यतीति

भाष्यका अनुवाद

उस प्रतीतिका कोई वाधक ज्ञान नहीं है । और वर्णोंसे अर्थकी अवगति भी नहीं
हो सकती है । कारण कि एक-एक वर्ण अर्थ का ज्ञान नहीं करा सकता, क्योंकि
अर्थज्ञान का व्यभिचार—अभाव है । उसी प्रकार वर्णके समुदायसे भी अर्थकी
प्रतीति नहीं हो सकती, क्योंकि वर्ण क्रमिक हैं । पूर्व-पूर्व वर्णके अनुभव—श्रवण-
से उत्पन्न हुए संस्कारके साथ अन्त्य वर्ण अर्थकी प्रतीति करावेगा, यदि ऐसा

रत्नप्रभा

स्य भेदानुमानात् प्रत्यभिज्ञा गत्वजातिविषया इत्यर्थः । ननु विरुद्धधर्मज्ञानं ध्वन्यु-
पाधिकं भ्रम इत्यत आह—न चेति । तथा च वर्णानामनित्यत्वात् न जगद्धेतुत्व-
मिति भावः । किञ्च, तेषामर्थबोधकत्वायोगात् स्फोटोऽस्तीकार्यं इत्याह—न च
वर्णभ्य इत्यादिना । व्यभिचारात् एकस्माद् वर्णादर्थप्रतीत्यदर्शनाद् वर्णान्तर-
वैयर्थ्यपसङ्गाच्चेत्यर्थः । तर्हि वर्णानां समुदायो बोधक इत्याशङ्क्य क्षणिकानां स
नास्तीत्याह—न चेति । वर्णानां स्वतः साहित्याभावेऽपि संस्कारलक्षणापूर्वद्वारा
साहित्यम् आग्नेयादियामानामिव इति शङ्कते—पूर्वेति । किमयं संस्कारो वर्णैर्जनितोऽपूर्वाख्यः कश्चिद्, उत वर्णानुभवजनितो भावनाख्यः । नाऽऽद्यः, मानाभावात् ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

प्रतीयमान गकारमें भेदका अनुमान होनेसे प्रत्यभिज्ञाका विषय गत्वजाति है,
वर्ण नहीं है ऐसा अर्थ है । यदि कोई शंका करे कि तारत्व, मन्दत्य आदि जो
विरुद्ध धर्म गकारमें प्रतीत होते हैं, वे भ्रमसे होते हैं, क्योंकि वे उपाधि (व्यञ्जक) भूत
प्वनिके धर्म हैं और वर्णमें भ्रमसे प्रतीत होते हैं, इसपर कहते हैं—“न च” इत्यादि ।
आशय यह कि इस प्रकार वर्णोंके अनित्य होनेसे वे जगत्के हेतु नहीं हो सकते
हैं । और वर्ण अर्थका बोध नहीं करा सकते हैं, इसलिए स्फोटका अंगीकार करना
चाहिए, ऐसा कहते हैं—“न च वर्णभ्यः” इत्यादिसे । ‘व्यभिचारात्,—क्योंकि एक वर्णसे
अर्थकी प्रतीति नहीं होती और दूसरे वर्ण व्यर्थ होते हैं । तब वर्णोंका समुदाय अर्थबोधक
हो, ऐसी आशंका करके वर्णोंके क्षणिक होनेके कारण उनका समुदाय ही नहीं हो सकता, ऐसा
कहते हैं—“न च” इत्यादिसे । यद्यपि वर्णोंका स्वतः समुदाय नहीं बन सकता, तो भी जैसे
आग्नेय आदि यागोंका अपूर्वद्वारा समुदाय होता है, उसी प्रकार संस्काररूप अपूर्वद्वारा वर्णोंका
समुदाय बन सकता है, ऐसी शंका करते हैं—“पूर्व” इत्यादिसे । क्या यह संस्कार वर्णोंसे

भाष्य

यद्युच्येत । तन्न । सम्बन्धग्रहणापेक्षो हि शब्दः स्वयं प्रतीयमानोऽर्थं प्रत्याययेद् धूमादिवत् । न च पूर्वपूर्ववर्णानुभवजनितसंस्कारसहितस्याऽन्त्यवर्णस्य प्रतीतिरस्ति, अप्रत्यक्षत्वात् संस्काराणाम् । कार्यप्रत्यायितैः संस्कारैः सहितोऽन्त्यो वर्णोऽर्थं प्रत्याययिष्यतीति चेत्, न, संस्कारकार्य-

भाष्यका अनुवाद

कहो, तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि शब्द संकेतग्रहणकी अपेक्षा रखता है, इसलिए धूम आदिके समान स्वयं प्रतीत होनेपर अर्थकी प्रतीति करा संकता है । पूर्व-पूर्व वर्णके अनुभवसे उत्पन्न हुए संस्कारके साथ अंत्य वर्णकी प्रतीति ही नहीं हो सकती है, क्योंकि संस्कार अप्रत्यक्ष हैं । यदि कोई कहे कि कार्यसे ज्ञापित संस्कारोंसे युक्त अंत्य वर्ण अर्थकी प्रतीति करावेगा, यह कथन भी ठीक नहीं है,

रत्नप्रभा

किञ्च, अयम् अज्ञातो ज्ञातो वा अर्थधीहेतुः ? नाऽऽद्य इत्याह—तन्नेति । संस्कारसहितः शब्दो ज्ञात एव अर्थधीहेतुः, सम्बन्धग्रहणमपेक्ष्य बोधकत्वाद्, धूमादिवत् इत्यर्थः । द्वितीये किं प्रत्यक्षेण ज्ञात उत कार्यलिङ्गेन ? नाऽऽद्य इत्याह—न चेति । द्वितीयं शङ्कते—कार्येति । कार्यम्—अर्थधीः; तस्यां जातायां संस्कारप्रत्ययः, तस्मिन् जाते सा इति परस्पराश्रयेण दूषयति—नेति । पदार्थस्मरणस्याऽपि पदज्ञानानन्तरभावित्वात् तेन संस्कारसहितान्त्यवर्णात्मकपदस्य ज्ञानं न युक्तमित्यक्षरार्थः । अपिशब्दः परस्पराश्रयद्योतनार्थः । एतेन भावनासंस्कारपक्षोऽपि निरस्तः । तस्य

रत्नप्रभाका अनुवाद

उत्पन्न अपूर्वसंज्ञक संस्कार है अथवा वर्णानुभवसे अन्य भावनासंज्ञक संस्कार है ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें कोई प्रमाण नहीं है । और क्या यह संस्कार अज्ञात होकर अर्थका ज्ञान कराता है या ज्ञात होकर ? इनमें प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं—“तन्न” इत्यादिसे । संस्कारसहित शब्द ज्ञात होकर ही अर्थकी प्रतीति कराता है, क्योंकि वह धूमके समान संबन्धग्रहणकी अपेक्षा रखकर ही बोधक होता है, ऐसा अनुमान है । यदि संस्कार ज्ञात होकर अर्थकी प्रतीति कराता है, तो वह प्रत्यक्षसे ज्ञात होता है अथवा कार्यरूप लिङ्गसे ? प्रथम पक्ष युक्त नहीं, ऐसा कहते हैं—“न च” इत्यादिसे । दूसरे पक्षकी संका करते हैं—“कार्य” इत्यादिसे । कार्य—अर्थज्ञान, अर्थज्ञान होनेपर संस्कारज्ञान होता है और संस्कारज्ञान होनेपर अर्थज्ञान होता है, इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोषसे उभका निराकरण करते हैं—“न” इत्यादिसे । अक्षरार्थ यह है कि पदार्थस्मरण पदज्ञानके अनन्तर होता है, इसलिए संस्कारसहित अंत्यवर्णात्मक पदका ज्ञान स्मरणसे नहीं होता । ‘संस्कार-

भाष्य

स्याऽपि स्मरणस्य क्रमवर्तित्वात् । तस्मात् स्फोट एव शब्दः । स चैकैकवर्णप्रत्ययाहितसंस्कारबीजेऽन्त्यवर्णप्रत्ययजनितपरिपाके प्रत्ययिन्येक-

भाष्यका अनुवाद

क्योंकि संस्कारका कार्य स्मरण भी क्रमिक है, इसलिए स्फोट ही शब्द है । एक-एक वर्णकी प्रतीतिने जिसमें संस्काररूप बीज डाला है और अंत्य वर्णकी प्रतीतिने जिसमें परिपाक उत्पन्न किया है, ऐसे चित्तमें एक प्रतीतिके

रत्नप्रभा

वर्णस्मृतिमात्रहेतुत्वेन अर्थधीहेतुत्वायोगात् । न चाऽन्त्यवर्णसाहित्याद् अर्थधीहेतुत्वम्, केवलसंस्कारस्य तु वर्णस्मृतिहेतुत्वमिति वाच्यम् । अर्थधीपूर्वकाले भावनाया ज्ञानाभावेन अर्थधीहेतुत्वायोगात् । न च वर्णस्मरणेन अनुमिता सा अन्त्यवर्णसहिता अर्थधीहेतुः इति वाच्यम् । तत्कार्यस्य क्रमिकस्य वर्णस्मरणस्याऽपि अन्त्यवर्णानुभवानन्तरभावित्वेन तेन अनुमितभावनानाम् अन्त्यवर्णसाहित्याभावाद् इति भावः । वर्णानाम् अर्थबोधकत्वासम्भवे फलमाह—तस्मादिति । स्फोटेऽपि किं मानम् इत्याशङ्क्य एकं पदमिति प्रत्यक्षप्रमाणम् इत्याह—स चेति । यथा रत्नतत्त्वं बहुभिश्चाक्षुषप्रत्ययैः स्फुटं भासते, तथा गवादिपदस्फोटो गकाराद्येकैकवर्णकृतप्रत्ययैः स्फोटविषयैः आहिताः संस्कारा बीजं यस्मिन् चित्ते तस्मिन् अन्त्यवर्णकृतप्रत्ययेन जनितः परिपाकोऽन्त्यः संस्कारो यस्मिन् तस्मिन् प्रत्ययिनि चित्ते एकं गौरिति पदम् इति प्रत्ययः प्रत्यक्षः

रत्नप्रभाका अनुवाद

कार्यस्यापि' का 'अपि' पद अन्योन्याश्रयका घोरक है । इससे भावनासंस्कारपक्षका भी निराकरण हो गया, क्योंकि उससे केवल वर्णस्मृति ही होती है, इसलिए वह अर्थ-प्रतीतिका हेतु नहीं हो सकता । और केवल संस्कार वर्णस्मृतिका हेतु है और अंत्यवर्णसहित होनेसे वही अर्थ-प्रतीतिका हेतु है, ऐसी शंका नष्ट करनी चाहिए, क्योंकि अर्थ-प्रतीति होनेसे पहले भावनाका ज्ञान नहीं होता, इसलिए वह अर्थप्रतीतिका हेतु नहीं हो सकता । वर्णस्मरणसे अनुमित भावना अंत्यवर्णसाहित होकर अर्थ प्रतीतिमें हेतु होती है, यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि भावनाका कार्य—क्रमिक स्मरण भी अंत्यवर्णके अनुभवके बाद होता है, इसलिए उक्त वर्णस्मरणसे अनुमित भावनाओंका अंत्यवर्णके साथ सहयोग नहीं होता, ऐसा अर्थ है । वर्ण अर्थबोधक नहीं है, यह सिद्ध होनेपर प्राप्त फल कहते हैं—“तस्माद्” इत्यादिसे । स्फोटमें भी क्या प्रमाण है, ऐसी आशङ्क्य करके “स च” इत्यादिसे कहते हैं कि ‘एक पद है’ यह जो ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है । जैसे रत्नोंकी यथार्थता बहुत बार देखनेसे स्पष्टतया प्रतीत होती है, उसी प्रकार गकार आदि प्रत्येक वर्णोंकी प्रतीति द्वारा जिस चित्तमें स्फोटविषयक संस्काररूप बीज डाला गया है और अंत्यवर्णके ज्ञान द्वारा जिसमें परिपाक—

भाष्य

प्रत्ययविपयतया झटिति प्रत्यवभासते । न चाऽयमेकप्रत्ययो वर्णविपया स्मृतिः, वर्णानामनेकत्वादेकप्रत्ययविपयत्वानुपपत्तेः । तस्य च प्रत्युच्चारणं प्रत्यभिज्ञायमानत्वान्नित्यत्वम्, भेदप्रत्ययस्य वर्णविपयत्वात् । तस्मान्नित्याच्छब्दात् स्फोटरूपादभिधायकात् क्रियाकारकफललक्षणं जगदभिधेयभूतं प्रभवतीति ।

भाष्यका अनुवाद

विपयरूपसे वह स्फोट झट प्रकट होता है । और यह एक प्रतीति वर्णविपयक स्मृति नहीं है, क्योंकि वर्ण अनेक होनेसे एक प्रतीतिके विपय नहीं हो सकते । प्रत्येक उच्चारणमें उसकी प्रत्यभिज्ञा होती है, अतः वह नित्य है, भेदप्रतीति तो वर्णोंसे संबन्ध रखती है । इसलिए स्फोटरूप नित्य वाचक शब्दसे क्रिया, कारक और फलरूप जगत् उत्पन्न होता है ।

रत्नप्रभा

तद्विपयतया स्पष्टम् अवभासते इत्यर्थः । अनेन वर्णान्वयव्यतिरेकयोः स्फोटज्ञानेऽन्यथासिद्धिः । न च एकंसाद् वर्णात् सम्यक् स्फोटाभिव्यक्तिः, येन वर्णान्तरवैयर्थ्यम्, किन्तु रत्नतत्त्ववत् बहुप्रत्ययसंस्कृते चित्ते सम्यक् स्फोटाभिव्यक्तिरित्युक्तं भवति । ननु एकं पदम्, एकं वाक्यमिति प्रत्ययः पदवाक्यस्फोटयोर्न प्रमाणम्, तस्य वर्णसमूहात्म्यनस्मृतित्वाद् इत्याशङ्क्य निषेधति—न चेति । स्फोटस्य जगद्धेतुत्वार्थं नित्यत्वमाह—तस्य चेति । ननु तदेवेदं पदमिति प्रत्यभिज्ञा भ्रमः, उदाचादिभेदप्रत्ययाद् इत्यत आह—भेदेति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

अत्यसंस्कार उत्पन्न हुआ है, उस चित्तमें 'गो' यह एक पद है' ऐसी प्रतीति जो प्रत्यक्ष है उसके विपयरूपसे स्फोट स्पष्ट भासता है, ऐसा अर्थ है । इससे—वर्णोंके अन्वयव्यतिरेक, स्फोटज्ञानमें उपयोग होनेसे, शब्दबोधमें अन्यथा सिद्ध है । तथा एक वर्णसे स्फोटकी सम्यक् अभिव्यक्ति नहीं होती जिससे कि द्वितीय आदि वर्ण व्यर्थ हो जाय, परन्तु रत्नके समान बहुत ज्ञान होनेसे संस्कृत चित्तमें सम्यक् स्फोटकी अभिव्यक्ति होती है,—ऐसा उक्त होना है । परन्तु एक पद और एक वाक्य, ऐसी प्रतीतियाँ पदस्फोट और वाक्यस्फोटकी साधक नहीं हैं, क्योंकि यह प्रतीति वर्णोंकी समूहात्म्यनात्मक स्मृति है, ऐसी भासाह्य करके निषेध करते हैं—“न च” इत्यादिसे । स्फोटको जगत्वा हेतु वर्णानेके लिए उक्तो नित्य कहने हैं—“तस्य च” इत्यादिसे । परन्तु 'यही एक पद है' ऐसी प्रत्यभिज्ञा भ्रम है, क्योंकि उदात्त आदि भेदकी प्रतीति होती है, हमपर कहते हैं—“भेद” इत्यादि ।

भाष्य

‘वर्णा एव तु शब्दः’ इति भगवानुपवर्षः, ननूपन्नप्रध्वंसित्वं वर्णानामुक्तम्, न, त एवेति प्रत्यभिज्ञानात् । सादृश्यात् प्रत्यभिज्ञानं केशादिष्वेति चेत्, न, प्रत्यभिज्ञानस्य प्रमाणान्तरेण बाधानुपपत्तेः । प्रत्यभिज्ञानमाकृतिनिमित्तमिति चेत्, न, व्यक्तिप्रत्यभिज्ञानात् । यदि

भाष्यका अनुवाद

भगवान् उपवर्ष कहते हैं कि वर्ण ही शब्द हैं । वर्णोंकी उत्पत्ति और विनाश होता है, यह जो पीछे कहा गया है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि वे ही वर्ण हैं, ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है । जैसे सादृश्यसे छिन्नप्ररूढ केश आदिमें प्रत्यभिज्ञा होती है, वैसे ही वर्णोंमें भी प्रत्यभिज्ञा होती है, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि यहां प्रत्यभिज्ञाका बाधक कोई प्रमाण नहीं है । प्रत्यभिज्ञाका कारण आकृति—जाति है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि व्यक्तिका प्रत्यभिज्ञान होता है ।

रत्नप्रभा

आचार्यसम्प्रदायोक्तिपूर्वकं सिद्धान्तयति—वर्णा एवेति । वर्णातिरिक्तस्फोटात्मकशब्दस्य अनुभवानारोहात् इत्यर्थः । सादृश्यदोषाद् इयं भ्रान्तिरिति शङ्कते—सादृश्यादिति । वपनानन्तरं त एव इमे केशा इति धीः भ्रान्तिरिति युक्तम्, भेदधीविरोधात् । स एवाऽयं वर्ण इति धीस्तु प्रमैव बाधकाभावाद् इत्याह—नेति । गोत्वादिप्रत्यभिज्ञावद् वर्णेषु प्रत्यभिज्ञा गत्वादिविषया इति शङ्कते—प्रत्यभिज्ञानमिति । व्यक्तिभेदे सिद्धे प्रत्यभिज्ञाया जातिविषयत्वं स्यात्, यत्त्वया पीतं जलं तदेव मया पीतमित्यादौ, न तथा इह व्यक्तिभेदः सिद्ध इति परिहरति—न व्यक्तीति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

आचार्यसंप्रदाय कहते हुए सिद्धान्त कहते हैं—“वर्णा एव” इत्यादिसे । तात्पर्य यह कि वर्णोंसे अन्य स्फोटात्मक शब्द अनुभवमें आरूढ नहीं होता । वही वर्ण है, ऐसी जो प्रत्यभिज्ञा होती है, वह सादृश्यदोषसे भ्रान्ति है, ऐसी शङ्का करते हैं—“सादृश्यात्” इत्यादिसे । हजामत करनेके पश्चात् वे ही ये केश हैं, ऐसी प्रतीति भ्रान्ति है, क्योंकि इस प्रत्यभिज्ञाका भेद प्रत्यक्ष बाधक है, ये केश वे ही नहीं हैं, किन्तु उनके सदृश हैं, इस प्रकार केशोंमें भेदप्रतीति स्पष्ट है, परन्तु ‘वही यह वर्ण है’ यह प्रतीति तो प्रमा ही है, क्योंकि इस ज्ञानका कोई बाधक नहीं है, ऐसा कहते हैं—“न” इत्यादिसे । जैसे गो की प्रत्यभिज्ञा गोत्वनिमित्तसे होती है, उसी प्रकार वर्णोंकी प्रत्यभिज्ञा गत्व आदि जातिके निमित्तसे होती है, ऐसी शङ्का करते हैं—“प्रत्यभिज्ञानम्” इत्यादिसे । व्यक्तिभेद सिद्ध होनेपर प्रत्यभिज्ञा जातिनिमित्तक हो सकती है, जैसे ‘जो तुमने जल पिया, वही मैंने पिया’ इत्यादिमें है, परन्तु यहां उस तरह व्यक्तिभेद सिद्ध नहीं है, इस प्रकार शङ्का परिहार करते हैं—“न व्यक्ति” इत्यादिसे ।

माप्य

हि प्रत्युच्चारणं गवादिव्यक्तिवदन्या अन्या वर्णव्यक्तयः प्रतीयेरन्, तत आकृतिनिमित्तं प्रत्यभिज्ञानं स्यात्; न त्वेतदस्ति; वर्णव्यक्तय एव हि प्रत्युच्चारणं प्रत्यभिज्ञायन्ते । द्विर्गोशब्द उच्चारित इति हि प्रतिपत्तिर्न तु द्वौ गोशब्दाविति । ननु वर्णा अप्युच्चारणभेदेन भिन्नाः प्रतीयन्ते, देवदत्तयज्ञदत्तयोरध्ययनध्वनिश्रवणादेव भेदप्रतीतेरित्युक्तम् । अत्राऽभिधीयते—सति वर्णविषये निश्चिते प्रत्यभिज्ञाने संयोगविभागाभिव्यङ्ग्यत्वाद् वर्णानामभिव्यञ्जकवैचित्र्यनिमित्तोऽयं वर्णविषयो विचित्रः प्रत्ययो न स्वरूपनिमित्तः । अपि च वर्णव्यक्तिभेदवादिनाऽपि प्रत्यभिज्ञान-

माप्यका अनुवाद

यदि प्रत्येक उच्चारणमें गो आदि व्यक्तिके समान अन्य-अन्य वर्णव्यक्तिकी प्रतीति हो, तो यह माना जा सकता है कि प्रत्यभिज्ञा जातिनिमित्तक है, परन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक उच्चारणमें वर्णव्यक्तिकी ही प्रत्यभिज्ञा होती है । दो बार 'गो' शब्दका उच्चारण किया, ऐसी प्रतीति होती है, न कि दो गोशब्दोंका उच्चारण किया । परन्तु उच्चारणभेदसे वर्ण भी भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं, क्योंकि देवदत्त और यज्ञदत्तकी अध्ययन ध्वनि सुननेसे उनका भेद प्रतीत होता है, ऐसा कहा गया है । इस पर कहते हैं—प्रत्यभिज्ञान वर्णसम्बन्धी है, यह निश्चित होनेपर प्रतीत होता है कि [तालु आदि स्थानोंके साथ कोष्ठस्थ वायुके] संयोग और विभागसे वर्णोंकी अभिव्यक्ति होनेके कारण वर्णोंमें जो वैलक्षण्यकी प्रतीति होती है, उसका निमित्त अभिव्यञ्जक—वायुके संयोग और विभागकी विचित्रता है, स्वरूपकी विचित्रता नहीं

रत्नप्रभा

न त्वेतदिति । व्यक्तयन्तत्त्वज्ञानम् इत्यर्थः । उदात्तत्वादिविरुद्धधर्मत्वाद् व्यक्तिभेदोऽनुमानसिद्ध इति अनुवदति—नन्विति । भेदप्रत्ययस्य कुम्भकृपाकाशभेदप्रत्ययवद् औपाधिकभेदविषयत्वाद् अन्यथासिद्धेः अनन्यथासिद्धव्यक्त्यैक्यप्रत्यभिज्ञया निरपेक्षस्वरूपालम्बनया बाध इत्युत्तरमाह—अत्रेति । तालुवादिदेशैः कोष्ठस्थवायुसंयोग-

रत्नप्रभाका अनुवाद

“न त्वेतत्” इत्यादि । ‘एतत्’—अन्यवर्णव्यक्तिका ज्ञान । वर्णमें उदात्तत्व आदि विरुद्ध धर्मके रहनेसे व्यक्तिभेद अनुमानसे मिट्ट है, पीछे कही गई इस शंकाका अनुवाद करते हैं—“ननु” इत्यादिसे । जैसे कुम्भकाश, कृपाकाश, यह प्रतीति उपाधिकभेदके कारण होती है, उसी प्रकार वर्णोंमें भेदप्रतीति उपाधिके कारण है, इससे वह अन्यथासिद्ध है, इसलिए एक ही व्यक्ति है, ऐसी जो प्रत्यभिज्ञा निरपेक्ष वर्णस्वरूपके

भाष्य

सिद्धये वर्णाकृतयः कल्पयितव्याः । तासु च परोपाधिको भेदप्रत्यय इत्यभ्युपगन्तव्यम्, तद्वरं वर्णव्यक्तिष्वेव परोपाधिको भेदप्रत्ययः, स्वरूपनिमित्तं च प्रत्यभिज्ञानमिति कल्पनालाघवम् । एष एव च वर्णविषयस्य भेदप्रत्ययस्य बाधकः प्रत्ययो यत्प्रत्यभिज्ञानम् । कथं हेकस्मिन् काले

भाष्यका अनुवाद

है । और वर्णव्यक्तियोंको भिन्न माननेवालेको भी प्रत्यभिज्ञाकी सिद्धिके लिए वर्णोंकी जातियोंकी कल्पना करनी पड़ेगी और उनमें भेदप्रतीति अन्य उपाधिसे होती है, ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा । इससे तो, यही मानना अच्छा है कि वर्णव्यक्तियोंमें ही अन्य उपाधिसे भेदप्रतीति होती है और प्रत्यभिज्ञा स्वरूपसे ही होती है, इसमें कल्पनालाघव भी है । वर्णोंकी प्रत्यभिज्ञा ही उनमें भेदप्रतीतिका बाध करनेवाला प्रत्यय है । एक ही कालमें बहुत लोगोंसे उच्चारित एक ही गकार

रत्नप्रभा

विभागाभ्यां विचित्राभ्यां व्यङ्ग्यत्वाद् वर्णेषु वैचित्र्यधीः इत्यर्थः । कल्पनागौरवाच्च वर्णेषु स्वतो भेदो नाऽस्तीत्याह—अपि चेति । अनन्ताः गकारादिव्यक्तयः, तासु प्रत्यभिज्ञानार्थं गत्वादिजातयः, तासु चोदात्तत्वादिभेदस्य औपाधिकत्वमिति कल्पनाद् वरं वर्णव्यक्तिभेदमात्रस्य औपाधिकत्वकल्पनमिति व्यक्तयानन्त्यस्य जातीनां च कल्पनम् अयुक्तमित्यर्थः । ननु भेदस्य बाधकाभावात् न औपाधिकत्वमित्यत आह—एष इति । अस्तु तर्हि प्रत्ययद्वयप्रामाण्याय भेदाभेदयोः सत्यत्वं तत्राऽऽह—कथं हीति । उभयोरेकत्र विरोधाद् भेद औपाधिक एव इत्यर्थः । ननु वायुसंयोगादेः

रत्नप्रभाका अनुवाद

आंलम्बनसे होती है और जो अन्यथासिद्ध नहीं है, उस प्रत्यभिज्ञासे भेदप्रतीतिका बाध होता है, इस प्रकार शंकाका उत्तर कहते हैं—“अत्र” इत्यादिसे । आशय यह कि ताल आदि देशोंके साथ नाभिमें स्थित वायुके विलक्षण संयोग और विभागोंसे वर्ण व्यंग्य होते हैं, इसलिए वायुमें स्थित उदात्तत्व आदि विचित्रताकी उनमें प्रतीति होती है । और कल्पनामें गौरव होनेके कारण भी वर्णमें स्वतः भेद नहीं है, ऐसा कहते हैं—“अपि च” इत्यादिसे । अनन्त गकार आदि व्यक्तियों हैं, उनमें प्रत्यभिज्ञाके लिए गत्व आदि जातियाँ हैं और उनमें उदात्तत्व आदि भेद औपाधिक हैं, ऐसी गुरु कल्पनाकी अपेक्षा केवल वर्णव्यक्तिका भेद औपाधिक है, यह लघु कल्पना ही अधिक उपयुक्त है, अनन्त व्यक्तियों और जातियोंकी कल्पना करना ठीक नहीं है, ऐसा अर्थ है । यदि कोई शंका करे कि बाधक कोई न होनेके कारण भेदको औपाधिक मानना आवश्यक नहीं है, इसका समाधान कहते हैं—“एष” इत्यादिसे । तब दोनों प्रतीतियोंके प्रामाण्यके लिए भेद और

भाष्य

बहूनामुच्चारयतामेक एव सन् गकारो युगपदनेकरूपः स्यात्—उदात्त-
श्चाऽनुदात्तश्च स्वरितश्च सानुनासिकश्च निरनुनासिकश्च इति । अथवा
ध्वनिकृतोऽयं भेदप्रत्ययो न वर्णकृत इत्यदोषः । कः पुनरयं ध्वनिर्नाम ?
यो दूरादाकर्णयतो वर्णविवेकमप्रतिपद्यमानस्य कर्णपथमवतरति, प्रत्या-
सीदतश्च पटुमृदुत्वादिभेदं वर्णेष्व्वासञ्जयति । तन्निवन्धनाश्वोदात्तादयो
विशेषा न वर्णस्वरूपनिर्वन्धनाः । वर्णानां प्रत्युच्चारणं प्रत्यभिज्ञायमान-

भाष्यका अनुवाद

एक ही समयमें उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, सानुनासिक और निरनुनासिक भेदसे
अनेकरूप किस प्रकार हो सकेगा । अथवा यह भेदप्रतीति ध्वनिके भेदसे होती
है, वर्णके भेदसे नहीं होती, इसलिए दोष नहीं है । ध्वनि किसको कहते हैं ?
दूरसे सुननेके कारण वर्णभेदको नहीं समझनेवालेके कानमें जो प्रविष्ट होती है
और पाससे सुननेवालेके लिए पटुत्व, मृदुत्व आदि भेदोंका वर्णोंमें आरोप
करती है, वह ध्वनि है । उससे उदात्त आदि विशेष उत्पन्न होते हैं, वर्णस्वरूपसे

रत्नप्रभा

अतीन्द्रियत्वान्न तद्गतवैचित्र्यस्य उदात्तत्वादे वर्णेषु प्रत्यक्षारोपः सम्भवति
इति अरुचि वदिष्यन् स्वमतमाह—अथवेति । ध्वनिधर्मा उदात्तत्वादयो
ध्वन्यभेदाध्यासाद् वर्णेषु भान्ति इत्यर्थः । प्रश्नपूर्वकं ध्वनिस्वरूपमाह—
क इति । अवतरति स ध्वनिरिति शेषः । वर्णातिरिक्तः शब्दः ध्वनि-
रित्यर्थः । समीपं गतस्य पुंसः तारत्वमन्दत्वादिधर्मान् स्वगतान् वर्णेषु स एव
आरोपयतीत्याह—प्रत्यासीदतश्चेति । आदिपदं विवृणोति—तदिति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

“कथं हि” इत्यादि । अर्थात् भेद और अभेद दोनों एक जगह नहीं रह सकते, अतः
भेद औपाधिक ही है । यदि कोई कहे कि वायुगम्योग आदि अतीन्द्रिय हैं, अतः उनमें
रहनेवाले उदात्तत्व आदिका जो वैचित्र्य है, उमका वर्णोंमें प्रत्यक्ष आरोप संभव नहीं है, ऐसी
अरुचि भाष्यकार कहेंगे, उर्ध्वके अनुसार अपना मत कहते हैं—“अथवा” इत्यादिसे । अर्थात्
ध्वनिका वर्णमें अभेदाध्यासा होनेसे उदात्तत्व आदि ध्वनिके धर्म वर्णोंमें प्रतीत होते हैं ।
प्रश्नपूर्वक ध्वनिका स्वरूप कहते हैं—“क” इत्यादिसे । ‘अवतरति’के याद ‘स ध्वनि’
(वह ध्वनि है) इतना शेष समझना चाहिए । वर्णसे भिन्न सन्दर्भ ध्वनि है, ऐसा अर्थ है ।
समीपस्थ पुरुषके वर्णगोचर ध्वनि तारत्व, मन्दत्व आदि अपने धर्मोंका अपने आप वर्णोंमें
आरोप करती है, ऐसा कहने दें—“प्रत्यागादतश्च” इत्यादिभे । ‘पटुमृदुत्वादि’ के ‘आदि’

भाष्य

त्वात् । एवं च मति सालम्बना एवैत उदात्तादिप्रत्यया भविष्यन्ति, इतरथा हि वर्णानां प्रत्यभिज्ञायमानानां निर्भेदत्वात् संयोगविभागकृता उदात्तादिविशेषाः कल्पेरन् । संयोगविभागानां चाऽप्रत्यक्षत्वान्न तदाश्रया विशेषा वर्णेष्वध्यवसितुं शक्यन्त इत्यतो निरालम्बना एवैत उदात्तादिप्रत्ययाः स्युः । अपि च नैवैतदमिनिवेष्टव्यम्—उदात्तादिभेदेन वर्णानां

भाष्यका अनुवाद

उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि वर्णोंका प्रत्येक उच्चारणमें प्रत्यभिज्ञान होता है । ऐसा होनेसे उदात्त आदि प्रतीतियाँ आलम्बनसहित होंगी । अन्यथा वर्णोंकी प्रत्यभिज्ञा होनेके कारण उनमें भेद न होनेसे उदात्त आदि विशेष—भेद संयोग और विभागसे होते हैं, ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी । संयोग और विभाग अप्रत्यक्ष हैं, अतः वर्णोंमें उनके भेदका आरोप नहीं किया जा सकता, इससे यह उदात्त आदि प्रतीति निराधार ही हो जायगी । और वर्णोंकी 'वही यह गकार है' ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है, इससे

रत्नप्रभा

ननु अव्यक्तवर्ण एव ध्वनिः न अतिरिक्त इत्यत आह—वर्णानामिति । प्रत्युच्चारणं वर्णा अनुवर्तन्ते ध्वनिर्व्यावर्तते इति भेद इत्यर्थः । अन्यथा वाचिकेषु जप्यवर्णेषु अव्यक्तेषु ध्वनिबुद्धिः स्याद्, दुन्दुभ्यादिध्वनौ शब्दत्वमात्रेण गृह्यमाणे अयमव्यक्तो वर्ण इति धीः स्यादिति मन्तव्यम् । एव ध्वन्युपाधिकत्वे स्वमते गुणं वदन् वायुपाधिकत्वे पूर्वोक्ताम् अरुचिं दर्शयति—एवं चेत्यादिना । अस्तु को दोषः, तत्राऽऽह—संयोगेति । वायुसंयोगादेः अश्रावणत्वात् इत्यर्थः । तस्मात् श्रावणध्वनिरेव उदात्तत्वाद्यारोपोपाधिरिति भावः । एवं विरुद्धधर्मकध्वनीनां भेदेऽपि

रत्नप्रभाका अनुवाद

पदका विवरण करते हैं—“तद्” इत्यादिसे । यदि कोई कहे कि अव्यक्त वर्ण ही ध्वनि है, उससे भिन्न नहीं है, इसपर कहते हैं—“वर्णानाम्” इत्यादि । अर्थात् प्रत्येक उच्चारणमें वर्णोंकी अनुश्रुति होती है और ध्वनिकी अनुश्रुति नहीं होती, इससे ध्वनि और वर्णमें भेद है । यदि ऐसा न हो तो अवचिक्र जपमें जो अव्यक्त वर्ण हैं, उनमें ध्वनिबुद्धि हो जायगी और दुन्दुभि आदिकी ध्वनि जो केवल शब्दरूपसे सुनी जाती है उसमें 'यह अव्यक्त वर्ण है' ऐसी बुद्धि हो जायगी । इस प्रकार ध्वनिको उपाधि माननेपर स्वमतमें लाम कहते हुए भाष्यकार वायुका उपाधि माननेमें पूर्वोक्त अरुचि दिखलाते हैं—“एव च” इत्यादिसे । भले ऐसा हो, उसमें दोष क्या है, इसपर कहते हैं—“संयोग” इत्यादि । [अप्रत्यक्षत्वात्] अर्थात् वायु संयोग आदिके ध्वनगोचर न होनेके कारण । इसलिए ध्वनगोचर ध्वनि ही वर्णोंमें उदात्तत्व आदिके आरोपमें

भाष्य

प्रत्यभिज्ञायमानानां भेदो भवेत् इति । नह्यन्यस्य भेदेनाऽन्यस्याऽभिद्यमानस्य भेदो भवितुमर्हति । नहि व्यक्तिभेदेन जातिं भिन्नां मन्यन्ते । वर्णभ्य-
श्चाऽर्थप्रतीतेः सम्भवात् स्फोटकल्पनाऽनर्थिका । न कल्पयाम्यहं स्फोटं
प्रत्यक्षमेव त्वेनमवगच्छामि, एकैकवर्णग्रहणाहितसंस्कारायां बुद्धौ झटिति

भाष्यका अनुवाद

उदात्त आदि भेदोंसे उनका भेद होगा, ऐसा आप्रह करना ठीक नहीं है, क्योंकि एकके भेदसे दूसरे अभिन्न पदार्थका भेद नहीं हो सकता । व्यक्तिके भेदसे जाति भिन्न है, ऐसा कोई भी नहीं मानता । और वर्णोंसे अर्थप्रतीतिका संभव होनेसे स्फोटकी कल्पना व्यर्थ है । मैं स्फोटकी कल्पना नहीं करता, किन्तु उसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, क्योंकि एक-एक वर्णके ग्रहणसे जिसमें संस्कार हुआ है,

रत्नप्रभा

न तेषु अनुगता वर्णा भिद्यन्ते इति उक्तम्, तदेव दृष्टान्तेन द्रढयति—अपि चेति । यथा खण्डमुण्डादिविरुद्धानेकव्यक्तियु अभिन्नं गोत्वम्, तथा ध्वनियु वर्णा अभिन्ना एव इत्यर्थः । उदात्तादिध्वनिः, तद्भेदेन हेतुना वर्णानामपि इति योजना । प्रत्यभिज्ञाविरोधादिति अक्षरार्थः । यद्वा, उदात्तत्वादिभेदविशिष्टतया प्रत्यभिज्ञायमानत्वाद् वर्णानां भेद इत्याशङ्कां दृष्टान्तेन निरस्यति—अपि चेति । वर्णानां स्थायित्वं प्रसाध्य तेषामेव वाचकत्वं वक्तुं स्फोटं विघटयति—वर्णभ्यथेति । कल्पनामसहमान आशङ्कते—नेति । चक्षुषा दर्पणयुक्तायां बुद्धौ मुखवत् श्रोत्रेण वर्णयुक्तायां बुद्धौ विनैव हेत्वन्तरं स्फोटः प्रत्यक्ष इत्याह—झटितीति । यस्यां

रत्नप्रभाका अनुवाद

कारण है यह तात्पर्य है । इस प्रकार विरुद्ध धर्मवाली ध्वनिके भिन्न होनेपर भी उसमें अनुगत वर्ण भिन्न नहीं होते, ऐसा जो पीछे कहा गया है, उसीको दृष्टान्तसे दृढ़ करते हैं—“अपि च” इत्यादिये । जैसे खण्ड-मुण्ड आदि विरुद्ध-परस्पर भिन्न अनेक गोव्यक्तियोंमें गोत्व अभिन्न है, वैसे ध्वनिमें वर्ण अभिन्न ही हैं, ऐसा अर्थ है । उदात्त आदि—ध्वनि । ध्वनिभेदरूप कारणसे वर्णोंका भी भेद हो, ऐसी योजना करनी चादिप । अथवा उदात्तत्व आदि भेदोंसे विशिष्ट-रूपसे ज्ञात होनेके कारण वर्ण भिन्न हैं, इस आशङ्काका दृष्टान्तपूर्वक निरसन करते हैं—“अपि च” इत्यादिये । प्रत्यभिज्ञानसे वर्णोंका नित्यत्व सिद्ध करके उनको ही वाचक कहनेके लिए स्फोटका निराकरण करते हैं—“वर्णभ्यथ” इत्यादिये । कल्पनाको न सहता हुआ यादी आशङ्का करता है—“न” इत्यादिये । जैसे नेत्र द्वारा दर्पणयुक्त बुद्धिमें मुखका प्रत्यक्ष होना है, वैसे ही श्रोत्र द्वारा वर्णयुक्त बुद्धिमें अन्य हेतुके बिना ही स्फोटका प्रत्यक्ष होता है, ऐसा कहता है—“झटिति” इत्यादिने । जिम ज्ञानमें जो अर्थ भागता है, वह ज्ञान उगमें

भाष्य

प्रत्यवभासनादिति चेत्, न; अस्या अपि बुद्धेर्वर्णविषयत्वात् । एकैक-
वर्णग्रहणोत्तरकाला हीयमेका बुद्धिर्गौरिति समस्तवर्णविषया, नाऽर्थान्तर-
विषया । कथमेतदवगम्यते ? यतोऽस्यामपि बुद्धौ, गकारादयो वर्णा
अनुवर्तन्ते, न तु दकारादयः । यदि ह्यस्या बुद्धेर्गकारादिभ्योऽर्थान्तरं
स्फोटो विषयः स्यात् ततो दकारादय इव गकारादयोऽप्यस्या बुद्धेर्व्याव-
र्तेन्, न तु तथाऽस्ति । तस्मादियमेकबुद्धिर्वर्णविषयैव स्मृतिः । नन्वने-
कत्वात् वर्णानां नैकबुद्धिविषयतोपपद्यत इत्युक्तम्, तत्प्रतिब्रूमः—सम्भव-

भाष्यका अनुवाद

उस बुद्धिमें स्फोटका जल्दी प्रत्यवभास होता है, ऐसा यदि कहो, तो यह कथन ठीक
नहीं है, क्योंकि यह बुद्धि भी वर्णविषयक है । एक-एक वर्णका ग्रहण होनेके
अनन्तर 'गौः' (गाय) यह जो एक बुद्धि होती है, वह समस्त वर्णविषयक है,
अर्थान्तरविषयक नहीं है । यह कैसे समझा जाय ? इससे कि इस बुद्धिमें भी
गकार आदि वर्णोंकी अनुवृत्ति होती है, दकार आदिकी नहीं । यदि दकार
आदिसे अन्य स्फोटरूप अर्थ इस बुद्धिका विषय हो, तो उस बुद्धिसे
दकार आदिके समान गकार आदि भी हट जायेंगे, परन्तु ऐसा नहीं है,
इसलिए यह एक बुद्धि वर्णविषयक ही स्मृति है । परन्तु वर्णोंके अनेक होनेसे
वे एक बुद्धिके विषय हों, यह युक्त नहीं है, ऐसा कहा है । उसका निराकरण

रत्नप्रभा

संविदि योऽर्थो भासते सा तत्र प्रमाणम् । एकं पदमिति बुद्धौ वर्णा एव स्फुरन्ति,
न अतिरिक्तस्फोटः इति न सा स्फोटे प्रमाणमित्याह—नाऽस्या अपीत्यादिना ।
ननु गोपदबुद्धेः स्फोटो विषयः, गकारादीनां तु व्यञ्जकत्वाद् अनुवृत्तिरित्यत आह—
यदि हीति । व्यङ्ग्यबहिर्बुद्धौ व्यञ्जकधूमानुवृत्तेः अदर्शनाद् इत्यर्थः । वर्णसमूहा-
लम्बनत्वोपपत्तेर्न स्फोटः कल्पनीयः पदार्थान्तरकल्पनागौरवादित्याह—तस्मादिति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

प्रमाण है, 'एक पद है' ऐसी बुद्धिमें वर्ण ही भासित होते हैं, उनसे अतिरिक्त स्फोटका भास
नहीं होता, इसलिए स्फोटमें वह बुद्धि प्रमाण नहीं है, ऐसा [उत्तर] कहते हैं—'नास्या अपि'
इत्यादिसे । यदि कोई कहे कि 'गोपद' इस बुद्धिका स्फोट विषय है, गकार आदि तो व्यञ्जक
होनेसे अनुवृत्त होते हैं, इसपर कहते हैं—'यदि हि' इत्यादि । जैसे कि व्यङ्ग्य बहि-
बुद्धिमें व्यञ्जक धूमकी अनुवृत्ति देखनेमें नहीं आती, ऐसा समझना चाहिए । वर्णोंका समूहा-
लम्बन उपपन्न है, इससे स्फोटकी कल्पना करना ठीक नहीं है, क्योंकि अन्य पदार्थोंकी

भाष्य

त्यनेकस्याप्येकबुद्धिविषयत्वम्, पङ्क्तिर्वनं सेना दश शतं सहस्रमित्यादि-
दर्शनात् । या तु गौरित्येकोऽयं शब्द इति बुद्धिः, सा बहुष्वेव वर्णेष्वे-
कार्थावच्छेदनिबन्धनौपचारिकी वनसेनादिवुद्धिवदेव । अत्राऽऽह—यदि

भाष्यका अनुवाद

करते हैं—अनेक भी एक बुद्धिके विषय होते हैं, क्योंकि पंक्ति, वन, सेना,
दश, शत, सहस्र इत्यादिमें स्पष्टतया अनेक एक बुद्धिके विषय दिखाई देते हैं। 'गौ.'
यह एक शब्द है, ऐसी जो बुद्धि है, वह वन, सेना आदि बुद्धिके समान बहुत
वर्णोंमें एकार्थबोधकत्वरूप कारणसे गौणतया प्रयुक्त होती है। यहाँ कहते हैं—

रत्नप्रभा

अनेकस्याऽपि औपाधिकम् एकत्व युक्तमित्याह—सम्भवतीति । ननु तत्र एकदेशादिः
उपाधिरस्ति प्रकृते क उपाधिरित्यत आह—या त्विति । एकार्थे शक्तमेकं पदम्,
प्रधानार्थे एकस्मिन् तात्पर्यवदेकं वाक्यमित्येकार्थसम्बन्धादेकत्वोपचार इत्यर्थः ।
न च एकपदत्वे ज्ञाते एकार्थज्ञानम्, अस्मिन् ज्ञाते तत् इत्यन्योन्याश्रय इति वाच्यम् ।
उत्तमवृद्धोक्ताना वर्णाना क्रमेण अन्त्यवर्णश्रवणानन्तरं बालस्य एकमृत्यारूढानां
मध्यमवृद्धस्य प्रवृत्त्यादिलिङ्गानुमितैकार्थधीहेतुत्वनिश्चये सति ऐकपदवाक्यत्वनिश्च-
यात् । वर्णसाम्येऽपि पदभेददृष्टेर्वर्णातिरिक्त पद स्फोटारूपमङ्गीकार्यमिति शङ्कते—

रत्नप्रभाका अनुवाद

फलपनामें गौरव होता है, ऐसा कहते हैं—“तस्माद्” इत्यादिमें। बहुतांका भी औपाधिक
एकरव हो सकता है, ऐसा कहते हैं—“सम्भवति” इत्यादिमें। यदि कोई कहे कि दृष्टान्तमें
एकदेश उपाधि है, प्रकृतमें कौन उपाधि है। इसपर कहते हैं—“या तु” इत्यादि। जिसका
एक अर्थमें शक्ति हो, वह एक पद है अर्थात् अभिधावृत्तिसे जो एक अर्थ का वाचक हो, वह
एक पद है, एक प्रधान अर्थमें जिसका तात्पर्य हो, वह एक वाक्य है, इस प्रकार अनेकका
एक अर्थके साथ सम्बन्ध होनेसे अनेकमें एकका उपचार समझना चाहिए। कोई शङ्का करे
कि एक पदका ज्ञान होनेपर एक अर्थका ज्ञान होता है और एक अर्थका ज्ञान होनेसे
एक पदका ज्ञान होता है, इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष आता है, यह दादा
युक्त नहीं है, क्योंकि उत्तम वृद्धसे उच्चारित वर्णोंमें मन्मते अन्त्यवर्ण सुननेके
बाद बालककी एक स्मृतिमें सब वर्ण आरूढ हो जाते हैं और मध्यम वृद्धकी
प्रवृत्तिको देखकर जगते अनुमान करके बालक से वर्ण अर्थके ज्ञानके हेतु हैं, ऐसा
निश्चय करता है, अतः एक पद तथा एक वाक्यका निश्चय होता है। परन्तु वर्णोंके समान
होनेपर भी पदका भेद दिखाई देता है, इसलिये वर्णोंमें अतिरिक्त पदरूप स्फोटका स्वरूप

भाष्य

वर्णा एव सामस्त्येनैकबुद्धिविषयतामापद्यमानाः पदं स्युः, ततो जारा राजा कपिः पिक इत्यादिषु पदविशेषप्रतिपत्तिर्न स्यात्, त एव हि वर्णा इतरत्र चेतत्र च प्रत्यवमासन्त इति । अत्र वदामः—सत्यपि समस्तवर्णप्रत्यवमर्शे यथा क्रमानुरोधिन्य एव पिपीलिकाः पद्भक्तिबुद्धिमारोहन्ति, एवं क्रमानुरोधिन एव वर्णाः पदबुद्धिमारोक्ष्यन्ति तत्र वर्णानामविशेषेऽपि क्रमविशेषकृता पदविशेषप्रतिपत्तिर्न विरुध्यते । वृद्धव्यवहारे चेमे वर्णाः क्रमाद्यनुगृहीता गृहीतार्थविशेषसम्बन्धाः सन्तः स्वव्यवहारेऽप्येकैकवर्ण-

भाष्यका अनुवाद

यदि वर्ण ही सब मिलकर, एक बुद्धिके विषय होकर पद होते हों, तो जारा, राजा, कपि, पिक इत्यादिमें भिन्न पदकी प्रतीति न होनी चाहिये । क्योंकि वन्हीं वर्णोंका दोनों स्थलों पर अवभास होता है । इसपर कहते हैं—यद्यपि शब्दमें सब वर्णोंका भान होता है, तो मी जैसे क्रमके अनुसार ही चींटियोंमें पंक्तिकी प्रतीति होती है, वैसे क्रमिक वर्णोंमें ही पदबुद्धि होती है । इस प्रकार वर्णोंमें यद्यपि भेद नहीं है, तो मी भिन्न-भिन्न क्रमसे भिन्न-भिन्न पदकी प्रतीति होती है, अतः कोई विरोध नहीं है । क्रम आदिके अनुसार ग्रहण किये हुए उन वर्णोंका वृद्ध व्यवहारमें भिन्न-भिन्न अर्थोंके साथ संबन्ध ग्रहण किया जाता है, इसलिए अपने व्यवहारमें भी एक-एक वर्णका ग्रहण होने

रत्नप्रभा

अत्राहेति । क्रमभेदाद् वर्णेष्वेव पदभेददृष्टिरिति परिहरति—अत्रेति । ननु नित्यविमूनां वर्णानां कथं क्रमः ? कथं वा पदत्वज्ञानेन अर्थधीहेतुत्वं तत्राऽऽह—
वृद्धेति । व्युत्पत्तिदशायां - उच्चारणक्रमेण उपलब्धिक्रममुपलभ्यमानवर्णेषु
आरोप्य एते वर्णा एतत्क्रमैतत्संख्यावन्त एतदर्थशक्ता इति गृहीताः सन्तः श्रोतुः
प्रवृत्तिकाले तथैव स्मृत्यारूढाः स्वस्वार्थं बोधयन्ति इत्यर्थः । स्थायिवर्ण-

रत्नप्रभाका अनुवाद

करना चाहिए, ऐसी शक्ता करते हैं—“अत्र” इत्यादिसे । परन्तु नित्य और विभु वर्णोंका क्रम कैसे हो सकता ? और वर्णोंमें पदत्वज्ञान होनेसे वे अर्थ ज्ञानके प्रति कारण किस प्रकार हो सकते हैं ? इसपर कहते हैं—“वृद्ध” इत्यादिसे । व्युत्पत्तिदशामें बालक वृद्धव्यवहारको देखकर, उच्चारण-क्रमसे, उपलब्धि-क्रमका वर्णोंमें आरोप करके ये वर्ण जब इस क्रममें और इतने ही हों, तब इस अर्थके वाचक हो सकते हैं, ऐसा समझता है और इन प्रकार समझे हुए वर्ण धोताके प्रवृत्तिकालमें और उगी प्रकार स्मृतिमें प्रविष्ट होकर अपने-अपने अर्थका बोध

भाष्य

ग्रहणानन्तरं समस्तप्रत्ययमर्शिन्यां बुद्धौ तादृशा एव प्रत्ययभासमानास्तं
तमर्थमव्यभिचारेण प्रत्याययिष्यन्तीति वर्णवादिनो लघ्वीयसी कल्पना ।
स्फोटवादिनस्तु दृष्टहानिरदृष्टकल्पना च । वर्णाश्वमे क्रमेण गृह्यमाणाः
स्फोटं व्यञ्जयन्ति, स स्फोटोऽर्थं व्यनक्तीति गरीयसी कल्पना स्यात् ।
अथाऽपि नाम प्रत्युच्चारणमन्येऽन्ये वर्णाः स्युः, तथापि प्रत्यभिज्ञालम्बन-
भावेन वर्णसामान्यानामवश्याभ्युपगन्तव्यत्वाद् या वर्णेष्वर्थप्रतिपादन-
प्रक्रिया रचिता, सा सामान्येषु संचारयितव्या । ततश्च नित्येभ्यः
शब्देभ्यो देवादिव्यक्तीनां प्रभव इत्यविरुद्धम् ॥ २८ ॥

भाष्यका अनुवाद

पर समस्तका अवमर्श करनेवाली बुद्धिमें जैसे ही भासते हुए भिन्न-भिन्न
अर्थोंका ठीक-ठीक उसी प्रकार ज्ञान कराते हैं, वर्णवादीकी इस कल्पनामें
बड़ा लाघव है । स्फोटवादीके मतमें तो दृष्ट हानि और अदृष्ट कल्पना होगी ।
क्रमसे गृहीत ये वर्ण स्फोटकी अभिव्यक्ति करते हैं, और स्फोट अर्थको व्यक्त
करता है, इस कल्पनामें बड़ा गौरव है । यदि प्रत्येक उच्चारणमें वर्ण अन्य-
अन्य होते हैं, ऐसा स्वीकार करें, तो भी प्रत्यभिज्ञाके आधार पर वर्णगत जाति
अवश्य माननी पड़ेगी, इससे वर्णोंमें अर्थप्रतिपादन करनेकी जो प्रक्रिया बनाई
गई है, वही वर्णसामान्यमें लेनी पड़ेगी । इससे यह सिद्ध हुआ कि नित्य शब्दोंसे
देवता आदि व्यक्तियोंकी उत्पत्ति होती है, अतः कोई विरोध नहीं है ॥२८॥

रत्नप्रभा

वादम् उपसंहरति—वर्णैति । दृष्टम्—वर्णानाम् अर्थबोधकत्वम्, अदृष्टम्—स्फोटः ।
सम्प्रति वर्णानाम् अस्तिरत्वम् अस्तीकृत्य प्रौढिवादेन स्फोटं विघटयति—अथा-
पीति । स्थिराणि गत्वादिसामान्यानि क्रमविशेषवन्ति गृहीतसङ्गतिकानि अर्थबोध-
कानीति क्लृप्तेषु सामान्येषु प्रक्रिया सञ्चारयितव्या न त्वक्लृप्तः स्फोटः कल्पनीय
इत्यर्थः । वर्णानां स्थायित्ववाचकत्वयोः सिद्धौ फलितमाह—ततश्चेति ॥२८ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

करते हैं, ऐसा अर्थ है । वर्ण नित्य है इस सिद्धान्तका उपसंहर करते हैं—“वर्ण” इत्यादिमें ।
दृष्ट—वर्णोंका अर्थबोधकत्व, अदृष्ट—स्फोट । प्रथम वर्णोंका नित्यता स्वीकार करके स्फोटका
निराकरण किया गया है, अब वर्णोंका अनिरयत्व स्वीकार करके तर्कमें स्फोटका निराकरण
करते हैं—“अथापि” इत्यादिसे । गत्व आदि जातियों निरय हैं, क्रमविशेषमें प्रयुक्त उनमें
संगतिका ग्रहण होनेपर वे अर्थबोध कराती हैं, इसलिए क्लृप्त—प्रसिद्ध सामान्यमें ही उक्त
प्रक्रियाका संचार करना चाहिए, अस्मिन् स्फोटकी कल्पना नहीं करनी चाहिए, ऐसा अर्थ है ।
वर्णोंकी नित्यता और पाचकताके सिद्ध होनेपर पक्षित कहते हैं—“ततश्च” इत्यादिमें ॥ २८ ॥

अत एव च नित्यत्वम् ॥ २९ ॥

पदच्छेद—अतः, एव, च, नित्यत्वम् ।

पदार्थोक्ति—अत एव च—देवादेर्जगतो वेदशब्दप्रभवत्वादेव, नित्यत्वम्—अजन्यत्वम् [वेदस्य प्रत्येतव्यम्] ।

भाषार्थ—देवता आदि सत्र जगत् वेदशब्दोंसे उत्पन्न होता है, इसीसे वेद नित्य है, ऐसा समझना चाहिए ।

—०००—

भाष्य

कर्तुरस्मणादिभिः स्थिते वेदस्य नित्यत्वे देवादिव्यक्तिप्रभवाभ्युपगमेन तस्य विरोधमाशङ्क्य 'अतः प्रभवात्' इति परिहृत्येदानीं तदेव वेदनित्यत्वं स्थितं द्रढयति—अत एव च नित्यत्वमिति । अत एव नियताकृतेर्देवादेर्जगतो वेदशब्दप्रभवत्वाद् वेदशब्दनित्यत्वमपि प्रत्येतव्यम् ।

भाष्यका अनुवाद

कर्ताका स्मरण आदि न होनेसे वेदकी नित्यता सिद्ध होनेपर देवता आदि व्यक्तियोंकी उत्पत्ति माननेसे उक्त वेदकी नित्यता नहीं बन सकेगी, इस आशङ्काका 'अतः प्रभवात्' से परिहार करके अब पूर्वसिद्ध उसी वेदनित्यताको दृढ करते हैं—'अत एव च नित्यत्वम्' से । इसीसे—नियत आकृतिवाले देव आदि जगत्की वेदशब्दसे उत्पत्ति होनेके कारण वेदशब्दमें नित्यता समझनी

रत्नप्रभा

पूर्वतन्त्रवृत्तानुवादपूर्वकं सूत्र व्याचष्टे—कर्तुरित्यादिना । पूर्वतन्त्रसिद्धमेव वेदस्य नित्यत्वम्, देवादिव्यक्तिसृष्टौ तद्वाचकशब्दस्याऽपि सृष्टेरसिद्धमित्याशङ्क्य नित्याकृतिवाचकात् शब्दाद् व्यक्तिजन्योक्त्या सांकेतिकत्वं निरस्य वेदः अघान्तरमलयावस्थायी, जगद्धेतुत्वात्, ईश्वरवदित्यनुमानेन द्रढयति इत्यर्थः । यज्ञेन—

रत्नप्रभाका अनुवाद

पूर्वमीमांसाम कथित विषयका अनुवाद करते हुए सूत्रका व्याख्यान करते हैं—'कर्तु' इत्यादिसे । आशय यह कि पूर्व मीमांसामें वेदका नित्यत्व सिद्ध किया गया है, किन्तु देवता आदि व्यक्तियोंकी सृष्टि होनेपर उनके वाचक शब्दोंकी भी सृष्टि माननी पड़ेगी, अत उक्त वेदका नित्यत्व असिद्ध हो जायगा, ऐसी शंका कर नित्य जातिके वाचक शब्दसे व्यक्तिकी उत्पत्ति कहा गई है, अत वैदिकशब्द सांकेतिक नहीं है, इस प्रकार उस शंकाका निराकरण करके 'वेद अघान्तर प्रलयमें रहता है, जगत्का कारण होनेसे, ईश्वरके समान' इस अनुमानसे वेदके नित्यत्वको दृढ करते हैं । यज्ञ अर्थात् पूर्वपुण्यसे,

भाष्य

तथा च मन्त्रवर्णः—'यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दन्नृपिषु प्रविष्टाम्' (ऋ० सं० १०।७।३) इति स्थितामेव वाचमनुविन्नां दर्शयति । वेदव्यासश्चैवमेव स्मरति—

'युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः ।

लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयंभुवा ॥' इति ॥ २९ ॥

भाष्यका अनुवाद

चाहिर्पै । उसी प्रकार 'यज्ञेन वाचः पदवीयं' (याज्ञिकोंने पहले यज्ञद्वारा वेदको ग्रहण करनेकी योग्यता प्राप्त की, पश्चात् ऋषियोंमें विद्यमान उस वेदरूप वाणीको पाया) यह मंत्र भी पूर्वसिद्ध वेदरूप वाणीकी प्राप्ति दिखलाता है । और श्री वेदव्यास भी ऐसा ही कहते हैं—'युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान्' (प्राचीन कालमें महर्षियोंने ब्रह्माकी अनुज्ञा पाकर युगके अन्तमें गुप्त हुए इतिहाससहित वेदोंको तपसे प्राप्त किया) ॥ २९ ॥

रत्नप्रभा

पूर्वसृष्टेन, वाचः—वेदस्य, लाभयोग्यतां प्राप्ताः सन्तो याज्ञिकाः ताम् ऋषिषु स्थितां लब्धवन्त इति मन्त्रार्थः । अनुविन्नाम्—उपलब्धाम् । पूर्वम्—अवान्तर-कल्पादौ ॥ २९ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

वाचः—वेदका, ग्रहणयोग्यताको प्राप्त हुए याज्ञिकोंने ऋषियोंमें विद्यमान उरा वाणीको प्राप्त किया, ऐसा धृतिका अर्थ है । अनुविन्न—उपलब्ध । पूर्वमें—अवान्तर कल्पके आदिमें ॥ २९ ॥

(२) 'अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम्' इत्यादि धृतिके पद्योंलोचनसे आकाश आदिके समान वेदको परमेस्वरसदृश माननेपर भी वेद नित्यत्वमें कोई दोष नहीं होता । जैसे अध्यापक, अध्याता इत्यादि व्यवहारकालमें वेदकी स्मृतिके अनकसंस्कारवाले पुरष रहते हैं, इसी प्रकार प्रलयकालमें भी उत्तरकल्पमें वेदका स्मरण होनेके लिए तदनुकूल संस्कारवाले पुरषको सच्चा माननेसे वेदनिरवश्य सिद्ध होता है । सृष्टिके आरम्भमें वेदवाक्यके स्मरणके बिना पूर्वकल्पीय पदार्थोंके अनुमन्धानसे होनेवाली वर्तमान कल्पकी सृष्टि हो ही नहीं सकती, अतः पूर्वकल्पमें अनुभूत वेदका स्मरण अत्रय मानना चाहिए । यह स्मरण प्रलयकालमें प्रकृपगत सूक्ष्म संस्कार माननेसे ही उपपन्न होता है, अन्यथा नहीं । इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रलयकालमें भी वेदस्मृत्यनुकूल संस्कारवाले पुरषके होनेके कारण वेद निरवश्य ही है । इससे किसी आदीया यह कथन—'वर्तमाना अस्मिन् काले वेदोऽस्ति' इत्यादि वाक्योंसे संहिता आदिके कर्ता वेदपतिपादित है—भी निरस्त हो गया । 'मन्त्रकृतो' इत्यादि वाक्योंका—स्वरूपके आदिमें उच्यते उन-उन ऋषियोंके पुण्यविशेषसे जन्मान्तरमें अर्थात् वेदका स्मरण ही स्मरण होता है—इस अभिप्रायो व्याख्यान करना चाहिए ।

समाननामरूपत्वाच्चावृत्तावप्यविरोधो दर्शनात् स्मृतेश्च ॥३०॥

पदच्छेद—समाननामरूपत्वात्, च, आवृत्तौ, अपि, अविरोधः, दर्शनात्, स्मृतेः, च ।

पदार्थोक्ति—आवृत्तावपि—सृष्टिप्रलययोर आवृत्तावपि, समाननामरूपत्वाच्च—उत्तरकल्पप्रपञ्चस्य पूर्वकल्पसमाननामरूपत्वादेव, अविरोधः—शब्दार्थसम्बन्धानित्यत्वरूपविरोधो नास्ति, [प्रपञ्चस्य समाननामरूपत्वं च] दर्शनात्—‘धाता यथापूर्वमकल्पयत्’ इत्यादिश्रुतेः, स्मृतेश्च—‘यथर्तुष्वतुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये । दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु’ इत्यादिस्मृतेश्च [अवगम्यते] ।

भाषार्थ—सृष्टि-प्रलयकी प्रवाहपरम्पराके चलते रहनेपर भी उत्तर कल्पके समान ही नाम, रूपके होनेके कारण शब्द और अर्थके संबन्धका अनित्यतारूप निरोध नहीं हो सकता है । सृष्टि समान नाम-रूपवाली है, यह ‘धाता यथा०’ (जैसे पूर्वकल्पमें सूर्य, चन्द्रमा आदि जगन् धा, उसी प्रकार उत्तर कल्पमें भी परमेश्वरने सृष्टि की) इत्यादि श्रुतिसे और ‘यथर्तुष्वतु०’ (जैसे उन-उन ऋतुओंमें प्रतीयमान अनेक तरहके नवपल्लवोद्गम आदि ऋतुलिङ्ग ही ऋतुओंकी पुनरावृत्तिमें देखे जाते हैं, उसी प्रकार पूर्वकल्पके समान पदार्थ ही उत्तरोत्तर सृष्टिमें देखे जाते हैं) इत्यादि स्मृतिसे जाना जाता है ।

—०००—

भाष्य

अथापि स्यात्, यदि पश्वादिव्यक्तिवद् देवादिव्यक्तयोऽपि सन्तत्यै-
योत्पद्येरन्निरुध्येरंश्च ततोऽभिधानाभिधेयाभिधातृव्यवहाराविच्छेदात् सम्य-

भाष्यका अनुवाद

यह होता, यदि पशु आदि व्यक्तियोंके समान देवता आदि व्यक्तियोंके भी उद्भव और लय अविच्छिन्न होते, तो नाम, विषय और वक्ताके व्यवहारका विच्छेद न होनेके

रत्नप्रभा

ननु महाप्रलये जातेरपि असत्त्वात् शब्दार्थसम्बन्धानित्यत्वमित्याशङ्क्याऽह—समानेति । सूत्रनिरस्यां शङ्कामाह—अथापीति । व्यक्तिसन्तत्या

रत्नप्रभाका अनुवाद

परन्तु महाप्रलयमें जातिके भी नष्ट हो जानेसे शब्द और अर्थका संबन्ध अनित्य हो जायगा, ऐसी आशंका करके कहते हैं—“समान” इत्यादिसे । सूत्रसे हटाई जानेवाली शंकाको

(१) प्रजापति आदि सबका भित्तमें देहाविवोग होना है और केवल प्रकृति अवशिष्ट रहती है, यही काल ।

भाष्य

अनित्यत्वेन विरोधः शब्दे परिह्रियेत । यदा तु खलु सकलं त्रैलोक्यं परित्यक्तनामरूपं निर्लेपं प्रलीयते, प्रभवति चाऽभिनवमिति श्रुतिस्मृतिवादा वदन्ति तदा कथमविरोध इति ।

भाष्यका अनुवाद

कारण संबन्ध नित्य रहनेसे शब्दमें विरोधका परिहार हो जाता, परन्तु जब श्रुतियों और स्मृतियों कहती हैं कि सकल त्रैलोक्य नाम और रूपका परित्याग करके समूल नष्ट हो जाता है और फिर नया उत्पन्न होता है, तब अविरोध किस प्रकार है ? ऐसी शङ्का होती है ।

रत्नप्रभा

जातीनाम् अवान्तरप्रलये सत्त्वात् संबन्धस्तिष्ठति, व्यवहाराविच्छेदाद् ज्ञायते चेति वेदस्य अनपेक्षत्वेन प्रामाण्ये न कश्चिद् विरोधः स्यात् । निर्लेपलये तु सम्बन्धनाशात् पुनः सृष्टौ केनचित् पुंसा संकेतः कर्तव्य इति पुरुषबुद्धिसा पेक्षत्वेन वेदस्य अप्रामाण्यम्, अध्यापकस्य आश्रयस्य नाशाद् आश्रितस्य अनित्यत्वं च प्राप्तमित्यर्थः । महाप्रलयेऽपि निर्लेपलयोऽसिद्धः, सत्कार्यवादात् । तथा च संस्कारात्मना शब्दार्थतत्सम्बन्धानां सतामेव पुनः सृष्टौ अभिव्यक्तेः न अनित्यत्वम् ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

कहते हैं—“अथापि” इत्यादिसे । अवान्तरप्रलयमें व्यक्तियोंके सतत—अविच्छिन्न होनेसे जाति भी रहती है, इसलिए उनका संबन्ध भी रहता है और व्यवहारका विच्छेद न होनेसे सम्बन्धका ज्ञान भी होता है । इसलिए वेदकी अन्यानपेक्ष प्रमाणतामें कोई विरोध नहीं होता । परन्तु महाप्रलयमें उस संबन्धका विच्छेद हो जानेसे पुनः सृष्टि होनेपर संकेत करनेवाले किसी पुरुषकी अपेक्षा होती है, ऐसी कल्पनामें पुरुष बुद्धिकी अपेक्षा रखनेके कारण वेद अप्रमाण हो जायेंगे । अध्यापकरूप आश्रयका नाश होनेसे उस आश्रयमें रहनेवाले वेद भी अनित्य हो जायेंगे ऐसा तान्पर्य है । महाप्रलयमें भी जगत्का समूल नाश नहीं हो सकता, क्योंकि सत्कार्यवाद माना गया है । इसलिए संस्काररूपसे शब्द, अर्थ और उनके सम्बन्ध रहते ही हैं, पुनः सृष्टिमें उन्हींकी अभिव्यक्ति होती है, अतः वेद अनित्य नहीं हैं ।

भाष्य

तत्रेदमभिधीयते—समाननामरूपत्वादिति । तदापि संसारस्याऽनादित्वं तावदभ्युपगन्तव्यम् । प्रतिपादयिष्यति चाऽऽचार्यः संसारस्याऽनादित्वम्—‘उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च’ (ब्र० २ । १ । ३६) इति । अनादौ च संसारे यथा स्वापप्रबोधयोः प्रलयप्रभवश्रवणेऽपि पूर्वप्रबोधवदुत्तरप्रबोधेऽपि व्यवहारान्न कश्चिद् विरोधः । एवं कल्पान्तरप्रभवप्रलययोरपीति द्रष्टव्यम् । स्वापप्रबोधयोश्च प्रलयप्रभवौ श्रूयते—‘यदा सुप्तः

भाष्यका अनुवाद

उसपर कहते हैं—‘समाननामरूपत्वाद्’ इत्यादि । तब भी संसारको अनादि मानना ही चाहिए । और आचार्य ‘उपपद्यते०’ इस सूत्रमें संसारकी अनादिताका प्रतिपादन करेंगे । और संसारको अनादि माननेपर सुषुप्ति और जाग्रदवस्थामें प्रलय और उत्पत्तिके होनेपर भी जैसे पूर्व जाग्रदवस्थाके समान ही उत्तर जाग्रदवस्थामें व्यवहार होनेमें कोई विरोध नहीं होता है, उसी प्रकार पूर्व कल्पके लय और उत्तर कल्पकी उत्पत्तिमें भी वेद-नित्यत्वमें कोई विरोध नहीं है, ऐसा समझना चाहिए । तथा सुषुप्ति और जाग्रत्में संसारके प्रलय और उद्भव श्रुतिमें कहे गये हैं—‘यदा सुप्तः न कंचन स्वप्नं०’ (जब सुप्त पुरुष कुछ भी

रत्नप्रभा

अभिव्यक्तानां पूर्वकल्पीयनामरूपसमानत्वात् न संकेतः केनचित् कार्यः, विषमसृष्टौ हि संकेतापेक्षा न तुल्यसृष्टौ इति परिहरति—तत्रेदमित्यादिना । ननु आद्यसृष्टौ संकेतः केनचित् कार्य इत्यत आह—तदापीति । महासर्गप्रलयप्रवृत्तौ अपि इत्यर्थः । ननु अस्तु अनादिसंसारे सम्बन्धस्य अनादित्वम्, तथापि महाप्रलयव्यवधानादस्मरणे कथं वेदार्थव्यवहारः ? तत्राऽऽह—अनादौ चेति । न कश्चिद् विरोधः शब्दार्थसम्बन्धस्मरणादेरिति शेषः । स्वापप्रबोधयोर्लयसर्गासिद्धि-

रत्नप्रभाका अनुवाद

अभिव्यक्त पदार्थ पूर्वकल्पस्थित नाम-रूपके समान नाम रूपवाले ही हैं, अतः किसी मनुष्यके संकेतकी आवश्यकता नहीं है । यद्यपि विषम सृष्टिमें संकेतकी आवश्यकता होती है, तो भी समान सृष्टिमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार परिहार करते हैं—“तत्रेदम्” इत्यादिसे । प्रथम सृष्टिमें तो किसी पुरुषके संकेतकी अपेक्षा है, इसपर कहते हैं—“तदापि” इत्यादि । ‘तदापि’—महाप्रलय और महासृष्टिका अंगीकार करने पर भी । यदि कोई कहे कि संसार अनादि रहे तथा शब्द और अर्थका संबन्ध भी अनादि रहे, तो भी महाप्रलयसे व्यवधान होनेके कारण वेदका स्मरण न होनेसे, तो वेदार्थ व्यवहार किस प्रकार होगा ? इसपर कहते हैं—“अनादौ च” इत्यादि । ‘न कश्चिद्विरोधः’ के बाद ‘शब्दार्थसम्बन्धस्मरणादेः’ (शब्द, अर्थ और उनके संबन्धोंके स्मरण आदिका) इतना शेष समझना चाहिए । सुषुप्ति और

माप्य

स्वप्नं न कञ्चन पश्यत्यथास्मिन्प्राण एवैकधा भवति तदेतन्न वाक्सर्वैर्ना-
मभिः सहाप्येति, चक्षुः सर्वै रूपैः सहाप्येति, श्रोत्रं सर्वैः शब्दैः सहा-
प्येति, मनः सर्वैर्ध्यानैः सहाप्येति, स यदा प्रतिबुध्यते यथाऽप्रेर्ज्वलतः
सर्वा दिशो विस्फुलिङ्गा विप्रतिष्ठेरन्नेवमेवैतस्मादात्मनः सर्वे प्राणा यथा-
यत्तन्नं विप्रतिष्ठन्ते प्राणोभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः (कौ० ३।३) इति ।
स्यादेतत् । स्वापे पुरुषान्तरव्यवहाराविच्छेदात् स्वयं च सुषुप्तप्रबुद्धस्य
पूर्वप्रबोधव्यवहारानुसन्धानसम्भवादविरुद्धम् । महाप्रलये तु सर्वव्यवहारो-

माप्यका अनुवाद

स्वप्न नहीं देखता, तब वह उस प्राणमें ही एक हो जाता है, अर्थात् परमात्मासे
अभिन्न हो जाता है, तब घाणी सब नामोंके साथ उसमें लीन हो जाती है,
नेत्र सब रूपोंके साथ उसमें लीन हो जाता है, कान सब शब्दोंके साथ उसमें
लीन हो जाता है, और मन सब विचारोंके साथ उसमें लीन हो जाता है, जब
वह जागता है, तब जलती हुई अग्निसे जैसे चिनगारियाँ सब दिशाओंमें जाती
हैं, इसी प्रकार इस आत्मासे ये सब प्राण निकलकर अपने-अपने स्थानमें
प्रकट हो जाते हैं, प्राणोंके बाद देवता और देवताओंके बाद लोक प्रकट होते हैं।)
परन्तु सुषुप्तिमें अन्य पुरुषोंका व्यवहार विच्छिन्न नहीं होता और स्वयं सुषुप्तिसे
जागनेपर पूर्वकी जाग्रदवस्थाओंके व्यवहारोंको स्मरण करता है, इसलिए विरोध

रत्नप्रभा

माशङ्क्य श्रुतिमाह—स्वापेति । अथ तदा—सुषुप्तौ प्राणे—परमात्मनि जीव
एकीभवति । एतन्नं प्राणं स जीवस्तदैतीति शेषः । एतस्मात्—प्राणात्मनः,
आवतनम्—गोलकम् । आनन्तर्ये पञ्चमी प्राणेभ्य इत्यादौ द्रष्टव्या । स्वप्नवत्
कल्पितस्य अज्ञातसत्त्वाभावाद् दर्शनं सृष्टिः अदर्शनं लयः इति दृष्टिसृष्टिपक्षः
श्रुत्यभिप्रेत इति भावः । दृष्टान्तवैपम्यम् आशङ्क्य परिहरति—स्यादित्यादिना ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

जाग्रदवस्थामें प्रलय और सृष्टि नहीं हो सकती, ऐसी शंका करके इस विषयमें प्रमाणभूत
श्रुति उद्धृत करते हैं—“स्वाप” इत्यादिसे । ‘अथ’—तदा—सुषुप्तिमें । प्राणमें—परमात्मामें
जीव एक हो जाता है । ‘इस आत्मासे’—प्राणात्मासे । ‘आवतन’—गोलक अर्थात् स्थान । ‘प्राणेभ्यः’
और ‘देवेभ्यः’ में पंचमी आनन्तर्यवाचक है । स्वप्नके समान कल्पितरी भी अज्ञान सत्त्वके
अभावसे दर्शन सृष्टि है और अदर्शन लय है, यही दृष्टिसृष्टिपक्ष श्रुतिके अभिप्रेत है, यह
साक्ष्य है । दृष्टान्त और दार्शनिकमें विषमताकी शंका कर परिहार करते हैं—“स्याद्”

भाष्य

च्छेदाद् जन्मान्तरव्यवहारवच्च कल्पान्तरव्यवहारस्याऽनुसन्धातुमशक्य-
त्वाद् वैषम्यमिति । नैष दोषः, संत्यपि सर्वव्यवहारोच्छेदिनि महाप्रलये
परमेश्वरानुग्रहादीश्वराणां हिरण्यगर्भादीनां कल्पान्तरव्यवहारानुसन्धा-
नोपपत्तेः । यद्यपि प्राकृताः प्राणिनो न जन्मान्तरव्यवहारमनुसन्दधाना
दृश्यन्त इति, तथापि न तत् प्राकृतवदीश्वराणां भवितव्यम् । यथा हि
प्राणित्वाविशेषेऽपि मनुष्यादिस्तम्बपर्यन्तेषु ज्ञानैश्वर्यादिप्रतिबन्धः परेण

भाष्यका अनुवाद

नहीं है । महाप्रलयमें तो सब व्यवहारोंका उच्छेद हो जाता है, इसलिए अन्य
जन्मके व्यवहारोंके समान अन्य कल्पके व्यवहारोंका स्मरण नहीं हो सकता है,
इसलिए (दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिकमें) विषमता है, ऐसी यदि शङ्का हो, तो यह
दोष नहीं है । जिसमें सब व्यवहारोंका उच्छेद हो जाता है, ऐसा महाप्रलय
यदि मान भी लिया जाय, तो भी परमेश्वरके अनुग्रहसे हिरण्यगर्भ आदि ईश्वरों-
को अन्य कल्पके व्यवहारका स्मरण हो सकता है । यद्यपि प्राकृत प्राणी अन्य
जन्मके व्यवहारोंका स्मरण करते नहीं दिखाई देते, तो भी ईश्वरोंको भी
प्राकृतोंके समान ही नहीं समझ लेना चाहिए । सभीके प्राणी होनेपर भी जैसे
मनुष्य आदिसे लेकर स्तम्बपर्यन्त प्राणियोंमें ज्ञान, ऐश्वर्य आदिका प्रतिबन्ध

रत्नप्रभा

अविरुद्धम्, अनुसन्धानादिकमिति शेषः । हिरण्यगर्भादयः, पूर्वकल्पानुसन्धान-
शून्याः, ससारित्वाद्, अस्मदादिवत् इत्याशङ्क्याऽऽह—यद्यपीति । इति यद्यपि
तथापि न प्राकृतवदिति योजना । ज्ञानादेः निकर्षवत्-उत्कर्षोऽपि अङ्गीकार्यः,
बाधकाभावादिति न्यायानुगृहीतश्रुत्यादिभिः सामान्यतो दृष्टानुमानं बाध्यमित्याह—

रत्नप्रभाका अनुवाद

इत्यादिसे । “अविरुद्धम् के बाद ‘अनुसन्धानादिकम्’ (स्मरण आदि) इतना शेष समझना चाहिए
हिरण्यगर्भ आदि पूर्वकल्पका स्मरण नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे समान ससारी हैं, ऐसी
आशङ्का करके कहते हैं—“यद्यपि” इत्यादिसे । ‘इति यद्यपि तथापि न प्राकृतवत्’ ऐसी योजना
(अन्वय) है । कोई बाधक न होनेके कारण ज्ञान आदिके अपकर्षके समान उत्कर्ष भी मानना
चाहिए, इस न्यायसे अनुगृहीत धृति आदिसे सामान्यतो दृष्ट अनुमानका बाध होता है, ऐसा
कहते हैं—“यथा हि” इत्यादिसे । यदि कोई कहे कि पूर्वकल्पके हिरण्यगर्भ आदि ईश्वरोंके मुक्त

भाष्य

परेण भूयान् भवन् दृश्यते, तथा मनुष्यादिष्वेव हिरण्यगर्भपर्यन्तेषु ज्ञानै-
श्वर्याद्यभिव्यक्तिरपि परेण परेण भूयसी भवतीत्येतच्छ्रुतिस्मृतिवादेष्वस-
कृदेवाऽनुकल्पादौ प्रादुर्भवतां पारमैश्वर्यं श्रूयमाणं न शक्यं नास्तीति वदितुम् ।
ततश्चाऽतीतकल्पानुष्ठितप्रकृतज्ञानकर्मणामीश्वराणां हिरण्यगर्भादीनां
वर्तमानकल्पादौ प्रादुर्भवतां परमेश्वरानुगृहीतानां सुप्तप्रतिबुद्धवत्
कल्पान्तरव्यवहारानुसन्धानोपपत्तिः । तथा च श्रुतिः—

‘यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ।

तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॥’

भाष्यका अनुवाद

उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ दिग्गर्भ देता है, वैसे ही मनुष्य आदिसे लेकर हिरण्यगर्भ
पर्यन्तमें ज्ञान, ऐश्वर्य आदिकी अभिव्यक्ति उत्तरोत्तर अधिक होती है, ऐसा
श्रुति और स्मृतिके वचनोंसे बारंबार सुनाई देता है, उसका अपलाप नहीं कर
सकते । इसलिए विगत कल्पमें जिन्होंने सर्वोत्तम ज्ञान और कर्मोंका अनुष्ठान
किया है और वर्तमान कल्पके आरंभमें जो प्रादुर्भूत हुए हैं, उन हिरण्यगर्भ
आदि ईश्वरोंको परमेश्वरके अनुग्रहसे सुप्तप्रतिसे जागे हुए पुरुषके समान अन्य
कल्पके व्यवहारोंका स्मरण होना युक्त है, क्योंकि ‘यो ब्रह्माणं विदधाति०’
(पूर्वमें जो ब्रह्माको उत्पन्न करता है और जो उसकी बुद्धिमें वेदोंका आविर्भाव
करता है, मुमुक्षु मैं स्वात्मरूपसे बुद्धिमें प्रकाशमान उस देवकी शरणमें

रत्नप्रभा

यथा हीत्यादिना । ननु तथापि पूर्वकल्पेश्वराणां मुक्तत्वाद् अस्मिन् कल्पे
कोऽनुसन्धाता इत्यत आह—ततश्चेति । ज्ञानाद्युत्कर्षादित्यर्थ । मुक्तेभ्योऽन्ये
अनुसन्धातार इति भाव । परमेश्वरानुगृहीतानां ज्ञानातिशये पूर्वोक्तश्रुतिस्मृति-
वादानाह—तथा चेति । पूर्वम्—कल्पादौ, तस्मै—ब्रह्मणे, प्रहिणोति—गमयति
तस्य बुद्धौ वेदानां विभावयति यस्त देव स्वात्माकारेण महावाक्योत्थबुद्धौ प्रकाशमानं

रत्नप्रभाका अनुवाद

होनेसे इस कल्पमें स्मरण बंद करता है, इसपर कहते हैं—“ततश्च” इत्यादि । अर्थात् ज्ञान
आदिके उत्कर्षस । मुक्तोंसे अन्य स्मरण करते हैं, ऐसा अर्थ है । परमेश्वरके कृपाप्राप्ताका
वत्कृत ज्ञान होता है, इस विषयमें पूर्वोक्त श्रुति और स्मृतिके वचन उद्धृत करते हैं—“तथा च”
इत्यादिसे । जो कल्पके आरम्भमें ब्रह्माको उत्पन्न करता है और जो उसकी बुद्धिमें वेदोंका
आविर्भाव करता है, ‘तत्त्वमसि’ आदि महावाक्योंसे उत्पन्न हुई बुद्धिमें स्वात्मरूपसे प्रकाशमा

भाष्य

(श्वे० ६ । १८) इति । स्मरन्ति च शौनकादयः 'मधुच्छन्दः-
प्रभृतिभिर्ऋषिभिर्दाशतय्यो दृष्टाः' इति । प्रतिवेदं चैवमेव काण्डर्ष्यादयः
स्मर्यन्ते । श्रुतिरपि ऋषिज्ञानपूर्वकमेव मन्त्रेणाऽनुष्ठानं दर्शयति—'यो
ह वा अविदितार्षेयच्छन्दोदैवतब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वाऽध्यापयति
वा स्थाणुं वर्च्छति गर्तं वा प्रतिपद्यते' (सर्वानु० परि०) इत्युपक्रम्य

भाष्यका अनुवाद

जाता हूँ) ऐसी श्रुति है । और 'मधुच्छन्दःप्रभृतिभिः' (मधुच्छन्द आदि
ऋषियोंने दस मण्डलवाले ऋग्वेदकी ऋचाएँ देखीं) इस प्रकार शौनक आदि
भी कहते हैं । प्रत्येक वेदमें भी इसी प्रकार काण्ड, ऋषि आदिका स्मरण है ।
'यो ह वा अविदितार्षेयः' (जिसके ऋषि, छन्द, देवता और विनियोगका
ज्ञान नहीं है ऐसे मन्त्रसे जो यज्ञ करता है या अध्यापन करता है, वह स्थावर

रत्नप्रभा

शरणम्—परमम् अभयस्थान निश्चयैकरूपमह प्रपद्ये इत्यर्थः । न केवलम्
एकस्यैव ज्ञानातिशयः किन्तु बहूना शास्त्राद्रष्टृणामिति विश्वासार्थमाह—
स्मरन्तीति । ऋग्वेदो दशमण्डलावयववान् तत्र भवा ऋचः दाशतय्य ।
वेदान्तरेऽपि काण्डसूक्तमन्त्राणां द्रष्टारो बोधायनादिभि स्मृता इत्याह—प्रतीति ।
किञ्च, मन्त्राणाम् ऋष्यादिज्ञानावश्यकत्वात्तत्रापि श्रुतिः मन्त्रहृत्पृष्ठाणां ज्ञानातिशयं
दर्शयतीत्याह—श्रुतिरपीति । आर्षेय-ऋषियोगः, छन्दः—गायत्र्यादि, दैवतम्—
अग्न्यादि, ब्राह्मणम्—विनियोग, एतानि अविदितानि यस्मिन् मन्त्रे तेन इत्यर्थः ।
स्थाणुम्—स्थावरम्, गर्तम्—नरकम् । तथा च ज्ञानाधिकै कल्पान्तरिसं वेदं

रत्नप्रभाका अनुवाद

परम अभयस्थान मोक्षरूप उस देवकी शरणमें मैं जाता हूँ, यह धुतिके अर्थ है । केवल एकको
ही उत्कृष्ट ज्ञान नहीं होता, किन्तु बहुतसे मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंको भी होता है, ऐसा विद्वत्सके लिए
कहते हैं—“स्मरन्ति” इत्यादिसे । दस मण्डलवाले ऋग्वेदका ऋचाएँ दाशतयी कही जाती
हैं । ऋग्वेदसे अन्य वेदोंके भी काण्ड, सूक्त, मन्त्र आदिके दर्शन करनेवालोंका बोधायन
आदिने स्मृतिमें वर्णन किया है, ऐसा कहते हैं—“प्रति” इत्यादिसे । मन्त्रोंके ऋषि आदिका
ज्ञान आवश्यक है, ऐसा दिखलाती हुई धुति मन्त्रके दर्शन करनेवाले ऋषियोंका अतिशय ज्ञान
दिखलाती है, ऐसा कहते हैं—“श्रुतिरपि” इत्यादिसे । आर्षेय—ऋषियोग अर्थात् ऋषिसंबन्ध ।
छन्द—गायत्री आदि । दैवत—अग्नि आदि । ब्राह्मण—मन्त्रोंका विनियोग । ऋषियोग
आदि जिस मन्त्रके नहीं जाने गये, उस मन्त्रसे [जो याग करता है, यह] स्थाणु-स्थावर

भाष्य

‘तस्मादेतानि मन्त्रे मन्त्रे विधात्’ इति । प्राणिनां च सुखप्राप्तये धर्मो विधीयते; दुःखपरिहाराय चाऽधर्मः प्रतिपिध्यते । दृष्टानुश्रविकसुखदुःखविषयौ च रागद्वेषौ भवतः, न विलक्षणविषयौ—इत्यतो धर्माधर्मफलभूतोत्तरोत्तरा सृष्टिर्निष्पद्यमाना पूर्वसृष्टिसदृश्येव निष्पद्यते । स्मृतिश्च भवति—
‘तेषां ये यानि कर्माणि प्राक्सृष्ट्यां प्रतिपेदिरे ।

तान्येव ते प्रपद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः ॥’

(म० भा० शा० १२ । ८५)

भाष्यका अनुवाद

हो जाता है अथवा नरकमें जाता है) ऐसा उपक्रम करके ‘तस्मादेतानि०’ (इसलिए प्रत्येक मंत्रमें ऋषि आदिको जानना चाहिए) इस प्रकार श्रुति भी ऋषिज्ञानपूर्वक ही मंत्रसे अनुष्ठान दिखलाती है । और प्राणियोंको सुखकी प्राप्ति हो, इसलिए धर्मका विधान है और दुःखके परिहारके लिए अधर्मका प्रतिपेध है । ऐहिक और पारलौकिक सुख-दुःखमें राग एवं द्वेष होते हैं, अन्य विषयमें नहीं होते । इसलिए धर्म और अधर्मकी फलभूत जो उत्तरोत्तर सृष्टि उत्पन्न होती जाती है, वह पूर्व सृष्टिके समान ही होती है । ‘तेषां ये यानि०’

रत्नप्रभा

स्मृत्वा व्यवहारस्य प्रवर्तितत्वाद् वेदस्य अनादित्वम् अनपेक्षत्वं च अविरोद्धमिति भावः । अधुना समाननामरूपत्वं प्रपञ्चयति—प्राणिनां चेति । ततः किं तत्राऽऽह—दृष्टेति । ऐहिकामुष्मिकविषयसुखरागकृतधर्मस्य फलं पश्चादिकं दृष्टपश्चादिसदृशमिति युक्तम्, विसदृशे कामाभावेन हेत्वभावात् । तथा दृष्टदुःखद्वेषकृताधर्मफलं दृष्टसदृशदुःखमेव, न सुखम्, कृतहान्यादिदोषापत्तेः इत्यर्थः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

[हो जाता है, अथवा] गर्त—नरक [में पड़ता है], इसलिए उत्कृष्ट ज्ञानवाले हिरण्यगर्भ आदि ईश्वर अन्य कल्पमें अन्तर्हित वेदका भी स्मरण कर व्यवहार चालू करते हैं, इसलिए वेदका अनादित्व और अनपेक्षत्व अक्षत है, ऐसा तात्पर्य है । अर्धे समान नामरूपताको विस्तारसे दिखलाते हैं—“प्राणिनां च” इत्यादिसे । इससे क्या हुआ, इसपर कहते हैं—“दृष्ट” इत्यादिसे । ऐहिक और आभुष्मिक विषयके सुखकी कामनासे किये हुए धर्मका फल जो पशु आदि है, वह दृष्ट पशु आदिकी तरह ही होता है, यह युक्त है, क्योंकि दृष्टके सदृश—जैसा देखते हैं, वैसा फल न हो, तो उसमें कामनाके न होनेसे हेतुका अभाव होगा । इसी प्रमाणसे दृष्ट दुःखके द्वेष द्वारा किये गये अधर्मका फल दृष्टतुल्य दुःख ही है, सुरा नहीं है, क्योंकि ऐसा न माननेसे कृतहानि—किये हुए कर्मके फलही हानि—आदि दोष उपासित

भाष्य

‘हिंसाहिंसे मृदुक्रूरे धर्माधर्माघृतानृते ।

तद्भाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥’ इति ।

(म० भा० शा० २५-७)

प्रलीयमानमपि चेदं जगच्छक्त्यवशेषमेव प्रलीयते । शक्तिमूलमेव

भाष्यका अनुवाद

(प्राणियोंमेंसे जिन प्राणियोंने जो जो कर्म प्रथम सृष्टिमें किये उन्हीं कर्मोंको वे पुनः पुनः उत्पन्न होकर प्राप्त करते हैं) ‘हिंसाहिंसे०’ (हिंसा-अहिंसा, मृदु-क्रूर, धर्म-अधर्म, सत्य-असत्य जिन कर्मोंसे वासित होते हैं, उत्पन्न होकर उन्हींको प्राप्त करते हैं और वे ही उनको रुचते हैं) ऐसी स्मृति भी है । जगत्का नाश होनेपर भी इसकी शक्ति शेष

रत्नप्रभा

तर्कितेऽर्थे मानमाह—स्मृतिश्चेति । उत्तरसृष्टिः, पूर्वसृष्टिसजातीया, कर्मफलत्वात्, पूर्वसृष्टिवत् इत्यनुमानं चशब्दार्थः । तेषाम्—प्राणिनां मध्ये, तान्येव—तज्जातीयान्येव । तानि दर्शयन् तत्प्राप्तौ हेतुमाह—हिंसेति । कर्माणि विहित-निषिद्धत्वाकारेण अपूर्वं क्रियात्वेन संस्कारं च जनयन्ति । तत्र अपूर्वात् फलं भुङ्क्ते, संस्कारभावितत्वात् पुनः तज्जातीयानि करोतीत्यर्थः । संस्कारे लिङ्गमाह—तस्मादिति । संस्कारवशादेव पुण्यं पापं वा रोचते । अतोऽभिरुचिलिङ्गात् पुण्यापुण्यसंस्कारोऽनुमेयः, स एव स्वभावः, प्रकृतिः, वासना इति च गीयते । एवं कर्मणा सृष्टिसादृश्यम् उक्त्वा स्वोपादाने लीनकार्यसंस्काररूपशक्तिबलादपि सादृश्यम् इत्याह—प्रलीयमानमिति । इतरथा निःसंस्कारप्रलये जगद्वैचित्र्यस्य

रत्नप्रभाका अनुवाद

होगे । तर्कादिद विषयमें प्रमाण कहते हैं—“स्मृतिश्च” इत्यादिसे । पश्चाद्भाविनी सृष्टि पूर्व सृष्टिके सदृश ही होती है, क्योंकि वह भी पूर्वसृष्टिके समान कर्मफल ही है, यह अनुमान ‘स्मृतिश्च’ के लकारका अर्थ है । ‘तेषां’—उन प्राणियोंमेंसे । ‘तान्येव’—तज्जातीय ही अर्थात् उनके सदृश ही । उनको दिखलाते हुए उनकी प्राप्तिके हेतु भी कहते हैं—“हिंसा” इत्यादिसे । कर्म विहित और निषिद्धरूप होनेके कारण अपूर्वको और क्रियारूप होनेके कारण संस्कारको उत्पन्न करते हैं । उनमें अपूर्वमे फलका भोग करता है और संस्कारसे पुनः तज्जातीय कर्म करता है । पुरुषमें संस्कार है, इस विषयमे हेतु कहते हैं—“तस्माद्” इत्यादिसे । संस्कारके बलमे ही पुरुषको पुण्य या पाप रुचता है । इस कारणसे—अभिरुचिरूप हेतुसे पुण्य और पापके संस्कारोंका अनुमान होता है । वही स्वभाव, प्रकृति या वासना कहलाता है । इस प्रकार कर्मोंसे होनेवाली सृष्टि रामान है, यह कहकर उपादानमें लीन कार्य-संस्काररूप शक्तिके बलसे भी सृष्टि समान है, ऐसा कहते हैं—“प्रलीयमानम्” इत्यादिसे । अन्यथा

भाष्य

च प्रभवति इतरथाऽऽकस्मिकत्वप्रसङ्गात् । नचाऽनेकाकाराः शक्तयः शक्याः कल्पयितुम् । ततश्च विच्छिद्य विच्छिद्याऽप्युद्भवतां भूरादिलोक-प्रवाहाणाम्, देवतिर्यङ्मनुष्यलक्षणानां च प्राणिनिकायप्रवाहाणां वर्णाश्रम-धर्मफलव्यवस्थानां चाऽनादौ संसारे नियतत्वमिन्द्रियविषयसम्बन्धनिय-

भाष्यका अनुवाद

रहती है। उसी शक्तिसे वह फिर उत्पन्न होता है। अन्यथा जगत्की सृष्टि निष्कारण हुई है ऐसा अनिष्टका प्रसङ्ग हो जायगा। शक्तियों तरह तरह की हैं, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए पुनः पुनः उत्पन्न होनेवाले भू आदि लोक, देव, पशु और मनुष्यरूप प्राणियोंका प्रवाह, वर्ण, आश्रम, धर्म और फलकी व्यवस्थाएँ भी अनादि संसारमें इन्द्रिय और विषयके सम्बन्धके समान नियत हैं, ऐसा

रत्नप्रभा

आकस्मिकत्वं स्यादित्यर्थः । ननु जगद्वैचित्र्यकारिण्यः अन्याः शक्तयः कल्पयन्ताम्, तत्राऽऽह—न चेति । अविद्यायां लीनकार्यात्मकसंस्कारात् अन्याः शक्तयो न कल्प्याः, मानाभावाद् गौरवाच्च, स्वोपादाने लीनकार्यरूपा शक्तिस्तु “महान्यमो-घस्तिष्ठति” “श्रद्धस्त्व सोम्य” [छा०६।१२।१,२] इति श्रुतिसिद्धा, अतोऽविद्या-तत्कार्याद् अन्याः शक्तयो न सन्ति, आत्माविद्यैव तच्छक्तिरिति सिद्धान्त इत्यर्थः । निमित्तेषु अपि उपादानस्थकार्यमेव अविद्याघटनया शक्तिरन्या वा इत्यनाग्रहः । उपादाने कार्यसंस्कारसिद्धेः फलमाह—ततश्चेति । यथा सुप्तोत्थितस्य पूर्वचक्षुर्जातीय-मेव चक्षुर्जायते, तच्च रूपजातीयमेव गृह्णाति, न रसादिकम्, एवं भोग्यलोकाः भोगाश्रयाः प्राणिनिकाया भोगहेतुकर्माणि संस्कारबलात् पूर्वलोकादितुल्यानि

रत्नप्रभाका अनुवाद

अर्थात् संस्कारोंके भी नष्ट होनेपर जगत्में जो विचित्रता (कोई सुखी है कोई दुखी है आदि) देखी जाती है वह आकस्मिक—कारणरहित हो जायगी । यदि कोई कहे कि जगत्की विचित्रता उत्पन्न करनेवाली अन्य शक्तियोंकी कल्पना करो, इसपर कहते हैं—“न च” इत्यादि । अविद्यामें लीन कार्यरूप संस्कारोंसे अन्य शक्तियोंकी कल्पना करना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करनेमें कोई प्रमाण नहीं है और अनेक शक्तियोंकी कल्पना करनेमें गौरव भी है । अपने उपादानमें लीन कार्यरूप शक्ति तो ‘महान् न्यमोघास्तिष्ठति’ ‘श्रद्धस्त्व सोम्य’ इत्यादि धृतिसे सिद्ध है । इसलिए अविद्या और उसके कार्योंसे अन्य शक्तियों नहीं हैं, आत्माकी अविद्या ही वह शक्ति है, ऐसा सिद्धान्त है । उपादानमें कार्यसंस्कारके शिद्ध होनेपर फलित कहते हैं—“अतश्च” इत्यादिसे । आशय यह कि जेगे गुप्तुतिसे जागे हुए पुरुषके नेत्र पहलेके जैसे ही होते हैं और पूर्वम्पसदृश रूपका ही वे ग्रहण करने हैं, रंग आदिका ग्रहण नहीं करते,

भाष्य

तत्त्ववत् प्रत्येतव्यम् । नहीन्द्रियविषयसम्बन्धादेर्व्यवहारस्य प्रतिसर्गमन्य-
धात्वं पष्ठेन्द्रियविषयकल्पं शक्यमुत्प्रेक्षितुम् । अतश्च सर्वकल्पानां तुल्य-
व्यवहारत्वात् कल्पान्तरव्यवहारानुसन्धानक्षमत्वाच्चेत्पराणां समाननाम-
रूपा एव प्रतिसर्गं विशेषाः प्रादुर्भवन्ति । समाननामरूपत्वाद्यावृत्तावपि
महासर्गमहाप्रलयलक्षणायां जगतोऽभ्युपगम्यमानायां न कश्चिच्छब्द-
प्रामाण्यादिविरोधः । समाननामरूपतां च श्रुतिस्मृती दर्शयतः—

‘सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् ।

दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥’ (ऋ०सं० १०।१९०।३) इति ।

भाष्यका अनुवाद

समझना चाहिए, क्योंकि छठी इन्द्रिय (मन) के विषयके समान प्रत्येक
सृष्टिमें इन्द्रिय और विषयके सम्बन्धसे होनेवाले व्यवहारके भेदकी कल्पना
नहीं की जा सकती । इस कारणसे—सब कल्पोंमें एक-सा व्यवहार होनेसे और
हिरण्यगर्भ आदि ईश्वरोंके अन्य कल्पके व्यवहारका स्मरण करनेमें समर्थ
होनेसे प्रत्येक सृष्टिमें समान नाम और रूपवाली ही भिन्न-भिन्न व्यक्तियां उत्पन्न
होती हैं । नाम और रूपोंके समान होनेसे महासृष्टि और महाप्रलयस्वरूप
जगत्की आवृत्ति स्वीकार करनेमें भी शब्दप्रामाण्य आदिमें कोई भी विरोध
नहीं होता । श्रुति और स्मृति भी सब कल्पोंमें नाम और रूपकी सामानता
विरतलाती हैं—‘सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्’ (ब्रह्माने पूर्व कल्पके
समान ही सूर्य, चन्द्रमा, धुलोक, पृथिवी, अन्तरिक्ष और स्वर्गकी रचना की ।)

रत्नप्रभा

एवेति नियम इत्यर्थः । निकायाः—समूहाः । दृष्टान्तासिद्धिमाशङ्क्याऽऽह—नहीति ।
यथा पष्ठेन्द्रियस्य मनसोऽसाधारणविषयो नास्ति, सुखादेः साक्षिवेद्यत्वात्, तथा
व्यवहारान्यथात्वम् असदित्यर्थः । पष्ठमिन्द्रियं तद्विषयश्च असन् इति वाऽर्थः । उक्तार्थं
संक्षिपति—अतश्चेति । व्यवहारसाम्यात् सम्भवाच्च व्यवहियमाणा व्यक्तयः समाना

रत्नप्रभाका अनुवाद

इसी प्रकार भोग्य लोक, भोगके आश्रय प्राणिसमूह और भोगके हेतु कर्म संस्कारबलसे पूर्वलोक
आदिके सदृश ही होते हैं, ऐसा नियम है । निकाय—समूह । दृष्टान्तकी अतिशुद्धि की आशंका
करके कहते हैं—“नहि” इत्यादि । जैसे छठी इन्द्रिय मनका कोई असाधारण विषय नहीं
है, क्योंकि सुख आदि साक्षिवेद्य हैं अर्थात् साभिज्ञानके विषय हैं, उसी प्रकार व्यवहारका
उलट फेर भी नहीं हो सकता । अथवा छठी इन्द्रिय और उसका विषय दोनों असत् हैं । उक्त
अर्थका संक्षेप—उपमंहार करते हैं—“अतश्च” इत्यादिमे । व्यवहार समान है और उमका

भाष्य

यथा पूर्वस्मिन् कल्पे सूर्याचन्द्रमःप्रभृति जगत् कल्पम्, तथाऽस्मिन्नापि कल्पे परमेश्वरोऽकल्पयदित्यर्थः । तथा 'अग्निर्वा अकामयत अन्नादौ देवानां स्यामिति, स एतमग्नये कृत्तिकाभ्यः पुरोडाशमष्टाकपालं निरवपत्' (तै० ब्रा० ३ । १ । ४ । १) इति नक्षत्रेष्टिविधौ योऽग्निर्निरवपद् यस्मै वाग्नये निरवपत् तयोः समाननामरूपतां दर्शयतीत्येवंजातीयका

भाष्यका अनुवाद

पूर्वकल्पमें सूर्य, चन्द्र आदि जगत्की जैसी कल्पना की थी, वैसी ही इस कल्पमें भी उनकी कल्पना की, ऐसा अर्थ है । इसी प्रकार 'अग्निर्वा अकामयत' (यजमानने कामना की कि मैं देवोंका अन्नभक्षक होऊँ । उसने कृत्तिका नक्षत्रोंके अभिमानी अग्नि-के लिए आठ कपालोंमें बनाया गया पुरोडाश अर्पण किया) यह श्रुति—नक्षत्रयज्ञ-विधिमें जिस अग्निने जिस अग्निके लिए अर्पण किया, उन दोनोंके नाम और रूपकी

रत्नप्रभा

एवेत्यर्थः । सूत्र योजयति—समानेत्यादिना । भाविदृष्ट्या यजमानः अग्नि, अन्नादः अग्निरह स्यामिति कामयित्वा कृत्तिकानक्षत्राभिमानिदेवाय अग्नये अष्टसु कपालेषु पचनीयं हविः निरुत्तवानित्यर्थः । नक्षत्रव्यक्तिबहुत्वाद् बहुवचनम् । [ननु यजमानः अग्निर्भावी उद्देश्याग्निना समाननामरूपः कल्पान्तरे भवति । एवं 'रुद्रो वा अकामयत' विष्णुर्वा अकामयत' इत्यत्रापि तथा वक्तव्यम्, तदयुक्तम् । नहि अग्नेरिव विष्णुरुद्रयोरधिकारिपुरुषत्वम्, तयोः जगत्कारणत्वश्रवणात् । 'एक एव रुद्रो न' इति 'एको

रत्नप्रभाका अनुवाद

सम्भव भी है, इसलिए व्यवहार करनेवाली व्यक्तियों भी समान ही हैं, यह अर्थ है । सूत्रका योजना करते हैं—“समान” इत्यादिसे । भाविदृष्टिसे यजमान अग्नि है, उसने 'मैं अन्नभक्षक अग्नि होऊँ' ऐसी कामना की और कृत्तिका नक्षत्रके अभिमानी देव अग्निको आठ कपालोंमें बनाया हुआ पुरोडाश—हवि अर्पित किया । कृत्तिका नक्षत्र बहुत हैं, इसलिए 'कृत्तिकाभ्य' यहाँ बहुवचनका प्रयोग है । [यदि कोई कहे कि जैसे आगे अग्नि होनेवाला यजमान अर्थात् अग्नि अग्निके उद्देशसे हविका अर्पण करता है वह कल्पान्तरमें उस अग्निके समान नाम-रूपवाला होता है । इसी प्रकार 'रुद्रो वा०' 'विष्णुर्वा०' इत्यादि स्थलमें भी आगे रुद्र होनेवाले यजमानने कामना की, एव आगे विष्णु होनेवाले यजमानने कामना की, ऐसा ही अर्थ समझना चाहिए अर्थात् यजमान रुद्र तथा विष्णु भी हो सकता है, ऐसा मानना चाहिए । यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि रुद्र एव विष्णु अग्निके समान अधिकारी पुरुष नहीं है, किन्तु वे श्रुतिमें जगत्कारण कहे गये हैं । यदि ऐसा न मानें तो 'एक एव०' (रुद्र एक ही है, अनेक नहीं है), 'एको विष्णु'

भाष्य

श्रुतिरिहोदाहर्तव्या । स्मृतिरपि—

‘ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु दृश्यः ।
शर्वर्यन्ते प्रसूतानां तान्येवैभ्यो ददात्यजः ॥
यथर्तुष्वृतुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये ।
दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावायुगादिषु ॥
यथाभिमानिनोऽतीतास्तुल्यास्ते साम्प्रतैरिह ।
देवा देवैरतीतैर्हि रूपैर्नामभिरेव च ॥

इत्येवज्ञातीयका द्रष्टव्या ॥ ३० ॥

भाष्यका अनुवाद

समानताको दिखलाती है और यहां इस प्रकारकी दूसरी श्रुतियोंका उदाहरण देना चाहिए । ‘ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु दृश्यः । शर्वर्यन्ते प्रसूतानां तान्येवैभ्यो ददात्यजः ॥’ (ऋषियोंके जो नाम थे और वेदकी जो शक्ति थी, पुनः प्रलयके अन्तमें उत्पन्न होनेपर अजने—ब्रह्माने उन्हीं नामों और शक्तियोंको उन्हें दिया । जैसे भिन्न-भिन्न ऋतुओंमें भिन्न-भिन्न उनके चिह्न होते हैं और वे उन ऋतुओंके आनेपर दिखाई देते हैं, उसी प्रकार युगादिमें पदार्थ दिखाई देते हैं । चक्षुरादि इन्द्रियोंके अभिमानी अतीत देवताओंके समान ही इदानीन्तन देवता हैं और अतीत देवताओंके रूप और नामके समान ही उनके रूप और नाम भी हैं) इस प्रकारकी स्मृति भी प्रमाणरूपसे देखनी चाहिए ॥ ३० ॥

रत्नप्रभा

विष्णुः’इत्यादिश्रुतिस्मृतिविरोधादिति ।] स्मृतौ वेदेषु इति विषयसप्तमी, शर्वर्यन्ते—
प्रलयान्ते । ऋतुणाम्—वसन्तादीणाम्, लिङ्गानि—गणपरल्ल्यादीनि । पर्यये—
घटीयन्त्रवत् आवृत्तौ, भावाः—पदार्थाः, तुल्या इति शेषः । तस्माद् जन्मनाशवद्वि-
महाङ्गीकारेऽपि कर्मणि शब्दे च विरोधाभावाद् देवानाम् अस्ति विद्याधिकार
इति स्थितम् ॥ ३० ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

(विष्णु एक ही है) इत्यादि श्रुतिस्मृतियोंमें विरोध होगा ।] स्मृतिमें ‘वेदेषु यहां पर विषय सप्तमी है । वेदविषयक दृष्टि । ‘शर्वर्यन्ते’—प्रलयके अन्तमें । ऋतुओंके लिंग अर्थात् वसन्त आदिके नवपल्लव आदि चिह्न । ‘पर्यये’—घटीयंत्रके समान घूमनेमें । भावा—पदार्थ । ‘भावा.’ के बाद ‘तुल्या.’ इतना शेष समझना चाहिए । इससे सिद्ध हुआ कि जन्म और नाशवाले शरीरका अंगी-कार करनेपर भी कर्म और शब्दमें विरोध न होनेके कारण देवताओंका विद्यामें अधिकार है ॥ ३० ॥

मध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं जैमिनिः ॥ ३१ ॥

पदच्छेद—मध्वादिषु, असम्भवात्, अनधिकारम्, जैमिनिः ।

पदार्थोक्ति—मध्वादिषु—‘असौ वा आदित्यो देवमधु’ ‘आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः’ इत्यादिषु मधुब्रह्माध्यासेन आदित्योपासनेषु मनुष्याधिकारकेषु, असम्भवाद्—तेषामेवादित्यादीनामधिकारासम्भवात्, अनधिकारम्—ब्रह्मविद्यायां देवादीनामनधिकारं जैमिनिः [आचार्यो मन्यते]

भाषार्थ—मनुष्य जिनके अधिकारी हैं, ऐसे ‘असौ वा०’ (यह सूर्य देवताओंका मधु है), ‘आदित्यो०’ (आदित्य ब्रह्म है, यह उपदेश है) इत्यादि मधु एवं ब्रह्मके अध्याससे निहित आदित्यकी उपासना आदिमें उन्हीं आदित्य आदिका अधिकार नहीं हो सकता, इसलिए जैमिनि आचार्य मानते हैं कि ब्रह्मविद्यामें देवता आदिका अधिकार नहीं है ।

भाष्य

इह देवादीनामपि ब्रह्मविद्यायामस्त्यधिकार इति यत् प्रतिज्ञातम्, तत् पर्यावर्त्यते । देवादीनामनधिकारं जैमिनिराचार्यो मन्यते । कस्मात् ? मध्वादिष्वसम्भवात् । ब्रह्मविद्यायामधिकाराभ्युपगमे हि विद्यात्वाविशेषान्मध्वादिविद्यास्त्रप्यधिकारोऽभ्युपगम्येत । न चैवं सम्भवति । कथम् ? ‘असौ

भाष्यका अनुवाद

देवता आदिका भी ब्रह्मविद्यामें अधिकार है, ऐसी जो पहले प्रतिज्ञा की गई है, उसका यहांपर आक्षेप करते हैं । जैमिनि आचार्यका मत है कि देवता आदिका ब्रह्मविद्यामें अधिकार नहीं है, क्योंकि मधुविद्या आदिमें उनके अधिकारका सम्भव नहीं है । ब्रह्मविद्यामें देवताओंका अधिकार माननेपर मधुविद्या आदिमें भी उनका अधिकार मानना पड़ेगा, क्योंकि वे भी विद्या ही हैं । परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है, क्योंकि ‘असौ वा आदित्यो०’ (यह

रत्नप्रभा

आक्षिपति—मध्वादिष्विति । ब्रह्मविद्या देवादीनाधिकरोति, विद्यात्वात्, मध्वादिविद्यावदित्यर्थः । दृष्टान्तं विवृणोति—कथमित्यादिना । शुलोकस्त्ववंशदण्डे अन्तरिक्षरूपे मध्वपूपे स्थित आदित्यो देवानां मोदनाद् मध्विव मधु

रत्नप्रभाका अनुवाद

देवताओंका ब्रह्मविद्यामें अधिकारका आक्षेप करते हैं—‘मध्वादिषु’ इत्यादिसे । ब्रह्मविद्यामें देवताओंका अधिकार नहीं है, क्योंकि वह भी मधु आदि विद्याओंके समान विद्या है । दृष्टान्तका विवरण करते हैं—‘कथम्’ इत्यादिसे । शुलोक नामक वंश-दण्डमें अन्तरिक्षरूप मधुमाषिष्ठयोंके

भाष्य

वा आदित्यो देवमधु' (छा० ३।१।१) इत्यत्र मनुष्या आदित्यं मध्य-
ध्यासेनोपासीरन्, देवादिषु ह्यपासकेष्वभ्युपगम्यमानेष्वदित्यः कमन्य-
मादित्यमुपासीत । पुनश्चाऽऽदित्यव्यपाश्रयाणि पञ्च रोहितादीन्यमृतान्युप-
क्रम्य 'वसवो रुद्रा आदित्या मरुतः साध्याश्च पञ्च देवगणाः क्रमेण तत्त-
दमृतमुपजीवन्ति' इत्युपदिश्य 'स य एतदेवममृतं वेद वसूनामेवैको भूत्वाऽ-
ग्निर्नैव मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति' इत्यादिना वस्वाद्युपजीव्यान्यमृ-

भाष्यका अनुवाद

आदित्य निश्चय देवोंका मधु है) इसमें मधुके अध्याससे आदित्यकी उपासना
मनुष्य कर सकते हैं। परन्तु देवता आदिको भी यदि उपासक माना जाय, तो आदित्य
किस अन्य आदित्यकी उपासना करेगा ? और दूसरी बात यह भी है कि आदित्यमें
रहनेवाली रोहित आदि पाँच किरणें अमृत हैं, ऐसा उपक्रम कर वसु, रुद्र,
आदित्य, मरुत् और साध्य ये पाँच देवगण क्रमसे उन अमृतोंका उपभोग करते
हैं, ऐसा उपदेश करके 'स य एतदेवममृतं' (जो इस अमृतको जानता है, वह
वसुओंमेंसे एक होकर अग्निरूप मुखसे उसी अमृतका दर्शन करके तृप्त होता

रत्नप्रभा

इत्यारोप्य ध्यानं कार्यम् । तत्र आदित्यस्य अधिकारो न युक्तः, ध्यातृध्येयमेदाभावा-
दित्याह—देवादिष्विति । अस्तु वस्वादीनां तत्र अधिकार इति आशङ्क्य तेषामपि
च ध्येयत्वात् प्राप्यत्वाच्च न ध्यातृत्वमित्याह—पुनश्चेति । चतुर्वेदोक्तकर्माणि
प्रणवश्च इति पञ्चकुसुमानि । तेभ्यः सोमाज्यादिद्रव्याणि हुतानि लोहितशुक्लकृष्ण-
परकृष्णगोप्याख्यानि पञ्च अमृतानि तत्तन्मन्त्रभागैः प्रागाधूर्धान्तपञ्चदिगवस्थिताभिः
आदित्यरश्मिनाडीभिः मध्यपूपस्थितच्छिद्ररूपाभिः आदित्यमण्डलम् आनीतानि

रत्नप्रभाका अनुवाद

छातेमें स्थित आदित्य देवताओंके मधुके समान आनन्द देता है, इसलिए उसमें मधुका
आरोप करके उसकी उपासना करनी चाहिए । उस उपासनमें सूर्यका अधिकार नहीं हो सकता,
क्योंकि उपासक और उपास्यमें भेद नहीं है, ऐसा कहते हैं—“देवादिषु” इत्यादिसे । वसु
आदिका उभयमें अधिकार हो ऐसी आशङ्का करके “पुनश्च” इत्यादिसे कहते हैं कि वे भी उपास्य एवं
प्राप्य होनेके कारण उक्तविद्याके उपासक नहीं हो सकते हैं । चारों वेदोंमें कहे गये कर्म और प्रणव
ये पाँच पुष्प हैं, उन पुष्पोंसे होममन्त्ररूप मधुमाखियाँ हवन किये गये सोम, घृत आदि पदार्थ रूप
लोहित, शुक्ल, कृष्ण, अतिकृष्ण, गोप्य नामक पाँच अमृतोंको होम मन्त्रोंद्वारा पूर्व, पश्चिम, उत्तर,
दक्षिण और ऊर्ध्व इन पाँच दिशाओंमें स्थित मधुमाखियोंके छातेके छिद्ररूप सूर्यकी रश्मियोंद्वारा सूर्य-

भाष्य

तानि विजानतां वस्वादिमहिमप्राप्तिं दर्शयति । वस्वाद्यस्तु कानन्यान् वस्वादीनमृतोपजीविनो विजानीयुः, कं वाऽन्यं वस्वादिमहिमानं प्रेप्सेयुः ? तथा 'अग्निः पादो वायुः पाद आदित्यः पादो दिशः पादः' (छा० ३ । १८ । २), 'वायुर्वाव संवर्गः' (छा० ४ । ३ । १) 'आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः' (छा० ३ । ११ । १) इत्यादिषु देवतात्मोपासनेषु न तेषामेव देवतात्मनामधिकारः सम्भवति । तथा 'इमावेव गोतमभरद्वाजावयमेव भाष्यका अनुवाद

है) इस प्रकार श्रुति वसु आदिके उपभोग्य अमृतोंको जाननेवालोंके लिए वसु आदिकी महिमाकी प्राप्ति दिखलाती है । परन्तु वसु आदि अमृतका उपभोग करनेवाले किन अन्य वसु आदिकोंका विज्ञान प्राप्त करेंगे ? अथवा किस अन्य वसु आदिकी महिमाको प्राप्त करना चाहेंगे ? उसी प्रकार 'अग्निः पादो वायुः०' (अग्नि पाद है, वायु पाद है, आदित्य पाद है, दिशाएँ पाद हैं), 'वायुर्वाव संवर्गः' (निश्चय वायु संवर्ग है), 'आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः' (आदित्य ब्रह्म है, ऐसा आदेश है) इत्यादि देवतात्मक उपासनाओंमें उसी देवतात्माका अधिकार सम्भव नहीं है । उसी प्रकार 'इमावेव गोतमभरद्वाजा०' (ये ही

रत्नप्रभा

यशस्तेजइन्द्रियवीर्यान्नात्मना परिणतानि पञ्चदिक्षु स्थितैः वस्वादिभिः उपजीव्यानीति ध्यायतां वस्वादिप्राप्तिरुक्ता इत्यर्थः । सूत्रस्थादिपदार्थमाह—तथाग्निरिति । आकाश-ब्रह्मणः चत्वारः पादाः, द्वौ कर्णौ, द्वे नेत्रे, द्वे नासिके, एका वागिति सप्तसु इन्द्रियेषु शिरश्चमसतीरस्थेषु सप्तर्षिध्यानं कार्यमित्याह—तथेमावेवेति । अयं दक्षिणः कर्णः

रत्नप्रभाका अनुवाद

मण्डलमें ले जाती हैं और वहाँ वे यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अक्षरूपमें परिणत होकर पाँच दिशाओंमें स्थित वसु आदि देवताओंके उपभोग्य होते हैं । इस प्रकार ध्यान करनेवाले मनुष्यके लिए वसु आदिकी प्राप्ति कही गई है । सूत्रस्थ आदिपदका अर्थ कहते हैं—“तथाग्निः” इत्यादिसे । इस आकाशरूप ब्रह्मके चार पाद हैं, मस्तकरूप चमस—यशपानके तीरमें स्थित दो कर्ण, दो नेत्र, दो नासिका और एक वाणारूप सात इन्द्रियोंमें सप्तर्षियोंका ध्यान करे, ऐसा कहते हैं—“तथेमावेव” इत्यादिसे । अयम्—यह दक्षिण कर्ण गोतम है, वामकर्ण भरद्वाज है, दक्षिण

(१) 'इदं वै तच्छिर एष ह्यशोम्बिल ऊर्ध्वदुप्रश्चमसः' इस प्रकार मुखको चमस कहकर 'तस्याऽऽसत ऋषयः सप्त तीरे' इससे सात ऋषियोंको मुँहसम्बन्धी कहकर उसका विवरण करनेके लिए यह वाक्य प्रवृत्त हुआ है । चमसके नीचे बिल एवं ऊपर गोल होता है, इसी प्रकार हम मस्तकमें भी नीचे मुँहरूप बिल है एवं ऊपर गोलकार है, अतः वह भी चमस कहा गया है ।

भाष्य

गोतमोऽयं भरद्वाजः' (वृ० २ । २ । ४) इत्यादिष्वप्यपिसम्बन्धेषु-
पासनेषु न तेषामेवर्षाणामधिकारः सम्भवति ॥ ३१ ॥

कुतश्च देवादीनामनधिकारः ?

भाष्यका अनुवाद

गोतम और भरद्वाज हैं), इत्यादि ऋषि सम्बन्धी उपासनाओंमें उन्हीं ऋषियोंका
अधिकार सम्भव नहीं हो सकता ॥ ३१ ॥

और किससे देवता आदिका अनधिकार है ?

रत्नप्रभा

गोतमः, वामः भरद्वाजः, एवं दक्षिणनेत्रनासिके विश्वामित्रवसिष्ठौ, वामे जमदग्नि-
कश्यपौ, वागन्निरित्यर्थः । अत्र ऋषीणां ध्येयत्वाद् न अधिकारः ॥ ३१ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

नेत्र विश्वामित्र है, दक्षिण नासिका वसिष्ठ है, वाम नेत्र जमदग्नि है, वाम नासिका कश्यप
है और वाणी अग्नि है । इस प्रकार ऋषियोंके ध्येय होनेसे उनका भी अधिकार नहीं है ॥३१॥

ज्योतिषि भावाच्च ॥ ३२ ॥

पदच्छेद—ज्योतिषि, भावात्, च ।

पदार्थोक्ति—ज्योतिषि—अलौकिकयोः आदित्यशब्दप्रत्यययोः ज्योति-
र्मण्डले, भावाच्च—प्रयोगात् [तेषाम् अचेतनत्वात् तदतिरिक्तस्य चेतनस्य विग्रहादि-
मतः प्रत्यक्षाद्यगोचरत्वात् तद्विग्रहप्रतिपादकानां मन्त्राणाम् अन्यपरत्वेन स्वार्थे
प्रामाण्याभावात् न देवानां विद्याधिकारः] ।

भाषार्थ—दृश्यमान ज्योतिर्मण्डलमें वैदिक आदित्यशब्दका प्रयोग और
आदित्यकी प्रतीति होती है, वे मण्डल आदि अचेतन हैं, उनसे भिन्न शरीर
आदिसे युक्त चेतन प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे ज्ञात नहीं है, अतः आदित्य आदिके
शरीरका प्रतिपादन करनेवाले मंत्र अन्यपरक हैं, उनका अपने अर्थमें प्रामाण्य
नहीं है, इसलिए देवता आदिके शरीर सिद्ध न होनेसे उनका विद्यामें अधिकार
नहीं है ।

भाष्य

यदिदं ज्योतिर्मण्डलं द्युस्थानमहोरात्राभ्यां वम्भ्रमज्जगदवभासयति, तस्मिन्नादित्यादयो देवतावचनाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते, लोकप्रसिद्धेर्वाक्य-शेषप्रसिद्धेश्च । न च ज्योतिर्मण्डलस्य हृदयादिना विग्रहेण चेतनतयाऽर्थित्वादिना वा योगोऽवगन्तुं शक्यते, मृदादिवदचेतनत्वावगमात् । एतेनाऽग्न्यादयो व्याख्याताः ।

भाष्यका अनुवाद

शुलोकमें रहनेवाला जो यह ज्योतिर्मण्डल दिन रात पुनः पुनः भ्रमण करता हुआ जगत्को प्रकाशित करता है, उसमें आदित्य आदि देवतावाचक शब्द प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि ऐसी लोकप्रसिद्धि है और वाक्यशेषसे भी यही सिद्ध होता है । ज्योतिर्मण्डलका हृदय आदि शरीरके साथ अथवा चेतना और कामना आदिके साथ सम्बन्ध नहीं माना जा सकता, क्योंकि मृत्तिका आदिके समान वे अचेतन हैं ऐसा ज्ञात होता है । यही प्रकार अग्नि आदिके विषयमें भी समझना चाहिये ।

रत्नप्रभा

किञ्च, विग्रहाभावात् देवादीनां न कापि अधिकार इत्याह—ज्योतिषि भावा-चेति । आदित्यः, सूर्यः, चन्द्र, शुक्रः, अङ्गारक इत्यादिशब्दानां ज्योतिःपिण्डेषु प्रयोगस्य भावात्—सत्त्वात् न विग्रहवान् देवः कश्चिदस्ति इत्यर्थः । “आदित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता” [छा० ३ । ४ । ६] इति मधुविद्यावाक्यशेषे ज्योतिषि एव आदित्यशब्दः प्रसिद्धः । तर्हि ज्योतिःपिण्डानामेव अधिकारोऽस्तु, तत्राऽऽह—न चेति । अग्न्यादीनाम् अधिकारम् आशङ्क्य आह—एतेनेति । अग्निः, वायुः, भूमिः इत्यादिशब्दानाम् अचेतनवाचित्वेन इत्यर्थः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

और शरीर न होनेसे देवता आदिका कहीं भी अधिकार नहीं है । ऐसा कहते हैं—“ज्योतिषि भावाच्च” इससे । अर्थात् आदित्य, सूर्य, चन्द्र, शुक्र और भौम इत्यादि शब्दोंका प्रयोग ज्योतिर्मण्डल—पिण्डाकार प्रकाशमान पदार्थोंमें है, इसलिए कोई भी देव शरीरी नहीं है । “आदित्यः पुरस्तात्” (आदित्य पूर्वदिशामें उदय होता है, पश्चिममें अस्त होता है) इस मधुविद्यावाक्यशेषमें आदित्यशब्दका प्रयोग ज्योतिर्में ही प्रसिद्ध है । तब ज्योतिर्मण्डलका ही अधिकार हो, इसपर कहते हैं—“न च” इत्यादि । अग्नि आदिका विद्यामें अधिकार हो, ऐसी आशङ्का करके कहते हैं—“एतेन” इत्यादि । अर्थात् आदित्य-शब्दकी भाँति अग्नि, वायु, भूमि इत्यादि शब्दोंके अचेतनवाचक ही होनेके कारण ।

भाष्य

स्यादेतत् । मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणलोकेभ्यो देवादीनां विग्रहवच्चा-
द्यवगमादयमदोष इति चेत्, नेत्युच्यते । नहि तावल्लोको नाम किञ्चित्
स्वतन्त्रं प्रमाणमस्ति, प्रत्यक्षादिभ्य एव ह्यव्यभिचरितविषयेभ्यः प्रमाणेभ्यः
प्रसिद्ध एव अर्थो लोकात् प्रसिद्ध इत्युच्यते । न चाऽत्र प्रत्यक्षादीनामन्य-
तमं प्रमाणमस्ति । इतिहासपुराणमपि पौरुषेयत्वात् प्रमाणान्तरमूलतामा-

भाष्यका अनुवाद

मन्त्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण और लोकव्यवहारसे प्रतीत होता है
कि देवता आदिके शरीर हैं, इससे यह दोष नहीं है, ऐसी यदि शङ्का हो तो
उसपर कहते हैं कि वह ठीक नहीं है, क्योंकि लोक कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं
है । यथार्थतः पदार्थका ज्ञान करानेवाले प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे प्रसिद्ध हुआ
अर्थ ही लोकप्रसिद्ध कहा जाता है । देवताओंका शरीर है इस विषयमें प्रत्यक्ष
आदिमेंसे कोई भी प्रमाण नहीं है । इतिहास और पुराण भी पुरुषप्रणीत

रत्नप्रभा

सिद्धान्ती शङ्कते—स्यादेतदित्यादिना । “वज्रहस्तः पुरन्दरः” इत्यादयः
मन्त्राः । “सोऽरोदीत्” इत्यादयः अर्थवादाः ।

‘इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ।’

‘ते तृप्तास्तर्पयन्त्येनं सर्वकामफलैः शुभैः ॥’

इत्यादीनि इतिहासपुराणानि । लोकेऽपि यमं दण्डहस्तं लिखन्ति, इन्द्रं वज्र-
हस्तमिति विग्रहादिपञ्चकसद्भावाद् अनधिकारदोषो नास्तीत्यर्थः । “विग्रहो
हविषां भोग ऐश्वर्यञ्च प्रसन्नता । फलप्रदानमित्येतत् पञ्चकं विग्रहादिकम् ॥”

मानाभावाद् एतद् नास्तीति दूषयति—नेत्यादिना । न चाऽनेति । विग्रहादौ

रत्नप्रभाका अनुवाद

पूर्वपक्षपर सिद्धान्ती शङ्का करते हैं—“स्यादेतत्” इत्यादिसे । “वज्रहस्तः पुरन्दरः” (वज्रको
हाथमें लिया हुआ इन्द्र) इत्यादि मंत्र हैं । “सोऽरोदीत्” (वह रोया) इत्यादि अर्थवाद हैं ।
‘इष्टान् भोगान् हि वो देवा’ (यज्ञसे सन्तुष्ट हुए देवता तुमको इष्ट भोग देंगे) ‘ते तृप्ता-
स्तर्पयन्त्येनं’ (तृप्त हुए वे सब कामनाओंके शुभ फलोंसे इसको तृप्त करेंगे) इत्यादि इतिहास
और पुराणवाक्य हैं । और लोकमें भी चित्रकार यमको दण्डहस्त-हाथमें दण्ड लिया हुआ
और इन्द्रको वज्रहस्त बनाते हैं । इस प्रमाणसे विग्रह—शरीर आदि पांच धर्म होनेसे
देवताओंका विद्यामें अधिकार कहा जा सकता है । ‘विग्रहो हविषां भोगः’ (शरीर, यज्ञीय-
द्रव्यका उपभोग, ऐश्वर्य, प्रसन्नता और फलदान, ये पांच विग्रह आदि धर्म हैं) । सिद्धान्तीकी
इस शङ्कामें पूर्वपक्षी “न” इत्यादिसे दोष निकालता है कि प्रमाण न होनेसे ऐसा नहीं है ।

भाष्य

काङ्क्षति । अर्थवादा अपि विधिनैकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थाः सन्तो न पार्थगर्थेन देवादीनां विग्रहादिसद्भावे कारणभावं प्रतिपद्यन्ते । मन्त्रा अपि श्रुत्यादिविनियुक्ताः प्रयोगसमवायिनोऽभिधानार्था न कस्यचिदर्थस्य प्रमाणमित्याचक्षते । तस्माद्भावो देवादीनामधिकारस्य ॥ ३२ ॥

भाष्यका अनुवाद .

होनेसे मूलभूत अन्य प्रमाणकी अपेक्षा रखते हैं । अर्थवाद भी विधिके साथ एकवाक्यताके कारण स्तुत्यर्थक ही हैं, स्वतन्त्रतासे देवता आदिके शरीरका प्रतिपादन करनेमें समर्थ नहीं हो सकते । श्रुति आदि छः लिङ्ग जिनका विनियोग बतलाते हैं, वे मन्त्र भी प्रयोगके साथ सम्बन्ध रखनेवाले अर्थका अभिधान करते हैं, स्वतन्त्रतासे किसी भी अर्थमें प्रमाण नहीं हैं, ऐसा मीमांसक कहते हैं । इसलिए विद्यामें देवता आदिका अधिकार नहीं है ॥ ३२ ॥

रत्नप्रभा

इत्यर्थः । अर्थवादाः मन्त्रा वा मूलमित्याशङ्क्याऽऽह—अर्थवादा इत्यादिना । ब्रीह्यादिवद् प्रयोगविधिगृहीता मन्त्राः प्रयोगसम्बन्धाभिधानार्थाः नाऽज्ञात-विग्रहादिपरा इति मीमांसका आचक्षते इत्यर्थः । तस्माद् विग्रहाभावादित्यर्थः ॥ ३२ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

“न चाऽत्र” इत्यादि । अत्र—शरीर आदिमें । अर्थवाद मूल है या मन्त्र ? ऐसी आशङ्का करके कहते हैं—“अर्थवादा” इत्यादिसे । ब्रीहि (धान्य) आदिके समान प्रयोगविधिमें गृहीत मन्त्र प्रयोगसे संबद्ध अर्थके प्रतिपादक हैं, अज्ञात शरीर आदिके प्रतिपादक नहीं हैं, ऐसा मीमांसक कहते हैं—यह अर्थ है । तस्माद्—शरीर न होनेसे ॥ ३२ ॥

भावं तु वादरायणोऽस्ति हि ॥ ३३ ॥

पदच्छेद—भावम्, तु, वादरायणः, अस्ति, हि ।

पदार्थोक्ति—वादरायणस्तु [आचार्यः] भावम्—देवादीनामपि निर्गुणब्रह्म-विद्यायामधिकारं [मनुते], हि—यतः, अस्ति—देवताविग्रहप्रतिपादकमन्त्रादीनां प्रमाणान्तराविरोधेन स्वार्थे प्रामाण्यात् तेषामपि आर्थत्वाद्यधिकारकारणमस्ति ।

भाषार्थ—वादरायण आचार्य तो देवता आदिका भी निर्गुणब्रह्मविद्यामें अधिकार मानते हैं, क्योंकि देवता आदिके शरीरके प्रतिपादक मंत्र आदिका, अन्य प्रमाणसे विरोध न होनेके कारण, स्वार्थमें प्रामाण्य है, अतः देवता आदिके शरीरी होनेसे अधिकारके कारण आर्थत्व आदि हैं ।

भाष्य

तुशब्दः पूर्वपक्षं व्यावर्तयति । वादरायणस्तत्राचार्यो भावमधिकारस्य देवादीनामपि मन्यते । यद्यपि मध्नादिविद्यासु देवतादिव्यामिश्रास्व-सम्भवोऽधिकारस्य, तथाप्यस्ति हि शुद्धायां ब्रह्मविद्यायां सम्भवः, अर्थित्सामर्थ्याप्रतिषेधाद्यपेक्षत्वादधिकारस्य । न च क्वचिदसम्भव इत्येतावता यत्र सम्भवस्तत्राप्यधिकारोऽप्योद्येत, मनुष्याणामपि न सर्वेषां ब्राह्मणादीनां मर्तेषु राजसूयादिष्वधिकारः सम्भवति । तत्र यो न्यायः सोऽत्राऽपि भविष्यति । ब्रह्मविद्यां च प्रकृत्य भवति लिङ्गदर्शनं श्रौतं देवाद्य-

भाष्यका अनुवाद

तुशब्द पूर्वपक्षका निराकरण करता है । वादरायण आचार्यका मत है कि देवता आदिका भी विद्यामे अधिकार है । यद्यपि देवता आदिसे सम्बन्ध रखनेवाली मधु-विद्या आदिमें देवता आदिके अधिकारका असम्भव है, तो भी शुद्ध ब्रह्मविद्यामे उनका अधिकार हो सकता है, क्योंकि अधिकारके कारण कामना, सामर्थ्य, प्रतिषेधका अभाव आदि हैं । फहीं असम्भव होनेसे ही जहा सम्भव है, वहा भी अधिकारका निषेध नहीं हो सकता । मनुष्योंमें भी सब ब्राह्मण आदिका सब राजसूय आदिमे अधिकार नहीं हो सकता । वहापर जो न्याय है, उसीका यहा भी अवलम्बन करना चाहिए । ब्रह्मविद्याके प्रकरणमे देवता आदिका अधिकार

रत्नप्रभा

सूत्राभ्या प्राप्त पूर्वपक्ष निरस्यति—तुशब्द इत्यादिना । ब्रह्मविद्या देवा-दीन् नाऽधिकरोति, विद्यात्वात्, मध्नादिविद्यावत्, इति उक्तहेतु अप्रयोजक इत्याह—यद्यपीति । दर्शादिक न ब्राह्मणमधिकरोति, कर्मत्वाद्, राजसूयादिवद्, इति आभाससाम्य विद्यात्वहेतोराह—न चेति । यत्र यस्याऽधिकार सम्भवति, स तत्र अधिकारीति न्याय तुल्य इत्यर्थः । यत सर्वेषा सर्वत्र अधिकारो न सम्भवति,

रत्नप्रभाका अनुवाद

दो सूत्रोंसे प्राप्त पूर्वपक्षका निरसन करते हैं—“तुशब्द” इत्यादिते । ब्रह्मविद्या देवताओंके अधिकारके बाहर है, विद्या होनेसे, मधुविद्या आदिके समान, ऐसा जा पीछे कहा गया है, उसमे ‘विद्या होनेसे’ यह हेतु अप्रयोजक है, ऐसा कहते हैं—“यद्यपि” इत्यादिते । दर्श आदि कर्म ब्राह्मणके अधिकारके बाहर है, कर्म होनेसे, राजसूय आदिके समान, इसमें जैसे कर्मत्व हेतु अप्रयोजक है—सदेतु नहीं है, किन्तु हेत्वाभास है, उसी प्रकार विद्यात्व भी हेत्वाभास है, ऐसा कहते हैं—‘न च’ इत्यादिते । तात्पर्य यह कि जिसका जिसमें अधिकार सम्भव है, वह उसमें अधिकारी है, यह न्याय समान है । सबका सबमें अधिकार सम्भव नहीं है, इससे

भाष्य

धिकारस्य सूचकम्—‘तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्तथ-
र्षीणां तथा मनुष्याणाम्’ (बृ० १ । ४ । १०) इति ‘ते होचुर्हन्त तमा-
त्मनमन्विच्छामो यमात्मानमन्विष्य सर्वांश्च लोकानाप्नोति सर्वांश्च कामा-
नितीन्द्रो ह वै देवानामभिप्रवत्राज विरोचनोऽसुराणाम्’ (छा० ८।७।२)
इत्यादि च । स्मार्तमपि गन्धर्वयाज्ञवल्क्यसंवादादि ।

भाष्यका अनुवाद

सूचित करनेवाली ‘तद्यो यो देवानां०’ (देवताओं, ऋषियों और मनुष्योंमें
जिस-जिसको ब्रह्मका प्रत्यक् रूपसे ज्ञान हुआ, वही ब्रह्म हो गया) यह श्रुति
है । और ‘ते होचुर्हन्त तमात्मानमन्विच्छामो०’ (उन्होंने कहा कि हम उस
आत्माकी खोज करते हैं, जिसके ज्ञानसे सब लोकों और कामोंकी प्राप्ति होती
है ऐसा परामर्श करके देवताओंमें इन्द्र और असुरोंमें विरोचन ब्रह्म विद्याके
लिए प्रजापतिके पास गये) इत्यादि श्रुतियाँ भी हैं । गन्धर्व और याज्ञवल्क्यके
संवाद आदि स्मृतियाँ भी हैं ।

रत्नप्रभा

ततो न चाऽपोद्येत इत्यन्वयः । तत्—ब्रह्म यो यः देवादीनां मध्ये प्रत्यक्त्वेन
अबुध्यत, स तत् ब्रह्म अभवदित्यर्थः । ते ह देवाः ऊचुः अन्योन्यम्, ततः
इन्द्रविरोचनौ सुरासुरराजौ प्रजापतिं ब्रह्मविद्याप्रदं जगत्पुरिति च लिङ्गान्तरमस्ति-
इत्यर्थः । किमत्र ब्रह्मामृतमिति गन्धर्वप्रश्ने याज्ञवल्क्य उवाच तमिति मोक्षधर्मेषु
श्रुतं देवादीनाम् अधिकारलिङ्गमित्याह—स्मार्तमिति । यथा बालानां गोलकेषु
चक्षुरादिपदप्रयोगेऽपि शास्त्रज्ञैर्गोलकातिरिक्तेन्द्रियाणि स्वीक्रियन्ते, तथा ज्योतिरादौ

रत्नप्रभाका अनुवाद

‘न च अपोद्येत’ ऐसा अन्वय है । तत्—ब्रह्मको उन देवताओंमें जिस-जिसने आत्मारूपसे जाना
वह ब्रह्म ही हो गया, ऐसा अर्थ है । देवता और असुरोंने परस्पर विचार किया, तब विद्याप्रद
करनेके लिए सुर और असुरोंके राजा इन्द्र और विरोचन ब्रह्मविद्याके देनेवाले प्रजापतिके
पास गये, यह भी देवताओंके अधिकारी होनेमें प्रमाण है । ब्रह्म क्या है, ऐसा गन्धर्वने
याज्ञवल्क्यसे प्रश्न किया और याज्ञवल्क्यने उसका उत्तर दिया, ऐसा मोक्षधर्ममें जनक और
याज्ञवल्क्यका संवाद है, इससे भी देवता आदिषु ब्रह्मविद्यामें अधिकार है, यह समझा जाता है,
ऐसा कहते हैं—“स्मार्तम्” इत्यादिते । जैसे पामरके नेत्रगोलकमें नेत्रपदका प्रयोग करनेपर
भी शास्त्रेयता गोलकसे भिन्न इन्द्रियों स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार ज्योति आदिमें सूर्य आदि

भाष्य

यदप्युक्तम्—ज्योतिषि भावाच्च' इति । अत्र ब्रूमः—ज्योतिरादिविषया अपि आदित्यादयो देवतावचनाः शब्दाश्चेतनावन्तमैश्वर्याद्युपेतं तं तं देवतात्मानं समर्पयन्ति, मन्त्रार्थवादादिषु तथा व्यवहारात् । अस्ति ह्यैश्वर्ययोगाद् देवतानां ज्योतिराद्यात्ममिथ्याऽवस्यातुं यथेष्टं च तं तं विग्रहं ग्रहीतुं सामर्थ्यम् । तथा हि श्रूयते सुब्रह्मण्यार्थवादे—मेधातिथेर्मेपेति, 'मेधातिथिं ह काण्वायनमिन्द्रो मेपो भूत्वा जहार' (पद्विंश० ब्रा० १ । १)

भाष्यका अनुवाद

'ज्योतिषि भावाच्च' जो सूत्र कहा गया है, उसपर हम कहते हैं—ज्योतिर्मण्डल आदिमें प्रयुक्त होनेपर भी देवतावाचक आदित्य आदि शब्द चेतनवाले ऐश्वर्यशाली उन-उन देवताओंका बोध कराते हैं, क्योंकि मन्त्र, अर्थवाद आदिमें ऐसा व्यवहार है । ऐश्वर्यके योगसे देवता ज्योतिर्मण्डल बन सकते हैं और अपनी इच्छानुसार अनेक शरीर भी धारण कर सकते हैं । क्योंकि 'मेधातिथि०' (इन्द्रने भेद बनकर कण्वके पुत्र मेधातिथिका हरण किया) इस श्रुतिके अनुसार सुब्रह्मण्य अर्थवादमें इन्द्रके प्रति 'मेधातिथिका मेप' ऐसा संबोधन है । 'आदित्यः पुरुषो

रत्नप्रभा

सूर्यादिशब्दप्रयोगेऽपि विग्रहवद्देवताः स्वीकार्या इत्याह—ज्योतिरादीति । तथा—चेतनत्वेन व्यवहारादित्यर्थः । एकस्य जडचेतनोभयरूपत्वं कथम् ? तत्राऽऽह—अस्ति हीति । तथा हि विग्रहवत्तया देवव्यवहारः श्रूयते । सुब्रह्मण्यः उद्गातृगणस्यः ऋत्विक् तत्सम्बन्धी योऽर्थवादः 'इन्द्र आगच्छ' इत्यादिः, तत्र मेधातिथेर्मेप । इति इन्द्रसम्बोधनं श्रुतम्, तद् व्याचष्टे—मेधेति । मुनिं मेपो भूत्वा जहारेति ज्ञापनार्थं मेप ! इति इन्द्रसम्बोधनमित्यर्थः । यदुक्तम्—आदित्यादयो मृदादिवद्

रत्नप्रभाका अनुवाद

शब्दोंका प्रयोग होनेपर भी विग्रहयुक्त देवताका स्वीकार करना चाहिए, ऐसा कहते हैं—'ज्योतिरादि' इत्यादिसे । 'तथा'—चेतनरूपसे व्यवहार होनेके कारण । परन्तु एकमें ही जड़ और चेतनरूपसे व्यवहार किस प्रकार हो सकता है, इसपर कहते हैं—'अस्ति हि' इत्यादि । इसी प्रकार शरीररूपसे देवताओंका व्यवहार सुना जाता है । 'सुब्रह्मण्य'—उद्गाताओंमेंसे एक ऋत्विक् । उसके संबन्धका 'इन्द्र आगच्छ' इत्यादि जो अर्थवाद है, वह सुब्रह्मण्यार्थवाद है । उसमें 'मेधातिथेर्मेप' ऐसा इन्द्रका सम्बोधन है, उसका व्याख्यान करते हैं—'मेधा' इत्यादिसे । इन्द्र मेप बनकर मुनिकी ले गया, ऐसा बतलानेके लिए 'मेप' यह इन्द्रका संबोधन है, ऐसा अर्थ है । आदित्य आदि ऋषिका आदिके समान अचेतन ही

भाष्य

इति । स्मर्यते च—‘आदित्यः पुरुषो भूत्वा कुन्तीमुपजगाम ह’ इति । मृदादिष्वपि चेतना अधिष्ठातारोऽभ्युपगम्यन्ते—‘मृदन्नवीदापोऽन्नवन्’ (ज० ब्रा० ६ । १ । ३ । २ । ४) इत्यादिदर्शनात् । ज्योतिरादेस्तु भूतधातोरदित्यादिष्वप्यचेतनत्वमभ्युपगम्यते, चेतनास्त्वधिष्ठातारो देवतात्मानो मन्त्रार्थवादादिषु व्यवहारादित्युक्तम् ।

यदप्युक्तम्—मन्त्रार्थवादयोरन्यार्थत्वाच्च देवताविग्रहादिप्रकाशनसामर्थ्यम् इति । अत्र ब्रूमः—प्रत्ययाप्रत्ययौ हि सद्भावासद्भावयोः कारणम् ,

भाष्यका अनुवाद

भूत्वा’ (आदित्य पुरुष बन कर कुन्तीके पास गया) ऐसी स्मृति भी है । मृत्तिका आदिमें भी चेतन अधिष्ठाता माने जाते हैं, क्योंकि ‘मृदन्नवीत्’ (मृत्तिका बोली) ‘आपोऽन्नवन्’ (जल बोला) इत्यादि श्रुतियाँ देखी जाती हैं । आदित्य आदिमें भी ज्योतिर्मण्डलरूप भूतांश अचेतन माना जाता है, किन्तु मंत्र, अर्थवाद आदिके व्यवहारसे देवतात्मा अधिष्ठाता चेतन ही हैं ऐसा कहा गया है ।

मंत्र और अर्थवाद अन्यार्थक—अन्य अर्थके प्रतिपादक हैं, अतः उनमें देवताके विग्रह आदिपर प्रकाश डालनेकी सामर्थ्य नहीं है, ऐसा जो कहा है, उसपर कहते हैं—वस्तुके सद्भाव और असद्भावके प्रति उसकी प्रतीति और

रत्नप्रभा

अचेतना एव इति । तत् न, सर्वत्र जडाजडांशद्वयसत्त्वात् इत्याह—मृदिति । आदित्यादौ को जडभागः कः चेतनांश इति, तत्राऽऽह—ज्योतिरादेस्त्वात् । मन्त्रादिकं पदशक्त्या भासमानविग्रहादौ स्वार्थे न प्रमाणम्, अन्यपरत्वात्, विषं मुद्क्ष्व इति वाक्यवदित्याह—यदपीति । अन्यपरादपि वाक्याद् वाधाभावे स्वार्थो ग्राह्य इत्याह—अत्र ब्रूम इति । तात्पर्यशून्येऽपि अर्थे प्रत्ययमात्रेण अस्तित्वमुदा-

रत्नप्रभाका अनुवाद

है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, यह युक्त नहीं है, क्योंकि सर्वत्र ही जड़ और चेतन दो अंश हैं, ऐसा कहते हैं—“मृद्” इत्यादिते । आदित्य आदिमें कौन जड़ भाग है और कौन चेतन भाग है ? इसपर कहते हैं—“ज्योतिरादेस्तु” इत्यादि । मंत्र आदि पदशक्तिके भासमान विग्रह आदि जो स्वार्थ है, उसमें प्रमाण नहीं है, क्योंकि ‘विषं मुद्क्ष्व’ (विष खाओ) वाक्यके समान अन्यार्थक है, ऐसा कहते हैं—“यदपि” इत्यादिते । अन्यपरक वाक्यों भी यदि बाध न हो, तो स्वार्थका ग्रहण करना चादिए, ऐसा कहते हैं—“अत्र ब्रूमः” इत्यादिते ।

भाष्य

नाऽन्यार्थत्वमनन्यार्थत्वं वा । तथा ह्यन्यार्थमपि प्रस्थितः पथि पतितं
 तृणपर्णाद्यस्तीत्येव प्रतिपद्यते । अत्राऽऽह—विषम उपन्यासः । तत्र हि तृण-
 पर्णादिविषयं प्रत्यक्षं प्रवृत्तमस्ति, येन तदस्तित्वं प्रतिपद्यते । अत्र पुनर्विध्यु-
 देशैकवाक्यभावेन स्तुत्यर्थेऽर्थवादे न पार्थगर्थ्येन वृत्तान्तविषया प्रवृत्तिः
 शक्याऽध्यवसातुम् । नहि महावाक्येऽर्थप्रत्यायकेऽवान्तरवाक्यस्य पृथक्-
 प्रत्यायकत्वमस्ति । 'तथा न सुरां पिबेत्' इति नञ्वति वाक्ये पदत्रय-
 सम्बन्धात् सुरापानप्रतिषेध एवैकोऽर्थोऽवगम्यते, न पुनः सुरां पिबेदिति

भाष्यका अनुवाद

अप्रतीति कारण है, किन्तु उसके वाचक पदका अन्यार्थकत्व या अनन्यार्थकत्व
 कारण नहीं है । जैसे कि किसी प्रयोजनके लिए निकले हुए पुरुषको मार्गमें पड़े
 हुए घास-पत्तों आदि की प्रतीति होती है—इसपर कहते हैं कि जो दृष्टान्त दिया
 गया है, वह विषम है । वहां तो घास, पत्ते आदिका प्रत्यक्ष होता है । उससे
 उसके अस्तित्वकी प्रतीति होती है । परन्तु यहां तो विधिवाक्यके साथ एक-
 वाक्यता प्राप्त करनेसे अर्थवाद स्तुत्यर्थक है, अतः स्वतन्त्रतया वह भूतार्थका प्रति-
 पादक है ऐसा निश्चय नहीं हो सकता । अर्थकी प्रतीति करानेवाले महावाक्यमें
 अवान्तरवाक्य मित्र अर्थकी प्रतीति नहीं करा सकता । जैसे कि 'न सुरां पिबेत्'
 (सुरा न पीवे) इस नकारवाले वाक्यमें तीन पदोंके सम्बन्धसे सुरापानका
 प्रतिषेधरूप एकही अर्थ प्रतीत होता है, 'सुरां पिबेत्' (सुरा पीवे) इन दो

रत्नप्रभा

हरति—तथा हीति । तृणादौ प्रत्ययोऽस्ति विग्रहादौ स नाऽस्तीति वैषम्यं
 शङ्कते—अत्राऽऽहेति । विध्युदेशः—विधिवाक्यम्, तदेकवाक्यतया प्रशस्तो
 विधिः इत्येव अर्थवादेऽपु प्रत्ययः । वृत्तान्तः—भूतार्थो विग्रहादिः, तद्विषयः प्रत्ययो
 नाऽस्ति इत्यर्थः । ननु अवान्तरवाक्येन विग्रहादिप्रत्ययोऽस्ति इत्यत आह—नहीति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

जिस अर्थमें तात्पर्य नहीं है, वह अर्थ भी प्रतीतिमात्रसे सिद्ध होता है, इस विषयमें उदाहरण
 देते हैं—“तथाहि” इत्यादिसे । परन्तु तृण आदिमें प्रत्यय—प्रत्यक्षप्रमाण है, शरीर
 आदिमें नहीं है, इस प्रकार दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिकमें वैषम्यको शंका करते हैं—“अत्राह”
 इत्यादिसे । विध्युदेश—विधिवाक्य, वाक्यैकवाक्यतासे विधिकी प्रशंसाका ज्ञान अर्थवादमें
 होता है, वृत्तान्त—सिद्धार्थ विग्रह आदिका ज्ञान नहीं होता यह भाव है । यदि कोई कहे कि
 अवान्तरवाक्यार्थसे विग्रह आदिका ज्ञान हो, इसपर कहते हैं—“नहि” इत्यादि । आशय

भाष्य

पदद्वयसम्बन्धात् सुरापानविधिरपीति । अत्रोच्यते—विषम उपन्यासः । युक्तं यत्सुरापानप्रतिषेधे पदान्वयस्यैकत्वादवान्तरवाक्यार्थस्याऽग्रहणम्, विध्युद्देशार्थवादयोस्त्वर्थवादस्थानि पदानि पृथगन्वयं वृत्तान्तविषयं प्रतिपद्याऽनन्तरं कैमर्थ्यवशेन कासं विधेः स्तावकत्वं प्रतिपद्यन्ते । यथा हि—‘वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिक्रामः’ इत्यत्र विध्युद्देशवर्तिनां

भाष्यका अनुवाद

पदोंके सम्बन्धसे सुरापानकी विधिकी प्रतीति नहीं होती । यहां कहते हैं—
दृष्टान्त विषम है । सुरापानके प्रतिषेधमें पदान्वय एक होनेके कारण अवान्तर वाक्यार्थका ग्रहण न होना युक्त है । परन्तु विधिवाक्य और अर्थवादमेंसे तो अर्थवादमें रहनेवाले पद-भूत-सिद्ध अर्थमें पृथक् अन्वित होकर पश्चात् कैमर्थ्यसे विधिवाक्यके स्तावक होते हैं, जैसे ‘वायव्यं श्वेतं’ (ऐश्वर्य चाहनेवाला वायु-

रत्नप्रभा

सुरापानप्रत्ययोऽपि स्यादिति भावः । पदैकवाक्यत्ववाक्यैकवाक्यत्ववैषम्याद् मैव-
मित्याह—अत्रोच्यत इति । नञ्पदम् एकं यदा सुरां पिबेदिति पदाभ्याम् अन्वेति,
तदा पदैकवाक्यम् एकमेव अर्थानुभवं करोति, न तु पदद्वयं पृथक् सुरापानं
बोधयति, तस्य विधौ निषेधानुपपत्तेः वाक्यार्थानुभवं प्रति अद्वारत्वात् । अर्थ-
वादस्तु भूतार्थसंसर्गं स्तुतिद्वारं बोधयन् विधिना वाक्यैकवाक्यतां भजते इत्यस्ति
विग्रहाद्यनुभव इत्यर्थः । ननु अर्थवादस्यपदानाम् अवान्तरसंसर्गबोधकत्वं विना
साक्षादेव विध्यन्वयोऽस्तु, तत्राऽऽह—यथा हीति । साक्षाद् अन्वयायोगं

रत्नप्रभाका अनुवाद

यह कि ‘न सुरां पिबेत्’ से सुरापानका भी ज्ञान हो जायगा । पदैकवाक्यता और वाक्यैक-
वाक्यता से वैषम्य है, अतः यह कथन ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं—“अत्रोच्यते”
इत्यादिसे । एक ‘नञ्’ पद ‘सुरां पिबेत्’ इन दो पदोंके साथ जब अन्वित होता है, तब
पदैकवाक्यतासे एक ही अर्थका अनुभव कराता है, दो पद अलग सुरापानका बोध नहीं
करते हैं । यदि अलग सुरापानकी विधि कही जाय, तो सुरापानका निषेध नहीं हो सकेगा,
क्योंकि वाक्यार्थानुभवके प्रति यह सुरापान द्वार-कारण ही न रहेगा । अर्थवाद तो स्तुतिके
द्वारभूत भूतार्थ-संबन्धका बोध कराता हुआ विधिके साथ वाक्यैकवाक्यताको प्राप्त
करता है, इस कारण अर्थवादोंसे देवता आदिके शरीरका ज्ञान होता है । परन्तु
अर्थवादपदोंके अवान्तर संसर्गका बोध किये विना साक्षात् विधिके साथ अन्वय हो,

भाष्य

वायव्यादिपदानां विधिना सम्बन्धः, नैवं 'वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवेनं भूतिं गमयति' इत्येवामर्थवादगतानां पदानाम् । नहि भवति 'वायुर्वा आलभेत' इति 'क्षेपिष्ठा देवता वा आलभेत' इत्यादि । वायुस्वभावसंकीर्तनेन त्ववान्तरमन्वयं प्रतिपद्यैवंविशिष्ट-दैवत्यमिदं कर्मेति विधिं स्तुवन्ति । तद्यत्र योऽवान्तरवाक्यार्थः प्रमाणान्तर-गोचरो भवति, तत्र तदनुवादेनाऽर्थवादः प्रवर्तते । यत्र प्रमाणान्तरवि-रुद्धस्तत्र गुणवादेन । यत्र तु तदुभयं नास्ति, तत्र किं प्रमाणान्तराभावाद्

भाष्यका अनुवाद

देवके लिए श्वेत पशुका आलभन करे) इसमें विधिवाक्यगत वायव्य आदि पदोंका विधिके साथ सम्बन्ध है, उस प्रकार 'वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता०' (वायु सवकी अपेक्षा अतिशय क्षिप्र गति देवता है यजमान अपने वायुके भागसे वायुका ध्यान करता है, वही इसको ऐश्वर्यशाली बनाता है) इन अर्थवादवाक्यस्थ पदोंका विधिके साथ सम्बन्ध नहीं है । निश्चय, 'वायुरालभेत' या 'क्षेपिष्ठा देवता आलभेत' ऐसा अन्वय नहीं होता । अर्थवादके वायु पदका या 'क्षेपिष्ठा देवता' इन पदोंका आलभेत विधिके साथ सम्बन्ध नहीं होता, किन्तु वायुका स्वभावके कथनद्वारा अवान्तर अन्वय प्राप्त करके ही इस प्रकार विशिष्ट देवतावाला यह कर्म है, इस तरह विधिकी स्तुति करते हैं । जहां वह अवान्तर वाक्यार्थ अन्य प्रमाणका विषय होता है वहां उसके अनुवादसे अर्थवाद प्रवृत्त होता है और जहां प्रमाणसे विरोध है, वहां गुणवादसे; जहां वे दोनों नहीं होते, वहां अन्य

रत्नप्रभा

दर्शयति—नहीति । अर्थवादात् सर्वत्र स्वार्थग्रहणम् आशङ्क्य अर्थवादान् विभजते—तद्यत्रेति । तत्—तत्र अर्थवादेषु, यत्र—“अग्निर्हिमस्य भेषजम्” इत्यादौ इत्यर्थः । “आदित्यो यूषः” इति अभेदो बाधित इति तेजस्वित्वादि—गुणवादः, यत्र—“वज्रहस्तः पुरन्दरः” इत्यादौ मानान्तरसंवादविसंवादौ न स्तः, तत्र

रत्नप्रभाका अनुवाद

उपर कहते हैं—“यथा हि” इत्यादि । साक्षात् अन्वयका अयोग दिखलते हैं—“नहि” इत्यादिसे । अर्थवादवाक्योंसे सर्वत्र स्वार्थका ग्रहण हो, ऐसी आशङ्का करके अर्थवादका विभाग करते हैं—“तद्यत्र” इत्यादिसे । उनमें—अर्थवादवाक्योंमें यत्र—‘अग्निर्हिमस्य भेषजम्’ इत्यादिमें अनुवाद समझो । ‘आदित्यो यूषः’ इसमें आदित्य और यूषका अभेद बाधित है । इसलिए यूषमें तेज आदि गुणोंका कथन है, इसे गुणवाद समझो । ‘वज्रहस्तः पुरन्दरः’ इत्यादिमें अन्व

भाष्य

गुणवादः स्याद्, आहोस्वित् प्रमाणान्तराविरोधाद् विद्यमानार्थवाद इति प्रतीतिशरणैर्विद्यमानार्थवाद आश्रणीयो न गुणवादः । एतेन मन्त्रो व्याख्यातः । अपि च विधिभिरेवेन्द्रादिदेवत्यानि हवींषि चोदयद्भिरपेक्षितमिन्द्रादीनां स्वरूपम्, नहि स्वरूपरहिता इन्द्रादयश्चेतस्यारोपयितुं

भाष्यका अनुवाद

प्रमाणके अभावसे गुणवाद हो अथवा अन्य प्रमाणके अविरोधसे विद्यमानवाद हो, ऐसा सन्देह उपस्थित होनेपर विचारशीलोंको विद्यमानवादका आश्रयण करना चाहिए, गुणवादका नहीं । इसी प्रकार मन्त्रमें समझना चाहिए । और इन्द्र आदि देवताओंको हवि देनेकी प्रेरणा करनेवाली विधियाँ ही इन्द्र आदिके स्वरूपकी अपेक्षा रखती हैं । यदि इन्द्र आदि देवता वस्तुतः स्वरूपरहित हों, तो

रत्नप्रभा

भूतार्थवाद इत्यर्थः, इति विमृश्य इति अध्याहारः । विग्रहार्थवादः स्वार्थेऽपि तात्पर्यवान्, अन्यपरत्वे सति अज्ञाताबाधितार्थकशब्दत्वात्, प्रयाजादिवाक्यवदिति न्यायं मन्त्रेषु अतिदिशति—एतेनेति । वेदान्तानुवादगुणवादानां निरासाय हेतौ पदानि । न च उभयपरत्वे वाक्यभेदः, अवान्तरार्थस्य महावाक्यार्थद्वारत्वादिति भावः । विध्यनुपपत्त्याऽपि स्वर्गवद् देवताविग्रहोऽङ्गीकार्य इत्याह—अपि चेति । ननु क्लेशात्मके कर्मणि विधिः फलं विना अनुपपन्न इति भवतु “यन्न दुःखेन संभिन्नम्” इत्यर्थवादसिद्धः स्वर्गो विधिप्रमाणकः, विग्रहं विना विधेः का

रत्नप्रभाका अनुवाद

प्रमाणके साथ संवाद या विवाद नहीं है, इसको भूतार्थवाद—सत्य अर्थका वाद समझो । ‘इति’के बाद ‘विमृश्य’ का अध्याहार कर लेना चाहिए । विग्रहार्थवाद स्वार्थमें भी तात्पर्य रखता है, अन्यपरक होकर अज्ञात अबाधित अर्थका प्रतिपादक शब्द होनेके कारण, प्रयाज आदि वाक्योंके समान, इस न्यायका मन्त्रोंमें अतिदेश करते हैं—“एतेन” इत्यादिसे । वेदान्त, गुणवाद और अनुवादमें व्यभिचारका वारण करनेके लिए ‘अन्यपरत्वे सति अज्ञाताबाधितार्थक शब्दत्वात्’ इस हेतुमें तीन विशेषण दिये गये हैं । उभयपरक होनेपर भी वाक्यभेद नहीं होता है, क्योंकि अवान्तरवाक्यार्थमहावाक्यार्थका द्वारभूत है । देवताका रूप न माननेसे विधि अनुपपन्न होती है, इसलिए विधिकी अनुपपत्तिसे भी स्वर्ग आदिके समान देवताके विग्रहका अङ्गीकार करना चाहिए, ऐसा कहते हैं—“अपि च” इत्यादिसे । परन्तु क्लेशात्मक कर्ममें फलके विना विधि अनुपपन्न है, इसलिए “यन्न दुःखेन संभिन्नम्” (जो दुःखसे संभिन्न नहीं) इस अर्थवादसे सिद्ध वस्तुरूप स्वर्गमें विधि प्रमाण रहे । विग्रह आदि न माननेसे विधिकी अनुपपत्ति ही

भाष्य

शक्यन्ते । न च चेतस्थानारूढायै तस्यै तस्यै देवतायै हविः प्रदातुं शक्यते । श्रायवति च—‘यस्यै देवतायै हविर्गृहीतं स्यात्तां ध्यायेद् वपद्-करिष्यन्’ (ऐ० ब्रा० ३ । ८ । १) इति । न च शब्दमात्रमर्थस्वरूपं संभवति, शब्दार्थयोर्भेदात्, तत्र यादृशं मन्त्रार्थवादयोरिन्द्रादीनां स्वरूप-

भाष्यका अनुवाद

उनका ध्यान नहीं किया जा सकता और ध्यान न होनेसे उन्हें हवि भी नहीं दिया जा सकता । श्रुति भी ‘यस्यै देवतायै०’ (जिस देवताके लिए हविका ग्रहण किया हो, उसका वपद्कार करनेसे पहले ध्यान करना चाहिए) ऐसा कहती है । और केवल शब्द अर्थका स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द और अर्थका भेद है । उन मन्त्र और अर्थवादमें इन्द्र आदिका जैसा स्वरूप

रत्नप्रभा

अनुपपत्तिः तामाह—नहीति । उद्दिश्य त्यागानुपपत्त्या चेतसि आरोहोऽङ्गीकार्य इत्यत्र श्रुतिमपि आह—यस्यै इति । अतः चेतसि आरोहार्थं विग्रह एष्टव्यः । किञ्च, कर्मप्रकरणपाठाद् विग्रहप्रमितिरपि प्रयाजवत् कर्माङ्गत्वेन अङ्गीकार्या, तां विना कर्मापूर्वासिद्धेः । किञ्च, सुप्रसन्नविग्रहवद् देवतां त्यक्त्वा शब्दमात्रं देवता इति उक्तिरयुक्ता इत्याह—न च शब्देति । न च आकृतिमात्रं शब्दशक्यम् अस्तु, किं विग्रहेण इति वाच्यम् ; निर्व्यक्त्याकृत्ययोगात् । अतः शब्दस्य अर्थाकाङ्क्षायां मन्त्रादिप्रमितविग्रहोऽङ्गीकार्य इत्याह—तत्रेति । एवं

रत्नप्रभाका अनुवाद

क्या है ? इस संकापर अनुपपत्ति दिखलते है—“नहि” इत्यादिसे । चित्तमें देवताके स्वरूपका ध्यान किये बिना देवताके उद्देश्यसे द्रव्यत्याग करना संगत नहीं हो सकता, इसलिए देवताओंके स्वरूपके ध्यानका स्वीकार करना चाहिए । इस विषयमें प्रमाणभूत श्रुतिको भी उद्धृत करते हैं—“यस्यै” इत्यादिसे । इसलिए चित्तमें आरूढ करनेके लिए विग्रह अवश्य मानना चाहिए और देवताओंके शरीरका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति कर्मके प्रकरणमें पढ़ी गई है, इसलिए प्रयाजके समान विग्रहका ज्ञान भी कर्मके अंगरूपसे मानना चाहिए, अन्यथा देवताओंके शरीरके अभावमें कर्मसे अपूर्व ही उत्पन्न नहीं होगा । और सुप्रसन्न विग्रहवाले देवताका त्याग करके केवल शब्द-मात्र देवता है, यह कथन अयुक्त है, ऐसा कहते हैं—“न च शब्दः” इत्यादिसे । आकृतिमात्र ही शब्दका शक्य हो, शरीर माननेकी क्या आवश्यकता है, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि व्यक्तिके बिना जाति रद ही नहीं सकती । इसलिए शब्दको अर्थकी अपेक्षा होनेके कारण मन्त्रादिसे शत विग्रहका ही अङ्गीकार करना चाहिए, ऐसा कहते हैं—“तत्र” इत्यादिसे । इस

भाष्य

मवगतं न तत् तादृशं शब्दप्रमाणकेन प्रत्याख्यातुं युक्तम् । इतिहास-
पुराणमपि व्याख्यातेन मार्गेण संभवद् मन्त्रार्थवादमूलत्वात् प्रभवति
देवताविग्रहादि साधयितुम् । प्रत्यक्षादिमूलमपि संभवति । भवति
क्षस्माकमप्रत्यक्षमपि चिरन्तनानां प्रत्यक्षम् । तथा च व्यासादयो देवादिभिः
प्रत्यक्षं व्यवहरन्तीति स्मर्यते । यस्तु ब्रूयादिदानीन्तनानामिव पूर्वेषामपि
नास्ति देवादिभिर्व्यवहर्तुं सामर्थ्यमिति, स जगद्वैचित्र्यं प्रतिपेधेत् ।
इदानीमिव च नाऽन्यदापि सार्वभौमः क्षत्रियोऽस्तीति ब्रूयात् । तत्र

भाष्यका अनुवाद

घटलाया गया है, वह वैसा ही है, उसका प्रतिपेध करना शब्द-प्रमाण माननेवालोंके
लिए उचित नहीं है । इतिहास और पुराण भी मन्त्रमूलक और अर्थवादमूलक
होनेके कारण प्रमाण होनेसे उपर्युक्त रीतिसे देवताके विग्रह आदि सिद्ध करनेमें
समर्थ होते हैं । और देवताके शरीरादिमें प्रत्यक्ष आदि भी मूल हैं । जो हमको
अप्रत्यक्ष हैं वे भी चिरन्तनों—प्राचीनोंको प्रत्यक्ष हो सकते हैं । जैसे कि व्यास
आदि देवताओंके साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करते हैं, ऐसी स्मृति है । आजकलके
समान प्राचीन लोग देवता आदिके साथ व्यवहार करनेमें समर्थ न थे, ऐसा
जो कहेगा, वह जगत्की विचित्रताका अपलाप करेगा और आजकलके समान
अन्य समयमें भी सार्वभौम क्षत्रियोंकी सत्ताका निपेध करेगा, तब राजसूय

रत्नप्रभा

मन्त्रार्थवादमूलकम् इतिहासादिकमपि विग्रहे मानमित्याह—इतिहासेति । प्रमा
णत्वेन संभवदित्यर्थः । व्यासादीनां योगिनां देवतादिप्रत्यक्षमपि इतिहासादेर्मूल-
मित्याह—प्रत्यक्षेति । व्यासादयो देवतादिप्रत्यक्षशून्याः, प्राणित्वाद्, अस्मद्गत,
इत्यनुमानम् अतिप्रसंगेन दूषयति—यस्त्वित्यादिना । सर्वं घटाभिन्नम्,
वस्तुत्वात्, घटवदिति जगद्वैचित्र्यं नास्ति इत्यपि स ब्रूयात् । तथा क्षत्रियाभावं

रत्नप्रभाका अनुवाद

प्रकार मन्त्र और अर्थवाद जिनका मूल है, ऐसे इतिहास आदि भी विग्रहमें प्रमाणभूत हैं, ऐसा
कहते हैं—“इतिहास” इत्यादिसे । ‘सम्भवत्’—प्रमाण होता हुआ । व्यास आदि योगियोंको
जो देवता आदिका प्रत्यक्ष होता है, वह भी इतिहास आदिका मूल है, ऐसा कहते हैं—“प्रत्यक्ष”
इत्यादिसे । व्यास आदि देवताके प्रत्यक्षसे रहित हैं, प्राणी होनेसे, हमारे समान, इस अनुमानमें
व्यभिचाररूप दोष दिखाते हैं—“वस्तु” इत्यादिसे । जो पुरुष यह कहता है कि ‘सब
वस्तुएँ घटसे अभिन्न हैं, वस्तु होनेसे, घटके समान, वह जगत्की विचित्रताका निपेध

भाष्य

राजसूयादिचोदनोपरुन्ध्यात् । इदानीमिव च कालान्तरेऽप्यव्यवस्थित-
 प्रायान् वर्णाश्रमधर्मान् प्रतिजानीत, ततश्च व्यवस्थाविधायि शास्त्रम-
 नर्थकं स्यात् । तस्माद्धर्मोत्कर्षवशाच्चिरन्तना देवादिभिः प्रत्यक्षं व्यवजहूरु-
 रिति श्लिष्यते । अपि च स्मरन्ति—‘स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः’
 (यो० सू० २।४४) इत्यादि । योगोऽप्यणिमाद्यैश्वर्यप्राप्तिफलकः स्मर्य-
 माणो न शक्यते साहममात्रेण प्रत्याख्यातुम् । श्रुतिश्च योगमाहात्म्यं
 प्रख्यापयति—

‘पृथ्व्यप्तेजोऽनिलसे समुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते ।
 न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाश्रिमयं शरीरम् ॥’

भाष्यका अनुवाद

आदि विधि बाधित हो जायगी और आजकलके समान अन्य समयमें भी वर्णा-
 श्रमधर्म अन्यचरिथत ही था, ऐसी प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, ऐसी स्थितिमें व्यवस्था
 करनेवाला शास्त्र व्यर्थ हो जायगा । इससे सिद्ध हुआ कि धर्मके उत्कर्षके
 कारण प्राचीन लोग देवता आदिके साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करते थे । और
 ‘स्वाध्यायादिष्ट०’ (स्वाध्यायसे इष्टदेवताके साथ सम्प्रयोग और संभाषण आदि
 सम्बन्ध होता है) इत्यादि स्मृति भी है । अणिमा आदि ऐश्वर्य प्राप्तिका
 साधन और स्मृतिसिद्ध योगका भी सहसा निषेध नहीं किया जा सकता ।
 ‘पृथ्व्यप्तेजोः’ (पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांच भूतोंके
 अपने वशमें होनेसे और अणिमा आदि सिद्धियोंकी प्राप्ति होनेसे अभिव्यक्त

रत्नप्रभा

वर्णाश्रमाभावं वर्णाश्रमाद्यव्यवस्थां च नृयात्, निरङ्कुशबुद्धित्वात् । तथा च राज-
 सूयादिशास्त्रस्य कृतादियुगधर्मव्यवस्थाशास्त्रस्य बाध इत्यर्थः । योगसूत्राद् अपि
 देवादिप्रत्यक्षसिद्धिरित्याह—अपि चेत्ति । मन्त्रजपाद् देवसान्निध्यं तत्संभाषणं
 चेति सूत्रार्थः । योगमाहात्म्यस्य श्रुतिस्मृतिसिद्धत्वाद् योगिनामस्ति देवादिप्रत्यक्ष-
 मित्याह—योग इति । पादतलात् आजानोः, जानोः आनामेः, नाभेः आग्नीवाया, ग्रीवा-

रत्नप्रभाका अनुवाद

करेगा । इसी प्रकार वह निरङ्कुश बुद्धि होनेसे क्षत्रिय आदि वर्ण और आश्रमका, तथा वर्ण और
 आश्रम आदिकी व्यवस्थाओंका भी अपलाप करेगा । तब राजसूय आदि शास्त्र और कृतयुग आदि
 युगोंके धर्म-व्यवस्थाशास्त्रका भी बाध होगा । और योगसूत्रसे भी देवता आदिका प्रत्यक्ष सिद्ध होता
 है, ऐसा कहते हैं—‘अपि च’ इत्यादिते । मन्त्रजपसे देवताका सांनिध्य और उसके साथ संभाषण
 होता है यह सूत्रका अर्थ है । योगमाहात्म्य श्रुति और स्मृतिसे सिद्ध है, इससे योगियोंकी देवता
 आदिका प्रत्यक्ष होता है, ऐसा कहते हैं—‘योग’ इत्यादिते । आशय यह कि पादतलसे जातुपर्यन्त,

भाष्य

(श्वे० २ । १२) इति । ऋषीणामपि मन्त्रब्राह्मणदर्शिनां सामर्थ्यं नाऽऽस्मदीयेन सामर्थ्येनोपमातुं युक्तम् । तस्मात् समूलमितिहासपुराणम् । लोकप्रसिद्धिरपि न सति संभवे निरालम्बनाऽध्यवसातुं युक्ता, तस्मादुपपन्नो मन्त्रादिभ्यो देवादीनां विग्रहवत्त्वाद्यवगमः । ततश्चार्थित्वादि-सम्भवादुपपन्नो देवादीनामपि ब्रह्मविद्यायामधिकारः । क्रममुक्तिदर्शानान्यप्येवमेवोपपद्यन्ते ॥ ३३ ॥

भाष्यका अनुवाद

तेजोमय देहको प्राप्त हुए योगीको रोग, जरा और मृत्यु आदि नहीं होते) इत्यादि श्रुतिभी योगका माहात्म्य कहती है। मन्त्र और ब्राह्मणके द्रष्टा ऋषियोंकी सामर्थ्यकी अपनी सामर्थ्यसे तुलना करना ठीक नहीं है। इसलिए इतिहास और पुराण समूल—प्रमाणभूत हैं। लोकप्रसिद्धि भी श्रुति, स्मृति आदि आधारोंके रहते निराधार नहीं कही जा सकती। इसलिए मन्त्र आदिसे—देवता आदिका विग्रह है, इत्यादि प्रतीत होना युक्त है। और उनमें अर्थित्व आदिके सम्भवसे देवता आदिका भी ब्रह्मविद्यामें अधिकार युक्त है। ऐसा माननेसे ही क्रममुक्तिका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियाँ भी संगत होती हैं ॥३३ ॥

रत्नप्रभा

याश्चाऽऽकेशप्ररोहम्, ततश्च आब्रह्मरन्ध्रं पृथिव्यादिपञ्चके समुत्थिते—धारणया जिते योगगुणे च अणिमादिके प्रवृत्ते योगाभिव्यक्तं तेजोमयं शरीरं प्राप्तस्य योगिनो न रोगादिस्पर्श इत्यर्थः । चित्रकारादिप्रसिद्धिरपि विग्रहे मानमित्याह—लोकेति । अधिकरणार्थम् उपसंहरति—तस्मादिति । चिन्तायाः फलमाह—क्रमेति । एवमेव—देवादीनां ब्रह्मविद्याधिकारे सत्येव देवत्वप्राप्तिद्वारा मुक्तिफलोपसन्नानि युज्यन्ते । देवानाम् अनधिकारे ज्ञानाभावात् क्रममुक्त्यर्थिनामुपासनेषु प्रवृत्तिः न स्यात् । अतोऽधिकारनिर्णयात् प्रवृत्तिसिद्धिरिति भावः ॥ ३३ ॥ (८)

रत्नप्रभाका अनुवाद

जानुसे नाभिपर्यन्त, नाभिसे प्रीवापर्यन्त, प्रीवासे केशके उद्गम स्थान तक और वहाँसे ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्त पृथिवी आदि पाँचोंके धारणासे जीते जानेपर और योगगुण अणिमा आदिकी प्राप्ति होनेपर योगसे अभिव्यक्त तेजोमय शरीरको प्राप्त हुए योगीको रोग आदिका स्पर्श नहीं होता। चित्रकार आदिकी प्रसिद्धि भी विग्रहमें प्रमाणभूत है, ऐसा कहते हैं—“लोक” इत्यादिसे। “क्रम” इत्यादिसे चिन्ताका फल कहते हैं। ‘एवमेव’—देवता आदिका ब्रह्मविद्यामें अधिकार सिद्ध होनेपर ही देवत्वप्राप्ति द्वारा क्रममुक्ति फलवाली उपासनाएँ संगत होती हैं। देवोंका अधिकार न हो, तो ज्ञान न होनेसे क्रममुक्तिकी कामनावालोंकी उपासनामें प्रवृत्ति ही नहीं होगी, इसलिए अधिकारके निर्णयसे प्रवृत्ति सिद्ध होती है, ऐसा अर्थ है ॥३३॥

[९ अपशूद्राधिकरण सू० ३४-३८]

शूद्रोऽधिक्रियते वेदविद्यायामथवा नहि ।

अत्रैवर्णिकदेवाद्या इव शूद्रोऽधिकारवान् ॥१॥

देवाः स्वयंभातवेदाः शूद्रोऽध्ययनवर्जनात् ।

नाधिकारी श्रुतौ स्मार्ते त्वधिकारो न वार्यते* ॥२॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—वेदविद्यामें शूद्रका अधिकार है अथवा नहीं ?

पूर्वपक्ष—जैसे त्रैवर्णिकेतर—ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंसे भिन्न देवताओंका वेदविद्यामें अधिकार है, उसी भांति शूद्रका भी वेदविद्यामें अधिकार हो सकता है ।

सिद्धान्त—देवताओंमें वेदका अपने आप भाविर्भाव होता है और शूद्रके लिए वेदके अध्ययनका निषेध है, अतः शूद्रका वेदमें अधिकार नहीं है, किन्तु स्मृति, पुराण आदिमें उसके अधिकारका निषेध नहीं किया जाता ।

* तात्पर्य यह कि छान्दोग्य उपनिषत्के चौथे अध्यायमें संवर्गविद्या कही गई है—“आजशरेमाः शूद्र अनेनैव मुखेनाऽऽलापयिष्यथाः” इसका अर्थ है कि जानश्रुति नामक कोई शिष्य हजार गाये, कन्या, मोतियोंका हार एवं कुछ गाव उपहाररूपसे लेकर गुरु रैकके पास गया । वहाँपर रैकका यह वचन है—हे शूद्र जानश्रुति ! हजार गाये आदि जो उपायन तुम लाये हो, इसी कन्या आदि उपायन द्वारा मेरे चित्तको प्रसन्न करके उपदेश कराओगे ।

यद्वापर पूर्वपक्षी कहता है कि शूद्र भी वेदविद्याका अधिकारी है, क्योंकि जैसे त्रैवर्णिकेतर देवताओंका वेदविद्यामें अधिकार है, उसी प्रकार त्रैवर्णिकमिश्र शूद्रका भी विद्यामें अधिकार हो सकता है ।

सिद्धान्ती कहते हैं कि देवताओंके साथ शूद्रकी तुलना नहीं की जा सकती । देवताओंका उपनयन न होनेपर भी पूर्वव्रतमें उपासित सुकृतसे उन्हें स्वतः वेदोंका भान हो जाता है । शूद्रमें तो वैसा कोई सुकृत नहीं है, अतः उसे अपने आप वेदोंकी प्राप्ति नहीं हो सकती । उपनयन न होनेके कारण वे उसे पढ़ भी नहीं सकते । इसलिए विद्वत्त्वरूप हेतुके अभावसे शूद्र औपनिषदाका अधिकारी नहीं है । तो पूर्वोक्त वाक्यमें जानश्रुतिके लिए प्रयुक्त शूद्रशब्द किस प्रकार सगत होवा है ? इसपर कहते हैं—उक्त वाक्यमें कथित शूद्रशब्द यौगिक है, रूढ नहीं है । विद्या न होनेसे उपरत हुए शोकसे वह गुरुके पास गया, इसलिए वह शूद्र कहा गया है । रूढिते यौगिक अर्थका बाध नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ रूढ अर्थ लागू नहीं हो सकता । इस उपाख्यानमें सारथि भेजना आदि वैश्वर्यके कथनसे प्रतीत होता है कि जानश्रुति क्षत्रिय था । शूद्रका वेदविद्यामें अधिकार न होनेसे मोक्षकी इच्छा होनेपर भी मुक्ति नहीं मिल सकती ? ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि स्मृति और पुराण द्वारा ज्ञान प्राप्त होनेपर मुक्ति हो सकती है । इससे सिद्ध हुआ कि शूद्र वेदविद्याका अधिकारी नहीं है ।

शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदाद्रवणात् सूच्यते हि ॥ ३४ ॥

पदच्छेद—शुक्, अस्य, तदनादरश्रवणात्, तदाद्रवणात्, सूच्यते, हि ।

पदार्थोक्ति—अस्य—जानश्रुतेः, तदनादरश्रवणात् हंसस्यानादरश्रवणात् [या] शुक् शोकः [उत्पन्ना, सा] सूच्यते हि—शूद्रशब्देन सूच्यते, तदा-
द्रवणात्—जानश्रुतेः रैक्यं प्रति शुचा गमनात् [जानश्रुतिः शूद्र इत्युच्यते] ।

भाषार्थ—हंससे अपना अनादर सुनकर जानश्रुतिको जो शोक उत्पन्न हुआ, वह शूद्रशब्दसे सूचित किया गया है और शोकसे जानश्रुति रैकके पास गया इस-
लिए शूद्र कहा गया है ।

—००४८०६—

भाष्य

यथा मनुष्याधिकारनियममपोद्य देवादीनामपि विद्यास्वधिकार उक्तः,
तथैव द्विजात्यधिकारनियमापवादेन शूद्रस्याऽप्यधिकारः स्यादित्येतामा-
शङ्कां निवर्तयितुमिदमधिकरणमारभ्यते । तत्र शूद्रस्याऽप्यधिकारः

भाष्यका अनुवाद

जैसे मनुष्यका ही विद्यामें अधिकार है इस नियमका अपवाद करके
देवता आदिका भी विद्यामें अधिकार स्थापित किया है, उसी प्रकार द्विजातिका
ही विद्यामें अधिकार है इस नियमके अपवादसे शूद्रका भी विद्यामें अधिकार
हो, इस आशङ्काकी निवृत्तिके लिए इस अधिकरणका आरम्भ किया जाता है ।

रत्नप्रभा

शुगस्य...सूच्यते हि । पूर्वेण अस्य दृष्टान्तसङ्गतिमाह—यथेति । पूर्वत्र
देवादीनाम् अधिकारसिद्धयर्थं मन्त्रादीनां भूतार्थे विग्रहादौ समन्वयोक्त्या वेदान्ता-
नाम् अपि भूतार्थे ब्रह्मणि समन्वयो दृढीकृतः, अत्राऽपि शूद्रशब्दस्य श्रौतस्य
क्षत्रिये समन्वयोक्त्या स दृढीक्रियते इति अधिकरणद्वयस्य प्रासङ्गिकस्य अस्मिन्

रत्नप्रभाका अनुवाद

“शुगस्यसूच्यते हि” । पूर्वाधिकरणके साथ इसकी दृष्टान्तसंगति कहते हैं—“यथा”
इत्यादिसे । पूर्वाधिकरणमें देवता आदिका अधिकार सिद्ध करनेके लिए मंत्र आदिका सिद्ध अर्थ
क्षत्रीय आदिमें समन्वय कहकर उससे वेदान्तोंका भी सिद्ध अर्थ ब्रह्ममें समन्वय दृढ किया
है, यहां भी श्रुतिमें पठित शूद्रशब्दका क्षत्रियमें समन्वय कहकर उसको दृढ करते हैं, इसलिये

भाष्य

स्यादिति तावत् प्राप्तम्, अर्थित्वसामर्थ्ययोः सम्भवात्, 'तस्माच्छूद्रो यज्ञेऽनवकृतः' (तै० सं० ७।१।१।६) इतिवत् 'शूद्रो विद्यायामनवकृतः' इति निषेधाश्रवणाद् । यच्च कर्मस्वनधिकारकारणं शूद्रस्याऽनमित्तं न तद्विद्यास्वधिकारस्याऽपवादकम् । नह्याहवनीयादिरहितेन विद्या वेदितुं न शक्यते । भवति च श्रौतं लिङ्गं शूद्राधिकारस्योपोद्बलकम्, संवर्गविद्यायां हि जानश्रुतिं पौत्रायणं शुश्रूषुं शूद्रशब्देन परामृशति—'अह

भाष्यका अनुवाद

पूर्वपक्षी—ब्रह्माविद्यामें शूद्रका भी अधिकार है, क्योंकि अर्थित्व और सामर्थ्यका शूद्रमें भी सम्भव है और 'तस्माच्छूद्रो' (इसलिये शूद्र यज्ञमें असमर्थ है) इसके समान 'शूद्रो विद्यायाम०' (शूद्र विद्यामें असमर्थ है) इस प्रकार निषेधका श्रवण भी नहीं है । कर्मोंमें शूद्रके अनधिकारका जो कारण अनग्नित्व है, वह विद्याओंमें उसके अधिकारका अपवाद नहीं कर सकता । आहवनीय आदि अग्नियोंसे रहित पुरुष विद्याका सम्पादन नहीं कर सकता यह बात नहीं है । श्रुति भी शूद्रके अधिकारका समर्थन करती है । संवर्गविद्यामें (ब्रह्म) श्रवण

रत्नप्रभा

समन्वयाध्याये अन्तर्भाव इति मन्तव्यम् । पूर्वपक्षे शूद्रस्याऽपि द्विजवद् वेदान्तश्रवणे प्रवृत्तिः, सिद्धान्ते तदभाव इति फलम् । अत्र वेदान्तविचारो विषयः, स किं शूद्रम् अधिकरोति न वा इति संभवासंभवाभ्यां सन्देहे पूर्वपक्षमाह— तत्र शूद्रस्याऽपीत्यादिना । तस्माद्—अनमित्वात्, अनवकृतः—असमर्थः । विद्यार्थिनि शूद्रशब्दप्रयोगात् लिङ्गादपि शूद्रस्य अधिकार इत्याह—भवति चेति । जानश्रुतिः किल पद् शतानि गवां रथं च रैकाय गुरवे निवेद्य मां शिक्षय इत्युवाच, ततो रैको विधुरः कन्यार्थी सन् इदम् उवाच । अहेति निपातः

रत्नप्रभाका अनुवाद

इन दोनों प्रासंगिक अधिकारोंका समन्वयाध्यायमें अन्तर्भाव है । पूर्वपक्षमें द्विजके समान वेदान्तश्रवणमें शूद्रकी प्रवृत्ति फल है और सिद्धान्तमें प्रवृत्तिका अभाव फल है । यहां वेदान्त-विचार विषय है, वह शूद्रको अधिकार देता है या नहीं, इस प्रकार संभव और असंभवसे संशय होनेपर पूर्वपक्ष कहते हैं—“तत्र शूद्रस्याऽपि” इत्यादिसे । 'तस्मात्'—शूद्रके अग्निरहित होनेके कारण, 'अनवकृतः'—असमर्थ । विद्यार्थिनि शूद्रशब्दका प्रयोग है, इस लिये भी विद्यामें शूद्रका अधिकार है । ऐसा कहते हैं—“भवति च” इत्यादिसे । कहते हैं कि जानश्रुतिने छः सौ भागों और रथ शुभ रैकवको देकर यह विनती की कि मुझे शिक्षा दीजिये । तब कन्याके साथ विवाद करनेकी इच्छा रखनेवाले विधुर रैकने कहा । 'अह' यह खेद-

भाष्य

हारेत्वा शूद्र तवैव सह गोमिरस्तु' (छा० ४।२।३) इति । विदुरप्रभृतयश्च शूद्रयोनिप्रभवा अपि विज्ञानसम्पन्नाः स्मर्यन्ते । तस्मादधिक्रियते शूद्रो विद्यास्विति ।

एवं प्राप्तं ब्रूमः—न शूद्रस्याऽधिकारः, वेदाध्ययनाभावात् । अधीत-वेदो हि विदितवेदार्थो वेदार्थेष्वधिक्रियते । न च शूद्रस्य वेदाध्ययनमस्ति, उपनयनपूर्वकत्वाद् वेदाध्ययनस्य । उपनयनस्य च वर्णत्रयविषय-भाष्यका अनुवाद

करनेकी इच्छा रखनेवाले पौत्रायण जानश्रुतिका रैक्वने 'अह हारेत्वा' (अरे शूद्र, रथ, हार—निष्क और गायें तेरे ही पास रहें) इस प्रकार शूद्रशब्दसे परामर्श किया है । स्मृति भी कहती है कि विदुर आदि शूद्र कुलमें उत्पन्न होनेपर भी विशिष्ट विज्ञानयुक्त थे । इसलिए शूद्रका विद्यामें अधिकार है ।

सिद्धान्ती—ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं—वेदाध्ययन न होनेके कारण शूद्रका विद्यामें अधिकार नहीं है ; जिसने भली भँति वेदका अध्ययन किया हो और वेदका अर्थ जाना हो, उसीका वेदार्थविचारमे अधिकार है । शूद्र तो वेदका अध्ययन कर ही नहीं सकता, क्योंकि वेदाध्ययन उपनयनपूर्वक ही

रत्नप्रभा

खेदार्थः । हारेण—निष्केण युक्त इत्वा—गन्ता रथो हारेत्वा स च गोभिः सह हे शूद्र तवैव अस्तु किमल्पेनाऽनेन मम गार्हस्थ्यानुपयोगिना इति भावः । अर्थित्वादिसंभवे श्रेयस्साधने प्रवृत्तिः उचिता स्वाभाविकत्वात् इति न्यायोपेतात् लिङ्गाद् इत्याह—तस्मादिति ।

सूत्राद् बहिरेव सिद्धान्तयति—न शूद्रस्याऽधिकार इत्यादिना । आपाततो विदितो वेदार्थो येन तस्य इत्यर्थः । अध्ययनविधिना संस्कृतो वेदः तदुत्थम् आपातज्ञानञ्च वेदार्थविचारेषु शास्त्रीयं सामर्थ्यम्, तदभावात् शूद्रस्य अर्थित्वादि-रत्नप्रभाका अनुवाद

वाचक निपात है । अरे शूद्र, कण्ठहारके साथ सचरियोंसे युक्त रथ और छ. सौ गायें अपने ही पास रहने दे, गृहस्थाश्रमके लिए अनुपयुक्त इस अल्प द्रव्यकी मुझे इच्छा नहीं है । अर्थित्व आदि कारण होनेपर कल्याणसाधन—श्रवण आदिमें प्रवृत्ति होनी उचित है, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, इस न्यायसे युक्त लिंगसे शूद्र अधिकारी है, ऐसा कहते हैं—“तस्माद्” इत्यादिसे ।

सूत्रसे बाहर ही सिद्धान्त करते हैं—“न शूद्रस्याधिकारः” इत्यादिसे । सामान्यतः वेदार्थका ज्ञान जिसे हुआ है, वह विद्यामें अधिकारी है, ऐसा अर्थ है । अध्ययनसे संस्कृत

भाष्य

यत्वात् । यत्तु अर्थित्वं न तदसति सामर्थ्येऽधिकारकारणं भवति । सामर्थ्यमपि न लौकिकं केवलमधिकारकारणं भवति । शास्त्रीयेऽर्थे शास्त्रीयस्य सामर्थ्यस्याऽपेक्षितत्वात् । शास्त्रीयस्य च सामर्थ्यस्याऽध्ययननिराकरणेन निराकृतत्वात् । यच्चेदम्-शूद्रो यज्ञेऽनवक्लृप्तः' इति तत् न्यायपूर्वकत्वाद् विद्यायामप्यनवक्लृप्तत्वं द्योतयति, न्यायस्य साधारणत्वात् । यत्पुनः

भाष्यका अनुवाद

किया जा सकता है । और उपनयन केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यका ही होता है । कामना रहनेपर भी यदि सामर्थ्य न हो तो अधिकारकी प्राप्ति नहीं हो सकती । केवल लौकिक सामर्थ्य ही अधिकारका कारण नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्रीय अर्थमें शास्त्रीय सामर्थ्यकी ही अपेक्षा होती है, और अध्ययनके निराकरणसे शास्त्रीय सामर्थ्यका निराकरण भी हो गया । 'शूद्रो यज्ञे०' (शूद्र यज्ञमें असमर्थ है) ऐसा जो कहा गया है, वह न्यायपूर्वक होनेसे विद्यामें भी असामर्थ्यको सूचित करता है, क्योंकि न्याय साधारण है और

रत्नप्रभा

संभवन्यायासिद्धेः नास्ति वेदान्तविचाराधिकार इत्यर्थः । यद्वा, अध्ययनसंस्कृतेन वेदेन विदितो निश्चितो वेदार्थो येन, तस्य वेदार्थेषु विधिषु अधिकारः नाऽन्यस्य, अनधीतवेदस्याऽपि वेदार्थानुष्ठानाधिकारे अध्ययनविधिवैयर्थ्यापातात् । अतः फलपर्यन्तब्रह्मविद्यासाधनेषु श्रवणादिविधिषु शूद्रस्य अनधिकार इत्यर्थः । अधीत-वेदार्थज्ञानवत्त्वरूपस्य अध्ययनविधिलभ्यस्य सामर्थ्यस्य अभावादिति न्यायस्य तुल्यत्वाद् यज्ञपदं वेदार्थोपलक्षणार्थमित्याह—न्यायस्य साधारणत्वादिति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

वेद और उससे उत्पन्न हुआ वेदका साधारण ज्ञान वेदान्तविचारमें शास्त्रीय सामर्थ्य है । शूद्रमें वह सामर्थ्य न होनेसे अर्थित्व आदिका संभव नहीं है, इससे वह वेदान्तविचारका अधिकारी नहीं है । अथवा अध्ययनसे संस्कृत वेदसे जिसने वेदार्थका निश्चय किया है, उसीका वेदार्थविधिमें अधिकार है, अन्यका नहीं है अर्थात् जो वेदाध्ययन नहीं करता उसका अधिकार नहीं है । जिसने वेद नहीं पढ़ा है, उसका भी यदि वेदार्थानुष्ठानमें अधिकार मान लिया जाय तो अध्ययनविधि व्यर्थ हो जायगी । इसलिए फलपर्यन्त ब्रह्मविद्याके साधन जो श्रवण आदि विधियाँ हैं, उनमें शूद्रका अधिकार नहीं है, ऐसा तात्पर्य है । अध्ययनावधिसे अधीत वेदके अर्थका ज्ञानरूप सामर्थ्य शूद्रमें नहीं है, यह न्याय यज्ञविधि और ब्रह्मविद्यामें तुल्य है, अतः 'शूद्रो यज्ञेऽनवक्लृप्तः' इसमें यज्ञपद वेदार्थका उपलक्षक है, ऐसा कहते हैं—“न्यायस्य

भाष्य

संवर्गविद्यायां शूद्रशब्दश्रवणं लिङ्गं मन्यसे, न तल्लिङ्गं न्यायाभावात्, न्यायोक्ते हि लिङ्गदर्शनं द्योतकं भवति, न चाऽत्र न्यायोऽस्ति । कामं चाऽयं शूद्रशब्दः संवर्गविद्यायामेवैकस्यां शूद्रमधिकुर्यात्, तद्विषयत्वात्, न सर्वासु विद्यासु अर्थवादस्थत्वात् तु न कचिदप्ययं शूद्रमधिकर्तुमुत्सहते ।

भाष्यका अनुवाद

संवर्गविद्यामें शूद्रशब्दकी श्रुतिको जो तुम लिङ्ग मानते हो, वह वस्तुतः लिङ्ग नहीं है, क्योंकि अनुकूल न्याय नहीं है । लिङ्ग न्यायसङ्गत विषयका ही सूचक हो सकता है । यहां तो न्याय है ही नहीं । भले ही यह शूद्रशब्द केवल संवर्गविद्यामें शूद्रके अधिकारका प्रतिपादन करे, क्योंकि शूद्रशब्द संवर्गविद्यामें पठित है, परन्तु सब विद्याओंमें अधिकारका प्रतिपादन नहीं कर सकता । वस्तुतः यह शूद्र शब्द अर्थवादवाक्यमें पठित होनेके कारण किसी भी विद्या-

रत्नप्रभा

तस्मात् शूद्र इति तच्छब्दपरामृष्टन्यायस्य यज्ञब्रह्मविद्ययोः तुल्यत्वात् इत्यर्थः । पूर्वोक्तं लिङ्गं दूषयति—यदिति । असामर्थ्यन्यायेन अर्थित्वादिसम्भवन्यायस्य निरस्तत्वादित्यर्थः । ननु 'निपादस्थपतिं याजयेत्' इत्यत्र अध्ययनाभावेऽपि निपादशब्दात् निपादस्य इष्टै इव शूद्रशब्दात् शूद्रस्य विद्यायाम् अधिकारोऽस्तु—इत्याशङ्क्य संवर्गविद्यायामधिकारमङ्गीकरोति—काममिति । तद्विषयत्वात्—तत्र श्रुतत्वादित्यर्थः । वस्तुतस्तु विधिवाक्यस्थत्वात् निपादशब्दोऽपि अधिकारिसमर्पकः, शूद्रशब्दस्तु विद्याविधिपरार्थवादस्थो नाऽधिकारिणं बोधयति, असामर्थ्यन्यायविरोधेन अन्यपरशब्दस्य स्वार्थबोधित्वासम्भवादिति मत्वा अङ्गीकारं

रत्नप्रभाका अनुवाद

साधारणत्वात्" इत्यादिसे । 'तस्माच्छूद्रो' इसमें 'तत्' शब्द जिस न्यायका परामर्श करता है, वह यज्ञविधि और ब्रह्मविद्यामें तुल्य है । पूर्वोक्त हेतुमें दोष दिखलाते हैं—“यद्” इत्यादिसे । अर्थित्व आदिका सम्भवरूप न्यायका असामर्थ्यरूप न्यायसे निरास किया गया है, इसलिए, ऐसा अर्थ है । परन्तु जैसे 'निपादस्थपतिं याजयेत्' इसमें अध्ययनके अभावमें भी 'निपाद' शब्दसे निपादका यागमें अधिकार है, वैसे ही शूद्रशब्दसे शूद्रका विद्यामें अधिकार हो ऐसी आशंका करके संवर्गविद्यामें शूद्रके अधिकारका स्वीकार करते हैं—“कामम्” इत्यादिसे । 'तद्विषयत्वात्'—उसमें श्रुत होनेके कारण । वास्तवमें तो विधिवाक्यमें पठित होनेके कारण निपादशब्द निपादको अधिकारी सिद्ध करता है, परन्तु शूद्रशब्द तो विद्याविधिपरक अर्थवाद वाक्यमें रहनेके कारण अधिकारीका बोध नहीं करा सकता, क्योंकि असामर्थ्यन्यायका विरोध होनेसे अन्यपरक शब्द स्वार्थका बोध करावे, यह संभव नहीं है, ऐसा विचारकर अङ्गीकृत

भाष्य

शक्यते चाऽयं शूद्रशब्दोऽधिकृतविषये योजयितुम् । कथमित्युच्यते—
'कम्बर एनमेतत्सन्तं सयुग्वानमिव रैकमात्थ' (छा० ४।१।३) इत्यस्माद्
हंसवाक्यादात्मनोऽनादरं श्रुतवतो जानश्रुतेः पौत्रायणस्य शुगुत्पेदे,

भाष्यका अनुवाद

में शूद्रके अधिकारका प्रतिपादन नहीं कर सकता । और यह शूद्रशब्द
अधिकारवाले (द्विजाति) पुरुषके विषयमें अन्वित हो सकता है । किस प्रकार
होता है ? यह कहते हैं—'कम्बर एनमेत०' (शकटीयुक्त रैकवके विषयमें जो
कहना चाहिये, उसे इस साधारण मनुष्यके विषयमें कैसे कहते हो ?) इस
हंसवाक्यसे अपना अनादर सुनकर पौत्रायण जानश्रुतिको शोक उत्पन्न हुआ,

रत्नप्रभा

त्यजति—अर्थवादेति । तर्हि शूद्रशब्दस्याऽत्र श्रुतस्य कोऽर्थ इत्याशङ्क्य सूत्रेण
अर्थमाह—शक्यते चेत्यादिना । जानश्रुतिर्नाम राजा निदाघसमये रात्रौ
प्रासादतले सुष्वाप, तदा तदीयान्नदानादिगुणगणतोपिता ऋषयोऽस्य हितार्थं हंसा
मूत्वा मालारूपेण तस्य उपरि आजग्मुः, तेषु पाश्चात्यो हंसोऽग्रेसरं हंसमुवाच—
भो भो भल्लाक्ष ! किं न पश्यसि जानश्रुतेरस्य तेजः स्वर्गं व्याप्य स्थितम्, तत्
त्वां धक्ष्यति, न गच्छ इति । तमग्रेसर उवाच—कमपि एनं वराकं विद्याहीनं
सन्तम् अरे सयुग्वानं—युगवा—गन्त्री शकटी तथा सह स्थितम्, रैकमिव एतद्
वचनमात्थ । रैकस्य हि ब्रह्मिष्ठस्य तेजो दुरतिक्रमं नाऽस्य अनात्मज्ञस्य इत्यर्थः ।
अस्मद्वचनात् खिलो राजा शकटलिङ्गेन रैकं ज्ञात्वा विद्यावान् भविष्यतीति

रत्नप्रभाका अनुवाद

नियमका त्याग करते हैं—“अर्थवाद” इत्यादिसे । तब यहाँ श्रुत शूद्रशब्दका क्या अर्थ है,
ऐसी आशंका करके सूत्रने उसका अर्थ कहते हैं—“शक्यते च” इत्यादिसे । जानश्रुति
नामक राजा मोक्ष ऋतुमें रात्रिके समय महलके छतपर सोया था, तब उसके अन्नदान आदि
अनेक शुभोंसे संतुष्ट हुए ऋषि उसके कल्याणके लिए हंसका रूप धारण करके पंक्तिरूपसे उसके
ऊपर आशानमें उड़ते हुए आये । उनमेंसे पिछले हंसने आगेके हंससे कहा—अरे भल्लाक्ष, क्या
तू नहीं जानता है कि जानश्रुतिका तेज स्वर्गमें भी व्याप्त है, वह तुझे मरम् कर देगा, इसलिए आगे
मत बढ । उस पिछले हंसको आगेके हंसने उत्तर दिया—अरे, यह बेचारा विद्याहीन है, इसके
लिए तू उन वचनोंका प्रयोग कर रहे हो, जिनका कि शकटी (गाड़ी) के साथ रहनेवाले रैकके
लिए प्रयोग किया जाता है अर्थात् ब्रह्मज्ञानी रैकका तेज दुर्लभ्य है, इस आत्मज्ञानरहित जानश्रुतिका
तेज वैसा नहीं है । हमारे वचनोंसे विभ्र होकर राजा शकटीरूप चिह्नसे रैकको पहिचान कर

भाष्य

तामृषी रैकः शूद्रशब्देनाऽनेन सूचयांबभूवाऽऽत्मनः परोक्षज्ञताख्यापनायेति गम्यते, जातिशूद्रस्याऽनधिकारात् । कथं पुनः शूद्रशब्देन शुगुत्पन्ना सूच्यते इति ? उच्यते—तदाद्रवणात्, शुचमभिदुद्राव, शुचा वाऽभिदुद्रुवे, शुचा वा रैकमभिदुद्रावेति शूद्रः, अवयवार्थसम्भवाद् रूढवर्थस्य चाऽसम्भवात् । दृश्यते चाऽयमर्थोऽस्यामाख्यायिकायाम् ॥३४॥

भाष्यका अनुवाद

प्रतीत होता है कि रैक्व ऋषिने अपने अपरोक्ष ज्ञानको बतलानेके लिए इस शूद्रशब्दसे उसी शोकका सूचन किया है । क्योंकि शूद्रजातिको अधिकार नहीं है । परन्तु राजाको उत्पन्न हुआ शोक शूद्रशब्दसे किस प्रकार सूचित किया गया है ? कहते हैं—उसके आद्रवणसे । वह शोककी ओर अग्रसर हुआ अर्थात् शोकाक्रान्त हुआ अथवा शोकने उसपर आक्रमण किया अथवा शोकसे रैक्वके पास गया, इसलिए वह शूद्र कहा गया है । क्योंकि यहांपर यौगिक अर्थका ही सम्भव है और रूढ अर्थका सम्भव नहीं है । इस आख्यायिकामें यही अर्थ स्पष्ट प्रतीत होता है ॥ ३४ ॥

रत्नप्रभा

हंसानाम् अभिप्रायः । कम् उ अरे इति पदच्छेदः । उशब्दः अप्यर्थः । तेषां हंसानाम् अनादरवाक्यश्रवणात् अस्य राज्ञः शुग् उत्पन्ना, सा शूद्रशब्देन रैकेन सूच्यते हीति सूत्रान्वयः । श्रुतयौगिकार्थत्वमे सति अनन्वितरूढवर्थः त्याज्य इति न्यायद्योतनार्थो हिशब्दः । तदाद्रवणात् तथा शुचा आद्रवणात्—शूद्रः—शोकं प्राप्तवान्, शुचा वा कर्त्या राजा अभिदुद्रुवे—प्राप्तः, शुचा वा करणेन रैकं गतवानित्यर्थः ॥ ३४ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

ब्रह्मज्ञान प्राप्त करेगा, ऐसा हंसोंका अभिप्राय है । 'कम्बरे'—कम्, उ, अरे, ऐसा पदच्छेद है । 'उ'—अपि । उन हंसोंका अनादर वाक्य सुनकर उरा राजाको शोक उत्पन्न हुआ, रैकने उसी शोकका शूद्रशब्दसे सूचन किया है, ऐसा सूत्रमें अन्वय है । यदि ध्रुत यौगिक अर्थका लाभ हो, तो अनन्वित (जिसका अन्वय न होता हो) रूढवर्थका त्याग कर देना चाहिए. इस न्यायको सूचित करनेके लिए सूत्रमें 'हि' शब्द है । 'तदाद्रवणात्'—उस शोकसे अभिद्रवण होनेके कारण वह शूद्र कहा गया है अर्थात् वह विलस हुआ अथवा शोकने उसपर आक्रमण किया अथवा शोकमें वह रैकके पास गया, अतः शूद्र कहा गया है ॥ ३४ ॥

क्षत्रियत्वगतेश्चोत्तरत्र चैत्ररथेन लिङ्गात् ॥३५॥

पदच्छेद—क्षत्रियत्वगतेः, च, उत्तरत्र, चैत्ररथेन, लिङ्गात् ।

पदार्थोक्ति—क्षत्रियत्वगतेश्च—क्षत्रियत्वज्ञानाच्च (जानश्रुतिः न मुख्य-
शब्दः, तत् कस्मात्) उत्तरत्र—संवर्गविद्यावाक्यशेषे, चैत्ररथेन—चित्ररथवंशी-
येन अभिप्रतारिणा क्षत्रियेण, लिङ्गात्—समभिव्याहारात्मकलिङ्गात् ।

भाषार्थ—जानश्रुति क्षत्रिय है ऐसा श्रुतिसे प्रतीत होता है, इसलिए वह
मुख्य शब्द नहीं है । वह क्षत्रिय कैसे समझा जाता है ? इससे कि आगे संवर्गविद्याके
वाक्यशेषमें चित्ररथके वंशमें उत्पन्न हुए अभिप्रतारी नामक क्षत्रियके साथ उसका
कथन है ।

भाष्य

इत्थं न जातिशूद्रो जानश्रुतिः, यत्कारणं प्रकरणनिरूपणेन क्षत्रिय-
त्वमस्योत्तरत्र चैत्ररथेनाऽभिप्रतारिणा क्षत्रियेण समभिव्याहाराल्लिङ्गाद्
गम्यते । उत्तरत्र हि संवर्गविद्यावाक्यशेषे चैत्ररथिरभिप्रतारी क्षत्रियः
संकीर्त्यते—‘अथ ह शौनकं च कापेयमभिप्रतारिणं च काक्षसेनिं सूदेन

भाष्यका अनुवाद

और इससे भी जानश्रुति जातिसे शूद्र नहीं है, क्योंकि प्रकरणके निरूपण-
से आगे चैत्ररथ अभिप्रतारी क्षत्रियके साथ इसका निर्देश किया गया है, उससे
यह क्षत्रिय प्रतीत होता है । आगे—संवर्गविद्याके वाक्यशेषमें चैत्ररथि
अभिप्रतारी क्षत्रियका कथन है—‘अथ ह शौनकम्’ (जब कि शुनकके पुत्र कापेय
और कक्षसेनके पुत्र अभिप्रतारीके लिए परोसा जा रहा था, तब उनसे एक

रत्नप्रभा

शूद्रशब्दस्य यौगिकत्वे लिङ्गमाह—क्षत्रियत्वैति । संवर्गविद्याविध्यनन्तरम्
अर्थवाद आरभ्यते । शुनकस्य अपत्यं कपिगोत्रं पुरोहितम् अभिप्रतारिनामकं
राजानं च कक्षसेनस्य अपत्यं सूदेन परिविष्यमाणौ तौ भोक्तुम् उपविष्टौ बटुः

रत्नप्रभाका अनुवाद

शूद्र शब्दको यौगिक माननेमें हेतु देते हैं—‘क्षत्रियत्व०’ इत्यादिसे । संवर्गविद्याके
अनन्तर अर्थवादका आरम्भ होता है । शुनकका अपत्य कपिगोत्रमें उत्पन्न पुरोहित और
कक्षसेनका अपत्य अभिप्रतारी नामका राजा, ये दोनों भोजन करनेके लिए बैठे थे और

भाष्य

परिविष्यमाणौ ब्रह्मचारी विभिक्षे' (छा०, ४।२।५) इति । चैत्ररथित्वं चाऽभिप्रतारिणः कापेययोगादवगन्तव्यम्, कापेययोगो हि चित्ररथस्याऽवगतः 'एतेन वै चैत्ररथं कापेया अयाजयन्' (ताण्ड्यब्रा० २०।१२।५) इति । समानान्वयानाञ्च, प्रायेण समानान्वया याजका भवन्ति । 'तस्माच्चैत्ररथिर्नामैकः क्षत्रपतिरजायत' इति च क्षत्रपतित्वावगमात् क्षत्रियत्वमस्याऽवगन्तव्यम् । तेन क्षत्रियेणाऽभिप्रतारिणा सह समानायां संवर्गविद्यायां संकीर्तनं जानश्रुतेरपि क्षत्रियत्वं सूचयति । समानानामेव हि

भाष्यका अनुवाद

ब्रह्मचारीने भिक्षा मांगी) । अभिप्रतारी चैत्ररथके वंशका था, यह कापेयके संबन्धसे ज्ञात होता है 'एतेन वै चित्ररथं०' (इस द्विरात्रयज्ञसे कापेयोंने चैत्ररथको यज्ञ कराया) इससे चित्ररथका कापेयके साथ सम्बन्ध प्रतीत होता है । प्रायः समानवंशवाले समानवंशवालोंके याजक होते हैं । 'तस्माच्चैत्ररथिर्नामैकः०' (चैत्ररथि नामका क्षत्रपति चित्ररथसे जन्मा) इस प्रकार उसके क्षत्रपति प्रतीत होनेसे निश्चय होता है कि वह क्षत्रिय था । उस क्षत्रिय अभिप्रतारीके साथ समान विद्यामें जानश्रुतिका सङ्कीर्तन उसके क्षत्रियत्वको सूचित करता है, क्योंकि प्रायः

रत्नप्रभा

भिक्षितवानित्यर्थः । ननु अस्त्य चैत्ररथित्वं न श्रुतमित्यत आह—चैत्ररथित्वञ्चेति । एतेन द्विरात्रेण इति छान्दोग्यश्रुत्यैव पूर्वं चित्ररथस्य कापेययोग उक्तः अभिप्रतारिणोऽपि तद्योगात् चित्ररथवंश्यत्वं निश्चीयते । राजवंश्यानां हि प्रायेण पुरोहितवंश्याः याजका भवन्तीत्यर्थः । ननु अस्तु अभिप्रतारिणः चैत्ररथित्वम्, तावता कथं क्षत्रियत्वम्, तत्राऽऽह—तस्मादिति । चित्ररथात् इत्यर्थः । क्षत्रा—सूतः,

रत्नप्रभाका अनुवाद

रसोदया परोस रहा था, इतनेमें उनसे एक ब्रह्मचारीने भिक्षा मांगी ऐसा अर्थ है । यदि कोई कहे कि धृतिमें कहींपर भी यह चैत्ररथि है ऐसा नहीं कहा गया है, उगपर कहते हैं—“चैत्ररथित्वं च” इत्यादिसे । “एतेन”—इतने, अर्थात् द्विरात्रेष्टे, इसमें पूर्व छान्दोग्य धृतिमें ही चित्ररथके साथ कापेयका संबन्ध कहा गया है और अभिप्रतारीना भी कापेयके साथ सम्बन्ध होनेसे यह चित्ररथके वंशका है, ऐसा निश्चय होता है, प्रायः राजवंशियोंके यज्ञ करानेवाले पुरोहितवंशके ही होते हैं, ऐसा अर्थ है । यदि कोई कहे कि अभिप्रतारा भले ही चित्ररथके वंशमें उत्पन्न हुआ हो, किन्तु शयमे यह क्षत्रिय है यह कैसे

भाष्य

प्रायेण समभिव्याहारा भवन्ति । क्षत्तृप्रेषणाद्यैश्वर्ययोगाच्च जानश्रुतेः क्षत्रिय-
त्वावगतिः । अतो न शूद्रस्याऽधिकारः ॥ ३५ ॥

भाष्यका अनुवाद

समानोंका ही एक साथ निर्देश होता है, सारथि इत्यादि ऐश्वर्यके योगसे भी प्रतीत
होता है कि जानश्रुति क्षत्रिय था । इससे सिद्ध हुआ कि श्रौत विद्यामें शूद्रका
अधिकार नहीं है ॥ ३५ ॥

रत्नप्रभा

तस्य रैकान्वेषणाय प्रेषणम्, अन्नगोदानादिक च जानश्रुतेः क्षत्रियत्वे लिङ्गम् ।
अत्र शूद्रशब्दो यौगिक एवेति न शूद्रस्य अधिकार इति स्थितम् ॥ ३५ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

समझा जाय ? इसपर कहते हैं—“तस्मात्” इत्यादिसे । ‘तस्मात्’—अर्थात् चित्ररथसे । क्षत्ता-
सूत । रैकान्वेषण करनेके लिए सारथिको भोजना, अन्नदान, गोदान आदि करना जानश्रुतिको
क्षत्रिय सिद्ध करते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि सर्वगविद्याके वाक्यशेषमें विद्यमान शूद्र-
शब्द यौगिक है, इसलिए शूद्रका विद्यामें अधिकार नहीं है ॥ ३४ ॥

संस्कारपरामर्शात्तदभावामिलापाच्च ॥३६॥

पदच्छेद—संस्कारपरामर्शात्, तदभावामिलापात्, च ।

पदार्थोक्ति—संस्कारपरामर्शात्—‘त होपनिन्ये’ ‘अधीहि भगव इति होप-
ससाद्’ इत्यादिविद्याप्रदेशेषु उपनयनादिसंस्कारपरामर्शात्, तदभावामिलापाच्च—
‘न शूद्रे पातक किञ्चिन्न च संस्कारमर्हति’ इत्यादिना शूद्रस्य उपनयनादिसंस्कारा
भावामिधानाच्च [न विद्याया शूद्रस्याऽधिकार.] ।

भाषार्थ—‘त होप०’ (उसका उपनयन किया), ‘अधीहि भगव०’ (हे
भगवन् ! मुझे विद्याका उपदेश दीजिए ऐसा कहते हुए नारद सनत्कुमारके पास गये)
इत्यादि विद्याप्रकरणमें उपनयन आदि संस्कारका परामर्श किया गया है और ‘न शूद्रे
पातक०’ (शूद्रको कोई पाप नहीं है, न वह संस्कारके योग्य है) इत्यादिसे
शूद्रके लिए उपनयन आदि संस्कारोंका निषेध किया गया है, इस कारणसे शूद्रका
विद्यामें अधिकार नहीं है ।

भाष्य

इतश्च न शूद्रस्याऽधिकारः, यद्विद्याप्रदेशेषूपनयनादयः संस्काराः परामृश्यन्ते—‘तं होपनिन्ये’ (श० ब्रा० ११।५।३।१३) ‘अधीहि भगव इति होपससाद्’ (छा० ७।१।१) ‘ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वै तत्सर्वं वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुप-

भाष्यका अनुवाद

और इससे भी शूद्रका विद्यामें अधिकार नहीं है, क्योंकि ‘तं होपनिन्ये’ (उसका उपनयन किया) ‘अधीहि भगव०’ (हे भगवन् ! मुझे उपदेश दीजिए, ऐसा कहते हुए नारद सनत्कुमारके पास गये), ‘ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः०’ (पिप्पलाद हमारे सब सन्देशोंको दूर करेंगे ऐसा निश्चय कर वेदोंमें पारंगत, ब्रह्मनिष्ठ, परब्रह्मकी खोजमें लगे हुए छः ऋषि हाथमें समिध लेकर भगवान् पिप्पलादके पास गये) इस प्रकार विद्याओंके प्रकरणमें उपनयन आदि संस्कारोंका कथन

रत्नप्रभा

तत्र लिङ्गान्तरमाह—संस्कारेति । उपनयनं वेदग्रहणाद्गं शूद्रस्य नास्तीति पूर्वमुक्तम्, इह विद्याग्रहणाद्गस्य उपनयनसंस्कारस्य सर्वत्र परामर्शात् शूद्रस्य तदभावाद् न विद्याधिकार इत्युच्यते । भाष्ये आदिपदेन अध्ययनगुरुशुश्रूषादयो गृह्यन्ते । तं शिष्यम् आचार्य उपनीतवान् इत्यर्थः । नारदोऽपि विद्यार्थी मन्त्रम् उच्चारयन् सनत्कुमारमुपगत इत्याह—अधीति । उपदिशेति यावत् । ब्रह्मपराः—वेदपारगाः, सगुणब्रह्मनिष्ठाः, परं निर्गुणं ब्रह्म अन्वेषमाणाः; एषः—पिप्पलादः, तत्—जिज्ञासितं सर्वं वक्ष्यतीति निश्चित्य ते भारद्वाजादयः पदपर्ययः तमुपगता

रत्नप्रभाका अनुवाद

विद्यामें शूद्रके अनधिकारका समर्थक दूसरा हेतु देते हैं—“संस्कार०” इत्यादिते । वेदाध्ययनका अंगभूत उपनयन शूद्रका नहीं होता, यह कहा जा चुका है । यहाँ विद्याके ग्रहणके अंगभूत उपनयन संस्कारका सर्वत्र परामर्श होने और शूद्रके लिए उसका विधान न होनेसे शूद्रका विद्यामें अधिकार नहीं है, ऐसा कहते हैं । भाष्यस्य “उपनयनादयः” के आदि पदसे अध्ययन, गुरुसेवा आदिका ग्रहण है । ‘तं होपनिन्ये’ अर्थात् आचार्यने विद्यार्थी शिष्यका उपनयन किया । विद्यार्थी नारद भी मन्त्रका उच्चारण करते हुए सनत्कुमारके पास गये, ऐसा कहते हैं—“अधीहि” इत्यादिते । ‘अधीहि’—उपदेश करो, ‘ब्रह्मपराः’—वेदविद्यामें पारंगत, सगुण ब्रह्मके ध्यानमें स्थिर और निर्गुण—परब्रह्मकी खोज करनेवाले भारद्वाज आदि ये छः ऋषि पिप्पलाद हमारा सब जिज्ञासाओंको पूर्ण करेंगे—ऐसा निश्चय करके उनके पास

भाष्य

सन्नाः' (प्र० १।१) इति च, 'तान् हानुपनीयैव' (छा० ५।११।७) इत्यापि प्रदर्शितैवोपनयनप्राप्तिर्भवति । शूद्रस्य च संस्काराभावोऽभिलष्यते, 'शूद्रश्चतुर्थो वर्ण एकजातिः' (मनु० १०।४) इत्येकजातित्वस्मरणात्, 'न शूद्रे पातकं किञ्चिन्न च संस्कारमर्हति' (मनु० १०।१२।६) इत्यादिभिश्च ॥ ३६ ॥

भाष्यका अनुवाद

है । 'तान् हानु' (उनका उपनयन किये बिना ही) इसमें मी उपनयनकी प्राप्ति दिखाई ही गई है । शूद्रके संस्कार नहीं होते हैं, यह कहा गया है । 'शूद्रश्चतुर्थो' (शूद्र चतुर्थ वर्ण एवं उपनयनरहित है) इस प्रकार स्मृतिमें वह एकजाति कहा गया है । 'न शूद्रे पातकं' (शूद्रमें कुछ पाप नहीं और वह संस्कारके योग्य नहीं है) इत्यादिसे मी संस्कारोंके अभावका अभिधान है ॥३६॥

रत्नप्रभा

इत्यर्थः । ननु वैश्वानरविद्यायाम् ऋषीन् राजा अनुपनीयैव विद्याम् उवाच इति श्रुतेरनुपनीतस्य अपि अस्ति विद्याधिकार इत्यत आह—तान् हेति । "ते ह समित्पाणयः पूर्वाह्ने प्रतिचक्रमिरे" (छा० ५।११।७) इति पूर्ववाक्ये ब्राह्मणाः उपनयनार्थम् आगता इति उपनयनप्राप्तिं दर्शयित्वा निषिध्यते । हीनवर्णेन उत्तमवर्णाः अनुपनीयैव उपदेष्टव्या इति आचारज्ञापनार्थमित्यर्थः । एकजातिः—अनुपनीतः । पातकम्—अभक्ष्यभक्षणकृतम् ॥ ३६ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

गये, ऐसा श्रुतिका अर्थ है । परन्तु वैश्वानर विद्यामें मुना जाता है कि ऋषियोंका उपनयन किये बिना ही उन्हें विद्याका उपदेश किया गया है, इससे प्रतीत होता है कि उपनयनरहितका मी विद्यामें अधिकार है, इसपर कहते हैं—“तान् हा०” । “ते ह समित्पाणय०” (वे हाथमे समिध लेकर दोपट्टरसे पहिले उनके पास गये) इस पूर्व वाक्यमें ब्राह्मण उपनयनके लिए आये, इस प्रकार उपनयनकी प्राप्ति दिखाकर निषेध किया है । हीनवर्ण उत्तम वर्णको उपनयन किये बिना उपदेश करे, इस आचारको यत्नानेके लिए ऐसा कहा है । 'एकजाति'—जिसका उपनयन संस्कार नहीं होता है । 'पातकम्'—अभक्ष्यके भक्षणसे उत्पन्न हुआ पाप ॥३६॥



तदभावनिर्धारणे च प्रवृत्तेः ॥३७॥

पदच्छेद—तदभावनिर्धारणे, च, प्रवृत्तेः ।

पदार्थोक्ति—तदभावनिर्धारणे जाबालस्य सत्यवचनेन 'शूद्रत्वाभावनिश्रये सत्येव, प्रवृत्तेः—गौतमस्य विधोपदेशे प्रवृत्तिदर्शनाद्, च—अपि [ज्ञायते नं शूद्रस्याधिकार इति] ।

भापार्थ—सत्यवचनसे यह निश्चय होनेपर ही कि जाबाल शूद्र नहीं है, किन्तु ब्राह्मण है, गौतम जाबालके लिये विद्याका उपदेश करनेमें प्रवृत्त हुए, इससे भी ज्ञात होता है कि विद्यामें शूद्रका अधिकार नहीं है ।



रत्नप्रभा

सत्यकामः किल मृतपितृको जबालं मातरम् अपृच्छत्—किगोत्रोऽहमिति । तं माता उवाच—भर्तृसेवाव्यग्रतया अहमपि तव पितुः गोत्रं न जानामि, जबाला तु नाम अहम् अस्मि सत्यकामो नाम त्वमसि इति एतावद् जानामीति । ततः स जाबालो गौतमम् आगत्य तेन किगोत्रोऽसीति पृष्ट उवाच—नाऽहं गोत्रं वेत्ति, न माता वेत्ति, परन्तु मे मात्रा कथितम्—उपनयनार्थम् आचार्यं गत्वा सत्यकामो जाबालोऽस्मीति ब्रूहीति । अनेन सत्यवचनेन तस्य शूद्रत्वाभावो निर्धारितः । अत्राह्मण एतत् सत्यं विविच्य वक्तुम् नाऽर्हतीति निर्धार्य, हे सोम्य ! सत्यात् त्वं नाऽगाः—सत्यं न त्यक्तवानसि । अतः त्वाम् उपनेप्ये, तदर्थं समिधम् आहर इति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

सत्यकामने, जिसका पिता पहले ही मर चुका था, अपनी माता जबालसे पूछा कि मेरा कौन गोत्र है ? उससे माताने कहा—स्वामीकी सेवामें व्यग्र रहनेके कारण मैं भी तुम्हारे पिताका गोत्र नहीं जान सकती, मेरा नाम जबाल है और तुम्हारा नाम सत्यकाम है, मैं इतना ही जानती हूँ । इसके बाद सत्यकाम गौतमके पास गया और जब गौतमने पूछा कि तुम्हारा कौन गोत्र है, तब सत्यकामने इतना ही कहा कि मैं गोत्र नहीं जानता, मेरी माता भी नहीं जानती, परन्तु माताने कहा है कि उपनयनके लिए आचार्यके पास जाकर कहना कि मैं सत्यकाम जाबाल हूँ । इस सत्यवचनसे आचार्यने निश्चय किया कि यह शूद्र नहीं है । अत्राह्मण सत्य और असत्यका विवेक करके इस प्रकार नहीं घाल सकता, ऐसा निश्चय करके आचार्यने उगमे कहा—हे सोम्य ! तुम सत्यसे विचलित नहीं हुए अर्थात् तुमने सत्यका त्याग नहीं किया, इसलिये मैं तुम्हारा उपनयन करूँगा, उसके लिए समिध लो । इस प्रकार गौतम

भाष्य

इतश्च न शूद्रस्याऽधिकारः, यत् सत्यवचनेन शूद्रत्वाभावे निर्धारितं जावालं गौतम उपनेतुमनुशासितुं च प्रवृत्ते—‘नैतदब्राह्मणो विवक्तुमर्हति समिधं सोम्याहरोप त्वा नेप्ये न सत्यादगाः’ (छा० ४।४।५) इति श्रुतिलिङ्गात् ॥ ३७ ॥

भाष्यका अनुवाद

और इससे भी शूद्रका विद्यामें अधिकार नहीं है, क्योंकि सत्य बोलनेसे शूद्रत्वके अभावका निश्चय होनेपर गौतम जावालना उपनयन करने और उसे विद्याका उपदेश करनेके लिए प्रवृत्त हुए, क्योंकि ‘नैतदब्राह्मणो’ (ब्राह्मणेतर इस प्रकार सरलतासे सत्यवचन नहीं बोल सकता है । हे सोम्य ! समिध लाओ, मैं तुम्हारा उपनयन करूँगा, तुम सत्यसे विचलित नहीं हुए) ऐसी श्रुति है ॥३७॥

रत्नप्रभा

गौतमस्य प्रवृत्तेश्च लिङ्गात् न शूद्रस्य अधिकार इत्याह—तदभावेति ॥ ३७ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

उसका उपनयन करनेके लिए प्रवृत्त हुए । गौतमकी इस प्रवृत्तिसे भी प्रतीत होता है कि विद्यामें शूद्रका अधिकार नहीं है, ऐसा कहते हैं—“तदभाव” इत्यादिसे ॥३७॥

श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात् स्मृतेश्च ॥ ३८ ॥

पदच्छेद—श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात्, स्मृतेः, च ।

पदार्थोक्ति—स्मृतेः—‘अथास्य वेदमुपशृण्वतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपूरणम्’ ‘तस्मात् शूद्रसमीपे नाध्येतव्यम्’ ‘न शूद्राय मतिं दद्यात्’ ‘द्विजातीनामध्ययनमिज्या दानम्’ इत्यादि स्मृतितः, श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात्—वेदश्रवणस्य वेदाध्ययनस्य वेदार्थज्ञानानुष्ठानयोश्च निषेधात्, च—अपि [शूद्रस्य न विद्यायामधिकारः] ।

भाषार्थ—‘अथास्य वेद०’ (समीपसे वेदको सुनते हुए शूद्रके कान सीसे और लाहसे भर देने चाहिए), ‘तस्माच्छूद्र०’ (इसलिए शूद्रके समीपमें अध्ययन नहीं करना चाहिए), ‘न शूद्राय०’ (ब्राह्मणको चाहिए कि शूद्रके लिए ज्ञानका उपदेश न करे), ‘द्विजातीनाम्’ (वेदाध्ययन, यज्ञ और दानका अधिकार द्विजातियोंको ही है) इत्यादि स्मृतियोंसे शूद्रके लिए वेदके श्रवण, अध्ययन अर्थज्ञान एवं अनुष्ठानका निषेध किया गया है, इससे भी सिद्ध होता है कि विद्यामें शूद्रका अधिकार नहीं है ।

भाष्य

इतश्च न शूद्रस्याऽधिकारः, यदस्य स्मृतेः श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधो भवति, वेदश्रवणप्रतिषेधो वेदाध्ययनप्रतिषेधस्तदर्थज्ञानानुष्ठानयोश्च प्रतिषेधः शूद्रस्य स्मर्यते । श्रवणप्रतिषेधस्तावत्—‘अथास्य वेदमुपशृण्वतस्त्रपु-जतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपूरणम्’ इति, ‘पद्यु ह वा एतच्छ्रमशानं यच्छूद्र-स्तस्माच्छूद्रसमीपे नाध्येतव्यम्’ इति च । अत एवाऽध्ययनप्रतिषेधः, यस्य हि समीपेऽपि नाऽध्येतव्यं भवति, स कथमश्रुतमधीयीत । भवति च वेदोच्चारणे जिह्वाच्छेदो धारणे शरीरभेद इति । अत एव चाऽर्थादर्थज्ञानानुष्ठानयोः प्रतिषेधो भवति—‘न शूद्राय मतिं दद्यात्’ इति,

भाष्यका अनुवाद

और इससे भी शूद्रका विद्यामें अधिकार नहीं है, क्योंकि स्मृति उसके लिए श्रवण, अध्ययन और अर्थका निषेध करती है । स्मृतिमें शूद्रके लिए वेदके श्रवण, वेदके अध्ययन और वेदार्थके ज्ञान एवं अनुष्ठानका निषेध है । ‘अथास्य वेदमुप०’ (समीपसे वेदका श्रवण करनेवाले शूद्रके दोनों कानोंको सीसे और लहसे भर दे) और ‘पद्यु ह वा एतच्छ्रमशानं०’ (शूद्र निःसन्देह जङ्गम श्मशान है, इसलिए शूद्रके समीपमें अध्ययन नहीं करना चाहिए) इस प्रकार श्रवणका निषेध है । इसीसे अध्ययनका निषेध भी सिद्ध होता है, क्योंकि जिसके समीपमें भी अध्ययन करना युक्त नहीं, वह अश्रुतका अध्ययन किस प्रकार कर सकता है ? यदि शूद्र वेदका उच्चारण करे तो उसकी जिह्वा काट देनी चाहिए, यदि वेदको याद करे तो उसके शरीरके टुकड़े-टुकड़े कर देने चाहिए, ऐसी स्मृति भी है । इसी हेतुसे अर्थात् शूद्रके लिए अर्थज्ञान और अनुष्ठानका भी निषेध होता है—‘न शूद्राय०’ (ब्राह्मणको चाहिए कि शूद्रको वेदार्थज्ञान न दे)

रत्नप्रभा

स्मृत्या श्रवणादिनिषेधाच्च न अधिकार इत्याह—श्रवणेति । अस्य शूद्रस्य द्विजैः पद्यमानं वेदं प्रमादात् शृण्वतः सीसलाक्षाभ्यां तप्साभ्यां श्रोत्रद्वय-पूरणं प्रायश्चित्तं कार्यमित्यर्थः । पद्यु—पादयुक्तम् । सच्चरिष्युरूपमिति यावत् ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

स्मृतिमें शूद्रके लिए वेदश्रवण आदिका निषेध किया गया है, इससे भी शूद्रका विद्यामें अधिकार नहीं है, ऐसा कहते हैं—‘श्रवण’ इत्यादिसे । ‘अथ०’—यह शूद्र द्विजोंसे पूजे जाते हुए वेदको प्रमादसे भी यदि सुन ले, तो उसके लिए यह प्रायश्चित्त है कि सीसे और लहसे तपाकर उससे उसके दोनों कान भर देने चाहिए, ऐसा धृतिका अर्थ है । ‘पद्यु’—पादयुक्त

भाष्य

‘द्विजातीनामध्ययनमिज्या दानम्’ इति च । येषां पुनः पूर्वकृतसंस्कार-
वशाद् विदुरधर्मव्याधप्रभृतीनां ज्ञानोत्पत्तिस्तेषां न शक्यते फलप्राप्तिः
प्रतिषेद्धुम्, ज्ञानस्यैकान्तिकफलत्वात् । ‘श्रावयेच्चतुरो वर्णान्’ इति
चेतिहासपुराणाधिगमे चातुर्वर्ण्यस्याऽधिकारस्मरणात् । वेदपूर्वकस्तु
नास्त्यधिकारः शूद्राणामिति स्थितम् ॥ ३८ ॥

भाष्यका अनुवाद

और ‘द्विजातीना०’ (केवल द्विजोंके लिए ही अध्ययन, यज्ञ और दानका विधान
है) । परन्तु विदुर धर्मव्याध आदि जिनको पूर्वकर्मके संस्कारोंसे ज्ञान उत्पन्न
हुआ था, उनके लिए फलप्राप्तिका निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्ञान
अव्यभिचरित फल उत्पन्न करता है । ‘श्रावयेच्च०’ (चारों वर्णोंको सुनावे) इस
प्रकार स्मृति इतिहास और पुराणका ज्ञान प्राप्त करनेमें चारों वर्णोंका अधिकार
वतलाती है । इससे सिद्ध हुआ कि वेदाध्ययनपूर्वकं ज्ञान प्राप्त करनेका शूद्रको
अधिकार नहीं है ॥ ३८ ॥

रत्नप्रभा

भवति च स्मृतिः इति शेषः । मतिम्—वेदार्थज्ञानम् । दानं नित्यं निषिध्यते
शूद्रस्य नैमित्तिकं तु दानम् अस्त्येव । यदुक्तं विदुरादीनां ज्ञानित्वं दृष्टमिति,
तत्राऽऽह—येषामिति । सिद्धानां सिद्धेः दुरपहस्त्वेऽपि साधकैः शूद्रैः कथं ज्ञान
लब्धव्यमित्यत आह—श्रावयेदिति ॥ ३८ ॥ (९) ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

अर्थात् संस्करणशाल । ‘भवति च’ के बाद ‘स्मृतिः’ इतना शेष सम्झना बाहिर । ‘मतिम्’—
वेदार्थका ज्ञान । नित्य दानका शूद्रके लिए निषेध है, नैमित्तिक दान तो वह कर ही सकता है ।
यह जो कहा गया है कि विदुर आदि ज्ञानी थे, यह स्मृतिसिद्ध है, इसपर कहते हैं—“येषाम्”
इत्यादि । सिद्धोंकी सिद्धि तो रोकी नहीं जा सकती, तो भी साधक शूद्र किस प्रकार ज्ञान प्राप्त
करे ? इसपर कहते हैं—“श्रावयेद्” इत्यादि ॥३८॥



(१) ‘दानत्र दक्षाच्छूद्रोऽपि पाकथत्तैर्यजेत च’ इस वचनसे ‘द्विजातीनामिज्याध्ययन दानम्’ इस
वचनके विरोधका परिहार करते हैं—नित्यदान इत्यादिसे ।

[१० कम्पनाधिकरण सू० ३९]

जगत्कम्पनकृतप्राणोऽशनिर्वायुरुतेश्वरः ।

अशनिर्भयहेतुत्वाद्वायुर्वा देहचालनात् ॥१॥

वेदनादमृतत्वोक्तेरीशोऽन्तर्यामिरूपतः ।

भयहेतुश्चालनन्तु सर्वशक्तियुतत्वतः* ॥२॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—‘यदिद किञ्च जगत्सर्वम्’ इस श्रुतिमें कथित जगत्को कम्पित करनेवाला प्राण वज्र है अथवा वायु है या ईश्वर है ?

पूर्वपक्ष—भयजनक होनेके कारण वह प्राण वज्र हो सकता है अथवा देह आदिका संचालक होनेके कारण वायु हो सकता है ।

सिद्धान्त—उक्त प्राणके शानसे मोक्षप्राप्ति कही गई है, इससे प्रतीत होता है कि वह ईश्वर ही है । वह अन्तर्यामी होनेके कारण भयजनक हो सकता है एव सर्वशक्ति-सम्पन्न होनेके कारण संचालक भी हो सकता है ।

* कठोपनिषद्की छठी वलीमें श्रुति है—‘यदिद किञ्च जगत्सर्वं प्राण एजति निःसृतम् । महद्भय वज्रमुपत य एतद्विरमृतास्ते भवन्ति ॥’ अर्थात्—उपपन्न हुआ यह सारा जगत् निमित्तभूत प्राणके रहते ही चेष्टा करता है । वह वस्तु जो कि प्राणशब्दसे कही गई है, प्रहार करनेके लिए उठाए हुए वज्रके समान भयङ्कर है । प्राणशब्दप्रतिपाद्य उस पदार्थको जो जानते हैं, वे भ्रमर हो जाते हैं ।

जगत्का चट्टाके हेतुभूत उक्त प्राणमें तीन प्रकारका सन्देह होता है—वह अशनि है वा वायु है अथवा ईश्वर है ?

पूर्वपक्षी कहता है कि वह वज्र हो सकता है, क्योंकि ‘महद्भयम्’ से वह भयङ्कर कहा गया है अथवा वायु हो सकता है, क्योंकि ‘प्राण एजति’ से वह देह आदिका संचालक प्रतीत होता है ।

सिद्धान्ती कहते हैं कि उक्त श्रुतिमें पाठित प्राणशब्द ईश्वरका ही प्रतिपादक है, क्योंकि ‘य एत-द्विरमृतास्ते भवन्ति’ इससे उसे जाननेवालेके लिए मोक्षप्राप्ति कही गई है । सबके अन्तर्यामी होनेके कारण ही वह भयका हेतु भी कहा जा सकता है । ‘भीषारमादात्, पवते’ इत्यादि दूतरी धुतियोंसे भी ईश्वर ही भयका हेतु जाना जाता है । देह आदिका संचालन करना भी सर्वशक्तिकारण होनेके कारण ईश्वरमें उपपन्न होगा है । हममें सिद्ध हुआ कि प्राणशब्दप्रतिपाद्य ईश्वर ही है ।

कम्पनात् ॥ ३९ ॥

पदार्थोक्ति—कम्पनात्—[‘यदिद किञ्च जगत्सर्वं प्राण एजति निःसृतम्’ इत्यादिश्रुतौ प्रतीयमान प्राण परमात्मेऽय, कुतः] सर्वस्य सनायुकस्य जगतो जीवनादिचेष्टाहेतुत्वात् ।

भाषार्थ—‘यदिद किञ्च०’ (यह नारा जगत् प्राणसे उत्पन्न हुआ है, प्रेरक प्राणके रहते चेष्टा करता है, इस श्रुतिमें प्रतीयमान प्राण परब्रह्म ही है, क्योंकि वायुसहित सारे जगत्की जीवन आदि चेष्टाओंका कारण वही है ।

—००३१००६—

भाष्य

अवसितः प्रासङ्गिकोऽधिकारविचारः । प्रकृतामेवेदानीं वाक्यार्थ-
विचारणां प्रवर्तयिष्यामः । ‘यदिदं किञ्च जगत्सर्वं प्राण एजति निःसृतम्,
महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति’ (का० २।६।२) इति ।

भाष्यका अनुवाद

प्रासंगिक अधिकारका विचार समाप्त हुआ । अब आगे पूर्वानुसार वाक्यार्थका ही विचार करेंगे । ‘यदिद किञ्च जगत्सर्वं०’ (यह सारा जगत् प्राणसे उत्पन्न हुआ है, प्रेरक प्राणके रहते चेष्टा करता है, वह प्राण अपरिच्छिन्न एवं प्रहार करनेके लिए उठाए हुए वज्रके समान भयानक है, जो उसको जानते हैं, वे

रत्नप्रभा

कम्पनात् । अस्याऽपि प्रासंगिकत्वम् आशङ्क्याऽऽह—अवसित इति । समाप्त इत्यर्थः । काठक पठति—यदिदमिति । सर्वं जगत् प्राणात् निःसृतम्—उत्पन्नम् प्राणे चिदात्मनि प्रेरके सति एजते—चेष्टते, तच्च प्राणाख्य कारण महद् वज्रं विभेति अस्मादिति भयम् । तस्मिन् भयहेतुत्वे दृष्टान्तमाह—वज्रमिति । यथा उद्यत वज्रं भय तथा इत्यर्थः । ये तत् प्राणाख्यं वज्रं निर्विशेषं विदुः, ते मुक्ता भवन्ति इत्याह—

रत्नप्रभाका अनुवाद

यह अधिकरण भी प्रासंगिक है, ऐसी शंका करके कहते हैं—“अवसित ” इत्यादि । अर्थात् समाप्त हुआ । काठकवाक्यको उद्धृत करते हैं—“यदिदम्” इत्यादियं । सारा जगत् प्राणसे उत्पन्न हुआ है, प्राण अर्थात् चिदात्माके प्रेरक होनेसे वह (जगत्) व्यापार करता है, वह प्राण सशक्त कारण महद्—वज्र और भयहेतु होनेसे भय है । इसमें दृष्टान्त देते हैं—“वज्र” इत्यादियं । जैसे प्रहार करनेके लिए उठाया हुआ वज्र भयजनक है, वैसे ही वज्र भयजनक है । जो इस प्राणसशक्त

भाष्य

एतद्वाक्यं 'एजृ कम्पने' इति धात्वर्थानुगमाल्लक्षितम् । अस्मिन् वाक्ये सर्वमिदं जगत् प्राणाश्रयं स्पन्दते, महच्च किञ्चिद्भयकारणं वज्रशब्दितमुद्यतम्, तद्विज्ञानाच्चाऽमृतत्वप्राप्तिरिति श्रूयते । तत्र कोऽसौ प्राणः, किञ्च तद्भयानकं वज्रमित्यप्रतिपत्तेर्विचारे क्रियमाणे प्राप्तं तावत् प्रसिद्धेः पञ्चवृत्ति-

भाष्यका अनुवाद

अमृत हो जाते हैं) इस वाक्यमें 'एजृ' कम्पने (एजृ धातु कम्पनार्थक है) इस धातुके अर्थका अनुगम है इससे यह वाक्य लक्षित होता है । इस वाक्यमें यह सारा जगत् प्राणके सहारे व्यापार करता है, वह उद्यत वज्रके समान भयजनक कोई अपरिच्छिन्न है और उसके ज्ञानसे अमृतत्वकी प्राप्ति होती है, ऐसा सुना जाता है । उसमें यह प्राण कौन है और वह भयानक वज्र कौन है इसके निश्चय न होनेसे विचार करनेपर लोकप्रसिद्धिसे ऐसा प्रतीत होता है कि प्राण

रत्नप्रभा

य इति । ननु अस्मिन् सूत्रे कथमिदं वाक्यमुदाहृतम् इत्यत आह—एतदिति । एजत्यर्थस्य कम्पनस्य सूत्रितत्वात् एजतिपदयुक्तं वाक्यम् उदाहृतमित्यर्थः । प्रासङ्गिकाधिकारचिन्तयाऽस्य सङ्गतिः नाऽपेक्षिता इति "शब्दादेव प्रमितः" [ब्र० १।३।२३] इत्यनेनोच्यते । तत्र अङ्गुष्ठवाक्ये जीवानुवादो ब्रह्मैक्यज्ञानार्थ इत्युक्तम्, न तथेह प्राणानुवाद ऐक्यज्ञानार्थः संभवति, प्राणस्य स्वरूपेण कल्पितस्य ऐक्यायोगात्, अतः प्राणोपास्तपरं वाक्यमिति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षयति—प्रसिद्धेः पञ्चवृत्तिरिति । ननु "अत एव प्राणः" [ब्र० १।३।२३] इत्यादौ ब्रह्मणि लिङ्गात् प्राणश्रुतिर्नीता, अत्राऽपि सर्वचेष्टाभयहेतुत्वं ब्रह्मलिङ्गमस्तीति

रत्नप्रभाका अनुवाद

निर्गुणब्रह्मको जानते हैं, वे मुक्त होते हैं, ऐसा कहते हैं—“यः” इत्यादिसे । परन्तु इस सूत्रमें इस वाक्यको कैसे उद्धृत किया, इसपर कहते हैं—“एतद्” इत्यादि । 'एजति' का कम्पन अर्थ है, वह सूत्रमें कहा गया है, इसलिए 'एजति' पदयुक्त वाक्य उद्धृत किया गया है, ऐसा अर्थ है । प्रसंगप्राप्त अधिकारचिन्ताके साथ इस अधिकरणकी संगति अपेक्षित नहीं है, इसलिए प्रमिताधिकरणके साथ इसकी संगति कही जाती है । प्रमिताधिकरणमें अङ्गुष्ठवाक्यमें स्थित जावका अनुवाद ब्रह्माभेदज्ञानके लिए है, ऐसा कहा गया है, उस प्रकार यहाँ प्राणका अनुवाद ऐक्यज्ञानके लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राणके स्वरूपसे कल्पित पदार्थका अभेद नहीं हो सकता है, इसलिए यह वाक्य प्राणोपासनापरक है, इस प्रकार प्रत्युदाहरण संगतिसे पूर्वपक्ष करते हैं—“प्रसिद्धेः पञ्चवृत्तिः” इत्यादिसे । यदि कोई कहे कि

भाष्य

वायुः प्राण इति । प्रसिद्धेरेव चाऽऽनिर्वृजं स्यात् । वायोश्चेदं माहात्म्यं संकीर्त्यते । कथम् ? सर्वमिदं जगत् पञ्चवृत्तौ वायौ प्राणशब्दिते प्रतिष्ठा-यैजति । वायुनिमित्तमेव च महद्भयानकं वज्रमुद्यम्यते । वायौ हि पर्जन्य-भावेन विवर्तमाने विद्युत्स्तनयित्नुवृष्ट्यश्नयो विवर्तन्त इत्याचक्षते । वायुविज्ञानादेव चेदममृतत्वम् । तथाहि श्रुत्यन्तरम्—वायुरेव व्यष्टिर्वायुः समष्टिरप पुनर्मृत्युं जयति य एवं वेद' इति । तस्माद्वायुरयमिह प्रतिपत्तव्य इति ।

भाष्यका अनुवाद

पाँच वृत्तिवाला वायु है और लोकप्रसिद्धिसे ही प्रतीत होता है कि भयानक वज्र अशनि है। यह वायुका माहात्म्य कहा गया है। किस प्रकार? यह सारा जगत् पाँच वृत्तिवाले प्राण नामक वायुमें रहकर व्यापार करता है। वायुसे ही महान् भयानक वज्र उठाया जाता है, क्योंकि जब वायु पर्जन्यरूपमें विवर्तित-परिणत होता है, तब विजली, मेघ, वृष्टि और अशनिरूपमें भी विवर्तित होता है, ऐसा कहते हैं। वायुके ज्ञानसे ही यह अमृतत्व भी प्राप्त होता है, क्योंकि 'वायुरेव व्यष्टिर्वायुः समष्टिरप पुनर्मृत्युं जयति य एवं वेद' (वायु ही व्यष्टि है, वायु ही समष्टि है, जो ऐसा जानता है, वह अपमृत्युको जीतता है) ऐसी दूसरी श्रुति है। इसलिए यहां प्राणको वायु ही समझना युक्त है।

रत्नप्रभा

नास्ति पूर्वपक्षावसरः गतार्थत्वादित्यत आह—वायोश्चेति । प्रतिष्ठाय-स्थितिं लब्ध्वा प्राणे वायौ निमित्ते जगत् चलतीति प्रसिद्धम्, अतः स्पष्टं ब्रह्मलिङ्गम् नास्तीति भावः । वज्रलिङ्गाच्च वायुरित्याह—वाय्विति । व्यष्टिः—विशेषः, समष्टिः—सामान्यम् ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

'अत एव प्राण' सूत्रमें ब्रह्मलिङ्ग होनेके कारण प्राणधृति ब्रह्मपरक कही गई है, यहां भी सर्वव्येष्टाभयहेतुत्वरूप ब्रह्मलिङ्ग है, इसलिए पूर्वपक्षका अवकाश ही नहीं है, क्योंकि उसी सूत्रसे यह गतार्थ है, इसपर कहते हैं—'वायोश्च' इत्यादि । 'प्रतिष्ठाय'—स्थिति पाकर, वायुसे जगत्के सब व्यवहार होते हैं, यह प्रसिद्ध है, इसलिए ब्रह्मका स्पष्ट लिङ्ग नहीं है यह भाव है। ब्रह्मरूप लिङ्गसे भी मग्नप्रतिपाद्य वायु ही है, ऐसा कहते हैं—'वायु' इत्यादिसे । 'व्यष्टि'—विशेष, 'समष्टि'—सामान्य ।

भाष्य

एवं प्राप्ते धूमः—ब्रह्मैवेदमिह प्रतिपत्तव्यम् । कुतः ? पूर्वोत्तरालो-
चनात् । पूर्वोत्तरयोर्हि ग्रन्थभागयोर्ब्रह्मैव निर्दिश्यमानमुपलभामहे । इहै-
व कथमकस्मादन्तराले वायुं निर्दिश्यमानं प्रतिपद्येमहि । पूर्वत्र तावत्
'तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ।

तस्मिँल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन ॥' (का० २।६।१)
इति ब्रह्म निर्दिष्टम्, तदेवेहाऽपि संनिधानात्, 'जगत्सर्वं प्राण एजति' इति
च लोकाश्रयत्वप्रत्यभिज्ञानान्निर्दिष्टमिति गम्यते । प्राणशब्दोऽप्ययं परमा-
त्मन्येव प्रयुक्तः, 'प्राणस्य प्राणम्' (बृ० ४।४।१८) इति दर्शनात् । एज-
यितृत्वमपीदं परमात्मन एवोपपद्यते न वायुमात्रस्य । तथा चोक्तम्—

भाष्यका अनुवाद

सिद्धान्ती—ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं—यहां प्राणको ब्रह्म ही समझना
युक्त है । किससे ? पूर्वापर आलोचन करनेसे, क्योंकि जब हमें प्रतीत हो रहा
है कि पूर्व और उत्तर ग्रन्थ-भागोंमें ब्रह्मका ही निर्देश किया गया है, तब यहींपर
बीचमें एकदम वायुका निर्देश हम कैसे समझ लें ? 'तदेव शुक्रं० (वही जो इस
संसारवृक्षका मूल है, वही स्वप्रकाश है, वही ब्रह्म है, वही अमृत कहलाता है,
वसीमें सब लोक आश्रित हैं, उसका कोई अतिक्रमण ही नहीं कर सकता)
इस प्रकार पूर्ववाक्यमें जो ब्रह्म निर्दिष्ट है, यहां भी सन्निधानसे और सर्व
जगत् प्राणमें चेष्टा करता है, इस तरह लोकोंमें आश्रयत्वरूपसे प्रत्यभिज्ञा होनेसे
वसीका निर्देश है ऐसा समझा जाता है । यह प्राणशब्द भी परमात्मामें ही प्रयुक्त
है, क्योंकि 'प्राणस्य प्राणम्' (वह प्राणका प्राण है) ऐसा देखनेमें आता है ।
यह चेष्टा करना—प्रेरक होना भी परमात्मामें ही युक्त है, वायुमात्रमें नहीं,

रत्नप्रभा

सूत्रात् वहिरेव सिद्धान्तं प्रतिजानीते—ब्रह्मैवेति । पूर्वोत्तरवाक्यैकवाक्य-
तानुगृहीतं सर्वाश्रयत्वं लिङ्गं वाक्यभेदकप्राणश्रुतेर्बाधकमित्याह—पूर्वत्रेत्यादिना ।
शुक्रम्—स्वप्रकाशम् । तदु नात्येति । ब्रह्मनाश्रितः कोऽपि लोको नास्त्येव इति
उकारार्थः । सौत्रलिङ्गं व्याचष्टे—एजयितृत्वमिति । सवायुकस्य सर्वस्य

रत्नप्रभाका अनुवाद

सूत्रसे बाहर ही सिद्धान्त करते हैं—'ब्रह्मैव' इत्यादिसे । पूर्वोत्तर वाक्योंकी
एकवाक्यतासे अनुगृहीत सर्वाश्रयत्वरूप लिंग वाक्यभेदक प्राणश्रुतेका बाधक है,
ऐसा कहते हैं—'पूर्वत्र' इत्यादिसे । 'शुक्रम्'—स्वप्रकाश । 'तदु नात्येति'—ऐसा कोई
लोक नहीं ही है जो ब्रह्मके आश्रित न हो यह अवधारण उकारका अर्थ है । सूत्रप्रतिपादित
लिङ्गका व्याख्यान करते हैं—'एजयितृत्वम्' इत्यादिसे । आशय यह कि वायुश्रुत घरे

भाष्य

‘न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन ।

इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतानुपाश्रितौ ॥, (का० २।५।५) इति ।

उत्तरत्राऽपि—

‘भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः ।

भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥’ (का० २।६।३) इति ब्रह्मैव निर्देक्ष्यते न वायुः, सवायुकस्य जगतो भयहेतुत्वाभिधानात् । तदेवेहाऽपि सन्निधानान्महद्भयं वज्रमुद्यतमिति च भयहेतुत्वप्रत्यभिज्ञानान्निर्दिष्टमिति गम्यते । वज्रशब्दोऽप्ययं भयहेतुत्वसामान्यात् प्रयुक्तः । यथा हि वज्रमुद्यतं ममैव शिरसि निपतेद् यद्यहमस्य शासनं न कुर्यामित्यनेन भयेन जनो नियमेन राजादिशासने प्रवर्तते, एवमिदमग्निवायुसूर्यादिकं जगदस्मादेव ब्रह्मणो विभ्यन्नियमेन स्वव्यापारे प्रवर्तते इति भयानकं

भाष्यका अनुवाद

क्योंकि ‘न प्राणेन नापानेन०’ (कोई भी प्राणी प्राण या अपानसे नहीं जीता, किन्तु ये दोनों जिसके आश्रित हैं, उससे ही सब जीते हैं) ऐसा कहा है । आगे भी ‘भयादस्याग्नि०’ (इसके भयसे अग्नि तपती है, इसके भयसे सूर्य तपता है एवं उसके भयसे इन्द्र, वायु और पांचवाँ मृत्यु अपने-अपने व्यापारमें प्रवृत्त होते हैं) इस प्रकार ब्रह्मका ही निर्देश है, वायुका निर्देश नहीं है, क्योंकि वह वायुसहित जगत्के भयका हेतु कहा गया है । इस प्रकार यहां सन्निधानसे (प्रकरणसे) और ‘महत् भयं०’ (उद्यत वज्रके समान भयजनक) भयहेतुत्वरूपसे प्रत्यभिज्ञा होनेके कारण उसीका निर्देश है ऐसा समझा जाता है । वज्रका भी भयजनकरूपसादृश्यसे उसमें प्रयोग है । यदि मैं इसकी आज्ञाका पालन नहीं करूँगा तो यह उद्यत वज्र मेरे ही शिरपर पड़ेगा, इस भयसे जैसे लोग राजा आदिके शासनमें प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार यह अग्नि, वायु, सूर्य आदि जगत् इसी ब्रह्मसे डरता हुआ विनयपूर्वक अपने व्यापारमें प्रवृत्त

रत्नप्रभा

कम्पनश्रवणादपि प्राणः परमात्मैव इत्यर्थः । ब्रह्मणि वज्रशब्दः कथम् ! इत्याशङ्क्य गौण इत्याह—वज्रशब्द इति । बृहदारण्यके “वायुरेव व्यष्टिः” [३।३।२]

रत्नप्रभाका अनुवाद

जगत्का कंपन ध्रुतिमें कहा गया है, इससे प्राण परमात्मा ही है । ब्रह्मके लिए वज्रशब्दका प्रयोग किस प्रकार किया गया है, ऐसी आशंका करके “वज्रशब्दः” इत्यादिसे कहते हैं कि

भाष्य

वज्रोपमितं ब्रह्म । तथा च ब्रह्मविषयं श्रुत्यन्तरम्—

‘भीपास्माद्वातः पवते भीपोदेति सूर्यः ।

भीपास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥’ (तै० ८।१) इति ।

अमृतत्वफलश्रवणादपि ब्रह्मैवेदमिति गम्यते । ब्रह्मज्ञानाद् ह्यमृतत्व-
प्राप्तिः, ‘तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नाऽन्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’
(श्वे० ६।१५) इति मन्त्रवर्णात् । यत्तु वायुविज्ञानात् क्वचिदमृतत्वमभिहितम्,
तदापेक्षिकम् । तत्रैव प्रकरणान्तरकरणेन परमात्मानमभिधाय ‘अतोऽ-

भाष्यका अनुवाद

होता है, इसलिए भयानक वज्रके साथ ब्रह्मकी तुलना की गई है और ब्रह्ममें
‘भीपास्माद्वातः०’ (इसके भयसे वायु चलता है, इसके भयसे सूर्य उदित होता
है, इसके भयसे अग्नि, इन्द्र और पांचवाँ मृत्यु अपने-अपने काममें प्रवृत्त
होते हैं) ऐसी अन्य श्रुति मी है । अमृतत्वरूप फलके श्रवणसे भी प्रतीत
होता है कि प्राण ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानसे ही अमृतत्वकी प्राप्ति होती है,
कारण कि ‘तमेव विदित्वातिमृत्युमेति०’ (उसीको जानकर मनुष्य मृत्युका अति-
क्रमण करता है अर्थात् मुक्त होता है, मोक्षके लिए अन्य मार्ग नहीं है) ऐसी
श्रुति है । वायुके विज्ञानसे किसी स्थान पर जो अमृतत्व कहा गया है, वह आपे-
क्षिक है, क्योंकि वही दूसरे प्रकरणमें परमात्माका अभिधान करके ‘अतोऽन्यदातं०’

रत्नप्रभा

इत्यत्र “अप पुनर्मृत्युम्” (३।३।२) इति अपमृत्युजयरूपम् आपेक्षिकम् अमृतत्वम्
उच्यते, न मुख्यामृतत्वम् । तत्रैव वायुपास्तिप्रकरणं समाप्य “अथ हैनमुपस्तः
चाक्रायणः पप्रच्छ” (वृ० ३।४।१) इति ज्ञेयात्मानमुक्त्वा वाग्वादेः नाशित्वोक्तेः
इत्याह—यत्तु चाग्निवत्यादिना । तस्मात् काठकवाक्यं ज्ञेये समन्वितमिति
सिद्धम् ॥ ३९ ॥ (१०) ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

यद् गौण है । घृहदारण्यकमें ‘वायुरेव०’ (वायुही व्यष्टि है) इम स्थलपर ‘अप पुन०’ इम प्रश्न
अपमृत्युजयरूप आपेक्षिक अमृतत्व कहा है, मुख्य अमृतत्व नहीं कहा गया है, क्योंकि
वायुकी उपासनाका प्रकरण वही समाप्त करके ‘अथ हैनमुपस्त०’ इत्यादिसे ज्ञेय आत्माको
कहकर वायु आदिको विनाशी कहा है, ऐसा कहते हैं—“यत्तु वायु” इत्यदिगे । इससे थिद
हुआ कि काठकवाक्य ज्ञेय ब्रह्ममें समन्वित है ॥ ३९ ॥

भाष्य

न्यदार्तम्' (बृ० ३।४) इति वाय्वादेरार्तत्वाभिधानात् । प्रकरणादप्यत्र परमात्मनिश्चयः ।

'अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात् ।

अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद ॥' (का० १।२।१४)

इति परमात्मनः पृष्टत्वात् ॥ ३९ ॥

भाष्यका अनुवाद

(उससे अन्य विनाशी है) इस प्रकार वायु आदिको विनाशी कहा है । और प्रकरणसे भी यहां परमात्माका ही निश्चय होता है, क्योंकि 'अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मा०' (जो धर्मसे भिन्न है, अधर्मसे भिन्न है, इस कार्य और कारणसे भिन्न है, भूत, भविष्यत् और वर्तमानसे भिन्न है, एवंभूत जिसको आप देखते हो, उसका हमारे लिए उपदेश कीजिए) इस प्रकार परमात्मा ही पूछा गया है ॥३९॥



[११ ज्योतिरधिकरण सू० ४०]

परं ज्योतिस्तु सूर्यस्य मण्डलं ब्रह्म वा भवेत् ।

समुत्थायोपसम्पद्येत्युक्त्या स्याद्ब्रविमण्डलम् । १ ॥

समुत्थानं त्वम्पदार्थशुद्धिर्वक्त्यार्थबोधनम् ।

सम्पत्तिरुत्तमत्वोक्तेर्ब्रह्म स्यादक्षसाक्षितः* ॥२॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—‘एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात् समुत्थाय पर ज्योतिरुपसम्पद्य’ इस वाक्यमें पठित ‘पर ज्योतिः’ पद सूर्यमण्डलका वाचक है अथवा ब्रह्मका ?

पूर्वपक्ष—‘शरीरसे निकलकर और ज्योतिको प्राप्त होकर’ इस कथनसे प्रतीत होता है कि पर ज्योतिः सूर्यमण्डल ही है ।

सिद्धान्त—यहाँ पर समुत्थानका अर्थ निर्गम और सम्पत्तिका अर्थ प्राप्ति नहीं है बल्कि त्वम्पदार्थ—जीवका शोधन—स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरसे विवेक समुत्थान है और शोधित जीवका ब्रह्मरूपसे ज्ञान है—सम्पत्ति । श्रुतिमें ‘उत्तमं पुरुष’ इस प्रकार उत्तमताके कथनसे एव सर्वसाक्षी होनेसे पर ज्योतिः ब्रह्म ही है ।

* छान्दोग्यके अष्टम अध्यायमें प्रजापतिविषयमें श्रुति है—‘य एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात् समुत्थाय पर ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणामिनिर्गद्यते’ । इसका अर्थ है कि सम्प्रसाद—जिस अवस्थामें जीव अत्यन्त प्रसन्न रहता है अर्थात् सुपुष्टि अवस्था, यहाँपर सम्प्रसादशब्दसे जीव लक्षित होता है । यह जीव इस शरीरसे निकलकर, अपने स्वरूपसे अभिव्यक्त होकर परम ज्योतिको प्राप्त होता है । यहाँपर ज्योतिः शब्दके अर्थके बारेमें सन्देह उपस्थित होता है कि वह सूर्यमण्डल है अथवा ब्रह्म ?

पूर्वपक्षी कहता है कि यहाँ ज्योतिका अर्थ सूर्यमण्डल ही है, क्योंकि ‘शरीरात् समुत्थाय पर ज्योतिरुपसम्पद्य’ में कहा गया है कि वह शरीरसे निकलकर ज्योतिको प्राप्त होता है । ब्रह्मप्राप्तिमें निर्गम नहीं होता, क्योंकि वहाँ प्रसिक्तता एव प्राप्त्यव्ययं भेद ही नहीं है ।

सिद्धान्तो कहते हैं कि ज्योतिशब्द ब्रह्म ही का प्रतिपादक है, क्योंकि श्रुतिमें कहा गया है कि वह उत्तम पुरुष है, उसका सूर्यमण्डलसे सम्बन्ध ही नहीं पड़ता । जो जानता है कि मैं इसे सूँघता हूँ, वह आत्मा है और जो जानता है कि मैं इसे सुनता हूँ, वह आत्मा है, इत्यादिसे आत्मा प्राता, प्राण और प्रय एव श्रोता, यवण और श्रोतव्य आदिका साक्षी सुना जाता है । उक्त श्रुतिके साथ एक वाक्यता करनसे प्रतीत होता है कि ज्योतिः शब्द ब्रह्मका ही प्रतिपादन करता है । और जो यह कहा गया है कि ‘शरीरात् समुत्थाय, ज्योतिरुपसम्पद्य’ (शरीरसे निकलकर ज्योतिको प्राप्त होता है) ये दोनों ब्रह्मपक्षमें नहीं पड़ते, यह बचन ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ समुत्थानका अर्थ निर्गम नहीं है किन्तु त्वम्पदार्थ अर्थात् जीवका स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरसे विवेक है और उपसम्पत्तिका अर्थ प्राप्ति भी नहीं है, किन्तु उसका अर्थ है शोधित त्वम्पदार्थका ब्रह्मरूपसे ज्ञान । इससे सिद्ध हुआ कि ज्योतिपद ब्रह्म ही का वाचक है ।

ज्योतिर्दर्शनात् ॥४०॥

पदच्छेद—ज्योतिः, दर्शनात् ।

पदार्थोक्ति—ज्योतिः—‘एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यते’ इत्यत्र ज्योतिःशब्दवाच्यं [ब्रह्मैव, कुतः] दर्शनात्—‘य आत्माऽपहतपाप्मा’ इत्युपक्रमालोचनया ब्रह्मण एव प्रतिपाद्यतयाऽनुवृत्तिदर्शनात् ।

भाषार्थ—‘एष सम्प्रसादो’ (यह जीव इस शरीरसे उठकर अपने स्वरूपसे अभिव्यक्त होकर पर ज्योतिको प्राप्त करता है) इस श्रुतिमें ज्योतिःशब्दसे प्रतिपाद्य ब्रह्म ही है, क्योंकि ‘य आत्मा०’ (यह आत्मा पापरहित है) इस उपक्रमवाक्यके पर्यालोचनसे ब्रह्मकी ही प्रतिपाद्यरूपसे अनुवृत्ति देखी जाती है ।

भाष्य

‘एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाऽमिनिष्पद्यते (छा० ८।१२।३) इति श्रूयते । तत्र संशय्यते, किं ज्योतिःशब्दं चक्षुर्विषयं तमोपहं तेजः किंवा परं ब्रह्मेति ? किं तावत्प्राप्तम् ?

भाष्यका अनुवाद

‘एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्०’ (यह जीव इस शरीरसे उठकर अपने स्वरूपसे अभिव्यक्त होकर पर ज्योतिको प्राप्त करता है) इसमें संशय होता है कि ज्योतिःशब्दवाच्य आँसूसे देखे जानेवाले घट-पट आदि पदार्थोंके आवरणक अन्धकारका नाश करनेवाला तेज है या परब्रह्म ? तब क्या प्राप्त होता है ?

रत्नप्रभा

ज्योतिर्दर्शनात् । छान्दोग्ये प्रजापतिविद्यावाक्यमाह—एष इति । परं ज्योतिश्श्रुतिभ्यां सशयमाह—तत्रेति । घटादिविषयावरकतमोनाशकं सौरमित्यर्थः । पूर्वत्र ब्रह्मप्रकरणस्याऽनुग्राहकः सर्वजगच्चेष्टाहेतुत्वादियोगोऽस्तीति प्राणश्रुतिः ब्रह्मणि नीता, न तथाऽत्र “य आत्माऽपहतपाप्मा” (छा० ८।७।१) इति प्रकरण-

रत्नप्रभाका अनुवाद

छान्दोग्यस्य प्रजापतिविद्यावाक्यको कहते हैं—“एष.” इत्यादिसे । पर एवं ज्योतिःशब्दोंके प्रणसे उत्पन्न हुए सन्देहको कहते हैं—“तत्र” इत्यादिसे । घट आदि विषयोंके आवरणक अन्धकारका नाश करनेवाला सूर्यका तेज, ऐसा अर्थ है । पूर्व अधिकरणमें ब्रह्मप्रकरणके समर्थक सर्वजगत्पाप्मापारहेतुत्वरूप लिङ्गके सम्बन्धसे प्राणश्रुति ब्रह्मप्रकरणके माना गई है, उस प्रकार यहाँ “य आत्मा०” इस प्रकरणका अनुग्राहक कोई लिङ्ग नहीं है । इस तरह प्रत्युदा-

भाष्य

प्रसिद्धमेव तेजो ज्योतिःशब्दमिति । कृतः ? तत्र ज्योतिःशब्दस्य
रूढत्वात् । 'ज्योतिश्चरणाभिधानात्' (ब्र० सू० १।१।२४) इत्यत्र हि
प्रकरणाज्ज्योतिःशब्दः स्वार्थं परित्यज्य ब्रह्मणि वर्तते । न चेह तद्वत्
किञ्चित्स्वार्थपरित्यागे कारणं दृश्यते । तथा च नाडीखण्डे—'अथ यत्रैतदस्मा-
च्छरीराद्दुत्क्रामत्यर्थैतरेव रश्मिभिरूर्ध्वमाक्रमते' (छा० ८।६।५) इति

भाष्यका अनुवाद

पूर्वपक्षी—ज्योतिःशब्द प्रसिद्ध तेजका वाचक है, क्योंकि उसमें ज्योतिः-
शब्द रूढ है । 'ज्योतिश्चरणाभिधानात्' इस सूत्रमें कहा गया है कि प्रकरणसे
ज्योतिःशब्द स्वार्थका परित्याग करके ब्रह्मका बोध कराता है, परन्तु यहां उसके
समान स्वार्थपरित्यागमें कोई कारण नहीं दीखता । इसी प्रकार नाडीखंडमें
'अथ यत्रैतदस्माच्छ०' (शरीरसे निकलनेके अनन्तर इन्हीं रश्मियों द्वारा ऊपर

रत्नप्रभा

स्याऽनुमाहकं पश्याम इति मत्सुदाहरणेन पूर्वपक्षमाह—प्रसिद्धमेवेत्यादिना । पूर्वपक्षे
सूर्योपास्तिः, सिद्धान्ते ब्रह्मज्ञानाद् मुक्तिरिति फलम् । ननु "ज्योतिरधिकरणे"
(ब्र० १।१।२४) ज्योतिःशब्दस्य ब्रह्मणि वृत्तेः उक्तत्वात् कथं पूर्वपक्ष इत्यत
आह—ज्योतिरिति । तत्र गायत्रीवाक्ये प्रकृतब्रह्मपरामर्शकच्छब्दसामाना-
धिकरण्यात् ज्योतिश्शब्दस्य स्वार्थत्यागः कृतः, तथाऽत्र स्वार्थत्यागे हेत्वदर्शनात्
पूर्वपक्ष इत्यर्थः । ज्योतिश्श्रुतेः अनुमाहकत्वेनाऽर्चिरादिमार्गस्थत्वं लिङ्गमाह—तथा
चेति । "ता वा एता हृदयस्य नाड्यः" (छा० ८।६।१) इति कण्डिकाया
नाडीनां रश्मीनां च मिथः संश्लेषमुक्त्वा अथ—संशालोपानन्तरम् यत्र—काले
एतत्—मरणं यथा स्यात् तथा उत्क्रामति अथ—तदा एतैः नाडीसंश्लिष्टरश्मिभिः

रत्नप्रभाका अनुवाद

हरणसङ्गतिसे पूर्वपक्ष कहते हैं—“प्रसिद्धमेव” इत्यादिसे । पूर्वपक्षमें सूर्यकी उपासना फल है,
सिद्धान्तमें ब्रह्मज्ञानसे मुक्ति फल है । परन्तु अब ज्योतिरधिकरणमें ज्योतिःशब्द ब्रह्मका
वाचक माना गया है, तब यहाँ पूर्वपक्ष कैसे होता है, इसपर कहते हैं—“ज्योतिः” इत्यादि ।
यहाँ गायत्रीवाक्यमें प्रस्तुत ब्रह्मका परामर्शक 'यत्' शब्दके सामानाधिकरण्यसे ज्योतिःशब्दके
मुफ्त्यार्थका परित्याग किया गया है, परन्तु यहाँ उस प्रकार अपना अर्थ त्यागनेके लिए कोई
हेतु दिखाई नहीं देता, इसलिए पूर्वपक्ष है, ऐसा आशय है । ज्योतिःश्रुतिके अनुमाहक
अर्चिरादिमार्गस्थितिरूप लिङ्ग कहते हैं—“तथा च” इत्यादिसे । “ता वा एता०” (वे इस
हृदयकी नाडियाँ हैं) इत्यादिसे हृदयकी नाडियों और रश्मियोंका परस्पर संश्लेष कहकर उसके बाद-

भाष्य

मुमुक्षोरादित्यप्राप्तिरभिहिता । तस्मात् प्रसिद्धमेव तेजो ज्योतिःशब्दमिति ।

एवं प्राप्ते ब्रूमः—परमेव ब्रह्म ज्योतिःशब्दम् । कस्मात् ? दर्शनात् । तस्य हीह प्रकरणे वक्तव्यत्वेनाऽनुवृत्तिर्दृश्यते, 'य आत्माऽपहतपाप्मा' (छा० ८।७।१) इत्यपहतपाप्मत्वादिगुणकस्याऽऽत्मनः प्रकरणादावन्वेष्टव्यत्वेन विजिज्ञासितव्यत्वेन च प्रतिज्ञानात्; 'एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्या-

भाष्यका अनुवाद

जाता है) इस प्रकार मुमुक्षुके लिए आवित्यकी प्राप्ति कही गई है । इसलिए ज्योतिःशब्द प्रसिद्ध तेजका ही वाचक है ।

सिद्धान्ती—ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं—ज्योतिःशब्दवाच्य पर ब्रह्म ही है । किससे ? दर्शनसे । इस प्रकरणमें वक्तव्यरूपसे उसकी ही अनुवृत्ति देखनेमें आती है, क्योंकि 'य आत्माऽपहतपाप्मा' (जो आत्मा पापरहित है) ऐसा पापरहितत्व आदि गुणविशिष्ट आत्मा अन्वेषण करने और विशेषरूपसे जिज्ञासा करने योग्य है, प्रकरणके आरम्भमें ऐसी प्रतिज्ञा की है । 'एतं त्वेव ते भूयो' (इसी आत्माका तुम्हारे लिए बार-बार उपदेश करता हूँ)

रत्नप्रभा

ऊर्ध्वः सन् उपरि गच्छति, गत्वा आदित्यं ब्रह्मलोकद्वारमूतं गच्छतीति अभिहितम्, तथैव अत्रापि शरीरात् समुत्थाय—मृत्वा परं ज्योतिः आदित्याख्यम् उपसम्पद्य तद्द्वारा ब्रह्मलोकं गत्वा स्वस्वरूपेण अभिनिष्पद्यते इति वक्तव्यम् । 'समुत्थाय' 'उपसम्पद्य' इति क्त्वाश्रुतिभ्यां ज्योतिषोऽऽर्चिरादिमार्गस्यत्वमानादित्यर्थः । अतो मार्गस्यसूर्योपास्त्या क्रममुक्तिपरं वाक्यमिति प्राप्ते सिद्धान्तयति—एवमिति । व्याख्येयत्वेन उपक्रान्तः आत्मैव अत्र ज्योतिःशब्देन व्याख्येय इति ज्योति-

रत्नप्रभाका अनुवाद

संशालेप होनेके अनन्तर जब भरण होता है, तब इन नाडीसम्यक् रश्मियों द्वारा ऊपर जाता है, तदुपरान्त ब्रह्मलोकके द्वारभूत आदित्यलोकमें जाता है, ऐसा कहा है, उसी प्रकार यहाँ ज्योतिःश्रुतिमें शरीरसे समुत्थान करके प्राण त्यागकर, आदित्य नामक पर ज्योतिःके पास जाकर, उसके द्वारा ब्रह्मलोकमें जाकर अपने रूपसे अभिनिष्पद्य होता है, ऐसा कहना चाहिये । समुत्थाय और उपसम्पद्य इनमें क्त्वाप्रत्ययके ध्रुवणसे ज्योति आर्चि आदि मार्गमें है, ऐसा भाग होता है । इसलिए मार्गस्य सूर्यकी उपासनासे क्रममुक्तिपरक वाक्य है, ऐसा पूर्वपक्ष होनेपर सिद्धान्त करते हैं—'एवम्' इत्यादिसे । आशय यह कि व्याख्येयरूपसे आत्माका ही उपक्रम है,

भाष्य

रूपास्यामि' (छा० ८।१।३) इति चाऽनुसन्धानात् । 'अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः' (छा० ८।१२।१) इति चाऽशरीरतायै ज्योतिः-सम्पत्तेरस्याभिधानात्, ब्रह्मभावाच्चाऽन्यत्राशरीरतानुपपत्तेः; 'परं ज्योतिः' 'स उत्तमः पुरुषः' (छा० ८।१२।२) इति च विशेषणात् । यत्तूक्तम्-मुमुक्षोरादित्यप्राप्तिरभिहिता इति, नासावात्यन्तिको मोक्षो गत्युत्क्रान्ति-भाष्यका अनुवाद

इस प्रकार आत्माका अनुसन्धान है । 'अशरीरं वाव सन्तं' (सुख और दुःख शरीर-रहित आत्माका स्पर्श नहीं करते) इस प्रकार शरीररहित स्वरूपके लिए यह (जीव) ज्योतिरूपमें सम्पन्न होता है, ऐसा कहा है, और ब्रह्मभावके सिवा अशरीरत्व उपपन्न नहीं हो सकता, और 'परं ज्योतिः' 'स उत्तमः पुरुषः' (जो पर ज्योति है, वह उत्तम पुरुष है) ऐसा विशेषण है । मुमुक्षुके लिए आदित्य-प्राप्तिका अभिधान किया है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, वह आत्यन्तिक मोक्ष नहीं है, क्योंकि गति और

रत्नप्रभा

वाक्येन 'एकवाक्यताप्रयोजकप्रकरणानुगृहीतोत्तमपुरुषश्च्युत्या वाक्यभेदकज्योतिश्श्रुतिः वाध्या इति भावः । अशरीरत्वफललिङ्गाद् च ब्रह्मैव ज्योतिः, न सूर्य इत्याह— अशरीरमिति । न च सूर्यप्राप्त्या क्रमेण अशरीरत्वं स्वादिति वाच्यम्, परत्वेन विशेषितस्य ज्योतिष एव "स उत्तमः" (छा० ८।१२।३) इति परामर्शेन अशरीरत्वनिश्चयात् इत्याह—परमिति । पूर्वोक्तलिङ्गं दृषयति—यच्चिति । नाडीखण्डे दहरोपासंकस्य यां सूर्यप्राप्तिः उक्ता, स न मोक्ष इति युक्ता सूर्योक्तिः, अत्र प्रजापतिवाक्ये तु निर्गुणविद्यायाम् अर्चिरादिगतिस्वरूपस्य अनन्वयात्

रत्नप्रभाका अनुवाद

इसलिए ज्योति शब्दसे वह आत्मा ही व्याख्येय है । इस प्रकार ज्योतिवाक्यके साथ एकवाक्यता केरानेवाले प्रकरणसे अनुगृहीत 'स उत्तमः पुरुषः' इस उत्तमपुरुषश्रुतिसे वाक्यभेदक ज्योति-श्रुतिका वाध करना चाहिए । अशरीरत्वरूप फलके कथनसे भी ज्योति ब्रह्म ही है, सूर्य नहीं, ऐसा कहते हैं—'अशरीरं' इत्यादिसे । सूर्यकी प्राप्तिसे क्रमसे अशरीरत्व होगा, यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि परत्वरूप विशेषणसे विशिष्ट जो ज्योति है, वही उत्तम पुरुष है, ऐसा परामर्श होनेसे उसमें अशरीरत्वका निश्चय होता है, ऐसा कहते हैं—'परम्' इत्यादिसे । पूर्वोक्त लिङ्गको दृषित करते हैं—'यत्तु' इत्यादिसे । नाडीखण्डमें दहरके उपासकके लिए जो सूर्यप्राप्ति कही गई है, वह मोक्ष नहीं है, इसलिए वहाँ सूर्यका कथन युक्त है । यहाँ प्रजापति-वाक्यमें—निर्गुणब्रह्मविद्यामें अर्चि आदि मार्गोंमें रहनेवाले सूर्यका सम्बन्ध न होनेसे श्रुतिका

भाष्य

सम्बन्धात् । नह्यात्यन्तिके मोक्षे गत्युत्क्रान्ती स्त इति वक्ष्यामः ॥४०॥

भाष्यका अनुवाद

उत्क्रान्तिके साथ संबन्ध है । आत्यन्तिक मोक्षमें गति और उत्क्रान्तिका संबन्ध नहीं रहता है ॥ ४० ॥

रत्नप्रभा

अनर्थकत्वात् श्रुतिव्यत्यासेन स्वरूप साक्षात्कृत्य परं ज्योतिः तदेव उप-
सम्पद्यते इति व्याख्येयम् इति भावः ॥४०॥ (११) ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

अर्थ उपपन्न नहीं हो सकता, इसलिए व्यत्याससे स्वरूपका परज्योतिरूपसे साक्षात्कार करने परज्योति ही हो जाता है, ऐसा श्रुतिका व्याख्यान करना चाहिए, ऐसा भाव है ॥ ४० ॥



१—वेमे 'मृता आशय स्वपिनि' इस वाक्यमें 'मृता आशय' ऐसा व्यत्यास होना है वेमे ही । 'उपेनिश्चयमन्वय स्वेन रूपेणाभिनियमने' इस वाक्यमें 'अभिनियम उपपद्यते' ऐसा व्यत्यास । श्रुता आशय और अभिनियमि—साक्षात्कार तथा उपपद्यति—होना है ।

[१२ अर्थान्तरस्त्वच्यपदेशाधिकरण सू० ४१]

वियदा ब्रह्म वाऽऽकाशो वै नामेति श्रुतं वियत् ।

अवकाशप्रदानेन सर्वनिर्वाहकत्वतः ॥१॥

निर्पोद्धृत्यं नियन्वृत्यं चैतन्यस्यैव तत्त्वतः ।

ब्रह्म स्याद्वाक्यशेषे च ब्रह्मात्मेत्यादिशब्दतः* ॥२॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—‘आकाशो वै नाम नाम रूपयोर्निर्वाहिता’ इस श्रुतिमें पठित आकाशपद भूताकाशका वाचक है या ब्रह्मका ?

पूर्वपक्ष—अवकाशप्रदान द्वारा सबका निर्वाहक होनेके कारण श्रुतिमें उक्त आकाशपद भूताकाशका वाचक हो सकता है ।

सिद्धान्त—यहां निर्वाहकत्व है नियन्ता होना, वह नियन्तृत्व परमार्थतः परब्रह्ममें ही है और वाक्यशेषमें ब्रह्म, आत्मा आदि शब्द हैं, अतः उक्त श्रुतिमें आकाशपदसे परब्रह्म ही कही गया है ।

* तात्पर्य यह कि छान्दोग्यके अष्टम अध्यायके अन्तमें श्रुति है—“आकाशो वै नाम नाम-रूपयोर्निर्वाहिता ते यदन्तरा तद् ब्रह्म, तदमृतम्, स आत्मा” इसका अर्थ है कि आकाशनामक कोई पदार्थ है, वह जगत्स्वरूप नाम और रूपका निर्वाहक है, वे नाम और रूप जिस आकाशसे भिन्न हैं अथवा जिस आकाशके मध्यमें हैं, वह आकाश मरणरहित ब्रह्म है, वही प्रत्यगात्मा है ।

यहां पूर्वपक्षी कहता है कि उक्त श्रुतिमें आकाशपद भूताकाशका वाचक है, क्योंकि ‘नामरूपयो-र्निर्वाहिता’ इस प्रकार कथित निर्वाहकत्वका अवकाश देनेवाले भूताकाशमें सम्भव है ।

सिद्धान्तवादी कहते हैं कि यहाँ निर्वाहकत्व अवकाश देना नहीं है, किन्तु नियामक होना है, सब प्रकारसे निर्वाहक नियन्ता ही हो सकता है, वह नियन्ता ब्रह्म ही है, क्योंकि ‘अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्राविश्य नामरूपे व्याकरवाणि’ (इस जीवरूपसे प्रवेश कर नाम और रूपको व्यक्त करूँगा) ऐसी अन्य श्रुति है । नियम्य पदार्थोंको न जाननेवाला अचेतन भूताकाश नियन्ता नहीं हो सकता है, इसलिये उक्त श्रुतिमें आकाशपद ब्रह्मका ही वाचक है । और ‘तद् ब्रह्म, तदमृतम्, स आत्मा’ इस प्रकार वाक्यशेषमें ब्रह्मत्व, अमृतत्व और आत्मत्व धर्म कहे गये हैं, उनका भूताकाशमें सम्भव नहीं है, इससे भी सिद्ध होता है कि उक्त आकाश ब्रह्म ही है ।

आकाशोऽर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात् ॥ ४१ ॥

पदच्छेद—आकाशः, अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात् ।

पदार्थोक्ति—आकाशः—‘आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निर्वहिता’ इत्यादिश्रुतौ आकाशशब्दितः [परमात्मैव, कुतः] अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्—‘ते यदन्तरा’ इत्याकाशस्य नामरूपाभ्यामर्थान्तरत्वेन ‘तद् ब्रह्म तदमृतं स आत्मा’ इति ब्रह्मत्वादिना च व्यपदेशात् ।

भाषार्थ—‘आकाशो वै०’ (नाम और रूपका निर्माणकर्ता प्रसिद्ध आकाश है) इत्यादि श्रुतिमें आकाशशब्दसे प्रतिपाद्य ब्रह्म ही है, क्योंकि ‘ते यदन्तरा०’ (वे नाम और रूप जिसके मध्यमें हैं अथवा जिससे भिन्न हैं) इस प्रकार आकाशका नाम और रूपसे भेद एवं ‘तद् ब्रह्म०’ (वह ब्रह्म है, वह अमृत है, वही आत्मा है) इस प्रकार ब्रह्मत्व आदि रूपसे व्यपदेश है ।

भाष्य

‘आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा तद् ब्रह्म तदमृतं स आत्मा’ (छा० ८।१४।१) इति श्रूयते । तत् किमाकाशशब्दं परं ब्रह्म किं वा प्रसिद्धमेव भूताकाशमिति विचारे भूतपरिग्रहो युक्तः, आकाशशब्दस्य तस्मिन् रूढत्वात्, नामरूपनिर्वहणस्य चाऽत्रकाशदानद्वारेण

भाष्यका अनुवाद

‘आकाशो वै नाम०’ (आकाश नाम और रूपका व्याकरण—निर्माण करने-वाला है । वे नाम और रूप जिसके भीतर हैं वह ब्रह्म है, वह अमृत है, वह आत्मा है) ऐसी श्रुति है । उसमें आकाशशब्दवाच्य परब्रह्म है या प्रसिद्ध भूताकाश है, ऐसा विचार होनेपर [किसका ग्रहण करना युक्त है] ।

पूर्वपक्षी—भूताकाशका ग्रहण करना युक्त है, क्योंकि आकाशशब्द उसमें

रत्नप्रभा

आकाशोऽर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात् । छान्दोग्यमुदाहरति—आकाश इति । यथाउपक्रमबलाद् ज्योतिश्श्रुतिबाधः, तथा आकाशोपक्रमाद् ब्रह्मादिशब्दबाध इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति—भूतेति । श्रुतैः गुणैः आकाशोपास्तिः निर्गुणब्रह्मज्ञानं

रत्नप्रभाका अनुवाद

‘आकाश’ इत्यादिसे छान्दोग्य वाक्यकी उद्धृत करते हैं । जैसे उपक्रमके बलसे ज्योतिः श्रुतिना बाध है, वैसे ही आकाशशब्दके उपक्रममें ब्रह्मादिशब्दोंका बाध करना चाहिए, इस प्रकार दृष्टान्तमें पूर्वपक्ष करते हैं—‘भूत’ इत्यादिसे । श्रुत्युक्त गुणोंमें आकाशकी उपायना

भाष्य

तस्मिन् योजयितुं शक्यत्वात् । स्रष्टृत्वादेश्च स्पष्टस्य ब्रह्मलिङ्गस्याऽ-
श्रवणादिति ।

एवं प्राप्त इदमुच्यते—परमेव ब्रह्मोहाऽऽकाशशब्दं भवितुमर्हति, कस्मात् ?
अर्थान्तरत्वादिष्यपदेशात्, 'ते यदन्तरा तद् ब्रह्म' इति हि नामरूपाभ्या-
मर्थान्तरभूतमाकाशं व्यपदिशति । न च ब्रह्मणोऽन्यत्र नामरूपाभ्यामर्थान्तरं
सम्भवति, सर्वस्य विकारजातस्य नामरूपाभ्यामेव व्याकृतत्वात् ।
नामरूपयोरपि निर्वहणं निरङ्कुशं न ब्रह्मणोऽन्यत्र सम्भवति, 'अनेन

भाष्यका अनुवाद

रूढ है, अवकाश देनेके कारण नाम और रूपका वह निर्माणकर्ता हो सकता है
और श्रुतिमें स्रष्टृत्व इत्यादि स्पष्ट ब्रह्मलिङ्ग नहीं है ।

सिद्धान्ती—ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं—यहां. आकाशशब्द परब्रह्मका ही
वाचक है । किससे ? भेद आदिके व्यपदेशसे । 'ते यदन्तरा०' ऐसा नाम और
रूपसे भिन्न आकाशका व्यपदेश है और ब्रह्मको छोड़कर दूसरा नाम और रूपसे
भिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि सब विकारसमूह नाम और रूपसे ही व्याकृत हैं ।
उसी प्रकार नाम और रूपका स्वतंत्र निर्माण ब्रह्मसे अन्यत्र संभव नहीं है,

रत्नप्रभा

चेति उभयत्र फलम् । "आकाशस्तल्लिङ्गाद्" (ब्र० १।१।२२) इत्यनेन
पौनरुक्त्यमाशङ्क्य तद्वदत्र स्पष्टलिङ्गाश्रवणादिति परिहरति—स्रष्टृत्वादेश्चेति ।
"वै नाम" (छा० ८।१।४।१) इति प्रसिद्धिलिङ्गस्य आकाशश्रुतेश्च वाक्यशेष-
गताभ्यां ब्रह्मात्मश्रुतिभ्याम् अनेकलिङ्गोपेताभ्यां बाधो युक्तः । यत्र बहुप्रमाणसंवादः
तत्र वाक्यस्य तात्पर्यमिति निर्णयादिति सिद्धान्तयति—परमेवेत्यादिना ।
नामरूपे—शब्दार्थौ, तदन्तःपातिनः तद्भिन्नत्वं तत्कर्तृत्वं च अयुक्तमित्यर्थः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

पूर्वपक्षमें फल है, सिद्धान्तमें निर्गुण ब्रह्मका ज्ञान फल है । "आकाशस्तल्लिङ्गाद्" इसके साथ
इस सूत्रकी पुनरुक्ति होगी ऐसी आशङ्का करके उसके समान यहां स्पष्ट लिङ्गका श्रवण नहीं है,
इस प्रकार शङ्काका परिहार करते हैं—"स्रष्टृत्वादेश्च" इत्यादिसे । "वै नाम" ऐसे प्रसिद्धिरूप
लिङ्ग और आकाशश्रुतिका वाक्यशेषमें पठित अनेक ब्रह्मलिङ्गोंसे युक्त ब्रह्मश्रुति और आत्म
श्रुतिसे बाध होना युक्त है । जिसमें बहुत प्रमाणोंका संवाद हो, उसमें ही वाक्यका तात्पर्य
होता है, ऐसा सिद्धान्त करते हैं—"परमेव" इत्यादिसे । नाम—शब्द । रूप—अर्थ । जो इसके
अन्तर्गत हो, अर्थात् जो रत्नयं नाम और रूप हो वह उसमें भिन्न आर उगता कर्ता हो, यह सम्भव नहीं

भाष्य

जीवेनाऽऽत्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' (छा० ६।३।२) इत्यादि-
ब्रह्मकर्तृकत्वश्रवणात् । ननु जीवस्याऽपि प्रत्यक्षं नामरूपविषयं निर्बोद्धृत्व-
मस्ति । वाढमस्ति, अभेदस्त्वह विवक्षितः । नामरूपनिर्वहणाभिधानादेव
च स्रष्टृत्वादि ब्रह्मलिङ्गमभिहितं भवति । 'तद् ब्रह्म तदमृतं म आत्मा'
(छा० ८।१४) इति च ब्रह्मवादस्य लिङ्गानि । 'आकाशस्तल्लिङ्गात्'
(ब्र० १।१।२२) इत्यस्यैवाऽयं प्रपञ्चः ॥ ४१ ॥

भाष्यका अनुवाद

क्योंकि 'अनेन जीवेनात्मना०' (इस जीवात्मा द्वारा अनुप्रवेश करके नाम और
रूपको मैं व्यक्त करूँगा) इस प्रकार ब्रह्म कर्ता है, ऐसी श्रुति है । परन्तु जीव भी
नाम और रूपका निर्माण करता है, यह प्रत्यक्ष है । यह सत्य है । यहां तो अभेद-
की विवक्षा है । नाम और रूपके निर्माणका अभिधान है, इसीसे स्रष्टृत्व आदि
ब्रह्मलिङ्गोंका अभिधान हुआ । 'तद्ब्रह्म तदमृतं०' (वह ब्रह्म है, वह अमृत है,
वह आत्मा है) ये ब्रह्मवादके लिंग हैं । यह सूत्र 'आकाश०' इस सूत्रका ही
विस्तार है ॥ ४१ ॥

रत्नप्रभा

नामादिकर्तृत्वं न ब्रह्मलिङ्गम्, जीवस्थत्वादिति शङ्कते—नन्विति । 'अनेन जीवेन'
इत्यत्र जीवस्य ब्रह्माभेदेन तत्कर्तृत्वमुच्यते साक्षादयोगादिति परिहरति—वाढमिति ।
यच्च उक्तम्—स्पष्ट लिङ्गं नास्ति इति, तत्राऽऽह—नामेति । तर्हि पुनरुक्तिः,
तत्राऽऽह—आकाशेति । तस्यैव साधकोऽयं विचारः । अत्र आकाशशब्दस्य
ब्रह्मणि वृत्तिं सिद्धवत्कृत्य तत्र संशयादिप्रवृत्तेः उक्तत्वादिति न पौनरुक्त्यम्
इति भावः ॥ ४१ ॥ (१२) ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

६। नाम आदिका कर्तृत्व ब्रह्मका ही लिङ्ग नहीं है, किन्तु जीवका भी लिङ्ग है,
ऐसी शङ्का करते हैं—'ननु' इत्यादिसे । 'अनेन जीवेन' जीवका ब्रह्मके साथ
अभेद करके वह कर्ता कहा गया है, साक्षत् कर्ता नहीं हो सकता, इस प्रकार शङ्काका
परिहार करते हैं—'वाढम्' इत्यादिसे । स्पष्ट लिंग नहीं है, ऐसा जो पीछे कहा गया है,
उसपर कहते हैं—'नाम' इत्यादि । तब पुनरुक्ति होगी, इसपर कहते हैं—'आकाश'
इत्यादि । उराका ही साधक यह विचार है । यहाँ आकाशशब्दकी श्रुतिको ब्रह्ममें सिद्धता
मानकर उरामें संशय आदिकी प्रवृत्ति कही है, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है ॥ ४१ ॥

[१३ सुषुप्त्युत्क्रान्त्यधिकरण सू० ४२-४३]

स्याद्विज्ञानमयो जीवो ब्रह्म वा जीव इष्यते ।

आदिमध्यावसानेषु संसारप्रतिपादनात् ॥१॥

विचिन्त्य लोकसंसिद्धं जीवं प्राणाद्युपाधितः ।

ब्रह्मत्वमन्यतोऽप्राप्तं वोच्यते ब्रह्म नेतरत्* ॥२॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—‘योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु’ इस श्रुतिमें उक्त विज्ञानमय जीव है या ब्रह्म ?
पूर्वपक्ष—आदि, मध्य एवं अन्तमें जीवका प्रतिपादन है, इसलिए उक्त श्रुतिमें विज्ञानमय जीव ही कहा गया है ।

सिद्धान्त—श्रुति लोकसिद्ध जीवको प्राण आदि उपाधियोंसे अलग करके उसमें ब्रह्मत्वका बोध कराती है, इसलिए यहां अन्य प्रमाणसे अज्ञात ब्रह्मका ही बोध होता है, जीवका बोध नहीं होता ।

* तात्पर्य यह कि बृहदारण्यकके छोटे अध्यायमें श्रुति है “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु ह्यनन्तज्योतिः पुरुषः समानः सन्नभौ लोकावनुसंचरति” । इसका अर्थ है कि स्थूल देह, इन्द्रियों, प्राण आदि वायु, अन्तःकरण और अन्तःकरणकी काम, सङ्कल्प आदि वृत्तियोंसे भिन्न एवं उनके साक्षी ज्योतिःस्वरूप पुरुष लिङ्गशरीरमें अमेदाध्याससे लिङ्गशरीरके समान होकर इस लोक और परलोकमें संचार करता है ।

यहां पूर्वपक्षी कहता है कि विज्ञानमय जीव है, क्योंकि ज्योतिर्ब्राह्मणके आदि, मध्य और अन्तमें संसारीका ही विस्तरसे कथन है । आदिमें ‘उभौ लोकावनुसंचरति’ (दोनों लोकोंमें संचार करता है) इस प्रकार जीवका कथन स्पष्ट ही है । मध्यमें भी सुषुप्ति, स्वप्न एवं जाग्रदवस्थाओंका प्रपंच है । इसी प्रकार अन्तमें भी ‘स वा अयमारमा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयः’ (यह आत्मा ब्रह्म है, विज्ञानमय, मनोमय एवं प्राणमय है) इत्यादिसे उपाधिसहितके वर्णन द्वारा जीवका ही कथन है, अतः उक्त श्रुतिमें जीव ही कहा गया है ।

सिद्धान्ती कहते हैं कि यहां जीवका प्रतिपादन नहीं है, क्योंकि ‘भै’ इस प्रत्ययका विषय होनेके कारण वह लोकसिद्ध है । प्राण आदि उपाधियोंसे भिन्न समझानेके लिए आदिमें जीवका कथन है । मध्यमें तीनों अवस्थाओंसे संसर्गरहित बतलानेके लिए अवस्थाओंका उपन्यास है । अन्तमें जीवके स्वरूपका अनुवाद करके उसमें ब्रह्मत्वका बोध कराया जाता है । ब्रह्मत्व तो अन्य प्रमाणसे प्राप्त नहीं है । इससे यह सिद्ध हुआ कि उक्त श्रुतिमें ब्रह्म ही प्रतिपाद्य है, जीव प्रतिपाद्य नहीं है ।

सुपुप्त्युत्क्रान्त्योर्भेदेन ॥ ४२ ॥

पदच्छेद—सुपुप्त्युत्क्रान्त्योः, भेदेन ।

पदार्थोक्ति—सुपुप्त्युत्क्रान्त्योर्भेदेन—['योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु ह्यन्त-
ज्योतिः पुरुषः' इत्यादिश्रुतौ प्रतिपाद्यमानः पुरुषः परमात्मैव, कुतः] 'प्राज्ञेनात्मना
सम्परिप्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरम्' 'प्राज्ञेनात्मनान्वारुढः उत्सर्जन् याति'
इति सुपुप्त्युत्क्रान्त्योरवस्थयोः शारीराद् भेदेन परमात्मनः प्राज्ञशब्देन व्यपदेशात् ।

भाषार्थ—'योऽयं विज्ञान०' (यह जो प्राणोंसे भिन्न विज्ञानमय एवं हृदयके
अन्दर स्वयंज्योति पुरुष है, वह आत्मा है) इत्यादि श्रुतिसे प्रतिपाद्यमान पुरुष
परमात्मा ही है, क्योंकि 'प्राज्ञेनात्मना०' (प्राज्ञ आत्मासे संश्लिष्ट—एकीभूत जीव
न किसी बाहरी पदार्थको जानता है, न किसी भीतरी पदार्थको जानता है)
'प्राज्ञेनात्मना०' (प्राज्ञ आत्मासे अधिष्ठित पुरुष घोर शब्दोंको करता हुआ जाता
है) इस प्रकार सुपुप्ति और उत्क्रान्ति अवस्थाओंमें जीवसे भिन्नरूपसे परमात्माका
प्राज्ञशब्दसे अभिधान है ।

भाष्य

व्यपदेशादित्यनुवर्तते । बृहदारण्यके पष्ठे प्रपाठके 'कतम आत्मेति
योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु ह्यन्तज्योतिः पुरुषः' (बृ० ४।३।७) इत्यु-
पक्रम्य भूयानात्मविषयः प्रपञ्चः कृतः । तत् किं संसारिस्वरूपमात्रान्वा-
भाष्यका अनुवाद

'व्यपदेशात्' की पिछले सूत्रसे अनुवृत्ति होती है । बृहदारण्यकके छठे
प्रपाठकमें 'कतम आत्मेति योऽयं०' (आत्मा कौन है ? जो यह विज्ञानमय है,
प्राण और बुद्धिसे भिन्न है, ज्योतिःस्वरूप और पूर्ण है, वह आत्मा है) ऐसा
उपक्रम करके फिर आत्माका विस्तारसे प्रतिपादन किया है । क्या वह वाक्य

रत्नप्रभा

सुपुप्त्युत्क्रान्त्योर्भेदेन । अहंघीगम्येषु कतम आत्मा इति जनकप्रश्ने
याज्ञवल्क्य आह—योऽयमिति । विज्ञानम्—बुद्धिः, तन्मयः—तत्प्रायः, सप्तमी
व्यतिरेकार्था, प्राणबुद्धिभ्यां भिन्न इत्यर्थः । वृत्तेः अज्ञानाच्च भेदमाह—अन्त-

रत्नप्रभाका अनुवाद .

"सुपुप्त्युत्क्रान्त्योर्भेदेन" । जनकने याज्ञवल्क्यसे प्रश्न किया कि 'अहम्' (मैं) इस
बुद्धिके विषयोंमेंसे आत्मा कौन है ? इसपर याज्ञवल्क्य कहते हैं—"योऽयम्" इत्यादि । यह
विज्ञानमय—बुद्धिप्राय है । सप्तमी भेदार्थक है अर्थात् प्राण और बुद्धिसे अतिरिक्त । श्रुतिसे

भाष्य

रूपानपरं चाक्षयम्, उताऽसंसारिस्वरूपप्रतिपादनपरमिति विशयः । किं तावत् प्राप्तम् ? संसारिस्वरूपमात्रविषयमेवेति । कुतः ? उपक्रमोपसंहाराभ्याम् । उपक्रमे 'योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु' इति शरीरलिङ्गात्, उपसंहारे च 'स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु' (बृ० ४।४।२२) इति तदपरित्यागात्, मध्येऽपि बुद्धान्ताद्यवस्थोपन्यासेन तस्यैव प्रपञ्चनादिति ।

भाष्यका अनुवाद

केवल संसारीके स्वरूपका प्रतिपादन करता है या असंसारी ईश्वरके स्वरूपका प्रतिपादन करता है, ऐसा संशय होता है । तब क्या प्राप्त होता है-?

पूर्वपक्षी—केवल संसारीके स्वरूपका प्रतिपादन करता है, क्योंकि उपक्रम और उपसंहारसे यही प्रतीत होता है । उपक्रममें 'योऽयं विज्ञान०' (यह जो विज्ञानमय प्राणसे भिन्न) ऐसा जीवका लिंग कहा गया है और 'स वा एष०' (यह महान् जन्मरहित आत्मा है, जो कि विज्ञानमय है तथा प्राणसे भिन्न है) इस उपसंहारमें भी उसका परित्याग नहीं किया है और मध्यमें भी जाग्रदवस्था आदिके उपन्याससे उसीका विस्तारपूर्वक कथन है ।

रत्नप्रभा

ज्योतिरिति । पुरुषः पूर्ण इत्यर्थः । उभयलिङ्गानां दर्शनात् संशयमाह— तत्किमिति । पूर्वत्र नामरूपाभ्यां भेदोक्तेः आकाशो ब्रह्म इत्युक्तम्, तद् अयुक्तम्, "प्राज्ञेनात्मना" (बृ० ४।३।२१) इति भिन्नेऽपि जीवात्मनि भेदोक्तिवत् औपचारिकभेदोक्तिसम्भवादिति आक्षेपसंगतिः । पूर्वपक्षे कर्मकर्तृजीवस्तुतिः, सिद्धान्ते जीवानुवादेन ततः कल्पितभेदभिन्नस्य प्राज्ञस्य परमात्मनः स्वरूपैक्यप्रमितिरिति फलम् । बुद्धान्तः—जाग्रदवस्था । आदिमध्यावसानेषु जीवोक्तेः जीवस्तावकम् इदं

रत्नप्रभाका अनुवाद

और अज्ञानसे भी भेद कहते हैं—“अन्तज्योतिः” से । पुरुष—पूर्ण । दोनोंके लिंग दिखाई देते हैं, अतः संशय कहते हैं—“तत्किम्” इत्यादिसे । पूर्वाधिकरणमें नाम और रूपसे भिन्न होनेके कारण आकाश ब्रह्म कहा गया है, वह युक्त नहीं है, क्योंकि 'प्राज्ञेनात्मना' इत्यादिसे जीवका ब्रह्मसे अभेद सिद्ध रहनेपर भी जैसे भेद कहा जाता है, उसी प्रकार औपचारिक भेदका कथन हो सकता है, ऐसी आक्षेप संगति है । पूर्वपक्षमें कर्मके कर्ता जीवकी स्तुति फल है, सिद्धान्तमें जीवके अनुवादसे उससे कल्पित भेदसे भिन्न प्राज्ञ परमात्माके स्वरूपके साथ जीवका अभेदज्ञान फल है । बुद्धान्त—जाग्रदवस्था । पहले, मध्य और अन्तमें जीव

भाष्य

एवं प्राप्ते ब्रूमः—परमेश्वरोपदेशपरमेवेदं वाक्यम्, न शारीरमात्रा-
न्वाख्यानपरम् । कस्मात् ? सुपुष्पावुत्क्रान्तौ च शारीराद्भेदेन परमेश्वरस्य
व्यपदेशात् । सुपुष्पौ तावत् 'अयं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न द्राह्यं
किंचन वेद नान्तरम्' (वृ० ४।३।२१) इति शारीराद् भेदेन परमेश्वरं
व्यपदिशति । तत्र पुरुषः शारीरः स्यात् तस्य वेदितृत्वात् वाद्याभ्यन्तरवेदन-
प्रसङ्गे सति तत्प्रतिषेधसंभवात् । प्राज्ञः परमेश्वरः, सर्वज्ञत्वलक्षणया
प्रज्ञया नित्यमवियोगात् । तथोत्क्रान्तावपि 'अयं शारीर आत्मा प्राज्ञेना-

भाष्यका अनुवाद

सिद्धान्ती—ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं । यह वाक्य परमेश्वरका
ही प्रतिपादन करता है, केवल जीवका प्रतिपादन नहीं करता है, क्योंकि सुपुष्पिमें
और उत्क्रान्तिमें जीवसे भिन्न परमेश्वर कहा गया है । सुपुष्पिमें 'अयं पुरुषः०'
(यह पुरुष प्राज्ञ आत्मासे संश्लिष्ट—एकीभूत होकर बाहर और भीतरके किसी
भी पदार्थको नहीं जानता) इस प्रकार श्रुति जीवसे परमेश्वरका भेद दिख-
लाती है । उसमें पुरुषशब्द जीववाचक है, क्योंकि वह वेत्ता—जाननेवाला
है, अतः बाहर और भीतरके पदार्थोंके जाननेका संभव होनेसे उसका प्रतिषेध
हो सकता है । प्राज्ञशब्द परमेश्वरवाचक है, क्योंकि सर्वज्ञत्वलक्षण प्रज्ञासे
उसका नित्य सम्बन्ध है । उसी प्रकार उत्क्रान्तिमें भी 'अयं शारीर आत्मा०'

रत्नप्रभा

वाक्यम् । इति प्राप्ते सिद्धान्तयति—परमेश्वर इत्यादिना । वाक्यस्य जीवस्ताव-
करने जीवाद् भेदेन प्राज्ञस्य अज्ञातस्य उक्तिः असङ्गता स्यात्, अतो ज्ञाताज्ञात-
सन्निरूपते ज्ञातधुनादेन अज्ञातं प्रतिपादनीयम्, अपूर्वे ज्ञान्यतावर्ष्यमिति न्याया-
दिति सिद्धान्ततात्पर्यम् । पुरुषः—शरीरम्, प्राज्ञ-जीव इति श्रान्तिं चारयति—
तत्र पुरुष इत्यादिना । देहस्य वेदनाऽप्रसक्तेर्निषेधायोगात् पुरुषो जीव एव,

रत्नप्रभाका अनुवाद

कहा गया है, इसलिए यह वाक्य जीवकी स्तुति करनेवाला है, ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर
सिद्धान्त करते हैं—“परमेश्वर” इत्यादिसे । सिद्धान्तका आशय यह है कि वाक्य यदि
जीवका स्तावक हो, तो अज्ञात प्राज्ञका जीवसे भिन्नरूपसे कथन असंगत हो जायगा, इसलिए
ज्ञात और अज्ञातका योग होनेपर ज्ञातके अनुवादसे अज्ञातका प्रतिपादन करना चाहिए,
क्योंकि अज्ञातमें ही वाक्यका तात्पर्य होता है, ऐसा न्याय है । शरीर पुरुष है, जीव प्राज्ञ है,
इस भ्रमका निवारण करते हैं—“तत्र पुरुष” इत्यादिसे । देहमें ज्ञानकी प्राप्ति नहीं है,

भाष्य

त्मनान्वारूढ उत्सर्जन् याति' (बृ० ४।३।३५) इति जीवाद् भेदेन परमेश्वरं व्यपदिशति । तत्रापि शरीरो जीवः स्यात्, शरीरस्वामित्वात् । प्राज्ञस्तु स एव परमेश्वरः । तस्मात् सुषुप्त्युत्क्रान्त्योर्भेदेन व्यपदेशात् परमेश्वर एवाऽत्र विवक्षित इति गम्यते । यदुक्तम्—आद्यन्तमध्येषु शरीरलिङ्गात् तत्परत्वमस्य वाक्यस्य इति । अत्र ब्रूमः—उपक्रमे तावत् 'योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु' इति न संसारिस्वरूपं विवक्षितम् । किं तर्हि ? अनूद्य संसारिस्वरूपं परेण ब्रह्मणाऽस्वैकतां विवक्षति, यतो 'ध्यायतीव लेलायतीव' इत्येवमाद्युत्तरग्रन्थप्रवृत्तिः संसारिधर्मनिराकरणपरा लक्ष्यते । तथोपसंहारेऽपि यथोपक्रममेवोपसंहरति—'स वा एष महानज आत्मा

भाष्यका अनुवाद

(यह जीवात्मा प्राज्ञ आत्मासे अधिष्ठित होकर घोरशब्द करता हुआ जाता है) इस प्रकार श्रुति परमेश्वरको जीवसे भिन्न कहती है । इसमें शरीर जीववाचक है, क्योंकि शरीरका स्वामी है । प्राज्ञ तो वही परमेश्वर है । इसलिए सुषुप्ति और उत्क्रान्तिमें (परमेश्वरका जीवसे) भेद कहा गया है, इससे परमेश्वर ही यहां विवक्षित है, ऐसा समझा जाता है । आदि, अन्त और मध्यमें शरीरके लिंगसे यह वाक्य शरीरपरक है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, उसपर कहते हैं—उपक्रममें 'योऽयं विज्ञानं' इससे संसारीके स्वरूपकी विवक्षा नहीं है । तब किसकी विवक्षा है ? संसारीके स्वरूपका अनुवाद करके परब्रह्मके साथ उसकी एकताकी विवक्षा है, क्योंकि 'ध्यायतीव' (वह ध्यान करता-सा है, चलता-सा है) इत्यादि उत्तरग्रन्थकी प्रवृत्ति संसारी धर्मोंका निराकरण करनेमें देखी जाती है, उसी प्रकार उपसंहारमें भी उपक्रमके अनुसार

रत्नप्रभा

प्राज्ञस्तु रूढ्या पर एवेत्यर्थः । अन्वारूढः—अधिष्ठितः, उत्सर्जन्—घोरान् शब्दान् मुञ्चन्, बुद्धौ ध्यायन्त्याम् आत्मा ध्यायतीव चलन्त्यां चलतीव । यस्तुतः सर्वविक्रियाद्गून्य इत्युक्तेः न संसारिणि तात्पर्यमित्याह—यत् इति । उपक्रमवत्

रत्नप्रभाका अनुवाद

इसलिए उसका निषेध भी नहीं हो सकता है, अतः पुरुष जीव ही है । 'अन्वारूढ'—अधिष्ठित । 'उत्सर्जन्'—घोर शब्दोंको करता हुआ । बुद्धिके ध्यान करनेपर पुरुष ध्यानवर्ता-सा प्रतीत होता है और बुद्धिके चलनेपर चलता-सा शक्त होता है । यस्तुतः वह सब विक्रियाओंसे गून्य कहा गया है, इसलिए संसारीमें तात्पर्य नहीं है, ऐसा कहते हैं—'यतः' इत्यादिसे । उपक्रमवाक्यके

भाष्य

योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु' इति । योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु संसारी लक्ष्यते स वा एष महानज आत्मा परमेश्वर एवाऽस्माभिः प्रतिपादित इत्यर्थः । यस्तु मध्ये बुद्धान्ताद्यवस्थोपन्यासात् संसारिस्वरूपविवक्षां मन्यते, स प्राचीमपि दिशं प्रस्थापितः प्रतीचीमपि दिशं प्रतिष्ठेत, यतो न बुद्धान्ताद्यवस्थोपन्यासेनाऽवस्थावचनं संसारित्वं वा विवक्षितम्, किं तर्ह्यवस्थारहितत्वमसंसारित्वं च विवक्षति । कथमेतदवगम्यते । यत् 'अत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहि' इति पदे पदे पृच्छति, यच्च 'अनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो ह्ययं पुरुषः' (बृ० ४।३।१४, १५) इति पदे पदे प्रतिवक्ति । 'अनन्वागतं

भाष्यका अनुवाद

ही 'स वा एष महानज०' यह श्रुति उपसंहार करती है । जो यह विज्ञानमय प्राणोंसे भिन्न संसारी प्रतीत होता है, उसी महान् जन्मरहित आत्मा परमेश्वरका हमने प्रतिपादन किया है, ऐसा अर्थ है । जो मध्यमें जाग्रदवस्था आदिके उपन्याससे संसारीके स्वरूपकी विवक्षाको मानता है, वह पूर्वदिशामें भेजा हुआ पश्चिम दिशामें प्रस्थान करता है, क्योंकि जाग्रदवस्था आदिके उपन्याससे आत्मा अवस्थावान् है या संसारी है, ऐसा प्रतिपादन करनेकी इच्छा नहीं है । तब किसकी विवक्षा है ? आत्मा अवस्थारहित और असंसारी है, ऐसा प्रतिपादन करनेकी इच्छा है । यह किससे जाना जाता है ? इससे कि 'अत ऊर्ध्वं' (इसके बाद मोक्षके लिए कहिए) इस प्रकार पद-पदपर प्रश्न करते हैं और 'अनन्वागतस्तेन०' (यह आत्मा संगरहित होनेसे अवस्थाधर्मसे असृष्ट है) ऐसा पद-पद पर प्रतिवचन कहते हैं । और

रत्नप्रभा

उपसंहारवाक्येऽपि ऐक्यं विवक्षितमित्याह—तथेति । व्याचष्टे—योऽयमिति । अवस्थोपन्यासस्य त्वमर्थशुद्धिद्वारा ऐक्यपरत्वात् न जीवलिङ्गत्वमित्याह—यतो न बुद्धान्तेति । प्रश्नोत्तराभ्याम् असंसारित्वं गम्यते इत्याह—यदत ऊर्ध्वमिति । कामादिविवेकानन्तरमित्यर्थः । भवतीति चेति । यद् यस्माद् वक्ति, तस्माद्

रत्नप्रभाका अनुवाद

समान उपसंहार वाक्यमें भी अभेद विवक्षित है, ऐसा कहते हैं—“तथा” इत्यादिसे । उसीका व्याख्यान करते हैं—“योऽयम्” इत्यादिसे । अवस्थाओंका उपन्यास त्वंपदार्थकी शुद्धि द्वारा अभेदका प्रतिपादक है, इससे यह जीवका लिंग नहीं है, ऐसा कहते हैं—“यतो न बुद्धान्त” इत्यादिसे । प्रश्न और उत्तरसे असंसारी परमेश्वरका ज्ञान होता है, ऐसा कहते हैं—“यदत

भाष्य

पुण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णो हि तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भवति' (वृ० ४।३।२२) इति च । तस्मादसंसारिस्वरूपप्रतिपादनपरमेवैतद्वाक्यमित्यवगन्तव्यम् ॥ ४२ ॥

भाष्यका अनुवाद

'अनन्वागतं' (आत्मतत्त्व पुण्य और पापसे अस्पृष्ट है, क्योंकि सुपुत्रिमें जीव हृदय-संबन्धी सब शोकोंसे अतिक्रान्त होता है) ऐसी श्रुति भी है । इससे निश्चय करना चाहिए कि यह वाक्य असंसारिके स्वरूपका प्रतिपादन करनेके लिए ही है ॥४२॥

रत्नप्रभा

अवगम्यते इति योजना । तेन—अवस्थाधर्मेण, अनन्वागतः—अस्पृष्टः भवति, असङ्गत्वात् सुपुत्रौ अपि आत्मतत्त्वं पुण्यपापाभ्याम् अस्पृष्टं भवति । हि यस्माद् आत्मा सुपुत्रौ सर्वशोकातीतः, तस्मात् हृदयस्यैव सर्वशोका इति श्रुत्यर्थः ॥४२॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

ऊर्ध्वम्' इत्यादिसे । अर्थात् काम आदिके ज्ञानके अनन्तर । "भवतीति च" इत्यादि । 'यत् यत्किं तस्मात् अवगम्यते' (चूंकि ऐसा कहता है, अतः ज्ञात होता है) ऐसी योजना करनी चाहिए । अवस्थाओंके धर्मसे अस्पृष्ट होता है अर्थात् असंग होनेके कारण आत्मा सुपुत्रि अवस्थामें भी पुण्य और पापोंसे अस्पृष्ट संबन्धरहित होता है । चूंकि आत्मा सुपुत्रिमें सब शोकोंसे अतीत रहता है, इससे प्रतीत होता है कि सब शोक हृदयके ही हैं, ऐसा धृतिका अर्थ है ॥४२॥

* सिद्धान्तका रहस्य हम प्रकार है—'योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु' इत्यादि वाक्यवचो जो पूर्वपक्षी संसारीपरक मानता है, उससे पूछना चाहिए कि क्या संसारीसे अन्य परमात्मा नहीं है अथवा यहाँ संसारीसे अतिरिक्त परमात्माका संकीर्तन नहीं है ? प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, क्योंकि परमात्माके प्रतिपादक सैकड़ों धृतिवाक्य हैं । दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि सुपुत्रि और उल्लान्तिमें संसारीमें व्यतिरिक्त परमात्माका संकीर्तन है । प्राण परमात्माका जीवसे भिन्नरूपसे संकीर्तन हो सकता हो, तो 'राष्ट्रका सिर' इसके समान उसे औपचारिक मानना युक्त नहीं है । और प्राणशब्द प्रजाप्रकर्षशालीमें रूढ़ है । प्रजाका प्रकर्ष सर्ववेत्तासे अन्यत्र संभव नहीं है । जीवात्मा सर्वज्ञ नहीं है । इसलिए सुपुत्रि और उल्लान्तिमें जीवने भिन्नरूपसे परमात्माका व्यपदेश है, अतः 'योऽयं विज्ञानमयः' इत्यादि धृति लोकासिद्ध आत्माका अनुवाद करके उभमें अज्ञात परमात्मभावका प्रतिपादन करती है ।

पत्यादिशब्देभ्यः ॥ ४३ ॥

पदार्थोक्ति—पत्यादिशब्देभ्यः—‘योऽयं विज्ञानमय’ इत्युक्तवाक्यगतेभ्यः सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः’ इति पत्यादिशब्देभ्योऽसंसारित्वप्रतिपादकेभ्यः ‘स न साधुना कर्मणा भूयान्’ इत्यादिशब्देभ्यः संसारित्त्वनिषेधके-
यश्च [गम्यते यदुक्तवाक्यम् असंसारिब्रह्मप्रतिपादकमेवेति] ।

भावार्थ—‘योऽयं विज्ञान०’ इस पूर्व वाक्यमें पठित ‘सर्वस्य वशी०’ सबको वशमें रखनेवाला, सबका नियन्ता, सबका अधिपति) इन पति आदि असंसारिताके प्रतिपादक शब्दोंसे और ‘स न साधुना०’ (पुरुष अच्छे कर्मोंसे बड़ा नहीं होता) इत्यादि संसारिताका निषेध करनेवाले शब्दोंसे ज्ञात होता है कि उक्त वाक्य असंसारी परमात्माका ही प्रतिपादक है ।

भाष्य

इतश्चाऽसंसारिस्वरूपप्रतिपादनपरमेवैतद् वाक्यमित्यवगन्तव्यम् । यदस्मिन् वाक्ये पत्यादयः शब्दा असंसारिस्वरूपप्रतिपादनपराः संसारि-
स्वभावप्रतिषेधनाश्च भवन्ति । ‘सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः’ इत्येवंजातीयका असंसारिस्वभावप्रतिपादनपराः । ‘स न साधुना कर्मणा

भाष्यका अनुवाद

और इससे भी यही निश्चय करना चाहिए कि यह वाक्य असंसारीके स्वरूपका प्रतिपादन करनेके लिए ही है, क्योंकि इस वाक्यमें पति आदि शब्द असंसारीके स्वरूपका प्रतिपादन करते हैं और संसारीके धर्मोंका प्रतिषेध करते हैं । ‘सर्वस्य वशी०’ (सबको अपने वशमें रखनेवाला अर्थात् स्वतंत्र, सबका नियमन करनेवाला, सबका अधिपति) इस प्रकारके शब्द असंसारीके स्वभावका प्रतिपादन करते हैं । ‘स न साधुना कर्मणा०’ (वह अच्छे कर्मोंसे बड़ा नहीं

रत्नप्रभा

वाक्यस्य ब्रह्मालोक्यपरत्वे हेत्वन्तरमाह—पत्यादीति । सूत्रं व्याचष्टे—इत-
श्चेति । वशी—स्वतन्त्रः अपराधीन इति यावत् । ईशानः—नियमनशक्तिमान् ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

उक्त वाक्य मग्न और जीवके अभेदका प्रतिपादक है, इस विषयमें दूसरा हेतु कहते हैं—
‘पत्यादि’ इत्यादिसे । ‘इतश्च’ इत्यादिसे सूत्रका व्याख्यान करते हैं । ‘वशी’ स्वतन्त्र, जा
दूसरेके अधीन न हो । ‘ईशान’ नियममें रखनेकी शक्तिवाला, आधिपत्य शक्तिका कार्य है, इस

भाष्य

भूयान्नो एवासाधुना कनीयान्' इत्येवंजातीयकाः संसारिखभावप्रति-
पेधनाः । तस्मादसंसारी परमेश्वर इहोक्त इत्यवगम्यते ॥ ४३ ॥

इति श्रीमच्छङ्करभगवत्पादकृतौ शारीरकमीमांसाभाष्ये
प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ३ ॥

भाष्यका अनुवाद

होता और न पाप कर्मोंसे छोटा ही होता है) इस प्रकारके शब्द संसारीखभावका
निषेध करते हैं । इससे निश्चय होता है कि असंसारी परमेश्वर ही यहां कहा
गया है ॥ ४३ ॥

यतिवर श्रीभोलेबाबा कृत प्रथम अध्यायके तृतीय पादके
भाष्यका अनुवाद समाप्त ।

रत्नप्रभा

शक्तेः कायर्म् आधिपत्यम् इति भेदः । तस्मात् शोषितत्वमर्थैक्ये षष्ठाध्याय-
समन्वय इति सिद्धम् ॥४३॥ (१३) ॥१॥३॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्गोपालसरस्वतीपूज्यपादशिष्य-
श्रीरामानन्दभगवत्पादकृतौ श्रीमच्छारीरकमीमांसादर्शन-
भाष्यव्याख्याया भाष्यरत्नप्रभाया प्रथमाध्यायस्य
तृतीयः पादः समाप्तः ॥ १ ॥ ३ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

प्रकार ईशत्व और आधिपत्यमें भेद समझना चाहिए । इससे सिद्ध हुआ कि शोषित स्वपदार्थक
अभेदमें षष्ठाध्यायका समन्वय है ॥ ४३ ॥

* यतिवर श्रीभोलेबाबा कृत प्रथमाध्यायके तृतीय पादका रत्नप्रभानुवाद समाप्त *



ॐ ब्रह्मणे नमः ।

प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः ।

[अत्र प्रधानविषयत्वेन संदिश्यमानानामव्यक्ताजादिपदानां चिन्तनम् ।]

[१ आनुमानिकाधिकरण सू० १—७]

महतः परमव्यक्तं प्रधानमथवा चपुः ।

प्रधानं सांख्यशास्त्रोक्तत्त्वानां प्रत्याभिज्ञया ॥१॥

श्रुतार्थप्रत्याभिज्ञानात् परिशेषाच्च तद्वपुः ।

सूक्ष्मत्वात्कारणावस्थमव्यक्ताख्यां तदर्हति* ॥२॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—‘महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः’ इस श्रुतिमें पठित अव्यक्त-शब्द प्रधानका वाचक है या शरीरका ?

पूर्वपक्ष—सांख्यशास्त्रमें कहे गये महद्, अव्यक्त और पुरुषकी क्रमशः प्रत्याभिज्ञा होनेसे प्रतीत होता है कि अव्यक्तपद प्रधानका प्रतिपादक है ।

सिद्धान्त—पूर्व वाक्यमें उक्त शरीरकी ही प्रत्याभिज्ञा होनेसे और परिशेषसे भी शरीर ही अव्यक्तशब्दवाच्य है । कारण अवस्थामें विद्यमान वह शरीर सूक्ष्म होनेके कारण अव्यक्तसंज्ञक है ।

* तात्पर्य यह है कि कठोपनिषत्की तीसरी बहामें श्रुति है—‘महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष परः’ अर्थात् महत्से अव्यक्त श्रेष्ठ है और अव्यक्तसे पुरुष श्रेष्ठ है । यद्वा पर सन्देह होता है कि अव्यक्तशब्द प्रधानका वाचक है या शरीरका ?

पूर्वपक्षी कहता है कि अव्यक्तशब्दसे सांख्याभिमत प्रधानका ही निर्देश है, क्योंकि जैसे महद्, अव्यक्त और पुरुष सांख्यशास्त्रमें पूर्व-पर भावसे प्रसिद्ध हैं, वैसे ही श्रुतिमें उनकी प्रत्याभिज्ञा होती है । इसलिए अव्यक्तशब्द प्रधानका ही प्रतिपादन करता है ?

सिद्धान्ती कहते हैं कि अव्यक्तशब्द शरीरका ही प्रतिपादक है, क्योंकि पूर्व श्रुतिवाक्यमें उक्त शरीरकी ही यद्वा प्रत्याभिज्ञा होती है । पूर्व वाक्यमें शरीर आदि रथ आदिके रूपसे कहे गये हैं—

“आत्मान रथिन विद्धि शरीरं रथमेव तु । बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रमहमेव च ॥

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयास्तेषु गोचरान् ।”

अर्थात् आत्माको रथी, शरीरको रथ, बुद्धिको सारथि और मनको लगाम जानो एवं इन्द्रियोंको अश्व और विषयोंको उनका मार्ग कहते हैं । इन पूर्वोक्त वस्तुओंकी ही उत्तर बाधयमें प्रत्याभिज्ञा होती है—

“इन्द्रियेषु परा ह्येषां अपेक्ष्यश्च पर मनः । मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः ॥

महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुष परः ।”

अर्थात् इन्द्रियोंसे विषय श्रेष्ठ है, विषयोंसे मन श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धिसे महान् आत्मा श्रेष्ठ है, महान् आत्मासे अव्यक्त श्रेष्ठ है और अव्यक्तसे पुरुष श्रेष्ठ है ।

सन्निहित होनेसे सांख्यशास्त्रकी प्रत्याभिज्ञाकी अपेक्षा यह श्रुतिकी प्रत्याभिज्ञा प्रबल है । यदि कहो कि श्रुतिप्रत्याभिज्ञा ही बलवत्तर हो, तो भी श्रुतिसे केवल एक शरीरकी ही प्रत्याभिज्ञा नहीं होती

भाष्य

ब्रह्मजिज्ञासां प्रतिज्ञाय ब्रह्मणो लक्षणयुक्तम्—'जन्माद्यस्य यतः'
(ब्र० १।१।२) इति । तल्लक्षणं प्रधानस्यापि समानमित्याशङ्क्य तदशब्द-
त्वेन निराकृतम्—'ईक्षतेर्नाशब्दम्' (ब्र० १।१।५) इति । गतिसामान्यं च
वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मकारणवादं प्रति विद्यते न प्रधानकारणवादं प्रतीति
भाष्यका अनुवाद

ब्रह्मजिज्ञासाकी प्रतिज्ञा कर 'जन्माद्यस्य यतः' से ब्रह्मका लक्षण कहा गया
है । वह लक्षण प्रधानमें भी सङ्गत है, ऐसी आशङ्का करके श्रुतिप्रतिपादित
न होनेसे 'ईक्षतेर्नाशब्दम्' इससे उसका निराकरण किया गया है । सभी
वेदान्तवाक्य ब्रह्मको जगत्का कारण कहते हैं, न कि प्रधानको; ऐसा पीछे

रत्नभा

अन्यक्तेशमजं पञ्चजनाधारं च कारणम् ।

वेदितव्यं प्रियं वन्दे प्रकृतिं पुरुषं परम् ॥ १ ॥

अस्मिन् पादे अधिकरणत्रयस्य ईक्षत्यधिकरणेन सङ्गतिं वक्तुं वृत्तम् अनु-
वदति—ब्रह्मेति । तदशब्दत्वेन—प्रधानस्य वैदिकशब्दशून्यत्वेन इत्यर्थः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

शरीरके अधिपति, जन्मरहित, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, अक्ष और मनके आधार, जगत्के
कारण, शातव्य, सबके परम प्रिय, जगत्के अभिन्नमिसोपादानभूत परम पुरुषको मैं प्रणाम
करता हूँ ।

इस पादमें तीन अधिकरणोंकी ईक्षति अधिकरणके साथ संगति कहनेके लिए पूर्वोक्तका
अनुवाद करते हैं—'ब्रह्म' इत्यादिसे । 'तदशब्दत्वेन'—प्रधानके वैदिकशब्दवाच्य न

किन्तु बहुतांकी प्रत्यभिज्ञा हाती है, ऐसी स्थितिमें यह आपने कैसे निगूँय कर लिया कि
अभ्यक्तशब्दसे शरीरका ही बोध होता है । हमपर हम कहते हैं कि परिशेषसे हमने यह निश्चय
किया है । देखो, पूर्ववाक्यमें इन्द्रिय, अग्ने, मन, बुद्धि आदि शब्दोंमें निर्दिष्ट पदार्थ अप्रिम वाक्यमें
बर्दी शब्दोंसे कह गये हैं । जिस वस्तुका पूर्व वाक्यमें आत्मशब्दसे निर्देश किया या उसका उत्तर
वाक्यमें पुरुषशब्दसे निर्देश किया गया है । उत्तर वाक्यमें महत्त्वमें जो कक्षा गया है पूर्व वाक्यमें बरी
बुद्धिशब्दसे कहा गया है । बुद्धि दो प्रकारकी है—(१) हमलोगोंकी बुद्धि (२) हम लोगोंकी
बुद्धिही जननी विरण्यागंधकी बुद्धि जो कि महत्त्व शब्दमें व्यवहृत होती है । उन दोनों बुद्धियोंका
पूर्ववाक्यमें एतदत्वेन निर्देश है, और अप्रिम वाक्यमें उनका भेदसे कथन है । ऐसा होनेपर पूर्व वाक्यमें
केवल एक शरीर बच जाता है और उत्तर वाक्यमें अभ्यक्तशब्द बचता है । ऐसा परिशेष होनेपर
भी शरीर व्यक्त होने (एतद्विचार देने) के कारण अभ्यक्तशब्दवाच्य नहीं हो सक्ता ऐसी संका
नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कारणवस्तुको प्राप्त हुआ शरीर शून्य होनेके कारण एतद्विचार नहीं प्राप्त
है। एतद्विचार शून्य हो सकता है । इससे सिद्ध हुआ कि अभ्यक्तशब्द बच शरीर ही है ।

भाष्य

प्रपञ्चितं गतेन ग्रन्थेन । इदं त्विदानीमवशिष्टमाशङ्क्यते—यदुक्तं प्रधान-
स्याशब्दत्वं तदसिद्धम्, कासुचिच्छाखासु प्रधानसमर्पणाभासानां शब्दानां
श्रूयमाणत्वात् । अतः प्रधानस्य कारणत्वं वेदसिद्धमेव महद्भिः परमर्षिभिः
कपिलप्रभृतिभिः परिगृहीतमिति प्रसज्यते । तथाचत् तेषां शब्दानामन्य-
परत्वं न प्रतिपाद्यते तावत् सर्वज्ञं ब्रह्म जगतः कारणमिति प्रतिपादित-
मप्याकुलीभवेत्, अतस्तेषामन्यपरत्वं दर्शयितुं परः सन्दर्भः प्रवर्तते—

भाष्यका अनुवाद

विस्तारपूर्वक कहा गया है । अब अवशिष्ट विषयमें आशङ्का की जाती है—
प्रधान अशब्द है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, यह ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ शास्त्राओं
में प्रधानके वाचक शब्द सुननेमें आते हैं । इससे सूचित होता है कि प्रधानकी
जगत्कारणता वेदसिद्ध है, उसीका कपिलादि महान् परमर्षियोंने ग्रहण किया है ।
इसलिए जबतक उन शब्दोंकी अन्यपरताका निर्णय न किया जाय तबतक सर्वज्ञ
ब्रह्म जगत्का कारण है, ऐसा जो प्रतिपादन किया है, यह भी सन्देहास्पद
हो जायगा, इसलिए वे शब्द अन्यपरक हैं यह दिखलानेके लिए अब अग्रिम
ग्रन्थका आरम्भ होता है—

रत्नप्रभा

ईक्षत्याधिकरणे गतिसामान्यम्, अशब्दत्वञ्च प्रतिज्ञातम्, तत्र ब्रह्मणि वेदान्तानां
गतिसामान्यं प्रपञ्चितम्, अधुना प्रधानस्य अशब्दत्वम् असिद्धम् इत्याशङ्क्य
निरूप्यते इति आक्षेपसंगतिः । तेन अशब्दत्वनिरूपणेन ब्रह्मणि वेदान्तानां
समन्वयो दृढीकृतो भवति इति अध्यायसंगतिरपि अधिकरणत्रयस्य ज्ञेया । अत्र
अव्यक्तपदं विप्रकः । तद् किं प्रधानपरं पूर्वोक्तशरीरपरं ज्ञेति स्पष्टप्रकरणान्भ्यां
संशये पूर्वम् अप्रसिद्धब्रह्मपरत्वं यथा पद्याध्यायस्य दर्शितम्, तद्वत् अव्यक्तपदम्

रत्नप्रभाका अनुवाद

होनेके कारण । ईक्षत्याधिकरणमें सब वेदान्तवाक्योंका ब्रह्ममें समन्वय है एवं प्रधान भुति-
प्रतिपादित नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा की गई है और विस्तारपूर्वक सब वेदान्तोंका ब्रह्ममें समन्वय
दिखलाना भी गया है । अब प्रधान भुतिप्रतिपादित नहीं है यह सिद्ध नहीं हो सकता ऐसी
आशङ्का करके उसका निरूपण करते हैं, इस प्रकार ईक्षत्याधिकरणके साथ इस अधिकरणकी
आक्षेपसंगति है । प्रधान भुतिप्रतिपादित नहीं है, इसके निरूपणसे ब्रह्ममें वेदान्तोंका समन्वय
दृढ हो जाता है, इससे तीन अधिकरणोंकी अध्यायसंगति भी समझनी चाहिए । इन अधि-
करणका विषय 'अव्यक्त' पद है । वह प्रधानपरक है अथवा पूर्ववाक्यमें कथित शरीरपरक
है, स्मृति और प्रकरणसे ऐसा संशय होनेपर जैसे पूर्व अधिकरणमें वृहदारण्यकका छटा

आनुमानिकमप्येकेपामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्त- गृहीतेदर्शयति च ॥ १ ॥

पदच्छेद—आनुमानिकम्, अपि, एकेपाम्, इति, चेत्, न, शरीररूपक-
विन्यस्तगृहीतेः, दर्शयति, च ।

पदार्थोक्ति—एकेपाम्—केषांचित् शाखिनाम् ['महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्
पुरुषः परः'] इत्यादौ, आनुमानिकमपि—प्रधानमपि [पठ्यते] इति चेत् न,
शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेः—'शरीरं रथमेव तु' इत्यस्मिन् पूर्ववाक्ये शरीरस्य
रथरूपकेण कल्पितस्य ग्रहणात्, दर्शयति च—पूर्वापरसन्दर्भ आलोच्यमान औचि-
त्येन प्रकृतं शरीरमेव अव्यक्तग्राह्यं दर्शयति ।

भाषार्थ—कुछ शाखावाले 'महतः पर०' (महत्से अव्यक्त श्रेष्ठ है,
अव्यक्तसे पुरुष श्रेष्ठ है) इत्यादिमें प्रधानको भी पढ़ते हैं [इससे प्रधानमें अशब्दत्व
सिद्ध नहीं होता] यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि 'शरीरं०' इस पूर्ववाक्यमें रथ-
सादृश्यसे कल्पित शरीरका ही यहां ग्रहण है । पूर्वापर सन्दर्भके पर्यालोचनसे भी
यही प्रतीत होता है कि पूर्वप्रकृत शरीरका ही यहां अव्यक्तशब्दसे ग्रहण
करना उचित है ।



भाष्य

आनुमानिकमप्यनुमाननिरूपितमपि प्रधानमेकेषां शाखिनां शब्दवदुप-
लभ्यते । काठके हि पठ्यते—'महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः' ।

भाष्यका अनुवाद

आनुमानिक-अनुमानसे निरूपित प्रधान भी कुछ शाखावालोंकी धृतिसे
प्रतिपादित प्रतीत होता है । काठकमें 'महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः
परः (महत्से अव्यक्त श्रेष्ठ है और अव्यक्तसे पुरुष श्रेष्ठ है)' ऐसी

रत्नप्रभा

अप्रसिद्धप्रधानपरमिति पूर्वपक्षयति—आनुमानिकमिति । अपिशब्दाद् ब्रह्माङ्गी-
कारेण अयमशब्दत्वाक्षेप इति सूचयति । तथा च ब्रह्मप्रधानयोः विकल्पेन कारणत्वात्

रत्नप्रभाका अनुवाद

अध्याय अप्रसिद्ध ब्रह्मपरक माना गया है, उसी प्रकार यहां भी अव्यक्तपद अप्रसिद्ध प्रधान-
परक है, ऐसा पूर्वपक्ष करते हैं—'आनुमानिकम्' इत्यादिसे । अपिशब्दसे ब्रह्मको धृति-
प्रतिपादित मान कर ही प्रधान धृतिप्रतिपादित नहीं है, इतपर आक्षेप स्थित होता है,

भाष्य

(१।३।११) इति । तत्र य एव यन्नामानो यत्क्रमाश्च महदव्यक्तपुरुषाः स्मृतिप्रसिद्धास्त एवेह प्रत्यभिज्ञायन्ते । तत्राऽव्यक्तमिति स्मृतिप्रसिद्धेः शब्दादिहीनत्वाच्च न व्यक्तमव्यक्तमिति व्युत्पत्तिसम्भवात् स्मृतिप्रसिद्धं प्रधानमभिधीयते । अतः तस्य शब्दवत्त्वाद्शब्दत्वमनुपपन्नम् । तदेव च जगतः कारणं श्रुतिस्मृतिन्यायप्रसिद्धिभ्य इति चेत् ।

भाष्यका अनुवाद

श्रुति है । जिस नाम और क्रमसे महत्, अव्यक्त और पुरुष सांख्यशास्त्रमें प्रसिद्ध हैं, उनका ही यहां—काठकमें प्रत्यभिज्ञान होता है । उनमेंसे अव्यक्त-शब्दसे प्रधानका बोध होता है, क्योंकि सांख्यशास्त्रमें अव्यक्त शब्द प्रधानमें प्रसिद्ध है और शब्द आदि न होनेसे जो व्यक्त न हो वह अव्यक्त है, इस व्युत्पत्तिका उसमें सम्भव है । इसलिए श्रुतिप्रतिपादित होनेसे प्रधानको अशब्द कहना युक्त नहीं है । श्रुति, स्मृति और तर्कसे वह सिद्ध है, अतः वही जगत्का कारण है ।

रत्नप्रभा

ब्रह्मण्येव वेदान्तानां समन्वय इति नियमासिद्धिः फलम्, सिद्धान्ते नियमसिद्धिः इति विवेकः । पदविचारत्वाद् अधिकरणानाम् एतत्पादसंगतिः बोध्या । स्मार्तक्रमरूढिम्याम् अव्यक्तशब्दः प्रधानपरः, शब्दस्पर्शादिशून्यत्वेन योगसम्भवाच्च इत्याह—शब्दादीति । प्रधानस्य वैदिकशब्दवाच्यत्वे का क्षतिः इत्यत आह—तदेवेति । “अजामेकाम्” (श्वे० ४।५) इत्याद्या श्रुतिः, “हेतुः प्रकृतिरुच्यते” इत्याद्या स्मृतिः, ‘यद् अल्पं तद् जडप्रकृतिकम्’ इति न्यायः, ततो ब्रह्मैव कारणमिति मतक्षतिः इति भावः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

इसलिए ब्रह्म एवं प्रधानके विमलपते कारण होनेसे ब्रह्ममें ही वेदान्तोंका समन्वय है, इस नियमकी आसिद्धि पूर्वपक्षमें फल है, सिद्धान्तमें उक्त नियमकी सिद्धि फल है । इन तीनों अधिकरणोंमें पदका विचार है, अतः पादसंगति है । सांख्यस्मृतिके क्रमसे और सूत्रसे अव्यक्तपद प्रधानपरक है और शब्द, स्पर्श आदिरहित होनेसे योगका संभव है, इससे भी प्रधानपरक है, ऐसा कहते हैं—“शब्दादि” इत्यादिसे । प्रधान यदि श्रुतिप्रतिपादित हो, तो क्या हानि है ? इसपर कहते हैं—“तदेव” इत्यादि । ‘अजामेकाम्’ इत्यादि श्रुति है, ‘हेतुः प्रकृतिरुच्यते’ इत्यादि सांख्यस्मृति है, ‘यदल्पं तद् जडप्रकृतिकम्’ (जो परिच्छिन्न है, वह जड़में उत्पन्न है) इत्यादि न्याय है । इस प्रकार ब्रह्म ही जगत्का कारण है, इन मतकी क्षति होती है ऐसा पूर्वपक्षका आशय है ।

भाष्य

नैतदेवम् । नह्येतत् काठकवाक्यं स्मृतिप्रसिद्धयोर्महदव्यक्तयोरस्तित्व-
परम् । नह्यत्र यादृशं स्मृतिप्रसिद्धं स्वतन्त्रं कारणं त्रिगुणं प्रधानं तादृशं
प्रत्यभिज्ञायते, शब्दमात्रं ह्यत्राव्यक्तमिति प्रत्यभिज्ञायते । स च शब्दो न
व्यक्तमव्यक्तमिति यौगिकत्वादन्वस्मिन्नपि सूक्ष्मे सुदुर्लक्ष्ये च प्रयुज्यते,
न चाऽयं कस्मिंश्चिद् रूढः । या तु प्रधानवादिनां रूढिः, सा तेपामेव पारि-

भाष्यका अनुवाद

सिद्धान्ती—ऐसा नहीं है । क्योंकि यह काठकवाक्य सांख्यशास्त्रप्रसिद्ध
महत् और अव्यक्तके अस्तित्वका बोधक नहीं है, क्योंकि जैसा सांख्यशास्त्र-
प्रसिद्ध जगत्कारण त्रिगुणात्मक प्रधान है वैसे अव्यक्त-प्रधानकी प्रत्यभिज्ञा
यहां नहीं होती । यहां तो केवल अव्यक्त शब्दमात्रकी प्रत्यभिज्ञा होती है, और
वह शब्द जो व्यक्त नहीं है—वह अव्यक्त है, इस प्रकार यौगिक होनेसे सूक्ष्म
एवं सुदुर्लक्ष्य अन्य पदार्थमें भी प्रयुक्त हो सकता है और काठकश्रुतिमें पठित
अव्यक्त शब्द किसी अर्थमें रूढ़ नहीं है, जो प्रधानवादियोंकी रूढ़ि है, वह

रत्नप्रभा

सूत्रे नवर्थं वदन् सिद्धान्तयति—नैतदिति । प्रधानं वैदिकं नेत्यत्र तात्प-
र्याभावं हेतुमाह—नहीति । ननु प्रधानस्याऽत्र प्रत्यभिज्ञानाद् वैदिकत्वम् इत्यत
आह—नह्यत्रेति । ननु शब्दप्रत्यभिज्ञायाम् अर्थोऽपि प्रत्यभिज्ञायते इत्याशङ्क्य
यौगिकात् शब्दाद् असति नियामके नाऽर्थविशेषधीरित्याह—स चेति । रूढ्या
तद्धीरित्याशङ्क्य रूढिः किं लौकिकी स्मार्ता वा, नाऽऽद्या इत्याह—न चेति ।
द्वितीयं प्रत्याह—या त्विति । पुरुषसंकेतो नाऽनादिवेदार्थनिर्णयहेतुः, पुंमतेः

रत्नप्रभाका अनुवाद

सूत्रमें स्थित 'नञ्' के अर्थको कहते हुए सिद्धान्त करते हैं—“नैतद्” इत्यादिसे ।
प्रधान श्रुतिप्रतिपादित नहीं है, इस त्रिपयमें श्रुतिके तात्पर्यका अभावरूप हेतु कहते हैं—
“नहि” इत्यादिसे । परन्तु यहां प्रधानकी प्रत्यभिज्ञा होती है, इसलिए प्रधान वैदिक—
श्रुतिप्रतिपादित है, इस शंकाको दूर करनेके लिए कहते हैं—“नह्यत्र” इत्यादि । परन्तु
शब्दकी प्रत्यभिज्ञा होनेसे अर्थकी भी प्रत्यभिज्ञा होगी, ऐसी आशंका करके “न च” इत्यादिसे
समाधान कहते हैं कि कोई नियामक न हो, तो यौगिकशब्दसे विशिष्ट अर्थकी प्रतीति नहीं
होती है । तब रुढ़िसे प्रधानकी प्रतीति होगी, ऐसी आशंका हो, तो वह रुढ़ि लौकिक है, या
सांख्यश्रुतिकी है ? लौकिक रुढ़ि तो नहीं हो सकती, ऐसा कहते हैं—“न च” इत्यादिसे ।

भाष्य

भाषिकी सती न वेदार्थनिरूपणे कारणभावं प्रतिपद्यते । न च क्रममात्र-
सामान्यात् समानार्थप्रतिपत्तिर्भवत्यसति तद्रूपप्रत्यभिज्ञाने, नह्यश्वस्थाने
गां पश्यन्नश्वोऽयमित्यमूढोऽध्यवस्यति । प्रकरणनिरूपणायां चाऽत्र न
परपरिकल्पितं प्रधानं प्रतीयते, शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेः । शरीरं ह्यत्र
भाष्यका अनुवाद

उन्हींकी पारिभाषिक होनेसे वेदार्थका निरूपण करनेमें कारण नहीं हो सकती ।
अर्थके रूपकी प्रत्यभिज्ञा न हो तो केवल क्रमकी समानतासे समान अर्थका
बोध नहीं होता । कोई भी समझदार आदमी घोड़ेके स्थानपर बैलको देख-
कर “यह घोड़ा है” ऐसा निश्चय नहीं कर सकता, और यहां प्रकरणका निरूपण
करनेपर प्रतिपक्षीसे कल्पित प्रधानकी प्रतीति नहीं होती, क्योंकि यहां रथ

रत्नप्रभा

विचित्रत्वादित्यर्थः । यत्तु स्मार्तक्रमप्रत्यभिज्ञया क्रमिकार्थः स्मार्त एवेति, तत्राऽऽह—
न च क्रमेति । स्थानात् तद्रूपप्रत्यभिज्ञानशङ्कायाम् असति इत्यनन्वयात् नञो
व्यत्यासेन अतद्रूपस्य तद्रूपविरुद्धस्य प्रत्यभिज्ञाने सति इत्यर्थः । पूर्वज्ञातरूपार्थस्य
स्थाने तद्विरुद्धार्थज्ञाने सति तस्य धीं नास्ति इत्यत्र दृष्टान्तमाह—नहीति ।
प्रकृते नास्ति विरुद्धज्ञानम् इत्याशङ्क्य प्रकरणात् शरीरज्ञानमस्ति इत्याह—
प्रकरणेति । शरीरमेव रूपकेण रथसादृश्येन विन्यस्तं शरीररूपकविन्यस्तम्, तस्य
पूर्ववाक्ये आत्मबुद्धयोः मध्यस्थानपठितस्य अत्रापि मध्यस्थेन अव्यक्तशब्देन
रत्नप्रभाका अनुवाद

सांख्यसृष्टिकी भी हडि नहीं है, ऐसा कहते हैं—“या तु” -इत्यादिसे । पुरुषसकेत अनादि
वेदका अर्थनिर्णय करनेमें हेतु नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुषकी मति विचित्र होती है, ऐसा
तात्पर्य है । परन्तु सांख्यसृष्टिके क्रमकी यहाँ प्रत्यभिज्ञा होनेसे क्रमिक अर्थ भी सृष्टि
बन्धित ही है, यह जो रुषन है, उसका समाधान करते हैं—“न च क्रम” इत्यादिसे । स्थानसे
उसीकी प्रत्यभिज्ञा हो, ऐसी शंका होनेपर ‘असति’ का अन्वय नहीं हो सकता है, इसलिए
‘नञ्’ के व्यत्यासेसे अतः—उससे विरुद्धकी प्रत्यभिज्ञा होनेपर, ऐसा अर्थ करना चाहिए ।
ज्ञात पदार्थके स्थानपर उससे विरुद्ध पदार्थका ज्ञान होनेपर उसकी (ज्ञातकी)
प्रतीति नहीं होती, इस विषयमें दृष्टान्त कहते हैं—“नहि” इत्यादिसे । प्रकृत
विषयमें विरुद्ध ज्ञान नहीं है, ऐसी आशंका करके प्रकरणसे शरीरका ज्ञान होता है, ऐसा कहते हैं—
“प्रकरण” इत्यादिसे । रूपक अर्थात् रथ सादृश्यसे विन्यस्त शरीर ही शरीररूपकविन्यस्त है । पूर्व
वाक्यमें आत्मा और बुद्धिके मध्यमें शरीर पदा गया है, इसलिए यहाँ भी मध्यके अव्यक्तशब्दसे

भाष्य

रथरूपकविन्यस्तमव्यक्तशब्देन परिगृह्यते । कुतः ? प्रकरणात् परिशेषाच्च । तथा ह्यनन्तरातीतो ग्रन्थ आत्मशरीरादीनां रथिरथादिरूपककल्पसिं दर्शयति—

‘आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विपयांस्तेषु गोचरान् ।

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः’ (का० १।३।३, ४) इति ।

भाष्यका अनुवाद

रूपकसे विन्यस्त शरीरका ही ग्रहण है । निरसन्देह, यहांपर रथरूपकसे विन्यस्त शरीरका ही अव्यक्तशब्दसे ग्रहण किया है । किससे ? प्रकरणसे और परिशेषसे । क्योंकि समनन्तर अतीत ग्रन्थ रथी, रथ आदिके साथ आत्मा, शरीर आदिके रूपककी कल्पना दिखलाता है—‘आत्मानं रथिनं विद्धि०’ (आत्माको रथी और शरीरको रथ जानो, बुद्धिको सारथि और मनको लगाम जानो, इन्द्रियाँ अश्व हैं और विषय उनके मार्ग हैं, देह, इन्द्रिय और मनसे युक्तको

रत्नप्रभा

ग्रहणात् न प्रधानस्य वैदिकत्वमिति सूत्रार्थः । स्मार्तकमः किमिति त्यक्तव्य इत्याशङ्क्य श्रौतक्रमस्य प्रकरणाद्यनुग्रहेण बलवत्त्वात् इत्याह—कुत इत्यादिना । तदुभयं विवृणोति—तथा हीति । रूपककल्पसिः—सादृश्यकल्पना । प्रग्रहः—अश्वरशना । यदा बुद्धिसारथिः विवेकी, तदा मनसा इन्द्रियहयान् विषमविषय-मार्गाद् आकर्षति । यदि अविवेकी, तदा मनोरशनावद्धान् तान् प्रवर्तयतीति मनसः प्रग्रहत्वं युक्तम् । तेषु—हयेषु, गोचरान्—मार्गान् । ननु स्वतः चिदात्मनो भोगसम्भवात्, किं रथादिना इत्यत आह—आत्मेति । आत्मा—देहः, देहादि-

रत्नप्रभाका अनुवाद

शरीरका ग्रहण होनेसे प्रधान श्रुतिप्रतिपादित नहीं है, ऐसा सूत्रका अर्थ है । परन्तु स्मृतिका कम स्वयं यों है, ऐसी आशंका करके प्रकरण आदिके अनुग्रहसे श्रुतिकम स्मृतिकमसे बलवत्तर है, ऐसा कहते हैं—‘किम्’ इत्यादिसे । प्रकरण और परिशेष इन दोनोंका विवरण करते हैं—‘तथा हि’ इत्यादिसे । रूपककल्पसि—सादृश्यकी कल्पना । प्रग्रह—लगाम । यदि बुद्धिरूप सारथि विवेकीजाल होता है, तब मनरूपी लगामसे इन्द्रियरूपी अश्वोंको विषयरूपी विषम मार्गमें लेता है, यदि वह अविवेकी होता है, तो मनरूपी लगामसे बांधे हुए अश्वोंको उस मार्गमें चलाता है, इस प्रकार मनको लगाम कहना युक्त है । तेषु—अश्वोंके, गोचर—मार्ग । यदि कोई कहे कि चिदात्मामे स्वतः भोगका संभव है,

भाष्य

तैश्चेन्द्रियादिभिरसंयतैः संसारमधिगच्छति । संयतैस्त्वध्वनः पारं तद्विष्णोः परमं पदमाप्नोतीति दर्शयित्वा, किं तदध्वनः पारं विष्णोः परमं पदमित्यस्यामाकाङ्क्षायाम्, तेभ्य एव प्रकृतेभ्य इन्द्रियादिभ्यः परत्वेन परमात्मानमध्वनः पारं विष्णोः परमं पदं दर्शयति—

‘इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः ॥

महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः ।

पुरुषान्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परा, गतिः ॥’

(का० १।३।१०, ११) इति । तत्र य एवेन्द्रियादयः पूर्वस्थां रथरूपककल्पनायामश्वादिभावेन प्रकृतास्त एवेह परिगृह्यन्ते प्रकृतहानामप्रकृत-

भाष्यका अनुवाद

विद्वान् भोक्ता कहते हैं) वे इन्द्रियों आदि असंयत—अनियमित हों, तो उनसे जन्म-मरणपरम्पराको प्राप्त होता है और संयत हों तो आवागमनरहित विष्णुके परम पदको प्राप्त होता है, ऐसा दिखलाकर आवागमनरहित विष्णुका परम पद कौन है, ऐसी आकांक्षा होनेपर—‘इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था०’ (इन्द्रियोंसे विषय श्रेष्ठ हैं, विषयोंसे मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धिसे महान्—जीव श्रेष्ठ है, महान् जीवसे अव्यक्त श्रेष्ठ है और अव्यक्तसे पुरुष श्रेष्ठ है, पुरुषसे कुछ श्रेष्ठ नहीं है वह अन्तिम सीमा है, वही उत्कृष्ट गति है ।) यह श्रुति प्रकृत इन्द्रिय आदिसे पर परमात्माको ही आवागमनरहित विष्णुका परम पद कहती है । उस श्रुतिमें रथरूपककी कल्पनामें अश्व आदि रूपसे जो इन्द्रिय आदि प्रकृत हैं, प्रकृतकी हानि और अप्रकृतकी कल्पनारूप

रत्नप्रभा

सङ्गकरूपनया भोक्तृत्वम्, न स्वतः, असङ्गत्वादित्यर्थः । अधुना रथादिभिः गन्तव्यं चदन् आकाङ्क्षापूर्वकम् उत्तरवाक्यमाह—तैश्चेत्यादिना । शरीरस्य प्रकृतत्वेऽपि अव्यक्तपदेन प्रधानं गृह्यतामित्यत आह—तत्र य एवेति । एवं ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

रथ आदिकी क्या आवश्यकता है, इसपर कहते हैं—“आत्मा” इत्यादिसे । आत्मा—देह । देह आदि संगकी कल्पनासे आत्मा भोक्ता होता है, स्वतः भोक्ता नहीं है, क्योंकि असंग है । अब रथ आदिसे गन्तव्य क्या है, यह कहते हुए आकांक्षापूर्वक उत्तर वाक्य कहते हैं—“तैश्च” इत्यादिसे । यद्यपि शरीर प्रकृत है, तो भी अव्यक्तशब्दसे प्रधानका ही ग्रहण करो,

भाष्य

प्रक्रियापरिहाराय । तत्रेन्द्रियमनोबुद्ध्यस्तावत् पूर्वत्रेह च समानशब्दा एव, अर्थास्तु ये शब्दादयो विषया इन्द्रियहयगोचरत्वेन निर्दिष्टाः तेषां चेन्द्रियेभ्यः परत्वम्, इन्द्रियाणां च ग्रहत्वम्, विषयाणामतिग्रहत्वम्, (वृ० ३।२) इति श्रुतिप्रसिद्धेः । विषयेभ्यश्च मनसः परत्वम्, मनोमूलत्वाद् विषयेन्द्रियव्यवहारस्य । मनसस्तु परा बुद्धिः, बुद्धिं ह्यारूढ भोग्यजातं भोक्तारमुपसर्पति । बुद्धेरात्मा महान् परो यः स 'आत्मानं रथिनं भाष्यका अनुवाद

दोपके निवारणके लिए, उनका ही इस श्रुतिवाक्यमें ग्रहण किया जाता है । उनमेंसे इन्द्रिय, मन और बुद्धि पूर्ववाक्य में और यहां समान शब्दोंसे ही निर्दिष्ट हैं । अर्थ अर्थात् शब्द आदि विषय जो इन्द्रियरूप अश्वोंके मार्गरूपसे निर्दिष्ट हैं, वे इन्द्रियोंसे पर हैं, 'इन्द्रियाणां ग्रहत्वं' (इन्द्रियों ग्रह हैं और विषय अतिग्रह हैं) ऐसा श्रुतिमें प्रसिद्ध है । और विषयोंसे मन श्रेष्ठ है, क्योंकि विषय और इन्द्रियोंका व्यवहार मनके अधीन है । बुद्धि मनसे श्रेष्ठ है, क्योंकि भोग्य पदार्थ बुद्धिपर आरूढ होकर भोक्ताके पास जाते हैं । जो 'आत्मानं रथिनं विद्धि' (आत्माको रथी जानो) इस प्रकार रथीरूपसे

रत्नप्रभा

प्रकरणं शोधयित्वा शरीरस्य परिशेषताम् आनयति—तत्रेन्द्रियेत्यादिना । अर्थानां पूर्वमनुक्तिशब्दां वारयन् परत्वम् उपपादयति—अर्था इति । गृह्णन्ति पुरुषपशुं वध्नन्तीति ग्रहाः—इन्द्रियाणि । तेषां ग्रहत्वं विषयाधीनम्, असति विषये तेषाम् अकिञ्चित्करत्वात् । ततो ग्रहेभ्यः श्रेष्ठाः अतिग्रहाः विषयाः इति बृहदारण्यके श्रवणात् । परत्वं श्रेष्ठ्याभिप्रायम्, न तु आन्तरत्वेन इति भावः । सविकल्पकं रत्नप्रभाका अनुवाद

इसपर कहते हैं—“तत्र य एव” इत्यादि । इस प्रकार प्रकरणका शोधन करके शरीर परिशेष—अवशिष्ट है, ऐसा दिखलते हैं—“तत्रेन्द्रिय” इत्यादिसे । विषय पहले नहीं कहे गये हैं, इस शब्दाका निराकरण करते हुए उनमें श्रेष्ठता दिखलते हैं—“अर्था” इत्यादिसे । प्राण, जिह्वा, धाक्, चक्षु, श्रोत्र, मन, हस्त और त्वचा, इन आठ इन्द्रियोंको श्रुतिने ग्रह कहा है, क्योंकि इन्द्रियां पुरुषरूपी पशुका ग्रहण—बन्धन करती हैं अर्थात् उसको अपने वशमें करती हैं । परन्तु जबतक इन्द्रियों इस पुरुषपशुको गन्ध, रस, नाम, रूप, शब्द, काम, कर्म और स्पर्शका उपहार नहीं करती तबतक इन्द्रियां स्वरूपसे पुरुष पशुको अपने वशमें नहीं कर सकतीं । इस प्रकार विषयोंके अधान होनेसे इन्द्रियोंको ग्रह कहा है । उनसे विषय श्रेष्ठ हैं, अतः बृहदारण्यकमें वे अतिग्रह कहे गये हैं । परत्व श्रेष्ठताके अभिप्रायसे कहा

भाष्य

विद्धि' इति रथित्वेनोपक्षिप्तः । कुतः ? आत्मशब्दात् । भोक्तुश्च भोगोप-
करणात् परत्त्वोपपत्तेः । महत्त्वं चाऽस्य स्वामित्वादुपपन्नम् । अथवा—

'मनो महान्मतिर्ब्रह्मा पूर्ववृद्धिः ख्यातिरीश्वरः ।

प्रज्ञा संविच्चित्तिश्चैव स्मृतिश्च परिपठ्यते ॥' इति स्मृतेः,

'यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ।' (श्वे०६।१८)
इति च श्रुतेर्या प्रथमजस्य हिरण्यगर्भस्य बुद्धिः, सा सर्वासां बुद्धीनां

भाष्यका अनुवाद

निर्दिष्ट महान् आत्मा है, वह बुद्धिसे श्रेष्ठ है, क्योंकि आत्मशब्दसे यह प्रत्यभिज्ञा
होती है । भोक्ताको भोगकी सामग्रियोंसे श्रेष्ठ कहना ठीक ही है, स्वामी होनेसे वह
महान् भी है । अथवा 'मनो महान् मतिर्ब्रह्मा०' (समष्टिबुद्धि मननशक्ति, भावी
निश्चय, व्यापक, आत्मा, भोग्यवर्गकी नगरी, तात्कालिक निश्चय, कीर्तिशक्ति,
त्रिकालनिश्चय, संवित्, चित्, और स्मृति कही जाती है) इस स्मृतिके अनु-
सार एवं 'यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं०' (जो पहले ब्रह्माको उत्पन्न करता है और
जो उसकी बुद्धिमें वेदोंका आविर्भाव कराता है) इस श्रुतिके अनुसार प्रथम
उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भकी बुद्धि सब बुद्धियोंकी आधार है । वही यहां महान्

रत्नप्रभा

ज्ञानम्—मनः; निर्विकल्पकम्—निश्चयात्मिका बुद्धिः, आत्मशब्दात् स एव बुद्धेः
परः, प्रत्यभिज्ञायते इति शेषः । हिरण्यगर्भाभेदेन ब्रह्मादिपदवेद्या समष्टिबुद्धिः
महान् इत्याह—अथवेति । (१) मननशक्तिः, (२) व्यापिनी, (३) भाविनिश्चयः,
(४) ब्रह्मा—आत्मा, (५) भोग्यवर्गाश्रयः, (६) तात्कालिकनिश्चयः, (७) कीर्ति-
शक्तिः, (८) नियमनशक्तिः, (९) त्रैकालनिश्चयः, (१०) संविद्—अभिव्यञ्जिका,
(११) चिद्, (१२) अर्धस्तातीतसर्वार्थग्राहिणी, समष्टिबुद्धिः इत्यर्थः । हिरण्य-

रत्नप्रभाका अनुवाद

गया है, आन्तरत्वके अभिप्रायसे नहीं । सविकल्पक ज्ञान मन है और निर्विकल्पक ज्ञान
निश्चयात्मक बुद्धि है । 'आत्मशब्दात्'के वाद 'प्रत्यभिज्ञायते' इतना शेष समझना चाहिए
अर्थात् आत्मशब्दसे प्रत्यभिज्ञा होती है कि वही बुद्धिसे पर है । हिरण्यगर्भसे अभिन्न ब्रह्मा
आदि पदोंसे वाच्य समष्टिबुद्धि महान् है, ऐसा कहते हैं—'अथवा' इत्यादिमे । समष्टिबुद्धि
मननशक्ति, व्यापक, भावी निश्चय, आत्मा, भोग्य पदार्थोंका आश्रय, तात्कालिक निश्चय,
कीर्ति-शक्ति, नियमनशक्ति, त्रैकालिक निश्चय, अर्थको अभिव्यक्त करनेवाली, चित् और अभ्यस्त
अतीत सब पदार्थोंका स्मरण करनेवाली कही जाती है । यह हिरण्यगर्भकी बुद्धि है, इस विषय में

भाष्य

परमा प्रतिष्ठा, सेह महानात्मेत्युच्यते । सा च पूर्वत्र बुद्धिग्रहणेनैव, गृहीता सती हिरुगिहोपदिश्यते, तस्या अप्यस्मदीयाभ्यो बुद्धिभ्यः परत्वोपपत्तेः । एतस्मिंस्तु पक्षे परमात्मविषयेणैव परेण पुरुषग्रहणेन रथिन आत्मनो ग्रहणं द्रष्टव्यम्, परमार्थतस्तु परमात्मविज्ञानात्मनोर्भेदाभावात् । तदेवं शरीरमेवैकं परिशिष्यते तेषु । इतराणीन्द्रियादीनि प्रकृतान्येव परमपद-दिदर्शयिषया समनुक्रामन् परिशिष्यमाणेनेहान्त्येनाव्यक्तशब्देन परिशिष्य-

भाष्यका अनुवाद

आत्मा कही गई है । यद्यपि पहले वह बुद्धिशब्दके ग्रहणसे गृहीत थी ही, तो भी यहां उसका पृथक् उपदेश है, क्योंकि वह भी हमारी बुद्धिसे श्रेष्ठ है, यह ठीक ही है । परन्तु इस पक्षमें अनन्तर आनेवाले परमात्मविषयक पुरुष-शब्दके ग्रहणसे रथी आत्माका ग्रहण समझना चाहिए, क्योंकि वास्तविक रीति-से परमात्मा और विज्ञानात्मामें कोई भेद नहीं है, इस प्रकार उनमें केवल एक शरीर ही बच जाता है । परम पदको दिखानेकी इच्छासे पूर्वकथित अन्य इन्द्रिय आदिका अनुसरण करनेवाला वेद यहां अवशिष्ट रहनेवाले अव्यक्तशब्द-

रत्नप्रभा

गर्भस्य इयं बुद्धिरस्ति इत्यत्र श्रुतिमाह—य इति । ननु अपकृता सा कथमुच्यते, तदुक्तौ च प्रधानेन किमपराद्धमित्यत आह—सा चेति । हिरूक्—पृथक् । पूर्वं व्यष्टिबुद्धयभेदेन उक्ता, अत्र ततो भेदेन परत्वमुच्यते इत्यर्थः । तर्हि रथरथिनौ द्वौ परिशिष्टौ स्याताम्, नेत्याह—एतस्मिंस्त्विति । अतो रथ एव परिशिष्ट इत्याह—तदेवमिति । तेषु पूर्वोक्तेषु पदपदार्थेषु इत्यर्थः । परिशेषस्य फलमाह— इतराणीति । वेदो यमो वा इति शेषः । दर्शयति चेति सूत्रभागो व्याख्यातः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

प्रमाण भूत श्रुतिको कहते हैं—“यः” इत्यादिते । यदि कोई कहे कि हिरण्यगर्भकी बुद्धि तो प्रकृत नहीं है, वह कैसे कही गई, और वह जब कही गई तो प्रधानने क्या अपराध किया है ? इसपर कहते हैं—“सा च” इत्यादिते । हिरूक्—पृथक् । पहले व्यष्टिबुद्धिसे हिरण्य-गर्भकी बुद्धि अभिन्नरूपसे कही गई है, यहां भिन्नरूपसे, उससे श्रेष्ठ कही जाती है, ऐसा अर्थ है । यदि कोई पड़े कि हिरण्यगर्भकी बुद्धि महान् आत्मा है, इस पक्षमें रथ और जो भोषा रथी है, वे दोनों परिशिष्ट हैं, इसका निराकरण करते हैं—“एतस्मिंस्तु” इत्यादिते । इसलिए रथमात्र परिशिष्ट है, ऐसा कहते हैं—“तदेवम्” इत्यादिते । तेषु—पूर्वोक्त पदार्थोंमें । परिशेषका फल कहते हैं—“इतराणि” इत्यादिते । ‘दर्शयति’के बाद ‘वेदः यमो वा’ इतना शेष समझना चाहिए ।

भाष्य

माणं प्रकृतं शरीरं दर्शयतीति गम्यते । शरीरेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदना-
संयुक्तस्य ह्यविद्यावतो भोक्तुः शरीरादीनां रथादिरूपककल्पनया संसार-
मोक्षगतिनिरूपणेन प्रत्यगात्मब्रह्मावगतिरिह विवक्षिता । तथा च—

‘एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते ।

दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥’ (का० १।३।१२)

इति वैष्णवस्य परमपदस्य दुरवगमत्वमुक्त्वा तदवगमार्थं योगं दर्शयति—

‘यच्छेद्ब्रह्मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेज्ज्ञान आत्मनि ।

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि ॥’

भाष्यका अनुवाद

से अवशिष्ट रहनेवाले प्रकृत शरीरको ही दिखलाता है ऐसा समझा जाता है । शरीर आदिकी रथ आदिके साथ रूपककल्पना द्वारा शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, विषय और वेदनासे संयुक्त अविद्यावान् भोक्ताके संसारगमन और मोक्ष-गमनके निरूपणसे प्रत्यगात्मा ही ब्रह्म है, यह ज्ञान यहां विवक्षित है । इसी प्रकार ‘एष सर्वेषु भूतेषु’ (सब प्राणियोंमें गूढ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता, परन्तु सूक्ष्मदर्शी—सूक्ष्मविषयोंके ग्रहणमें समर्थ एकाग्र बुद्धिसे उसका साक्षात्कार करते हैं) इस प्रकार विष्णुका परम पद दुर्ज्ञेय है ऐसा कहकर उसके ज्ञानके लिए ‘यच्छेद्ब्रह्मनसी प्राज्ञः०’ (प्राज्ञ पुरुष वाणीका मनमें लय करे, मनका बुद्धिमें, बुद्धिका महान् आत्मामें और महान् आत्माका शान्त आत्मामें

रत्नप्रभा

किञ्च, ब्रह्मात्मैकत्वपरे ग्रन्थे भेदवादिनां प्रधानस्याऽवकाशो नास्तीत्याह—शरीरे-
त्यादिना । भोगः—वेदना । काठकग्रन्थस्य ऐक्यतात्पर्यं गूढत्वज्ञेयत्वज्ञानहेतु-
योगविधयो लिङ्गानि सन्ति इत्याह—तथा चेत्यादिना । अग्र्या—समाधिपरि-
पाकजा । वागिति—अत्र द्वितीयालोपश्छान्दसः, मनसीति दैर्घ्यं च ॥ १ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

इस ग्रन्थसे ‘दर्शयति च’ इस सूत्रभागका व्याख्यान हुआ । ब्रह्म और जीवकी एकताका प्रतिपादन करनेवाले इस ग्रन्थमें भेदवादियोंके प्रधानकी चर्चाका अवकाश ही नहीं है, ऐसा कहते हैं—
“शरीर” इत्यादिसे । वेदना—सुख आदिका अनुभव । काठक ग्रन्थका तात्पर्य ब्रह्मात्मैक्यमें है, गूढत्व, ज्ञेयत्व और ज्ञानकी हेतु योगविधियाँ इसकी समर्थक हैं, ऐसा कहते हैं—“तथा च” इत्यादिसे । ‘अग्र्या’—समाधिपरिपाकसे उत्पन्न हुई । ‘यच्छेद्ब्रह्मनसी’—‘माचं’ ‘मनसि’, इनमें द्वितीयाका लोप और इकारका दीर्घत्व छान्दस हैं ॥ १ ॥

भाष्य

(का० २।३।१३) इति । एतदुक्तं भवति—वाचं मनसि संयच्छेत्, वागा-
दिबाह्येन्द्रियव्यापारमुत्सृज्य मनोमात्रेणाऽवतिष्ठेत् । मनोऽपि विषयविक-
ल्पाभिमुखं विकल्पदोषदर्शनेन ज्ञानशब्दोदितायां बुद्ध्यावध्यवसाय-
स्वभावायां धारयेत् । तामपि बुद्धिं महत्यात्मनि भोक्तुर्यत्रयायां वा बुद्धीं
सूक्ष्मतापादनेन नियच्छेत्, महान्तं त्वात्मानं शान्त आत्मनि प्रकरणवति
परस्मिन् पुरुषे परस्यां काष्ठायां प्रतिष्ठापयेदिति । तदेवं पूर्वापरालोचनायां
नास्त्यत्र परपरिकल्पितस्य प्रधानस्याऽवकाशः ॥ १ ॥

भाष्यका अनुवाद


लय करे) यह श्रुति योग दिखलाती है । इसका तात्पर्य यह है कि वाणीका
मनमें लय करे अर्थात् वाक् आदि बाह्य इन्द्रियोंके व्यापारका त्याग करके
केवल मनरूपसे अवस्थित रहे । मनमें भी विषयसम्बन्धी विकल्प
उठते हैं, अतः उसमें विकल्परूपी दोषके दर्शनसे उसका ज्ञानशब्दसे कथित
निश्चयात्मक बुद्धिमें लय करे । उस बुद्धिका भी महान्-आत्मा भोक्तामें अथवा
समाधिके परिपाकसे जात बुद्धिमें सूक्ष्मतासम्पादन द्वारा लय करे । उस महान्
आत्माका प्रकरणप्राप्त चरम सीमा शान्त आत्मा-परब्रह्ममें लय करे । इस
प्रकारसे पूर्वापर पर्यालोचन करनेपर सिद्ध होता है कि प्रतिपक्षी द्वारा कल्पित
प्रधानका यहां अवकाश ही नहीं है ॥१॥

सूक्ष्मं तु तदर्हत्वात् ॥२॥

पदच्छेद—सूक्ष्मम्, तु, तदर्हत्वात् ।

पदार्थोक्ति—सूक्ष्मं तु-स्थूलशरीरारम्भकं भूतसूक्ष्मं [अव्यक्तपदेन गृह्यते,
कुतः] तदर्हत्वात्-अव्यक्तशब्दार्हत्वात् ।

भाषार्थ—स्थूलशरीरके आरम्भक भूतोंका सूक्ष्म भाग जो सूक्ष्म शरीर कह-
लाता है, उसीका अव्यक्तशब्दसे ग्रहण होता है, क्योंकि सूक्ष्म पदार्थ ही अव्यक्त
शब्दके योग्य है अर्थात् अव्यक्तशब्दवाच्य है ।



भाष्य

उक्तमेतत्—प्रकरणपरिशेषाभ्यां शरीरमव्यक्तशब्दम्, न प्रधानमिति । इदमिदानीमाशङ्क्यते—कथमव्यक्तशब्दाहृतं शरीरस्य, यावता स्थूलत्वात् स्पष्टतरमिदं शरीरं व्यक्तशब्दाहर्मस्पष्टवचनस्त्वव्यक्तशब्द इति । अत उत्तरमुच्यते—सूक्ष्मं त्विह कारणात्मना शरीरं विवक्ष्यते, सूक्ष्मस्याऽव्यक्तशब्दाहृत्वात् । यद्यपि स्थूलमिदं शरीरं न स्वयमव्यक्तशब्दमर्हति, तथापि तस्य त्वारम्भकं भूतसूक्ष्ममव्यक्तशब्दमर्हति । प्रकृतिशब्दश्च विकारे दृष्टः, यथा 'गोभिः श्रीणीत मत्सरम्' (ऋ० सं० ९।४६।४)

भाष्यका अनुवाद

प्रकरण और परिशेषसे कहा गया है कि अव्यक्तशब्द शरीरवाचक है, प्रधानवाचक नहीं है । अब यह शङ्का होती है कि जब स्थूल होनेके कारण शरीर स्पष्टतया व्यक्तशब्दप्रतिपाद्य प्रतीत हो रहा है तब वह अव्यक्तशब्दवाच्य कैसे है ? अव्यक्तशब्द तो अस्पष्टका वाचक है । इसलिए उत्तर कहते हैं—यहां अव्यक्तशब्दसे कारणरूपसे सूक्ष्म शरीर विवक्षित है, क्योंकि सूक्ष्म अव्यक्तशब्दका वाच्य है । यद्यपि यह स्थूल शरीर स्वरूपसे अव्यक्तशब्दके योग्य नहीं है, तो भी उसके आरम्भक भूतसूक्ष्म अव्यक्तशब्दके योग्य हैं । और प्रकृतिवाचक शब्द विकार अर्थमें प्रयुक्त होता है, जैसे कि 'गोभिः श्रीणीत मत्सरम्' (गायके

रत्नप्रभा

सूक्ष्मं त्विति । शङ्कोत्तरत्वेन सूत्रं व्याचष्टे—उक्तमेतदित्यादिना । कार्य-कारणयोः अमेदात् मूलप्रकृतिवाचकाव्यक्तशब्देन विकारो लक्ष्यते इत्यर्थः । गोभिः—गोविकारैः पयोभिः, मत्सरम्—सोमं श्रीणीत—मिश्रितं कुर्यादिति यावत् । "श्रीञ् पाके" इति धातोर्लोडि मध्यमपुरुषबहुवचनम् एतत् । अव्यक्तात्मना

रत्नप्रभाका अनुवाद

शंकाके उत्तररूपसे सूत्रका व्याख्यान करते हैं—“उक्तमेतत्” इत्यादिसे । कार्य और कारणके अभिन्न होनेसे मूलप्रकृतिवाचक अव्यक्तशब्दसे विकार लक्ष्य होता है, ऐसा अर्थ है । 'गोभिः'—गायके विकार अर्थात् दूधके साथ मत्सर अर्थात् सोमको मिलावे, ऐसा अर्थ है । पौकार्यक 'श्रीञ्' धातुके लोटके मध्यम पुरुषके बहुवचनका यह रूप है ।

(१) ध्रुतिमें धातुओंके अनेक अर्थ होनेसे विभग रूप अर्थ लिया गया है ।

भाष्य

इति । श्रुतिश्च—तद्वेदं तर्ह्यव्याकृतमासीत्' (वृ० १।४।७) इति इदमेव व्याकृतनामरूपविभिन्नं जगत् प्रागवस्थायां परित्यक्तव्याकृतनामरूपं बीजशक्त्यवस्थमव्यक्तशब्दयोग्यं दर्शयति ॥ २ ॥

भाष्यका अनुवाद

विकार—दूधके साथ सोमरसका मिश्रण करना चाहिए। श्रुति भी 'तद्वेदं०, (तव-प्राक् अवस्थामें यह जगत् अव्याकृत था) इस प्रकार जिसमें नाम रूप व्याकृत हैं, ऐसे विभिन्न इसी जगत्को व्याकृत नाम रूपोंका जिसने पूर्व अवस्थामें त्याग किया है जो बीजशक्तिरूप है, उसीको अव्यक्तशब्दके योग्य दिखलाती है ॥२॥

रत्नप्रभा

कार्यस्य अव्यक्तशब्दयोग्यत्वे मानमाह—श्रुतिश्चेति । तर्हि—प्रागवस्थायाम् इदं जगद् अव्याकृतमासीत्, ह—किलेत्यर्थः । बीजरूपा शक्तिः संस्कारः तदवस्थम् ॥२॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

अव्यक्तशब्द अव्यक्तकार्यका वाचक है, इसमें प्रमाण देते हैं—“श्रुतिश्च” इत्यादिसे । तर्हि—सृष्टिसे पहले । इदम्—यह जगत् अव्याकृत था । 'ह' शब्द इतिवृत्तका सूचक है । बीजरूप जो शक्ति अर्थात् संस्कार, तद्रूप जगत् ॥२॥

तदधीनत्वादर्थवत् ॥ ३ ॥

पदच्छेद—तदधीनत्वाद्, अर्थवत् ।

पदार्थोक्ति—तदधीनत्वाद्—ईश्वराधीनत्वाद् [अव्यक्तस्य न स्वतन्त्रता],

अर्थवत्—[ईश्वरसहकारित्वात् अव्यक्तं] प्रयोजनवत् ।

भाषार्थ—अव्यक्त ईश्वरके अधीन होनेसे स्वतंत्र नहीं है और जगत्की सृष्टिमें ईश्वरका सहायक होनेसे सार्थक है ।



भाष्य

अत्राह—यदि जगदिदमनभिव्यक्तनामरूपं बीजात्मकं प्रागवस्थमव्यक्तशब्दार्हमभ्युपगम्येत, तदात्मना च शरीरस्याऽप्यव्यक्तशब्दार्हत्वं प्रतिज्ञायेत, स एव तर्हि प्रधानकरणवाद एवं सत्यापद्येत । अस्यैव जगतः प्रागवस्थायाः प्रधानत्वेनाऽभ्युपगमात् इति ।

अत्रोच्यते—यदि वयं स्वतन्त्रां काश्चित् प्रागवस्थां जगतः कारणत्वेनाऽभ्युपगच्छेम, प्रसञ्जयेम तदा प्रधानकारणवादम् । परमेश्वराधीना त्वियस्माभिः प्रागवस्था जगतोऽभ्युपगम्यते, न स्वतन्त्रा । सा चाऽवश्याभ्युपगन्तव्या, अर्थवती हि सा । नहि तथा विना परमेश्वरस्य

भाष्यका अनुवाद

पूर्वपक्षी कहता है—नाम और रूपकी अभिव्यक्तिसे शून्य पूर्वावस्थामें स्थित बीजात्मक यह जगत् यदि अव्यक्तशब्दप्रतिपाद्य माना जाय और उस रूपसे शरीर भी अव्यक्तशब्दप्रतिपाद्य है, ऐसी यदि प्रतिज्ञा की जाय, तो ऐसा होनेसे उसी प्रधानकारणवादकी प्राप्ति हो जायगी, क्योंकि प्रधान ही इस जगत्की प्रागवस्थारूपसे स्वीकृत हुआ है ।

सिद्धान्ती इसपर कहते हैं—यदि हम जगत्के कारणरूपसे किसी एक स्वतंत्र प्रागवस्थाका स्वीकार करें तो हम प्रधान कारणवादके अनुयायी हो सकते हैं, परन्तु हम जगत्की प्रागवस्थाको परमेश्वरके अधीन मानते हैं, स्वतंत्र नहीं मानते । वह अवस्था तो अवश्य ही माननी पड़ेगी, क्योंकि उप-

रत्नप्रभा

तदिति । अपसिद्धान्तशङ्कोचरत्नेन सूत्रं व्याचष्टे—अत्राहेत्यादिना । तर्हि—तदा, एवं सति—सूक्ष्मशब्दितप्रागवस्थाभ्युपगमे सति ।

ईश्वरे कल्पिता तन्नियमेत्यङ्गीकारात् न अपसिद्धान्त इत्याह—अत्रोच्यते इत्यादिना । कूटस्थब्रह्मणः सप्तृत्वसिद्धचर्धमविद्या स्वीकार्या इत्युक्तम् । बन्ध-

रत्नप्रभाका अनुवाद

अपसिद्धान्तशङ्काके उत्तररूपसे सूत्रकी व्याख्या करते हैं—“अत्राह” इत्यादिसे । ‘तर्हि’—तदा । एवं सति—सूक्ष्मसंज्ञक प्रागवस्थाका स्वीकार करनेपर अर्थात् पूर्वावस्थासे युक्त जगत् अव्यक्तशब्दके योग्य है, ऐसा माननेपर । जगत्की पूर्वावस्था ईश्वरमें कल्पित है और ईश्वरके अधीन है, ऐसा अङ्गीकार करनेसे कोई अपसिद्धान्त नहीं होता है, ऐसा कहते हैं—“अत्रोच्यते” इत्यादिसे । कूटस्थ ब्रह्मका सप्तृत्व सिद्ध करनेके लिए अविद्याका स्वीकार करना

माध्य

स्रष्टृत्वं सिद्ध्यति, शक्तिरहितस्य तस्य प्रवृत्त्यनुपपत्तेः । मुक्तानां च पुनर-
नुत्पत्तिः । कुतः ? विद्यया तस्या वीजशक्तेर्दाहात् । अविद्यात्मिका हि
वीजशक्तिरव्यक्तशब्दनिर्देश्या परमेश्वराश्रया मायामयी महासुप्तिः, यस्यां
स्वरूपप्रतिबोधरहिताः शेरते संसारिणो जीवाः । तदेतदव्यक्तं क्वचिदाकाश-
शब्दनिर्दिष्टम्—‘एतस्मिन्नु खल्वक्षरे गार्ग्याकाश ओतश्च प्रोतश्च’

भाष्यका अनुवाद

योगिनी है । उसके बिना परमेश्वर स्रष्टा ही नहीं हो सकता, क्योंकि शक्ति-
शून्य होनेसे उसकी प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती । मुक्त आत्माओंके बन्धकी
पुनः उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि विद्यासे उस वीजशक्ति का नाश हो जाता है ।
अविद्यास्वरूप वह वीजशक्ति अव्यक्तशब्दसे कही जाती है, परमेश्वरके
आश्रित रहती है, मायामयी एवं महासुप्ति है, जिसमें स्वरूपके ज्ञानसे रहित
संसारी जीव सोते हैं । वह अव्यक्त कहीं आकाशशब्दसे कहा गया है, क्योंकि
‘एतस्मिन्नु’ (हे गार्गि ! इस अविनाशी तत्त्वमें आकाश ओत-प्रोत है) ऐसी

रत्नप्रभा

मुक्तिव्यवस्थार्थमपि सा स्वीकार्या इत्याह—मुक्तानामिति । यन्नाशात् मुक्तिः
सा स्वीकार्या, तां विनैव सृष्टौ मुक्तानां पुनः बन्धापत्तेरित्यर्थः । तस्याः परपरि-
कल्पितसत्यस्वतन्त्रप्रधानाद् वैलक्षण्यमाह—अविद्येत्यादिना । मायामयी—
प्रसिद्धमायोपमिता लोके मायाविनो मायावत् परतन्त्रेत्यर्थः । जीवभेदोपाधित्वे-
नाऽपि सा स्वीकार्या इत्याह—महासुप्तिरिति । बुद्ध्यद्युपाधिभेदाद् जीवा
इति बहूक्तिः । अविद्यायां श्रुतिमप्याह—तदेतदिति । आकाशहेतुत्वाद्

रत्नप्रभाका अनुवाद

चाहिए ऐसा पीछे कहा गया है, अब बन्ध और मोक्षकी व्यवस्थाके लिए भी उसका स्वीकार
करना चाहिए, ऐसा कहते हैं—“मुक्तानाम्” इत्यादिसे । जिसके नाशसे मुक्ति होती है,
उस अविद्याका स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना ही सृष्टि होनेपर मुक्त पुरुषोंका
फिर घन्घन हो जायगा, ऐसा तात्पर्य है । यह अविद्या सांख्यपरिकल्पित सत्य और स्वतंत्र
प्रधानसे विलक्षण है, ऐसा कहते हैं—“अविद्या” इत्यादिसे । ‘मायामयी’—प्रसिद्ध मायासदृश,
लोकमें जैसे माया मायावीके अधीन होती है, वैसे ही अविद्या परतंत्र है, प्रधानके समान स्वतंत्र
नहीं है । जीवभेदका कारण उपाधिरूपसे भी अविद्याका स्वीकार करना चाहिए, ऐसा कहते
हैं—“महासुप्ति” इत्यादिसे । बुद्धि आदि उपाधियोंके भेदसे ‘जीवा’ ऐसा बहुवचन कहा है ।
अविद्याही सत्तामें प्रमाणरूपसे धुत्तिको उद्घृत करते हैं—“तदेतत्” इत्यादिसे । आकाशही

भाष्य

(बृ० ३ । ८ । ११) इति श्रुतेः । क्वचिदक्षरशब्दोदितम्—‘अक्षरात्परतः परः’ (मु० २ । १) इति श्रुतेः । क्वचिन्मायेति सूचितम्—‘मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्’ (श्वे० ४ । १०) इति मन्त्रवर्णात् । अव्यक्ता हि सा माया, तत्त्वान्यत्वनिरूपणस्याऽशक्यत्वात् । तदिदं ‘महतः परमव्यक्तम्’ इत्युक्तमव्यक्तप्रभवत्वान्महतः, यदा हिरण्यगर्भी बुद्धिर्महान् । यदा तु जीवो महान्, तदाप्यव्यक्ताधीनत्वाज्जीवभावस्य महतः परम-

भाष्यका अनुवाद

श्रुति है । कहीं अक्षरशब्दसे कहा गया है, क्योंकि ‘अक्षरात्०’ (सर्वश्रेष्ठ अक्षरसे उत्कृष्ट) ऐसी श्रुति है । और कहीं वह मायाशब्दसे सूचित है; क्योंकि ‘मायां तु०’ (प्रकृतिको माया जाने और महेश्वरको मायावी जाने) ऐसी श्रुति है । वह माया अव्यक्त है, क्योंकि वह ब्रह्मसे अभिन्न है या भिन्न है, ऐसा उसका निरूपण नहीं किया जा सकता । यदि महत्का अर्थ हिरण्यगर्भकी बुद्धि हो, तो अव्यक्तसे महत् उत्पन्न होता है, इसलिए ‘महतः परमव्यक्तम्’ (महत्से पर अव्यक्त है) यहांपर वही पूर्ववस्था कही गई है । यदि महत् शब्दका अर्थ जीव हो, तो भी जीवभावके अव्यक्ताधीन होनेसे ‘महतः०’ ऐसा कहा है ।

रत्नप्रभा

आकाशः । ज्ञानं विना अन्ताभावात् अक्षरम्, विचित्रकारित्वात् माया इति भेदः । इदानीम् अविद्याया ब्रह्माभेदान्यत्वाभ्याम् अनिर्वाच्यत्वेन अव्यक्तशब्दार्हत्वमाह—अव्यक्तेति । तस्य महतः परत्वं कथमित्यत आह—तदिदमिति । यदा बुद्धिर्महान्, तदा तद्वेत्तत्वात् परत्वम् इत्यन्वयः । प्रतिबिम्बस्य उपाधि-परतन्त्रत्वात् उपाधेः प्रतिबिम्बात् परत्वमाह—यदा त्विति । हेतुं स्फुटयति—

रत्नप्रभाका अनुवाद

हेतु होनेसे अविद्या आकाश कही गई है, तत्त्वज्ञानके विना वह निश्चुत नहीं होती, अतः अक्षर-अविनाशी कही गई है और विचित्र कार्य करनेवाली होनेसे माया कही गई है, ऐसा भेद है । अविद्या ब्रह्मसे अभिन्न है या भिन्न है, यह निर्बचन नहीं किया जा सकता, इसलिए अनिर्वाच्य होनेसे वह अव्यक्तशब्दके योग्य है, ऐसा कहते हैं—“अव्यक्त” इत्यादिसे । अव्यक्त महत्से पर किस प्रकार है ? इसपर कहते हैं—“तदिदम्” इत्यादिसे । ‘यदा बुद्धि परत्वम्’ (बुद्धि महान् है, इस पक्षमें उसका कारण होनेसे अव्यक्त उससे श्रेष्ठ है) ऐसा अन्वय है । उपाधिके अधीन होनेसे प्रतिबिम्बसे उपाधि श्रेष्ठ है, ऐसा कहते हैं—“यदा तु”

भाष्य

व्यक्तमित्युक्तम् । अविद्या अव्यक्तम्, अविद्यावत्त्वेनैव जीवस्य सर्वः संव्यवहारः सन्ततो वर्तते । तच्चाव्यक्तगतं महतः परत्वमभेदोपचारात् तद्विकारे शरीरे परिकल्प्यते । सत्यपि शरीरवदिन्द्रियादीनां तद्विकारत्वाविशेषे शरीरस्यैवाभेदोपचारादव्यक्तशब्देन ग्रहणम्, इन्द्रियादीनां स्वशब्दैरेव गृहीतत्वात् परिशिष्टत्वाच्च शरीरस्य ।

अन्ये तु वर्णयन्ति—द्विविधं हि शरीरं स्थूलं सूक्ष्मं च । स्थूलं यदि द्रुमपलभ्यते सूक्ष्मं यदुत्तरत्र वक्ष्यते—‘तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरि-

भाष्यका अनुवाद

निश्चय यह अव्यक्त अविद्या है । अविद्यायुक्त होनेसे ही जीवके सब व्यवहार सदा चलते जाते हैं । महत्से परत्व जो कि अव्यक्तमें है, उसकी अभेदोपचारसे उसके विकार शरीरमें कल्पना की जाती है । यद्यपि शरीरके समान इन्द्रिय आदि भी उसके विकार हैं, तो भी अभेदोपचारसे अव्यक्तशब्दसे शरीरका ही ग्रहण होता है, क्योंकि इन्द्रिय आदिका अपने वाचक शब्दोंसे ही ग्रहण किया गया है और शरीरमात्र ही अवशिष्ट है ।

दूसरे आचार्य तो इस प्रकार व्याख्यान करते हैं—शरीर दो प्रकारका है, स्थूल और सूक्ष्म । जो उपलब्ध होता है, वह स्थूल है और सूक्ष्म आगे ‘तदन्तर

रत्नप्रभा

अविद्येति । अव्यक्तस्य परत्वेऽपि शरीरस्य किं जातं तदाह—तच्चेति । ननु इन्द्रियादीनाम् अपि अव्यक्ताभेदात् अव्यक्तत्वं परत्वं च किमिति नोच्यते, तत्राऽऽह—सत्यपीति ।

सूत्रद्वयस्य वृत्तिकृद्देशान्वयानम् उक्त्वापयति—अन्ये त्विति । पञ्चीकृतभूतानां सूक्ष्मा अवयवाः स्थूलदेहारम्भकाः । सूक्ष्मशरीरं प्रतिजीवं लिङ्गस्य आश्रयत्वेन

रत्नप्रभाका अनुवाद

इत्यादिसे । “अविद्या” इत्यादिसे हेतुको स्पष्ट करते हैं । भले ही अव्यक्त पर हो, किन्तु इससे शरीर अव्यक्त है, यह कैसे सिद्ध हुआ, यह कहते हैं—“तच्च” इत्यादिसे । यदि कोई कहे कि इन्द्रिय आदि भी अव्यक्तसे अभिन्न हैं, तो वे भी अव्यक्त तथा पर क्यों नहीं कहे जाते हैं, इसपर कहते हैं—“सत्यपि” इत्यादि ।

दोनों सूत्रोंका कृत्तिकाराभिमत व्याख्यान करते हैं—“अन्ये तु” इत्यादिसे । पर्यकृत भूतोंके सूक्ष्म अवयव स्थूल देहके आरम्भक हैं । लिङ्ग शरीरके आश्रयरूपसे प्रत्येक जीवका

भाष्य

व्यक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम्' (ब्र० ३।१।१) इति । तच्चोभयमपि शरीर-
मविशेषात् पूर्वत्र रथत्वेन संकीर्तितम्, इह तु सूक्ष्ममव्यक्तशब्देन परि-
गृह्यते, सूक्ष्मस्याव्यक्तशब्दाहत्वात् । तदधीनत्वाच्च बन्धमोक्षव्यवहारस्य
जीवात्तस्य परत्वम्, यथाऽर्थाधीनत्वादिन्द्रियव्यापारस्येन्द्रियेभ्यः परत्व-
मेथानामिति । तैस्त्वेतद् व्यक्तव्यम्, अविशेषेण शरीरद्वयस्य पूर्वत्र रथत्वेन
संकीर्तितत्वात् समानयोः प्रकृतत्वपरिशिष्टत्वयोः कथं सूक्ष्ममेव शरीरमिह
गृह्यते न पुनः स्थूलमपीति । आम्नातस्याऽर्थं प्रतिपत्तुं प्रभवामो नाऽऽम्नातं

भाष्यका अनुवाद

प्रतिपत्तौ०' सूत्रमें कहा जायगा । वे दोनों शरीर समानरूपसे पूर्ववाक्यमें
रथरूपसे कहे गये हैं । यहां अव्यक्तशब्दसे केवल सूक्ष्म शरीरका ग्रहण होता
है, क्योंकि सूक्ष्मका ही अव्यक्तशब्दसे प्रतिपादन होता है । जैसे इन्द्रियोंका
व्यापार अर्थोंके अधीन होनेसे अर्थ इन्द्रियोंसे श्रेष्ठ कहे गये हैं, वैसे ही बन्ध
और मोक्षका व्यवहार सूक्ष्म शरीरके अधीन होनेसे वह जीवसे पर—श्रेष्ठ
कहा गया है । परन्तु उस मतवालोंसे यह पूछना चाहिए कि पूर्ववाक्यमें रथ-
शब्दसे दोनों शरीरोंके समानरूपसे प्रतिपादित होनेके कारण दोनों समान रीतिसे
प्रकृत और परिशिष्ट हैं, ऐसी स्थितिमें यहां अव्यक्तशब्दसे सूक्ष्म शरीरका ग्रहण
क्यों होता है और स्थूलका क्यों नहीं होता ? हम वेदका अर्थ ग्रहण कर

रत्नप्रभा

नियतमस्ति इति वक्ष्यते । देहान्तरप्राप्तौ तेन युक्तो गच्छति परलोकमित्यर्थः ।
कथं तस्य महतो जीवात् परत्वम् इति आशङ्क्य द्वितीयसूत्रं व्याचष्टे—
तदधीनत्वाच्चेति । अर्थवत् इति सूत्रस्थदृष्टान्तम् आह—यथेति ।
तद्व्याख्यानं दूषयति—तैरिति । अव्यक्तपदबलात् प्रकृतमपि स्थूलं त्यज्यते
इति शङ्कते—आम्नातस्येति । एकार्थबोधकानां शब्दानां मिथ आकाङ्क्षया

रत्नप्रभाका अनुवाद

सूक्ष्मशरीर अवश्य रहता है, ऐसा कहेंगे । देहान्तरकी प्राप्ति होनेपर जीव उससे युक्त होकर पर-
लोक जाता है, ऐसा सूत्रका अर्थ है । महत् जीवसे पर किस प्रकार है, ऐसी आशंका करके दूसरे
सूत्रका व्याख्यान करते हैं—“तदधीनत्वाच्च” इत्यादिसे । सूत्रस्य ‘अर्थवद्’ इस दृष्टान्तको कहते
हैं—“यथा” इत्यादिसे । श्रुतिकारके मतका निराकरण करते हैं—“तै.” इत्यादिसे । अव्यक्तपदके
बलसे प्रकृत स्थूल शरीरका भी त्याग होता है, ऐसी शंका करते हैं—“आम्नातस्य” इत्यादिसे ।

भाष्य

पर्यनुयोक्तुम्, आम्लातं चाऽव्यक्तपदं सूक्ष्ममेव प्रतिपादयितुं शक्नोति नेतरद् व्यक्तत्वात् तस्येति चेत्, न; एकवाक्यताधीनत्वादर्थप्रतिपत्तेः । नहीमे पूर्वोत्तरे आम्लाते एकवाक्यतामनापद्य कश्चिदर्थं प्रतिपादयतः, प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रियाप्रसङ्गात् । न चाऽऽकाङ्क्षामन्तरेणैकवाक्यताप्रतिपत्तिरस्ति, तत्राऽविशिष्टायां शरीरद्वयस्य ग्राह्यत्वाकाङ्क्षायां यथाकाङ्क्षं सम्बन्धेऽनभ्युपगम्यमान एकवाक्यतैव वाधिता भवति, कुत आम्लातस्यार्थप्रतिपत्तिः ।

भाष्यका अनुवाद

सकते हैं, उसपर आक्षेप नहीं कर सकते, वेदोक्त अव्यक्तशब्द सूक्ष्मका ही बोध करा सकता है, स्थूलका बोध नहीं करा सकता, क्योंकि वह व्यक्त है, ऐसा यदि कहो तो यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि अर्थबोध एकवाक्यताके अधीन है । ये दोनों पूर्व और उत्तर वाक्य एकवाक्यता प्राप्त किये बिना किसी भी अर्थका बोध नहीं करा सकते, अन्यथा प्रकृतकी हानि और अप्रकृत प्रक्रियाकी प्राप्ति होगी । और आकांक्षाके बिना एकवाक्यताका बोध नहीं हो सकता, ऐसी स्थितिमें दोनों शरीरोंकी ग्राह्यत्वाकांक्षा समान होनेसे आकांक्षाके अनुसार संबन्धका स्वीकार न करें तो एकवाक्यताका ही बाध हो जायगा, फिर वेदवाक्यके अर्थका बोध

रत्नप्रभा

एकस्यां बुद्धौ आरूढत्वम्—एकवाक्यता, तव मते तस्या अभावात् कुतोऽर्थबोध इति समाधत्ते—नेति । तां विनाऽपि अर्थधीः किं न स्यादित्यत आह—नहीति । शरीरशब्देन रूढ्या स्थूलं प्रकृतम्, तस्य हानिः, अप्रकृतस्य भूतसूक्ष्मस्य अव्यक्तपदेन ग्रहणमन्याय्यं स्यादित्यर्थः । अस्तु एकवाक्यता इत्यत आह—न चेति । ततः किं तत्राऽऽह—तत्रेति । आकाङ्क्षया वाक्यैकवाक्यत्वे सति प्रकृतं शरीरद्वयमव्यक्तपदेन ग्राह्यम्, आकाङ्क्षायास्तुल्यत्वादिति भावः । अनात्मनिश्चयः

रत्नप्रभाका अनुवाद

एक अर्थका बोध करानेवाले शब्दोंका परस्पर आकांक्षाके एक बुद्धिमें आरूढ होना एकवाक्यता है, तुम्हारे मतमें एकवाक्यताका अभाव होनेसे अर्थबोध किस प्रकार होगा अर्थात् नहीं हो सकता है, ऐसा समाधान करते हैं—“न” इत्यादिसे । उसके बिना भी अर्थज्ञान क्यों नहीं होगा, इसपर कहते हैं—“नहि” इत्यादि । शरीरशब्दसे रूढिद्वारा स्थूल शरीर प्रकृत है, उसकी हानि होगी और अप्रकृत जो भूतोंके अवयव हैं, उनका अव्यक्तपदसे ग्रहण अनुचित होगा अर्थात् इस प्रकार प्रकृतकी हानि और अप्रकृतके ग्रहण करनेका प्रसंग आवेगा । तब यहां भी एकवाक्यता हो, इसपर कहते हैं—“न च” इत्यादि । आकांक्षासे वाक्योंकी एक-

भाष्य

न चैवं मन्तव्यम्—दुःशोधत्वात् सूक्ष्मस्यैव शरीरस्येह ग्रहणम्, स्थूलस्य तु दृष्टवीभत्सतया सुशोधत्वादग्रहणम् इति । यतो नैवेह शोधनं कस्यचिद् विवक्ष्यते । नह्यत्र शोधनविधायि किञ्चिदाख्यातमस्ति, अनन्तरनिर्दिष्टत्वात्तु किं तद्विष्णोः परमं पदमितीदमिह विवक्ष्यते । तथा हीदमस्मात् परमिद-

भाष्यका अनुवाद

ही कहाँसे होगा । ऐसा मानना कि सूक्ष्म शरीरका शोधन दुष्कर होनेसे उसीका यहां ग्रहण है और स्थूल शरीरकी तो वीभत्सता देखनेमें आती है, इसलिये शोधन सुकर होनेसे उसका ग्रहण नहीं है, यह ठीक नहीं है, क्योंकि यहां किसी के शोधनकी विवक्षा नहीं है, क्योंकि शोधनका विधान करनेवाला यहां कोई क्रियापद नहीं है । विष्णुका परम पद क्या है, यह पीछेसे निर्दिष्ट होनेसे उसीकी

रत्नप्रभा

शुद्धिः, तदर्थं सूक्ष्ममेव आकाङ्क्षितं ब्राह्मम्; सूक्ष्मत्वेन आत्माभेदेन गृहीतस्य दुःशोधत्वात् । स्थूलस्य दृष्टदौर्गन्ध्यादिना लशुनादिवदनात्मत्वधीवैराग्ययोः सुलभत्वादिति शङ्कते—न चैवमिति । दृष्टा वीभत्सा घृणा यस्मिस्तस्य भावः तत्र तयेत्यर्थः । दूषयति—यत् इति । वैराग्याय शुद्धिरत्र न विवक्षिता, विध्यभावात्, किन्तु वैष्णवं परमं पदं विवक्षितमिति तद्दर्शनार्थं प्रकृतं स्थूलमेव अव्यक्तपदेन ब्राह्ममिति भावः । किञ्च, सूक्ष्मस्य लिङ्गान्तःपातिन इन्द्रियादिग्रहणे-

रत्नप्रभाका अनुवाद

वाक्यता होती है, इसलिये प्रकृत दोनों शरीरोंका अव्यक्त पदसे ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि दोनोंमें आकांक्षा समान है, ऐसा तात्पर्य है । अनात्मनिधय शुद्धि अर्थात् शोधन है, उसके लिए सूक्ष्म शरीरकी ही आकांक्षा है, अतः उसीका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह सूक्ष्म है, अतः आत्माके साथ उसका अभिन्नरूपसे ग्रहण होनेके कारण उसका शोधन करना सुकर है । स्थूल शरीरमें दुर्गन्ध आदि देखनेमें आते हैं, इसलिये लहसुन आदिके समान उसमें अनात्मनिधय और वैराग्य सुलभ है, ऐसी शंका करते हैं—“न चैवम्” इत्यादिसे । शंकाका निराकरण करते हैं—“यत्” इत्यादिसे । वैराग्यके लिए शुद्धि-अनात्मत्वनिधयकी यहां विवक्षा नहीं है, क्योंकि उसका कोई विधान नहीं है, किन्तु विष्णुके परम पदकी विवक्षा है, इसलिये उसको दिखानेके लिए प्रकृत स्थूल शरीरका ही अव्यक्तपदसे ग्रहण है । लिङ्गके अन्तर्भूत सूक्ष्म शरीरका इन्द्रिय आदिके ग्रहणसे ही ग्रहण होनेके कारण अव्यक्त और शरीर

भाष्य

मस्मात् परमित्युक्त्वा 'पुरुषान्न परं किञ्चित्' इत्याह । सर्वथापि त्वानुमानिकनिराकरणोपपत्तेस्तथा नामाऽस्तु, न नः किञ्चिच्छिद्यते ॥ ३ ॥

भाष्यका अनुवाद

यहां विवक्षा है, क्योंकि यह इससे पर है, यह इससे पर है, ऐसा कहकर 'पुरुषान्न०' (पुरुषसे कुछ पर नहीं) ऐसा श्रुति कहती है । सब प्रकारसे अनुमाननिरूपित प्रधानका निराकरण उपपन्न होता हो, तो भले ऐसा हो, इससे हमारी कुछ भी हानि नहीं है ॥ ३ ॥

रत्नप्रभा

नैव ग्रहणात् न पृथगव्यक्तशरीरपदाभ्यां ग्रहः । अभ्युपेत्याऽऽह—सर्वधेति । स्थूलस्य सूक्ष्मस्य वा ग्रहेऽपि इत्यर्थः । तथा नामेति । सूक्ष्ममेव अव्यक्तमस्तु इत्यर्थः ॥ ३ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद


पदसे उसका पृथक् ग्रहण नहीं होता । भले सूक्ष्म शरीर ही शोधन करने योग्य हो, तो भी मांख्यामिमत् प्रधान यहांपर नहीं है, ऐसा स्वीकारपूर्वक कहते हैं—“सर्वधा” इत्यादिसे । अर्थात् स्थूल या सूक्ष्मका ग्रहण करें, तो भी । “तथा नाम”—तुम्हारी इच्छासे अव्यक्तशब्दसे सूक्ष्मका ही ग्रहण हो ॥ ३ ॥

ज्ञेयत्वावचनाच्च ॥ ४ ॥

पदच्छेद—ज्ञेयत्वावचनात्, च ।

पदार्थोक्ति—ज्ञेयत्वावचनात्—अव्यक्तस्य ज्ञेयत्वानभिधानाद्, च—अपि [न अत्र अव्यक्तं प्रधानम्] ।

भाषार्थ—इस प्रकरणमें अव्यक्तको ज्ञेय नहीं कहा है, इससे भी स्पष्ट है कि इस श्रुतिमें उक्त अव्यक्तशब्द प्रधानका वाचक नहीं है ।



भाष्य

ज्ञेयत्वेन च सांख्यैः प्रधानं स्मर्यते गुणपुरुषान्तरज्ञानात् कैवल्यमिति वदद्भिः, नहि गुणस्वरूपमज्ञात्वा गुणेभ्यः पुरुषस्याऽन्तरं शक्यं ज्ञातुमिति । क्वचिच्च विभूतिविशेषमाप्तये प्रधानं ज्ञेयमिति स्मरन्ति । न चेदमिहाव्यक्तं ज्ञेयत्वेनोच्यते, पदमात्रं ह्यव्यक्तशब्दः, नेहाऽव्यक्तं ज्ञातव्यमुपासितव्यं चेति वाक्यमस्ति । न चाऽनुपदिष्टं पदार्थज्ञानं 'पुरुषार्थमिति शक्यं भाष्यका अनुवाद

गुण और पुरुषके भेदके ज्ञानसे मोक्ष होता है, ऐसा कहते हुए सांख्य प्रधानका ज्ञेयरूपसे स्मरण करते हैं, क्योंकि गुणोंका स्वरूप जाने बिना गुणोंसे पुरुषका भेद नहीं जाना जा सकता । और विशिष्ट विभूति—शक्ति प्राप्त करनेके लिए प्रधान ज्ञेय है, ऐसा भी कहीं-कहीं कहते हैं । परन्तु यहाँ अव्यक्तशब्द केवल एक पद है । अव्यक्ताका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए या उसकी उपासना करनी चाहिए, ऐसा वाक्य नहीं है । और अनुपदिष्ट—उपदेश न किये हुए

रत्नप्रभा

अत्र अव्यक्तं प्रधानं न इत्यत्र हेत्वन्तरार्थं सूत्रम्—ज्ञेयत्वेति । सत्त्वादि-गुणरूपात् प्रधानात् पुरुषस्य अन्तरम्—भेदः तज्ज्ञानादित्यर्थः । 'नहि शक्यम्' इति च वदद्भिः प्रधानं ज्ञेयत्वेन स्मर्यते इति सम्बन्धः । न केवलं भेदप्रतियोगित्वेन प्रधानस्य ज्ञेयत्वं तैरिष्टम्, किन्तु तस्य उपासनयाऽणिमादिप्राप्तयेऽपि इत्याह—क्वचिच्चेति । ज्ञानविध्यभावेऽपि अव्यक्तपदजन्यज्ञानगम्यत्वम् आर्थिकं ज्ञेयत्वमस्ति इत्यत आह—न चानुपदिष्टमिति । उपदिष्टं हि ज्ञानं फलवदिति ज्ञातुं शक्यम्, निष्फलस्योपदेशायोगाद् अव्यक्तस्य च ज्ञानानुपदेशात् सफलज्ञानगम्यत्वासिद्धिः

रत्नप्रभाका अनुवाद

अव्यक्त प्रधान नहीं है, इस विषयमें दूसरे हेतुका प्रदर्शन करनेके लिए "ज्ञेयत्व" इत्यादि सूत्र है । सत्त्व आदि गुणरूप प्रधानसे पुरुष भिन्न है, इस ज्ञानसे, ऐसा अर्थ है । 'ज्ञेयत्वेन सांख्यैः' इत्यादि भाष्यमें 'नहि शक्यं.....स्मर्यते' ऐसा संबन्ध समझना चाहिए । प्रधान केवल पुरुषसे भिन्नरूपसे ज्ञेय है, इतना ही मात्र सांख्य नहीं मानते, किन्तु प्रधानकी उपासनासे अणिमा आदिकी प्राप्ति होती है, इससे भी उसको ज्ञेयरूपसे मानते हैं, ऐसा कहते हैं—'क्वचिच्च' इत्यादिसे । यद्यपि ज्ञानका विधान नहीं है, तो भी अव्यक्तपदजन्य ज्ञानसे आर्थिक ज्ञेयत्व जाना जाता है, इस शंकाका निराकरण करते हैं—'न चानुपदिष्टम्' इत्यादिसे । उपदिष्ट ज्ञान ही फलयुक्त है, इसलिए उसका ज्ञान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि फलरहितका उपदेश अयुक्त है । अव्यक्तका ज्ञेयरूपसे उपदेश नहीं है, इसलिए वह फलवान

भाष्य

प्रतिपत्तुम् । तस्मादपि नाऽव्यक्तशब्देन प्रधानमभिधीयते । अस्माकं तु रथरूपककल्पशरीराद्यनुसरणेन विष्णोरेव परमं पदं दर्शयितुमयमुपन्यास इत्यनवद्यम् ॥ ४ ॥

भाष्यका अनुवाद

पदार्थका ज्ञान पुरुषार्थ—पुरुषोपयोगी है, ऐसा नहीं कह सकते । इससे भी अव्यक्तशब्दसे प्रधानका अभिधान नहीं है । हमारे मतमें तो रथके सादृश्यसे कल्पित शरीर आदिके आश्रयण द्वारा विष्णुका ही परम पद दिखलानेके लिए यह उपन्यास—कथन है, इस प्रकार कोई दोष नहीं है ॥ ४ ॥

रत्नप्रभा

इत्यर्थः । फलितमाह—तस्मादिति । सांख्येष्टसफलज्ञानगम्यत्वावचनाच्च इत्यर्थः । ननु शरीरस्याऽपि ज्ञेयत्वानुक्तेः कथमिह ग्रहणम्, तत्राह—अस्माकं त्विति । अस्मन्मते विष्णुवाक्यपदस्य एकस्यैव ज्ञेयत्वात् तद्दर्शनार्थम् अव्यक्तपदेन शरीरोपन्यासो युक्त इत्यर्थः । साधारणशब्दमात्रात् न प्रधानस्य प्रत्यभिज्ञा, स्मार्तलिङ्गस्य अनुक्त्या नियामकाभावाद् इति तात्पर्यम् ॥ ४ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

ज्ञानगम्य हो, यह सिद्ध नहीं होता । फलित कहते हैं—“तस्माद्” इत्यादिसे । अर्थात् सांख्याभिमत सफलज्ञानगम्यत्वका कथन न होनेसे । परन्तु शरीर भी तो ज्ञेयरूपसे नहीं कहा गया, उसका यहां ग्रहण किस प्रकार होता है ? इसपर कहते हैं—“अस्माकं तु” इत्यादि । हमारे मतमें केवल विष्णुसंज्ञक पद ज्ञेय है, इसलिए उसके दर्शनके लिए अव्यक्तपदसे शरीरका उपन्यास युक्त है, ऐसा अर्थ है । साधारण शब्दमात्रसे प्रधानका प्रत्यभिज्ञान नहीं होता, क्योंकि स्मार्त (अव्यक्त) का लिंग नहीं कहा गया इसलिए कुछ नियामक नहीं है, ऐसा तात्पर्य है ॥ ४ ॥

वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात् ॥ ५ ॥

पदच्छेद—वदति, इति, चेत्, न, प्राज्ञः, हि, प्रकरणात् ।

पदार्थोक्ति—वदति—‘महतः परं भ्रुवं निचाय्य’ इत्युत्तरवाक्यं प्रधानं ज्ञेयत्वेन वदति, इति चेत्, न, प्राज्ञो हि—परमात्मैव निचाय्यत्वेनोक्तः [कुतः] प्रकरणात्—‘पुरुषान्न परं किञ्चित्’ इत्यात्मप्रकरणात् ।

भाषार्थ—‘महतः परं’ (महत्से उत्कृष्ट अविनाशीको जानकर) यह अग्निवाक्य प्रधानको ज्ञेय कहता है—यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ‘पुरुषान्नं’ (पुरुषसे श्रेष्ठ कोई नहीं है) इस प्रकार आत्माका प्रकरण होनेसे परमात्मा ही उक्त वाक्यमें ज्ञेय कहा गया है ।

भाष्य

अत्राह सांख्यः—‘ज्ञेयत्वावचनात्’ इत्यसिद्धम्, कथम्? श्रूयते
द्वुत्तरत्राज्यक्तशब्दोदितस्य प्रधानस्य ज्ञेयत्ववचनम्—

‘अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धश्च यत् ।

अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते ॥’
(का० २।३।१५) इति । अत्र हि यादृशं शब्दादिहीनं प्रधानं महतः
परं स्मृतौ निरूपितं तादृशमेव निचाय्यत्वेन निर्दिष्टम्, तस्मात् प्रधान-
भेदेदम्, तदेव चाज्यक्तशब्दनिर्दिष्टमिति ।

अत्र ब्रूमः—नेह प्रधानं निचाय्यत्वेन निर्दिष्टम्, प्राज्ञो हीह परमात्मा
निचाय्यत्वेन निर्दिष्ट इति गम्यते । कुतः ? प्रकरणात् । प्राज्ञस्य हि
प्रकरणं विततं वर्तते, ‘पुरुषान्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः’

भाष्यका अनुवाद

यहां सांख्य कहते हैं—‘ज्ञेयत्वावचनात्’ यह हेतु असिद्ध है । क्योंकि
‘अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं’ (शब्दरहित, स्पर्शरहित, रूपरहित, अव्यय,
रसरहित, गन्धरहित, नित्य, अनादि, अनन्त, महत्से पर तथा अविनाशी
तत्त्वका ज्ञान प्राप्त करके मृत्युके मुखसे छुटकारा पा जाता है) इस उत्तर वाक्यमें
अव्यक्तशब्दसे प्रतिपादित प्रधानका ज्ञेयत्वरूपसे निर्देश है । जैसा शब्दादिहीन
प्रधान महत्से पर स्मृतिमें निरूपित है, वैसा ही यहा ज्ञेयरूपसे निर्दिष्ट
हुआ है, इसलिए यह प्रधान ही है और वही अव्यक्तशब्दसे निर्दिष्ट है ।

यहां हम कहते हैं—प्रतीत होता है कि यहा प्रधान ज्ञेयरूपसे निर्दिष्ट नहीं
है, किन्तु प्राज्ञ परमात्मा ही ज्ञेयरूपसे निर्दिष्ट है । किससे ? प्रकरणसे ।
प्राज्ञका ही प्रकरण चला हुआ है, क्योंकि ‘पुरुषान्न परं’ (पुरुषसे श्रेष्ठ कुछ
नहीं है, वह परम सीमा है वह परम गति है) इत्यादि निर्देश है । ‘एष

रत्नप्रभा

लिङ्गोक्तिमाशङ्क्य निषेधति—वदतीति । अत्र हि तादृशमेव निर्दिष्टमिति
अन्वयः । स्पष्टम् अन्यत् ॥ ५ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

पूर्व कथित ‘ज्ञेयत्वावचनात्’ लिङ्ग असिद्ध है, ऐसी आशङ्का करके उसका निराकरण
करते हैं—‘वदति’ इत्यादिते । ‘अत्र निर्दिष्टम्’ (यहा उस प्रकारका प्रधान ही निर्दिष्ट
है) ऐसा अन्वय है । शेष भाष्य सरल है ॥ ५ ॥

भाष्य

इत्यादिनिर्देशात् । 'एष सर्वेषु भूतेषु गृहोत्समा न प्रकाशते' इति च दुर्ज्ञान-
त्ववचनेन तस्यैव ज्ञेयत्वाकाङ्क्षात् । 'यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञः' इति च
तज्ज्ञानायैव वागादिसंयमस्य विहितत्वात्, मृत्युमुखप्रमोक्षणफलत्वाच्च ।
नहि प्रधानमात्रं निचाप्य मृत्युमुखात् प्रमुच्यत इति साङ्ख्यैरिष्यते ।
चेतनात्मविज्ञानाद्धि मृत्युमुखात् प्रमुच्यते इति तेषामभ्युपगमः । सर्वेषु
वेदान्तेषु प्राज्ञस्यवाऽऽत्मनोऽशब्दादिधर्मत्वमभिलष्यते । तस्मान्न प्रधान-
स्याऽत्र ज्ञेयत्वमव्यक्तशब्दनिर्दिष्टत्वं वा ॥ ५ ॥

भाष्यका अनुवाद

सर्वेषु०' (सब भूतोंमें गृह यह आत्मा प्रकाशित नहीं होता) इस प्रकार
दुर्ज्ञेय कहा गया है, इससे वही ज्ञेय है, ऐसी आकांक्षा है । 'यच्छेद्वाङ्मनसी०'
(प्राज्ञ वाणीका मनमें लय करे) इस प्रकार उसको जाननेके लिये ही वाणी
आदिके संयमका विधान किया है और मृत्युके मुखसे छुटकारा पाना उसका
फल है । केवल प्रधानकी अवगतिसे मृत्युके मुखसे छुटकारा पाना सांख्य
नहीं मानते हैं, किन्तु चेतन आत्माके विज्ञानसे मृत्युके मुखसे मुक्त होता है,
ऐसा वे स्वीकार करते हैं । सब वेदान्तोंमें प्राज्ञ आत्माके ही अशब्दत्व आदि
धर्मोंका निर्देश है । इसलिए यहां प्रधान न ज्ञेय है और न अव्यक्तशब्दसे
निर्दिष्ट ही है ॥ ५ ॥

त्रयाणामेव चैवमुपन्यासः प्रश्नश्च ॥ ६ ॥

पदच्छेद—त्रयाणाम्, एव, च, एवम्, उपन्यासः, प्रश्नः, च ।

पदार्थोक्ति—एवम्—पूर्वोत्तरवाक्यपर्यालोचनया, त्रयाणामेव—अग्निजीवपरमात्म-
नामेव, उपन्यासः—वक्तव्यत्वेनोपन्यासः, प्रश्नश्च—अग्निजीवपरमात्म-
विषयक एव प्रश्नोऽपि [दृश्यते, अतः न अव्यक्तं प्रधानम्] ।

भाषार्थ—पूर्व और उत्तर वाक्योंके पर्यालोचनसे यही प्रतीत होता है कि अग्नि,
जीव और परमात्माका ही वक्तव्यरूपसे निर्देश है और प्रश्न भी उन्हीं
तीनके विषयमें है, इससे सिद्ध होता है कि श्रुतिमें प्रधान अव्यक्त-
शब्दचाप्य नहीं है ।



भाष्य

इतश्च न प्रधानस्याऽव्यक्तशब्दवाच्यत्वं ज्ञेयत्वं वा । यस्मात् त्रयाणामेव पदार्थानामग्निजीवपरमात्मनामस्मिन् ग्रन्थे कठवल्लीषु वरप्रदानसामर्थ्याद् वक्तव्यतयोपन्यासो दृश्यते, तद्विषय एव च प्रश्नः, नाऽतोऽन्यस्य प्रश्न उपन्यासो वाऽस्ति । तत्र तावत्—

‘स त्वमग्निं स्वर्गमध्येऽपि मृत्यो प्रब्रूहि तं श्रद्धधानाय मह्यम् ।’ (कठोपनिषद् १।१।१३) इत्यग्निविषयः प्रश्नः ।

‘येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके ।

एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेव वरस्तृतीयः ॥’

भाष्यका अनुवाद

और इससे भी प्रधान अव्यक्तशब्दवाच्य अथवा ज्ञेय नहीं है, क्योंकि वरप्रदान सामर्थ्यसे कठवल्लीमें वक्तव्यरूपसे अग्नि, जीव, परमात्मा, इन तीन पदार्थोंका ही उपन्यास दिखाई देता है और उन्हींके विषयमें प्रश्न है, इससे अन्यका उपन्यास या प्रश्न नहीं है । उनमें ‘स त्वमग्निं स्वर्गमध्येऽपि’ (हे मृत्यो ! तुम स्वर्गके साधनभूत अग्निको जानते हो, अतः श्रद्धालु जो मैं हूँ, मुझको उसका उपदेश दो) यह अग्निके बारेमें प्रश्न है । ‘येऽयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये’ (मृतक मनुष्यके बारेमें जो यह संशय होता है, कुछ लोग कहते हैं कि ‘है’ और कितने ही कहते हैं कि ‘नहीं है’ तुमसे अनुशासनको प्राप्त हुआ मैं इस विद्याको जानना चाहता हूँ, वरोंमें यह तीसरा वर है) यह

रत्नप्रभा

किञ्चाऽत्र कठवल्ल्यां प्रधानस्य प्रश्नोत्तरयोः असत्त्वात् न ग्रहणमित्याह— त्रयाणामिति । मृत्युना नचिकेतसं प्रति त्रीन् वरान् वृणीष्व इत्युक्तेः त्रयाणामेव प्रश्नो नचिकेतसा कृतः, उपन्यासश्च मृत्युना कृतः नाऽन्यस्य इत्यर्थः । प्रश्नत्रय क्रमेण पठति—तत्र तावदिति । हे मृत्यो ! स मह्यं दत्तवरः त्वं स्वर्गहेतुम् अग्निं स्मरसि, प्रेते मृते देहाद् अन्योऽस्ति न वेति संशयोऽस्ति, अतः एतद् आत्मतत्त्वं

रत्नप्रभाका अनुवाद

दूसरी बात यह भी है कि कठवल्लीमें न प्रधानका प्रश्न है और न उत्तर है, इससे भी प्रधानका ग्रहण नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं—“त्रयाणाम्” इत्यादिसे । मृत्युने नचिकेतासे कहा कि तीन वर मांगो, इसलिए नचिकेताने तीन ही के विषयमें प्रश्न किया और मृत्युने भी तीन ही प्रश्नोंका उत्तर दिया, अन्यका नहीं, ऐसा अर्थ है । तीनों प्रश्नोंको क्रमसे कहते हैं—“तत्र तावद्” इत्यादिसे । मुझे वरदान देनेवाले हे मृत्यो ! स्वर्गहेतु अग्निको तुम जानते हो, मरणा-

भाष्य

(का० १।१।२०) इति जीवविषयः प्रश्नः ।

‘अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात् कृताकृतात् ।

अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्बद्ध ॥’

(का० १।२।१४) इति परमात्मविषयः । प्रतिवचनमपि—

‘लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा ।’

(का० १।१।१५) इत्यग्निविषयम् ।

‘हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम् ।

यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ।’

भाष्यका अनुवाद

जीवके बारेमें प्रश्न है । ‘अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मा०’ (धर्मसे अन्य, अधर्मसे अन्य, कार्य और कारणसे अन्य, भूत, भविष्यत् एवं वर्तमानसे अन्य जिसको आप देखते हैं उसे कहिए) यह परमात्माके बारेमें प्रश्न है । प्रतिवचन भी ‘लोकादिमग्निं तमुवाच०’ (मृत्युने लोककी कारणभूत उस अग्निका नचिकेताको उपदेश दिया और यह भी कहा कि चयनके लिए किस प्रकारकी एवं कितनी ईंटें चाहिएँ और अग्निका चयन किस प्रकार करना चाहिए) यह अग्निके बारेमें प्रश्न है । ‘हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि०’ (मैं तुमसे गुह्य, सनातन ब्रह्म फिरसे कहूँगा, जिसके ज्ञानसे सब संसारका उपरम हो जाता है और जिसके अज्ञानसे मरणानन्तर आत्मा जिस तरह संसारमें आता है,

रत्नप्रभा

सन्दिग्ध जानीयामित्यर्थः । क्रमेण उत्तरत्रयमाह—प्रतिवचनमपीति । लोकहेतु-विराडात्मना उपास्यत्वात् लोकादिः चित्त्योऽग्निः तं मृत्युरुवाच नचिकेतसे, याः स्वरूपतः यावतीः संख्यातः यथा वा क्रमेण अग्निः चीयते तत्सर्वमुवाच इत्यर्थः । हन्त इदानीं ब्रह्म वक्ष्यामि इति ब्रह्मवाक्येन जीवप्रश्नाद् व्यवहितमपि “यथा च मरणं प्राप्य” इत्यादिवाक्यं जीवविषयम् उत्तरयोग्यत्वादित्यर्थः । वाक्यार्थस्तु

रत्नप्रभाका अनुवाद

नन्तर देहसे भिन्न आत्मा रहता है या नहीं, ऐसा संशय है, इसलिए मैं इस सन्दिग्ध आत्मतत्त्वको जानना चाहता हूँ, यह अर्थ है । अनुक्रमसे तीनोंके उत्तर कहते हैं—“प्रतिवचनमपि” इत्यादिये । लोकादि-लोकके कारणभूत विराडरूपसे उपास्य होनेके कारण अग्नि लोकहेतु कही गई है । उस चित्त अग्निको मृत्युने नचिकेतासे कष्ट जैधी और जितनी [ईंटोंकी अपेक्षा होती है] और जिस क्रमसे अग्निका चयन होता है, यह सब कहा, ऐसा अर्थ है । ‘हन्तेदानीं ब्रह्म वक्ष्यामि’ इस ब्रह्मवाक्यसे व्यवहित होनेपर भी ‘यथा च मरणं०’ इत्यादि

भाष्य

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्नाय देहिनः ।

स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम् ॥' (का० २।५।६, ७) इति व्यवहितं जीवविषयम् । न जायते प्रियते वा विपश्चित्' (का० १।२।१८) इत्यादि बहुप्रपञ्चं परमात्मविषयम् । नैवं प्रधानविषयः प्रश्नोऽस्ति, अपृष्टत्वादनुपन्यसनीयत्वं तस्येति ।

अत्राह—योऽयमात्मविषयः प्रश्नो 'येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्ति' इति, किं स एवायम् 'अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात्' इति पुनरनुकृत्यते, किं वा ततोऽन्योऽयमपूर्वः प्रश्न उत्थाप्यत इति । किं चाऽतः ? स एवायं प्रश्नः

भाष्यका अनुवाद

हे गौतम उसे सुनो, कर्म और विज्ञानके अनुसार कुछ देही शरीरग्रहण करनेके लिए योनिको प्राप्त होते हैं और कुछ स्थावर हो जाते हैं) इस प्रकार व्यवधानसे जीवके बारेमें प्रतिवचन है । 'न जायते प्रियते०' (विद्वान् न जन्म लेता है और न मरता ही है) इत्यादि विस्तारसे परमात्माके बारेमें प्रतिवचन है । इस प्रकार प्रधानके बारेमें प्रश्न नहीं है और प्रभाभावसे प्रधानका उपन्यास भी नहीं हो सकता ।

यहां पूर्वपक्षी कहता है—'येयं प्रेते विचिकित्सा०' यह जो आत्माके बारेमें प्रश्न है, उसीकी अनुवृत्ति फिरसे 'अन्यत्र धर्मा०' इत्यादिमें है, या उससे

रत्नप्रभा

आत्मा मरणं प्राप्य यथा भवति तथा वक्ष्यामि इति । प्रतिज्ञातं [जीवप्रश्नस्य उत्तरम्] आह—योनिमिति । चराचरदेहप्राप्तौ निमित्तमाह—यथेति । श्रतम् उपासनम् । सूत्रे आद्यः चकारो यत इत्यर्थे । एवं च त्रयाणाम् एव उपन्यासः प्रश्नश्च यतः, अतो न प्रधानम् अव्यक्तम्, इति सूत्रयोजना ।

उक्तार्थं सूत्रमाक्षिपति—अत्राहेति । एकः प्रश्नः द्वौ प्रश्नौ वेति पक्षद्वये

रत्नप्रभाका अनुवाद

मान्य जीवप्रश्नविषयक है, क्योंकि यही जीवप्रश्नका योग्य उत्तर है । मरनेके बाद आत्माका क्या होता है, वह कहूँगा, ऐसा वाक्यार्थ है । प्रतिज्ञात विषयको कहते हैं—“योनिम्” इत्यादिसे । चर और अचर देहप्राप्तिका निमित्त कहते हैं—“यथा” इत्यादिसे । श्रुतम्—उपासना । सूत्रमें प्रथम चकार इत्यर्थक है । चूंकि तीन ही वस्तुओंके उपन्यास और प्रश्न हैं, इससे अव्यक्त प्रधानवाचक नहीं है, ऐसी योजना करनी चाहिए ।

यहाँ पूर्वपक्षीकी शंका कहते हैं—“अत्राह” इत्यादिसे । एक प्रश्न है या दो प्रश्न हैं इस

भाष्य

पुनरनुकूप्यत इति यद्युच्येत, तदा द्वयोरात्मविषययोः प्रश्नयोरेकतापत्तेर-
ग्निविषय आत्मविषयश्च द्वावेव प्रश्नावित्यतो न वक्तव्यं त्रयाणां प्रश्नो-
पन्यासाविति । अथान्योऽयमपूर्वः प्रश्न उत्थाप्यत इत्युच्येत, ततो यथैव
वरप्रदानव्यतिरेकेण प्रश्नकल्पनायामदोषः, एवं प्रश्नव्यतिरेकेणाऽपि
प्रधानोपन्यासकल्पनायामदोषः स्यादिति ।

अत्रोच्यते । नैवं वयमिह वरप्रदानव्यतिरेकेण प्रश्नं कंचित् कल्पयामः,
वाक्योपक्रमसामर्थ्यात् । वरप्रदानोपक्रमा हि मृत्युनचिकेतःसंवादरूपा
भाष्यका अनुवाद

दूसरा ही यह अपूर्व प्रश्न उठाया जाता है ? इससे प्रकृतमें क्या आया ?
यदि उसी प्रश्नकी अनुवृत्ति होती है, ऐसा कहो, तो आत्माओंके बारेमें किये
गये दोनों प्रश्नोंमें भेद होनेसे एक अग्निके विषयमें और दूसरा आत्माके विषय-
में, इस प्रकार दो ही प्रश्न होते हैं, अतः तीन पदार्थोंके विषयमें प्रश्न और
उत्तर है, ऐसा कहना युक्त नहीं है । यह दूसरा ही अपूर्व प्रश्न उठाया गया है,
ऐसा यदि कहो तो, जैसे वरदानसे अतिरिक्त प्रश्नकी कल्पना करनेमें दोष
नहीं है, वैसे ही प्रश्न न होनेपर भी प्रधानके उपन्यासकी कल्पना करनेमें
कोई दोष नहीं है ।

इसपर सिद्धान्ती कहते हैं—यहा हम इस प्रकार वरदानसे अतिरिक्त
फिसी भी प्रश्नकी कल्पना नहीं करते, क्योंकि वाक्यका उपक्रम ऐसा ही है ।
निश्चय वरदानसे लेकर कठबल्लीकी समाप्ति तक मृत्यु और नचिकेताकी संवाद-

रत्नप्रभा

फलितं पृच्छति—किञ्चाऽत इति । सप्तम्यर्थे तसिः । अत्र च पक्षद्वयेऽपि
किम् इत्यर्थः । प्रश्नैक्ये सूत्रासङ्गतिः, भेदे प्रधानस्य श्रौततत्सिद्धिः इति
पूर्ववादी आह—स एवेत्यादिना ।

प्रश्नैक्यपक्षमादाय सिद्धान्ती आह—अत्रोच्यत इति । येन प्रधानसिद्धि-
स्यादिति शेषः । चतुर्थप्रश्नकल्पने वरत्रित्वोपक्रमविरोधः स्यादिति विवृणोति—

रत्नप्रभाका अनुवाद

आक्षेपका फलित पृच्छते हैं—“किञ्चात ” से । ‘तसि’ सप्तमीके अर्थमें है । दोनों पक्षोंमें क्या दोष
है ? ऐसा अर्थ है । यदि एक प्रश्न हो, तो सत्य असंगत होता है और यदि दो प्रश्न हों, तो
प्रधान धौत है, ऐसा सिद्ध होता है, ऐसा पूर्वपक्षी कहता है—“स एव” इत्यादिते ।

एक ही प्रश्न है, इस पक्षको लेकर सिद्धान्ती पूर्वपक्षका परिहार करते हैं—“अत्रोच्यते”
इत्यादिते । ‘कल्पयामि’ के बाद ‘येन प्रधानसिद्धिः स्यात्’ (जिससे प्रधानकी सिद्धि हो) इतना

भाष्य

वाक्यप्रवृत्तिरा समाप्तेः कठवल्लीनां लक्ष्यते । मृत्युः किल नचिकेतसे पित्रा प्रहिताय त्रीन् वरान् प्रददौ, नचिकेताः किल तेषां प्रथमेन वरेण पितुः सौमनस्यं वत्रे, द्वितीयेनाऽग्निविद्याम्, तृतीयेनाऽऽत्मविद्याम्, 'येयं प्रेते' इति 'वराणामेष वरस्तृतीयः' (का० १।१।२०) इति लिङ्गात् । तत्र 'यद्यन्यत्र धर्माद्' इत्यन्योऽयमपूर्वः प्रश्न उत्थाप्येत, ततो वरप्रदान-व्यतिरेकेणाऽपि प्रश्नकल्पनाद् वाक्यं चाध्येत । ननु प्रष्टव्यभेदादपूर्वोऽयं

भाष्यका अनुवाद

रूप वाक्यप्रवृत्ति देखी जाती है । श्रुति है कि पिताके भेजे हुए नचिकेता-को मृत्युने तीन वर दिये । उनमेंसे पहले वरसे नचिकेताने पिताकी प्रसन्नता मांगी, दूसरेसे अग्निविद्या और तीसरेसे आत्मविद्या, क्योंकि 'येयं प्रेते' और 'वराणामेष०' ये लिङ्ग हैं । उनमें 'अन्यत्र धर्मात्' इत्यादिसे यह दूसरा अपूर्व प्रश्न उठाया जाय, तो वरदानसे अतिरिक्त प्रश्नकी कल्पनासे वाक्यका बाध हो जायगा । परन्तु प्रष्टव्य पदार्थका भेद होनेसे यह प्रश्न अपूर्व है ।

रत्नप्रभा

वरेत्यादिना । वरप्रदानम् उपक्रमे यस्याः सा । प्रहिताय यमलोकं प्रति प्रेषिताय, इतः पुनः मर्त्यलोकं प्राप्तस्य मम पिता यथापूर्वं सुमनाः स्यादिति प्रथमं वत्रे । ननु द्वितीयवरो जीवविद्या, तृतीयो ब्रह्मविद्या इति प्रश्नभेदः किं न स्यादित्यत आह— येयमिति । "प्रेते" [कठ० १।२०] इति उपक्रम्य तृतीयस्वोक्तिलिङ्गाद् जीवात्म-विधौ तृतीयो वर इत्यर्थः । एवं वाक्योपक्रमे सति प्रश्नान्तरं न युक्तमित्याह— तत्रेति । मरणधर्माद्यस्पर्शल्लिङ्गाभ्यां प्रष्टव्ययोः जीवेश्वरयोः भेदात् प्रश्नभेदसिद्धेः

रत्नप्रभाका अनुवाद

शेष समझना चाहिए । चतुर्थ प्रश्नकी कल्पना करनेसे तीन वरदानोंके उपक्रमका विरोध होगा, ऐसा विवरण करते हैं—'वर' इत्यादिसे । जिस वाक्यप्रवृत्तिके आरम्भमें वरदानका कथन है, वह 'वरदानोपक्रमा' कहलाती है । 'प्रहिताय'—यमलोकमें भेजा हुआ । यहाँसे जब मैं मर्त्यलोकमें जाऊँ, तब पूर्वके समान मेरे पिता मेरे ऊपर प्रसन्न रहें, यह प्रथम वर माँगा । परन्तु दूसरा वर जीवविद्या विषयक है और तीसरा वर ब्रह्मविद्याविषयक है, ऐसा प्रश्नभेद क्यों न हो, इसपर कहते हैं—'येयम्' इत्यादिसे । 'प्रेते' ऐसा उपक्रम करके 'तृतीयः' ऐसा कहा है, इससे प्रतीत होता है कि तीसरा वर जीवात्मविद्याविषयक ही है । इस प्रकार वाक्यका उपक्रम होनेसे प्रश्नान्तर युक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं—'तत्र' इत्यादिसे । मरण और धर्माद्यस्पर्श इन दो लिङ्गोंमें प्रश्नविषय जीव और ईश्वरमें भेद होनेसे प्रश्नभेद सिद्ध होता है,

भाष्य

प्रश्नो भवितुमर्हति, पूर्वं हि प्रश्नो जीवविषयः, येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्ति नास्ति इति विचिकित्साभिधानात् । जीवश्च धर्मादिगोचरत्वान्नाऽन्यत्र धर्मादिति प्रश्नमर्हति । प्राज्ञस्तु धर्माद्यतीतत्वाद्वन्यत्र धर्मादिति प्रश्नमर्हति । प्रश्नच्छाया च न समाना लक्ष्यते, 'पूर्वस्यास्तित्वनास्तित्वविषयत्वाद्दुत्तरस्य धर्माद्यतीतवस्तुविषयत्वाच्च । तस्मात् प्रत्यभिज्ञानाभावात् प्रश्नभेदः, न पूर्वस्यैवोत्तरत्राऽनुकर्षणमिति चेत्, न; जीवप्राज्ञयोरेकत्वाभ्युपगमात् । भवेत् प्रष्टव्यभेदात् प्रश्नभेदो यद्यन्यो जीवः प्राज्ञात् स्यात्, न त्वन्यत्वमस्ति 'तत्त्वमसि' इत्यादिश्रुत्यन्तरेभ्यः । इह चाऽन्यत्र

भाष्यका अनुवाद

पूर्व प्रश्न जीवके विषयमें है, क्योंकि 'मृत मनुष्यके विषयमें 'है या नहीं' ऐसी जो शंका होती है' इस प्रकार संशय किया गया है । जीव धर्म आदिका आश्रय होनेसे 'अन्यत्र धर्मात्' इस प्रश्नके योग्य नहीं है । प्राज्ञ तो धर्म आदिसे अतिक्रान्त होनेसे 'अन्यत्र धर्मात्' इस प्रश्नके योग्य है । और प्रश्नसादृश्य भी नहीं दीखता, क्योंकि पूर्व प्रश्नका विषय है—'है या नहीं' और उत्तर प्रश्नका विषय है—'धर्म आदिसे अतिक्रान्त वस्तु' । इसलिए प्रत्यभिज्ञाके अभावसे प्रश्नोंमें परस्पर भेद है और पूर्व प्रश्नकी उत्तर वाक्यमें अनुवृत्ति नहीं है, ऐसा कहो, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि जीव और प्राज्ञ एक हैं, ऐसा स्वीकार किया है । यदि प्राज्ञसे जीव भिन्न हो, तो प्रष्टव्यके भेदसे प्रश्नभेद हो जायगा, परन्तु भेद नहीं है, क्योंकि 'तत्त्वमसि'

रत्नप्रभा

वाक्यबाधो युक्त इति शङ्कते—नन्वित्यादिना । गोचरत्वाद्—आश्रयत्वात् । न केवलं प्रष्टव्यभेदात् प्रश्नभेदः, किन्तु प्रश्नवाक्ययोः सादृश्याभावादपि इत्याह—प्रश्नच्छायेति । प्रष्टव्यभेदोऽसिद्ध इति परिहरति—नेत्यादिना । किञ्च, ब्रह्मप्रश्ने जन्मादिनिषेधेन जीवस्वरूपं वदन् यमः तयोः ऐक्यं सूचयति इत्याह—

रत्नप्रभाका अनुवाद

अतः वाक्यबाध युक्त है, ऐसी शंका करते हैं—“ननु” इत्यादिसे । 'गोचर'—आश्रय । केवल प्रष्टव्यभेदसे ही प्रश्नभेद नहीं है, किन्तु प्रश्नवाक्योंमें सादृश्य न होनेसे भी भेद है, ऐसा कहते हैं—“प्रश्नच्छाया” इत्यादिसे । प्रष्टव्यभेद असिद्ध है, इस प्रकार शंकाका परिहार करते हैं—“न” इत्यादिसे । और ब्रह्मप्रश्नके उत्तरमें जन्म आदिके निषेधसे जीवका स्वरूप कहकर यम जीव और परमात्माका ऐक्य सूचित करता है, ऐसा कहते हैं—“इदं चान्यत्र” इत्यादिसे ।

भाष्य

धर्मादित्यस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनम् 'न जायते म्रियते वा विपश्चित्' इति जन्ममरणप्रतिषेधेन प्रतिपाद्यमानं शरीरपरमेश्वरयोरभेदं दर्शयति । सति हि प्रसङ्गे प्रतिषेधो भागी भवति । प्रसङ्गश्च जन्ममरणयोः शरीरसंस्पर्शाच्छरीरस्य भवति न परमेश्वरस्य । तथा—

'स्वमान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति ।

महान्तं विभुमात्मानं भत्वा धीरो न शोचति ॥' (का० २।४।४) इति स्वप्नजागरितदृशो जीवस्यैव महत्त्वविभुत्वविशेषणस्य मननेन शोकविच्छेदं दर्शयन्न प्राज्ञादन्यो जीव इति दर्शयति । प्राज्ञविज्ञानाद्धि

भाष्यका अनुवाद

इत्यादि दूसरी श्रुतियां हैं । यहां भी 'अन्यत्र धर्मात्' इत्यादि प्रश्नका 'न जायते म्रियते०' इस प्रकार जन्म-मरणके प्रतिषेधसे वस्तुका प्रतिपादन करने-वाला प्रतिवचन जीव और परमेश्वरका अभेद दिखलाता है । प्राप्ति होनेपर ही प्रतिषेध संगत होता है । और शरीरके संसर्गसे शरीरको जन्म-मरणकी प्राप्ति होती है, परमेश्वरको नहीं होती । उसी प्रकार 'स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ०' (जिससे स्वप्न और जाग्रत् दोनों अवस्थाओंको देखता है, उस महान् विभु आत्माका चिन्तन करके धीर पुरुष शोक नहीं करता) इस प्रकार स्वप्न और जागरित अवस्थाओंको देखनेवाले महत्त्व और विभुत्वविशिष्ट जीवके चिन्तनसे ही शोकका विच्छेद दिखलाता हुआ यम प्राज्ञसे जीवका अभेद

रत्नप्रभा

इह चाऽन्यत्रेति । तन्निषेधवाक्ये जीवोक्तिः असिद्धा इत्यत आह—सतीति । भार्गी—युक्तः । तस्मात् अविद्यया जीवस्य प्राप्तजन्मादिनिषेधेन स्वरूपम् उक्तम् इत्यर्थः । किञ्च, जीवो ब्रह्माभिन्नः, मोक्षहेतुज्ञानविषयत्वाद्, ब्रह्मवत्, इत्याह— तथा स्वप्नेति । अन्तः—अवस्था । येन साक्षिणा प्रमाता पश्यति तमात्मानम् इति सम्बन्धः । हेतोः अप्रयोजकत्वमाशङ्क्य 'तमेव विदित्वा' इत्यादिश्रुतिविरोधमाह—

रत्नप्रभाका अनुवाद

जन्म आदिका निषेध करनेवाले वाक्यमें जीवका कथन सिद्ध नहीं हो सकता, इसपर कहते हैं—'सति' इत्यादि । भागी-युक्त । इसलिए अविद्यासे जीवको प्राप्त हुए जन्म आदिके निषेधसे उसका स्वरूप कहा गया है, ऐसा अर्थ है । और जीव ब्रह्ममें अभिन्न है, मोक्षके हेतु ज्ञानका विषय होनेसे, ब्रह्मके समान, ऐसा कहते हैं—'तथा स्वप्न' इत्यादिसे । 'अन्तः'—अवस्था । जिस साक्षीसे प्रमाता देखता है, उस साक्षीको आत्मा समझकर, ऐसा संबन्ध है । हेतु

भाष्य

शोकविच्छेद इति वेदान्तसिद्धान्तः । तथात्रे—

‘यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह ।

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥’ (का० २।४।१०)
इति जीवप्राज्ञभेददृष्टिमपवदति । तथा जीवविषयस्याऽस्तित्वनास्तित्व-
प्रश्रयाऽनन्तरम् ‘अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व’ इत्यारभ्य मृत्युना तैस्तैः
कामैः प्रलोभ्यमानोऽपि नचिकेता यदा न चचाल, तदैतं मृत्युरभ्युदयनिः-

भाष्यका अनुवाद

दिरलाता है । प्राज्ञके विज्ञानसे ही शोकका विच्छेद होता है, ऐसा वेदान्त-
का सिद्धान्त है । उसी प्रकार आगे ‘यदेवेह तदमुत्र०’ (जो यहां—देहमें है,
वह यहां आदित्य आदिमें है, जो वहां है वह यहां है, जो इसमें मिथ्या भेद
देखता है, वह जन्ममरण-परम्पराको प्राप्त होता है) इस प्रकार श्रुति जीव और
प्राज्ञ में भेददृष्टिका निषेध करती है । इसी प्रकार जीवविषयक ‘अस्तित्व-
नास्तित्व’ (है या नहीं) प्रश्नके अनन्तर ‘अन्यं वरं०’ हे नचिकेता ! तुम अन्य वर
मांगो) ऐसा आरम्भ करके मृत्यु द्वारा अनेक कामनाओंसे अत्यन्त प्रलोभित
होता हुआ भी नचिकेता जब विचलित नहीं हुआ, तब मृत्युने अभ्युदय और

रत्नप्रभा

प्राप्तेति । किञ्च, अभेदम् उक्त्वा भेदस्य निन्दितत्वात् अभेद एव सत्य इत्याह—
तथेति । इह देहे यत् चैतन्यं तदेव अमुत्र सूर्यादौ, एवम् इह अखण्डैकारसे ब्रह्मणि
यो नानेव मिथ्याभेदं पश्यति, सः—भेददर्शी मरणात् मरणं प्राप्नोति संसारभयात्
न मुच्यते इत्यर्थः । किञ्च, जीवप्रश्नानन्तरम् “तं दुर्दर्शम्” इति यदुत्तरमुवाच तेनापि
उत्तरेणाऽभेदो गम्यते इति सम्बन्धः । प्रष्टृप्रश्नयोः प्रशंसयाऽपि लिङ्गेन पृष्टस्य
जीवस्य दौर्लभ्यत्वद्योतनाद् ब्रह्मत्वसिद्धिरित्याह—अन्यं वरमित्यादिना । ‘पुत्रा-

रत्नप्रभाका अनुवाद

अप्रयोजक है, ऐसी आशंका करके ‘तमेव०’ इत्यादि श्रुतिका विरोध दिरालाते हैं—“प्राज्ञ”
इत्यादिसे । और अभेद कहकर भेदकी निन्दा भी है, इसलिए अभेद ही सत्य है, ऐसा
कहते हैं—“तथा” इत्यादिसे । जो चैतन्य यहाँ इस देहमें है, वही अमुत्र सूर्यादिमें है,
इस प्रकार अखण्ड एकरस ब्रह्ममें जो मिथ्याभेद देखता है, वह भेददर्शी मृत्युसे मृत्यु अर्थात्
पुन पुन जन्ममरणप्रवाहपरम्पराको प्राप्त होता है, संसारभयसे मुक्त नहीं होता, ऐसा
अर्थ है । इसमें जीवप्रश्नके अतिरिक्त अनन्तर ‘तं दुर्दर्शम्’ ऐसा जो उत्तर दिया है, इय
उत्तरसे भी अभेद गम्य होता है, ऐसा संबन्ध है । और प्रश्नकर्ता और प्रश्नकी प्रशंसाहूय
लिङ्गसे पृष्ट यस्तु जीव दुर्लभ है, ऐसा प्रतीत होनेसे भी ब्रह्मत्व सिद्ध होता है, ऐसा कहते

भाष्य

श्रेयसविभागप्रदर्शनेन विद्याविद्याविभागप्रदर्शनेन च 'विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्थे न त्वा कामा बहवोऽलोलुपन्त' (का० १।२।४) इति प्रशस्य प्रश्नमपि तदीयं प्रशंसन् यदुवाच—

तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्टं पुराणम् ।

अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥

भाष्यका अनुवाद

मोक्षका विभाग दिखला कर और विस्तारपूर्वक विद्या और अविद्याका भी विभाग दिखला कर 'विद्याभीप्सिनं' (हे नचिकेता ! मुझे दृढ़ विश्वास है कि तुम परमार्थतः विद्याप्राप्तिके इच्छुक हो, तुमको अनेक कामनाएँ भी नहीं लुभा सकीं) इस प्रकार प्रशंसा करके उसके प्रश्नकी भी प्रशंसा करते हुए 'तं दुर्दर्शं गूढमनु' (दुर्विज्ञेय, गूढ़—मायामें प्रविष्ट, गुहा—बुद्धिमें स्थित, गह्वर—अनेक अनर्थोंसे व्याप्त देहमें स्थित, चिरन्तन आत्माका, अव्यात्मयोगप्राप्तिद्वारा मनन करके धीर

रत्नप्रभा

दिकं वृणीष्य, इत्युक्तेऽपि विपयान् तुच्छीकृत्य आत्मजानात् न चचाल "नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते" [क० १।३०] इति श्रवणात् । तदा सन्तुष्टो यमः "अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयः" [क० २।१] इति भोगापवर्गमार्गयो वैलक्षण्यं प्रतिजाय "दूरमेते विपरीते विपूची अविद्या या च विद्या" [क० २।४] इति दर्शितवानित्यर्थः । प्रेयः—प्रियतमं स्वर्गादिकम्, विपूची—विरुद्धफले, अविद्या—कर्म, विद्या—तत्त्वधीः । विद्याभीप्सिनं विद्यार्थिनं त्वामहं मन्थे, यतः त्वा—त्वां बहवोऽपि कामाः पुत्रादयो मया दीयमाना दुर्लभा अपि न अलोलुपन्त लोभवन्तं न कृतवन्त इति प्रष्टारं स्तुत्वा प्रश्नमपि "त्वाद्द नो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा" [क० २।९] इति स्तुवन्

रत्नप्रभाका अनुवाद

हैं—“अन्यं वरम्” इत्यादिसे । 'पुत्रादिकं' (पुत्र आदि मांगो) ऐसा कहने पर विपयोंको कुछ मानकर आत्मज्ञानसे नचिकेता विचलित नहीं हुआ, क्योंकि 'नान्यं तस्मां' (यमसे नचिकेताने दूसरा कोई वर नहीं माँगा) ऐसी भृति है । उसके बाद यमने संतुष्ट होकर 'अन्यच्छ्रेयो' (श्रेयमार्ग अन्य है और प्रेयमार्ग अन्य है) इस प्रकार भोगमार्ग और अपवर्गमार्ग विलक्षण है, ऐसी प्रतिज्ञा कर 'दूरमेते विपरीते' (अविद्या और विद्या इन दोनोंमें बहुत अन्तर है, ये दोनों विपरीत हैं अर्थात् भिन्नफलदायक हैं) ऐसा समझाया है 'प्रेय'—प्रियतम स्वर्ग आदि, 'विपूची'—विरुद्धफलवाले, 'अविद्या'—कर्म, विद्या—तत्त्वज्ञान 'विद्याभीप्सिनं'—मैं तुमको वस्तुतः विद्याको चाहनेवाला समझता हूँ, क्योंकि मुझसे दिये जाते हुए दुर्लभ पुत्र आदि बहुतसे पदार्थोंने तुमको नहीं लुभाया, इस प्रकार प्रश्न

भाष्य

(का० १।२।१२) इति, तेनापि जीवप्राज्ञयोरभेद एवेह विवक्षित इति गम्यते । यत्प्रश्ननिमित्तां च प्रशंसां महतीं मृत्योः प्रत्यपद्यत नचिकेता यदि तं विहाय प्रशंसानन्तरमन्यमेव प्रश्नमुपक्षिपेदस्थान एव सा सर्वा प्रशंसा प्रसारिता स्यात्, तस्मात् 'येयं प्रेते' इत्यस्यैव प्रश्नस्यैतदनुकर्षणम् 'अन्यत्र धर्मात्' इति । यत्तु प्रश्नच्छायावैलक्षण्यमुक्तं तददूषणम्, तदीयस्यैव विशेषस्य पुनः पृच्छ्यमानत्वात् । पूर्वत्र हि देहादिव्यतिरिक्तस्याऽऽत्मनोऽस्तित्वं पृष्टमुत्तरत्र तु तस्यैवाऽसंसारित्वं पृच्छ्यत इति । यावद्व्य-

भाष्यका अनुवाद

पुरुष हर्ष और शोकका त्याग करता है) ऐसा जो कहा है, इससे भी प्रतीत होता है कि जीव और प्राज्ञका अभेद ही यहां विवक्षित है । जिस प्रश्नके कारण मृत्युने नचिकेताकी महती प्रशंसा की, उस प्रश्नको छोड़कर प्रशंसाके अनन्तर अन्य ही प्रश्नका उपक्षेप करे तो सब प्रशंसा कुजगहमें की जानेके कारण व्यर्थ ही हो जायगी, इसलिये 'येयं प्रेते०' इसी प्रश्नकी 'अन्यत्र धर्मात्' इत्यादिमें यह अनुवृत्ति है । दोनों प्रश्नोंमें सादृश्य न होनेके कारण प्रश्न विलक्षण हैं, ऐसा जो कहा गया है, वह दोष नहीं है, क्योंकि उसीका विशेष फिरसे पूछा गया है । पूर्व वाक्यमें देह आदिसे अतिरिक्त आत्माका अस्तित्व पूछा गया है और उत्तर वाक्यमें उसीका असंसारित्व पूछा गया है । इसलिए

रत्नप्रभा

इत्यक्षरार्थः । इयं प्रशंसा प्रश्नभेदपक्षे न घटते इत्याह—यत्प्रश्नेति । यत्प्रश्नेन स्तुतिं लब्धवान् तं प्रश्नं विहाय यदि अन्यदेव उत्थापयेत् तर्हि अनवसरे स्तुतिः कृता स्यादित्यर्थः । तस्मादिति । प्रष्टव्यभेदाभावादित्यर्थः । पश्नवाक्यव्यक्तयो सादृश्याभावात् प्रश्नभेद इत्युक्तं निरस्यति—यच्चित्यादिना । धर्माद्याश्रयस्य जीवस्य ब्रह्मत्वं कथम्, इत्यत आह—यावदिति । अविद्यानाशानन्तरं ब्रह्मत्वं चेत् आग-

रत्नप्रभाका अनुवाद

पूछनेवाले नचिकेताकी प्रशंसा करके 'त्वाद् नो भूया०' (तुम्हारे सदृश पूछनेवाला हमें कोई शिष्य मिले,) ऐसी उसके प्रश्नकी भी प्रशंसा करते हुए यमने कहा, ऐसा अक्षरार्थ है । प्रश्नभेदपक्षमें यह प्रशंसा संगत न होगी, ऐसा कहते हैं—'यत्प्रश्न' इत्यादिसे । जिस प्रश्नसे प्रशंसा पाई उस प्रश्नको छोड़कर यदि दूसरा ही प्रश्न उठाने, तो वह स्तुति वैभौकेकी ही होगी, ऐसा अर्थ है । 'तस्माद्'—पृष्टव्यका भेद होनेसे । प्रश्नवाक्यव्यक्तियोंमें सादृश्य न होनेसे प्रश्नभेद है, ऐसा जो कहा है, उसका निराकरण करते हैं—'यत्तु' इत्यादिसे । धर्म आदिका आश्रय जब ब्रह्म किस प्रकार है, इसपर कहते हैं—'यावद्' इत्यादि । परन्तु

भाष्य

विद्या न निवर्तते तावद्धर्मादिगोचरत्वं जीवस्य जीवत्वं च न निवर्तते । तन्निवृत्तौ तु प्राज्ञ एव 'तच्चमसि' इति श्रुत्या प्रत्याग्यते । न चाऽविद्यावच्चे तदपगमे च वस्तुनः कश्चिद्विशेषोऽस्ति । यथा कश्चित्सं-
तमसे पतितां कांचिद्रज्जुमहिं मन्यमानस्ततो भीतो वेपमानः पलायते, तं
चाऽपरो ब्रूयाद् मा भैपीर्नायमही रज्जुरेवेति । स च तदुपश्रुत्याऽहिकृतं
मयमुत्सृजेद्वेपथुं पलायनं च, न त्वहिवृद्धिकाले तदपगमकाले च वस्तुनः
कश्चिद्विशेषः स्यात्, तथैवैतदपि द्रष्टव्यम् । ततश्च 'न जायते म्रियते वा'

भाष्यका अनुवाद

जब तक अविद्या निवृत्त नहीं होती तब तक जीवमें धर्माद्याश्रयत्व और जीवत्व निवृत्त नहीं होते। अविद्याकी निवृत्ति होनेपर वह तो प्राज्ञ ही है, ऐसी 'तच्चमसि' इत्यादि श्रुतिसे प्रतीति करायी जाती है। और अविद्याके योगसे और अविद्याके नाशसे वस्तुमें कुछ भी विशेषता नहीं होती। जैसे गाढ़ अन्वकारमें पड़ी हुई किसी रज्जुको सर्प समझकर मनुष्य भयसे कांपता हुआ भागता है, उससे यदि कोई कहे कि मत डरो यह सर्प नहीं है, किन्तु रज्जु है और वह उसे सुबकर सर्पज्ञानजन्य भयसे मुक्त हो जाता है और कांपना तथा भागना छोड़ देता है। परन्तु जब वह उसमें सर्पबुद्धि रखता है और जब वह बुद्धि जाती रहती है, दोनों अवस्थाओंमें वस्तुमें कुछ विशेषता नहीं आती, उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। इसलिए

रत्नप्रभा

न्बुकम् अनित्यं च स्यादित्यत आह—न चाऽविद्यावच्च इति । जीवस्य ब्रह्मत्वे स्वभाविके सति ब्रह्मप्रभस्य यदुत्तरं तद् जीवप्रभस्याऽपि भवतीति लाभं दर्शयति—
“ततश्च न जायते” इति । जीवब्रह्मैक्ये त्रयाणामिति सूत्रं कथम्? इत्यत आह—
छत्रं त्विति । कल्पितभेदान् प्रभभेदकल्पना इत्याह—ततश्चेति । परमात्मनः

रत्नप्रभाका अनुवाद

अविद्याके नाश होनेपर यदि जीव ब्रह्मत्व प्राप्त करे, तो वह ब्रह्मत्व आगन्तुक और अनित्य हो जायगा, इसपर कहते हैं—“न चाविद्यावच्चे” इत्यादि। जीवका ब्रह्मत्व स्वभाविक है, इसलिए ब्रह्मप्रभका जो उत्तर है, वह जीव प्रभका भी है, ऐसा लाभ दिखलाते हैं—“ततश्च न जायते” इत्यादिसे। जीव और ब्रह्म अभिन्न हैं, तो स्वप्नमें 'त्रयाणाम्' क्यों कहा है, इसपर कहते हैं—“सूत्रं तु” इत्यादि। कल्पितभेदसे प्रभभेदका कल्पना करनी चाहिए,

भाष्य

इत्येवमाद्यपि भवत्यस्तित्वप्रश्नस्य प्रतिवचनम् । सूत्रं त्वविद्याकल्पित-
जीवप्राज्ञभेदापेक्षया योजयितव्यम् । एकत्वेऽपि ह्यात्मविषयस्य प्रश्नस्य
प्रायणावस्थायां देहव्यतिरिक्तास्तित्वमात्रविचिकित्सनात् कर्तृत्वादि-
संसारस्वभावानपोहनाच्च पूर्वस्य पर्यायस्य जीवविषयत्वमुत्प्रेक्ष्यते, उत्तरस्य
तु धर्माद्यत्ययसंकीर्तनात् प्राज्ञविषयत्वमिति । ततश्च युक्ताऽग्निजीवपरमात्म-
कल्पना । प्रधानकल्पनायां तु न वरप्रदानं न प्रश्नो न प्रतिवचनमिति
वैषम्यम् ॥ ६ ॥

भाष्यका अनुवाद

‘न जायते०’ इत्यादि भी अस्तित्व नास्तित्वका प्रतिवचन है । अविद्यासे कल्पित
जीव और प्राज्ञके भेदकी अपेक्षासे सूत्रकी योजना करनी चाहिए । यद्यपि
आत्मविषयक प्रश्न एक ही है, तो भी मरणावस्थामें देहसे व्यतिरिक्तके अस्तित्व-
मात्रका संशय होता है और कर्तृत्व आदि सांसारिकताका निषेध नहीं होता,
इसलिए पूर्व पर्याय जीवविषयक माना जाता है । उत्तर पर्यायमें तो धर्म
आदिके राहित्यका प्रतिपादन है, इससे वह प्राज्ञविषयक है । इसलिए अग्नि, जीव
और परमात्माकी कल्पना युक्त है । प्रधानकी कल्पनामें तो न वरदान है, न
प्रश्न है और न प्रतिवचन है, इस प्रकार वैषम्य है ॥ ६ ॥

रत्नप्रभा

सकाशात् प्रधानस्य वैषम्यम् अनात्मत्वेन तृतीयवरान्तर्भावायोगादिति भावः ॥६॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

ऐसा कहते हैं—“ततश्च” इत्यादिसे । परमात्मासे प्रधान विषय है, क्योंकि अनात्मा होनेसे
तीसरे वरदानमें इसका अन्तर्भाव नहीं होता, ऐसा तात्पर्य है ॥ ६ ॥

महद्वच ॥७॥

पदच्छेद—महद्वत्, च ।

पदार्थोक्ति—महद्वच—यथा ‘बुद्धेरात्मा महान् पर.’ इत्यत्र महच्छब्दो
न साङ्ख्यामिमतद्वितीयतत्त्ववाची एवमेव वैदिकाव्यक्तशब्दोऽपि न प्रधानवाचकः ।

भाषार्थ—‘बुद्धेरात्मा०’ (बुद्धिसे महान् आत्मा श्रेष्ठ है) इसमें पठित महत्
शब्द जैसे साङ्ख्यामिमत दूसरे तरफका वाचक नहीं है, उसी प्रकार वैदिक
अव्यक्त शब्द भी प्रधानका वाचक नहीं है ।



भाष्य

यथा महच्छब्दः साङ्ख्यैः सत्तामात्रेऽपि प्रथमजे प्रयुक्तो न तमेव वैदिकेऽपि प्रयोगेऽभिधत्ते, 'बुद्धेरात्मा महान्परः' (का० १।३।१०), 'महान्तं विभुमात्मानम्' (का० १।२।२२), 'वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्' (श्वे० ३।८) इत्येवमादावात्मशब्दप्रयोगादिभ्यो हेतुभ्यः, तथाऽव्यक्तशब्दोऽपि न वैदिके प्रयोगे प्रधानमभिधातुमर्हति । अतश्च नास्त्यानुमानिकस्य शब्दवचनम् ॥७॥

भाष्यका अनुवाद

जैसे सांख्याचार्योंसे सत्तामात्र, प्रथमोत्पन्न, महत्त्व अर्थमें प्रयुक्त महत्शब्द 'बुद्धेरात्मा० (बुद्धिसे महान् आत्मा श्रेष्ठ है) 'महान्तं विभुमात्मानं०' (महान् विभु आत्माको) 'वेदाहमेतं पुरुषं०' (मैं उस महान् पुरुषको जानता हूँ) इत्यादिमें आत्म-शब्दप्रयोग आदि हेतुओंसे वैदिक प्रयोगमें उसी अर्थका अभिधान नहीं करता, उसी प्रकार अव्यक्तशब्द भी वैदिक प्रयोगमें प्रधानका अभिधान नहीं कर सकता । इससे सिद्ध हुआ कि अनुमानसिद्ध प्रधान श्रुतिप्रतिपादित नहीं है ॥ ७ ॥

रत्नप्रभा

श्रौतः अव्यक्तशब्दो न सांख्यासाधारणतत्त्वगोचरः, वैदिकशब्दत्वात्, महच्छब्दवदित्याह—महद्वच्चेति । सूत्रं व्याचष्टे—यथेत्यादिना । न च आकाशादिशब्दे व्यभिचारः, आकाशादेः मतान्तरसाधारणत्वेन सांख्यासाधारणत्वासिद्धेः साध्यस्यापि सत्त्वादिति मन्तव्यम् । सत्तामात्रे सत्त्वप्रधानप्रकृते आद्यपरिणामे निर्विकल्पकबुद्धौ इत्यर्थः । "आत्मा महान्" [क० ३।१०] इत्यात्मशब्दप्रयोगात्, "तं मत्वा न शोचति" (क० २।२२) "तमसः परस्ताद्" [श्वे० १ ३।८] इत्यादिना शोकात्ययतमः परत्वादिभ्यश्च महच्छब्दः सांख्यतत्त्वं नाऽभिवचते इति सम्बन्धः । अधिकरणार्थम् उपसंहरति—अतश्चेति ॥७॥(१)

रत्नप्रभाका अनुवाद

श्रुतिस्थ अव्यक्तशब्द सांख्यके असाधारण तत्त्वका प्रतिपादन नहीं करता, वैदिकशब्द होनेसे, महत्शब्दके समान, ऐसा कहते हैं—'महद्वच्च' इससे । सूत्रका व्याख्यान करते हैं—'यथा' इत्यादिसे । आकाश आदि शब्दोंमें उपर्युक्त अनुमानगत हेतुके व्यभिचारकी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आकाश आदि सांख्यमतके असाधारण तत्त्व नहीं हैं क्योंकि अन्य तार्किक आदि भी उन्हें मानते हैं । अतः साध्य भी है । "सत्तामात्र" । सत्त्वगुण जिसमें प्रधान है उस प्रकृतिका जो आद्य परिणाम है वह महत् है, अर्थात् निर्विकल्पक बुद्धि । "आत्मा महान्" इस प्रकार आत्मशब्दका प्रयोग है । "तं मत्वा" (उस आत्माका चिन्तन करके शोकको प्राप्त नहीं होता) एव "तमसः" (जो वह महान् पुरुष अन्धकारसे पर है, उसको मैं जानता हूँ) इस प्रकार शोकका नाश तथा अन्धकारसे परत्व कहा गया है—इन हेतुओंसे महत्शब्द सांख्यतत्त्वका अभिधान नहीं करता, ऐसा सम्बन्ध है । अधिकरणके अर्थका उपसंहार करते हैं—'अतश्च' इत्यादिसे ॥७॥

[२ चमसाधिकरण सू० ८-१०]

अजा हि साङ्ख्यप्रकृतिस्तेजोऽवन्नात्मिकाऽथवा ।

रजआदौ लोहितादिलक्ष्येऽसौ साङ्ख्यशास्त्रगा ॥१॥

लोहितादिप्रत्यभिज्ञा तेजोऽवन्नादिलक्षणाम् ।

प्रकृतिं गमयेच्छ्रौतीमजाक्लृप्तिर्मधुत्ववत्* ॥२॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—‘अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम्’ इस श्रुतिमें उक्त अजाशब्द सांख्याभिमत प्रकृतिका वाचक है अथवा तेज, जल और अन्नरूप प्रकृतिका ?

पूर्वपक्ष—लोहित, शुक्ल एवं कृष्ण शब्दोंसे रज, सत्त्व एवं तमोगुण लक्षित होते हैं, अतः सांख्यशास्त्रोक्त प्रकृति अजा है ।

सिद्धान्त—छान्दोग्यश्रुतिमें लोहित, शुक्ल और कृष्ण क्रमशः तेज, जल और अन्नके धर्म कहे गये हैं, यहां भी उन्हींकी प्रत्यभिज्ञा होती है, अतः उन धर्मोंसे युक्त तेज, जल और अन्नरूप प्रकृति ही प्रकृत श्रुतिमें अजाशब्दसे कही गई है । उक्त प्रकृतिमें अजात्वकी कल्पना आदित्यमें मधुत्वकी कल्पनाकी तरह है ।

* निष्कर्ष यह है कि श्वेताश्वतर उपनिषद्के चौथे अध्यायमें श्रुति है—‘अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम्’ । यहां संशय होता है कि अजाशब्दसे सांख्यशास्त्रमें कथित प्रधान विवक्षित है अथवा छान्दोग्यश्रुतिमें उक्त तेज, जल और अन्नरूप प्रकृति ?

पूर्वपक्षी कहता है कि अजाशब्दसे प्रधान अभिप्रेत है, क्योंकि वह अजा सत्त्व, रज एवं तमोगुणारमक कही गई है । यद्यपि श्रुतिमें लाल, सफेद और काले वर्ण ही सुने जाते हैं, गुण नहीं सुने जाते तो भी लोहित आदि शब्दोंसे गुण लक्षित होते हैं । रागोत्पादकारवरूप सादृश्यसे लोहितशब्दसे रजोगुण लक्षित होता है, स्वच्छत्वरूप सादृश्यसे शुक्लशब्दसे सत्त्वगुण लक्षित होता है, आवरकारवरूप सादृश्यसे कृष्णशब्दसे तमोगुण लक्षित होता है । इस प्रकार सांख्याभिमत प्रधान अजाशब्दसे कहा गया है ।

सिद्धान्ती कहते हैं कि ‘यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपम्, यच्चुडं तद्रूपम्, यत्कृष्णं तद्रूपम्’ (अग्निमें जो रक्तवर्ण है वह तेजका है, जो शुक्लवर्ण है वह जलका है और जो कृष्णवर्ण है वह अन्नका है) इस छान्दोग्य श्रुतिमें उक्त तेज, जल और अन्नरूप प्रकृतिके लोहित, शुक्ल और कृष्णरूपोंकी प्रत्यभिज्ञा प्रकृत श्रुतिमें होती है । श्रुतिप्रत्यभिज्ञाकी अपेक्षा श्रुतिप्रत्यभिज्ञा बलवती होती है । लोहित आदिशब्दोंके मुख्य अर्थका संभव है, इसलिये वात होना है कि तेज, जल और अन्नरूप प्रकृति ही अजाशब्दसे कही गई है । यद्यपि अजाशब्द बकरी का वाचक है, अतः उक्त प्रकृतिमें रूढ नहीं है और ‘न जायते’ (नहीं उत्पन्न होती) इस प्रकार व्युत्पत्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि तेज आदि मद्रासे उत्पन्न होते हैं, तो भी उक्त प्रकृतिका अनायास बोध होनेके लिये उसमें दृग्गत्वकी कल्पना होती है, जैसे कि ‘असौ वा आदित्यो देवमधु’ (आदित्य देवतामौक्य मधु है) इसवादि वानश्वमें मधुमें भिन्न आदित्यमें मधुत्वकी कल्पना की गई है । इससे सिद्ध हुआ कि तेज, जल और अन्नरूप प्रकृति ही प्रकृत श्रुतिमें अजाशब्दसे कही गई है ।

चमसवदविशेषात् ॥ ८ ॥

पदच्छेद—चमसवत्, अविशेषात् ।

पदार्थोक्ति—चमसवत्—यथा 'अर्वाग्बिलश्चमसः' इत्यादौ अयं चमस इत्यवधारणं न भवति कथंचिद्वर्वाग्बिलत्वादेरन्यत्राप्यविशेषात् एवम्, अविशेषात्—'अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम्' इति मंत्रेऽपि अजात्वादेरविशेषान्न प्रधाननिर्णयः, [अतः प्रधानमशब्दम्] ।

भाषार्थ—जैसे 'अर्वाग्बिल०' (जिसके अधोभागमें बिल है एवं ऊर्ध्वभागमें जो गोलाकार होता है, वह चमस है) इसमें 'यही चमस है' इस प्रकार विशेषरूपसे किसी पदार्थका निर्धारण नहीं होता है, क्योंकि अर्वाग्बिलत्व आदि साधारण धर्म हैं, वे अनेकमें रह सकते हैं, इसी प्रकार 'अजामेकाम्०' इस मंत्रमें भी अजात्व आदि धर्मोंके साधारण होनेसे प्रधानता निश्चय नहीं हो सकता । इसलिये प्रधान श्रुतिप्रतिपादित नहीं है ।

भाष्य

पुनरपि प्रधानवाद्यशब्दत्वं प्रधानस्याऽसिद्धमित्याह, कस्मात् ?
मन्त्रवर्णात्—

भाष्यका अनुवाद

प्रधानवादी फिर भी कहता है कि प्रधानको अशब्द कहना असिद्ध है,

रत्नप्रभा

चमसवदविशेषात् । अत्राऽजापदं विषयः, तत् किं प्रधानपरं मायापरं वा इति रूढार्थासम्भवात् संशये पूर्वत्र अव्यक्तशब्दमात्रेण प्रधानस्य अप्रत्यभिज्ञायामपि अत्र त्रिगुणत्वादिलिङ्गोपेताद् अजापदात् प्रत्यभिज्ञाऽस्तीति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षयति—पुनरपीति । फलं पूर्वपक्षे ब्रह्मणि समन्वयासिद्धिः, सिद्धान्ते

रत्नप्रभाका अनुवाद

यहांपर 'अजा' पद विषय है, रूढ अर्थका संभव न होनेसे अजापद प्रधानपरक है या मायापरक ? ऐसा संशय होनेपर पूर्व अधिकरणमें केवल अव्यक्तपदसे प्रधानकी प्रत्यभिज्ञा भले न हुई हो परन्तु यहाँ तो त्रिगुणत्व आदि लिङ्गोंमें युक्त अजापदसे प्रधानकी प्रत्यभिज्ञा होगी इस प्रकार प्रत्युदाहरणसे पूर्वपक्ष करते हैं—'पुनरपि' इत्यादिसे । ब्रह्ममें वेदान्तवक्त्योंके समन्वयकी असिद्धि पूर्वपक्षम फल है और सिद्धान्तमें उरुकी सिद्धि फल है ऐसा पूर्वके समान

भाष्य

‘अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः ।

अजो ह्येको जुपमाणोऽनुशोते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥’

(श्वे० ४ । ५) इति । अत्र हि मन्त्रे लोहितशुक्लकृष्णशब्दै रजःसत्त्वतमांस्यमिधीयन्ते । लोहितं रजः, रञ्जनात्मकत्वात् ; शुक्लं सत्त्वम्, प्रकाशात्मकत्वात् ; कृष्णं तमः, आवरणात्मकत्वात् । तेषां साम्यावस्थाऽवयवधर्मैर्व्यपदिश्यते—लोहितशुक्लकृष्णेति । नं जायत इति चाऽजा स्यात्, ‘मूलप्रकृतिरविकृतिः’ इत्यभ्युपगमात् । नन्वजाशब्दश्छागायां रूढः । वादम् ।

भाष्यका अनुवाद

क्योंकि ‘अजामेकां लोहितं’ (त्रिगुणात्मक एवं समान बहुत-सी प्रजाओंको उत्पन्न करनेवाली एक अजाका सेवन करता हुआ एक अज उसके पास सोता है और दूसरा भोगनेके अनन्तर उसका परित्याग कर देता है) ऐसी श्रुति है । इस श्रुतिमें लोहित, शुक्ल और कृष्ण शब्दोंसे रज, सत्त्व और तमका अभिधान होता है । लोहित रागात्मक होनेसे रज है, शुक्ल प्रकाशात्मक होनेसे सत्त्व है और कृष्ण आवरणात्मक होनेसे तम है । लोहित, शुक्ल और कृष्ण इन अवयवधर्मोंसे उनकी साम्यावस्था कही जाती है । जिसका जन्म नहीं होता वह अजा है, क्योंकि ‘मूलप्रकृतिरविकृतिः’ (मूलप्रकृति उत्पन्न नहीं होती) ऐसा सांख्य लोग मानते हैं । अजाशब्द बकरीमें रूढ है, उससे प्रधानका ग्रहण कैसे होगा ? अवश्य रूढ है,

रत्नप्रभा

तत्सिद्धिरिति पूर्ववद् द्रष्टव्यम् । रागहेतुत्वादिगुणयोगाद् लोहितादिशब्दै रजआदिगुणलाभेऽपि कथं प्रधानलाभः, तत्राह—तेषां साम्येति । अवयवाः प्रधानस्य रजआदयः तेषां धर्माः रञ्जकत्वादयः तैः निमित्तैः लोहितादिशब्दैः प्रधानमुच्यते इत्यर्थः । गुणामेदात् प्रधानलाभ इति भावः । तत्र अजाशब्दं योजयति—नेति । ‘रूढिर्योगमपहरति’ इति न्यायेन शङ्कते—नन्विति । रूढ्यसम्भवाद् योग

रत्नप्रभाका अनुवाद

समझना चाहिए । रजोगुण रागका हेतु है, इसलिए उसका लोहितशब्दसे ग्रहण है । इसी प्रकार दूसरे गुणोंका ग्रहण है, परन्तु उससे प्रधानका लाभ किस प्रकार होता है ? इसपर कहते हैं—‘तेषां साम्या’ इत्यारिसे । गुणोंकी साम्यावस्था जो प्रधान है, उसके अवयव रज आदि हैं उनके धर्म रञ्जकत्व आदि हैं, इसलिए लोहित आदि शब्दोंसे प्रधानका अभिधान होता है । यहाँके गुणोंसे प्रधानके अवयवोंमें भेद न होनेसे प्रधानका लाभ होता है—यह भाव है । इसमें अजाशब्दका यागिक अर्थ कहते हैं—‘न’ इत्यादिते । ‘रूढिर्योगमपहरति’ (रूढि योगसे

भाष्य

सा तु रूढिरिह नाश्रयितुं शक्या, विद्याप्रकरणात् । सा च बह्वीः प्रजास्रै-
गुण्यान्विता जनयति, तां प्रकृतिमज एकः पुरुषो जुपमाणः प्रीयमाणः सेव-
मानो वाऽनुशेते । तामेवाऽविद्ययाऽऽत्मत्वेनोपगम्य सुखी दुःखी मूढो-
ऽहमित्यविवेकितया संसरति, अन्यः पुनरजः पुरुष उत्पन्नविवेकज्ञानो
विरक्तो जहात्येनां प्रकृतिं भुक्तभोगां कृतभोगापवर्गां परित्यजति मुच्यत
इत्यर्थः । तस्माच्छ्रुतिमूलैव प्रधानादिकल्पना कापिलानामिति ।

एवं प्राप्ते ब्रूमः—नाऽनेन मन्त्रेण श्रुतिमत्त्वं सांख्यवादस्य शक्यमा-

भाष्यका अनुवाद

परन्तु उस रूढिका वहां ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि यह विद्याका प्रकरण है ।
यह अजा तीनगुणवाली बहुत प्रजाओंको जन्म देती है । एक अज अर्थात्
पुरुष उस प्रकृतिपर प्रेम रखता हुआ या उसका सेवन करता हुआ उसके पास
शयन करता है । अर्थात् अविद्यासे उसीको आत्मा समझकर 'मैं दुःखी, सुखी एवं मूढ
हूँ' इस प्रकार अविवेकसे संसारचक्रमे पड़ता है । परन्तु जिसमें विवेक-ज्ञान
उत्पन्न हो चुका ऐसा दूसरा विरक्त अज अर्थात् पुरुष जिसने भोग और
अपवर्ग प्राप्तकर लिये हैं, इस प्रकृतिका परित्याग करता है अर्थात् मुक्त हो जाता
है । इसलिए कपिलमतानुयायियोंकी प्रधान आदिकी कल्पना श्रुतिमूलक ही है ।

ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं—इस मन्त्रसे सांख्यवाद श्रुति-

रत्नप्रभा

आश्रयणीय इत्याह—बाढमिति । अजाशब्दितप्रकृतित्वपुरुषभेदलिङ्गाभ्यामपि
प्रधानप्रत्यभिज्ञा इत्याह—सा चेत्यादिना । प्रजायन्त इति प्रजाः—महदादयः ।
त्रैगुण्यम्—सुखदुःखमोहाः । अनुशयनं विवृणोति—तामेवाऽविद्ययेति ।
अविवेकेन इत्यर्थः । विषयधीः—भोगः, गुणभिन्नात्मरूपातिः—अपवर्गः ।
सिद्धान्तयति—एवं प्राप्ते इति । मायादौ अपि साधारणात् मन्त्राद्

रत्नप्रभाका अनुवाद

बलवत्तर है, इस न्यायसे शङ्का करते हैं—“ननु” इत्यादिसे । रूढिका सम्भव न होनेसे योगका
आश्रयण करना चाहिए, ऐसा कहते हैं—“बाढम्” इत्यादिसे । अजाशब्दवाच्य प्रकृतित्व और
पुरुषभेदरूप हेतुओंसे भी प्रधानकी प्रत्यभिज्ञा होती है, ऐसा कहते हैं—“सा च” इत्यादिसे । जो जन्म
ले, वे प्रजा कहलाते हैं अर्थात् महत् आदि । तीन गुण—सुख, दुःख और मोह । ‘अनुशेते’ का
न्याख्यान करते हैं—“तामेवाऽविद्यया” इत्यादिसे । शब्द आदि विषयोंकी उपलब्धि भोग है ।
गुणभिन्न आत्मरूपाति अपवर्ग है । सिद्धान्त कहते हैं—“एव प्राप्ते” इत्यादिसे । माया आदिमें

भाष्य

श्रयितुम् । नह्ययं मन्त्रः स्वातन्त्र्येण कंचिदपि वादं समर्थयितुमुत्सहते । सर्वत्रापि यथा कयाचित् कल्पनयाऽजात्वादिसंपादनोपपत्तेः, साङ्ख्यवाद एवेहाऽभिप्रेत इति विशेषावधारणकारणाभावात् । चमसवत् । यथा हि 'अर्वाग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नः' (वृ० २।२।३) इत्यस्मिन् मन्त्रे स्वातन्त्र्येणाऽयं नामाऽसौ चमसोऽभिप्रेत इति न शक्यते नियन्तुम्, सर्वत्रापि यथाकथंचिदर्वाग्बिलत्वादिकल्पनोपपत्तेः । एवमिहाप्यविशेषोऽजामेकामित्यस्य मन्त्रस्य, नाऽस्मिन् मन्त्रे प्रधानमेवाऽजाभिप्रेतेति शक्यते नियन्तुम् ॥८॥

तत्र तु 'इदं तच्छिर एष ह्यर्वाग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नः' इति वाक्यशेषाच्चमसविशेषप्रतिपत्तिर्भवति, इह पुनः केयमजा प्रतिपत्तव्येति, अत्र ब्रूमः—

भाष्यका अनुवाद

प्रतिपादित है ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मन्त्र स्वतन्त्रतासे किसी भी वादका समर्थन नहीं कर सकता । सभी वादोंमें जिस किसी कल्पनासे अजात्व आदिका सम्पादन किया जा सकता है और सांख्यवाद ही यहां अभिप्रेत है इस प्रकार विशेषके निर्धारणमें कोई प्रमाण नहीं है । चमसके समान । जैसे 'अर्वाग्बिलश्चमस' (चमस अर्थात् जिसके अधोभागमें तिरछा बिल है और ऊर्ध्वभाग गोल है ऐसा यज्ञपात्र) इस मन्त्रमें यही चमस है ऐसा स्वतन्त्र-रीतिसे निरूपण नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर्वत्र ही किसी न किसी प्रकार अर्वाग्बिलत्व आदिकी कल्पना हो सकती है । उसी प्रकार यहां भी 'अजामेकाम्' यह मन्त्र किसीका विशेषरूपसे प्रतिपादक नहीं है । इस मन्त्रमें अजासे प्रधान ही अभिप्रेत है ऐसा नियम नहीं कर सकते ॥ ८ ॥

परन्तु इसमें 'इदं तच्छिर एष' (यह वह सिर है जो कि अधोमुख एवं ऊपर गोलाकार है) ऐसा वाक्यशेष होनेसे चमसविशेषकी प्रतीति होती है, किन्तु यहां अजापदसे किस अजाका ग्रहण किया जाय, इसपर कहते हैं—

रत्नप्रभा

विशेषार्थग्रहो न युक्तः, विशेषग्रहहेतोः प्रकरणादेः अभावादिति हेतुं व्याख्याय दृष्टान्तं व्याचष्टे—चमसवदिति । सर्वत्र—गिरिगुहादौ अपि ॥ ८ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

भी यह मन्त्र साधारण है, ऐसे साधारण मन्त्रसे विशेष अर्थकी प्रतीति युक्त नहीं है, क्योंकि विशेष प्रतीतिका हेतु प्रकरण आदि यहाँ नहीं है, इस प्रसार हेतुका व्याख्यान करके दृष्टान्तका व्याख्यान करते हैं—“चमसवत्” इत्यादिमें । “गर्वत्र” गिरिगुहा आदिमें भी ॥ ८ ॥

ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यधीयते एके ॥ ९ ॥

पदच्छेद—ज्योतिरुपक्रमा, तु, तथा, हि, अधीयते, एके ।

पदार्थोक्ति—ज्योतिरुपक्रमा—तेज उपक्रमे यस्यास्तेजोवन्नलक्षणायाः सा, तु—एव [अत्र निर्धारणीया, न प्रधानम्, कुतः] -हि—यस्मात्, एके—छन्दोगाः, तथा—तेजोवन्नात्मिकायाः प्रकृतेः रोहितादिरूपताम्, अधीयते—समामनन्ति ।

भाषार्थ—तेज जिसके आरम्भमें है, उसी तेज, जल, अन्नरूप प्रकृतिका अजाशब्दसे निश्चय करना चाहिए न कि प्रधानका, क्योंकि छन्दोग तेज, जल, अन्नरूप प्रकृतिका रोहित आदिरूप कहते हैं ।

भाष्य

परमेश्वरादुत्पन्ना ज्योतिःप्रमुखा तेजोवन्नलक्षणा चतुर्विधस्य भूत-ग्रामस्य प्रकृतिभूतेयमजा प्रतिपत्तव्या । तुशब्दोऽवधारणार्थः । भूतत्रय-लक्षणैवेयमजा विज्ञेया, न गुणत्रयलक्षणा । कस्मात् ? तथा ह्येके शाखिन-

भाष्यका अनुवाद

यहांपर अजापदसे उस अजाका ग्रहण करना चाहिए जो परमेश्वरसे उत्पन्न हुई है, तेज, जल और अन्नस्वरूप है और चार प्रकारके भूतसमूहकी जननी है । सूत्रमें 'तु' शब्दका अवधारण (नियम) अर्थ है । यह अजा तेज, जल और अन्नरूप ही है, त्रिगुणात्मक नहीं है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि छन्दोगशाखावाले तेज,

रत्नप्रभा

उत्तरसूत्रव्यावर्त्याशङ्कामाह—तत्र त्विदमिति । चतुर्विधस्येति । जरायु-जाण्डजस्वेदजोद्भिज्जरूपस्य इत्यर्थः । स्मृत्युक्ता कुतो न ग्राह्या इति शङ्कते-कस्मादिति । श्रुतेः श्रुत्यन्तराद् अर्थग्रहो युक्तः, साजात्यात् मूलानपेक्षत्वाच्च इत्याह—तथा हीति । शाखिनः—छन्दोगाः । किञ्च, रोहितादिशब्दैः अपि

रत्नप्रभाका अनुवाद

जिस शंकाका उत्तर सूत्रसे समाधान होनेवाला है, उसे कहते हैं—“तत्र त्विदम्” इत्यादिसे । “चतुर्विधस्य” अर्थात् जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज्जरूपका । साख्या-भिमत प्रधानका ग्रहण क्यों नहीं होता, ऐसी शंका करते हैं—“कस्माद्” इत्यादिसे । सजातीय होने एवं मूलकी अपेक्षा न रखनेके कारण एक धृतिका अन्य धृतिके अनुसार अर्थ-ग्रहण करना युक्त है, ऐसा कहते हैं—“तथाहि” इत्यादिसे । ‘शाखिनः’—छन्दोग अर्थात् सामवेदों ।

भाष्य

स्तेजोवन्नानां परमेश्वरादुत्पत्तिमात्राय तेषामेव रोहितादिरूपतामाम-
नन्ति—‘यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्य’
इति । तान्येवेह तेजोवन्नानि प्रत्यभिज्ञायन्ते, रोहितादिशब्दसामान्यात्,
रोहितादीनाञ्च शब्दानां रूपविशेषेषु मुख्यत्वाद् भाक्तत्वाच्च गुणविषय-
त्वस्य । असंदिग्धेन च संदिग्धस्य निगमनं न्याय्यं मन्यन्ते । तथेहापि
‘ब्रह्मवादिनो वदन्ति, किंकारणं ब्रह्म’ (श्वे० १ । १) इत्युपक्रम्य ‘ते

भाष्यका अनुवाद

जल और अन्नकी परमेश्वरसे उत्पत्ति कहकर ‘यदग्ने रोहितं रूपं’ (अग्निमे
जो रक्तरूप है, वह तेजका है, जो शुक्लरूप है, वह जलका है और जो कृष्ण है,
वह अन्नका है) इस प्रकार उनके ही रोहित आदि रूप कहते हैं । यहां उन्हीं
तेज, जल और अन्नकी प्रत्यभिज्ञा होती है, क्योंकि रोहित आदि शब्द समान
हैं । रोहित आदि शब्दोंका मुख्य अर्थ रूपविशेष है, गुणोंकी तो प्रतीति
लक्षणा द्वारा होती है और असंदिग्ध वाक्यसे संदिग्ध वाक्यके अर्थका निश्चय करना
न्यायसंगत माना जाता है । उसी प्रकार यहां भी ‘ब्रह्मवादिनो’ (ब्रह्मवादी कहते

रत्नप्रभा

द्रव्यलक्षणा न्याय्या, अव्यवधानात्, न तु रज्जनीयत्वादिगुणव्यवहिता सत्त्वादि-
गुणलक्षणा इत्याह—रोहितादीनाञ्चेति । ननु शाखान्तरेण शाखान्तरस्यमन्त्रस्य
निर्णयः कथमित्यत आह—असन्दिग्धेनेति । सर्वशाखाप्रत्ययन्यायादिति भावः ।
यथा शाखान्तरवाक्यात् न प्रधानग्रहः, तथा इहापि श्वेताश्वतरोपनिषदि माया-
प्रकरणान्न तद्ग्रह इत्याह—तथेति । सृष्ट्यादौ किसहायं ब्रह्म इति विमृश्य, ते
ब्रह्मवादिनो ध्यानाख्ययोगेन परमात्मानमनुप्रविष्टाः सन्तः तत्रैव देवस्य आत्म-

रत्नप्रभाका अनुवाद

रोहित आदि शब्दोंसे लक्षणा द्वारा द्रव्यका ग्रहण करना उचित है, क्योंकि व्यवधान नहीं है,
रंजनीयत्व आदि गुणोंसे व्यवहित सत्त्व आदि गुणोंमें लक्षणा नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहते
हैं—“रोहितादीनां च” इत्यादिसे । यदि कोई कहे कि एक शाखाके मन्त्रके अर्थका निर्णय
दूसरी शाखाके मन्त्रसे किस प्रकार हो सकता है ? उसपर कहते हैं—“असंदिग्धेन” इत्यादिसे ।
सर्वशाखाप्रत्ययन्यायसे ऐसा अर्थ है । जैसे शाखान्तरवाक्यसे प्रधानका ग्रहण नहीं होता,
वैसे ही पूर्वापरपर्यालोचन करनेसे प्रतीत होता है कि यह श्वेताश्वतर श्रुति भी प्रकृत मायाका
प्रतिपादन करती है, प्रधानका प्रतिपादन नहीं करती है, ऐसा कहते हैं—“तथा” इत्यादिसे ।
सृष्टिके आदिमें ब्रह्मका महायक रत्न है, ऐसा विचार करके ध्यानसहक योग—गमाभिगे

भाष्य

ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम्' (श्वे० १ । ३) इति पारमेश्वर्याः शक्तेः समस्तजगद्विधायिन्या वाक्योपक्रमेऽवगमात् । वाक्यशेषेऽपि 'मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्' इति । 'यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येकः' (श्वे० ४ । १०, ११) इति च तस्या एवावगमान्न स्वतन्त्रा काचित् प्रकृतिः प्रधानं नामाजामन्त्रेणाज्ञायत इति शक्यते वक्तुम् । प्रकरणान्तु सैव दैवी शक्तिरव्याकृतनामरूपा नामरूपयोः प्रागव-

भाष्यका अनुवाद

हैं, सृष्टिमें ब्रह्मका सहायक कौन है) ऐसा उपक्रम करके 'ते ध्यानयोगानुगता०' (ऋषियोंने समाधिस्थ होकर अपने गुणोंसे अत्यन्त गुप्त हुई देवकी आत्मशक्तिका साक्षात्कार किया) इस कथनसे समस्त जगत्को उत्पन्न करनेवाली परमेश्वरकी शक्ति वाक्यके उपक्रममें समझी जाती है । वाक्यशेषमें भी 'मायां तु प्रकृतिं०' (प्रकृतिको माया जाने और महेश्वरको मायावी जाने) और 'यो योनिं योनिं०' (जो एक परमात्मा प्रत्येक अविद्याशक्तिरु अधिष्ठाता है) इस प्रकार उसी शक्तिकी प्रतीति होनेसे प्रधान नामकी कोई भी स्वतंत्र प्रकृति अजामंत्रसे प्रतिपादित नहीं हो सकती । प्रकरणसे तो वही दैवी शक्ति, जिसमें

रत्नप्रभा

भूतान् ऐक्येन अध्यस्तां शक्तिं परतन्त्रां मायां सत्त्वादिगुणवतीं ब्रह्मणः सहायम् अपश्यन्नित्यन्वयः । मायाया एकत्वेऽपि तदंशानां जीवोपाधीनां तत्तत्संघातयोनीनामविद्याख्यानां भेदाद् वीप्सा, अव्याकृते अनभिव्यक्ते नामरूपे यस्यां सा । अनेन "तद्भेदं तर्ह्यव्याकृतमासीद्" इति श्रुत्यन्तरप्रसिद्धिरुक्ता । तस्यां शक्तौ व्यक्ताव्यक्तकार्यलिङ्गकानुमानं सूचयति—नामेति । मायाया रोहितादिरूपवत्त्वं

रत्नप्रभाका अनुवाद

परमत्ममें प्रविष्ट होकर उन ब्रह्मवादियोंने उस देवकी आत्मभूत अर्थात् ऐक्यसे अध्यस्त शक्ति सत्त्वादिगुणवाली परतंत्र मायाको ब्रह्मकी सहायक जाना, 'ते ध्यानयोगानुगता' इत्यादिका ऐसा अन्वय है । मायाके एक होनेपर भी उसके अंशभूत एवं तत्तत्समूहके कारणभूत अविद्यानामक जीवकी उपाधियोंके भेदसे 'योनिं योनिम्' इस प्रकार वीप्सा कही गई है । अव्याकृतनामरूपा—अनभिव्यक्त नाम और रूप हैं जिसके । इससे 'तद्भेदं तर्ह्य०' (यह जगत् सृष्टिके पहले अनभिव्यक्त था) इस अन्य श्रुतिकी भी प्रामाण्य कही गई है । उस दैवी शक्तिमें व्यक्ताव्यक्त-कार्यलिङ्गक अनुमान भी प्रमाण है, ऐसा सूचित करते हैं—'नाम' इत्यादिसे । परन्तु मायाशक्तिरु रोहित आदि स्वरूप किस प्रकार है, इसपर कहते हैं—

भाष्य

स्थानेनापि मन्त्रेणाऽऽम्नायत इत्युच्यते । तस्याश्च स्वविकारविषयेण त्रैरूप्यमुक्तम् ॥९॥

कथं पुनस्तेजोवन्नानां त्रैरूप्येण त्रिरूपाऽजा प्रतिपत्तुं शक्यते, यावता न तावत्तेजोवन्नेष्वजाकृतिरस्ति, न च तेजोवन्नानां जातिश्रवणादजातिनिमित्तोऽप्यजाशब्दः संभवतीति । अत उत्तरं पठति—

भाष्यका अनुवाद

नाम और रूप अव्याकृत हैं और जो नाम और रूपकी पूर्वावस्था है, इस मंत्रसे भी प्रतिपादित होती है, ऐसा कहा जाता है और उसके विकार—तेज, जल और अन्न त्रिरूप हैं, अतः वह भी त्रिरूप कही गई है ॥ ९ ॥

तव तेज, जल और अन्नके त्रैरूप्यसे अजा त्रिरूप किस प्रकार मानी जाय ? जब कि तेज, जल और अन्नमें अजाकी आकृति नहीं है और तेज, जल और अन्नकी उत्पत्ति श्रुतिमें कही गई है, इसलिए उत्पत्ति न होनेके कारण वे अज-शब्दवाच्य हैं ऐसा भी नहीं कह सकते, इसलिए उत्तर सूत्र कहते हैं—

रत्नप्रभा

कथमित्यत आह—तस्या इति । विषयः—आश्रयः । एवं प्रकरणबलात् माया एव अजा इति भाष्यकृन्मतम् ॥ ९ ॥

छान्दोग्यश्रुत्या तेजोऽवन्नलक्षणाऽवान्तरप्रकृतिः अजा इति सूत्रकृन्मतेन उत्तर-सूत्रव्यावर्त्यं शङ्कते—कथमिति । किं तेजोऽवन्नेषु अजाशब्दो रूढः, न जायत इति यौगिको वा ? नाऽऽद्यः, तेषु, अजात्वजातेः असत्त्वादित्याह—यावतेति । यत इत्यर्थः । अतो न रूढ इति शेषः । न द्वितीय इत्याह—न चेति । जातिः—जन्म, अजातिः—अजन्म ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

“तस्याः” इत्यादिसे । विषय—आश्रय । इस प्रकार प्रकरणके बलसे माया ही अजा है, ऐसा भाष्यकारका अभिप्राय है ॥ ९ ॥

छान्दोग्य श्रुतिके अनुसार तेज, जल और अन्नस्वरूप अवान्तर प्रकृति अजा है, सूत्रकारके इस मतका अपलम्पन करके उत्तर सूत्रसे निराकरणीय शंका कहते हैं—“कथम्” इत्यादिसे । क्या तेज, जल और अन्नमें ‘अजा’ शब्द रूढ है या ‘न जायते’ इस प्रकार यौगिक है । रूढ तो नहीं है, क्योंकि उसमें अजात्वजाति नहीं है, ऐसा कहते हैं—“यावता” इत्यादिसे । यावता—जिमसे । ‘अजाकृतिरस्ति’ के बाद ‘अतो न रूढः’ (इससे रूढ नहीं है) इतना शेष ससप्तना चाहिए । यौगिक नहीं है, ऐसा कहते हैं—“न च” इत्यादिसे । जाति—उत्पत्ति, अजाति—अनुत्पत्ति ।

कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविरोधः ॥ १० ॥

पदच्छेद—कल्पनोपदेशात्, च, मध्वादिवत्, अविरोधः ।

पदार्थोक्ति—कल्पनोपदेशाच्च—तेजोवन्नात्मकप्रकृतेः साम्यद्योतनार्थं कल्पनयाऽजात्वोपदेशात्, मध्वादिवत्—यथा मधुमिन्नादित्यस्य मधुत्वोपदेशः तद्वत् [अजामिन्नायाः प्रकृतेरजात्वोपदेशे] अविरोधः—न कश्चिद्विरोधः [तस्माद-शब्दं प्रधानमिति सिद्धम्]

भाषार्थ—तेज, जल, अन्नरूप प्रकृतिकी समानता दिखलानेके लिए कल्पनासे अजात्वका उपदेश किया गया है । जैसे मधुमिन्न आदित्यमें मधुत्वका उपदेश है, उसी प्रकार अजामिन्न प्रकृतिमें अजात्वका उपदेश होनेसे कोई विरोध नहीं है । इससे सिद्ध हुआ कि प्रधान श्रुतिप्रतिपादित नहीं है ।

भाष्य

नाऽयमजाकृतिनिमित्तोऽजाशब्दः, नापि यौगिकः, किं तर्हि ? कल्पनोपदेशोऽयम्, अजारूपककल्मसिस्तेजोवन्नलक्षणायाश्चराचरयोनेरुपदिश्यते । यथा हि लोके यदृच्छया काचिदजा रोहितशुक्लकृष्णवर्णा स्याद् बहुवर्करा सरूपवर्करा च, तां च कश्चिदजो जुपमाणोऽनुशयीत, कश्चिच्चैनां भुक्तभोगां जह्यात्, एवमियमपि तेजोवन्नलक्षणा भूतप्रकृतिस्त्रिवर्णा बहु सरूपं चरा-

भाष्यका अनुवाद

यह अजाशब्द जातिनिमित्तक रूढ़ नहीं और यौगिक भी नहीं है । किन्तु काल्पनिक है । चराचर जगत्की कारणभूत तेज, जल और अन्नरूप चराचर प्रकृतिमें अजासादृश्यकी कल्पना की गई है । जैसे लोकमें कोई एक ऐसी अजा—वकरी हो जाय, जिसका लाल, सफेद और काला रंग हो, समान रंगवाले बहुत-से बच्चे हों, और उसके ऊपर कोई एक अज (बकरा) प्रेम करता हुआ उसके पीछे पीछे फिरे और कोई एक भोग भोगनेके पीछे इसका त्याग कर दे, वैसे ही यह भी तेज,

रत्नप्रभा

लौकिकाऽजासादृश्यकल्पनया तेजोऽवन्नानाम् अजात्वोपदेशाद् गौणोऽयं शब्द इति परिहरति—कल्पनेति । अनियमः—यदृच्छा । बर्करः—वालपशुः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

लौकिक अजाशब्दके साथ सादृश्यकी कल्पनासे तेज, जल और अन्नका अजारूपसे उपदेश किया है, इससे अजाशब्द गौण है, इस प्रकार शंकाका परिहार करते हैं—“कल्पना”

भाष्य

चरलक्षणं विकारजातं जनयति, अविदुषा च क्षेत्रज्ञेनोपभृज्यते, विदुषा च परित्यज्यत इति । न चेदमाशङ्कितव्यम्—एकः क्षेत्रज्ञोऽनुशेतेऽन्यो जहातीत्यतः क्षेत्रज्ञभेदः पारमार्थिकः परेपामिष्टः प्राप्नोति इति । नहीयं क्षेत्रज्ञभेदप्रतिषिपादयिषा किन्तु बन्धमोक्षव्यवस्थाप्रतिषिपादयिषैवैषा । प्रसिद्धं तु भेदमनूद्य बन्धमोक्षव्यवस्था प्रतिपाद्यते, भेदस्तुपाधिनिमित्तो मिथ्याज्ञानकल्पितो न पारमार्थिकः, 'एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा' इत्यादिश्रुतिभ्यः । मध्वादिषु । यथा

भाष्यका अनुवाद

जल और अन्नस्वरूप त्रिवर्णात्मक भूतप्रकृति समान रूपवाले बहुतसे चराचर लक्षण विकारोंको उत्पन्न करती है । अविद्वान् क्षेत्रज्ञ-जीव इसका उपभोग करता है और विद्वान् इसका त्याग करता है । ऐसी शक्का न करनी चाहिए कि एक क्षेत्रज्ञ इसके पास शयन करता है और दूसरा इसका परित्याग करता है, इससे पारमार्थिक क्षेत्रज्ञ भेद जो परको—सांख्यको इष्ट है, वह प्राप्त होता है, क्योंकि यह क्षेत्रज्ञके भेदका प्रतिपादन करनेकी इच्छा नहीं है, किन्तु बन्ध और मोक्षकी व्यवस्थाका प्रतिपादन करने की इच्छा है । प्रसिद्ध भेदका अनुवाद करके बन्ध और मोक्ष की व्यवस्थाका प्रतिपादन किया गया है । भेद तो उपाधिनिमित्त है और मिथ्याज्ञानसे कल्पित है, पारमार्थिक नहीं है, क्योंकि 'एको देवः सर्वभूतेषु गूढः' (एक देव सब भूतोंमें गूढ है, सबमें व्यापक है और सब भूतोंका अन्तरात्मा

रत्नप्रभा

यदुक्तम्—जीवभेदेन प्रधानवादप्रत्यभिज्ञा इति, तत् न इत्याह—न चेदमिति । व्यवस्थार्थो भेदोऽपि अर्थात् प्रतिपाद्यते इत्याह—प्रसिद्धं तु इति । सत्य एव प्रसिद्ध इत्यत आह—भेदस्त्विति । कल्पनोपदेशे दृष्टान्तं व्याचष्टे—मध्विति । न च योगस्य मुख्यवृत्तित्वात् तेन प्रधानग्रहो न्याय्य इति वाच्यम्, रूढार्थानपेक्षात्

रत्नप्रभाका अनुवाद

इत्यादिसे । यहच्छा—अनियम । बर्कर—बाल पशु । जीवभेदसे प्रधानवादकी प्रत्यभिज्ञा होती है, यह जो कहा गया है, वह युक्त नहीं, ऐसा कहते हैं—“न चेदम्” इत्यादिसे । व्यवस्थाके लिए जो भेद है, उसका भी आर्थिक प्रतिपादन होता है, ऐसा कहते हैं—“प्रसिद्धं तु” इत्यादि । यदि कोई कहे कि भेद प्रसिद्ध है, तो मत्स्य ही है, उसका निराकरण करते हैं—“भेदस्तु” इत्यादिसे । कल्पनासे उपदेश है, इसमें जो दृष्टान्त दिखाया है, उसका व्याख्यान करते हैं—“मधु” इत्यादिसे । यौगिक अर्थ मुख्य है, इसलिए उससे प्रधानका ग्रहण करना उचित है, यह नहीं कहना चाहिए । क्योंकि रूढ अर्थको अपेक्षा न रखनेवाले

भाष्य

आदित्यस्याऽमधुनो मधुत्वम् [छा० ३।१], वाचश्चाऽधेनोर्धेनुत्वम् [वृ० ५।८], द्युलोकादीनां चानग्नीनामग्नित्वम् [वृ० ८।२।९] इत्येवं-जातीयकं कल्प्यते, एवमिदमनजाया अजात्वं कल्प्यत इत्यर्थः । तस्माद-विरोधस्तेजोवन्नेवजाशब्दप्रयोगस्य ॥ १० ॥

भाष्यका अनुवाद

है) इत्यादि श्रुतियाँ हैं । मधु आदि के समान, अर्थात् जैसे आदित्य मधु नहीं है, तो भी वह मधु कहा गया है [छा० ३।१] जैसे वाणी घेनु न होने पर भी घेनु कही जाती है [वृ० ५।८] और द्युलोक आदि अग्नि नहीं हैं, तो भी अग्नि कये गये हैं [वृ० ८।२।९] इत्यादि कल्पना है । उसी प्रकार यहाँ भी जो घस्तुतः अजा नहीं है उसमें अजात्वकी कल्पना की गई है, ऐसा अर्थ है । इससे सिद्ध हुआ कि तेज, जल और अन्नमें अजाशब्दका प्रयोग विरुद्ध नहीं है ॥ १० ॥

रत्नप्रभा

योगात् तदाश्रितगुणलक्षणया बलीयस्त्वात् । गुणवृत्तौ हि रूढिः आश्रिता भवति । तथा च रोहितादिशब्दसमभिव्याहारानुगृहीतया रूढ्याश्रितया गुणवृत्त्या प्रधाने योगं बाधित्वाऽनन्तरप्रकृतिः अजाशब्देन ग्राह्या । यथा मध्वादिशब्दैः प्रसिद्ध-मध्वाद्याश्रितगुणलक्षणया आदित्यादयो गृह्यन्ते, तद्वत् । तस्मात् अशब्दं प्रधानम् इति सिद्धम् ॥ १० ॥ (२) ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

योगकी अपेक्षा रूढिके आश्रयमें रहनेवाली गुणलक्षणा अधिक बलवती है । गुणवृत्तिमें रूढिका प्रहण किया जाता है, इसलिए जैसे मधु आदि शब्दोंसे प्रसिद्ध मधु आदिके आश्रयमें स्थित गुणलक्षणासे आदित्य आदिका प्रहण होता है, वैसे ही अजाशब्दसे यौगिक अर्थ प्रधानका बाध करके रोहित आदि शब्दोंके समभिव्याहारसे अनुगृहीत रूढिके आश्रयमें रहनेवाली गुणवृत्तिसे अवान्तर प्रकृतिका प्रहण है । इससे सिद्ध हुआ कि प्रधान श्रुतिप्रतिपाद्य नहीं है ॥ १० ॥



[३ संख्योपसंग्रहाधिकरण सू० ११-१३]

पञ्च पञ्चजनाः सांख्यतत्त्वान्याहो श्रुतीरिताः ।

प्राणाद्याः सांख्यतत्त्वानि पञ्चविंशतिभासनात् ॥१॥

न पञ्चविंशतेर्भनिमात्माकाशातिरेकतः ।

संज्ञाः पञ्चजनेत्येषा प्राणाद्याः संज्ञिनः श्रुताः* ॥२॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—‘यस्मिन् पञ्च पञ्चजना’ इस श्रुतिमें साख्याभिमत तत्त्व कहे गये हैं या प्राण आदि पांच कहे गये हैं ?

पूर्वपक्ष—उक्त श्रुतिमें पञ्चविंशति सख्याका भान होता है, इसलिए साख्योक्त तत्त्व कहे गये हैं ।

सिद्धान्त—उक्त श्रुतिमें केवल पञ्चविंशति सख्याका भान नहीं होता, क्योंकि आत्मा और आकाश अतिरिक्त कहे गये हैं । ‘पञ्चजन’ यह संज्ञा है, प्राण आदि सही हैं, इसलिए प्राण आदि कहे गये हैं ।

* निष्कर्ष यह है कि बृहदारण्यकके छठे अध्यायमें श्रुति है—‘यस्मिन् पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः । तमेव मन्य आत्मानं विद्वान् मद्भाषृतोऽमृतम्’ । इसका यह अर्थ है कि पांच पञ्चजन और आकाश जिसके आश्रित हैं, उसी आत्मवस्तु आत्माओं में अमृत मदा जानता है । इस प्रकार जाननेवाला में अमृत होऊँगा । यहाँ संशय होता है कि ‘पञ्च पञ्चजना’ इससे उक्त पदार्थ सांख्यशास्त्रोक्त तत्त्व हैं अथवा श्रुतिमें उक्त प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और भग दे ?

पूर्वपक्षी कहता है कि सांख्यके तत्त्व हैं, क्योंकि सांख्यशास्त्रमें प्रसिद्ध पञ्चविंशति सख्याका भान होता है । यहाँ ‘पञ्च पञ्च’ इस प्रकार दो शब्द हैं । एक ‘पञ्च’ शब्दसे सांख्यतत्त्वपर पञ्च सख्या कही गई है और दूसरे ‘पञ्च’शब्दसे पञ्चसख्यागत पञ्चमर्यादा कही गई है । इससे पञ्चसख्यायुक्त तत्त्वपरक देना अर्थ होता है । इस प्रकार पञ्चविंशति संख्याका भान होनेसे सांख्यशास्त्रप्रतिपादित तत्त्व कहे गये हैं ।

सिद्धान्ती कहते हैं कि यद्यपि पञ्चसंख्यागत अन्य पञ्चसंख्यावा भवन है, तो भी यहाँ पञ्च विंशति संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पञ्चविंशतिसंख्या तत्त्वोंके आत्मवस्तुसे आत्मा कहा गया है । यह आत्मा पञ्चविंशतिके अन्तर्भूत नहीं है । यदि अन्तर्भूत माने तो एक हीके आधार और अभेद्य भावमें विरोध है । इससे मित्र आकाश भी कहा गया है । वह भी पञ्चविंशतिके अन्तर्भूत नहीं हो सकता, क्योंकि ‘आकाशश्च’ इस प्रकार पूर्व निर्देष्ट और समुच्चय है । इसलिए आत्मा और आकाशके साथ मन्त्रविश्रुतिवा भान होनेसे सांख्यके तत्त्व नहीं कहे जा सकते हैं । तब वाचकका अर्थ क्या है ? कहते हैं—‘पञ्चजन’ शब्द सदा है, क्योंकि ‘दिग्भस्वदे सत्त्वाम्’ (दिग्भस्वदे सत्त्वाम्) शब्द और सत्त्वाम्के वाचक शब्दोंका सत्त्वाम्के अर्थ ही तत्त्वपरदे साथ समागत होता है) इसमें मन्त्रसत्त्व विधान है । इससे पञ्चजन संज्ञावत् पदार्थ पांच है, देना

न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च ॥११॥

पदच्छेद—न, सङ्ख्योपसङ्ग्रहात्, अपि, नानाभावात्, अतिरेकात्, च ।

पदार्थोक्ति—सङ्ख्योपसङ्ग्रहादपि—‘यस्मिन् पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठित’ इत्यस्मिन् मन्त्रे श्रूयमाणया सङ्ख्यया पञ्चविंशतिसङ्ख्यानामुपसङ्ग्रहादपि, नन प्रधानस्य शब्दवत्त्वम् [कुत] नानामावात्—तेषां पञ्चानां पञ्चकानामेकपञ्चकपर्याप्तान्यपञ्चकव्यावृत्तधर्मवत्त्वाभावेन नानात्वात्, अतिरेकाच्च—अस्मिन् मन्त्रे श्रूयमाणयोरात्माकाशयोः पञ्चविंशतिसङ्ख्यातिरिक्तत्वात् [तस्मान्नात्र प्रधानादितत्त्वग्रहणमुचितम्] ।

भाषार्थ—‘यस्मिन् पञ्च०’ इस मंत्रमें श्रूयमाण सख्यावाचकपदसे पञ्चविंशति-सख्याका ग्रहण करनेपर भी पञ्चविंशतितत्त्वग्रहणद्वारा प्रधान श्रुतिप्रतिपादित नहीं हो सकता, क्योंकि उन पाचों पचकोंमें प्रत्येक केवल एक पचकमें रहने-वाला अन्य पचकमें न रहनेवाला धर्म नहीं है, इसलिए वे पाच पचक नहीं हो सकते हैं, जिससे पचविंशति सख्याके ग्रहणसे पचविंशति तत्त्वोंका ग्रहण हो जाय । और उक्त श्रुतिमें किसी प्रकार पाच पचक मानकर पचविंशति सख्याका ग्रहण करनेपर भी आत्मा और आकाश अलग कहे गये हैं, इससे सप्तविंशति तत्त्व मानने पढ़ेंगे, ऐसा मानें तो अपसिद्धान्त हो जायगा । इसलिए प्रधान आदि तत्त्वोंका ग्रहण उचित नहीं है ।

रत्नप्रभा

न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च । पञ्चजनशब्द साख्य-तत्त्वपरोऽन्यपरो वेति योगरूढ्यो अनिश्चयात् सशये यथा तत्त्वविद्याधिकारे छागाया तात्पर्याभावाद् अजापदे रूढित्याग, तथा पञ्चमनुष्येषु तात्पर्याभावात्

रत्नप्रभाका अनुवाद

“न संख्योप तिरेकाच्च” ‘यस्मिन् पञ्च पञ्चजना’ इत्यादि श्रुतिम पठित पञ्चजनशब्द वैगिक है या वृत्त यद् निश्चय न होनेसे साख्यतत्त्वाका प्रतिपादन करता है या अन्यथा, ऐसा सशय होनेपर जैम तत्त्वविद्याके प्रकरणमें बकरीरूप अर्थमें तात्पर्य न होनेसे अजामन्त्रगत अजापदमें रूढिका त्याग किया गया है वैसे ही पाच मनुष्योंम

अर्थ होता है । सही तो वाच्यशेषसे प्राण आदि समक्षने चाहिए । ‘प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रमुताश्रत्यात्र मनसो य मनो विदुः’ यह वाच्यशेष है । प्राण, चक्षुः, श्रोत्र, अत्र और मनके साथी चिदात्माका दूसरे प्राण आदि शब्दोंसे अभिधान है । इससे सिद्ध हुआ कि वाच्यशेषमें कथित प्राण आदि पांच ही पचजन हैं ।

भाष्य

एवं परिहृतेऽप्यजामन्त्रे पुनरन्यस्मान्मन्त्रात् सांख्यः प्रत्यवतिष्ठते—
'यस्मिन्पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः ।

तमेव मन्य आत्मानं विद्वान् ब्रह्मामृतोऽमृतम् ॥' (चृ० ४।४।१७) इति ।
अस्मिन् मन्त्रे पञ्च पञ्चजना इति पञ्चसंख्याविषयाऽपरा पञ्चसंख्या
श्रूयते पञ्चशब्दद्वयदर्शनात् । त एते पञ्चपञ्चकाः पञ्चविंशतिः संपद्यन्ते ।
तथा च पञ्चविंशतिसंख्यया यावन्तः संख्येया आकाङ्क्षन्ते तावन्त्येव च

भाष्यका अनुवाद

इस प्रकार अजामन्त्रे सारयमतका परिहार होनेपर भी दूसरे मन्त्रका
अवलम्बन करके सारय पुन पूर्वपक्ष करता है—'यस्मिन् पञ्च पञ्चजना०' (जिसमें
पाच पञ्चजन और आकाश प्रतिष्ठित हैं, उसी आत्माको मैं अमृत ब्रह्म मानता हूँ,
इस प्रकार जाननेवाला मैं अमृत हूँ) । इस मन्त्रमें 'पञ्च पञ्चजना' इस प्रकार
पञ्चसख्यागत दूसरी पञ्च सख्याका श्रवण है, क्योंकि दो पञ्चशब्द देखनेमें
आते हैं । वे ये पच-पचक पचीस होते हैं । उसी प्रकार पचीस सख्यासे जितने

रत्नप्रभा

पचजनशब्देन रूढि त्यक्त्वा तत्त्वानि प्राह्याणीति दृष्टान्तसङ्गतिं सूचयन् मन्त्रम्
उदाहृत्य पूर्वपक्षयति—एवमित्यादिना । फल पूर्ववत् । प्राणचक्षुश्च्रोत्रान-
मनासि वाक्यशेषस्था पञ्चजना पञ्च । तत्र चत्वार सूत्रम्, अन्न विराट्,
तयो कारणम् अव्याकृतम् आकाशश्च यस्मिन् अध्यस्ता तमेव आत्मानममृत
ब्रह्म मन्ये तस्मात् मननाद् विद्वानहममृतोऽग्मीति मन्त्रदृशो वचनम् । ननु अस्तु
पञ्चत्वविशिष्टेषु पञ्चजनेषु पुन पञ्चत्वान्वयात् पञ्चविंशतिसख्याप्रतीति
तावता कथं साख्यतत्त्वग्रह इत्याशङ्क्य सख्याया धर्म्याकाङ्क्षाया तत्त्वानि

रत्नप्रभाका अनुवाद

तात्पर्यं न होनेस रूढिका त्याग करके पञ्चजनशब्दसे साख्यतत्त्वोंका ग्रहण करना युक्त
है, इस प्रकार दृष्टांतरूप सङ्गतिको सूचित करते हुए मन्त्रका उद्धृतकर पूर्वपक्ष
करत हैं— एवम्' इत्यादिस । पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षके फल पूर्वाधिकरणके समान हैं ।
वाक्यशेषस्थ प्राण चक्षुश्च्रोत्र, अन्न और मन ये पाच पञ्चजन हैं । उनमें अन्न विराट् है
और शेष चार सूत्र हैं । उनक कारण, अव्याकृत अर्थात् आकाशके आधार उसी आत्माको
मैं अमृत ब्रह्म मानता हूँ और ऐसा माननेसे विद्वान् हुआ मैं अमृत हूँ ऐसा मन्त्रदृष्टाका वचन
है । यदि कोई कहे कि पञ्चत्वविशिष्ट पञ्चजनक साथ पञ्चपदका पुन अन्वय होनेस पचीस
सख्याकी प्रतीति होती है तो इसस साख्यतत्त्वग्रहण किस प्रकारसे होता है, ऐसी शङ्का

भाष्य

तत्त्वानि सांख्यैः संख्यायन्ते—

‘मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त ।

पोडशकश्च विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ॥’ (सांख्यका०४)
इति । तथा श्रुतिप्रसिद्धया पञ्चविंशतिसंख्यया तेषां स्मृतिप्रसिद्धानां पञ्च-
विंशतितत्त्वानामुपसंग्रहात् प्राप्तं पुनः श्रुतिमत्त्वमेव प्रधानादीनाम् ।

भाष्यका अनुवाद

संख्येय—संख्यावालोक की आकांक्षा होती है, उतने ही तत्त्व सांख्य शास्त्रमें गिने गये हैं—‘मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः०’ (मूल प्रकृति किसीकी विकृति नहीं है, महत् आदि सात प्रकृति और विकृति दोनों हैं, सोलह तत्त्व विकार ही हैं, पुरुष न प्रकृति है और न विकृति ही है) । श्रुतिमें प्रसिद्ध उस पचीस संख्यासे उन स्मृति प्रसिद्ध पचीस तत्त्वोंका संग्रह होनेसे प्रधान आदि श्रुतिप्रतिपादित हैं, ऐसा पुनः प्राप्त हुआ ।

रत्नप्रभा

ग्राह्याणि इत्याह—तथा चेति । जगतो मूलभूता प्रकृतिः त्रिगुणात्मकं प्रधानम् अनादित्वाद् अविकृतिः कस्यचित् कार्यं न भवतीत्यर्थः । महदहङ्कारपञ्चतन्मात्राणि इति सप्त प्रकृतयो विकृतयश्च, तत्र महान् प्रधानस्य विकृतिः अहङ्कारस्य प्रकृतिः, अहंकारः तामसः पञ्चतन्मात्राणां शब्दादीनां प्रकृतिः, सात्त्विकः एकादशेन्द्रियाणाम्, पञ्च तन्मात्राश्च पञ्चानां स्थूलभूतानाम् आकाशादीनां प्रकृतयः, पञ्च स्थूलभूतानि एतानि एकादशेन्द्रियाणि चेति पोडशसंख्याको गणः—विकार एव न प्रकृतिः, तत्त्वान्तरोपादानत्वाभावात्; पुरुषस्तु उदासीन इति सांख्यकारिकार्थः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

करके संख्या जिनमें रहती है उस धर्मोंकी आकांक्षा होनेपर तत्त्व ग्राह्य होंगे, ऐसा कहते हैं—“तथा” इत्यादिसे । जगत्की मूलभूत प्रकृति जो त्रिगुणात्मक प्रधान है, वह अनादि होनेसे अविकृति है—किसीका भी कार्य नहीं है । महत्, अहङ्कार और पाँच तन्मात्राएँ ये सात प्रकृति और विकृति दोनों हैं । उनमें महत् प्रधानकी विकृति और अहङ्कारकी प्रकृति है, तामस अहङ्कार शब्द आदि पाँच तन्मात्राओंकी प्रकृति है और सात्त्विक अहङ्कार ग्यारह इन्द्रियोंकी प्रकृति है । पाँच तन्मात्राएँ स्थूलभूत ही आकाश, वायु, तेज, जल और पृथिवीकी प्रकृतियाँ हैं । पाँच स्थूलभूत और ग्यारह इन्द्रियों ये सोलह विकार ही हैं, प्रकृति नहीं है, क्योंकि ये दूसरे तत्त्वोंके कारण नहीं हैं और पुरुष तो न प्रकृति है और न विकृति ही हैं, किन्तु जलमें स्थित कमलपत्रके समान निर्लिप्त—उदासीन है, कूटस्थ नित्य और अपरिणामी है, ऐसा सांख्यकारिकाका अर्थ है ।

भाष्य

ततो ब्रूमः—न मंख्योपसंग्रहादपि प्रधानादीनां श्रुतिमन्त्रं प्रत्याशा कर्तव्या । कस्मात् ? नानाभावात् । नाना हेतानि पञ्चविंशतिस्तत्त्वानि, नैपां पञ्चशः पञ्चशः साधारणो धर्मोऽस्ति, येन पञ्चविंशतेरन्तराले पराः पञ्च पञ्च मंख्या निविशेरन्, नलोकनिबन्धनमन्तरेण नानाभूतेषु द्वित्वाभाष्यका अनुवाद

इस पर हम कहते हैं—संख्याके संग्रहसे भी प्रधान आदि श्रुतिप्रतिपादित हैं ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए । किससे ? पृथग् भावसे । ये पचीस तत्त्व पृथक् हैं, इनमें प्रत्येक पञ्चकका साधारण धर्म नहीं है, जिससे कि पचीस संख्यामें दूसरी पांच पांच संख्याएँ अन्तर्भूत हों, क्योंकि किसी आधारके बिना

रत्नप्रभा

संख्याया तत्त्वानाम् उपसंग्रहात् शब्दवत्त्वम् इति प्राप्ते सिद्धान्तयति—नेति । सांख्यीयतत्त्वाविरुद्धं नानात्वम् इष्टमित्यत आह—नैपामिति । पञ्चसु पञ्चसु साधारणस्य इतरपञ्चकाद् व्यावृत्तस्य धर्मस्याऽभावोऽत्र नानात्वं विवक्षितमित्यर्थः । यद्यपि ज्ञानकर्मेन्द्रियेषु दशसु ज्ञानकरणत्वं कर्मकरणत्वं च पञ्चकद्वयेऽस्ति पञ्चतन्मात्रासु पञ्चसु स्थूलप्रकृतित्वं च, तथापि यस्मिन् इति आत्मन आकाशस्य च पृथगुक्तेः सत्त्वरजस्तमोमहदङ्काराः पञ्च कर्तव्याः, मनश्चत्वारि भूतानि च पञ्च अस्मिन् पञ्चकद्वये मिथोऽनुवृत्तेतरपञ्चकव्यावृत्तकधर्मो नास्ति इत्यभिप्रायः । माऽन्तु इत्यत आह—येनेति । धर्मेणेत्यर्थः । तदेव स्फुटयति—नहीति । महासंख्यायाम् अवान्तरसंख्याः कश्चिद् धर्मम् आदाय प्रविशन्ति, यथा द्वौ अश्विनौ सप्त सप्तर्षयोऽष्टौ रत्नप्रभाका अनुवाद

संख्यासे सांख्यमतके तत्त्वोंका ग्रहण होनेसे प्रधान भी श्रुतिप्रतिपादित है, ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्त कहते हैं—“न” इत्यादिसे । सांख्याचार्योंके मतानुसार अनेक तत्त्व मानना हमें इष्ट है, इसपर कहते हैं—“नैपाम्” इत्यादि । इतर पंचकमें न रहनेवाले पांच पांच तत्त्वोंमें रहनेवाले साधारण धर्मका अभाव ही यहाँ पृथग्भाव विवक्षित है । यद्यपि पांच ज्ञानेन्द्रियोंमें ज्ञानकरणत्व है, पाँच कर्मेन्द्रियोंमें कर्मकरणत्व है, पाँच तन्मात्राओंमें स्थूलप्रकृतित्व है, तो भी ‘यस्मिन्’ (जिसमें) इस प्रकार आत्मा और आकाशके पृथक् कथनके कारण सत्त्व, रज, तम, महत् और अहंकार इन पाँचोंका एक समूह करना चाहिए, मन और चार भूतोंको मिलाकर इन पाँचोंका एक समूह करना चाहिए, इन दोनों पंचकोंमें प्रत्येकमें अनुवृत्त इतर पंचकोंसे व्यावृत्त धर्म नहीं है, ऐसा अभिप्राय है । न हो, इसपर कहते हैं—“येन” इत्यादि । ‘येन’—धर्मसे । उचीको स्पष्ट करते हैं—“नहि” इत्यादिसे । महासंख्यामें अवान्तर संख्याएँ प्रविष्ट—अन्तर्गत होती हैं, जैसे कि दो अश्विनी-

भाष्य

दिकाः संख्या निविशन्ते । अयोच्येत—पञ्चविंशतिसंख्यैवेयमवयवद्वारेण लक्ष्यते, यथा 'पञ्च सप्त च वर्षाणि न वर्षं शतक्रतुः' इति द्वादशवर्षि-कीमनावृष्टिं कथयन्ति तद्वत्, इति । तदपि नोपपद्यते । अयमेवाऽस्मिन्-पक्षे दोषो यल्लक्षणाऽऽश्रयणीया स्यात् । परश्चाऽत्र पञ्चशब्दो जनशब्देन समस्तः पञ्चजना इति, भाषिकस्वरेणैकपदत्वनिश्चयात् । प्रयोगान्तरे

भाष्यका अनुवाद

पृथक्भूत पदार्थोंमें द्वित्व आदि संख्या नहीं रहती । यदि ऐसा कहे कि जैसे 'पञ्च सप्त च वर्षाणि०' (पांच और सात वर्ष तक वृष्टि नहीं हुई) इस प्रकार बारह वर्षकी अनावृष्टि कहते हैं, वैसे ही अवयव द्वारा पचीस संख्या ही लक्षित होती है, यह कथन भी युक्त नहीं है । इस पक्षमें यही दोष है कि लक्षणा माननी पड़ती है । और दूसरा पञ्चशब्द जनशब्दके साथ समस्त हुआ है, क्योंकि भाषिकस्वरसे एक पद है, ऐसा निश्चय होता है । उसी प्रकार 'पञ्चानां त्वा पञ्चजनानाम्' (तुझे

रत्नप्रभा

वसवश्च इति सप्तदश इति अत्राऽश्वित्वादिकमादाय द्वित्वादयः प्रविशन्ति, नाऽन्यथे-त्यर्थः । पञ्चशब्दद्वयेन स्ववाच्यन्यूनसंख्याद्वारेण तद्व्याख्या महासंख्यैव लक्ष्यत इति सदृष्टान्तं शङ्कते—अथेति । मुख्यार्थस्य वक्ष्यमाणत्वात् लक्षणा न युक्तेति परि-हरति—तदपि नेति । पञ्चजनशब्दयोः असमासमङ्गीकृत्य पञ्चविंशतिसंख्या-प्रतीतिः निरस्ता । सम्प्रति समासनिश्चयात् न तत्प्रतीतिरित्याह—परश्चेति । समास-हेतुमाह—भाषिकेति । अयमर्थः—अस्मिन् मन्त्रे प्रथमः पञ्चशब्दः आद्युदात्तः । द्वितीयः सर्वानुदात्तः । जनशब्दश्च अन्तोदात्तः । तथा च न द्वितीयपञ्चशब्द-

रत्नप्रभाका अनुवाद

कुमार सात सप्तर्षि और आठ वसु मिलकर सत्रह होते हैं, इनमें अश्वित्व आदिको लेकर ही द्वित्व आदि प्रवेश करते हैं, दूसरे प्रकारसे नहीं, ऐसा आशय है । दो पंचशब्द जिस न्यून संख्याका अभिधान करते हैं, उसके द्वारा वे उससे व्याप्त महासंख्याको लक्षित करते हैं, दृशन्तप्रदर्शनपूर्वक ऐसी शक्ता करते हैं—“अथ” इत्यादिसे । मुख्य अर्थ कहा जायगा, इस लिए लक्षणा नहीं करनी चाहिए ऐसा परेहार करते हैं—“तदपि न” इत्यादिसे । पञ्च और जन शब्दोंमें समास न मानकर पञ्चविंशतिसंख्याकी प्रतीतिका निरास किया गया । अब समास माननेपर पचीस संख्याकी प्रतीति नहीं होती है, ऐसा कहते हैं—“परश्च” इत्यादिसे । समासमें कारण कहते हैं—“भाषिक” इत्यादिसे । यह अर्थ है कि इस मंत्रमें प्रथम पंचशब्द आद्युदात्त है, द्वितीय पञ्चशब्द सर्वानुदात्त है और जनशब्द अन्तोदात्त है,

(१) “अ महाख्याया.” । (रेफान्तान्त संख्यावाचक शब्दका आद्युदात्त हो) इस मंत्रमें पञ्चजनशब्द आद्युदात्त है ।

भाष्य

च 'पञ्चानां त्वा पञ्चजनानाम्' (तै० १।६।१।२) इत्यैकपद्यैकस्वर्यैक-

भाष्यका अनुवाद

पञ्च-पञ्चजनके) इस अन्य प्रयोगमें एक पद, एक स्वर और एक विभक्ति देरी

रत्नप्रभा

जनशब्दयोः समासं विना अन्त्यस्य आकारस्य उदात्तत्वं पूर्वेषाम् अनुदात्तत्वं च घटते । "समासस्य" (पा० सू० ६।१।२२३) इति सूत्रेण समासस्याऽन्तो-
दात्तत्वविधानात् "अनुदात्तं पदमेकवर्जम्" (पा० सू० ६।१।१५८) इति च
सूत्रेण यस्मिन् पदे उदात्तः स्वरितो वा यस्य वर्णस्य विधीयते, तमेकं वर्जयित्वाऽ-
वशिष्टं तत्पदमनुदात्ताच्चं भवतीति विधानादेव मान्त्रिकान्तोदात्तस्वरेण एकपदत्व-
निश्चयः । भाषिकाख्ये तु शतपथब्राह्मणस्वरविधायकग्रन्थे "स्वरितोऽनुदात्तो वा"
इति सूत्रेण यो मन्त्रदशायाम् अनुदात्तः स्वरितो वा स ब्राह्मणदशायाम् उदात्तो
भवति इत्यपवाद आश्रितः । तथा च अन्त्याद् आकारात् पूर्वेषामनुदात्तानाम्
उदात्तत्वं ब्राह्मणावस्थायां प्राप्तम्, "उदात्तमनुदात्तमनन्त्यम्" इति सूत्रेण मन्त्र-
दशायाम् उदात्तस्य अनन्त्यस्य परलभतया उच्चार्यमाणस्य अनुदात्तत्वं विहितम् ।
तथा च अत्र नकाराद् उपरितनः आकारः आकाशश्च इत्यनेन श्लिष्टतया पट्यमानोऽ-
नुदात्तो भवति, अयं मन्त्रानुदात्तस्वरो भाषिकः, तेन ब्राह्मणस्यरेण एकपदत्वं
निश्चीयते इति । प्रकटार्थकारैस्तु पाठकमसिद्धान्तोदात्तस्वरः भाषिक इति

रत्नप्रभाका अनुवाद

इसलिए पहले पंचशब्द और जनशब्दमें समासके विना अन्त्य आकार उदात्त एवं उगके
पदलेके वर्ण अनुदात्त नहीं हो सकते । 'समासस्य' इस सूत्रमें समासका अन्त उदात्त
होता है और 'अनुदात्तं' इस सूत्रमें जिस पदमें जिस वर्णके स्थानमें उदात्त या स्वरितका
विधान है, उस एक वर्णको छोड़कर उस पदके शेष सब स्वर अनुदात्त होते हैं, ऐसा
विधान है, इसलिए मंत्रमें अन्त्य स्वर उदात्त होनेसे एकपदताका निश्चय होता है । शतपथ
ब्राह्मणके स्वरविधान करनेवाले भाषिक नामक ग्रन्थमें 'स्वरितोऽनुदात्तो वा' इस सूत्रमें
जो मंत्रदशामें स्वरित अपवादा अनुदात्त रहता है, यह ब्राह्मणदशामें उदात्त होता
है, ऐसा अपवाद स्वीकार किया है । इसलिए अन्त्य आकारमें पूर्व स्थित 'अनुदात्त
स्वरोको ब्राह्मणदशामें उदात्तत्व प्राप्त हुआ, 'उदात्तमनुदात्तं' इस सूत्रमें मंत्रदशामें
अन्त्यमित एवं श्रमिय पदसे मिलकर उच्चारण किये जानेवाले उदात्त स्वरमें अनुदात्तत्वका
विधान है । इसलिए यहां नकारोत्तरवर्ती आकार अस्मि 'आकाशश्च' पदके शेष
मिलकर पंच जनके कारण अनुदात्त होता है, यह मंत्रानुदात्त स्वर भाषिक है, इससे एक-
पदत्वका निश्चय होता है । प्रकटार्थकारों तो 'पाठकमें प्रसिद्ध अन्तोदात्त स्वर भाषिक है,

भाष्य

विभक्तिकत्वाज्वगमात् । समस्तत्वाच्च न वीप्सा पञ्च पञ्चेति । तेन न
भाष्यका अनुवाद
जाती है । समस्त पद होनेसे पञ्च पञ्च—ऐसी वीप्सा भी नहीं है और इसीसे

रत्नप्रभा

व्याख्यातम्, तद्व्याख्यानं कल्पतरुकारैः दूषितम् । अन्तानुदाचं हि समाज्ञातारः
पञ्चजनशब्दमधीयते इति पाठकप्रसिद्धिः असिद्धा इति । तथा च “पञ्च पञ्चजनाः”
इति मान्त्रिकान्तोदाचः स्वरः, “यस्मिन् पञ्च पञ्चजनाः” (ऋ०४।४।१७)
इत्यन्तानुदाचो ब्राह्मणस्वरः इति विभागः । उभयथाऽपि एकपथात् समास-
सिद्धिरिति । तैत्तिरीयकप्रयोगादपि एकपदत्वमित्याह—प्रयोगान्तरे चेति ।
आज्य । त्वा—त्वाम् पञ्चानां पञ्चजनानां देवविशेषाणाम् यन्त्राय धर्त्राय गृहामि
इति आज्यग्रहणमन्त्रशेषः । देवतानां कर्मणि यन्त्रवत् अवस्थितं शरीरं तदेव धर्त्रम्—
इहाऽमुत्र भोगाधारः, तस्मै—तस्याऽवैकल्यार्थमिति यजमानोक्तिः । अस्तु समासः
ततः किम्, इत्यत आह—समस्तत्वाच्चेति । आवृत्तिः वीप्सा तदभावे पञ्चकद्वया-
ग्रहणात् पञ्चविंशतिसंख्याप्रतीतिः असिद्धेति भावः । जनपञ्चकमेकं पञ्चकानां पञ्चकं
द्वितीयमिति पञ्चकद्वयम् तस्य पञ्चपञ्च इति ग्रहणं नेत्यक्षरार्थः । किञ्च, असमास-
पक्षेऽपि किं पञ्चशब्दद्वयोक्तयोः पञ्चत्वयोः परस्परान्वयः, किं वा तयोः शुद्ध-

रत्नप्रभाका अनुवाद

ऐसा व्याख्यान करते हैं, वह व्याख्यान कल्पतरुकारसे दूषित किया गया है, क्योंकि वेद पढ़नेवाले
लेग पञ्चजनशब्दको अन्तानुदात्त कहते हैं यह पाठकप्रसिद्धि असिद्ध है । इसलिए ‘पञ्च
पञ्चजना’ इसमें अन्तोदात्त मात्रिक स्वर है, और ‘यस्मिन् पञ्च पञ्चजनाः’ इसमें अन्तानुदात्त
ब्राह्मणस्वर है । दोनों प्रकारसे पदके एक होनेके कारण समास सिद्ध होता है । तैत्तिरीयक प्रयोगसे
भी एकपदत्व सिद्ध होता है, ऐसा कहते हैं—“प्रयोगान्तरे च” इत्यादिसे । ‘आज्य । त्वा पञ्चजनानां
यन्त्राय धर्त्राय गृहामि’ यह आज्यग्रहणमन्त्रशेष है । हे आज्य । पांच देवताओंके कर्ममें यंत्र-
रूपसे अवस्थित, ऐहिक एवं पारलौकिक भोग धारण करनेमें समर्थ अपने शरीरकी रक्षाके
लिए वृत्तें ग्रहण करता हूँ ऐसी यजमानकी उक्ति है । समास हो, इससे क्या हुआ,
इसपर कहते हैं—“समस्तत्वाच्च” इत्यादि । वीप्सा—आवृत्ति, उसका अभाव होनेसे दो
पञ्चकना ग्रहण न होनेके कारण पञ्चीस संख्याकी प्रतीति सिद्ध नहीं होती ऐसा अर्थ है । जन
पञ्चक एक और पञ्चकोंका पञ्चक यह दूसरा, इस प्रकार दो पञ्चकका ‘पञ्च पञ्चजना’
इसमें ग्रहण नहीं होता, ऐसा अक्षरार्थ है । और ‘पञ्चजना’ यह समस्त न होनेपर भी दो
पञ्चशब्दोंसे उक्त दो पञ्चत्वोंका परस्पर अन्वय है अथवा उनका जनपदार्थसे अन्वय है अथवा

भाष्य

पञ्चकद्वयग्रहणं पञ्च पञ्चेति । न च पञ्चसंख्याया एकस्याः पञ्चसंख्याया पर्या विशेषणम् 'पञ्च पञ्चकाः' इति, उपसर्जनस्य विशेषणेनाऽसंयोगात् । नन्वा पञ्चपञ्चसंख्याका जना एव पुनः पञ्चसंख्याया विशेष्यमाणाः पञ्चविंशतिः प्रत्येष्यन्ते । यथा पञ्च पञ्चपूल्य इति पञ्चविंशतिः पूलाः प्रतीयन्ते, तद्वत् । नेति ब्रूमः—युक्तं यत्पञ्चपूलीशब्दस्य समाहाराभिप्रायत्वात्

भाष्यका अनुवाद

पञ्च पञ्च (पांच पांच) इस प्रकार दो पञ्चकोंका भी ग्रहण नहीं है। और 'पञ्च पञ्चकाः' (पांच पञ्चक) इस प्रकार एक पांच संख्याका दूसरी पांच संख्याके साथ विशेषण—अन्वय नहीं होता है, क्योंकि उपसर्जनका—विशेषणका विशेषणके साथ संयोग नहीं होता। परन्तु जिसको पांच संख्याएँ प्राप्त हुई हैं वह दूसरी पांच संख्याओंसे विशिष्ट होकर पचीस हो जाता है, ऐसी प्रतीति होगी। जैसे कि 'पञ्च - पञ्चपूल्यः०' (पांच पूलीपञ्चक) इसमें पचीस पूलोंकी प्रतीति होती है। हम कहते हैं कि नहीं पञ्चपूलीशब्दमें समाहार अभिप्रेत होनेसे

रत्नप्रभा

जनैः अन्वयः, अथवा पञ्चत्वविशिष्टैर्जनैः अपरस्य पञ्चत्वस्याऽन्वयः । नाऽऽद्यः इत्याह—न च पञ्चसंख्याया इति । विशेषणम्—अन्वयः । अनन्वये हेतुमाह—उपसर्जनस्येति । अप्रधानानां सर्वेषां प्रधानेन विशेष्येण एवाऽन्वयो वाच्यः, गुणानां परस्परान्वये वाक्यभेदापातात् इत्यर्थः । द्वितीये दशसंख्याप्रतीतिः स्यात् न पञ्चविंशतिसंख्याप्रतीतिः । तृतीयम् उक्त्वापयति—नन्विति । पञ्चत्वविशिष्टेषु पञ्चत्वान्तरान्वये विशेषणीभूतपञ्चत्वेऽपि पञ्चत्वान्वयात् पञ्चविंशतित्वप्रतीतिः इत्यर्थः । दृष्टान्तवैषम्येण परिहरति—नेति ब्रूम इति । पञ्चानां पूलानां समाहार

रत्नप्रभाका अनुवाद

पञ्चत्वविशिष्ट जनोके साथ अन्य पञ्चत्वका अन्वय है ? प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं—“न च पञ्चसंख्याया ” इत्यादिसे । विशेषण—अन्वय । अन्वय न होनेमें कारण कहते हैं—“उपसर्जनस्य” इत्यादिसे । सब अप्रधानोंका—विशेषणोंका प्रधानभूत विशेष्यके साथ ही अन्वय होता है, गुणोंका परस्पर अन्वय मानें तो वाक्यभेद हो जायगा, ऐसा अर्थ है । दूसरे पक्षमें तो दस संख्याकी प्रतीति हो । सऊनी है पचचीसकी नहीं । तस्यैव पक्ष उच्यते—“ननु” इत्यादिसे । पंचत्वविशिष्ट जनके साथ दूसरे पंचत्वका अन्वय होनेसे विशेषणीभूत पंचत्वमें दूसरे पंचत्वका अन्वय होनेके कारण पचचीस संख्याकी प्रतीति होती है, ऐसा अर्थ है । दृष्टान्तवैषम्य दिसा कर उक्त शब्दका निराकरण करते हैं—“नेति ब्रूम.” इत्यादिमें । 'पञ्चानां

भाष्य

कतीति सत्यां भेदाकाङ्क्षायां पञ्च पञ्चपूल्य इति विशेषणम् । इह तु पञ्चजना इत्यादित एव भेदोपादानात् कतीत्यसत्यां भेदाकाङ्क्षायां न पञ्च पञ्चजना इति विशेषणं भवेत् । भवदपीदं विशेषणं पञ्चसंख्याया एव भवेत्, तत्र चोक्तो दोषः । तस्मात् पञ्च पञ्चजना इति न पञ्चविंश-

भाष्यका अनुवाद

कितनी पञ्चपूली हैं इस प्रकार भेदकी आकांक्षा होनेपर 'पञ्च पञ्चपूल्यः' (पांच पूलीपञ्चक) ऐसा विशेषण युक्त है । परन्तु यहां तो 'पञ्चजनाः' (पांच जन) ऐसा आरम्भसे ही भेदका ग्रहण है, इसलिए 'कितने' इस प्रकार भेदकी आकांक्षा न होनेके कारण 'पञ्च पञ्चजनाः' (पांच पंचजन) इस प्रकार पञ्चजनका पञ्चत्व विशेषण नहीं हो सकता और विशेषण हो भी तो केवल 'पञ्च' (पांच) संख्याका ही हो सकता है और उसमें दोष कहा है । इसलिए 'पञ्च पञ्चजनाः' (पांच पंचजन) इससे पचीस तत्त्व इष्ट नहीं हैं ।

रत्नप्रभा

इत्यत्र "संख्यापूर्वो द्विगुः" (पा० सू० २।१।५२) इति समासो विहितः । ततो "द्विगोः" (पा० सू० ४।१।२१) इति सूत्रेण ङीपो विधानात् समाहार-प्रतीतौ समाहाराः कति इत्याकाङ्क्षायां सत्यां पञ्च इति पदान्तरान्वयो युक्तः, पञ्चजना इत्यत्र तु ङीबन्तत्वाभावेन समाहारस्याऽप्रतीतेः जनानां चाऽऽदित एव पञ्चत्वोपादानात् संख्याकाङ्क्षाया असत्त्वात् पञ्च इति पदान्तरं नाऽन्वेति, आकाङ्क्षाधीनत्वादन्यस्य इत्यर्थः । भेदः—विशेषणम् । ननु जनानां निराकाङ्क्षत्वेऽपि तद्विशेषणीभूतपञ्चत्वानि कति इत्याकाङ्क्षायां पञ्चत्वान्तरं विशेषणं भवतु इत्याशङ्कते—भवदपीति । न उपसर्जनस्य उपसर्जनान्तरणाऽन्वयः, किन्तु प्रधानेन एवेति

रत्नप्रभाका अनुवाद

पूलानां समाहारः पञ्चपूल्यः' यहाँपर 'संख्यापूर्वो द्विगु' इस सूत्रसे समासका विधान है । याद 'द्विगोः' इस सूत्रमें 'ङीप्' (इंकार) का विधान होनेसे समाहारकी प्रतीति होनेपर समाहार कितने हैं ? इस आकांक्षामें 'पञ्च' इस प्रकार दूसरे पदका अन्वय होना युक्त है, परन्तु 'पञ्चजनाः' इसमें अन्तमें 'ङीप्' न होनेसे समाहारकी प्रतीति न होनेके कारण और जनमें पहले ही पञ्चत्वका ग्रहण करनेके कारण संख्याकी आकांक्षा न होनेसे 'पञ्च' इस दूसरे पदका अन्वय नहीं हो सकता है, क्योंकि अन्वय आकांशके अधीन है । भेद—विशेषण । परन्तु जनोंके लिए आकांक्षा न होनेपर भी जनविशेषणीभूत पञ्चत्व कितने हैं, ऐसी आकांक्षामें अन्य पञ्चत्व विशेषण हो, ऐसी शंका करते हैं—'भवदपि' ब्रह्मादिसे । एक विशेषणका अन्य विशेषणके साथ अन्वय नहीं हो सकता है, किन्तु प्रधानके साथ ही होता है, इम न्यायके

भाष्य

तितत्त्वाभिप्रायम् । अतिरेकाच्च न पञ्चविंशतितत्त्वाभिप्रायम् । अतिरेको हि भवत्यात्माकाशाभ्यां पञ्चविंशतिसंख्यायाः । आत्मा तावदिह प्रतिष्ठां मत्याधारत्वेन निर्दिष्टः, 'यस्मिन्' इति सप्तमीसूचितस्य 'तमेव मन्य आत्मानम्' इत्यात्मत्वेनाऽनुकर्षणात् । आत्मा च चेतनः पुरुषः, स च पञ्चविंशतावन्तर्गत एवेति न तस्यैवाऽऽधारत्वमाधेयत्वं च युज्येत । अर्थान्तरपरिग्रहे वा तत्त्वसंख्यातिरेकः सिद्धान्तविरुद्धः प्रसज्येत । तथा 'आकाशश्च प्रतिष्ठितः' इत्याकाशस्याऽपि पञ्चविंशतावन्तर्गतस्य न पृथगुपादानं

भाष्यका अनुवाद

और संख्याके आधिक्यसे भी पचीस तत्त्व अभिप्रेत नहीं हैं, क्योंकि आत्मा और आकाशको लेकर संख्या पचीससे अधिक हो जाती है । यहाँ प्रतिष्ठाके आधाररूपसे आत्माका निर्देश किया गया है, क्योंकि 'यस्मिन्' (जिसमें) इस सप्तम्यन्त 'यत्' पदसे 'तमेव मन्य आत्मानम्' (उसीको मैं आत्मा मानता हूँ) इस श्रुतिमें पठित आत्माका अनुकर्षण होता है । आत्मा चेतन पुरुष है और वह पचीस तत्त्वोंमें अन्तर्गत ही है, इसलिए वही आधार और अधेय हो, यह युक्त नहीं है । अन्य अर्थका ग्रहण करो, तो सांख्यसिद्धान्तसे विरुद्ध तत्त्वसंख्यामें अधिकता आ जायगी । इसी प्रकार आकाश जो पचीस तत्त्वोंके अन्तर्गत है, उसका

रत्नप्रभा

न्यायविरोधादयुक्तम् इति परिहरति—तत्र चेति । एव नानाभावादिति व्याख्याय अतिरेकाच्च इति व्याचष्टे—अतिरेकाच्चेत्यादिना । अतिरेक—आधिक्यम् । जनशब्दितपञ्चविंशतितत्त्वेषु आत्मा अन्तर्भूतो न वा ? नाऽऽद्य इत्युक्त्वा द्वितीये दोषमाह—अर्थान्तरेति । तथाऽऽकाश विकल्प्य दूषयति—तथेति । उक्तो दोषः—सख्याधिक्यम् । पञ्चविंशतिजना आत्माकाशौ च इति सप्तविंशतिसंख्या स्यादित्यर्थः । न च सत्त्वरजस्तमसा पृथग्गणनया सा इष्टेति वाच्यम्, आकाशस्य पृथगुक्तिवैय-

रत्नप्रभाका अनुवाद

साध विरोध होनेसे यह कथन अयुक्त है, ऐसा परिहार करते हैं—'तत्र च' इत्यादिसे । इस प्रकार सूत्रस्य 'नानाभावात्' पदका व्याख्यान करके 'अतिरेकाच्च' का व्याख्यान करते हैं—'अतिरेकाच्च' इत्यादिसे । अतिरेक—अधिकता । जनशब्दमें कथित पचास तत्त्वोंमें आत्मा अन्तर्भूत है या नहीं ? प्रथम पक्ष नहीं हो सकता, ऐसा कहकर द्वितीय पक्षमें दोष दिखलते हैं—'अर्थान्तर' इत्यादिसे । उसी प्रकार आकाशमें भी विकल्प कहकर दोष दिखलते हैं—'तथा' इत्यादिसे । उक्त दोष—संख्याकी अधिकता । पचीस तत्त्व, आत्मा और आकाश सब मिलाकर सत्ताईस हो जायेंगे, ऐसा अर्थ है । सत्त्व, रज और तमकी पृथक् गिनतीमें सत्ताईस संख्या अभिमत है, ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि आकाशका पृथक् कथन स्वयं

भाष्य

न्याय्यम् । अर्थान्तरपरिग्रहे चोक्तं दूषणम् । कथं च संख्यामात्रश्रवणे सत्यश्रुतानां पञ्चविंशतितत्त्वानामुपसंग्रहः प्रतीयेत, जनशब्दस्य तत्त्वेष्वरूढत्वात्, अर्थान्तरोपसंग्रहेऽपि संख्योपपत्तेः । कथं तर्हि पञ्च पञ्चजना इति उच्यते—‘द्विसंख्ये संज्ञायाम्’ (पा० सू० २।१।५०) इति विशेषस्मरणात् संज्ञायामेव पञ्चशब्दस्य जनशब्देन समासः, ततश्च रूढत्वाभिप्राये-

भाष्यका अनुवाद

‘आकाशश्च प्रतिष्ठितः’ (और आकाश प्रतिष्ठित है) इस प्रकार पृथग् ग्रहण उचित नहीं है और अन्य अर्थका ग्रहण करो तो दोष कहा ही है । और संख्यामात्रका श्रवण होनेपर श्रुतिमें अप्रतिपादित पचीस तत्त्वोंका संग्रह किस प्रकार प्रतीत होगा ? क्योंकि जनशब्द तत्त्वोंमें रूढ नहीं है और अन्य अर्थका ग्रहण करनेसे भी संख्या उपपन्न होती है । तब ‘पञ्च पञ्चजनाः’ (पांच पंचजन) यह किस प्रकार है ? कहते हैं—‘द्विसंख्ये०’ (विशा और संख्यावाचक शब्दोंका संज्ञाके अर्थमें सुवन्त उत्तरपदके साथ समास होता है) ऐसा विशेष सूत्र है, इसलिए पञ्चशब्दका जनशब्दके साथसमास है । इसलिए रूढरूपके अभिप्रायसे ही

रत्नप्रभा

ध्यात, यस्मिन्निति आत्मनि तत्त्वानां प्रतिष्ठोक्तिविरोधात्, तव मते स्वतन्त्र-प्रधानस्यैव आधारत्वात्, “नेह नानास्ति” इति वाक्यशेषविरोधाच्च तव सत्य-द्वैतवादित्वात् । किञ्च, पञ्चविंशतिसंख्याप्रतीतौ अपि न सांख्यतत्त्वानां ग्रहण-मित्याह—कथञ्चेति । किं जनशब्दात् तत्त्वग्रहः, उत संख्यया इति कथंशब्दार्थः । नाऽऽय इत्याह—जनेति । न द्वितीयः इत्याह—अर्थान्तरंति । किं तत् अर्थान्तरं यदर्थ-कमिदं वाक्यमिति पृच्छति—कथमिति । पञ्च च ते जनाश्चेति कर्मधारयादिसमा-

रत्नप्रभाका अनुवाद

हो जायगा और ‘यस्मिन्’ इस प्रकार आत्माके तत्त्वोंका आश्रय कहना विरुद्ध हो जायगा क्योंकि तुम्हारे (सांख्यके) मतमें स्वतंत्र प्रधान ही आधार है और ‘नेह नानास्ति०’ इस वाक्यशेषमें भी विरोध होगा, क्योंकि तुम्हारे मतमें द्वैत सत्य है । और पचीस संख्याकी प्रतीति होनेपर भी सांख्यतत्त्वोंका ग्रहण नहीं हो सकता है, ऐसा कहते हैं—“कथं च” इत्यादिसे । तत्त्वोंका ग्रहण जनशब्दसे होता है या संख्यासे यह ‘कथं’ शब्दका अर्थ है । प्रथम पक्ष ठीक नहीं, ऐसा कहते हैं—“जन” इत्यादिसे । दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं—“अर्थान्तर” इत्यादिसे । वह दूसरा अर्थ कौन है, जिसका यह वाक्य प्रतिपादन करता है, ऐसा पूछते हैं—“कथम्” इत्यादिसे । ‘पञ्च च ते जनाश्च’ इस प्रकार कर्मधारय आदि अन्य

-भाष्य

एव केचित् पञ्चजना नाम विवक्ष्यन्ते, न सांख्यतत्त्वाभिप्रायेण, ते कतीत्य-
स्यामाकाङ्क्षायां पुनः पञ्चेति प्रयुज्यते । पञ्चजना नाम ये केचित् ते च
पञ्चैवेत्यर्थः । सप्तर्षयः सप्तेति यथा ॥ ११ ॥

के पुनस्ते पञ्चजना नामेति, तदुच्यते—

भाष्यका अनुवाद

कुछ पञ्चजन संज्ञावालोंकी विवक्षा है, सांख्यतत्त्वोंके अभिप्रायसे नहीं है ।
वे कितने हैं, ऐसी आकांक्षा होनेपर फिर पञ्चशब्दका प्रयोग किया गया है ।
जैसे सात सप्तर्षि हैं वैसे पञ्चजनसंज्ञक जो कोई हैं, वे पांच ही हैं, ऐसा
अर्थ है ॥ ११ ॥

वे पञ्चजन कौन हैं, यह कहते हैं—

रत्नप्रभा

सान्तरात् संज्ञा-समासस्याऽऽप्तोक्त्या बलवत्त्वं तावदाह—उच्यत इति । दिग्वाचिनः
संख्यावाचिनश्च शब्दाः संज्ञायां गम्यमानायां सुबन्तेन उत्तरपदेन समस्यन्ते,
यथा दक्षिणाम्निः सप्तर्षय इत्यादि । अयं च समासः तत्पुरुषभेदः ॥ ११ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

समासोंसे संज्ञाओं समास आप्तोक्तिके कारण बलवत्तर है, ऐसा कहते हैं—“उच्यते” इत्यादिसे ।
दिग्वाचक और संख्यावाचक शब्द संज्ञा गम्यमान होनेपर उत्तर सुबन्तके साथ समस्त होते हैं,
जैसे ‘दक्षिणाम्नि’ ‘सप्तर्षयः’ इत्यादिमें है । यह समास तत्पुरुषका भेद है ॥११॥

प्राणादयो वाक्यशेषात् ॥ १२ ॥

पदच्छेद—प्राणादयः,—वाक्यशेषात् ।

पदार्थोक्ति—प्राणादय —प्राणचक्षुःश्रोत्रान्नमनांसि [पञ्चजनशब्देनोच्यन्ते,
कस्माद्] वाक्यशेषात्—‘प्राणस्य प्राणमुत चक्षुपश्चक्षुः’ इत्यादिवाक्यशेषस्यत्वात् ।

भाषार्थ—पूर्वोक्त श्रुतिमें पञ्चजनशब्दसे प्राण, चक्षु, श्रोत्र, अन्न और मन
कहे गये हैं, क्योंकि ‘प्राणस्य प्राण०’ (प्राणका प्राण, चक्षुका चक्षु) इत्यादि
वाक्यशेषमें वे ही हैं ।

भाष्य

‘यस्मिन् पञ्च पञ्चजनाः’ इत्यत उत्तरस्मिन् मन्त्रे ब्रह्मस्वरूपनिरूपणाय प्राणादयः पञ्च निर्दिष्टाः—‘प्राणस्य प्राणमुत चक्षुपथक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रमन्नस्वान्नं मनसो ये मनो विदुः’ इति । तेऽत्र वाक्यशेषगताः संनिधानात् पञ्चजना विवक्ष्यन्ते । कथं पुनः प्राणादिषु जनशब्दप्रयोगः ? तत्त्वेषु वा कथं जनशब्दप्रयोगः ? समाने तु प्रसिद्धत्यतिक्रमे वाक्यशेषवशात्

भाष्यका अनुवाद

‘यस्मिन् पञ्च०’ (जिसमें पांच पञ्चजन हैं) इससे अग्रिम मंत्रमें ब्रह्मस्वरूपका निरूपण करनेके लिए ‘प्राणस्य प्राणमुत०’ (जो प्राणके प्राण, चक्षुके चक्षु, श्रोत्रके श्रोत्र, अन्नके अन्न और मनके मनको जानते हैं, वे ब्रह्म हैं) इस प्रकार पांच प्राण आदिका निर्देश किया है । यहां वाक्यशेषमें पठित वे प्राण आदि संनिहित होनेके कारण पञ्चजनशब्दसे विवक्षित हैं । प्राण आदिके लिए जनशब्दका प्रयोग किस प्रकार है ? तत्त्वोंके लिए जनशब्दका प्रयोग किस प्रकार है ? रूढिका चङ्घन दोनों पक्षोंमें समान होनेपर भी वाक्यशेषके बलसे

रत्नप्रभा

पञ्चजनशब्दस्य संज्ञात्वम् उक्त्वा संज्ञिकथनार्थं सूत्रं गृह्णाति—के पुनस्ते इति । श्रुती उतशब्दः—अप्यर्थः । ये प्राणादिप्रेरकं तत्साक्षिणम् आत्मानं विदुः, ते ब्रह्मविद इत्यर्थः । पञ्चजनशब्दस्य प्राणादिषु कया वृत्त्या प्रयोग इति शङ्कते—कथं पुनरिति । यथा तव तत्त्वेषु जनशब्दस्य लक्षणया प्रयोगः, तथा मम प्राणादिषु पञ्चजनशब्दस्य लक्षणया इत्याह—तत्त्वेष्विति । तर्हि रूढ्यतिक्रमसाम्यात् तत्त्वानि एव ब्राह्मणीत्यत आह—समाने त्विति । सन्निहितसजातीयानपेक्षश्रुतिस्था एव ब्राह्म्याः, न तु व्यवहितविजातीयसापेक्षमृतिस्था इत्यर्थः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

‘पञ्चजन’ शब्द संज्ञा है, ऐसा कहकर संज्ञी कहनेके लिए सूत्र कहते हैं—“के पुनस्ते” इत्यादिसे । श्रुतिस्य ‘उत शब्द अप्यर्थक’ है । जो प्राण आदिके प्रेरक एवं उनके साक्षी आत्माको जानते हैं, वे ब्रह्मवेत्ता हैं, ऐसा अर्थ है । परन्तु ‘पञ्चजन’ शब्दका प्राण आदिमें किस श्रुतिसे प्रयोग है, ऐसी शंका करते हैं—“कथं पुनः” इत्यादिसे । जैसे तुम्हारे (सांख्यके) मतमें तत्त्वोंमें लक्षणासे ‘जन’ शब्दका प्रयोग है, वैसे ही हमारे मतमें प्राण आदिमें लक्षणासे ‘पञ्चजन’ शब्दका प्रयोग है, ऐसा कहते हैं—“तत्त्वेषु” इत्यादिसे । तब रूढिका अतिक्रम समान होनेसे तत्त्वोंका ही प्रहण करना युक्त है, इसपर कहते हैं—“समाने तु” इत्यादि । समीपस्य, सजातीय एवं मूलपेक्षारहित श्रुतिमें कथितका ही प्रहण करना युक्त है, वरस्य,

भाष्य

प्राणादय एव ग्रहीतव्या भवन्ति, जनसंबन्धाच्च प्राणादयो जनशब्दभाजो भवन्ति । जनवचनश्च पुरुषशब्दः प्राणेषु प्रयुक्तः 'ते वा एते पञ्च ब्रह्म-पुरुषाः' (छा० ३।१३।६) इत्यत्र; 'माणो ह पिता प्राणो ह माता' (छा० ७।१५।१) इत्यादि च ब्राह्मणम् । समासबलाच्च समुदायस्य रूढत्वमविरुद्धम् । कथं पुनरस्ति प्रथमप्रयोगे रूढिः शक्याऽऽश्रयितुम् ।

भाष्यका अनुवाद

प्राण आदिका ही ग्रहण होता है और मनुष्यके साथ संबन्ध होनेसे भी प्राण आदि जनशब्दसे कहे जाते हैं । और 'ते वा एते पञ्च' (वे ये पांच ब्रह्मपुरुष हैं) इसमें जनवाचक पुरुषशब्द प्राणके लिए कहा गया है । वही प्रकार 'प्राणो ह पिता०' (प्राण पिता है, प्राण माता है) इत्यादि ब्राह्मण है । और समासके बलसे समुदायको रूढ माननेमें कोई विरोध भी नहीं है । परन्तु प्रथम प्रयोगके

रत्नप्रभा

लक्षणाधीजं सम्बन्धगाह—जनेति । जनः पञ्चजन इति पर्यायः । पुरुषपित्रा-दिशब्दवच्च पञ्चजनशब्दस्य प्राणादिलक्षकत्वं युक्तमित्याह—जनवचनश्चेति । ननु जायन्ते इति जनाः—महादादयः, जनकत्वात् जनः—प्रधानम् इति योगसम्भवे किमिति रूढिमाश्रित्य लक्षणाप्रयास इत्यत आह—समासेति । यथा अश्वकर्णशब्दस्य वर्णसमुदायस्य शृक्षे रूढिः, एवं पञ्चजनशब्दस्य रूढिरेव, न अवयवशक्त्यात्मको योग इत्यर्थः । पूर्वकालिकप्रयोगाभावात् न रूढिरित्या-क्षिपति—कथमिति । "स्युः पुमांसः पञ्चजनाः" इति अमरकोशादौ

रत्नप्रभाका अनुवाद

विजातीय एवं मूलपेश स्मृतिमें कथितका ग्रहण करना युक्त नहीं है, ऐसा अर्थ है । लक्षणामें बीजभूत संबन्धको कहते हैं—“जन” इत्यादिसे । भाष्यगत जन और पञ्चजनशब्द एक अर्थके बोधक हैं । उक्त श्रुतियोंमें पुरुष, पिता आदि शब्दोंके समान पञ्चजनशब्दसे भी प्राण आदिका लक्षित होना युक्त है, ऐसा कहते हैं—“जनवचनश्च” इत्यादिसे । परन्तु जो उत्पन्न होते हैं, वे जन—महादादि हैं और जो जनक उत्पन्न करता है, वह जन—प्रधान है, इस प्रकार योगका संभव होनेपर तो रूढिका आशय करके लक्षणाका प्रयास क्यों किया जाय ? इसपर कहते हैं—“समास” इत्यादि । जैसे अक्षरसमुदायरूप 'अश्वकर्ण' शब्द शृक्षमें रूढ है, वैसे ही पञ्चजनशब्दको भी रूढ ही मानना चाहिए, अवयवशाक्तिरूप योगका ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा अर्थ है । परन्तु पहले कहीं प्रयोग न होनेसे रूढिका ग्रहण नहीं हो सकता है, ऐसा आशय करते हैं—“कथम्” इत्यादिसे । 'स्युः पुमांसः पञ्चजनाः' इस प्रकार अमरकोशमें

भाष्य

शक्या उद्भिदादिवदित्याह—प्रसिद्धार्थसंनिधाने ह्यप्रसिद्धार्थः शब्दः प्रयुज्यमानः समभिव्याहारात् तद्विषयो नियम्यते, यथा 'उद्भिदा यजेत' 'यूपं भाष्यका अनुवाद

अभावमें रूढिका आश्रय किस प्रकार किया जा सकता है ? 'उद्भित्' आदिके समान रूढि हो सकती है, ऐसा कहते हैं। प्रसिद्धार्थक पदके संनिधानमें अप्रसिद्धार्थक शब्दका प्रयोग हो, तो समभिव्याहारके चलसे अप्रसिद्धार्थक पद उससे अन्वयी अर्थपरक माना जाता है, ऐसा नियम है। जैसे कि 'उद्भिदा०'

रत्नप्रभा

प्रयोगोऽस्त्येव, तदभावमङ्गीकृत्याऽपि आह—शक्येति । जनसम्बन्धात् च इति पूर्वभाष्ये नरेषु पञ्चजनशब्दस्य रूढिमाश्रित्य प्राणादिषु लक्षणा उक्ता, इह तु प्रौढिवादेन प्राणादिषु रूढिः उच्यते इति मन्तव्यम् । संगृहीतं विवृणोति—प्रसिद्धेत्यादिना । “उद्भिदा यजेत पशुकामः” इत्यत्रोद्भित्पदं विधेयगुणार्थकं कर्मनामधेयं वा इति संशये खनित्रादौ उद्भित्पदस्य प्रसिद्धेः यागनामत्वे प्रसिद्धि-विरोधात् ज्योतिष्टोमे गुणविधिरिति प्राप्ते राद्धान्तः । यजेत—यागेन इष्टं भावयेत् इत्यर्थः । ततश्च उद्भिदेत्यप्रसिद्धस्य तृतीयान्तस्य यागेन इत्यनेन प्रसिद्धार्थकेन सामानाधिकरण्येन तन्नामत्वं निश्चीयते, उद्भिनत्ति पशून् साधयतीति प्रसिद्धेः अविरोधात् अप्रकृतज्योतिष्टोमे गुणविध्ययोगात्, तद्विधौ च उद्भिदाख्यगुणवता यागेन इति मत्वर्थसम्बन्धलक्षणाप्रसङ्गाच्च इति कर्मनामैव उद्भित्पदम् । तथा

रत्नप्रभाका अनुवाद

प्रयोग है, तो भी प्रयोगाभावका अंगीकार करके कहते हैं—“शक्या” इत्यादिसे । ‘जन-संबन्धाच्च’ इस पूर्वभाष्यमें मनुष्योंमें ‘पञ्चजन’ शब्दकी रूढि मानकर प्राण आदिमें लक्षणा कही गई है, यहां तो जवर्दस्ती प्राण आदिमें रूढि कही जाती है, ऐसा समझना चाहिए । संगृहीत अर्थका विवरण करते हैं—“प्रसिद्ध” इत्यादिसे । ‘उद्भिदा यजेत०’ (पशुओंको ब्राह्मण-वाला उद्भित् नामक याग करे) इसमें ‘उद्भित्’ पद विधेय गुणका बोधक है अथवा कर्मका नाम है ? ऐसा संशय होनेपर खनित्र (खनती) आदिमें उद्भित्पदकी प्रसिद्धि और यागमें अप्रसिद्धि होनेसे ज्योतिष्टोममें ही गुणका विधान करता है (स्वतन्त्र याग नहीं है) ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्त कहा गया है—‘यजेत’ का अर्थ है—‘यागेनेष्टं०’ (यागसे इष्टकी भावना करे), इसलिए ‘उद्भिदा’ इस अप्रसिद्ध तृतीयान्त पदका प्रसिद्धार्थक ‘यागेन’ इस पदसे सामानाधिकरण्य होनेसे ‘उद्भित्’ यह यागका नाम है, ऐसा निश्चय होता है, ‘उद्भिनत्ति’ पशुओंका संपादन कराता है अर्थात् यजमानको पशुओंकी प्राप्ति कराता है, इस व्युत्पत्तिसे ‘उद्भित्’ पदकी यागमें प्रसिद्धि भी है, इसलिए प्रसिद्धिविरोध न होनेसे अप्रकृत ज्योतिष्टोममें गुणविधि नहीं हो सकती, यदि गुणविधि मानें तो ‘उद्भित् रूप गुणसे युक्त यागसे’

भाष्य

छिनत्ति 'वेदिं करोति' इति, तथाऽयमपि पञ्चजनशब्दः समासान्वाख्या-
नादवगतसंज्ञाभावः संज्ञाकाङ्क्षी वाक्यशेषसमभिव्याहृतेषु प्राणादिषु
वर्तिष्यते । कैश्चित्तु देवाः पितरो गन्धर्वा असुरा रक्षांसि च पञ्च पञ्चजना
व्याख्याताः । अन्यैश्च चत्वारो वर्णा निपादपञ्चमाः परिगृहीताः
क्वचिच्च 'यत्पाञ्चजन्यया विशा' (ऋ० सं० ८।५३।७) इति प्रजापरः

भाष्यका अनुवाद

(उद्भित् नामक याग करे) 'यूपं०' (यूपको घनाता है) और 'वेदिं०' (वेदी
घनाता है) इत्यादिमें होता है, उसी प्रकार यह 'पञ्चजन' शब्द भी समासके
बलसे संज्ञा बनकर संज्ञीकी आकांक्षा करता हुआ वाक्यशेष और समभिव्याहारके
बलसे प्राण आदिमें प्रयुक्त होगा । कितने ही लोगोंने तो देव, पितृ, गन्धर्व,
असुर और राक्षस ये पांच पञ्चजन हैं, ऐसा व्याख्यान किया है । उसी प्रकार
दूसरोंने चार वर्ण और पांचवें निपादका ग्रहण किया है । और कहींपर

रत्नप्रभा

छिनत्तीति प्रसिद्धार्थच्छेदयोग्यार्थकशब्दसमभिव्याहारात् दारुविशेषो यूप-
शब्दार्थः । करोतीति समभिव्याहाराद् वेदिशब्दार्थः संस्कारयोग्यस्थण्डिलविशेष
इति गम्यते, तथा प्रसिद्धार्थकप्राणादिशब्दसमभिव्याहारात् पञ्चजनशब्दः प्राणाद्य-
र्थक इति निश्चीयते इत्यर्थः । एकदेशिनां मतद्वयमाह—कैश्चिदित्यादिना ।
शूद्र्यां ब्राह्मणाद् जातः निपादः । श्रुत्या पञ्चजनशब्दस्य अर्थान्तरमाह—क्वचि-
च्चेति । पाञ्चजन्यया प्रजया विशति इति विद् तथा विशा पुरुपरूपया इन्द्रस्य

रत्नप्रभाका अनुवाद

इस प्रकार अर्थ—छेदयोग्य लक्षणा माननी पड़ेगी, इसलिए 'उद्भित्' पद कर्मका नाम ही है ।
उसी प्रकार प्रतीत होता है कि 'यूपं छिनत्ति'में प्रसिद्धार्थभूत छेदनयोग्य अर्थका प्रतिपादन करनेवाले
'छिनत्ति' पदके समभिव्याहारसे 'यूप' शब्दका अर्थ दारुविशेष (एक प्रकारकी लकड़ी) है एवं
'करोति' पदके समभिव्याहारसे 'वेदि' शब्दका अर्थ संस्कारके योग्य स्थण्डिलविशेष है, इसी
प्रकार प्रसिद्ध अर्थवाले प्राण आदि शब्दोंके समभिव्याहारसे निश्चय होता है कि
'पञ्चजन' शब्द प्राण आदिका बोधक है । एकदेशियोंके दो मत कहते हैं—'कैश्चिद्'
इत्यादिसे । शब्दोंमें ब्राह्मणसे उत्पन्न निपाद है । धृतिसे 'पञ्चजन' शब्दका दूसरा भी अर्थ होता
है, ऐसा कहते हैं—'क्वचिच्च' इत्यादिसे । पाञ्चजन्य-प्रजारूपसे जो प्रवेश करता है, वह विद्

(१) एक साथ कथन ।

(२) उसके लिए पवित्र किया हुआ स्थान ।

भाष्य

प्रयोगः पञ्चजनशब्दस्य दृश्यते तत्परिग्रहेऽपीह न कश्चिद्विरोधः । आचार्यस्तु न पञ्चविंशतेस्तत्प्रमानामिह प्रतीतिरस्तीत्येवंपरतया 'प्राणादयो धाक्य-
शेषात्' इति जगाद ॥ १२ ॥

भवेयुस्तावत् प्राणादयः पञ्चजना माध्यन्दिनानाम्, येऽन्नं प्राणादि-
प्यामनन्ति । काण्वानां तु कथं प्राणादयः पञ्चजना भवेयुर्येऽन्नं
प्राणादिपु नाऽऽमनन्तीति । अत उत्तरं पठति—

भाष्यका अनुवाद

'यत्पाञ्चजन्यया०' इस प्रकार पञ्चजनशब्द प्रजाके अर्थमें प्रयुक्त हुआ दिखाई
देता है । उसका ग्रहण करनेमें भी कोई विरोध नहीं है । आचार्यने तो पञ्चीस
तत्त्वोंकी यहा प्रतीति नहीं होती इस आशयसे 'प्राणादयो०' ऐसा कहा है ॥१२॥

प्राण आदिमें अन्नका पाठ करनेवाले माध्यन्दिनशाखावालोंके मतमें प्राण
आदि पञ्चजन हो सकते हैं, परन्तु काण्व जो प्राण आदिमें अन्नका पाठ नहीं
करते हैं, उनके मतमें प्राण आदि पञ्चजन किस प्रकार हो सकते हैं ? इसके
लिए उत्तर सूत्र पढ़ते हैं—

रत्नप्रभा

आह्वानार्थं घोषाः सृष्टा इति यत् तद्युक्तम्, घोषातिरेकेण इन्द्राह्वानायोगादिति
श्रुत्यनुसारेण प्रजामात्रग्रहेऽपि न विरोध इत्यर्थ । सूत्रविरोधमाशङ्क्याऽऽह—
आचार्यस्तिरिति । अत साख्यतत्त्वतिरिक्तयत्किञ्चित्परतया पञ्चजनशब्दव्याख्या-
याम् अविरोध इति भाव ॥१२॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

कहलाता है, उस पुरुषरूप प्राणने इन्द्रका आह्वान करनेके लिए शब्दोंकी सृष्टि की यह बात
उपपन्न ही है, क्योंकि शब्दोंके बिना इन्द्रका आह्वान नहा हो सकता, इस प्रकार श्रुतिके अनुसार
'पञ्चजन' शब्दसे प्रजामात्रका ग्रहण करनेपर भी कोई विरोध नहीं है, ऐसा अर्थ है । सूत्र
विरोधकी शका करके कहते हैं—“आचार्यस्तु” इत्यादि । इसलिए 'पञ्चजन' शब्दको साख्यके
तत्त्वोंसे अतिरिक्त किसी अर्थपरक माननेपर भी कोई विरोध नहीं है, ऐसा अर्थ है ॥ १२ ॥



ज्योतिषैकेपामसत्यन्ने ॥ १३ ॥

पदच्छेद—ज्योतिषा, एकेपाम्, असति, अन्ने ।

पदार्थाक्ति—एकेपाम्—काण्वानाम्, अन्ने असति, ज्योतिषा—‘तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिः’ इत्यादिपूर्ववाक्यस्थज्योतिषा [पञ्चत्वं पूरणीयम्] ।

भाषार्थ—काण्वोंके पाठमें पूर्वोक्त प्राण आदि पांचमें अन्न न होनेके कारण ‘तद्देवा०’ इस पूर्ववाक्यस्थ ज्योतिसे पञ्चसङ्ख्याकी पूर्ति करनी चाहिए ।

भाष्य

असत्यपि काण्वानामन्ने ज्योतिषा तेषां पञ्चसंख्या पूर्णेत । तेषापि हि ‘यस्मिन् पञ्च पञ्चजनाः’ इत्यतः पूर्वस्मिन् मन्त्रे ब्रह्मस्वरूपनिरूपणायैव ज्योतिरधीयते—‘तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिः’ इति कथं पुनरुभयेपामपि तुल्यवदिदं ज्योतिः पठ्यमानं समानमन्त्रगतया पञ्चसंख्याया केषांचिद् गृह्यते केषांचिन्नेति ? अपेक्षाभेदादित्याह । माध्यन्दिनानां हि समान-

भाष्यका अनुवाद

काण्वोंके पाठमें अन्नके न होनेपर भी ज्योतिसे उनकी पांच संख्याकी पूर्ति होती है, क्योंकि वे भी ‘यस्मिन् पञ्च०’ (जिसमें पांच पञ्चजन) इत्यादिसे पूर्व मंत्रमें ब्रह्मस्वरूपका निरूपण करनेके लिए ही ‘तद्देवा ज्योतिषां०’ (ज्योतियोंकी ज्योतिरूपसे उसकी देवता उपासना करते हैं) इस प्रकार ज्योतिका अध्ययन करते हैं । परन्तु दोनों ही शाखावालोंके पाठमें समान रीतिसे पठित इस ज्योतिका एक ही मंत्रमें आई हुई पांच संख्यासे कुछ लोग ग्रहण करते हैं और कुछ लोग ग्रहण नहीं करते, इसमें क्या कारण है ? अपेक्षाका—

रत्नप्रभा

शङ्कोत्तरत्वेन सूत्रं गृह्णाति—भवेयुरिति । ज्योतिषां सूर्यादीनां ज्योतिः तद् ब्रह्म देवा उपासत इत्यर्थः । ननु इदं पठ्यन्तज्योतिःपदोक्तं सूर्यादिकं ज्योतिः शाखाद्वयेऽपि अस्ति, तत् काण्वानां पञ्चत्वपूरणाय गृह्यते नाऽन्येषामिति विकल्पो न युक्त इति शङ्कते—कथं पुनरिति । आकाङ्क्षाविशेषाद् विकल्पो युक्त इत्याह

रत्नप्रभाका अनुवाद

शंकाके उत्तररूपसे सूत्रका ग्रहण करते हैं—“भवेयुः” इत्यादिसे । सूर्य आदि ज्योतियोंके ज्योतिरूप ब्रह्मकी उपासना देवता करते हैं, ऐसा ‘तद्देवा०’ इस धृतिका अर्थ है । परन्तु पठ्यन्त ज्योतिःपदसे कथित यह सूर्य आदि ज्योति दोनोंकी—काण्व और माध्यन्दिनोंकी—शाखामें है, तो काण्व पञ्चत्वकी पूर्तिके लिए उसका ग्रहण करते हैं और माध्यन्दिन ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसा विकल्प युक्त नहीं है, ऐसी शंका करते हैं—“कथं पुनः” इत्यादिसे । आकाशा

भाष्य

मन्त्रपठितप्राणादिपञ्चजनलान्नाऽस्मिन् मन्त्रान्तरपठिते ज्योतिष्यपेक्षा भवति । तदलाभात्तु काण्वानां भवत्यपेक्षा । अपेक्षाभेदाच्च समानेऽपि मन्त्रे ज्योतिषो ग्रहणाग्रहणे, यथा समानेऽप्यतिरात्रे वचनभेदात् षोडशिनो ग्रहणाग्रहणे, तद्वत् । तदेवं न तावच्छ्रुतिप्रसिद्धिः काचित् प्रधानविषयाऽस्ति, स्मृतिन्यायप्रसिद्धी तु परिहरिष्येते ॥ १३ ॥

भाष्यका अनुवाद

आकांक्षाका भेद इसमें कारण है, ऐसा कहते हैं । एक ही मंत्रमें पठित प्राण आदिका माध्यन्दिनोंको लाभ होता है, इसलिए दूसरे मंत्रमें पठित ज्योतिकी उन्हें आकांक्षा नहीं रहती है । और एक ही मंत्रमें प्राण आदि पञ्चजनोंका लाभ न होनेसे काण्वोंको उसकी आकांक्षा रहती है । अपेक्षाके भेदसे समान मंत्रमें ही पठित ज्योतिका ग्रहण और अग्रहण होता है । जैसे एक ही अतिरात्र सत्रमें वचनभेदसे कहीं षोडशी (पात्र) का ग्रहण होता है और कहीं नहीं होता है । इसलिए इस प्रकार प्रधानमें कुछ भी श्रुतिप्रसिद्धि नहीं है । स्मृतिप्रसिद्धि और न्यायप्रसिद्धिका तो आगे परिहार करेंगे ॥१३॥

रत्नप्रभा

सिद्धान्ती—अपेक्षेति । यथाऽतिरात्रे षोडशिनं गृह्णातीति वाक्यभेदाद् विकल्पः, तद्वच्छाखाभेदेन अन्नपाठापाठाभ्यां ज्योतिषो विकल्प इत्यर्थः । ननु क्रियायां विकल्पो युक्तः, न वस्तुनि इति चेत् ; सत्यम्, अत्राऽपि शाखाभेदेन साक्षा ज्योतिःसहिता वा प्राणादयो यत्र प्रतिष्ठिताः, तत् मनसा अनुद्रष्टव्यमिति ध्यानक्रियायां विकल्पोपपत्तिरिति अनवद्यम् । उक्तं प्रधानस्याऽशब्दत्वमुपसंहरति— तदेवमिति । तथापि स्मृतियुक्तिभ्यां प्रधानमेव जगत्कारणम् इत्यत आह— स्मृतीति ॥१३॥ (३) ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

विशेषसे विकल्प युक्त है, ऐसा सिद्धान्ती कहते हैं—“अपेक्षा” इत्यादिसे । जैसे अतिरात्र नामक यागमें षोडशी (यज्ञपात्र) का ग्रहण करता है और षोडशीका ग्रहण नहीं करता है, ऐसा वाक्यभेदसे विकल्प है, उसी प्रकार शाखाभेदसे अन्नके पाठ और पाठभावसे ज्योतिका विकल्प होता है, ऐसा अर्थ है । यदि कोई कहे कि क्रियामें विकल्प होना युक्त है, वस्तुमें विकल्प होना ठीक नहीं है, तो यह बात (क्रियामें ही विकल्प होना युक्त है) सत्य है । परन्तु यहां भी कुछ दोष नहीं है, क्योंकि शाखाभेदसे अन्नसहित अथवा ज्योतिःसहित प्राण आदि जिसमें प्रतिष्ठित हैं, उसका मनसे ध्यान करना चाहिए, इस प्रकार ध्यानक्रियामें ही विकल्प है । प्रधान अशब्द है, ऐसा जो प्रतिपादन किया है, उसका उपसंहार करते हैं—“तदेवम्” इत्यादिसे । तो भी स्मृति और युक्तिमें प्रधान ही जगत्का कारण है, इसपर कहते हैं—“स्मृति” इत्यादि ॥ १३ ॥

[४ कारणत्वाधिकरण सू० १४—१५]

समन्वयो जगद्योनौ न युक्तो युज्यतेऽथवा ।

न युक्तो वेदवाक्येषु परस्परविरोधतः ॥ १ ॥

सर्गक्रमविवादेऽपि नासौ स्रष्टरि विद्यते ।

अव्याकृतमसत्प्रोक्तं युक्तोऽसौ कारणे ततः* ॥ २ ॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—जगत्के कारणमें वेदान्तोंका समन्वय युक्त है या नहीं ?

पूर्वपक्ष—वेदान्तवाक्योंमें परस्पर विरोध रहनेके कारण समन्वय नहीं हो सकता ।

सिद्धान्त—सृष्टिके क्रममें विवाद रहनेपर भी स्रष्टामें विवाद नहीं है, 'असत्' शब्दका अर्थ अव्याकृत है, इसलिए जगत्कारणमें वेदान्तवाक्योंका समन्वय युक्त है ।

* तात्पर्य यह है कि साडे तीन पादोंसे जगत्कारणमें वेदान्तोंका जो समन्वय कहा गया है, उसपर आक्षेप करके समाधान करनेके लिए इस अधिकरणका आरम्भ है ।

पूर्वपक्षी कहता है कि जगत्कारणमें वेदान्तोंका समन्वय युक्त नहीं है, क्योंकि वेदान्तवाक्योंमें बहुधा विरोधकी प्रतीति होनेसे उनका प्रामाण्य ही दुःसम्पाद है । जैसे कि "आत्मन आकाश, सम्भूत" (आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ) इस प्रकार तैत्तिरीयक श्रुतिमें आकाश आदिका स्रष्टा कहा गया है । छान्दोग्यमें "तत्तेजोऽसृजत्" (उसने तेजकी सृष्टि की) इस प्रकार तेज आदिका स्रष्टा कहा गया है । ऐतरेयमें "स इमाँलोकानसृजत्" (उसने इन लोकोंको उत्पन्न किया) इस प्रकार लोकोंका स्रष्टा कहा गया है । मुण्डकमें "एतस्माज्जायते प्राण" (इससे प्राण उत्पन्न हुआ) इस प्रकार प्राण आदिका स्रष्टा कहा गया है । केवल कार्य द्वारा ही विरोध नहीं है किन्तु कारणके स्वरूपके उपन्यासमें भी विरोध है—"सदेव सोम्येदमग्र आसीत्" (हे प्रिय दर्शन ! यह सारा जगत् उत्पत्तिके पूर्व सद्रूप ही था) इस छान्दोग्य श्रुतिमें सद्रूप कारण कहा गया है । तैत्तिरीयकमें "असदा इदमग्र आसीत्" (यह सब पहले असत् ही था) इस प्रकार असद्रूप कारण कहा गया है । ऐतरेयकमें 'आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्' (यह सब उत्पत्तिके पूर्वमें केवल आत्मरूप ही था) इस प्रकार आत्मरूप कारण कहा गया है । इससे सिद्ध हुआ कि परस्पर विरोध होनेसे वेदान्तोंका समन्वय नहीं हो सकता ।

सिद्धान्ती कहते हैं कि उत्पादित आकाश आदिमें और सृष्टिक्रममें भले ही विवाद हो, क्योंकि वेदान्तवाक्योंका तात्पर्य आकाश आदिमें नहीं होनेसे आकाश आदिका उपन्यास अद्वितीय ब्रह्मके बोधके लिए ही है । वेदान्तवाक्योंके तात्पर्यविषयभूत जगत्स्रष्टा क्रममें तो कहीं भी विरोध नहीं है । कहाँपर 'सत्' शब्दसे कावित ब्रह्मका दूसरे स्थानमें सर्वजीवरूपत्व कहनेकी इच्छासे आत्मशब्दसे अभिधान है । 'असत्' शब्दसे जो अभिधान है, वह अव्याकृत कहनेकी इच्छासे है, क्योंकि 'कथमसतः सज्जायते' (असत्से सत् कैसे उत्पन्न हो सकता है) इस प्रकार दूसरी श्रुतिसे अभावमें कारणत्वका निषेध किया है । इसलिए एकवाक्यताकी उपपत्ति होनेसे जगत्कारणमें वेदान्तोंका समन्वय होना युक्त है ।

कारणत्वे न चाकाशादिषु यथाव्यपदिष्टोक्तेः ॥ १४ ॥

पदच्छेद—कारणत्वे, न, च, आकाशादिषु, यथाव्यपदिष्टोक्तेः ।

पदार्थोक्ति—कारणत्वे च—ब्रह्मणः जगत्कारणत्वे तु, न—विरोधो नास्ति [कुतः] आकाशादिषु—सृज्यमानेषु आकाशादिपदार्थेषु, यथाव्यपदिष्टोक्तेः—यथामृत ईश्वरः एकत्र कारणत्वेनोपदिष्टः, तथामृतस्यैवाऽपरत्र कथनात् ।

भाषार्थ—ब्रह्मके जगत्कारण होनेमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि सृज्यमान आकाश आदि पदार्थोंके विषयमें यादृश ईश्वर एक उपनिषद्में कारणरूपसे कहा गया है, तादृश ही अन्य उपनिषदोंमें भी कारणरूपसे कहा गया है ।

भाष्य

प्रतिपादितं ब्रह्मणो लक्षणम्, प्रतिपादितं च ब्रह्मविषयं गतिसामान्यं वेदान्तवाक्यानाम्, प्रतिपादितं च प्रधानस्याऽगवदत्वम् । तत्रेदम-

भाष्यका अनुवाद

ब्रह्मका लक्षण कहा जा चुका है, सब वेदान्तवाक्य समानरूपसे ब्रह्मके ही बोधक हैं, यह कहा जा चुका है, एवं प्रधान श्रुतिप्रतिपादित नहीं है, यह भी कहा

रत्नप्रभा

कारणत्वे न चाकाशादिषु यथाव्यपदिष्टोक्तेः । पूर्वग्रन्थेन अस्य सङ्गतिं वक्तुं वृत्तमनुवदति—प्रतिपादितमिति । अधिकरणत्रयेण प्रधानस्य अश्रौतत्वोक्त्या जगत्कारणत्वलक्षणेन ब्रह्मण एव बुद्धिस्थता, तस्मिन्नेव बुद्धिस्थे निर्विशेषे ब्रह्मणि वेदान्तानां समन्वय इति साधितं पूर्वसूत्रसन्दर्भेण । तत्र लक्षणसमन्वययोः असिद्धिरेव, श्रुतीनां विरोधदर्शनात् इत्याक्षेपरूपां तेन अस्य सङ्गतिमाह—तत्रेति । न च अविरोधचिन्ताया द्वितीयाध्याये सङ्गतिः, न

रत्नप्रभाका अनुवाद

कारणत्वे न ... व्यपदिष्टोक्ते । पूर्व ग्रन्थके साथ इस अधिकरणकी संगति कहनेके लिए वृत्तका अनुवाद करते हैं—“प्रतिपादितम्” इत्यादिसे । पूर्वके तीन अधिकरणों द्वारा प्रधानको अशब्द कहनेसे जगत्कारणत्वरूप लक्षणसे ब्रह्म ही बुद्धिस्थ होता है उसी बुद्धिस्थ निर्गुण ब्रह्ममें वेदान्तोंका समन्वय है, ऐसा पूर्व ग्रन्थसे सिद्ध किया गया है । उसमें लक्षण और समन्वय दोनों असिद्ध ही हैं, क्योंकि श्रुतियोंका विरोध देखनेमें आता है, इस प्रकार पूर्वग्रन्थके साथ इसकी आक्षेपसंगति कहते हैं—“तत्र” इत्यादिसे । यदि कोई कहे कि अविरोधका विचार तो दूसरे अध्यायका विषय है इस अध्यायका

परमाशङ्क्यते—न जन्मादिकारणत्वं ब्रह्मणो ब्रह्मविषयं वा गतिसामान्यं वेदान्तवाक्यानां प्रतिपादयितुं शक्यम् । कस्मात् ? विगानदर्शनात् ।

जा चुका है । यहाँ पर अब दूसरी शंका होती है—ब्रह्म जगत्के जन्म आदिका कारण है और सब वेदान्तवाक्य समानभावसे उसीमें समन्वित हैं, ऐसा नहीं

रत्नप्रभा

अस्मिन् अध्याये इति वाच्यम्, सिद्धे समन्वये स्मृत्यादिमानान्तरविरोधनिरासस्य द्वितीयाध्यायार्थत्वात् । तत्पदवाच्यजगत्कारणवादिश्रुतीनां मिथो विरोधाद् वाच्यार्थानिश्चयेन लक्ष्ये समन्वयासिद्धौ प्राप्तायां तत्साधकाविरोधचिन्ताया अत्रैव सङ्गतत्वात् । न चैवं सृष्टिश्रुतीनामपि अविरोधोऽत्रैव चिन्तनीय इति वाच्यम्, स्वप्नवत् कल्पितसृष्टौ विरोधस्यैव अभावात् । किमर्थं तर्हि द्वितीये तच्चिन्तनम्, स्थूलबुद्धिसमाधानार्थमिति ब्रूमः । इह तु सूक्ष्मदृशां वाक्यार्थे समन्वयज्ञानाय तत्पदार्थश्रुतिविरोधः परिह्रियते । यद्यपि त्वम्पदार्थश्रुतिविरोधोऽत्र परिहर्तव्यः, तथापि प्रथमसूत्रेण बन्धमिथ्यात्वसूचनात् अविरोधः सिद्धः । प्रपञ्चस्तु स्थूलबुद्धिसमाधानप्रसङ्गेन भविष्यतीति मन्यते सूत्रकारः । अत्र जगत्कारणश्रुतयो विषयः, ताः किं ब्रह्मणि मानं न वा इति सशये अन्नज्योतिषोः संख्यादृष्टिक्रियायां

नहीं है, तो यह शंका युक्त नहीं है, क्योंकि वेदान्तवाक्योंका समन्वय ब्रह्ममें सिद्ध होनेपर स्मृति आदि अन्य प्रमाणोंके विरोधका निराकरण करना दूसरे अध्यायका प्रयोजन है । तत्पदवाच्य जो जगत्का कारण है उसको कहनेवाली श्रुतियोंका परस्पर विरोध होनेसे वाच्यार्थका निश्चय न होनेके कारण लक्ष्यभूत ब्रह्ममें वेदान्तोंके समन्वयकी असिद्धि प्राप्त होनेपर समन्वयको सिद्ध करनेवाले अविरोधकी चिन्ताकी यहाँ संगति है ही । तब सृष्टिसंबन्धी श्रुतियोंके अविरोधका भी यहाँ विचार कर लेना चाहिए, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि स्वप्नके समान कल्पित सृष्टिमें विरोध ही नहीं है । यदि ऐसा है, तो द्वितीयाध्यायमें उसका विचार क्यों है ? हम कहते हैं कि यह तो स्थूलबुद्धियोंके समाधानके लिए है । यहाँ तो सूक्ष्मबुद्धियोंको ब्रह्ममें वेदान्तवाक्योंके समन्वयका ज्ञान होनेके लिए तत्पदार्थश्रुतियोंके विरोधका परिहार किया जाता है । यद्यपि यहाँ त्वम्पदार्थश्रुतिके विरोधका परिहार करना उचित था, तो भी प्रथम सूत्रसे बन्धवा मिथ्यात्व सूचित होनेसे अविरोध सिद्ध ही है । इसका विस्तार तो स्थूलबुद्धियोंके समाधानके लिए है, ऐसा सूत्रकार मानते हैं । यहाँ जगत्के कारणका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियां विषय हैं । वे ब्रह्ममें प्रमाण हैं या नहीं ऐसा संशय होनेपर सध्याको प्रधान रखकर क्रियमाण ध्यानक्रियामें अक्ष और

भाष्य

प्रतिवेदान्तं ह्यन्याऽन्या सृष्टिरुपलभ्यते, क्रमादिवैचित्र्यात् । तथाहि—
 क्वचित् 'आत्मन आकाशः संभूतः' (तै० २।१) इत्याकाशादिका सृष्टि-
 राम्नायते । क्वचित् तेजआदिका—'तत्तेजोऽसृजत' (छा० ६।२।३) इति,
 क्वचित् प्राणादिका—'स प्राणमसृजत प्राणाच्छ्रद्धाम्' (प्र० ६।४) इति,
 क्वचिदक्रमेणैव लोकानामुत्पत्तिराम्नायते—'स इमाल्लोकानसृजत । अम्भो

भाष्यका अनुवाद

माना जा सकता । किससे ? विप्रतिपत्तिदर्शनसे । क्योंकि प्रत्येक उपनिपत्तमें
 क्रम आदिकी विचित्रतासे अन्यान्य सृष्टि उपलब्ध होती है । जैसे कि
 कहीं पर 'आत्मन आकाशः' (आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ) इस प्रकार
 श्रुतिमें आकाशपूर्वक सृष्टि कही गई है । कहीं पर 'तत्तेजो' (उसने तेज
 उत्पन्न किया) इस प्रकार तेजपूर्वक सृष्टि कही गई है । कहीं पर 'स
 प्राणमसृजत' (उसने प्राण उत्पन्न किया, प्राणसे श्रद्धा उत्पन्न की) इस
 प्रकार प्राणपूर्वक सृष्टि कही गई है । कहीं पर 'स इमाल्लोकानसृजत' (उसने इन
 लोकोंकी सृष्टिकी—जलमयशरीरवाला स्वर्गलोक, सूर्यकिरणसे

रत्नप्रभा

विकल्पेऽपि कारणे वस्तुनि असद् वा सद् वा कारणम् इत्यादिविकल्पासम्भवाद्
 अप्रामाण्यमिति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षयन् उक्ताक्षेपं विवृणोति—प्रतिवेदान्त-
 मित्यादिना । वेदान्तानां समन्वयसाधनात् श्रुत्यध्यायसङ्गतिः । असदादिपदानां
 सत्कारणे समन्वयोक्तेः पादसङ्गतिः । पूर्वपक्षे समन्वयासिद्धिः फलम्, सिद्धान्ते
 तत्सिद्धिरिति विवेकः । क्रमाक्रमाभ्यां सृष्टिविरोधं तावद् दर्शयति—तथाहि
 क्वचिदित्यादिना । स परमात्मा लोकानसृजत । अम्भयशरीरप्रचुरस्वर्गलोकः
 अम्भःशब्दार्थः । सूर्यरश्मिन्यासोऽन्तरिक्षलोकः—मरीचयः । मरः—मर्त्यलोकः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

उद्योतिका विकल्प होनेपर भी जगत्कारणके विषयमें कारण सत् है या असत् है, इत्यादि
 विकल्पोंका संभव न होनेसे उन श्रुतियोंका अप्रामाण्य हो जायगा, इस प्रकार प्रत्युदाहरण संगतिसे
 पूर्वपक्ष करते हुए उक्त आक्षेपका विवरण करते हैं—“प्रतिवेदान्तम्” इत्यादिसे । वेदान्तोंका ब्रह्ममें
 समन्वय सिद्ध किया जाता है, इसलिए श्रुतिसंगति और अध्यायसंगति हैं । 'असत्' आदि पदोंका
 सद् रूप कारणमें समन्वय कहा गया है, अतः पादसंगति है । पूर्वपक्षमें ब्रह्ममें वेदान्तवानियोंके
 समन्वयकी असिद्धि फल है, सिद्धान्तमें उसकी सिद्धि फल है, ऐसा जानना चाहिए । क्रम
 और अक्रमसे सृष्टिमें विरोध दिखलते हैं—“तथा हि क्वचित्” इत्यादिसे । उस परमात्माने
 लोकोंकी सृष्टि की । जलमय शरीर जिसमें बहुत हैं, वह स्वर्गलोक 'अम्भः' शब्दका अर्थ है ।
 सूर्यरश्मियोंसे व्याप्त अन्तरिक्षलोक 'मरीचि' है । मर—मनुष्यलोक । जलपूरित पाताल लोक

भाष्य

मरीचीर्मरमापः' (ए० उ० ४।१।२) इति, तथा क्वचिदसत्पूर्विका सृष्टिः पठ्यते—'असद्वा इदमग्र आसीत्ततो वै सदजायत' (तै० २।७) इति, 'असदेवेदमग्र आसीत्तत्सदासीत्तत्समभवत्' (छा० ३।१९।१) इति च । क्वचिदसद्वादनिराकरणेन सत्पूर्विका प्रक्रिया प्रतिज्ञायते—'तद्वैक आहुरसदेवेदमग्र आसीत्' इत्युपक्रम्य 'कुतस्तु खलु सोम्यैवं स्यादिति होवाच कथमसतः सजायेतेति, 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्' (छा० ६।२।१, २)

भाष्यका अनुवाद

व्याप्त अन्तरिक्षलोक, मनुष्यलोक और जलमय पाताललोक) इस प्रकार क्रमके बिना ही लोकोंकी सृष्टि कही गई है । वही प्रकार कहींपर 'असद्वा इदमग्र०' (पूर्वमें यह असत् था, इससे सत् उत्पन्न हुआ) और 'असदेवेदमग्र०' (पूर्वमें यह असत् ही था, वह सत् हुआ, वह सम्यक् अभिव्यक्त हुआ) इस प्रकार असत्पूर्वक सृष्टि कही गई है । कहींपर असद्वादका निराकरण करके 'तद्वैक आहुरसदे०' (जगत्के कारणके विषयमें कुछ लोग कहते हैं कि पहले यह असत् ही था) इस प्रकार उपक्रम करके 'कुतस्तु खलु सोम्यैवं०' (परन्तु हे सोम्य ! ऐसा किस प्रकार हो सकता है,

रत्नप्रभा

अबबहुलाः पाताललोकाः—आप इति श्रुत्यर्थः । सृष्टिविरोधम् उक्त्वा कारणविरोधमाह—तथेति । असद्—अनभिव्यक्तनामरूपात्मकं कारणम्, ततः—कारणात् सद्—अभिव्यक्तम् । एतत्तुल्यार्थं छान्दोग्यवाक्यमाह—असदेवेति । किं शून्यमेव नेत्याह—तत्सदिति । अवाधितं ब्रह्मैव आसीदित्यर्थः । तद्—ब्रह्मात्मना स्थितं जगत् सृष्टिकाले सम्यगभिव्यक्तम् अभवत् । प्रक्रिया—सृष्टिः । तत्—तत्र कारणे । एके—बाह्याः, तेषां मतं श्रुतिरेव दृषयति—कुत इति । कुतएवंपदयोः

रत्नप्रभाका अनुवाद

'आप.' शब्दसे कहा गया है, यह धुतिका अर्थ है । सृष्टिका विरोध कहकर कारणमें विरोध दिखलाते हैं—'तथा' इत्यादिसे । 'असत्'—जिसके नाम और रूप अभिव्यक्त नहीं हुए, ऐसा कारण, उस कारणसे सत्—दृश्यमान जगत् अभिव्यक्त हुआ । तत्सिरीयक धुतिकी समानार्थक छान्दोग्यधुति कहते हैं—'असदेव' इत्यादि । प्रारम्भमें क्या शून्य ही था ! इस शंकापर "तत्सत्" इत्यादिसे कहते हैं कि नहीं था, किन्तु अवाधित ब्रह्म था । 'तत्समभवत्'—ब्रह्मरूपसे स्थित जगत् सृष्टि कालमें भली भौति अभिव्यक्त हुआ । प्रक्रिया—सृष्टि । तत्—कारणमें । एके—बाह्य, धुतितो यहिर्मुनि, उनका मत धुति ही दूषित करती है—'कुतः'

भाष्य

इति, क्वचित् स्वयंकर्तृकैव व्याक्रिया जगतो निगद्यते—‘तद्वेदं तर्ह्यव्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत’ (वृ० १।४।७) इति । एवमनेकधा विप्रतिपत्तेर्वस्तुनि च विकल्पस्याऽनुपपत्तेर्न वेदान्तवाक्यानां जगत्कारणावधारणपरता न्याय्या । स्मृतिन्यायप्रसिद्धिभ्यां तु कारणान्तर-परिग्रहो न्याय्य इति ।

एवं प्राप्ते ब्रूमः—सत्यपि प्रतिवेदान्तं सृज्यमानेष्वाकाशादिषु क्रमा-दिद्वारके विगाने न स्रष्टरि किञ्चिद्विगानमस्ति । कुतः ? यथाव्यप-

भाष्यका अनुवाद

असत्से सत् किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है, हे सोम्य ! यह सब पूर्वमें सत् ही था, ऐसा कहते हैं) इस प्रकार सत्पूर्वक सृष्टिकी प्रतिज्ञा की जाती है । कहींपर ‘तद्वेदं तर्ह्यव्याकृतं’ (यह सृष्टिके पूर्वमें अव्याकृत था, वह नाम-रूपसे ही व्याकृत हुआ) इत्यादिसे जगत्की सृष्टि अपने आप ही हुई है, ऐसा कहा है । इस प्रकार अनेक रीतिसे विप्रतिपत्ति होने और वस्तुमें विकल्पका संभव न होनेसे वेदान्तवाक्योंका तात्पर्य जगत्कारणके अवधारणमें है, यह नहीं माना जा सकता । स्मृतिप्रसिद्धि और न्यायप्रसिद्धिसे तो ब्रह्मभिन्न कारणका स्वीकार करना उचित है ।

ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं—उपनिषदोंमें सृज्यमान आकाश आदिके क्रमके विषयमें विप्रतिपत्ति होनेपर भी स्रष्टाके विषयमें कुछ भी विरोध नहीं है ।

रत्नप्रभा

अर्थमाह—कथमिति । स्वमतमाह—सदिति । तदिदं—जगत् ह—किल तर्हि—प्राक्काले अव्याकृतम् कारणात्मकम् आसीत् । श्रुतीनां विरोधम् उपसंहरति—एवमिति । किमत्र न्याय्यम्—इत्याशङ्क्य मानान्तरसिद्धप्रधानलक्षकत्वं वेदान्तानां न्याय्यमित्याह—स्मृतीति ।

तत्र स्रष्टौ विरोधम् अङ्गीकृत्य स्रष्टरि विरोधं परिहरति—सत्यपीति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

इत्यादिसे । ‘कुतः’ और ‘एवम्’ पदका अर्थ कहते हैं—‘कथम्’ इत्यादिसे । श्रुति अपना मत कहती है—‘सत्’ इत्यादिसे । यह जगत् सृष्टिके पहले कारणात्मक था । श्रुतियोंके विरोधका उपसंहार करते हैं—‘एवम्’ इत्यादिसे । तब यहां क्या उचित है, ऐसी आशंका करके अन्य प्रमाणसे सिद्ध हुए प्रधान को ही वेदान्तवाक्योंका लक्ष्य मानना उचित है, ऐसा कहते हैं—‘स्मृति’ इत्यादिसे ।

ऐसी स्थिति प्राप्त होनेपर स्रष्टेमें विरोधका अंगीकार करके सृष्टिकर्तामें विरोधका परिहार

भाष्य

दिष्टोक्तेः । यथाभूतो लोकस्मिन् वेदान्ते सर्वज्ञः सर्वेश्वरः सर्वात्मैकोऽद्वितीयः कारणत्वेन व्यपदिष्टः, तथाभूत एव वेदान्तान्तरेष्वपि व्यपदिश्यते । तद्यथा—‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ (तै० २।१ इति) । अत्र तावद् ज्ञानशब्देन परेण च तद्विषयेण कामयितृत्ववचनेन चेतनं ब्रह्म न्यरूपयत्, अपरप्रयोज्यत्वेनेश्वरं कारणमब्रवीत् । तद्विषयेणैव परेणाऽऽत्मशब्देन शरीरादिकोशपरम्परया चाऽन्तरनुप्रवेशनेन सर्वेषामन्तः प्रत्यगात्मानं निरधारयत् । ‘बहु स्यां प्रजायेय’ (तै० २।६) इति चाऽऽत्मविषयेण

भाष्यका अनुवाद

क्योंकि जैसा एक जगह स्रष्टाका व्यपदेश है, वैसा ही सब जगह व्यपदेश है अर्थात् एक उपनिषद्में जैसा सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वात्मक, एक, अद्वितीय ईश्वर कारणरूप कहा गया है, वैसा ही अन्य उपनिषदोंमें भी कहा गया है । वह इस प्रकार है—‘सत्यं ज्ञानं०’ (ब्रह्म सत्य, ज्ञान एवं अनन्त है) यहाँपर ज्ञानशब्दसे अनन्तरोक्त उस ब्रह्मको कामयिता कहनेवाले वचनसे चेतन ब्रह्मका निरूपण करती हुई श्रुतिने ईश्वरको स्वतंत्र कारण कहा है । अनन्तरोक्त ब्रह्मविषयक आत्मशब्दसे और शरीर आदि कोशपरम्परा द्वारा सबके अन्दर प्रवेश करनेसे सबके भीतर प्रत्यगात्माका निर्धारण किया है । ‘बहु स्यां०’

रत्नप्रभा

आकाशादिषु ब्रह्मणः कारणत्वे विरोधो नैव अस्तीति प्रतिज्ञायां हेतुमाह—कुत इति । यथाभूतत्वमेव आह—सर्वज्ञ इति । कारणस्य सर्वज्ञत्वादिकं प्रतिवेदान्तं दृश्यत इत्याह—तद्यथेत्यादिना । तद्विषयेण—ब्रह्मविषयेण, चेतनम्—सर्वज्ञम्, “तदात्मानं स्वयमकुरुत” (तै० २।७।१) इति श्रुतेः अपरप्रयोज्यत्वम् । “तस्माद्वा एतस्मादात्मनः” (तै० १।२) इति प्रत्यगात्मत्वम् । स्वस्य

रत्नप्रभाका अनुवाद

करते हैं—“सत्यापि” इत्यादिसे । आकाश आदिका ब्रह्म कारण है, इसमें विरोध है ही नहीं इस प्रतिज्ञामें कारण कहते हैं—“कुतः” इत्यादिसे । यथाभूतत्वका विवरण करते हैं—“सर्वज्ञ” इत्यादिसे । कारणमें सर्वज्ञत्व आदि धर्म हैं, यह बात राय वेदान्तवाक्योंमें दिखाई देती है, ऐसा कहते हैं—“तद्यथा” इत्यादिसे । ‘तद्विषयेण’—ब्रह्मविषयकसे, चेतन-सर्वज्ञ । ‘तदात्मानं०’ (उसने आत्माको स्वयं किया) इस श्रुतिसे स्पष्ट है कि ईश्वरमें परप्रयोज्यत्व नहीं है । ‘तस्माद्वा एतस्मा०’ इस श्रुतिसे स्पष्ट है कि ईश्वर प्रत्यगात्मा

भाष्य

बहुभवनानुशंसनेन सृज्यमानानां विकाराणां स्रष्टुरभेदमभाषत, तथा 'इदं सर्वमसृजत यदिदं किंच' (तै० २।६) इति समस्तजगत्सृष्टिनिर्देशेन प्राक्स्रष्टेरद्वितीयं स्रष्टारमाचष्टे । तदत्र यल्लक्षणं ब्रह्म कारणत्वेन विज्ञातम्, तल्लक्षणमेवाऽन्यत्राऽपि विज्ञायते—'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्, तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति, तत्तेजोऽसृजत' (छा० ६।२।१,३) इति, तथा 'आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्किंचन मिपत् स ऐक्षत लोकान्नु सृजै' (ऐ० उ० ४।१।१,२) इति च, एवंजातीयकस्य कारणस्वरूपनिरूपणपरस्य वाक्यजातस्य प्रतिवेदान्तमविगीतार्थत्वात् ।

भाष्यका अनुवाद

(बहुत होऊँ, उत्पन्न होऊँ) इस प्रकार आत्माके अनेक स्वरूप कथनसे सृज्यमान विकारोंका स्रष्टासे अभेद कहा है । उसी प्रकार 'इदं सर्वमसृजत०' (उसने यह जो कुछ है, सब उत्पन्न किया) इस प्रकार समस्त जगत्की सृष्टिके निर्देशसे सृष्टिके पूर्व केवल अद्वितीय स्रष्टा ही था ऐसा (श्रुतिने) कहा है । इसलिए जिस प्रकारके लक्षणवाला ब्रह्म कारणरूपसे यहाँ बतलाया गया है, उसी प्रकारके लक्षणवाला ब्रह्म 'सदेव सोम्येदमग्र०' (हे सोम्य ! पहले सारा प्रपंच एक, अद्वितीय, सत्स्वरूप ही था) 'तदैक्षत बहु स्यां०' (उसने विचारा कि मैं बहुत होऊँ, उत्पन्न होऊँ, उसने तेजकी सृष्टिकी) उसी प्रकार 'आत्मा वा इदमेक०' (सृष्टिके पूर्व यह सब केवल आत्मरूप ही था, दूसरा कोई सचेष्ट पदार्थ नहीं था, उसने विचार किया कि मैं लोकोंकी सृष्टि करूँ) इस प्रकार अन्य स्थलोंमें भी जाना जाता है । कारणस्वरूपका निरूपण करनेमें तात्पर्य रखनेवाले इस प्रकारके वाक्यसमूह प्रत्येक उपनिषत्में हैं और उनके

रत्नप्रभा

बहुरूपत्वकामनया स्थितिकालेऽपि अद्वितीयत्वम् । यथा तैत्तिरीयके सर्वज्ञत्वादिकं कारणस्य, तथा छान्दोग्यादौ अपि दृश्यते इत्याह—तदत्र यल्लक्षणमिति । मिपत्—सव्यापारम् । अविगीतार्थत्वाद्—अविरुद्धार्थकत्वात् कारणे नाऽस्ति

रत्नप्रभाका अनुवाद

है । उसने स्वयं बहुत रूपोंकी कामना की है, इसलिए स्थितिकालमें भी ब्रह्म अद्वितीय ही है । जैसे तैत्तिरीयक धृतिमें कारणमें सर्वज्ञत्व आदि दिखाई देते हैं, वैसे ही छान्दोग्य आदिमें भी दिखाई देते हैं, ऐसा कहते हैं—'तदत्र यल्लक्षणम्' इत्यादिसे । 'मिपत्'—व्यापारयुक्त । 'अविगीतार्थत्वाद्'—विरुद्धार्थक न होनेके कारण । 'अविगीतार्थत्वात्' के बाद 'कारणे नास्ति

भाष्य

कार्यविषयं तु विगानं दृश्यते क्वचिदाकाशादिका सृष्टिः क्वचित् तेजआदि-
कैत्येवंजातीयकम् । न च कार्यविषयेण विगानेन कारणमपि ब्रह्म सर्व-
वेदान्तेष्वविगीतमधिगम्यमानमविवक्षितं भवितुमर्हतीति शक्यते वक्तुम्,
अतिप्रसङ्गात् । समाधास्यति चाऽऽचार्यः कार्यविषयमपि विगानं 'न
वियदश्रुतेः' (ब्र० सू० २।३।१) इत्यारभ्य । भवेदपि कार्यस्य विगीतत्व-
मप्रतिपाद्यत्वात्, नह्ययं सृष्ट्यादिप्रपञ्चः प्रतिपिपादयिषितः । नहि
भाष्यका अनुवाद

अर्थमें कुछ भी विप्रतिपत्ति नहीं है । परन्तु कहींपर आकाशपूर्वक सृष्टि
कही गई है, तो कहींपर तेजपूर्वक कही गई है, इस प्रकार कार्यमें
तो विप्रतिपत्ति देखी जाती है । कार्यविषयक विप्रतिपत्तिसे सब वेदा-
न्तोंमें अतिरुद्धरूपसे प्रतीत होनेवाला कारणरूप ब्रह्म भी अविवक्षित है, यह
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा माननेपर अतिप्रसंग हो जायगा । 'न
वियदश्रुतेः' इस सूत्रसे प्रारम्भ करके कार्यविषयक विप्रतिपत्तिका भी आचार्य
समाधान करेंगे । वेदान्तप्रतिपाद्य न होनेके कारण कार्यके विषयमें विप्रति-

रत्नप्रभा

विप्रतिपत्तिरिति शेषः । तथापि कार्ये विरोधात् कारणेऽपि विरोधः स्यादित्या-
शङ्क्य निषेधति—कार्यविषयन्त्वित्यादिना । स्वमसृष्टीनां प्रत्यहम् अन्यथा-
त्वेन सोऽहमिति प्रत्यभिज्ञायमाने द्रष्टरि अपि नानात्वं प्रसज्येत इत्याह—
अतिप्रसङ्गादिति । सृष्टिविरोधम् अङ्गीकृत्य स्रष्टरि न विरोध इत्युक्तम् अधुना
अङ्गीकारं त्यजति—समाधास्यति चेति । किमर्थं तर्हि श्रुतयः सृष्टिम्
अन्यथाऽन्यथा वदन्तीत्याशङ्क्य सृष्टौ अतात्पर्यज्ञापनाय इत्याह—भवेदित्या-
रत्नप्रभाका अनुवाद

विप्रतिपत्तिः' (कारणमें कुछ भी विप्रतिपत्ति नहीं है) इतना शेष समझना चाहिए । तो भी
कार्यमें विरोध होनेसे कारणमें भी विरोध हो, ऐसी आशंका करके उसका निराकरण करते हैं—
'कार्यविषयं तु' इत्यादिसे । प्रतिदिन स्वप्नसृष्टियां नाना प्रकारकी होती हैं, इससे
'सोऽहम्' (वह मैं हूँ) इस प्रकार जिसकी प्रत्यभिज्ञा होती है, उस द्रष्टामें
भेद हो जायगा, ऐसा कहते हैं—'अतिप्रसङ्गात्' इत्यादिसे । पहले सृष्टिमें
विरोध मानकर स्रष्टामें विरोध नहीं है, ऐसा कहा है, अब स्वीकृत सृष्टिविरोधका
परित्याग करते हैं—'समाधास्यति च' इत्यादिसे । तब श्रुतियां सृष्टिको भिन्न भिन्न रूपसे क्यों
कहती हैं, ऐसी आशंका करके वह कथन वेदान्तवाक्योंका तात्पर्य सृष्टिमें नहीं है, ऐसा
ज्ञान करानेके लिए है, ऐसा कहते हैं—'भवेत्' इत्यादिसे । जिस अर्थमें तात्पर्य नहीं है,

भाष्य

तत्प्रतिबद्धः कश्चित् पुरुषार्थो दृश्यते श्रूयते वा, न च कल्पयितुं शक्यते, उपक्रमोपसंहाराभ्यां तत्र तत्र ब्रह्मविषयैर्वाक्यैः साकमेकवाक्यताया गम्यमानत्वात् । दर्शयति च. सृष्ट्यादिप्रपञ्चस्य ब्रह्ममतिपत्त्यर्थताम्—‘अन्नेन सोम्य शुद्धेनापोमूलमन्विच्छाद्भिः सोम्य शुद्धेन तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुद्धेन सन्मूलमन्विच्छ’ (छा० ६।८।४) इति । मृदादिदृष्टान्तैश्च कार्यस्य कारणेनाऽभेदं वदितुं सृष्ट्यादिप्रपञ्चः श्राव्यत इति गम्यते । तथा च संप्रदायविदो वदन्ति—

भाष्यका अनुवाद

पति भले ही हो उससे हमारी हानि ही क्या है । निश्चय, सृष्टि आदि प्रपंच वेदान्तवाक्योंसे विवक्षित नहीं है, क्योंकि प्रपंचसे संबन्ध रखनेवाला कोई भी पुरुषार्थ न तो अनुभवसिद्ध है और न श्रुतिमें ही मिलता है, एवं सृष्टिविषयक वाक्योंसे उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि उपक्रम और उपसंहारके बलसे तत् तत् उपनिषदोंमें स्थित ब्रह्मविषयक वाक्योंके साथ उनकी एकवाक्यता प्रतीत होती है । ‘अन्नेन सोम्य शुद्धेन०’ (हे सोम्य ! अन्नरूप कार्यसे जलरूप मूलका निश्चय करो, हे सोम्य ! जलरूप कार्यसे तेजरूप मूलका निश्चय करो और हे सोम्य ! तेजरूप कार्यसे सद्रूप मूलका निश्चय करो) इस प्रकार सृष्टि आदि प्रपंच ब्रह्मके ज्ञानके लिए है, ऐसा श्रुति दितरताती है । और मृत् आदि दृष्टान्तोंसे कार्यकारणसे अभेद कहनेके लिए सृष्टि आदि प्रपंचका श्रुतिमें प्रतिपादन किया है, ऐसा

रत्नप्रभा

दिना । अतात्पर्यार्थे विरोधो न दोषाय इत्यत्र तात्पर्यं साधयति—नहीति । फलवद्ब्रह्मवाक्यशेषत्वेन सृष्टिवाक्यानाम् अर्थवत्त्वसम्भवाच्च स्वार्थे पृथक् फलं कल्प्यम्, वाक्यभेदापत्तेः इत्याह— न च कल्पयितुमिति । न्यायात् एकवाक्यत्वं सिद्धं श्रुतिः अपि दर्शयति इत्याह—दर्शयति चेति । शुद्धेन—कार्येण लिङ्गेन । कारणब्रह्मज्ञानार्थत्वं सृष्टिश्रुतीनाम् उक्त्वा कारणस्य, अद्वयत्वज्ञानं रत्नप्रभाका अनुवाद

इस अर्थका विरोध दोषावद नहीं होता है, इसके लिए सृष्टिमें तात्पर्यभावको सिद्ध करते हैं—“नहि” इत्यादिसे । सार्थक ब्रह्मवाक्योंके दोष होनेके कारण सृष्टिवाक्य भी सार्थक हो सकते हैं, इसलिए उनके स्वार्थमें पृथक् फलकी कल्पना नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वाक्यभेद हो जायगा, ऐसा कहते हैं—“न च कल्पयितुम्” इत्यादिसे । न्यायसे सिद्ध एकवाक्यताको धृति भी दितरताती है, ऐसा कहते हैं—“दर्शयति च” इत्यादिसे । ‘शुद्धेन’—कार्यरूप लिङ्गसे । कारणरूप ब्रह्मके ज्ञानके लिए सृष्टिश्रुतियोंका उपयोग है, ऐसा कहकर

भाष्य

‘मृल्लोहविस्फुलिङ्गाद्यैः सृष्टिर्या चोदिताऽन्यथा ।

उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथंचन ॥’

(मा० ३।२५) इति । ब्रह्मप्रतिपत्तिप्रतिबद्धं तु फलं श्रूयते—‘ब्रह्मविदाप्नोति परम्’ (तै० २।१) ‘तरति शोकमात्मवित्’ (छा० ७।१।३) ‘तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति’ (श्वे० ३।८) इति च । प्रत्यक्षावगमं चेदं फलम् ‘तत्त्वमसि’ इत्यसंसार्यात्मत्वप्रतिपत्तौ सत्यां संमार्यात्मत्वव्यावृत्तेः ॥ १४ ॥

भाष्यका अनुवाद

प्रतीत होता है । और ‘मृल्लोहविस्फुलिङ्गाद्यैः’ (मृत्तिका) लोह, चिनगारी आदि अन्यान्य प्रकारसे जो सृष्टि कही गई है, वह ब्रह्मका ज्ञान उत्पन्न होनेके लिए है, किसी भी प्रकारसे कारणमें भेद नहीं है) इस प्रकार सम्प्रदाय जाननेवाले भी कहते हैं । ब्रह्मज्ञानसे होनेवाला फल ‘ब्रह्मविदाप्नोति’ (ब्रह्मवेत्ता परब्रह्मको प्राप्त करता है) ‘तरति शोकं’ (आत्मवेत्ता शोकको पार कर जाता है) ‘तमेव विदित्वा’ (उसीको जानकर मृत्युपर विजय पाता है) इस प्रकार सुना जाता है । और यह फल प्रत्यक्ष अनुभवमें आनेवाला है, क्योंकि ‘तत्त्वमसि’ (वह तू है) ऐसे असंसारी आत्माकी प्रतीति होनेसे संसारी आत्मत्व जाता रहता है ॥ १४ ॥

रत्नप्रभा

फलान्तरमाह—मृदादीति । एवं निष्फलयाम् अन्यार्थायां सृष्टौ तात्पर्याभावात् विरोधो न दोष इत्यत्र वृद्धसम्प्रतिमाह—तथा चेति । अन्यथाऽन्यथेति वीप्सा द्रष्टव्या । अवताराय—ब्रह्मधीजन्मने, अतस्तदन्यथात्वेऽपि ब्रह्मणि न भेदः । ज्ञेये न विगानम् इत्यर्थः । ब्रह्मज्ञानस्य सृष्टिशेषित्वम् उक्तम् तन्निर्वाहाय तस्य फलमाह—ब्रह्मेति । मृत्युम् अत्येति इत्यन्वयः ॥ १४ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

कारणमें अद्वितीयत्वज्ञानरूप अन्य फल कहते हैं—‘मृदादि’ इत्यादिसे । इस प्रकार निष्फल और अन्यार्थक सृष्टिमें तात्पर्य न होनेसे विरोध दोषजनक नहीं है, इस विषयमें वृद्धोंकी सम्मति कहते हैं—‘तथा च’ इत्यादिसे । ‘अन्यथा’—इसकी ‘अन्यथाऽन्यथा’ इस प्रकार वीप्सा समझनी चाहिए । अवताराय—ब्रह्मज्ञानकी उत्पत्तिके लिए है, इसलिये सृष्टिमें भेद होनेपर भी ब्रह्ममें भेद नहीं है अर्थात् ज्ञेयमें विप्रतिपत्ति नहीं है । ब्रह्मज्ञानको सृष्टिका अंगी कहा है, उसके निर्वाहके लिए उसका फल कहते हैं—‘ब्रह्म’ इत्यादिसे । ‘अति मृत्युमेति’ का व्यत्याससे ‘मृत्युमत्येति’ (मृत्युपर विजय पाता है) ऐसा अन्वय है ॥ १४ ॥

भाष्य

यत्पुनः कारणविषयं त्रिगानं दर्शितम्—‘असद्वा इदमग्र आसीत्’
इत्यादि तत् परिहर्तव्यम् । अत्रोच्यते—

भाष्यका अनुवाद

परन्तु कारणमें ‘असद्वा इदं’ (पूर्वमें यह असत् था) ऐसी जो विप्रति-
पत्ति दिखलाई गई है, उसका परिहार करना चाहिए, इसपर कहते हैं—

समाकर्पात् ॥ १५ ॥

पदार्थोक्ति—समाकर्पात्—‘असदेवेदमग्र आसीत्’ इत्यत्र अनभिव्यक्त-
नामरूपवाचिनाऽसच्छब्देन सत एव समाकर्पात् [न असत कारणत्व-
शङ्कावकाश] ।

भाषार्थ—‘असदेवेदं’ (यह सारा जगत् सृष्टिके पहले असत् ही था)
इस श्रुतिमें ‘नाम और रूप अनभिव्यक्त थे’ ऐसा प्रतिपादन करनेवाले ‘असत्’
शब्दसे सत्का ही आकर्षण होता है, इसलिए उक्त श्रुतिमें जगत्कारण असत्
कहा गया है, ऐसी शङ्काका अन्तर ही नहीं है ।

भाष्य

‘असद्वा इदमग्र आसीत्’ (तै० २।७) इति नाऽत्राऽग्निरात्मकं
कारणत्वेन श्राव्यते । यतः ‘असन्नेव स भवति । अमद्ब्रह्मोति वेद चेत् ।

भाष्यका अनुवाद

‘असद्वा इदं’ (सृष्टिके पहले यह असत् था) इस श्रुतिमें स्वरूपरहित
असत् कारणरूपसे नहीं कहा गया है, क्योंकि ‘असन्नेव स भवति०’ (ब्रह्मको

रत्नप्रभा

एव सृष्टिद्वारक विरोधम् उत्सृज्य समाधाय कारणस्य सदसत्त्वादिना साक्षा-
च्छ्रुतिविरोधनिरासार्थं सूत्रमादत्ते—यत्पुनरिति । यतोऽस्तित्वलक्षणं ब्रह्म निर्धार्यं
तस्मिन्नेव श्लोकमुदाहरति अतोऽत्र श्लोके निरात्मकम् असत् न श्राव्यते इति

रत्नप्रभाका अनुवाद

इस प्रकार पूर्व सूत्रसे सृष्टिके विरोधका समाधान करके अब कारणम सद्रूपत्व,
असद्रूपत्व आदिरूपसे साक्षात् श्रुतिविरोध जो दिखलाया गया था, उसका निरास करनेके
लिए सूत्रका प्रहण करते हैं—‘यत्पुन’ इत्यादिसे । चूंकि अस्तित्वलक्षणं ब्रह्मका निर्धारण
करके उसीके लिए श्लोक—मत्र कहते हैं, इससे इस श्लोकमें निरात्मक असत्का भवण नहीं

भाष्य

अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद । सन्तमेनं ततो विदुः' इत्यसद्वादापवादेनाऽस्तित्वलक्षणं ब्रह्माऽन्नमयादिकोशपरम्परया प्रत्यगात्मानं निर्धार्य 'सोऽकामयत' इति तमेव प्रकृतं समाकृष्य समपञ्चां सृष्टिं तस्माच्छ्रावयित्वा 'तत्सत्यमित्याचक्षते' इति चोपसंहृत्य 'तदप्येष श्लोको भवति' इति तस्मिन्नेव प्रकृतैऽर्थे श्लोकमिममुदाहरति—'असद्वा इदमग्र आसीत्' इति । यदि त्वसन्निरात्मकमस्मिंश्श्लोकेऽभिप्रेयेत, ततोऽन्यसमाकर्षणेऽन्यस्योदाहरणादसम्बद्धं वाक्यमापद्येत । तस्मान्नामरूपव्याकृतवस्तुविषयः प्रायेण सच्छब्दः प्रसिद्ध इति तद्व्याकरणाभावापेक्षया प्रागुत्पत्तेः सदेव ब्रह्माऽसदिवाऽऽसी-

भाष्यका अनुवाद

असद्रूपसे जो जानता है वह अवश्य असत् हो जाता है । जो ब्रह्मको सद्वृत्त जानता है उसको विद्वान् सत् कहते हैं) इस प्रकार असद्वादके अपवादसे ब्रह्म सत्स्वरूप है और अन्नमय आदि कोशपरम्परासे प्रत्यगात्मा है, ऐसा निर्धारण करके 'सोऽकामयत' (धसने चाहा) इसमें उसी प्रकृत ब्रह्मका समाकर्षण करके, उसीसे विस्तृत सृष्टि होती है, यह कहकर 'तत्सत्य०' (यह सत्य कहलाता है) इस प्रकार उपसंहार करके 'तदप्येष०' (उसमें यह मंत्र भी है) इस प्रकार प्रकृत अर्थमें 'असद्वा इद०' यह मंत्र उद्धृत किया गया है । यदि इस श्लोकमें स्वरूपशून्य—अभावात्मक असत् अभिप्रेत हो, तो जिसका समाकर्षण किया गया है उससे अन्यका उदाहरण देनेसे वाक्य असम्बद्ध हो जायगा । इसलिए नाम और रूपसे व्याकृत वस्तुमें प्रायः सत्शब्दका प्रयोग प्रसिद्ध है इसलिए सृष्टिसे पहले व्याकृत न होनेके

रत्नप्रभा

योजना । तत्—तत्र सदात्मनि, श्लोकः—मन्त्रो भवति । सदात्मसमाकर्षात् अतीन्द्रियार्थकासत्पदेन ब्रह्म लक्ष्यत इत्याह—तस्मादिति । न च प्रधानमेव लक्ष्यतामिति वाच्यम् । चेतनार्थकब्रह्मादिशब्दानाम् अनेकेषां लक्षणायां गौरवा-

रत्नप्रभाका अनुवाद

है, ऐसी वाक्ययोजना करनी चाहिए । [तदप्येष श्लोको भवति] उस सक्षप आत्माके विषयमें यह मंत्र है । सद्वृत्त आत्माका समाकर्षण है, इसलिए अतीन्द्रियवाचक असत्पदसे ब्रह्म लक्षित होता है, ऐसा कहते हैं—'तस्माद्' इत्यादिसे । असत्पदसे प्रधान ही लक्षित हो, ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि चेतन जिनका अर्थ है, ऐसे ब्रह्म आदि अनेक शब्दोंकी लक्षणा

भाष्य

दित्युपचर्यते । एषैव 'असदेवेदमग्र आसीत्' (छा० ३।१९।१) इत्यत्रापि योजना, 'तत्सदासीत्' इति समाकर्षणात् । अत्यन्ताभावाभ्युपगमे हि तत्सदासीदिति किं समाकृष्येत । 'तद्वैक आहुरसदेवेदमग्र आसीत्' (छा० ६।२।१) इत्यत्रापि न श्रुत्यन्तराभिप्रायेणाऽयमेकीयमतोपन्यासः, क्रियायामिव वस्तुनि विकल्पस्याऽसंभवात् । तस्माच्छ्रुतिपरिगृहीतसत्पक्ष-
दाढ्यायैवाऽयं मन्दमतिपरिकल्पितस्याऽसत्पक्षस्योपन्यस्य निरास इति

भाष्यका अनुवाद

कारण सत् ही ब्रह्म असत्—सा था, ऐसा उपचार किया जाता है । 'असदे-
वेदमग्र' इसमें भी यही योजना है, क्योंकि 'तत्सदासीत्' (वह सत्
था) इसका समाकर्षण है । यदि अत्यन्ताभावरूप असत्का स्वीकार करे
तो 'तत्सदासीत्' इसमें किसका समाकर्षण करेगे । 'तद्वैक आहु०' (उसमें
कितने ही कहते हैं कि सृष्टिके पहले यह असत् ही था) इसमें दूसरी
श्रुतिके अभिप्रायसे कितने ही के मतका उपन्यास नहीं होता है, क्योंकि
क्रियाके समान वस्तुमें विकल्पका संभव नहीं है । इसलिए श्रुतिसे परिगृहीत
सत्पक्षको दृढ करने लिए ही मन्दमतिवालोंसे कल्पित असत् पक्षका उपन्यास-

रत्नप्रभा

दिति भावः । तित्तिरिथ्रतौ सूत्र योजयित्वा छान्दोग्यादौ योजयति—एषैवेति ।
सदेकार्थकतत्पदेन पूर्वोक्तासत्-समाकर्षात् न शून्यत्वमित्यर्थ । ननु असत्पदलक्षणा
न युक्ता, श्रुतिभिरेव स्वमतभेदेन उदितानुदितहोमवत् विकल्पस्य दधितत्त्वादित्यत
आह—तद्वैक इति । एके शाखिन इत्यर्थो न भवति, किन्तु अनादिसंसार-
चक्रस्या वेदवाङ्मा इत्यर्थ । शून्यनिरासेन श्रुतिभि सद्वादस्यैव इष्टत्वात् तासां

रत्नप्रभाका अनुवाद

करनेमें गौरव होगा । तैत्तिरीयक श्रुतिमें सूनकी योजना करके छान्दोग्य आदिमें उसकी योजना
करते हैं—“एषैव” इत्यादिसे । 'तत्सदासीत्' इसमें सद्रूपवाचक तत् पदसे पूर्वमें कथित
असत्का समाकर्षण होनेसे 'असत्' का अर्थ शून्य नहीं है, ऐसा अर्थ है । यदि कोई कहे कि
असत्पदकी लक्षणा करना युक्त नहीं है, क्योंकि श्रुति ही मतभेदसे उदित होम और अनुदित
होमके समान विकल्प दिखलाती है, इसपर कहते हैं—“तद्वैके” इत्यादि । 'एके'का अर्थ एक
शाखावाले नहीं है, किन्तु अनादि संसारचक्रमें पड़े हुए वेदवाङ्मा हैं । शून्यका निराकरण करनेसे
भी सद्वाद ही श्रुतिको इष्ट है, इसलिए श्रुतियोंमें विरोधका स्फुरण होता हो, तो उसके निरा-

भाष्य

द्रष्टव्यम् । 'तद्वेदं तर्ह्यव्याकृतमासीत्' (वृ० १।४।८) इत्यत्रापि न निरध्यक्षस्य जगतो व्याकरणं कथ्यते । 'स एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यः' इत्यध्यक्षस्य व्याकृतकार्यानुप्रवेशित्वेन समाकर्षात् । निरध्यक्षे व्याकरणाभ्युपगमे ह्यनन्तरेण प्रकृताचलम्बिना स इत्यनेन सर्वनाम्ना कः कार्यानुप्रवेशित्वेन समाकृष्येत । चेतनस्य चाऽयमात्मनः शरीरेऽनुप्रवेशः श्रूयते, अनुप्रविष्टस्य चेतनत्वश्रवणात्, 'पश्यंश्चक्षुः शृण्वन् श्रोत्रं मन्वानो मनः' इति । अपि च यादृशमिदमद्यत्वे नामरूपाभ्यां व्याक्रियमाणं जगत्

भाष्यका अनुवाद

पूर्वक यह निराकरण है, यह समझना चाहिए । 'तद्वेदं०' इसमें अध्यक्ष-रहित जगत्का व्याकरण नहीं कहा जाता, क्योंकि 'स एष इह प्रविष्ट०' (वह इस शरीरमें नखके अग्रभाग तक प्रविष्ट हुआ) इस प्रकार अध्यक्षका व्याकृत वस्तुओंमें प्रवेशकर्तृत्वरूपसे समाकर्षण है । अध्यक्षके विना ही जगत्की अभिव्यक्ति स्वीकार करें तो अनन्तरोक्त प्रकृतके साथ संबन्ध रखनेवाले 'सः' इस सर्वनामसे कार्यमें अनुप्रवेश करनेवालेके रूपसे किसका समाकर्षण होगा ? और चेतन आत्माका शरीरमें यह अनुप्रवेश सुना जाता है, क्योंकि 'पश्यंश्चक्षुः०' (वह देखता हुआ चक्षु है, सुनता हुआ श्रोत्र है, मनन करता हुआ मन है) इस प्रकार प्रवेश करनेवालेका श्रुति चेतनरूपसे प्रतिपादन करती है । उसी प्रकार जैसे वर्तमान समयमें नामरूपसे व्याकृत होनेवाला पदार्थ सकर्तृक

रत्नप्रभा

विरोधस्फूर्तिनिरासाय लक्षणा युक्तेति भावः । यदुक्तम्—कचिद् अकर्तृका सृष्टिः कथिता इति, तत्रेत्याह—तद्वेदमिति । अध्यक्षः—कर्ता । ननु अत्र कर्त्रभाव एव परामृश्यते इत्यत आह—चेतनस्य चायमिति । चक्षुः—द्रष्टा, श्रोत्रम्—श्रोता, मन—मन्ता इत्युच्यते इत्यर्थः । आद्यकार्यं सकर्तृकम्, कार्यत्वाद्, घटवदित्याह—अपि

रत्नप्रभाका अनुवाद

करणके लिए लक्षणा करना उचित है, ऐसा अर्थ है । कहींपर वर्तुरहित सृष्टि कही गई है, ऐसा जो कहा है, वह वैसा नहीं है, ऐसा कहते हैं—'तद्वेदम्' इत्यादिसे । अध्यक्ष—कर्ता । यदि कोई कहे कि कर्ताके अभावका ही परामर्श होता है, इसपर कहते हैं—'चेतनस्य चायम्' इत्यादि । चक्षु अर्थात् द्रष्टा, श्रोत्र अर्थात् श्रोता, मन अर्थात् मननकर्ता । पहला कार्य कर्तृजन्य है, कार्य होनेसे, घटके समान, ऐसा कहते हैं—'अपि च' इत्यादिसे । अद्यत्वे-

भाष्य

साध्यक्षं व्याक्रियते एवमादिसर्गेऽपीति गम्यते, दृष्टविपरीतकल्पनानु-
पपत्तेः । श्रुत्यन्तरमपि 'अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकर-
वाणि' (छा० ६।३।२) इति साध्यक्षामेव जगतो व्याक्रियां दर्शयति ।
व्याक्रियतं इत्यपि कर्मकर्तारि लकारः सत्येव परमेश्वरे व्याकर्तारि सौकर्य-
मपेक्ष्य द्रष्टव्यः । यथा ल्यते केदारः स्वयमेवेति सत्येव पूर्णके लवितारि ।
यद्वा, कर्मण्येवैष लकारोऽर्थाक्षिप्तं कर्तारमपेक्ष्य द्रष्टव्यः । यथा गम्यते
ग्राम इति ॥ १५ ॥

भाष्यका अनुवाद

व्याकृत होता है, वैसे ही आदि सृष्टिमें भी था, ऐसा समझा जाता है,
क्योंकि जो दिखाई देता है, उससे विपरीत कल्पना नहीं की जा सकती ।
'अनेन जीवेनात्मना०' (इस जीवरूप आत्मासे अनुप्रवेश करके नाम और
रूपको मैं व्यक्त करूँगा) इस प्रकार दूसरी श्रुति भी जगत्की अभिव्यक्ति
सकृत्क है, ऐसा दिखलाती है । 'व्याक्रियते' यह कर्मकर्तामें लकार अभि-
व्यक्तिकर्ता परमेश्वरके रहनेपर भी सौकर्यकी अपेक्षासे है, जैसे कि खेत
काटनेवाले किसी पूर्णक-नामक मनुष्यके रहनेपर भी 'ल्यते केदारः०' (क्यारी
अपने ही काट रही है) ऐसा प्रयोग होता है । अथवा जैसे 'गम्यते ग्रामः'
(ग्राम प्राप्त किया जाता है) इसमें कर्ताका आक्षेप किया जाता है वैसे ही अर्थसे
आक्षिप्त कर्ताकी अपेक्षासे कर्मके अर्थमें ही यह लकार समझना चाहिए ॥ १५ ॥

रत्नप्रभा

चेति । अद्यत्वे—इदानीम् । ननु कर्मकारकात् अन्यस्य कर्तुः सत्त्वे कर्मण एव
कर्तृवाचिलकारो विरुद्ध इत्यत आह—व्याक्रियत इति । अनायासेन सिद्धिम-
पेक्ष्य कर्मणः कर्तृत्वम् उपचर्यते इत्यर्थः । व्याक्रियते जगत् स्वयमेव निष्पन्नमिति
व्याख्याय केनचिद् व्याकृतमिति व्याचष्टे—यद्वेति । अतः श्रुतीनामविरोधात् कारण-
द्वारा समन्वय इति सिद्धम् ॥ १५ ॥ (४) ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

आजकल । परन्तु कर्मकारकसे भिन्न कर्ता होनेसे कर्ममें कर्तृवाचक लकार हो यह विरुद्ध है;
इसपर कहते हैं—“व्याक्रियते” इत्यादि । अनयास कार्यसिद्धि होनेसे कर्म ही उपचारसे कर्ता
होता है, ऐसा अर्थ है । 'व्याक्रियते' का जगत् स्वयं ही उत्पन्न होता है,—ऐसा व्याख्यान करके
अथ किन्ही दूसरेने उत्पन्न किया है, ऐसा व्याख्यान करते हैं “यद्वा” इत्यादिसे । इसलिए
श्रुतियोंका कारणद्वारा भी अविरोध होनेसे सिद्ध हुआ कि उनका मह्यमें समन्वय है ॥१५॥

[५ बालाक्यधिकरण सू० १६-१८]

पुरुषाणान्तु फः कर्ता प्राणजीवपरात्मसु ।

कमेति चलने प्राणो जीवोऽपूर्वं विवक्षिते ॥ १ ॥

जगद्वाची कर्मशब्दः पुंमात्रविनिवृत्तये ।

तत्कर्ता परमात्मैव न मृषावादिता ततः* ॥ २ ॥

[अधिकरणसार]

सन्देश—‘यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वैतत् कर्म स वै वेदि-
तव्यः’ इस श्रुतिमें उक्त पुरुषोंका कर्ता प्राण है या जीव है अथवा परमात्मा है ?

पूर्वपक्षी—कर्मशब्दसे चलनात्मक क्रिया कही गई है, अतः प्राण पुरुषोंका कर्ता है
अथवा कर्मशब्द अपूर्वका वाचक है, इसलिए जीव उनका कर्ता है ।

सिद्धान्त—यहां कर्मशब्द जगत्का वाचक है । वह केवल पुरुषोंका कर्ता है, इस
शंकाकी निवृत्तिके लिए ‘यस्य वैतत्कर्म’ कहा गया है । सारे जगत्का कर्ता परमात्मा
ही है, इसीलिए राजामें मृषावादित्व नहीं है ।

* तात्पर्य यह कि कौषीतकिब्राह्मण उपनिषद्में बालाकिनामक ब्राह्मणके आदित्य आदि सोलह
पुरुषोंको ब्रह्मरूपसे कहनेपर राजाने उसका निराकरण करके स्वयं कहा—“यो वै बालाक एतेषां
पुरुषाणां कर्ता यस्य वैतत्कर्म स वै वेदितव्यः” (कौ० ४।१८) इसका अर्थ यह है कि हे बालाके ! इन
पुरुषोंका जो कर्ता है, जिसका यह कर्म है, उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । इसमें संशय होता है
कि पुरुषोंका कर्ता प्राण है या जीव है अथवा परमात्मा है ।

पूर्वपक्षी कहता है कि प्राण पुरुषोंका कर्ता है, क्योंकि कर्मशब्द चलनक्रियावाचक है । देह आदिका
चालन प्राणसे होता है । अथवा जीव पुरुषोंका कर्ता है, क्योंकि कर्मशब्द अपूर्वका वाचक है । जीव
अपूर्वका स्वामी है । परमात्मा किसी प्रकार भी उनका कर्ता नहीं हो सकता है ।

सिद्धान्ती कहते हैं कि यहा कर्मशब्द न क्रियाका वाचक है, न अपूर्व ही का वाचक है,
किन्तु ‘क्रियत इति कर्म’ इस न्युत्पत्तिसे जगत्का वाचक है । कर्मशब्द जगद्वाचक होनेसे ही
‘केवल पुरुषोंका कर्ता है’ इस शंकाकी निवृत्ति करता हुआ सार्थक होता है । इसलिए श्रुतिवाच्यके
अक्षरोंकी ऐसी योजना करनी चाहिए—हे बालाके ! तुमसे कथित सोलह पुरुषोंका जो कर्ता
है, उसका ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए न कि सोलह पुरुषोंका । अथवा इन सोलहोंका कर्ता, ऐसा
संकोच क्यों करें, यह सब जगत् जिससे उत्पन्न हुआ है, उसीका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । सारे जगत्का
कर्ता तो परमात्मा ही है, जीव और प्राण जगत्के कर्ता नहीं हैं । इससे राजामें मृषावादित्वरूप
दोष भी नहीं आता, अन्यथा “ब्रह्म ते ऋषिणि” (मैं तुमसे ब्रह्म कहूँगा) ऐसी प्रतिज्ञा करके
सोलह पुरुषोंको कहते हुए बालाकिमें “मृषा वै किल” (तुम जो बोलते हो वह मिथ्या है)
इस प्रकार मृषावादित्वका भाषादनकर स्वयं ब्रह्मको कहनेकी इच्छा रखनेवाला राजा यदि प्राण
या जीवको कहे, तो बाह्यकिकी तरह राजा भी मृषावादी हो जायगा । ऐसा मानना तो
अनुचित है । इससे सिद्ध हुआ कि श्रुतिवाच्यमें उक्त जगत्का कर्ता परमात्मा ही है ।

जगद्वाचित्वात् ॥ १६ ॥

पदार्थोक्ति—जगद्वाचित्वात्—‘यो ह वै बालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वैतत् कर्म स वै वेदितव्यः’ इति श्रुतौ कर्मशब्दस्य जगद्वाचित्वात् [कर्ता परमात्मैव] ।

भाषार्थ—‘यो ह वै बालके०’ (हे बालके ! जो इन पुरुषोंका कर्ता है और जिसका यह सत्र कार्य है, वह जानने योग्य है) इस श्रुतिमें कर्मशब्दसे सारे जगत्का बोध होनेके कारण कर्ता परमात्मा ही है ।

भाष्य

कौपीतकिब्राह्मणे बालाक्यजातशत्रुसंवादे श्रूयते—‘यो वै बालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वैतत्कर्म स वै वेदितव्यः’ (कौ० ब्रा० ४।१९) इति । तत्र किं जीवो वेदितव्यत्वेनोपदिश्यते उत मुख्यः प्राणः, उत परमात्मेति विज्ञेयः । किं तावत् प्राप्तम् ?

प्राण इति । कुतः ? ‘यस्य वैतत् कर्म’ इति श्रवणात् । परिस्पन्द-

भाष्यका अनुवाद

कौपीतकि ब्राह्मणमें बालाकि और अजातशत्रुके संवादमें ‘यो वै बालक०’ (हे बालके ! जो इन पुरुषोंका कर्ता है, अथवा यह सारा प्रपञ्च जिसका कर्म है, वही जानने योग्य है) ऐसी श्रुति है । इसमें वेदितव्यरूपसे जीव उपदिष्ट है, या मुख्य प्राण अथवा परमात्मा ? ऐसा संशय होता है । तब क्या प्राप्त होता है ?

रत्नप्रभा

जगद्वाचित्वात् । विषयमाह—कौपीतकीति । बलाकाया अपत्यं बालाकिः ब्राह्मणः तं प्रति राजा उवाच—यो वा इति । न केवलमादित्यादीनां कर्ता, किन्तु सर्वस्य जगत इत्याह—यस्येति । एतत् जगद् यस्य कर्म क्रियते इति व्युत्पत्त्या कार्यम् इत्यर्थः । कर्मेति शब्दस्य योगरूढिभ्यां संशयमाह—तत्रेति । पूर्वत्र एकवाक्यस्यसदादिशब्दबलाद् असच्छब्दो नीतः, इह तु वाक्यभेदाद् ब्रह्म ते

रत्नप्रभाका अनुवाद

इस अधिकरणका विषय कहते हैं—“कौपीतकि” इत्यादिसे । बलाकाके पुत्र बालाकि नामक ब्राह्मणसे अजातशत्रु राजाने कहा—“यो वै” इत्यादि । वह केवल आदित्य आदिका कर्ता नहीं है, किन्तु सम्पूर्ण जगत्का कर्ता है, ऐसा कहते हैं—“यस्य” इत्यादिसे । यह जगत् जिसका कर्म है अर्थात् ‘क्रियते इति कर्म’ (जो किया जाय वह कर्म) इस व्युत्पत्तिसे कार्य है । कर्म-शब्दमें योग और रुढिसे संशय कहते हैं—“तत्र” इत्यादिसे । पूर्व अधिकरणमें एक वाक्यस्य सत् आदि शब्दोंके बलसे अर्थात् शब्दका अर्थ किया है । यहां तो ‘ब्रह्म ते०’ (मैं तुमसे

भाष्य

लक्षणस्य च कर्मणः प्राणाश्रयत्वात्, वाक्यशेषे च 'अथास्मिन् प्राण एवैकधा भवति' इति प्राणशब्दश्रवणात् । प्राणशब्दस्य च मुख्ये प्राणे प्रसिद्धत्वात् । ये चैते पुरस्ताद् बालाकिना 'आदित्ये पुरुषश्चन्द्रमसि पुरुषः' इत्येवमादयः पुरुषा निर्दिष्टाः, तेषामपि भवति प्राणः कर्ता, प्राणावस्थाविशेषत्वादादित्यादिदेवतात्मनाम्, 'कतम एको देव इति प्राण इति म ब्रह्म त्यदित्याचक्षते' (वृ० ३।९।९) इति श्रुत्यन्तरप्रसिद्धेः ।

भाष्यका अनुवाद

पूर्वपक्षी—प्राण उपदिष्ट है ऐसा प्राप्त होता है, क्योंकि 'यस्य वै०' ऐसी श्रुति है, चलनरूप कर्म प्राणमें रहता है, 'अथास्मिन् प्राण०' (उस समय इस प्राणमें ही एक होता है) इस वाक्यशेषमें प्राणशब्द दिखाई देता है और प्राणशब्द मुख्य प्राणरूप अर्थमें प्रसिद्ध है । 'आदित्ये पुरुषः०' (आदित्यमें पुरुष है, चन्द्रमामें पुरुष है) इस प्रकार पूर्ववाक्यमें बालाकिने जिन पुरुषोंका निर्देश किया है, उनका कर्ता भी प्राण हो सकता है, क्योंकि आदित्य आदि देवता प्राणकी भिन्न भिन्न अवस्थाएँ हैं, 'कतम एको देव०' (एक देव कौन है ? प्राण है, वह ब्रह्म है, वह परोक्ष है, ऐसा कहते हैं) ऐसा अन्य श्रुतिमें प्रसिद्ध

रत्नप्रभा

ब्रवाणीति बालाकिवाक्यस्य ब्रह्मशब्देन प्राणादिशब्दो ब्रह्मपरत्वेन नेतुमशक्य इति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षमाह—किं तावदिति । पूर्वपक्षे वाक्यस्य प्राणाद्युपास्तिपरत्वाद् ब्रह्मणि समन्वयासिद्धिः सिद्धान्ते ज्ञेये समन्वयसिद्धिरिति फलम् । अथ—सुप्तौ, द्रष्टा इति शेषः । श्रुतं पुरुषकर्तृत्वं प्राणस्य कथमित्यत आह—ये चैत इति । सूत्रात्मकप्राणस्य विकाराः सूर्यादय इत्यत्र मानमाह—कतम

रत्नप्रभाका अनुवाद

ब्रह्म कहता हूँ) इस प्रकार बालाकिवाक्यस्य ब्रह्मशब्दसे प्राण आदि शब्द ब्रह्मपरक नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ वाक्यभेद है, प्रत्युदाहरणसे ऐसा पूर्वपक्ष कहते हैं—'किं तावद्' इत्यादिसे । उक्त वाक्य प्राण आदिकी उपासनाका प्रतिपादन करता है, अतः ब्रह्ममें उसके समन्वयकी वासिद्धि पूर्वपक्षमें फल है, ज्ञेय ब्रह्ममें समन्वयकी सिद्धि सिद्धान्तमें फल है । 'अथ'—सुप्तिसमें इस प्राणमें ही द्रष्टा लीन होता है, इसलिए 'द्रष्टा' शेष समझना चाहिए । प्राणकी पुरुषोंका कर्ता श्रुति किस प्रकार कहती है ? इसपर कहते हैं—'ये चैते' इत्यादिसे । सूत्रात्मक प्राणके सूर्य आदि विकार हैं, इसमें प्रमाण कहते हैं—'कतमः' इत्यादिसे ।

भाष्य

जीवो वाऽयमिह वेदितव्यतयोपदिश्यते । तस्याऽपि धर्माधर्मलक्षणं कर्म शक्यते श्रावयितुम् 'यस्य वैतत् कर्म' इति । सोऽपि भोक्तृत्वाद् भोगोपकरणभूतानामेतेषां पुरुषाणां कर्तोपपद्यते । वाक्यशेषे च जीवल्लिङ्गमवगम्यते । यत्कारणं वेदितव्यतयोपन्यस्तस्य पुरुषाणां कर्तुर्वेदनायोपेतं चालाकिं प्रति बुधो-
घयिपुरजातशत्रुः सुप्तं पुरुषमामन्व्याऽऽमन्त्रणशब्दाश्रवणात् प्राणादीनामभो-
क्तृत्वं प्रतिबोध्य यद्विधातोत्थापनात् प्राणादिव्यतिरिक्तं जीवं भोक्तारं प्रति-

भाष्यका अनुवाद

है । अथवा यहां वेदितव्यरूपसे जीवका उपदेश है । उसका भी धर्माधर्मरूप कर्म 'यस्य वैतत्' इस तरह कहा जा सकता है । वह भी भोक्ता होनेसे भोगके साधनभूत इन पुरुषोंका कर्ता हो सकता है । और वाक्यशेषमें भी जीवका लिंग समझा जाता है, क्योंकि वेदितव्यरूपसे उपन्यस्त जो पुरुषोंका कर्ता है, उसका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए आये हुए चालाकिको बोध करानेकी इच्छासे अजातशत्रुने सोते हुए पुरुषको पुकारा और उसके शब्द न सुननेसे अजातशत्रुने चालाकिको यह बोध कराया कि प्राण आदि भोक्ता नहीं हैं, पुनः लाठीके प्रहारसे उसके जागनेसे

रत्नप्रभा

इति । यस्य महिमानः सर्वे देवा इति पूर्ववाक्ये दर्शितम्, अतः सर्वदेवात्मक-
त्वात् स प्राणो ब्रह्म त्यत्—परोक्षम्, शास्त्रैकवेद्यत्वादित्यर्थः । पूर्वपक्षान्तरमाह—
जीवो वेति । यत्कारणं यस्मात् जीवं बोधयति, तस्मादस्ति सुप्तोत्थापनं जीवल्लिङ्गम्
इति योजना । "तौ ह पुरुषं सुप्तमाजग्मतुः" (वृ० २।१।१५) तं राजा "हे
वृहस्पण्डरवासः सोमराजन्" (वृ० २।१।१५) इति आमन्व्य—सम्बोध्य
सम्बोधनानभिज्ञत्वात् प्राणादेः अनात्मत्वमुक्त्वा यत्प्राणाघातेन उत्थाप्य जीवं

रत्नप्रभाका अनुवाद

'यस्य महिमानः सर्वे देवाः' (सब देव जिसकी महिमा हैं) ऐसा पूर्व वाक्यमें दिखलाया गया है, इसलिए सर्वदेवात्मक होनेसे प्राण ब्रह्म है । त्यत्—परोक्ष, क्योंकि वह केवल शास्त्रसे ही वेद्य है । दूसरा पूर्वपक्ष कहते हैं—"जीवो वा" इत्यादिसे । 'यत्कारणं.....जीवल्लिङ्गम्' (क्योंकि जीवका बोध कराता है, इसलिए सोते हुएको उठाना जीवका लिंग है) ऐसी योजना करनी चाहिए । चालाकि और अजातशत्रु सोते हुए पुरुषके पास गये, सुप्त पुरुषको अजातशत्रुने 'हे वृहस्पण्डरवासः सोमराजन्' कहकर पुकारा, परन्तु यह उठा नहीं, इसलिए उसके शब्द न सुननेसे प्राण आदिको अनात्मा कहकर पीछे लाठीके आघातसे उठाकर प्राण आदिसे

भाष्य

बोधयति । तथा परस्तादपि जीवलिङ्गमवगम्यते—‘तद्यथा श्रेष्ठी स्वैर्भुङ्क्ते यथा वा स्वाः श्रेष्ठिनं भुञ्जन्त्येवमेवैष प्रज्ञात्मैतैरात्मभिर्भुङ्क्ते एवमेवैत आत्मान एतमात्मानं भुञ्जन्ति’ (कौ० ब्रा० ४।२०) इति । प्राणभृत्त्वाच्च जीव-
स्योपपन्नं प्राणशब्दत्वम् । तस्माज्जीवमुख्यप्राणयोरन्यतर इह ग्रहणीयो न परमेश्वरः, तल्लिङ्गानवगमादिति ।

एवं प्राप्ते दूमः—परमेश्वर एवाऽयमेतेषां पुरुषाणां कर्ता स्यात् ।

भाष्यका अनुवाद

यह समझाया कि प्राण आदिसे भिन्न जीव भोक्ता है । इसी प्रकार अग्रिम वाक्यमें भी जीवलिङ्ग प्रतीत होता है—‘तद्यथा श्रेष्ठी स्वैर्भुङ्क्ते०’ (जैसे स्वामी अपने भृत्य आदि द्वारा उपहृत पदार्थका उपभोग करता है और वे भृत्य आदि उस स्वामीसे आजीविका पाते हैं, इसी प्रकार यह प्रज्ञात्मा इन आत्माओं द्वारा उपभोग करता है और ये आत्माएँ उस प्रज्ञात्माके आश्रयसे भोग प्राप्त करती हैं । प्राणधारी होनेसे भी जीवको प्राण कहना युक्त है । इसलिए जीव और प्राणमेंसे एकका ग्रहण करना यहां युक्त है, परमेश्वरका ग्रहण करना युक्त नहीं है, क्योंकि उसका लिङ्ग नहीं मिलता ।

सिद्धान्ती—ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं—परमेश्वर ही इन पुरुषोंका

रत्नप्रभा

बोधितवानित्यर्थः । श्रेष्ठी—प्रधानः स्वैः—भृत्यैः ज्ञातिभिरुपहृतं भुङ्क्ते स्वाः ज्ञातयश्च तमुपजीवन्ति । एवं जीवोऽप्यादित्यादिभिः प्रकाशादिना भोगोपकरणैः भुङ्क्ते ते च हविर्ग्रहणादिना जीवमुपजीवन्तीत्युक्तं भोक्तृत्वं जीवलिङ्गम् । ननु “प्राण एवैकधा भवति” (कौ० ब्रा० ३।३) इति श्रुतः प्राणशब्दो जीवे कथमित्यत आह—प्राणभृत्त्वाच्चेति । सूत्राद् बहिरेव सिद्धान्तयति—

रत्नप्रभाका अनुवाद

व्यातिरिक्त जीवका बोध कराया, ऐसा अर्थ है । जैसे श्रेष्ठी—प्रधान पुरुष अपने मनुष्यों-
नौकरों और बन्धु-बान्धवों द्वारा आनीत विषयोंका उपभोग करता है और भृत्य आदि उप-
भोगके लिए उसके आश्रित रहते हैं, वैसे ही यह प्रज्ञात्मा—जीव आदित्य आदिसे कृत प्रकाश
आदि साधनों द्वारा विषयोंका उपभोग करता है और वे आदित्य आदि जीवात्मासे दिये गये
हवि आदिका ग्रहण करके उससे उपजीवन करते हैं । इस प्रकार जीवके भोक्ता होनेसे भोक्तृत्व
जीवका लिङ्ग है । यदि कोई कहे कि ‘प्राण एवैकधा०’ इस प्रकार श्रुतिमें प्राणशब्द जीवके लिए
कैसे प्रयुक्त हुआ ? इसपर कहते हैं—“प्राणभृत्त्वाच्च” इत्यादि । सूत्रसे बाहर ही सिद्धान्त

भाष्य

कस्मात् ? उपक्रमसामर्थ्यात्, इह हि वालाकिरजातशत्रुणा सह 'ब्रह्म ते प्रवाणि' इति संबदितमुपचक्रमे, स च कतिचिदादित्याद्यधिकरणान् पुरुषानमुख्यब्रह्मदृष्टिभाज उक्त्वा तूर्णानि चभूव, तमजातशत्रुः 'मृषा वै खलु मा संबदिष्ठा ब्रह्म ते प्रप्रवाणि' इत्यमुख्यब्रह्मवादितयाऽपोद्य तत्कर्तारमन्यं वेदितव्यतयोपचिक्षेप । यदि सोऽप्यमुख्यब्रह्मदृष्टिभाक् स्यादुपक्रमो वाध्येत, तस्मात् परमेश्वर एवाऽयं भवितुमर्हति कर्तृत्वं चैतेषां पुरुषाणां न परमेश्वरादन्यस्य स्वातन्त्र्येणाऽवकल्पते । 'यस्य वैतत् कर्म' इत्यपि नाऽयं परिस्पन्द-

भाष्यका अनुवाद

कर्ता है । किससे ? उपक्रमके बलसे । क्योंकि यहां वालाकिने अजातशत्रुके साथ 'ब्रह्म ते०' (मैं तुमसे ब्रह्म कहता हूँ) इस प्रकार बात चीत आरम्भ की और आदित्य आदिमें रहनेवाले ब्रह्मभिन्न कुछ पुरुषोंको कहकर वह चुप हो गया । 'मृषा वै खलु मा०' (तुमने मुझसे यह मिथ्या कहा कि मैं तुमसे ब्रह्म कहता हूँ) इस प्रकार अजातशत्रुने वालाकिको अमुख्यब्रह्मवादी कहकर, उसका निषेध करके उनके कर्ता अन्यको वेदितव्य कहा है । यदि वह वेदितव्य भी ब्रह्मभिन्न हो, तो उपक्रमका बाध होगा, इसलिए वह परमेश्वर ही है । और परमेश्वरसे अन्य कोई भी स्वतन्त्ररीतिसे उन पुरुषोंका कर्ता नहीं हो सकता ।

रत्नप्रभा

एवमिति । स च वालाकिः ब्रह्मत्वभ्रान्त्या व्यष्टिलिङ्गरूपान् पुरुषानुक्त्वा राज्ञा निरस्तःतूर्णानि स्थितः, त्वदुक्तं ब्रह्म मृषेत्युक्त्वा राज्ञा उच्यमानं ब्रह्मैव इति पक्षव्यम्, अन्यथा राज्ञोऽपि मृषावादित्वप्रसङ्गादित्याह—यदि सोऽपीति । वेदितव्योऽपीत्यर्थः । मुख्यं पुरुषकर्तृत्वं ब्रह्मण एव लिङ्गम् । प्राणजीवयोः तन्नियम्यत्वेनाऽस्वातन्त्र्यात् इत्याह—कर्तृत्वं चेति । यदुक्तं चलनाऽदृष्टयोर्वाचकः कर्मशब्दः प्राणजीवयोः उपस्थापक इति, तत् न इत्याह—यस्येति । अनेकार्थ-

रत्नप्रभाका अनुवाद

करते हैं—“एवम्” इत्यादिसे । वालाकिने ब्रह्मत्वकी भ्रान्तिसे व्यष्टिलिङ्गरूप पुरुष कहे और अजातशत्रुने उनका निषेध किया, इसलिए वालाकि शान्त हुआ । तुमसे कहा गया ब्रह्म ठीक नहीं है, ऐसा कहकर अजातशत्रुने जो कहा, वह ब्रह्म ही होना चाहिए, नहीं तो अजातशत्रु भी मिथ्यावादी हो जायगा, ऐसा कहते हैं—“यदि सोऽपि” इत्यादिसे । 'सोऽपि'—जो वेदितव्य है, वह भी । मुख्य पुरुषकर्तृत्व ब्रह्मका ही लिङ्ग है, क्योंकि प्राण और जीव ब्रह्मके नियम्य होनेसे अस्वतंत्र हैं, ऐसा कहते हैं—“कर्तृत्वं च” इत्यादिसे । और कर्मशब्द

भाष्य

लक्षणस्य धर्माधर्मलक्षणस्य वा कर्मणो निर्देशः, तयोरन्यतरस्याऽप्यप्रकृतत्वात्, असंशब्दितत्वाच्च । नापि पुरुषाणामयं निर्देशः, एतेषां पुरुषाणां कर्तृत्येव तेषां निर्दिष्टत्वात्, लिङ्गवचनविगानाच्च । नापि पुरुषविषयस्य करोत्यर्थस्य क्रियाफलस्य चाऽयं निर्देशः, कर्तृशब्देनैव तयोरुपात्तत्वात् । पारिशेष्यात् प्रत्यक्षसंनिहितं जगत् सर्वनाम्नैतच्छब्देन निर्दिश्यते । क्रियत

भाष्यका अनुवाद

‘यस्य वै०’ यह निर्देश भी चलनरूप अथवा धर्माधर्मरूप कर्मका नहीं है, क्योंकि उन दोनोंमें से कोई भी प्रकृत नहीं है और श्रुतिमें भी नहीं कहा गया है, उसी प्रकार पुरुषोंका भी यह निर्देश नहीं है, क्योंकि उन पुरुषोंका कर्ता, इस प्रकार उनका निर्देश हो गया है । एवं लिंग और वचनका भेद है । इसी प्रकार पुरुषके उत्पादनका या पुरुषजन्मका भी यह निर्देश नहीं है, क्योंकि कर्तृशब्दसे ही उन दोनोंका ग्रहण किया है । परिशेषसे प्रत्यक्ष संनिहित जगत्का ‘एतत्’ शब्दरूप

रत्नप्रभा

कात् शब्दादन्यतरार्थस्य प्रकरणात् उपपदाद् वा ग्रहणं न्याय्यम् । अत्र प्रकरणोपपदयोः असत्त्वात् कस्य ग्रहणमिति संशये पुरुषकर्तृपदसान्निध्यात् क्रियते इति योगाद् जगद्-ग्रहणमित्यर्थः । एतत्कर्मेति प्रकृतपरामर्शात् पुरुषाः पूर्वोक्ताः कर्मशब्देन निर्दिश्यन्ताम् इत्यत आह—नापीति । पौनरुक्त्यापात्तात् पुरुषाणां नपुंसकैकवचनेन परामर्शायोगाच्च इत्यर्थः । ननु पुरुषोत्पादकस्य कर्तुः व्यापारः करोत्यर्थः—उत्पादनम्, तस्य फलम्—पुरुषजन्म, तदन्यतरवाची कर्मशब्दोऽस्तु इत्यत आह—नापीति । कर्तृशब्दे-

रत्नप्रभाका अनुवाद

चलनवाचक और अदृष्टवाचक होनेसे प्राण और जीवका उपस्थापक है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, वह ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं—“यस्य” इत्यादिसे । एक शब्दके अनेक अर्थ हों तो जो अर्थ प्रकरणसे और समीपस्थपदसे घटता हो, उसी अर्थको लेना उचित है । यहां प्रकरण और समीपस्थ पद न होनेसे कौनसा अर्थ लिया जाय, ऐसा संशय होनेपर ‘पुरुषकर्तृ’ (पुरुषोंका कर्ता) इस पदकी संनिधि है और ‘क्रियत इति कर्म’ (जो किया जाय वह कर्म) इस व्युत्पत्तिसे कर्मका अर्थ जगत् है । परन्तु ‘एतत् कर्म’ इसमें ‘एतत्’से प्रकृतका परामर्श होनेसे कर्मशब्दसे पूर्वोक्त पुरुष क्यों निर्दिष्ट न हों, इसपर कहते हैं—“नापि” इत्यादि । पुनरुक्ति हो जायगी और नपुंसक एववचन ‘एतत्’ शब्दसे ‘पुरुषाः’ इस पुल्लिङ्ग और बहुवचनका परामर्श होना योग्य नहीं है । यदि कोई कहे कि पुरुषोंका उत्पादक जो कर्ता, उगका व्यापारभूत ‘करोति’वा अर्थ उत्पादन और उत्पादनका फल पुरुषजन्म इन दोनोंमें एक अर्थ कर्मशब्दका लो, इस शब्दका निरकरण करते हैं—“नापि”

भाष्य

इति च तदेव जगत् कर्म । ननु जगदप्यप्रकृतमसंशुद्धितं च । सत्यमेतत् । तथाप्यसति विशेषोपादाने साधारणेनाऽर्थेन संनिधानेन संनिहितवस्तुमात्र-
स्याऽयं निर्देश इति गम्यते न विशिष्टस्य कस्यचित्, विशेषसंनिधानाभा-
वात् । पूर्वत्र च जगदेकदेशभूतानां पुरुषाणां विशेषोपादानादविशेषितं
जगदेवेहोपादीयत इति गम्यते । एतदुक्तं भवति । य एतेषां पुरुषाणां

भाष्यका अनुवाद

सर्वनामसे निर्देश किया है और जो किया जाय वह कर्म है, इस व्युत्पत्तिसे
जगत् ही कर्म है । परन्तु जगत् भी अप्रकृत है और श्रुतिमें प्रतिपादित भी
नहीं है ? यह सत्य है, परन्तु विशेष वस्तुका ग्रहण न होनेसे साधारण अर्थके साथ
संनिधानसे संनिहित वस्तुमात्रका यह निर्देश है, ऐसा समझा जाता है, किसी विशेष
वस्तुका नहीं क्योंकि विशेष वस्तुका संनिधान नहीं है । पूर्ववाक्यमें जगत्के
एकदेशभूत पुरुषोंका विशेषरूपसे ग्रहण किया है, उससे प्रतीत होता है कि
सामान्य जगत्का ही यहां ग्रहण है । तात्पर्य यह है—वह जगत्के एकदेशभूत

रत्नप्रभा

नेति । क्रियाफलाभ्यां विना कर्तृत्वायोगात् कर्तृशब्देनैव तयोः ग्रहणमित्यर्थः ।
जगतोऽपि प्रकरणोपपदे न स्त इत्युक्तमङ्गीकरोति—सत्यमिति । प्रकरणादिकं हि
सर्वनाम्नः संकोचकम्, तस्मिन् असति सामान्येन बुद्धिस्थं सर्वमेव गृह्यते । अत्र च
संकोचकासत्त्वात् सर्वार्थकेन सर्वनाम्ना बुद्धिस्थस्य कर्मशब्दो वाचक इत्याह—
तथापीति । किञ्च, जगदेकदेशोक्त्या जगत् प्रकृतमित्याह—पूर्वत्रेति । जगद्ग्रहे
पुरुषाणामपि ग्रहात् पृथगुक्तिर्व्यर्था इत्यत आह—एतदुक्तमिति । स वेदितव्य इति

रत्नप्रभाका अनुवाद

इत्यादिसे । क्रिया और फलके बिना कर्तृत्व नहीं घटता, इसलिए कर्तृशब्दसे ही इन दोनोंका
ग्रहण होता है । यदि कोई कहे कि जगत्का भी प्रकरण और उपपद नहीं है, तो इसका
अङ्गीकार करते हैं—“सत्यम्” इत्यादिसे । प्रकरण आदि सर्वनामके अर्थका संकोच करते
हैं । यदि प्रकरण आदि न हों तो साधारणतया बुद्धिस्थ सभी पदार्थोंका ग्रहण होता है । यहाँ
पर सर्वनामके अर्थको संकुचित करनेवाले प्रकरण आदि नहीं हैं, अतः सबका ग्रहण करनेवाले
एतत् सर्वनामसे सब अर्थ लेकर कर्मशब्द बुद्धिस्थ कार्यमात्रका वाचक है ऐसा कहते हैं—“तथापि”
इत्यादिसे । और जगत्का एकदेश कहा गया है, इससे जगत् प्रकृत है, ऐसा कहते हैं—
“पूर्वत्र” इत्यादिसे । परन्तु जगत्का ग्रहण होनेसे पुरुषोंका भी ग्रहण हुआ, इससे पुरुषोंका
पृथक् कथन व्यर्थ है, इस शकाका निराकरण करते हैं—“एतदुक्तम्” इत्यादिसे । ‘स’ का

भाष्य

जगदेकदेशभूतानां कर्ता, किमनेन विशेषेण, यस्य कृत्वमेव जगदविशेषितं कर्मेति । वाशब्द एकदेशान्तिष्ठकर्तृत्वव्याप्यपर्यः । ये बालाकिना ब्रह्मत्याभिमताः पुरुषाः कीर्तितास्तेषामब्रह्मत्वव्यापनाय विशेषोपादानम् । एवं ब्राह्मणपरिब्राजकन्यायेन मामान्यविशेषाभ्यां जगतः कर्ता वेदितव्यतयोपदिश्यते । परमेश्वरश्च सर्वजगतः कर्ता सर्ववेदान्तेष्वनधारितः ॥१६॥

भाष्यका अनुवाद

इन पुरुषोंका कर्ता है, अथवा इस विशेष पद्यनका क्या प्रयोजन है ? इसका तो सामान्यरूपमें संपूर्ण जगत् ही कर्मा है । 'या' शब्द एकदेशके कर्तृत्वकी व्याप्यता करनेके लिए है । बालाकि द्वारा ब्रह्मरूपसे बड़े गये पुरुषोंको अग्रज कहनेके लिए विशेषका ग्रहण है । इस प्रकार ब्राह्मणपरिब्राजकन्यायसे सामान्य और विशेषसे जगत्के कर्ताका वेदितव्यरूपसे उपदेश है । और सभी उपनिषदोंमें यह निर्णय है कि परमेश्वर ही सारे जगत्का कर्ता है ॥१६॥

रत्नप्रभा

सम्बन्धः । पुरुषमात्रनिरूपितं कर्तृत्वमिति भ्रान्तिनिरासार्थो वाशब्दः । ब्राह्मणा भोजयितव्याः परिब्राजकाश्च इत्यत्र यथा ब्राह्मणशब्दः परिब्राजकान्यविषयः, तथाऽत्र कर्मशब्दः पुरुषान्यजगद्वाची इत्याह—एवमिति । अस्तु जगत्कर्ता वेदितव्य, परमेश्वरस्य किमायातम् इत्यत आह—परमेश्वरेति ॥१६॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

'वेदितव्य'के साथ संबन्ध है । केवल पुरुषोंका कर्ता है, इस भ्रान्तिको दूर करनेके लिए 'या' शब्द है । जैसे 'ब्राह्मणा भोजयितव्या परिब्राजकाश्च' (ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिए और परिब्राजकोंको भी भोजन कराना चाहिए) इनमें ब्राह्मणशब्द परिब्राजकसे अन्य ब्राह्मणवाचक है, वैसे ही कर्मशब्द पुरुषोंसे अन्य जगत्का वाचक है, ऐसा कहते हैं—“एवम्” इत्यादिते । यदि कोई कहे कि जगत्का कर्ता वेदितव्य दो, इससे परमेश्वरका क्या ? इसपर कहते हैं—“परमेश्वर” इत्यादि ॥ १६ ॥


(१) यद्यपि कर्मशब्द परित्यज्य, एवं धर्माधर्मरूप अदृष्टम रूढ है और योगसे रूढि बलवती होती है, तो भी यहाँ दो अर्थोंमें रूढि कमशब्दसे कित्त अवधान ग्रहण करना चाहिए, एसा सशय होनेपर अन्यतर ग्रहणके लिए कोई विनिगमक न होनेसे कजह प्राप्त होनेपर योगार्थका अवकाश प्राप्त होता है । और कर्मशब्दकी परित्यज्यमें या धर्माधर्ममें रूढि माननेकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि 'क्रियते इति कर्म' इस योगसे ही उनका भी ग्रहण हो सकता है । जहाँ योगसे रूढिपर्यका समग्र नहीं होता, वहाँ पृथक् रूढिका आश्रय किया जाता है, जैसे 'अथकर्ण' आदिमें । जहाँ योगसे ही रूढिपर्यका समग्र हो जाता है, वहाँ ता पृथक् रूढिका आश्रय नहीं किया जाता, जैसे 'प्रोक्षणी' आदिमें । 'जलका प्रवर्षते उद्यमसापक' इस योगसे ही प्रोक्षणीपात्रका लाभ होनेपर जैसे पात्रमें पृथक् रूढिका अगीकार नहीं होता है । इसलिए अज्ञातशुद्धावयवमें कर्मशब्दके योगसे कार्यमात्र अर्थ होनेसे वह वाक्य कार्यसामान्य कर्तृत्वरूप लिंगसे परमेश्वरमें ही पर्यवसित होता है ।

जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेत्तद्याख्यातम् ॥ १७ ॥

पदच्छेद—जीवमुख्यप्राणलिङ्गात्, न, इति, चेत्, तत्, व्याख्यातम् ।

पदार्थोक्ति—जीवमुख्यप्राणलिङ्गात्—श्रुतौ शारीरस्य प्राणवायोश्च लिङ्ग-सद्भावात्, न तस्या ब्रह्मपरत्वम्, इति चेत्, तत्—तस्या ब्रह्मपरत्वम्, व्याख्यातम्—प्रतर्दनाधिकरणे प्रतिपादितम् ।

भाषार्थ—पूर्वोक्त श्रुतिमें जीव एवं प्राण वायुके लिङ्ग हैं, अतः वह श्रुति ब्रह्मपरक नहीं है, ऐसा यदि कोई कहे, तो उसके उत्तरमें कहना चाहिए कि प्रतर्दनाधिकरणके 'जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेन्नोपासनात्रैविध्यादाश्रितत्वादिह तद्योगात्' इस सूत्रमें उक्त श्रुति ब्रह्मपरक कही गई है। अर्थात् उक्त सूत्रके 'उपासनात्रैविध्यादाश्रितत्वादिह तद्योगात्' इस अंशसे जो कहा गया है, वही इसका उत्तर है ।



भाष्य

अथ यदुक्तम्—वाक्यशेषगताजीवलिङ्गान्मुख्यप्राणलिङ्गाच्च तयोरेवाऽ-न्यतरस्येह ग्रहणं न्याय्यं न परमेश्वरस्य इति, तत् परिहर्तव्यम् । अत्रो-च्यते—परिहृतं चैतत् 'नोपासनात्रैविध्यादाश्रितत्वादिह तद्योगात्' (ब्र० सू० १।१।३१) इत्यत्र । त्रिविधं ह्यत्रोपासनमेवं सति प्रसज्येत जीवोपासनं

भाष्यका अनुवाद

वाक्यशेषस्थित जीवलिङ्गसे और मुख्यप्राणलिङ्गसे यहां जीव और प्राणमेंसे किसी एकका ग्रहण उचित है, परमेश्वरका ग्रहण न्यायसंगत नहीं है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, उसका परिहार करना चाहिए, इसपर कहते हैं—'नोपासनात्रै-विध्यादा०' इस सूत्रमें उसका परिहार किया गया है, क्योंकि ऐसा होनेपर यहां जीवकी उपासना, मुख्य प्राणकी उपासना और ब्रह्मकी उपासना, इस तरह

रत्नप्रभा

सिद्धान्तमुक्त्वा पूर्वपक्षबीजम् अनुद्य दूपयति—जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेत्त-द्व्याख्यातम् इति । उक्तमेव स्मरयति—त्रिविधमिति । श्रेष्ठ्यम्—गुणाधिक्यम्,

रत्नप्रभाका अनुवाद

सिद्धान्त कहकर पूर्वपक्षके उपस्थित होनेमें जो बीज है, उसका अनुवाद करके दोष निकालते हैं—“जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेत् तद्याख्यातम्” से । उक्तका ही स्मरण करते हैं—

भाष्य

मुख्यप्राणोपासनं ब्रह्मोपासनं चेति । न चैतन्न्याय्यम्, उपक्रमोपसंहाराभ्यां हि ब्रह्मविषयत्वमस्य वाक्यस्याऽवगम्यते । तत्रोपक्रमस्य तावद् ब्रह्मविषयत्वं दर्शितम् । उपसंहारस्यापि निरतिशयफलश्रवणाद् ब्रह्मविषयत्वं दृश्यते—‘सर्वान् पाप्मनोऽपहृत्य सर्वेषां च भूतानां श्रेष्ठं स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येति य एवं वेद’ इति । नन्वेवं सति प्रतर्दनवाक्यनिर्णयेनैवेदमपि वाक्यं निर्णीयेत, न निर्णीयते, ‘यस्य चैतत् कर्म’ इत्यस्य ब्रह्मविषयत्वेन तत्राऽनिर्धारितत्वात् । तस्मादत्र जीवमुख्यप्राणशङ्का पुनरुत्पद्यमाना निवर्त्यते । प्राणशब्दोऽपि ब्रह्मविषयो दृष्टः ‘प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः’

भाष्यका अनुवाद

तीन प्रकारकी उपासनाएँ प्राप्त होती हैं, यह युक्त नहीं है, क्योंकि उपक्रम और उपसंहारसे प्रतीत होता है कि यह वाक्य ब्रह्मप्रतिपादक है । उन दोनोंमें उपक्रम ब्रह्मप्रतिपादक है, यह दिखलाया जा चुका है । और ‘सर्वान् पाप्मनोः’ (जो इस प्रकार जानता है वह सब पापोंका नाश करके सब भूतोंमें श्रेष्ठत्व, स्वाराज्य और आधिपत्य प्राप्त करता है) इस प्रकार उपसंहारमें निरतिशय फलकी श्रुति है, इससे प्रतीत होता है कि वह भी ब्रह्मप्रतिपादक ही है । परन्तु यदि ऐसा होता, तो प्रतर्दनवाक्यके निर्णयसे ही इस वाक्यका भी निर्णय हो जाता, निर्णय नहीं होता, क्योंकि ‘यस्य चैतत् कर्म’ (अथवा यह जिसका कर्म है) यह ब्रह्मप्रतिपादक है, ऐसा वहां निर्धारण नहीं किया गया है, इसलिए यहां उक्त वाक्य जीव और मुख्यप्राणका प्रतिपादक है, ऐसी शङ्का फिर उत्पन्न होती है, उसका निराकरण किया जाता है । ‘प्राणबन्धनं हि०’ (हे सोम्य जीव प्राणपर निर्भर है) इसमें

रत्नप्रभा

आधिपत्यम्—नियन्तृत्वम्, स्वाराज्यम्—अनियम्यत्वम् इति भेदः । सम्भवति एकवाक्यत्वे वाक्यभेदो हि नेप्यते इत्युक्तम् चेत् पुनरुक्तिः स्यादिति शङ्कते—नन्वेवमिति । कर्मशब्दस्य रूढ्या पूर्वपक्षप्राप्तौ तन्निरासार्थमस्य आरम्भो युक्त इत्याह—

रत्नप्रभाका अनुवाद

“त्रिविधम्” इत्यादिसे । श्रेष्ठ्यम्—गुणाधिक्य, आधिपत्यम्—नियन्ता होना, स्वाराज्यम्—निरङ्कुश होना । एकवाक्यताका संभव हो, तो वाक्यभेद इष्ट नहीं है ऐसा जो कहा है, उससे पुनरुक्तिकी शंका करते हैं—“नन्वेवम्” इत्यादिसे । कर्मशब्दका रूढिसे अर्थ करनेमें पूर्वपक्ष होता है, उसका निराकरण करनेके लिए इसका आरम्भ करना उचित है, ऐसा कहते हैं—“ग”

भाष्य

(छा० ६ । ८ । २) इत्यत्र । जीवलिङ्गमप्युपक्रमोपसंहारयोर्ब्रह्मविषय-
त्वादभेदाभिप्रायेण योजयितव्यम् ॥ १७ ॥

भाष्यका अनुवाद

प्राणशब्द भी ब्रह्मविषयक देखा जाता है । उपक्रम और उपसंहारके ब्रह्मविषयक होनेसे जीवलिङ्ग भी जीव और ब्रह्मके अभेदाभिप्रायसे है, ऐसी योजना करनी चाहिए ॥१७॥

रत्नप्रभा

नेत्यादिना । प्राणशब्दजीवलिङ्गयोः गतिमाह—प्राणशब्दोऽपीति । मनः—जीवः ॥ १७ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

इत्यादिसे । प्राणशब्द और जीवलिङ्गकी गति कहते हैं—“प्राणशब्दोऽपि” इत्यादिसे । मनः—जीव ॥१७॥

अन्यार्थं तु जैमिनिः प्रश्नव्याख्यानाभ्यामपि चैवमेके ॥१८॥

पदच्छेद—अन्यार्थम्, तु, जैमिनिः, प्रश्नव्याख्यानाभ्याम्, अपि, च, एवम्, एके ।

पदार्थोक्ति—जैमिनिस्तु [आचार्यः अस्मिन् प्रकरणे जीवपरामर्शम्] अन्या-
र्थम्—ब्रह्मपतिपत्त्यर्थम् [मन्यते, कुतः] प्रश्नव्याख्यानाभ्याम्—‘कैष एतद्
बालके । पुरुषोऽशयिष्ठ क वा एतद्भूत्’ इति ‘यदा सुप्तः स्वप्नं न कञ्चन पश्य-
त्यथास्मिन् प्राण एवैकधा भवति’ इति च प्रश्नोत्तराभ्याम्, अपि च—किञ्च,
एके—वाजसनेयिनः, एवम्—‘य एष विज्ञानमयः पुरुषः कैष तदाभूत् कुत
एतदागात्’ इति ‘य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्तस्मिञ्छेते’ इति च प्रश्नोत्तरा-
भ्याम् [स्पष्टं विज्ञानमयस्तिरिक्तं परमात्मानम् आत्मन्ति] ।

भाषार्थ—जैमिनि आचार्य इस प्रकरणमें ‘कैष एतद् बालके० (हि बालके ! यह पुरुष कहां सोया था, वह शयन किस स्थानमें हुआ था) यह प्रश्न और ‘यदा सुप्तः स्वप्नं०’ (जब सुप्त पुरुष कोई स्वप्न नहीं देखता तब प्राणमें परमात्माके साथ एकता प्राप्त करता है) यह उत्तर होनेसे जीवपरामर्श ब्रह्मज्ञानके लिए है ऐसा मानते हैं । और वाजसनेयिशाखानाले ‘य एष विज्ञान०’ (यह विज्ञानमय पुरुष सुषुप्ति-कालमें कहां था, अन्य अवस्थामें कहासे आया) इस प्रश्न और ‘य एषोऽन्तर्हृदय०’ (यह जो हृदयके अन्दर आकाश है उसमें सोता था) इस उत्तरसे स्पष्ट कहते हैं कि विज्ञानात्मा परमात्मासे भिन्न है ।

भाष्य

अपि च नैवाऽत्र विवदितव्यम्—जीवप्रधानं वेदं वाक्यं स्याद् ब्रह्मप्रधानं वा इति । यतोऽन्यार्थं जीवपरामर्शं ब्रह्मप्रतिपत्त्यर्थमस्मिन् वाक्ये जैमिनिराचार्यो मन्यते । कस्मात् ? प्रश्नव्याख्यानाभ्याम् । प्रश्नस्तावत् सुप्तपुरुषप्रतिबोधनेन प्राणादिव्यतिरिक्ते जीवे प्रतिबोधिते पुनर्जीवव्यतिरिक्तविषयो दृश्यते—‘कैप एतद्बालाके पुरुषोऽश्रयिष्ठ क्व वा एतद्भूत् कुत एतदागत’

भाष्यका अनुवाद

और यह वाक्य जीवप्रतिपादक है या ब्रह्मप्रतिपादक है, ऐसा विवाद करना उचित नहीं है, क्योंकि इस वाक्यमें जैमिनि आचार्य जीवके परामर्शको अन्यार्थक अर्थात् ब्रह्मकी प्रतीतिके लिए मानते हैं । किससे ? प्रश्न और व्याख्यानसे । सोये हुए पुरुषको उठाकर प्राण आदिसे अन्य जीवका बोध करानेके अनन्तर ‘कैप बालाके पुरुषो’ (हे बालाके ! यह पुरुष कहाँ सोता था, यह शयन कहाँ हुआ था और कहाँसे यह आया) इस प्रकार जीवसे भिन्नके विषयमें दूसरा प्रश्न देखनेमें

रत्नप्रभा

जीवलिंगेन ब्रह्मैव लक्ष्यते इत्युक्तम् । इदानीं तस्मिन्नेन जीवोक्तिद्वारा ब्रह्मप्राप्तमित्याह—अन्यार्थमिति । जीवपरामर्शस्य जीवाधिकरणब्रह्मज्ञानार्थत्वे प्रश्नमाह—कैप इति । हे बालाके ! एतत् शयनं विशेषज्ञानाभावरूपं यथा स्यात् तथा एष पुरुषः काऽश्रयिष्ठ कस्मिन् अधिकरणे शयनं कृतवानित्यर्थः । एकीभावाश्रयज्ञानार्थं पृच्छति—क्व वा इति । एतद् भवनमेकीभावरूपं यथा स्यात् तथा एष पुरुषः काऽभूत् सुप्तः, केन ऐक्यं प्राप्नोतीति यावत् । उरथानापादानं पृच्छति—कुत इति । एतद् आगमनम् ऐक्यग्रंशरूपं यथा स्यात् तथा पुरुषः कुत आगत

रत्नप्रभाका अनुवाद

जीवके लिंगसे ब्रह्मका ही प्रतिपादन होता है, ऐसा पूर्व सूत्रमें कहा गया है, अब “अन्यार्थम्” इत्यादिसे कहते हैं कि जीवलिंगसे जीवकथन द्वारा ब्रह्मका ग्रहण करना चाहिए । जीवका परामर्श जीवके आधारभूत ब्रह्मको जाननेके लिए है इस विषयमें प्रश्न कहते हैं—“कैप” इत्यादिसे । हे बालाके ! विशेष ज्ञानका अभावरूप शयन जिस प्रकार हो, उस प्रकार यह जीव कहाँ सोता था अर्थात् किस अधिकरणमें शयन करता था ? एकीभावका आश्रय जाननेके लिए पूछते हैं—“क्व वा” इत्यादिसे । यह एकीभाव जैसे हो वैसे यह पुरुष कहाँ सोता था अर्थात् किसके साथ एकताको प्राप्त हुआ था ? उरथानके अपादानको—जिसमेंसे उठता है, उसको—पूछते हैं—“कुतः” इत्यादिसे । अर्थात् पुरुषका ऐक्यग्रंशरूप आगमन कहाँसे

भाष्य

(कौ० ब्रा० ४ । १९) इति । प्रतिवचनमपि 'यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन पश्यत्यथास्मिन् प्राण एवैकधा भवति' इत्यादि, 'एतस्मादात्मनः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणोभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः' (कौ० ब्रा० ४।१९, २०) इति च । सुषुप्तिकाले च परेण ब्रह्मणा जीव एकतां गच्छति, परस्माच्च ब्रह्मणः प्राणादिकं जगज्जायत इति वेदान्तमर्यादा । तस्माद्यत्राऽस्य जीवस्य निःसम्बोधतास्वच्छतारूपः स्वाप उपाधिजनितविशेष-विज्ञानरहितं स्वरूपम्, यतस्तद्भ्रंशरूपमागमनम्, सोऽत्र परमात्मा वेदित-

भाष्यका अनुवाद

आता है । और 'यदा सुप्तः स्वप्नं न०' (सोता हुआ पुरुष जब कोई स्वप्न नहीं देखता तब इस प्राणमें ही एक होता है) इत्यादि और 'एतस्मादात्मनः प्राणां०' (इस आत्मासे प्राण अपने अपने स्थानपर जाते हैं, प्राणोंसे देव और देवोंसे लोक) ऐसे प्रतिवचन भी हैं । सुषुप्तिकालमें परब्रह्मके साथ जीव एक हो जाता है और परब्रह्मसे प्राण आदि जगत् उत्पन्न होता है, यह वेदान्तसिद्धान्त है । इससे प्रतीत होता है कि जिसमें इस जीवका भानरहित स्वच्छतारूप स्वाप है अर्थात् उपाधिजनितविशेषविज्ञानरहित स्वरूप है, जिससे स्वापसे पतनरूप आगमन होता है, यहां उसी परमात्माका श्रुति वेदितव्यरूपसे प्रतिपादन करती

रत्नप्रभा

इत्यर्थः । प्रश्नमुक्त्वा व्याख्यानमाह—प्रतिवचनमिति । शयनभवनयोः आधारः उत्थानापादानञ्च प्राणशब्दितं ब्रह्मैव इत्यर्थः । उच्यते प्राणोक्तेः प्रश्नोऽपि प्राण-विषय इत्यत आह—सुषुप्तिकाले चेति । जगद्धेतुत्वजीवैक्याभ्यां प्राणोऽत्र ब्रह्मैत्यर्थः । जीवोक्तेरन्यार्थत्वम् उपसंहरति—तस्मादिति । निःसम्बोधता-विशेष-धीशून्यता, स्वच्छता-विक्षेपमलशून्यता । भेदभ्रान्तिशून्यतास्वरूपम् ऐक्यमाह—

रत्नप्रभाका अनुवाद

हुआ । प्रश्न कहकर व्याख्यान कहते हैं—“प्रतिवचनम्” इत्यादिसे । अर्थात् शयन और एकाभावका आधार एवं उत्थानका अपादान ब्रह्म ही प्राणशब्दसे कहा गया है । यदि कोई कहे कि आगे प्राणका कथन है, प्रश्न भी प्राणका है, इसपर कहते हैं—“सुषुप्तिकाले च” इत्यादिसे । यहांपर प्राण जगत्का हेतु और जीवका आधार कहा गया है, इससे वह ब्रह्म ही है । जीवका कथन दूसरे प्रयोजनके हेतु है, इसका उपसंहार करते हैं—“तस्माद्” इत्यादिसे । निःसम्बोधता—विशेषज्ञानशून्य होना, स्वच्छता—विक्षेपरूप मलसे रहित होना । भेदभ्रान्तिशून्यतारूप स्वरूपैक्य कहते हैं—“उपाधि” इत्यादिसे । प्रश्न और

भाष्य

व्यतया श्रावित इति गम्यते । अपि चैवमेके शाखिनो वाजसनेयिनोऽस्मिन्नेव
 चालाक्यजातशत्रुसंवादे स्पष्टं विज्ञानमयशब्देन जीवमात्मनाय तद्व्यतिरिक्तं
 परमात्मानमामनन्ति—‘य एष विज्ञानमयः पुरुषः क्वै तदाऽभूत् कुत
 एतदागात्’ (बृ० २ । १ । १६) इति प्रश्ने प्रतिवचनेऽपि ‘य एषोऽ-
 न्तर्हृदय आकाशस्तस्मिञ्शेते’ इति । आकाशशब्दश्च परमात्मनि प्रयुक्तः
 ‘दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः’ (छा० ८ । १ । १) इत्यत्र । ‘सर्व एत आत्मनो
 व्युच्चरन्ति’ इति चोपाधिमात्मानामन्यतो व्युच्चरणमामनन्तः परमा-

भाष्यका अनुवाद

है । और एक शाखावाले—वाजसनेयी चालाकि और अजातशत्रुके इसी संवादमें
 विज्ञानमयशब्दसे जीवका स्पष्ट श्रवण कराके उससे अन्य परमात्माका ‘य एष
 विज्ञानमयः पुरुषः’ (जो यह विज्ञानमय पुरुष है, यह तब कहाँ था और
 कहाँसे आया) इस प्रकार प्रश्नमें और ‘य एषोऽन्तर्हृदयः’ (हृदयमें जो यह
 आकाश है, उसमें सोता है) इस प्रतिवचनमें भी श्रवण कराते हैं । आकाश-
 शब्दका प्रयोग ‘दहरोऽस्मिन्’ (इस हृदयमें अल्प आकाश है) इस श्रुतिमें
 परमात्माके अर्थमें किया गया है । ‘सर्व एत आत्मनो’ (ये सब आत्मासे
 निकलते हैं) इस प्रकार उपाधिवाले आत्मा अन्यमेंसे निकलते हैं, ऐसा श्रवण

रत्नप्रभा

उपाधीति । प्रश्नव्याख्यानयोः ब्रह्मविषयत्वे शाखान्तरसंवादमाह—अपि चैवमेके
 शाखिन इति । ननु तत्राऽऽकाशः सुषुप्तिस्थानम् उक्तम्, न ब्रह्मेत्यत आह—आका-
 शेति । उपाधिद्वारा प्रमात्रात्मजन्महेतुत्वात् च आकाशो ब्रह्मेत्याह—सर्व इति । एवं
 जीवनिरासार्थकत्वेन सूत्रं व्याख्याय प्राणनिरासपरत्वेनाऽपि व्याचष्टे—प्राणेति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

व्याख्यान ब्रह्मके प्रतिपादक हैं, इस विषयमें अन्य शाखाके वाक्यको प्रमाणरूपसे उद्धृत
 करते हैं—“अपि चैवमेके शाखिनः” इत्यादिसे । यदि कोई कहे कि वहाँ आकाश सुषुप्तिस्थान
 कहा गया है, न कि ब्रह्म, इसपर कहते हैं—“आकाश” इत्यादि । उपाधिद्वारा प्रमाता आत्माके
 जन्मका हेतु होनेसे आकाश ब्रह्म ही है, ऐसा कहते हैं—“सर्व” इत्यादिसे । इस प्रकार सूत्र
 जीवका निराकरण करनेके लिए है, ऐसा व्याख्यान करके अब प्राणका निराकरण करनेके

(१) यह माध्यान्दिर्नोका पाठ है । काण्वोंका ‘एवमेवात्मादात्मनः सर्वे प्राणा सर्वे लोकाः सर्वे
 देवाः सर्वाणि च भूतानि व्युच्चरन्ति’ (इसी प्रकार हम आत्मासे सब प्राण, सब लोक, सब देव और
 सब भूत निकलते हैं) ऐसा पाठ है ।

भाष्य

त्मानमेव कारणत्वेनाऽऽमनन्तीति गम्यते । प्राणनिराकरणस्यापि सुपुत्र-
पुरुषोत्थापनेन प्राणादिव्यतिरिक्तोपदेशोऽभ्युच्चयः ॥ १८ ॥

भाष्यका अनुवाद

कराते हुए परमात्माका ही कारणरूपसे श्रवण कराते हैं । प्राणके निराकरणमें सुपुत्र पुरुषके उत्थापनके साथ प्राण आदिसे अतिरिक्त जीवके उपदेशरूप हेतुका समुच्चय है अर्थात् प्राणके निराकरणमें दोनों हेतु हैं ॥ १८ ॥

रत्नप्रभा

अस्मिन् वाक्ये प्राणोपदेशं ब्रह्मज्ञानार्थं मन्यते जैमिनिः, उक्तप्रश्नव्याख्यानाभ्यां
वाक्यस्य ब्रह्मपरत्वात् । अपि चैके शाखिन एवमेव प्राणातिरिक्तं जीवात्मा-
नम् आमनन्तः प्राणस्य वाक्यार्थत्वं वारयन्ति इति सूत्रयोजना । अतिरिक्तजीवोपदेशः
प्राणनिराकरणस्याऽपि अभ्युच्चयः—हेत्वन्तरमिति भाष्यार्थः । तस्मात् इदं वाक्यं
समन्वितमिति सिद्धम् ॥ १८ ॥ (५) ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

लिए है, ऐसा व्याख्यान करते हैं—“प्राण” इत्यादिसे । जैमिनि इस वाक्यमें प्राणका उपदेश
ब्रह्मज्ञानके लिए मानते हैं, क्योंकि उक्त प्रश्न और व्याख्यानसे प्रतीत होता है कि वाक्यब्रह्मपरक
है । और वाजसनेयिशाखावाले उसी प्रकार प्राणसे अन्य जीवात्माका श्रवण कराके वाक्यार्थ प्राणका
प्रतिपादक नहीं है, ऐसा कहते हैं, ऐसी सूत्रकी योजना करनी चाहिए । जीवका भिन्नरूपसे
उपदेश भी प्राणके निराकरणमें दूसरा हेतु है ऐसा भाष्यका अर्थ है । इसलिए इस वाक्यका
ब्रह्ममें समन्वय है, यह सिद्ध हुआ ॥१८॥



[६ वाक्यान्वयाधिकरण सू० १९—२२]

आत्मा द्रष्टव्य इत्युक्तः संसारी वा परेश्वरः ।

संसारी पतिजायादिभोगप्रतियाऽस्य सूचनात् ॥१॥

अमृतत्वमुपक्रम्य तदन्तेऽप्युपसंहृतम् ।

संसारिणमनूद्याऽतः परेशत्वं विधीयते* ॥२॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—‘आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः’ इय ध्रुतिमें उक्त द्रष्टव्य आत्मा जीव है अथवा ब्रह्म ?

पूर्वपक्ष—उक्त आत्मा जीव है, क्योंकि ध्रुत्युक्त पति, स्त्री आदि भोग्य पदार्थोंकी प्रीतिये तद्युक्त जीवकी ही सूचना होती है ।

सिद्धान्त—वाक्यके उपक्रममें अमृतत्व कहा गया है, उपसंहारमें भी अमृतत्व कहा गया है, इससे सिद्ध होता है कि संसारी—जीवका अनुवाद करके उसमें ब्रह्मत्वका विधान है । इसलिए उक्त आत्मा ब्रह्म ही है ।

* तात्पर्य यह कि ब्रह्मदारण्यकके चतुर्थ अध्यायमें अपनी भार्या मैत्रेयीके प्रति याज्ञवल्क्य उपदेश करते हैं—‘आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः’ इसका अर्थ यह है कि हे मैत्रेयि ! आत्माका दर्शन करना चाहिये, उसके लिए ध्वन, मनन और निदिध्यासन करना चाहिये । यहाँ सन्देह होता है कि उक्त आत्मा जीव है अथवा ब्रह्म है ?

पूर्वपक्षी कहता है कि जीव है, क्योंकि “न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति” इत्यादि वाक्योंसे प्रतीत होता है कि भोग्य पदार्थोंमें प्रेम रखनेवाला उक्त द्रष्टव्य आत्मा संसारी है । ‘न वा अरे०’ इत्यादि वाक्यका यह अर्थ है—पतिमें प्रेम करनेवाली स्त्री पतिके सुखके लिए प्रेम नहीं करती है, किन्तु अपने सुखके लिए ही प्रेम करती है, इस प्रकार पति, पुत्र आदि भी अपने अपने सुखके लिए ही अन्यत्र प्रेम करते हैं । ऐसा भोग तो असङ्ग ईश्वरके लिए युक्त नहीं है ।

सिद्धान्ती कहते हैं कि उक्त वाक्यके उपक्रममें मैत्रेयीने पूछा कि वित्तसाध्य कर्मसे मुझे अमृतत्व मिलेगा ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि वित्तसाध्य कर्मसे अमृतत्वकी आशा भी नहीं है । ब्राह्मणके अवपानमें भी “पतावदरे खल्वमृतत्वम्” (हे मैत्रेयि ! यहाँ अमृतत्व है) ऐसा उपसंहार किया गया है । अतः उपक्रम और उपसंहारके बलसे प्रतीत होता है कि यहाँ अमृतत्वका साधन आत्मज्ञान प्रतिपाद्य है । जीवात्माका ज्ञान तो अमृतत्वका साधन नहीं है । इससे सिद्ध होता है कि भोगप्रीतिसे सूचित जीवका अनुवाद करके उसमें ब्रह्मत्वका प्रतिपादन है । अतः उक्त द्रष्टव्य आत्मा ब्रह्म ही है ।

वाक्यान्वयात् ॥ १९ ॥

पदार्थोक्ति—वाक्यान्वयात्—['आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः' इत्यत्र द्रष्टव्यत्वादिरूपेणोपदिष्टः आत्मा परमात्मैव, कुतः] उपक्रमादिपर्यालोचनया वाक्यस्य ब्रह्मण्येवाऽन्वयात् ।

भाषार्थ—'आत्मा वा अरे०' (हे मैत्रेयि ! आत्माका दर्शन करना चाहिए श्रवण करना चाहिए) इस श्रुतिमें द्रष्टव्य आदि रूपसे उपदिष्ट आत्मा परमात्मा ही है, क्योंकि उपक्रम आदिके पर्यालोचनसे प्रतीत होता है कि ब्रह्ममें ही वाक्यका अन्वय है ।

भाष्य

बृहदारण्यके मैत्रेयीब्राह्मणेऽधीयते—'न वा अरे पत्युः कामाय' इत्युपक्रम्य 'न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम्' (बृ० ४।५।६) इति, तत्रैतद्विचिकित्सयते—किं विज्ञानात्मैवाऽयं द्रष्टव्यश्रोतव्यत्वादिरूपेणोपदिश्यत आहोस्वित् परमात्मेति । कुतः पुनरेषा

भाष्यका अनुवाद

बृहदारण्यकके मैत्रेयी ब्राह्मणमें 'न वा अरे पत्युः' (अरे मैत्रेयि! पतिके लिए पति प्रिय नहीं होता) इस प्रकार उपक्रम करके श्रुति कहती है—'न वा अरे सर्वस्य कामाय०' (अरे मैत्रेयि ! सबके लिए सब प्रिय नहीं होते, अपने मतलबके लिए सब प्रिय होते हैं । अरे मैत्रेयि ! आत्मा ही दर्शन, श्रवण, मनन और निदिध्यासनके योग्य है । आत्माके ही दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञानसे यह सब विदित होता है) । यहांपर यह संशय होता है कि क्या यह विज्ञानात्मा ही द्रष्टव्य, श्रोतव्य आदि रूपसे उपदिष्ट होता है या परमात्मा ? यह संशय

रत्नप्रभा

वाक्यान्वयात् । विषयवाक्यमाह—बृहदिति । पत्यादेः आत्मशेषत्वेन प्रियत्वाद् आत्मैव सर्वशेषी प्रियतमः, अतोऽन्यत् परित्यज्य आत्मैव द्रष्टव्यः, दर्शनार्थं श्रव-

रत्नप्रभाका अनुवाद

"वाक्यान्वयात्"। "बृहद्" इत्यादिसे विषयवाक्य कहते हैं। पति आदि आत्मोपयोगी होनेसे प्रिय है, अतः सबका उपभोग करनेवाला आत्मा ही प्रियतम है, इसलिए अन्य पदार्थोंको छोड़कर आत्माका

माष्य

विचिक्विता? प्रियसंग्चितेनाऽऽत्मना भोक्त्रोपक्रमाद् विज्ञानात्मोपदेश इति प्रतिभाति। तथाऽऽत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानोपदेशात् परमात्मोपदेश इति। किं तावत् प्राप्तम् ?

विज्ञानात्मोपदेश इति। कस्मात् ? उपक्रमगामर्थ्यात्। पतिजाया-पुनर्विच्छादिकं हि भोग्यभूतं सर्वं जगदात्मार्थतया प्रियं भवतीति प्रियसंग्चितं भोक्तारमात्मानमुपक्रम्याऽनन्तरमिदमात्मनो दर्शनाद्युपदिश्यमानं कस्याऽन्यस्याऽऽत्मनः स्यात्। मध्येऽपि 'इदं महद् भूतमनन्तमपारं विज्ञानपन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवाऽनुविनश्यति न प्रेत्य

माष्यका अनुवाद

फयों होता है ? प्रियशब्दसे सूचित भोक्ता आत्मासे उपक्रम होनेके कारण विज्ञानात्माका उपदेश है, ऐसा भासता है। उसी प्रकार आत्माके विज्ञानसे सर्वविज्ञानका उपदेश है, इससे परमात्माका उपदेश है ऐसा प्रतीत होता है। तब क्या प्राप्त होता है ?

पूर्वपक्षी—विज्ञानात्माका उपदेश है यह प्राप्त होता है। किससे ? उपक्रमके बलसे। पति, स्त्री, पुत्र, वित्त आदि भोग्यभूत सारा जगत् आत्माके लिए प्रिय होता है, इस प्रकार प्रियशब्दसे सूचित भोक्ता आत्माका उपक्रम करके उसके अनन्तर आत्माके दर्शन, ध्वषण आदि जो कहे गये हैं, ये आत्मासे अन्य किस दूसरेके होंगे ? बीचमें भी 'इदं महद्भूतमनन्तं' (यह महान्, सत्य, अनन्त, अपार और विज्ञानैकरस इन भूतोंसे समुत्थान करके इनके पीछे ही नष्ट हो जाता है, मरणके बाद ज्ञान

रत्नप्रभा

णादिक कार्यम् इत्यर्थः। प्रियमंग्चितेनेति। पतिजायादिभिः प्रिये भोग्ये जीवतया अनुमितेन इत्यर्थः। यथा "ब्रह्म ते ब्रवाणि" (बृ० २।१।१) इत्युपक्रमबलाद् वाक्यस्य ब्रह्मपरत्वम्, तथाऽत्र जीवोपक्रमाद् अस्य वाक्यस्य जीवपरत्वमिति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति—किं तावदिति। पूर्वपक्षे वाक्यस्य जीवोपास्तित्वपरत्वम्, सिद्धान्ते ज्ञेये प्रत्यग्ब्रह्मणि समन्वय इति फलम्। इदम्—प्रत्यक्, महद्—अपरिच्छिन्नम्, भूतम्—सत्यम्,

रत्नप्रभाका अनुवाद

ही दर्शन करना चाहिए। दर्शनके लिए ध्वषण आदि करने चाहिए, ऐसा अर्थ है। "प्रियसंग्चितेन" इत्यादि। अर्थात् पति, पत्नी आदि प्रिय भोग्य पदार्थों द्वारा जीवरूपस अनुमित। जैसे 'ब्रह्म ते' (मैं तुमसे ब्रह्म कहता हूँ) इस उपक्रमके बलसे वाक्य ब्रह्मपरक माना गया है, उसी प्रकार यहाँ जीवका उपक्रम होनेसे यह वाक्य जीवपरक है, ऐसा दृष्टान्तसे पूर्वपक्ष करते हैं—"किं तावद्" इत्यादिते। पूर्वपक्षमें वाक्यका जीवोपास्तित्वपरत्व फल है, और ज्ञेय प्रत्यग् ब्रह्ममें समन्वय सिद्धान्तमें फल है। इदम्—प्रत्यक्, महद्—अपरिच्छिन्न, भूत—सत्य,

भाष्य

सजास्ति' इति प्रकृतस्यैव महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः समुत्थानं विज्ञानात्मभावेन घुमन् विज्ञानात्मन एवेदं द्रष्टव्यत्वं दर्शयति । तथा 'विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयात्' इति कर्तृवचनेन शब्देनोपमंहरन् विज्ञानात्मानमेवेहोपदिष्टं दर्शयति । तस्मादात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानवचनं भोक्तृर्थत्वाद् भोग्यजातस्यौपचारिकं द्रष्टव्यमिति ।

एवं प्राप्ते घूमः—परमात्मोपदेश एवाऽयम् । कस्मात् ? वाक्यान्वयात् । वाक्यं हीदं पूर्वार्पयेणाऽपेक्ष्यमाणं परमात्मानम्प्रति अन्वितावयवं

भाष्यका अनुवाद

नहीं रहता) इस प्रकार प्रष्टुन द्रष्टव्य महान् भूत ही जन भूतोसे उचित होता है, तन जीव कहलाता है, ऐसा कहकर विज्ञानात्मा ही द्रष्टव्य है ऐसा दिखलाते हैं । इसी प्रकार 'विज्ञातारमरे०' (अरे ! विज्ञाताको किससे जाने) इस प्रकार कर्तृवाचक-शब्दसे उपसहार करती हुई श्रुति विज्ञानात्मा ही यहा उपदिष्ट है, ऐसा दिखलाती है । इसलिए आत्मविज्ञानसे सर्वविज्ञान होता है, यह कथन भोक्ताके लिए होनेसे भोग्य समूहमें गौण है, ऐसा समझना चाहिए ।

सिद्धान्ती—ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं—यह परमात्माका ही उपदेश है । किससे ? वाक्यके अन्वयसे । क्योंकि पूर्वापरसंबन्धसे इस वाक्यकी आलोचना करनेसे प्रतीत होता है कि इसके सभी अवयव परमात्मामें अन्वित

रत्नप्रभा

अनन्तम्—नित्यम्, अपारम्—सर्वगतम्, चिदेकरसम् एतेभ्य कार्यकरणात्मना जायमानेभ्यो भूतेभ्य सामान्येन उत्थाय भूतोपाधिक जन्म अनुभूय, तान्येव भूतानि लीयमानानि अनुसृत्य विनश्यति । औपाधिकमरणानन्तर विशेषधी नास्तीति श्रुत्यर्थ । विज्ञातारम् विज्ञानकर्तारम् भोक्तारि ज्ञाते भोग्यं ज्ञातम् इति उपचार । मोक्षसाधनज्ञानगम्यत्वादिलिङ्गै वाक्यस्याऽन्वयाद् ब्रह्मण्येव तात्पर्यावगमाद् ब्रह्म-प्रमापकत्वमिति सिद्धान्तयति—एवमिति । वित्तेन—तत्साध्येन कर्मणा इत्यर्थ ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

अनन्त—नित्य, अपार—सर्वगत चिद्रूप एकरस दहेन्द्रियघातरूपसे उत्पद्यमान भूतोस सामान्यतः उठकर अर्थात् भूतोपाधिक तम लेकर नष्ट होते हुए भूतोका अनुमरण करके नष्ट होता है । औपाधिक मरणके आन्तर विशेष ज्ञान नहीं होता है ऐसा श्रुतिको अर्थ है । विज्ञाता-विज्ञानकर्ता, भोक्ताका ज्ञान हानेपर भोग्य भी ज्ञात हो जाता है, ऐसा उपचार है । मोक्षसाधन ज्ञानसे गम्यत्व आदि श्रुतियोंसे और वाक्यके अन्वयसे ब्रह्ममें ही तात्पर्यकी प्रतीति हानेसे ब्रह्म ही उपदिष्ट है, ऐसा सिद्धान्त करते हैं—एवम्' इत्यादिये । वित्तेन—वित्तसाध्य

भाष्य

लक्ष्यते । कथमिति ? तदुपपाद्यते—‘अमृतत्वस्य तु नाऽऽशाऽस्ति वित्तेन’ इति याज्ञवल्क्यादुपश्रुत्य ‘येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्यां यदेव भगवान् वेद तदेव मे ब्रूहि’ इत्यमृतत्वमाशासानाया मैत्रेय्या याज्ञवल्क्य आत्मविज्ञानमिदमुपदिशति । न चाऽन्यत्र परमात्मविज्ञानादमृतत्वमस्तीति श्रुतिस्मृतिवादा वदन्ति । तथा चाऽऽत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानमुच्यमानं नाऽन्यत्र परमकारणविज्ञानान्मुख्यमवकल्पते । न चैतदौपचारिकमाश्रयितुं शक्यम्, यत्कारणमात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञायाऽनन्तरेण ग्रन्थेन तदेवोपपादयति—‘ब्रह्म तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद’ इत्यादिना । यो हि ब्रह्मक्षत्रादिकं जगदात्मनोऽन्यत्र स्वातन्त्र्येण लब्धसद्भावं पश्यति तं मिथ्या-

भाष्यका अनुवाद

हैं । कैसे अन्वित हैं ? उसकी उपपत्ति दिखलाते हैं—‘अमृतत्वस्य तु०’ (अमृतत्वकी तो वित्तसे आशा नहीं है) ऐसा याज्ञवल्क्यसे सुनकर ‘येनाहं नामृता स्यां किमहं०’ (जो मुझे अमर नहीं कर सकता उससे मैं क्या करूँगी) इसलिए हे भगवन् ! अमर करनेवाला जो उपाय आप जानते हैं, वह मुझसे कहिए) इस प्रकार अमृतत्वकी आशा रखनेवाली मैत्रेयीके लिए याज्ञवल्क्य इस आत्मविज्ञानका उपदेश करते हैं । परमात्माके विज्ञानके सिवा अन्य विज्ञानसे अमृतत्वप्राप्ति नहीं होती ऐसा कहनेवाले सैकड़ों श्रुति और स्मृतिके घचन हैं । उसी प्रकार आत्माके विज्ञानसे जो सर्वविज्ञान कहा गया है, वह परम कारणके विज्ञानको छोड़कर अन्य विज्ञानोंमें मुख्यरूपसे नहीं घट सकता है । यह कथन औपचारिक है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आत्माके विज्ञानसे सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा करके ‘ब्रह्म ते परादाद्यो०’ (जो आत्मासे अन्यको ब्राह्मण-जाति जानता है, ब्राह्मणजाति उसको कल्याणमार्गसे भ्रष्ट कर देती है) इत्यादि आगेके ग्रंथसे उसीका प्रतिपादन करते हैं । निश्चय जो ब्रह्म, क्षत्र आदि जगत्की

रत्नप्रभा

भेदनिन्दापूर्वकमभेदसाधनेन एकविज्ञानात् सर्वविज्ञानस्य समर्थनाद् औपचारिकत्वं न युक्तमित्याह—न चैतदौपचारिकमित्यादिना । पराकरोति—श्रेयोमार्गाद् भ्रंशयति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

कर्मसे । भेदकी निन्दा करके अभेद साधन द्वारा एकविज्ञानसे सर्वविज्ञानका समर्थन किया है, इससे भोक्ताका ज्ञान होनेपर भोग्यसमूहका ज्ञान हो, ऐसा उपचार करना युक्त नहीं है, यह कहते हैं—“न चैतदौपचारिकम्” इत्यादिते । ‘पराकरोति’—कल्याणमार्गसे भ्रष्ट करता है ।

भाष्य

दर्शिनं तदेव मिथ्यादृष्टं ब्रह्मक्षत्रादिकं जगत् पराकरोतीति भेददृष्टिमपोद्य
'इदं सर्वं यदयमात्मा' इति सर्वस्य वस्तुजातस्याऽऽत्मान्यतिरेकमवतार-
यति । दुन्दुभ्यादिदृष्टान्तैश्च (वृ० ४ । ५ । ८) तमेवाऽन्यतिरेकं द्रढयति ।
'अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यदृग्वेदः' (वृ० ४।५।११) इत्या-
दिना च प्रकृतस्याऽऽत्मनो नामरूपकर्मप्रपञ्चकारणतां व्याचक्षाणः परमा-
त्मानमेनं गमयति । तथैवैकायनप्रक्रियायामपि (वृ० ४।५।१२) सविपयस्य

भाष्यका अनुवाद

आत्मासे अन्य स्थलमें स्वतंत्रतापूर्वक उसीकी सत्ता देखता है, वही मिथ्यादृष्ट
ब्रह्म, क्षत्र आदि जगत् उस मिथ्यादर्शीको कल्याणमार्गसे भ्रष्ट कर देता है, इस
प्रकार भेददृष्टिका निषेध करके 'इदं सर्वं यदं' (यह सब आत्मरूप ही है)
इस प्रकार सर्ववस्तुसमूह आत्मासे अभिन्न है, ऐसी अवतरणिका करते हैं ।
और दुन्दुभि आदि दृष्टान्तोंसे उसी अभेदको दृढ़ करते हैं । 'अस्य महतो
भूतस्य' (जो यह ऋग्वेद है, वह इस सत्य ब्रह्मका निःश्वसित है) इत्यादिसे
प्रकृत आत्मा नाम, रूप और कर्मरूप प्रपञ्चका कारण है, ऐसा व्याख्यान करने-
की इच्छासे श्रुति इस परमात्माका ही अवगमन कराती है । उसी प्रकार

रत्नप्रभा

यथा दुन्दुमिशङ्खवीणाशब्दसामान्यग्रहणेनैव गृह्यमाणाः तत्तदवान्तरविशेषाः शुक्ति-
ग्रहणप्राद्वरजतवत् सामान्ये कल्पिताः ततो न भिद्यन्ते, एवमात्मभानभास्यं सर्वम्
आत्ममात्रमिति निश्चितम् इत्याह—दुन्दुभ्यादीति । एवम् एकविज्ञानेन सर्वविज्ञान-
प्रतिज्ञाया मुख्यत्वाद् ब्रह्मनिश्चयः । सर्वस्रष्टृत्वलिङ्गादपि इत्याह—अस्य महत इति ।
ऋग्वेदादिकम्—नाम, इष्टं हुतमिति कर्म, अयञ्च लोकः परश्च लोक इति रूपम् ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

जैसे दुन्दुभि, शंख और वीणाके सामान्य शब्दके ज्ञानसे ही ज्ञात होनेवाले अवान्तर विशेष शब्द
शुक्तिके ग्रहणसे ज्ञात होनेवाले रजतके समान सामान्य शब्दमें कल्पित हैं, उससे भिन्न नहीं
हैं, वैसे ही आत्माके भानसे ग्राहित होनेवाले सब आत्ममात्र हैं, यह निश्चित है, ऐसा कहते हैं—
'दुन्दुभ्यादि' इत्यादिसे । इस प्रकार एक विज्ञानसे सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा मुख्य होनेसे ब्रह्मका
निश्चय होता है । सर्वस्रष्टृत्वलिङ्गसे भी यही निश्चय होता है, ऐसा कहते हैं—'अस्य महतः'
इत्यादिसे । ऋग्वेद आदि नाम हैं । इष्ट और हुत कर्म हैं । यह लोक और परलोक रूप है ।

भाष्य

सेन्द्रियस्य सान्तःकरणस्य प्रपञ्चस्यैकायनमनन्तरमवाप्तं कृत्स्नं प्रज्ञान-
घनं व्याचक्षाणः परमात्मानमेनं गमयति, तस्मात् परमात्मन एवायं दर्श-
नाद्युपदेश इति गम्यते ॥ १९ ॥

यत्पुनरुक्तम्—प्रियसंघचितोपक्रमाद् विज्ञानात्मन एवायं दर्शना-
द्युपदेश इति, अत्र ब्रूमः—

भाष्यका अनुवाद

एकायन प्रक्रियामें भी विषय, इन्द्रिय और अन्तःकरणके साथ सम्पूर्ण प्रपञ्चका
एक आधार बाह्य-आभ्यन्तरशून्य, अस्पृण्ड और प्रज्ञानैकरस है, ऐसा समझाते हुए
[याज्ञवल्क्य] परमात्माको ही समझाते हैं^१। इससे प्रतीत होता है कि
परमात्माके ही दर्शन आदिका यह उपदेश है ॥ १९ ॥

प्रियशब्दसे सूचित भोक्ता आत्माके उपक्रमसे विज्ञानात्माका ही यह
दर्शन आदि उपदेश है, ऐसा जो कहा है, उसपर कहते हैं—

रत्नप्रभा

किञ्च, “स यथा सर्वासामपा समुद्र एकायनम्” (बृ० २।४।११) इति
कण्डिकाया सर्वप्रपञ्चस्य मुख्यलयाधारत्वम् आत्मनो ब्रह्मत्वे लिङ्गम् इत्याह—
तथैवैकायनेति ॥ १९ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

और ‘स यथा सर्वासामपां०’ (जैसे सब जलोंका समुद्र एकमात्र आधार है) इस प्रकार सम्पूर्ण
प्रपञ्चका मुख्य लयाधार होना भी आत्मा परब्रह्म ही है, इसमें हेतु है, ऐसा कहते हैं—“तथैवै-
कायनम्” इत्यादिसे ॥ १९ ॥

(१) अयन—स्थान, जिसमें ब्रह्म सब वस्तुओंका एक मात्र आधार कहा गया है, वह प्रकरण।

(२) यदि कोई कहे कि एकायन प्रक्रियामें ‘स यथा सर्वासामपां समुद्र एकायनमेव सर्वेषां स्पर्शानां
त्वमेकायनम्’ से लेकर ‘एवं सर्वेषां वेदाना वागेकायनम्’ तक नदीसमुद्रदृष्टान्तपूर्वक तत्तद् शब्दियोंके
विषयोंके प्रति तत्तद् इन्द्रिया आयतन करी गई है। सम्पूर्ण प्रपञ्चका आत्मा एकायतन है, ऐसा तो
नहीं कहा है, इसलिये एकायन प्रक्रियासे ब्रह्म प्रपञ्चका एकायन कैसे सिद्ध हो सकता है ? इसका
समाधान इस प्रकार है—एकायनप्रक्रिया प्रकृत आत्मासे सम्बन्ध रखती है, ऐसा अवश्य मानना
चाहिए, क्योंकि वह आत्माके प्रकरणमें है। ‘समुद्र एकायनम्’ इस वाक्यमें समुद्र नदियोंके लयके
अधिकरणरूपसे विवक्षित है, उसी प्रकार ‘एवं सर्वेषां स्पर्शानाम्’ इत्यादि वाक्य भी लयका प्रति-
पादक हैं ऐसा समझना चाहिए। शब्दियों तो विषयोंके लयके अधिकरण नहीं हैं, इसलिये ‘श्वग्’
आदि पदोंसे स्पर्श आदिवी श्रृंखलावस्थाएँ समझनी चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि कावेरका
नारणमें लय ध्रुवियों विवक्षित है। अग प्रपञ्चरूप कार्यका ब्रह्ममें लय प्रतिपादन करनेके लिए ‘एवं
सर्वेषामास्त्रैकायनम्’ इस वाक्यका अव्याहार करना चाहिए। इस प्रकार एकायन प्रक्रियासे प्रपञ्चका
अधिकरण ब्रह्म सिद्ध होता है।

प्रतिज्ञासिद्धेर्लिङ्गमाश्मरथ्यः ॥ २० ॥

पदच्छेद—प्रतिज्ञासिद्धेः, लिङ्गम्, आश्मरथ्यः ।

पदार्थोक्ति—प्रतिज्ञासिद्धेः—एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं भवतीति प्रतिज्ञायाः सिद्धेः [अभेदांशमादाय जीवोपक्रमणम्, लिङ्गम्, आश्मरथ्यः [आचार्यः मनुते] ।

भाषार्थ—एकके ज्ञानसे सब पदार्थोंका ज्ञान होता है, ऐसी जो प्रतिज्ञा की गई है उसकी सिद्धिमें जीव और ब्रह्मके अभेदांशको लेकर जीवका उपक्रम करना हेतु है, ऐसा आश्मरथ्य आचार्यका मत है ।

भाष्य

अस्त्यत्र प्रतिज्ञा 'आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति' 'इदं सर्वं यदयमात्मा' इति च, तस्याः प्रतिज्ञायाः सिद्धिं सूचयत्येतल्लिङ्गं यत् प्रियमसूचितस्याऽऽत्मनो द्रष्टव्यत्वादिस्ङ्कीर्तनम् । यदि हि विज्ञानात्मा परमात्मनोऽन्यः स्यात्, ततः परमात्मविज्ञानेऽपि विज्ञानात्मा न विज्ञात इत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं यत् प्रतिज्ञातं तद्धीयेत । तस्मात् प्रतिज्ञासिद्धयर्थं विज्ञानात्मात्मपरमात्मनोरभेदांशेनोपक्रमणमित्याश्मरथ्य आचार्यो मन्यते ॥ २० ॥

भाष्यका अनुवाद

'आत्मनि विज्ञाते०' (आत्माका विज्ञान होनेपर इस सम्पूर्ण प्रपञ्चका विज्ञान हो जाता है) और 'इदं सर्वं०' (यह आत्मा ही सर्वस्वरूप है) ऐसी यहां प्रतिज्ञा है । प्रियशब्दसे सम्यक् सूचित आत्माका दर्शन आदि करना योग्य है, ऐसा जो कहा गया है, वह इस प्रतिज्ञाकी सिद्धिका सूचक लिंग है, क्योंकि यदि विज्ञानात्मा परमात्मासे अन्य होता, तो परमात्माका विज्ञान होनेपर भी विज्ञानात्माका विज्ञान न होता, इस प्रकार एकका विज्ञान होनेसे सबका विज्ञान होता है, ऐसी जो प्रतिज्ञा की गई है, उसकी हानि होती, इसलिए प्रतिज्ञाकी सिद्धिके लिए विज्ञानात्मा और परमात्माका अभेदरूपसे उपक्रम है, यह आश्मरथ्य आचार्यका मत है ॥ २० ॥

रत्नप्रभा

जीवब्रह्मणोः भेदाभेदसत्त्वाद् अभेदांशेन इदं जीवोपक्रमणं प्रतिज्ञासाधकम् इति आश्मरथ्यमतम् ॥ २० ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

जीव और ब्रह्मका भेद तथा अभेद होनेसे अभेदांशको लेकर जीवका उपक्रम करना प्रतिज्ञाका साधक है, ऐसा आश्मरथ्य आचार्य मानते हैं ॥२०॥

उत्क्रमिष्यत एवंभावादित्यौडुलोमिः ॥ २१ ॥

पदच्छेद—उत्क्रमिष्यतः, एवंभावात्, इति, औडुलोमिः ।

पदार्थोक्ति—उत्क्रमिष्यतः—ब्रह्मात्मत्वसाक्षात्कारेण कार्यकरणसङ्घातादुत्क्रमिष्यतः, एवंभावात्—परमात्मना एकीभावात् [भविष्यदभेदमादाय जीवोपक्रमः] इति, औडुलोमिः [आचार्यः मन्यते] ।

भाष्यार्थ—‘मैं ब्रह्म हूँ’ ऐसा साक्षात्कार होनेके बाद देह और इन्द्रियसमूहमें अभिमानका त्याग करते हुए जीवका परमात्माके साथ ऐक्य होता है, इस भविष्यत् अभेदको लेकर जीवका उपक्रम है, ऐसा औडुलोमि आचार्य मानते हैं ।

भाष्य

विज्ञानात्मन एव देहेन्द्रियमनोबुद्धिसङ्घातोपाधिसम्पर्कात् कलुपीभूतस्य ज्ञानध्यानादिसाधनानुष्ठानात् सम्प्रसन्नस्य देहादिसङ्घातादुत्क्रमिष्यतः परमात्मैक्योपपत्तेरिदमभेदेनोपक्रमणमित्यौडुलोमिराचार्यो मन्यते । श्रुतिश्चैवं भवति—‘एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणामिनिष्यद्यते’ (छा० ८।१२।३) इति । क्वचिच्च जीवाश्रयमपि नामरूपं

भाष्यका अनुवाद

देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धिके संघातरूप उपाधिके संबन्धसे कलुषित ज्ञान, ध्यान आदि साधनोंके अनुष्ठानसे दृष्ट देह आदि संघातमेंसे उत्क्रमण करनेवाले विज्ञानात्माका ही परमात्माके साथ ऐक्य हो जाता है, यह उपक्रम उक्त अभेदसे है, ऐसा औडुलोमि आचार्यका मत है । श्रुति भी ऐसी ही है—‘एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्’ (यह जीव इस शरीरसे निकलकर अपने रूपका साक्षात्कार करके पर ज्योतिको प्राप्त करता है) । कितने ही स्थलोंपर नाम और

रत्नप्रभा

उत्क्रमिष्यत० । सत्यसंसारदशायां भेद एव, मुक्तावेव अभेद इति औडुलोमिमतम् । तत्र मानमाह—श्रुतिश्चेति । समुत्थानम्—उत्क्रान्तिः । ननु संसारस्य औपाधिकत्वात् सर्वदैव अभेद इत्याशङ्क्य दृष्टान्तबलेन संसारस्य स्वाभाविकरम इत्याह—

रत्नप्रभाका अनुवाद

सत्यसंसार दशामें भेद ही है, मुक्तिमें ही अभेद है, ऐसा औडुलोमि आचार्यका मत है । उसमें प्रमाण कहते हैं—“श्रुतिश्चेति” इत्यादिते । समुत्थान—उत्क्रान्ति । परन्तु संसारके ही औपाधिक होनेसे सर्वदा ही अभेद है, ऐसी आशंका करके दृष्टान्तबले संसारको

भाष्य

नदीनिदर्शनेन ज्ञापयति—

“यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय ।

तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥”

(मु० ३।२।८) इति । यथा लोके नद्यः स्वाश्रयमेव नामरूपं विहाय समुद्रमुपयन्त्येवं जीवोऽपि स्वाश्रयमेव नामरूपं विहाय परं पुरुषमुपैतीति हि तत्राऽर्थः प्रतीयते दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोस्तुल्यतायै ॥ २१ ॥

भाष्यका अनुवाद

रूप जीवके आश्रय हैं, ऐसा भी नदीके दृष्टान्तसे श्रुति जताती है—‘यथा नद्यः स्यन्दमानाः०’—जैसे लोकमें नदियां अपने नाम और रूपका त्याग करके समुद्रमें जाती हैं, वैसे जीव भी अपने नाम और रूपका त्याग करके परम पुरुषको प्राप्त होता है, यहाँ दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिककी तुल्यताके लिए ऐसा अर्थ प्रतीय होता है’ ॥ २१ ॥

रत्नप्रभा

क्वचिच्चेति । “यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय”

(मु० ३।२।८) इति नदीनिदर्शनं व्याचष्टे—यथा लोक इति ॥२१॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

स्वभाविक कहते हैं—“क्वचिच्च” इत्यादिसे । ‘यथा नद्यः०’ इस नदीके दृष्टान्तका व्याख्यान करते हैं—“यथा लोके” इत्यादिसे ॥ २१ ॥

अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः ॥ २२ ॥

पदच्छेद—अवस्थितेः, इति, काशकृत्स्नः ।

पदार्योक्ति—अवस्थितेः—ब्रह्मण एवाऽविद्याकल्पितभेदेन जीवरूपेणाऽवस्थानात् [जीवोपक्रमः] इति, काशकृत्स्नः [आचार्यो मन्यते] ।

भाषार्थ—काशकृत्स्न आचार्य मानते हैं कि अविद्याकल्पित भेदसे ब्रह्म ही जीवरूपसे स्थित है इसलिए जीवसे उपक्रम है ।

(१) इस मतमें भविष्यद् शक्तिसे ‘तस्मिन्मति’ इत्यादि वाक्योंको अभेदपरक समझना चाहिए । मुक्तिकालमें अभेद है इसलिए जीवसे परमात्माकी ही पूर्वावस्था है, भूतपूर्व गतिसे परमात्मामें ही भोक्तव्य संभव है, इसलिए उपक्रमविरोध नहीं है ।

भाष्य

अस्यैव परमात्मनोऽनेनापि विज्ञानात्मभावेनाऽवस्थानादुपपन्नमिदम-
भेदेनोपक्रमणमिति काशकृत्स्न आचार्यो मन्यते । तथा च ब्राह्मणम्—‘अनेन
जीवेनाऽऽत्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि’ (छा० ६।३।२) इत्येवं-
जातीयकं परस्यैवात्मनो जीवभावेनावस्थानं दर्शयति । मन्त्रवर्णश्च—‘सर्वाणि

भाष्यका अनुवाद

यही परमात्मा इस विज्ञानात्मरूपसे रहता है, इसलिए अभेदसे यह उपक्रम
युक्त है, ऐसा काशकृत्स्न आचार्यका मत है । उसी प्रकार ‘अनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽ-
नुप्रविश्य०’ (इस जीव द्वारा अनुप्रवेश करके नाम और रूपको व्यक्त करूँगा)
इत्यादि ब्राह्मण परमात्माका ही जीवात्मरूपसे अवस्थान दिखलाता है । उसी

रत्नप्रभा

सिद्धान्तमाह—अवस्थितेरिति । अत्यन्ताभेदज्ञापनार्थं जीवम् उपक्रम्य
द्रष्टव्यत्वादयो ब्रह्मधर्मा उक्ता इत्यर्थः । एतेन—जीवलिङ्गानां ब्रह्मपरत्वकथनार्थम्
इदमधिकरणं न भवति, प्रतर्दनाधिकरणे कथितत्वात्, नापि जीवानुवादेन
ब्रह्मप्रतिपादनार्थम् “सुषुप्त्युत्क्रान्त्योर्भेदेन” (ब्र० सू० १।३।४२) इत्यत्र
गतत्वात्, अतो व्यर्थम् इदमधिकरणम् इति निरस्तम्, जीवोद्देशेन ब्रह्मत्व-
प्रतिपादने भेदोऽपि आवश्यक इति भेदाभेदशङ्काप्राप्तौ कल्पितभेदेन उद्देश्य-
त्वादिकम्, स्वतः अत्यन्ताभेद इति ज्ञापनार्थम् अस्य आरम्भात् । ज्ञायते च अत्र
लिङ्गम् आत्मशब्देन उपक्रान्तस्य जीवस्य धर्मिणो ब्रह्मणो धर्म्यन्तरस्य ग्रहणं
विनैव ब्रह्मधर्मकथनम् भेदाभेदयोः तु धर्मिद्वयग्रहः स्यात् इति मन्तव्यम् ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

सिद्धान्त कहते हैं—“अवस्थिते” इत्यादिसे । जीव और ब्रह्ममें अत्यन्त अभेद है,
यह ज्ञान करनेके लिए जीवका उपक्रम कर द्रष्टव्यत्व आदि ब्रह्मके धर्म कहे गये हैं, ऐसा
अर्थ है । इससे यह शंका भी निवृत्त हो गई कि जीवलिङ्गोंको ब्रह्मपरक कहनेके लिए यह
अधिकरण नहीं है, क्योंकि वह विषय प्रतर्दनाधिकरणमें कहा गया है, जीवके अनुवादेसे
ब्रह्मका प्रतिपादन करनेके लिए भी यह अधिकरण नहीं है, क्योंकि सुषुप्त्युत्क्रान्त्यधिकरणमें
वह विषय कहा गया है, इसलिए यह अधिकरण निरर्थक है । कारण कि जीवको उद्देश्य
कर उसमें ब्रह्मत्वका प्रतिपादन करनेके लिए भेदकी भी आवश्यकता है, इसलिए भेद है
या अभेद है, ऐसी शंका होनेपर कल्पित भेदसे जीवको उद्देश्य आदि कहा है, वस्तुतः तो
दोनोंका अभेद है, ऐसा ज्ञान करनेके लिए इस अधिकरणका आरम्भ है । यहां इस विषयमें
यह लिए भी प्रतीत होता है कि आत्मशब्दसे उपक्रान्त जीवरूप धर्ममें ब्रह्मरूप अन्य धर्मोंके
कथनके बिना ही ब्रह्मधर्म कहा गया है, भेद और अभेद दोनों वास्तविक होते, तो दो

भाष्य

रूपाणि विचित्य घीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्यदास्ते' (तै० आ० ३।१२।७) इत्येवंजातीयकः । न च तेजःप्रभृतीनां सृष्टौ जीवस्य पृथक्सृष्टिः श्रुता येन परस्मादात्मनोऽन्यस्तद्विकारो जीवः स्यात् । काशकृत्स्नस्याऽऽचार्यस्याऽविकृतः परमेश्वरो जीवो नाऽन्य इति मतम् । आश्मर-ध्यस्य तु यद्यपि जीवस्य परस्मादनन्यत्वमभिप्रेतं तथापि प्रतिज्ञासिद्धेरिति सापेक्षात्वाभिधानात् कार्यकारणभावः कियानप्यभिप्रेत इति गम्यते । औडुलोमिपक्षे पुनः स्पष्टमेवाऽवस्थान्तरापेक्षौ भेदाभेदौ गम्येते । तत्र

भाष्यका अनुवाद

प्रकार 'सर्वाणि रूपाणि विचित्य०' (जो सर्वज्ञ सय चराचरको उत्पन्न कर उनका नाम रख और उनमें प्रवेश करके भाषण आदि व्यवहार करता हुआ रहता है) इत्यादि मंत्रवर्ण मी है । तेज आदिकी सृष्टिमें जीवकी पृथक् सृष्टि श्रुतिमें नहीं है, जिससे कि जीव परमात्मासे अन्य एवं उसका विकार हो । जीव अविकृत परमेश्वर ही है, उससे पृथक् नहीं है, ऐसा काशकृत्स्न आचार्यका मत है । आश्मरध्यके मतमें यद्यपि जीव परमात्मासे अभिन्न है, तो भी 'प्रतिज्ञासिद्धिसे' इस प्रकार सापेक्षत्वका अभिधान है, इससे यत्किञ्चित् कार्यकारणभाव इष्ट है, ऐसा प्रतीत होता है । औडुलोमिके पक्षमें तो अवस्थाभेदसे भेद और अभेद

रत्नप्रभा

धीरः—सर्वज्ञः, सर्वाणि रूपाणि—कार्याणि, विचित्य—सृष्ट्वा, तेषां नामानि च कृत्वा तेषु बुद्ध्यादिषु प्रविश्य अभिवदनादिकं कुर्वन् यो वर्तते, तं विद्वान् इहैव अमृतो भवतीति मन्त्रोऽपि जीवपरयोः ऐक्यं दर्शयति इत्याह—मन्त्रेति । जीवस्य ब्रह्मविकारत्वात् न ऐक्यम् इत्यत आह—न च तेज इति । मतत्रयं विभज्य दर्शयति—काशकृत्स्नस्येत्यादिना । कियानपीति । अभेदवद्

रत्नप्रभाका अनुवाद

धर्मियोंका प्रहण होता, ऐसा समझना चाहिए । धीर—सर्वज्ञ सय रूप—कार्योंको उत्पन्न करके, उनका नाम रखकर उनमें—शुद्धि आदिमें प्रवेश करके भाषण आदि करता हुआ जो रहता है, उसको जाननेवाला यही अमृत होता है, ऐसा कहनेवाला मंत्र भी जीव और परमात्माका ऐक्य दिखलाता है, ऐसा कहते हैं—“मन्त्र” इत्यादिसे । जीव ब्रह्मका विकार है, अतः दोनोंमें अभेद नहीं है, इसपर कहते हैं—“न च तेजः” इत्यादि । तीनों भाव्योंके मतोंका विभाग करके दिखलाते हैं—“काशकृत्स्नस्य” इत्यादिसे । “कियानपि”—

भाष्य

काशकृत्स्नीयं मतं श्रुत्यनुसारीति गम्यते, प्रतिपादयिषितार्थानुसारात् 'तत्त्वमसि' इत्यादिश्रुतिभ्यः । एवं च सति तज्ज्ञानादमृतत्वमवकल्पते, विकारात्मकत्वे हि जीवस्याऽभ्युपगम्यमाने विकारस्य प्रकृतिसम्बन्धे प्रलयप्रसङ्गात् तज्ज्ञानादमृतत्वमवकल्पेत, अतश्च स्वाश्रयस्य नामरूपस्याऽसम्भवाद्दुपाध्याश्रयं नामरूपं जीव उपचर्यते । अत एवोत्पत्तिरपि जीवस्य

भाष्यका अनुवाद

दोनों स्पष्टतया प्रतीत होते हैं । इन सब मतोंमें आचार्य काशकृत्स्नका मत श्रुत्यनुसारी मालूम पड़ता है, क्योंकि 'तत्त्वमसि' (वह तू है) इत्यादि श्रुतियों द्वारा प्रतिपादन करनेके लिए अभीष्ट जो अर्थ है, उसके अनुसार है । श्रुत्यनुसारी होनेसे उसके ज्ञानसे अमृतत्व संभव है । यदि जीव विकारात्मक माना जाय तो प्रकृतिसे संबन्ध होनेपर विकारका लय हो जानेसे उसके ज्ञानसे अमृतत्व संभव नहीं है । इससे स्वाश्रित नाम और रूपका जीवमें अभाव होनेसे उपाधिके आश्रित नाम, रूपका उसमें उपधार होता है । इसी कारण कहींपर अग्नि और चिनगारियोंके उदाहरणसे श्रुतिद्वारा प्रतिपादित

रत्नप्रभा

भेदोऽपि इत्यर्थः । तत्र अन्त्यस्य मतस्य उपादेयत्वमाह—तत्र काशकृत्स्नीयमिति । सोऽय देवदत्त इतिवत् 'तत्त्वमसि' आदिवाक्येभ्य परापरयो अत्यन्ता भेदः प्रतिपादयितुम् इष्टोऽर्थः, तदनुसारित्वाद् इत्यर्थः । ज्ञानात् मुक्तिश्रुत्यन्यथानुपपत्त्याऽपि अयमेव पक्ष आदेय इत्याह—एवञ्चेति । अत्यन्ताभेदे सति इत्यर्थः । कल्पितस्य भेदस्य ज्ञानात् निवृत्ति संभवति न सत्यस्य इत्यपि द्रष्टव्यम् । यदुक्तम्—नदीदृष्टान्तात् ससार स्वाभाविक इति, तत् न इत्याह—अतश्चेति । अनामरूपब्रह्मत्वात् जीवस्य इत्यर्थः । उत्पत्तिश्रुत्या जीवस्य ब्रह्मणा

रत्नप्रभाका अनुवाद

अभेदके समान भेद भी । तानों मतोंमें आचार्य काशकृत्स्नका मत स्वीकारयोग्य है, ऐसा कहते हैं—“तत्र काशकृत्स्नीयम्” इत्यादिस । ‘सोऽय देवदत्त’ (वह यह देवदत्त है) इसके समान 'तत्त्वमसि' (वह तू है) इत्यादि वाक्योंसे पर और अपर—जीवात्मा और परमात्माके अत्यन्त अभेदका प्रतिपादन करना इष्ट अर्थ है, उसके अनुसारी होनेसे, ऐसा अर्थ है । ज्ञानसे मुक्ति होती है, ऐसा प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियों अन्यथा उपपन्न नहीं होतीं, इसलिए भी यही पक्ष उपादेय है, ऐसा कहते हैं—“एव च” इत्यादिस । ‘एव च—अत्यन्त अभेद होनेपर । ज्ञानसे कल्पित भेदकी निवृत्ति हो सकती है, सत्यकी नहीं हो सकता, ऐसा भी समझना चाहिए । नदीके दृष्टान्तसे ससार स्वाभाविक है, ऐसा जो कहा है, वह युक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं—“अतश्च” इत्यादिस । ‘अतश्च’—जाँके नामरूपरहित ब्रह्म होनेके

भाष्य

क्वचिदग्निविस्फुल्लिङ्गोदाहरणेन श्राव्यमाणोपाध्याश्रयैव वेदितव्या ।

यदप्युक्तम्—प्रकृतस्यैव महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः समुत्थानं विज्ञानात्मभावेन दर्शयन् विज्ञानात्मन एवेदं द्रष्टव्यत्वं दर्शयति इति, तत्राऽपीयमेव त्रिसूत्री योजयितव्या । 'प्रतिज्ञासिद्धेलिङ्गमाश्रयः' । इदमत्र प्रतिज्ञातम्—'आत्मनि विदिते सर्वं विदितं भवति' 'इदं सर्वं यदयमात्मा' (वृ० २।४।६) इति च, उपपादितं च सर्वस्य नामरूपकर्मप्रपञ्चस्यैकमसवत्वादेकप्रलयत्वाच्च दुन्दुभ्यादिदृष्टान्तैश्च कार्यकारणयोरव्यतिरेकप्रतिपादनात् तस्या एव प्रतिज्ञायाः सिद्धिं सूचयत्येतल्लिङ्गं यन्महतो

भाष्यका अनुवाद

जीवकी उत्पत्ति भी उपाधिके आश्रित ही समझनी चाहिए ।

प्रकृतसत्य ब्रह्म ही जो द्रष्टव्य है, उसका भूतोंसे समुत्थान विज्ञानात्मभावसे दिखलाते हुए मुनि विज्ञानात्मा ही द्रष्टव्य है, ऐसा दर्शाते हैं, यह जो कहा है, उसमें भी इसी त्रिसूत्रीकी योजना करनी चाहिए । 'प्रतिज्ञासिद्धे०' यहाँपर 'आत्मनि विदिते सर्वं' (आत्माका ज्ञान होनेपर सबका ज्ञान हो जाता है) और 'इदं सर्वं यद०' (यह सब दृश्य प्रपञ्च आत्मा ही है) ऐसी प्रतिज्ञा है । नाम, रूप और कर्म प्रपञ्चका आत्मरूपत्व उपपादित भी है, क्योंकि एक उत्पत्तिस्थान और एक प्रलयस्थान होने और दुन्दुभि आदिके दृष्टान्तोंसे कार्य और कारण अभिन्न हैं, ऐसा प्रतिपादन है । जो सत्य द्रष्टव्य ब्रह्मका भूतोंसे

रत्नप्रभा

भेदाभेदौ इत्यत आह—अत एवेति । उत्पत्तेः स्वाभाविकत्वे मुक्तचयोगाद् एव इत्यर्थः ।

अत्र पूर्वपक्षे बीजत्रयमुक्तम्—जीवेन उपक्रमः, परस्यैव समुत्थानश्रुत्या जीवाभेदाभिधानम्, विज्ञातृशब्दश्चेति । तत्र आद्यं बीजं त्रिसूत्र्या निरस्तम्, सम्प्रति द्वितीयम् अनूद्य तयैव निराचष्टे—यदप्युक्तमित्यादिना । आत्मज्ञानात् सर्वज्ञानं

रत्नप्रभाका अनुवाद

कारण । उत्पत्ति श्रुतिसे जीवका ब्रह्मसे भेद और अभेद दोनों हैं, इसपर कहते हैं—“अत एव” इत्यादि । अर्थात् यदि उत्पत्ति स्वाभाविक हो, तो मुक्ति ही नहीं हो सकती इसलिए ।

यहाँ पूर्वपक्षमें तीन बीज कहे हैं—जीवसे उपक्रम, समुत्थान श्रुतिसे परमात्माका ही जीवके अभेदसे अभिधान और विज्ञातृशब्द । उनमें आद्य बीजका त्रिसूत्रसे निराकरण किया गया । अब दूसरे बीजका अनुवाद करके उसी त्रिसूत्रसे उसका निराकरण

भाष्य

भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः समुत्थानं विज्ञानात्मभावेन कथितमित्याश्रय्य आचार्यो मन्यते । अभेदे हि सत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञातमवकल्पत इति । 'उत्क्रमिष्यत एवंभावादित्यौडुलोमिः' । उत्क्रमिष्यतो विज्ञानात्मनो ज्ञानध्यानादिसामर्थ्यात् संप्रसन्नस्य परेणाऽऽत्मनैक्यसम्भवादिदमभेदाभिधानमित्यौडुलोमिराचार्यो मन्यते । 'अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः' । अस्यैव परमात्मनोऽनेनाऽपि विज्ञानात्मभावेनाऽवस्थानादुपपन्नमिदमभेदाभिधानमिति काशकृत्स्न आचार्यो मन्यते ।

ननुच्छेदाभिधानमेतत्—'एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञाऽस्ति' (बृ० २।४।१२) इति कथमेतदभेदाभिभाष्यका अनुवाद

विज्ञानात्मरूपसे समुत्थान कहा गया है, यह लिङ्ग इसी प्रतिज्ञाकी सिद्धिका सूचक है, ऐसा आश्रय्य आचार्यका मत है, क्योंकि अभेद होनेपर एक विज्ञानसे सर्वविज्ञान, जिसकी प्रतिज्ञा की है, उपपन्न होता है । 'उत्क्रमिष्यतः' उत्क्रमण करनेवाले, ज्ञान, ध्यान आदि सामर्थ्यसे संप्रसन्न हुए विज्ञानात्माका परमात्माके साथ ऐक्यका संभव होनेसे यह अभेदका अभिधान युक्त है, ऐसा काशकृत्स्न आचार्यका मत है ।

परन्तु 'एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थायः' (इन भूतोंसे समुत्थान करके इनके अनन्तर ही नष्ट हो जाता है, मरणानन्तर ज्ञान नहीं रहता) इस प्रकार उच्छेदका अभिधान है, यह अभेदका अभिधान

रत्नप्रभा

यत् प्रतिज्ञातं, तत्र हेतुः "इदं सर्वं यदयमात्मा" (बृ० २।४।६) इत्यव्यतिरेक उक्तः; तस्य प्रतिपादनात् तदेव प्रतिज्ञातम् उपपादितम् इति योजना । एकस्मात् प्रसवो यस्य, एकस्मिन् प्रलयो यस्य, तद्भावादित्यर्थः । समुत्थानम्—अभेदाभिधानमिति यावद् ।

जन्मनाशौ उक्तौ नाभेद इत्याक्षिप्य परिहरति—नन्वित्यादिना । मृतस्य सज्ञा रत्नप्रभाका अनुवाद

करते हैं—"यदप्युक्तम्" इत्यादिसे । आत्मज्ञानसे जिस सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा की गई है, उसका हेतु 'इदं सर्वं' (जो यह प्रपंच है, वह आत्मा है) इस धृतिस उक्त अभेद कहा गया है, उसका प्रतिपादन करनेसे जिसकी प्रतिज्ञा की उसीका प्रतिपादन हुआ है, ऐसी योजना करना चाहिए । एकसे उत्पत्ति है जिसकी वह एक प्रसव, एकमें प्रलय है जिसका वह एकप्रलय, तद्भावसे । समुत्थानम्—अभेदाभिधान ।

परन्तु इससे जीवात्माका जन्म और नाश कहे गये हैं, अभेद नहा

भाष्य

धानम् । नैप दोषः । विशेषविज्ञानविनाशाभिप्रायमेतद्विनाशाभिधानं नाऽऽ-
त्मोच्छेदाभिप्रायम् । 'अत्रैव मा भगवानमूमुहन्न प्रेत्य संज्ञाऽस्ति' इति पर्य-
नुयुज्य स्वयमेव श्रुत्याऽर्थान्तरस्य दर्शितत्वात्—'न वा अरेऽहं मोहं ब्रवी-
म्यविनाशी वा अरेऽयमात्माऽनुच्छित्तिधर्मा मात्रासंसर्गस्त्वस्य भवति'
इति । एतदुक्तं भवति—कूटस्थनित्य एवास्यं विज्ञानघन आत्मा नाऽस्यो-
च्छेदप्रसङ्गोऽस्ति, मात्राभिस्त्वस्य भूतेन्द्रियलक्षणाभिरविद्याकृताभिरसंसर्गो
विद्यया भवति, संसर्गाभावे च तत्कृतस्य विशेषविज्ञानस्याऽभावात् प्रेत्य
संज्ञाऽस्तीत्युक्तमिति । यदप्युक्तम्—'विज्ञातारमरे केन विजानीयात्' इति

भाष्यका अनुवाद

कैसे है ? यह दोष नहीं है । यह जो विनाशका अभिधान है, उसका
तात्पर्य विशेष विज्ञानके विनाशमें है, आत्माके उच्छेदमें नहीं है,
क्योंकि 'अत्रैव मा भगवान०' (मरणके अनन्तर ज्ञान नहीं रहता,
यह कह कर आपने मुझे मोहमें डाल दिया है) ऐसा पर्यनुयोग (आक्षेप)
करके श्रुति द्वारा स्वयं ही अन्य अर्थ दिखलाया है—'न वा अरेऽहं मोहं
ब्रवीम्यविनाशी०' (हे मैत्रेयि ! मैं ऐसा कुछ नहीं कहता जिससे मोह हो, अरे !
आत्मा नाशहेतुरहित है, अतः अविनाशी है, देह, इन्द्रिय आदिके साथ इसका
संसर्ग नहीं होता है) । तात्पर्य यह है कि यह आत्मा कूटस्थ, नित्य और विज्ञा-
नैकरस है, उसका उच्छेद नहीं हो सकता । अविद्यासे जनित भूतेन्द्रियलक्षण
मात्राओंके साथ इसके संसर्गका अभाव विद्यासे होता है । संसर्गके अभावसे

रत्नप्रभा

नास्तीति वाक्ये अत्रैव मां मोहितवानसि ज्ञानरूपस्य आत्मनो ज्ञानाभावे नाशप्रसङ्गादिति
मैत्रेय्या उक्तो मुनिराह—न वा अरे इति । मोहं मोहंकरवाक्यम्, अविनाशी नाशहेतु-
शून्यः, अत उच्छित्तिधर्मा नाशवान् न भवतीति अनुच्छित्तिधर्मा इत्यर्थः । तृतीयं
वीजं तृतीयेन मतेन एव निरसनीयम् इत्याह—पदपीत्यादिना । आद्यमतद्वये सत्यभेदा-

रत्नप्रभाका अनुवाद

कहा गया है, ऐसा आक्षेप करके उसका परिहार करते हैं—“ननु” इत्यादिसे ।
'न प्रेत्य संज्ञास्ति'—मरे हुए को ज्ञान नहीं होता, यह कह कर हे भगवन् !
आपने मुझे मोहमें डाल दिया है, क्योंकि ज्ञानरूप आत्माका, ज्ञानके अभावमें नाश हो
जायगा, ऐसा मैत्रेयीके कहनेपर मुनिने कहा—“न वा अरे” इत्यादि । 'मोहम्'—मोहकर
वाक्यको, अविनाशी-नाशहेतुशून्य, विनाशके अयोग्य, इसीलिए अनुच्छित्तिधर्मा—नाशवान्

भाष्य

कर्तृवचनेन शब्देनोपसंहाराद्विज्ञानात्मन एवेदं द्रष्टव्यत्वम् इति, तदपि का-
शकृत्स्नीयेन दर्शनेन परिहरणीयम् । अपि च 'यत्र हि द्वैतमिव भवति त-
दितर इतरं पश्यति' (बृ० २।४।१३) इत्यारभ्याविद्याविषये तस्यैव दर्श-
नादिलक्षणं विशेषविज्ञानं प्रपञ्च्य 'यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं
पश्येत्' इत्यादिना विद्याविषये तस्यैव दर्शनादिलक्षणस्य विशेषविज्ञान-
स्याभावमभिदधाति । पुनश्च विषयाभावेऽपि आत्मानं विजानीयात् इत्या-

भाष्यका अनुवाद

उससे किये गये विशेषविज्ञानके अभावसे 'न प्रेत्य संज्ञाऽस्ति' (मरणके
अनन्तर ज्ञान नहीं रहता) ऐसा कहा है । 'विज्ञातात्पर्ये' (अरे,
विज्ञाताको किससे जाने) ऐसा कर्तृवाचक शब्दसे उपसंहार है, उससे
विज्ञानात्मा ज्ञेय है, ऐसा जो कहा है, उसका भी काशकृत्स्नके मतसे ही परि-
हार करना युक्त है । उसी प्रकार 'यत्र हि द्वैतमिव' (परन्तु जहा द्वैत-सा होता
है, वहां दूसरा दूसरेको देखता है) ऐसा आरम्भ करके अविद्याविषयमें उसके
ही दर्शन आदि रूप विशेषविज्ञानका प्रपञ्च करके 'यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवा-
भूत्' (परन्तु जहा इसका सब आत्मा ही हो गया वहा किससे किसको
देखे) इत्यादिसे विद्याविषयमें उसके ही दर्शन आदि लक्षण विशेष विज्ञानका
अभाव कहते हैं । और विषयके अभावमें भी आत्माका विज्ञान प्राप्त हो,

रत्नप्रभा

ङ्गीकारात् केनेति आक्षेपो न युक्तः काशकृत्स्नस्य मते तु अत्यन्ताभेदाद् विज्ञानस्य
कारकाभावात् स युक्त इति । श्रुत्यनुसारित्वात् तन्मते मन कल्पित विज्ञातृत्व मुक्त
ब्रह्मात्मनि भूतपूर्वगत्या उक्तमिति परिहरणीयम् इत्यर्थः । किञ्च, पूर्वापरपर्यालोचनया
वाक्यस्य मुक्तात्मपरत्वावगमाद् विज्ञातृत्वं कल्पितमेव अनूद्यते इति न तल्लिङ्गेन जीवपर-

रत्नप्रभाका अनुवाद

नहीं है । पूर्वपक्षके तीसरे बीजका तृतीय मत-काशकृत्स्नके मतसे ही निरसन करना चाहिए,
ऐसा कहते हैं-“यदपि” इत्यादिस । आश्चर्य और औदलोमि इन दोनोंके मतमें सत्य भेदका
अगीकार होनेसे 'केन' (किससे) ऐसा आक्षेप युक्त नहीं है । काशकृत्स्नके मतमें तो अत्यन्ताभेद स्वीकार
है, इसलिए विज्ञानके कारकका अभाव होनेसे आक्षेप युक्त है, इस प्रकार काशकृत्स्नके मतके
श्रुत्यनुसारी होनेसे उस मतमें मन कल्पित विज्ञातृत्व मुक्त ब्रह्मात्मामें भूतपूर्वगतिसे कहा गया
है, इस प्रकार परिहार करना चाहिए ऐसा अर्थ है । और वाक्यके पूर्वापर सन्धिका पर्या-
लोचन करनेसे प्रतीत होता है कि वह वाक्य मुक्त आत्माका ही प्रतिपादन करता है, इससे

भाष्य

शङ्क्य 'विज्ञातारमरे केन विजानीयात्' इत्याह । ततश्च विशेषविज्ञानाभावोपपादनपरत्वाद् वाक्यस्य विज्ञानधातुरेव केवलः सन् भूतपूर्वगत्या कर्तृवाचनेन तृचा निर्दिष्ट इति गम्यते । दर्शितं तु पुरस्तात् काशकृत्स्नीयस्य पक्षस्य श्रुतिमत्त्वम्, अतश्च विज्ञानात्मपरमात्मनोरविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपरचितदेहाद्युपाधिनिमित्तो भेदो न पारमार्थिक इत्येपोऽर्थः सर्ववेदान्तवादिभिरभ्युपगन्तव्यः । 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्' (छा० ६।२।१) 'आत्मैवेदं सर्वम्' (छा० ७।२।५।२), 'ब्रह्मैवेदं सर्वम्' (मु० २।२।११), 'इदं सर्वं यदयमात्मा' (वृ० २।४।६) 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा'

भाष्यका अनुवाद

ऐसी आशंका करके 'विज्ञातारमरे केन०' (अरे विज्ञाताको किससे जाने) ऐसा कहते हैं । वाक्य विशेष विज्ञानके अभावका प्रतिपादन करता है, इसलिए विज्ञानैकरस ही केवल है, तो भी पूर्वकी जो स्थिति थी, उस स्थितिसे कर्तृवाचक 'तृच्' प्रत्ययसे निर्दिष्ट है, ऐसा समझा जाता है । काशकृत्स्नका मत श्रुतिप्रतिपादित है, ऐसा तो पूर्वमें दर्शाया गया है, इसलिए विज्ञानात्मा और परमात्माका भेद अविद्यासे उपस्थापित नाम और रूपसे कल्पित देह आदि उपाधियों द्वारा किया गया है, पारमार्थिक नहीं है, ऐसा सब वेदान्तवादियोंको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि 'सदेव सोम्येदमग्र०' (हे प्रिय ! पूर्वमें यह सत्स्वरूप एक और अद्वितीय ही था) 'आत्मैवेदं०' (यह सब आत्मा ही है) 'ब्रह्मैवेदं०' (यह सब ब्रह्म ही है) 'इदं सर्वं यद०' (जो यह सब है, वह आत्मा ही है) 'नान्योऽतोऽस्ति०' (इससे दूसरा द्रष्टा नहीं है) 'नान्य-

रत्नप्रभा

त्वम् इत्याह—अपि चेति । आर्षेषु पक्षेषु काशकृत्स्नपक्षस्यैव आदेयत्वे किं बीजं तदाह—दर्शितमिति । अतश्च—श्रुतिमत्त्वाच्च । पुनरपि श्रुतिस्मृतिमत्त्वम् आह—सदेवेत्यादिना । हेतुनां 'भेदो न पारमार्थिकः' इति प्रतिज्ञया संबन्धः । भेदाभेद-

रत्नप्रभाका अनुवाद

कल्पित विज्ञातृत्वका ही अनुवाद होता है, इसलिए विज्ञातृत्वलिङ्गसे वाक्यको जीवपरक मानना युक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं—“अपि च” इत्यादिसे । तीनों ऋषियोंके पक्षोंमेंसे काशकृत्स्नका पक्ष ही ग्रहण करने योग्य है, इसका बीज कहते हैं—“दर्शितम्” इत्यादिसे । 'अतश्च'—श्रुतिप्रतिपादित होनेसे । फिर भी श्रुति और स्मृतिप्रमाण कहते हैं—“सदेव” इत्यादिसे । भाष्योक्त हेतुओंका 'भेदो न पारमार्थिकः' इस प्रतिज्ञासे संबन्ध है । भेदाभेदपक्षमें

भाष्य

(वृ० ३।७।२३), 'नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ' (वृ० ३।८।११) इत्येवंरूपाभ्यः श्रुतिभ्यः, स्मृतिभ्यश्च 'वासुदेवः सर्वमिति' (गी० ७।१९), 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत' (गी० १३।२), 'समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्' (गी० १३।२७) इत्येवंरूपाभ्यः । भेददर्शनापचादाच्च 'अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुः' (वृ० १।४।१०), 'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति' (वृ० ४।४।१९) इत्येवंजातीयकात् । 'स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्म' (वृ० ४।४।२५) इति चाऽऽत्मनि सर्वविक्रियाप्रतिषेधात्, अन्यथा च मुमुक्षूणां निरपवादविज्ञानानुपपत्तेः, सुनिश्चितार्थत्वानुपपत्तेश्च । निरपवादं हि

भाष्यका अनुवाद

दतोऽस्ति०' (इससे दूसरा द्रष्टा नहीं है) इत्यादि श्रुतियां और 'वासुदेवः सर्व०' (सब वासुदेव है) 'क्षेत्रज्ञं चापि मां०' (हे भारत ! सब क्षेत्रोंमें मुझको क्षेत्रज्ञ जानो) 'समं सर्वेषु भूतेषु०' (सब भूतोंमें समभावसे रहे हुए परमेश्वरको) इत्यादि स्मृतियाँ हैं । और 'अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति०' (यह अन्य है, मैं 'अन्य हूँ, इस प्रकार जो उपासना करता है, वह पशुके समान है, तत्त्व नहीं जानता) और 'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति०' (जिसे यहां भेद-सा प्रतीत होता है, वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है) इत्यादि श्रुतिसे भेददर्शनका निषेध है । और 'स वा एष महानज आत्मा०' (वह महान् जन्मरहित आत्मा जरारहित, अजर, अमर, अमृत और अभय ब्रह्म है) इस प्रकार आत्मामें सब विकारोंका प्रतिषेध है । ऐसा न हो तो मुमुक्षुओंको अपवादरहित विज्ञान नहीं हो सकता और तत्त्वनिश्चय भी नहीं हो सकता, क्योंकि सब आकांक्षाओंकी

रत्नप्रभा

पक्षे जीवस्य जन्मादिविकारवत्त्वात् तन्निषेधो न स्यादित्याह—स वा एष इति । भेदस्य सत्यत्वे तत्प्रमया बाधाद् अहं ब्रह्मेति निर्बाधं ज्ञानं न स्यात् इत्याह—अन्यथा चेति । अभेदस्यापि सत्त्वात् प्रमा इत्याशङ्क्य भेदाभेदयोः विरोधात् संशयः स्याद् इत्याह—

रत्नप्रभाका अनुवाद

जीवके जन्म आदि विकारयुक्त होनेसे उसका निषेध नहीं हो सकता है, इसपर कहते हैं—“स वा एष” इत्यादि । भेद सत्य हो, तो यथार्थ ज्ञानसे उसका बाध होनेसे 'अहं ब्रह्म' (मैं ब्रह्म हूँ) ऐसा निर्बाध ज्ञान न हो, ऐसा कहते हैं—“अन्यथा च” इत्यादिते । अभेदका भी यथार्थ ज्ञान हो, क्योंकि उसकी भी सत्ता है, ऐसी आशंका करके भेद और

भाष्य

विज्ञानं सर्वाकाङ्क्षानिर्वर्तकमात्मविषयमिष्यते, 'वेदान्तविज्ञानमुनिश्चितार्थाः'
(मु० ३।२।६) इति च श्रुतेः, 'तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनु-
पश्यतः' (ई० ७) इति च । स्थितप्रज्ञलक्षणस्मृतेश्च (गी० २।५४) ।
स्थिते च क्षेत्रज्ञपरमात्मैकत्वविषये सम्यग्दर्शने क्षेत्रज्ञः परमात्मेति नाम-
मात्रभेदात् क्षेत्रज्ञोऽयं परमात्मनो भिन्नः परमात्माऽयं क्षेत्रज्ञाद् भिन्न इत्येवं-
जातीयक आत्मभेदविषयो निर्वन्धो- निरर्थकः । एको ह्ययमात्मा नाम-
भाष्यका अनुवाद

निवृत्ति करनेवाला अपवादरहित आत्मविषयक विज्ञान इष्ट है, क्योंकि 'वेदान्त-
विज्ञान०' (वेदान्तके विज्ञानसे जिनको तत्त्वज्ञान हो चुका है) और 'तत्र को
मोहः०' (उसमें एकत्वका दर्शन करनेवालेको क्या मोह और क्या शोक है)
ऐसी श्रुतियाँ हैं । और स्थितप्रज्ञका लक्षण कहनेवाली स्मृति भी है । इस प्रकार
क्षेत्रज्ञ और परमात्मा एक ही है, ऐसा तत्त्वज्ञान होनेपर क्षेत्रज्ञ और परमात्मा
ऐसे नाममात्रका भेद होनेसे यह क्षेत्रज्ञ परमात्मासे भिन्न है, यह परमात्मा क्षेत्रज्ञ-
से भिन्न है, इस प्रकारका आत्माके भेदका आग्रह करना व्यर्थ है, क्योंकि यह

रत्नप्रभा

मुनिश्चितेति । माऽस्तु निर्वाधज्ञानम् इत्यत आह-निरपवादमिति । "अहं ब्रह्म"
इत्यबाधितनिश्चयस्यैव शोकादिनिर्वर्तकत्वम् इत्यत्र स्मृतिमपि आह-स्थितेति ।
आत्यन्तिकैकत्वे हि प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति, न भेदाभेदयोः इति भावः । ननु जीव-
परमात्मानौ स्वतो भिन्नौ अपर्यायनामवत्त्वात् स्तम्भकुम्भवदित्यत आह-स्थिते
चेति । कथं तर्ह्यपर्यायनामभेद इत्याशङ्क्य जीववेश्वरत्वादिनिमित्तभेदादित्याह-
एको हीति । किञ्च, अविद्यातज्जबुद्धिरूपायां गुहायां स्थितो जीवो भवति 'तस्या-

रत्नप्रभाका अनुवाद

अभेदके विरोधसे संशय हो, ऐसा कहते हैं—“मुनिश्चित” इत्यादिसे । निर्वाध ज्ञान न हो,
उससे क्या ? इसपर कहते हैं—“निरपवादम्” इत्यादिसे । 'अहं ब्रह्म' (मैं ब्रह्म हूँ) ऐसा
अबाधित निश्चय ही शोक आदिको निवृत्त करता है, उसके लिए स्मृति भी कहते हैं—
“स्थित” इत्यादिसे । आत्यन्तिक एकत्व होनेपर ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, भेदाभेदमें
नहीं होती, ऐसा तात्पर्य है । यदि कोई कहे कि जीव और परमात्मा स्वयं भिन्न हैं, क्योंकि
स्तम्भ, कुम्भ आदिके समान पर्यायशब्दवाच्य नहीं हैं, इसपर कहते हैं—“स्थिते च”
इत्यादि । तब अपर्यायनामका भेद क्यों है, ऐसी आशंका करके जीवत्व, ईश्वरत्व आदि
निमित्तोंके भेदसे है, ऐसा कहते हैं—“एको हि” इत्यादिसे । तथा अविद्या और उससे

भाष्य

मात्रभेदेन बहुधाऽभिधीयत इति, नहि 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, यो वेद निहितं गुहायाम्' (तै० २।१) इति काश्चिदेवैकां गुहामधिकृत्यैतदुक्तम् । न च ब्रह्मणोऽन्यो गुहायां निहितोऽस्ति, 'तत्सृष्ट्वा तदेवानुभाविशत्' (तै० २।६) इति स्रष्टुरेव प्रवेशश्रवणात् । ये तु निर्वन्धं कुर्वन्ति ते रत्नप्रभाका अनुवाद

आत्मा एक ही है परन्तु नाममात्रके भेदसे बहुत प्रकारसे उसका अभिधान होता है । 'सत्यं ज्ञानमनन्तं०' (जो सत्य, ज्ञान, अनन्त ब्रह्मको गुहामें स्थित जानता है) यह कथन किसी एक गुहाके उद्देशसे नहीं है । और ब्रह्मसे अतिरिक्त व्यक्ति गुहामें स्थित नहीं है, क्योंकि 'तत्सृष्ट्वा०' (ब्रह्मने कार्यप्रपंचको उत्पन्न करके उसीमें अनुप्रवेश किया) इस प्रकार स्रष्टाका ही प्रवेश श्रुतिमें कहा गया

रत्नप्रभा

मेव ब्रह्म निहितम्' इति श्रुतेः । स्थानैक्यात् जीव एव ब्रह्मेत्याह—नहीति । काश्चिदेवैकामिति । जीवस्थानाद् अन्यामित्यर्थः । ननु एकस्यां गुहायां द्वौ किं न स्याताम् इत्यत आह—न चेति । स्रष्टुरेव प्रवेशेन जीवत्वात् न भेदः । ननु अत्यन्ताभेदे जीवस्य स्पष्टमानाद् ब्रह्मापि स्पष्टं स्याद् अतः स्पष्टत्वास्पष्टत्वाभ्यां तयोः भेद इति चेत्, न; दर्पणे प्रतिबिम्बस्य स्फुटत्वोऽपि बिम्बस्य अस्फुटत्ववत् कल्पितभेदेन विरुद्धधर्मव्यवस्थोपपत्तेः । सत्यभेदे येषाम् आग्रहः तेषां दोषमाह—ये त्विति । सोऽयम् इतिवत् तत्त्वमसि इति अकार्यकरणद्रव्यसामानाधिकरण्याद् अत्यन्ताभेदो वेदान्तार्थः । तद्बोध एव निःश्रेयससाधनम् तस्य बाधो न युक्त इत्यर्थः । किञ्च,

रत्नप्रभाका अनुवाद

जन्य बुद्धिरूप गुहामें स्थित ब्रह्म ही जीव कहलाता है, क्योंकि 'तस्यामेव०' (उस गुहामें ब्रह्म ही स्थित है) ऐसी श्रुति है । स्य नके एक होनेसे भी जीव ब्रह्म ही है, ऐसा कहते हैं—'नहि' इत्यादिसे । "काश्चिदेवैकाम्" अर्थात् जीवस्थानसे अन्य, जीवभावसे परमात्माके प्रतिबिम्बका जो आधार है, उससे अन्य । एक गुहामें दो क्यों न रहें, इसपर कहते हैं—'न च' इत्यादि । स्रष्टा ही प्रविष्ट होनेसे जीव कहलाता है, अतः जीव और ब्रह्ममें भेद नहीं है । परन्तु अत्यन्त अभेद हो, तो जीवका स्पष्ट भान होता है, इससे ब्रह्म भी स्पष्ट हो, इसलिये स्पष्टत्व और अस्पष्टत्वसे दोनोंका भेद है, ऐसी शंका युक्त नहीं, क्योंकि जैसे दर्पणमें प्रतिबिम्बके स्पष्ट होनेपर भी बिम्ब स्पष्ट नहीं होता, उसी प्रकार कल्पित भेदसे विरुद्धधर्मकी व्यवस्था युक्त होती है । सत्य भेदमें जिनका आग्रह है, उनके मतमें दोष दिखालाते हैं—'ये तु' इत्यादिसे । 'सोऽयम्' (वह यह है) इसके समान 'तत्त्वमसि' (वह तू है) इस वाक्यमें कार्यकरणसमूहसे भिन्न द्रव्यका सामानाधिकरण्य है अतः

भाष्य

वेदान्तार्थं वाधमानाः श्रेयोद्वारं सम्यग्दर्शनमेव वाधन्ते, कृतकमनित्यं च मोक्षं कल्पयन्ति, न्यायेन च न संगच्छन्त इति ॥ २२ ॥

भाष्यका अनुवाद

है। परन्तु जो आपस करते हैं, वे वेदान्तके अर्थका वाध करते हुए श्रेय-
मात्रके द्वार सम्यग्ज्ञानका ही वाध करते हैं, मोक्ष कर्मसाध्य एवं अनित्य है, ऐसी
कल्पना करते हैं और न्यायका अनुसरण नहीं करते ॥ २२ ॥

रत्नप्रभा

भेदाभेदवादिनो ज्ञानकर्मभ्यां कृतकं मोक्षं कल्पयन्ति, तत्रानित्यत्वं दोषः । यत्तु
कृतकमपि नित्यमिति, तच्च यत् क्रियासाध्यं तदनित्यम् इतिन्यायबाधितम् ।
अस्माकं तु अनर्थध्वंसस्य ज्ञानसाध्यत्वात् नित्यमुक्तात्ममात्रत्वात् च न अनित्यत्वदोष
इति भावः । तस्मात् मैत्रेयीब्राह्मणं प्रत्यग्ब्रह्मणि समन्वितमिति सिद्धम् ॥२२॥ (६)

रत्नप्रभाका अनुवाद

आत्यन्तिक अमेद ही वेदान्तोंका अर्थ है और उसका बोध ही मोक्षका साधन है, इससे
उसका वाध युक्त नहीं, ऐसा अर्थ है। और भेदाभेदवादी ज्ञान और कर्मसे जो कृतक मोक्षकी
कल्पना करते हैं, उसमें अनित्यताका दोष आता है। कृतक है, तो भी नित्य है, यह कथन
तो जो क्रियासाध्य है, वह अनित्य है, इस न्यायसे बाधित होता है। हमारे मतमें तो
अनर्थका ध्वंस ज्ञानसाध्य होने और नित्यमुक्त आत्ममात्र होनेसे अनित्यताका दोष नहीं
आता। इसलिए मैत्रेयीब्राह्मण प्रत्यग्ब्रह्ममें समन्वित है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ २२ ॥



[७ प्रकृत्यधिकरण । सू० २३-२७]

निमित्तमेव ब्रह्म स्यादुपादानं च वीक्षणात् ।

कुलालवृत्तिमित्तं तन्नोपादानं मृदादिवत् ॥१॥

बहु स्यामित्युपादानभावोऽपि श्रुत ईक्षितुः ।

एकचुद्धया सर्वधीश्च तस्माद् ब्रह्मोभयात्मकम्* ॥२॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—ब्रह्म जगत्का निमित्तकारण ही है अथवा उपादानकारण भी है ?

पूर्वपक्ष—श्रुतिमें सृज्यमान पदार्थोंका ईक्षण कहा है, इसलिए कुलाल आदिके समान ब्रह्म निमित्तकारण है, उपादानकारण नहीं है ।

सिद्धान्त—श्रुतिमें ईक्षणकर्ता 'बहु स्याम्' (मैं बहुत होऊँ) इस प्रकार उपादानकारण भी कहा गया है और श्रुत्युक्त एकविज्ञानसे सर्वविज्ञान उपादानकारणके ज्ञानसे ही हो सकता है, इसलिए ब्रह्म जगत्का निमित्तकारण और उपादानकारण—दोनों है ।

* तात्पर्य यह है—जगत्के कारणको प्रतिपादन करनेवाले सब वाक्य इस अधिकरणके विषय है । उनमें संशय होता है कि ब्रह्म केवल निमित्तकारण ही है अथवा उपादानकारण भी है ?

पूर्वपक्षी कहता है कि ब्रह्म केवल निमित्तकारण है, क्योंकि श्रुतिमें "तदैक्षत" इस प्रकार सृज्यमान कार्योंकी आलोचनाका श्रवण है । आलोचन-शक्ति केवल निमित्तकारणभूत कुलाल आदिमें ही देखी जाती है, उपादानकारणभूत मृत्तिका आदिमें नहीं देखी जाती अतः ब्रह्म निमित्तकारण ही है ।

सिद्धान्ती कहते हैं कि "तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय" इस प्रकार ईक्षणकर्ताका ही बहुभाव श्रुतिमें कहा गया है, इसलिए वही उपादानकारण है । और "येनाश्रुत श्रुत भवति" इत्यादिसे एक ब्रह्मका ज्ञान होनेपर अश्रुत जगत् भी श्रुत हो जाता है, एक ब्रह्मका ज्ञान होनेपर सबका विज्ञान हो जाता है, ऐसा प्रतिपादन किया गया है । वह सभी उपपन्न हो सकता है जब कि ब्रह्म सब कार्योंका उपादानकारण हो, ब्रह्मसे भिन्न कोई कार्य ही न हो । ब्रह्म यदि केवल निमित्तकारण हो, तो सब कार्योंके ब्रह्मसे भिन्न होनेसे एक विज्ञानसे सर्वविज्ञानका प्रतिपादन कैसे किया जा सकता है । इसलिए ब्रह्म निमित्तकारण है और उपादानकारण भी है ।

प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् ॥ २३ ॥

पदच्छेद—प्रकृतिः, च, प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् ।

पदार्थोक्ति—प्रकृतिश्च—उपादानकारणम्, निमित्तकारणमपि [ब्रह्म, कुतः] प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्—‘येनाश्रुतं श्रुतं भवति’ इत्यादिरेकविज्ञानेन सर्व-विज्ञानप्रतिज्ञा, ‘यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम्’ इत्यादिदृष्टान्तश्च, तयोः सामञ्जस्यात् ।

भाषार्थ—ब्रह्म उपादानकारण है और निमित्तकारण भी है, क्योंकि ‘येनाश्रुतं’ (जिसके ज्ञानसे अश्रुत श्रुत हो जाता है) इत्यादि एक विज्ञानसे सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा और ‘यथा सोम्यैकेन’ (हे सोम्य ! जैसे एक मृत्पिण्डके ज्ञानसे सब मृत्तिकाविकारका ज्ञान हो जाता है) इत्यादि दृष्टान्तका सामञ्जस्य है ।

भाष्य

यथाऽभ्युदयहेतुत्वाद् धर्मो जिज्ञास्य एवं निःश्रेयसहेतुत्वाद् ब्रह्म जिज्ञास्यमित्युक्तम्, ब्रह्म च ‘जन्माद्यस्य यतः’ (ब्र० १।१।२) इति लक्षितम् । तच्च लक्षणं घटरुचकादीनां मृत्सुवर्णादिवत् प्रकृतित्वे कुलालसुवर्णकारादिवनिमित्तत्वे च समानमित्यतो भवति विमर्शः—किमात्मकं पुनर्ब्रह्मणः

भाष्यका अनुवाद

जैसे अभ्युदयका हेतु होनेसे धर्म जिज्ञास्य है, वैसे मोक्षका हेतु होनेसे ब्रह्म जिज्ञास्य है, ऐसा कहा है । ‘जन्माद्यस्य’ सूत्रसे ब्रह्मका लक्षण कहा गया है । जैसे घट, रुचक आदिके मृत्तिका, सुवर्ण आदि उपादानकारण हैं और कुम्हार, सुनार आदि निमित्तकारण हैं, वैसे ही उस लक्षणसे ब्रह्म जगत्का उपादानकारण है, यह भी प्रतीत होता है और निमित्तकारण है, यह भी । इससे

रत्नप्रभा

प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा०। लक्षणसूत्रेण अस्य सङ्गतिं वक्तुं घृत्तं स्मारयति—यथेति । तत्र हि ब्रह्मणो बुद्धिस्थत्वार्थं सामान्यतो जगत्कारणत्वं लक्षणमुक्तम् तेन बुद्धिस्थे ब्रह्मणि कृत्स्नवेदान्तसमन्वयं प्रतिपाद्य तत्कारणत्वं किं कर्तृत्वमात्रम् उत प्रकृतित्व-
रत्नप्रभाका अनुवाद

ब्रह्मलक्षणसूत्रके साथ इस अधिकरणकी संगति दिखलानेके लिए पूर्वोक्तका स्मरण कराते हैं—‘यथा’ इत्यादिसे । इसमें प्रथम ब्रह्मके बुद्धिस्थ होनेके लिए सामान्य रीतिसे ब्रह्म जगत्का कारण है, ऐसा ब्रह्मका लक्षण किया गया है, उससे बुद्धिस्थ ब्रह्ममें समस्त

भाष्य

कारणत्वं स्यात्—इति । तत्र निमित्तकारणमेव तावत् केवलं स्यादिति प्रति-
भाति । कस्मात् ? ईक्षापूर्वकर्तृत्वश्रवणात् । ईक्षापूर्वकं हि ब्रह्मणः कर्तृ-
त्वमवगम्यते—‘स ईक्षांचक्रे (प्र० ६।३) ’ ‘स प्राणमसृजत’ (प्र० ६।४)

भाष्यका अनुवाद

संशय होता है कि ब्रह्म जगत्का निमित्तकारण ही है अथवा उपादानकारण भी है ?

पूर्वपक्षी—ब्रह्म केवल निमित्तकारण है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि ईक्षा-
पूर्वक ब्रह्म कर्ता है, ऐसी श्रुति है । ‘स ईक्षांचक्रे’ (उसने ईक्षण किया) ‘स प्राणम-
सृजत’ (उसने प्राणकी सृष्टि की) इत्यादि श्रुतियोंसे प्रतीत होता है कि ब्रह्म ईक्षा-

रत्नप्रभा

कर्तृत्वोभयरूपम् इति विशेषजिज्ञासायाम् इदमारभ्यते, तथा च सामान्यज्ञानस्य
विशेषचिन्ताहेतुत्वात् तेन अस्य सङ्गतिः । यद्यपि तदानन्तर्यम् अस्य युक्तम्, तथापि
निश्चिततात्पर्यैः वेदान्तैः कर्तृमात्रेश्वरमतनिरासः सुकर इति समन्वयान्ते इदं
लिखितम् । लक्षणसूत्रस्य अध्यायादिसङ्गतत्वाद् अस्यापि अध्यायादिसङ्गतिः । पूर्वत्र
सर्वविज्ञानप्रतिज्ञाया मुख्यत्वाद् वाक्यस्य जीवपरत्वं निरस्तम्, तदयुक्तम् कर्तृपादानयोः
भेदेन प्रतिज्ञाया गौणत्वाद् इत्याक्षिपति—तत्र निमित्तेत्यादिना । पूर्वोत्तरपक्षयोः
द्वैताद्वैतसिद्धिः फलम् । ईक्षापूर्वकेति । ईक्षणश्रुत्या कर्तृत्वं निश्चितम्, तथा च ब्रह्म
न प्रकृतिः, कर्तृत्वात्, यो यत्कर्ता स तत्प्रकृतिः न, यथा घटकर्ता कुलाल इत्यर्थः ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

वेदान्तोंके समन्वयका प्रतिपादन करके ब्रह्म केवल कर्ता ही है अर्थात् निमित्तकारण ही है
या उपादान और निमित्तकारण दोनों है, इस तरह विशेष जिज्ञासा होनेपर इस अधिकरणका
आरंभ किया जाता है । सामान्यज्ञान विशेष विचारका हेतु है, अतः उसके साथ इस
अधिकरणकी संगति है । यद्यपि लक्षणसूत्रके अनन्तर यह अधिकरण देना युक्त भा, तो
भी निश्चित तात्पर्ययुक्त वेदान्तोंसे ईश्वर निमित्तकारण ही है, इस मतका निराकरण करना
सहज समझकर सामान्यवाक्यायके अन्तमें यह लिखा है । लक्षणसूत्रमें अर्थात् जन्माद्य-
धिकरणमें अध्याय आदि संगतियों हैं, अतः इस अधिकरणमें भी अध्याय आदि
संगतियों हैं । पूर्वोक्तिकरणमें सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा मुख्य होनेसे वाक्यमें जीवपरत्नका निराग
किया गया है, यह युक्त नहीं है, क्योंकि कर्ता और उपादानके मिला मिल होनेसे
प्रतिज्ञा गौण है, ऐसा आशेष करते हैं—“तत्र निमित्त” इत्यादिते । पूर्वपक्षमें द्वैत-
सिद्धि फल है, सिद्धान्तमें अद्वैतसिद्धि फल है । “ईक्षापूर्वक” इत्यादि । ईक्षणश्रुतिमें ब्रह्म
कर्ता है, ऐसा निवय होता है, इसलिए ब्रह्म प्रकृति नहीं, कर्ता होनेसे, जो किरक कर्ता
होता है, यह उसकी प्रकृति नहीं होता है, जैसे घटका कर्ता कुम्हार, ऐसा भाग्य है ।

भाष्य

इत्यादिश्रुतिभ्यः । ईक्षापूर्वकं च कर्तृत्वं निमित्तकारणेण्वेव कुलालादिषु दृष्टम् । अनेककारकपूर्विका च क्रियाफलसिद्धिलोके दृष्टा । स च न्याय आदिकर्तर्यपि युक्तः संक्रमयितुम् । ईश्वरत्वप्रसिद्धेश्च । ईश्वराणां हि राज-वैवस्वतादीनां निमित्तकारणत्वमेव केवलं प्रतीयते तद्वत् परमेश्वरस्यापि निमित्तकारणत्वमेव युक्तं प्रतिपत्तुम् । कार्यं चेदं जगत् सावयवमचेतनमशुद्धं च दृश्यते, कारणेनापि तस्य तादृशेनैव भवितव्यम्, कार्यकारणयोः सारूप्यदर्शनात् । ब्रह्म च नैवलक्षणमवगम्यते 'निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्' (श्वे० ६।१९) इत्यादिश्रुतिभ्यः । पारिशेष्याद् ब्रह्मणोऽन्य-

भाष्यका अनुवाद

पूर्वक कर्ता है । ईक्षापूर्वक कर्तृत्व कुम्हार आदि निमित्तकारणोंमें ही देखा जाता है । व्यवहारमें देखा जाता है कि क्रियाके फलकी सिद्धिके पूर्व अनेक कारण रहते हैं, उस न्यायका आदि कर्तामें भी संक्रमण करना युक्त है । और ईश्वरत्वकी प्रसिद्धिसे भी [ब्रह्म निमित्तकारण है], क्योंकि जैसे राजा वैवस्वत-मनु आदि लौकिक ईश्वर निमित्तकारण ही हैं, उसी प्रकार परमेश्वरको भी निमित्तकारण समझना युक्त है । और कार्यरूप यह जगत् अवयवयुक्त, अचेतन और अशुद्ध प्रतीत होता है, उसका कारण भी वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि कार्य और कारण समान देखे जाते हैं । 'निष्कलं निष्क्रियं' (अवयवरहित, क्रियाशून्य, शान्त, दोपरहित और तमोरहित) इत्यादि श्रुतियोंसे ब्रह्म ऐसा

रत्नप्रभा

जगद् भिन्नकर्तृपादानकम्, कार्यत्वात्, घटवत्, इत्याह—अनेकेति । ब्रह्म नोपादानम्, ईश्वरत्वाद्, राजादिवत्, इत्याह—ईश्वरत्वेति । जगत् न ब्रह्मप्रकृतिकम्, तद्विलक्षणत्वाद्, यदित्यं तत्तथा कुलालविलक्षणघटवत्, इत्याह—कार्यञ्चेति । निष्कलम्—निरवयवम्, निष्क्रियम्—अचलम्, शान्तम्—अपरिणामि, निरवद्यम्—

रत्नप्रभाका अनुवाद

जगत् भिन्न कर्ता और उपादानवाला है, कार्य होनेसे, घटके समान, ऐसा दूसरा अनुमान बताते हैं—“अनेक” इत्यादिसे । ब्रह्म उपादानकारण नहीं है, ईश्वर होनेसे, राजा आदिके समान, ऐसा कहते हैं—“ईश्वरत्व” इत्यादिसे । जगत्का ब्रह्म उपादानकारण नहीं है, क्योंकि वह ब्रह्मसे विलक्षण है, जो कार्य जिस कारणसे विलक्षण होता है, उस कार्यका वह कारण उपादानकारण नहीं होता है अर्थात् वह कार्य तदुपादानक नहीं होता, कुम्हारसे विलक्षण घटके समान, ऐसा कहते हैं—“कार्य च” इत्यादिसे । निष्कल-निरवयव । निष्क्रिय-अचल । शान्त-अपरि-

भाष्य

दुपादानकारणमशुद्ध्यादिगुणकं स्मृतिप्रसिद्धमभ्युपगन्तव्यम् । ब्रह्मकारणत्वश्रुतेर्निमित्तत्वमात्रे पर्यवसानादिति ।

एवं प्राप्ते ब्रूमः—‘प्रकृतिश्च’—उपादानकारणं च ब्रह्माभ्युपगन्तव्यं निमित्तकारणं च । न केवलं निमित्तकारणमेव । कस्मात् ? प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् । एवं प्रतिज्ञादृष्टान्तौ श्रौतौ नोपरुध्येते । प्रतिज्ञा तावत्—‘उत तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्’ (छा० ६।१।२) इति । तत्र चैकेन विज्ञातेन सर्वमन्यदविज्ञातमापि विज्ञातं भवतीति प्रतीयते, तत्रोपादान-

भाष्यका अनुवाद

प्रतीत नहीं होता । अन्ततोगत्वा ब्रह्मसे अन्य, अशुद्धि आदि गुणवाला, स्मृतिमें प्रसिद्ध, उपादान कारण स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म कारण है, ऐसा प्रतिपादन करनेवाली श्रुति निमित्तकारणमात्रमें पर्यवसित होती है ।

सिद्धान्ती—ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं—ब्रह्मको प्रकृति अर्थात् उपादानकारण और निमित्तकारण स्वीकार करना चाहिए, केवल निमित्तकारण ही नहीं । किससे ? प्रतिज्ञा और दृष्टान्तके अनुपरोधसे । ब्रह्मको उभयकारण माननेसे श्रुतिमें वर्णित प्रतिज्ञा और दृष्टान्त बाधित नहीं होते । ‘उत तमादेशमप्राक्ष्यो०’ (तुमने गुरुसे वह उपदेश पूछा है ? जिससे अश्रुत श्रुत हो जाता है, मनन न किया हुआ मनन किया हुआ हो जाता है और अविज्ञात ज्ञात हो जाता है) यह प्रतिज्ञा है । उसमें एकका विज्ञान होनेसे सब अन्य जो अविज्ञात हैं, उनका भी विज्ञान हो जाता है, ऐसा समझा जाता है । यह सर्वविज्ञान उपादानकारणका

रत्नप्रभा

निरस्तसमस्तदोषम् । तत्र हेतुः—निरञ्जनमिति । अञ्जनतुल्यतमशून्यम् इत्यर्थः । तर्हि जगतः सदृशोपादानं किम् इत्यत आह—पारिशेष्यादिति ।

ब्रह्मनिषेधे प्रधानं परिशिष्यते इति अभिमन्यमानः सिद्धान्तयति—प्रकृतिश्चेति । चकारात् निमित्तत्वग्रहः । एवम् उभयरूपे कारणत्वे तयोरबाधो भवति इत्याह—

रत्नप्रभाका अनुवाद

णामी । निरवयव—समस्तदोषरहित । समस्तदोषरहित्यमें हेतु कहते हैं—‘निरञ्जनम्’—काजल सदृश अन्धकारसे शून्य । तब जगत्का सदृश उपादान क्या है, उसके लिए कहते हैं—‘पारिशेष्यात्’ इत्यादि ।

ब्रह्मका निषेध करनेसे प्रधान ही शेष रहता है, ऐसा समझकर सिद्धान्त करते हैं—‘प्रकृतिश्च’ इत्यादिसे । ‘प्रकृतिश्च’ सूत्रमें चकारसे ब्रह्म निमित्तकारण है, ऐसा सूचित

भाष्य

कारणविज्ञाने सर्वविज्ञानं संभवत्युपादानकारणाव्यतिरेकात् कार्यस्य, निमित्तकारणाव्यतिरेकस्तु कार्यस्य नास्ति, लोके तक्ष्णः प्रासादव्यतिरेकदर्शनात् । दृष्टान्तोऽपि—‘यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्’ इत्युपादानकारणगोचर एवाऽऽम्नायते । तथा ‘एकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातं स्यात्’ ‘एकेन नखनिकृन्तनेन सर्वं कार्पायसं विज्ञातं स्यात्’ (छा० ६।१।४,५,६) इति च । तथाऽन्यत्रापि ‘कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते

भाष्यका अनुवाद

विज्ञान होनेपर संभव है, क्योंकि कार्य उपादानकारणसे अभिन्न होता है । निमित्तकारणसे कार्य अभिन्न नहीं होता, क्योंकि लोकमें महल बनानेवाले बड़ईसे महल मिन्न देखनेमें आता है । ‘यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन०’ (हे सोम्य ! जैसे एक मृत्तिकापिण्डसे सब मृत्तिकाओंके विकारका विज्ञान हो जाता है, विकार नाममात्र है जिसका आरंभ केवल वाणीसे होता है, मृत्तिका ही सत्य है) । उसी प्रकार ‘एकेन लोहमणिना०’ (एक सुवर्णमय मणिसे सब सुवर्णविकारोंका विज्ञान हो जाता है) और ‘एकेन नखनिकृन्तनेन०’ (एक नहरनीसे सब लोहेके विकारका विज्ञान होता है) इस प्रकार दृष्टान्त भी उपादानकारणविषयक ही है । उसी प्रकार अन्य स्थलोंपर भी ‘कस्मिन्नु

रत्नप्रभा

एवमिति । कर्तृज्ञानादपि सर्वकार्यज्ञानं किं न स्याद् ? इत्यत आह—निमित्तकारणाव्यतिरेकस्त्विति । मृदादीनाम् उपादानानां दृष्टान्तत्वाद् दार्ष्टान्तिकस्य वक्ष्ण उपादानत्वं वाच्यमित्याह—दृष्टान्तोऽपीति । वागारभ्यं नाममात्रं विकारो न वस्तुतोऽस्तीति सत्यकारणज्ञानाद् विकारज्ञानं युक्तमित्यर्थः । गतिसामान्यार्थं मुण्डकेऽपि प्रतिज्ञादृष्टान्तौ आह—तथाऽन्यत्रापि । बृहदारण्यकेऽपि तौ आह—

रत्नप्रभाका अनुवाद

होता है । प्रकृति और निमित्तकारण दोनों ब्रह्म है, ऐसा प्रह्वण करनेसे प्रतिज्ञा और दृष्टान्तका बाध न होगा, ऐसा कहते हैं—‘एवम्’ इत्यादिसे । कर्ताके ज्ञानसे भी सर्वकार्यका ज्ञान क्यों न हो, इसपर कहते हैं—‘निमित्तकारणाव्यतिरेकस्तु’ इत्यादि । मृत्तिका आदि उपादानकारण दृष्टान्तरूपसे दिये गये हैं, इससे दार्ष्टान्तिक ब्रह्मको उपादान कारण ही कहना चाहिए, ऐसा कहते हैं—‘दृष्टान्तोऽपि’ इत्यादिसे । विकार वाणीसे आरंभ होने योग्य नाममात्र है, वास्तविक नहीं है, इससे सत्य कारणके ज्ञानसे विकारका ज्ञान होना युक्त है, ऐसा अर्थ है । उपनिषदोंकी सामान्य गति ऐसी है, यह दिखलानेके लिए मुण्डकमेंसे भी प्रतिज्ञा और

भाष्य

सर्वमिदं विज्ञातं भवति' (सु० १।१।२) इति प्रतिज्ञा, 'यथा पृथिव्या-
मोपधयः सम्भवन्ति' (सु० १।१।७) इति दृष्टान्तः, तथा 'आत्मनि
खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विदितम्' इति प्रतिज्ञा, 'स यथा
दुन्दुभेर्हन्यमानस्य न बाह्यान् शब्दान् शक्नुयाद् ग्रहणाय दुन्दुमेस्तु
ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः' (वृ० ४।५।६,८) इति
दृष्टान्तः । एवं यथासंभवं प्रतिवेदान्तं प्रतिज्ञादृष्टान्तौ प्रकृतित्वसाधनौ

भाष्यका अनुवाद

भगवो विज्ञाते०' (हे भगवन् ! किसका विज्ञान होनेपर इस सम्पूर्ण प्रपंचका
विज्ञान होता है) ऐसी प्रतिज्ञा है और 'यथा पृथिव्यामोपधयः०' (जैसे पृथिवीमें
ओपधियां उत्पन्न होती हैं) ऐसा दृष्टान्त है । इसी प्रकार 'आत्मनि खल्वरे
दृष्टे श्रुते०' (हे मैत्रेयि ! निश्चय आत्माका दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान
होनेपर यह सब विदित होता है) ऐसी प्रतिज्ञा है । और 'स यथा दुन्दुभे-
र्हन्यमानस्य०' (जैसे नगाड़ेके घजनेपर बाह्य शब्द ग्रहण न किये जानेपर
भी दुन्दुभिके ग्रहणसे अथवा दुन्दुभिके आघातके ज्ञानसे शब्दविशेषका ग्रहण
किया जाता है) ऐसा दृष्टान्त है । इस प्रकार यथासंभव प्रत्येक वेदान्तमें

रत्नप्रभा

तथात्मनीति । घटः स्फुरति, पटः स्फुरति इत्यनुगतस्फुरणं प्रकृतिः, तदतिरेकेण
विकारा न सन्तीति सोऽयमर्थो यथा स्फुटः स्यात् तथा दृष्टान्तः स उच्यते ।
हन्यमानदुन्दुभिजन्यात् शब्दसामान्याद् बाह्यान् विशेषशब्दान् सामान्यग्रहणातिरेकेण
पृथग् गृहीतुं श्रोता न शक्नुयात्, सामान्यस्य तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातजशब्द-
विशेषो गृहीतो भवति, तस्य वा ग्रहणेन तदवान्तरविशेषशब्दो गृहीतो भवति,
अतः शब्दसामान्यग्रहणग्राह्या विशेषाः सामान्ये कल्पिताः, तद्वद् आत्मभानभास्याः

रत्नप्रभाका अनुवाद

दृष्टान्त उद्धृत करते हैं—“तथान्यत्रापि” इत्यादिसे । बृहदारण्यकमेंसे भी प्रतिज्ञा और
दृष्टान्त उद्धृत करते हैं—“तथात्मनि” इत्यादिसे । 'घटः स्फुरति' (घट ज्ञात होता है)
'पटः स्फुरति' (पट ज्ञात होता है) ऐसा अनुगत स्फुरण प्रकृति है, उससे अतिरिक्त
विकार नहीं है, इस अर्थको भली भाँति स्फुट करनेके लिए दृष्टान्त कहा जाता है । दुन्दुभिसे
उत्पन्न हुए शब्दसामान्यसे बाह्य विशेषशब्दोंके सामान्यशब्दसे भिन्नरूपसे पृथक्
सुननेके लिए श्रोता समर्थ नहीं हो सकत, किन्तु सामान्यशब्दके ग्रहणसे दुन्दुभिके
बाघातसे उत्पन्न विशेष शब्दका ग्रहण होता है अथवा उसके ग्रहणसे उसके भीतरके

भाष्य

प्रत्येतव्यौ । यत् इतीयं पञ्चमी 'यतो वा इमानि भूतान जायन्ते' इत्यत्र 'जनिकर्तुः प्रकृतिः' (पा० सू० १।४।३०) इति विशेषस्मरणात् प्रकृतिलक्षण एवाऽपादाने द्रष्टव्या । निमित्तत्वं त्वधिष्ठात्रन्तराभावदाधिगन्तव्यम् । यथा हि लोके मृत्सुवर्णादिकमुपादानकारणं कुलालसुवर्णकारादीनधिष्ठातृनपेक्ष्य प्रवर्तते, नैवं ब्रह्मण उपादानकारणस्य सतोऽन्योऽधिष्ठाताऽपेक्ष्योऽस्ति, प्रागुत्पत्तेरकमेवाऽद्वितीयमित्यवधारणात् । अधिष्ठात्रन्तरा-

भाष्यका अनुवाद

उपादानकारण सिद्ध करनेवाले प्रतिज्ञा और दृष्टान्त समझने चाहिए। 'यतो वा इमानि०' (जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं) इसमें 'यतः' यह पंचमी 'जनिकर्तुः०' इस विशेष सूत्रका स्मरण होनेसे प्रकृतिलक्षण अपादानके अर्थमें ही समझनी चाहिए। ब्रह्मको निमित्तकारण तो अन्य अधिष्ठाताके न होनेसे समझना चाहिए। जैसे लोकमें मृत्तिका, सुवर्ण आदि उपादानकारण कुम्हार, सुनार आदि अधिष्ठाताओंकी अपेक्षा रखकर प्रवृत्त होते हैं, वैसे ब्रह्म उपादान होकर अन्य अधिष्ठाताकी अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि उत्पत्तिके

रत्नप्रभा

घटादय आत्मनि कल्पिताः, इत्यर्थः । प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् लिङ्गाद् ब्रह्मणः प्रकृतिस्त्वमुक्त्वा पञ्चमीश्रुत्याऽपि आह—यत् इति । "यतो वा" इत्यत्र श्रुतौ यत् इति पञ्चमी प्रकृतौ द्रष्टव्या इति अन्वयः । जनिकर्तुः—जायमानस्य कार्यस्य प्रकृतिः अपादानसंज्ञिका भवति इति सूत्रार्थः । संज्ञायाः फलम् "अपादाने पञ्चमी" (पा० २।३।२८) इति सूत्रात् प्रकृतौ पञ्चमीलाभः । एवं ब्रह्मणः प्रकृतित्वं प्रसाध्य कर्तृत्वं साधयति—निमित्तत्वमिति । ब्रह्म स्वातिरिक्तकर्त्रधिष्ठेयम्, प्रकृतित्वात्,

रत्नप्रभाका अनुवाद

विशेष शब्दका ग्रहण होता है। इसलिए जैसे शब्दसामान्यके ग्रहणसे प्राह्य विशेषशब्द सामान्यमें कल्पित है। उसी प्रकार आत्माके भानसे भास्य जो घट आदि पदार्थ हैं, वे आत्मामें कल्पित हैं, ऐसा समझना चाहिए। प्रतिज्ञा और दृष्टान्तके अनुसार लिङ्गसे ब्रह्म उपादानकारण है, ऐसा कहकर पंचमी विभाषिका श्रवण होनेसे भी ब्रह्म उपादान कारण है। ऐसा कहते हैं—'यत्.' इत्यादिसे। 'यतो वा' इस मंत्रमें 'यत्.' यह पंचमी प्रकृतिरूप अर्थमें है, ऐसा अन्वय है। 'जनिकर्तुः' इत्यादि। जायमान कार्यकी प्रकृति अपादान संज्ञक होती है, ऐसा सूत्रका अर्थ है। संज्ञाके फलस्वरूप 'अपादाने०' सूत्रसे प्रकृतिके अनन्तर पंचमी विभक्ति आती है। इस प्रकार ब्रह्म प्रकृति है, यह सिद्ध करके वह कर्ता है, यह

भाष्य

भावोऽपि प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधादेवोदितो वेदितव्यः । अधिष्ठातरि
 लुपादानान्यस्मिन्नभ्युपगम्यमाने पुनरप्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानस्याऽसंभ-
 वात् प्रतिज्ञादृष्टान्तोपरोध एव स्यात् । तस्मादधिष्ठात्रन्तराभावादात्मनः
 कर्तृत्वमुपादानान्तराभावाच्च प्रकृतित्वम् ॥ २३ ॥

कृतश्चाऽऽत्मनः कर्तृत्वप्रकृतित्वे—

भाष्यका अनुवाद

पूर्व एक ही अद्वितीयका अवधारण है । अन्य अधिष्ठाताका अभाव भी प्रतिज्ञा
 और दृष्टान्तके बाधके अभावसे ही कहा गया है, क्योंकि उपादानकारणसे अन्य
 अधिष्ठाता स्वीकार किया जाय, तो एकविज्ञानसे सर्वविज्ञानका असंभव होनेसे
 प्रतिज्ञा और दृष्टान्तका बाध ही हो जायगा । इसलिए अन्य अधिष्ठाताके अभावसे
 आत्मा कर्ता है और अन्य उपादानके अभावसे आत्मा प्रकृति है ॥ २३ ॥

आत्मा निमित्तकारण और उपादानकारण कैसे है ?

रत्नप्रभा

मृदादिवद्, इत्याद्यनुमानानाम् आगमबाधमाह—प्रागुत्पत्तेरिति । जगत्कर्तृ
 ब्रह्मैव इत्यत्रापि सूत्रं योजयति—अधिष्ठात्रन्तरेति ॥ २३ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

सिद्ध करते हैं—“निमित्तत्वम्” इत्यादिसे । ब्रह्म अपनेसे अन्य कर्तासे अधिष्ठेय है,
 प्रकृति होनेसे, श्रुतिका आदिके समान, इत्यादि अनुमान शास्त्रसे बाधित हैं, ऐसा
 कहते हैं—“प्रागुत्पत्तेः” इत्यादिसे । जगत्कर्ता ब्रह्म ही है, इसमें भी सूत्रकी योजना करते हैं—
 “अधिष्ठात्रन्तर” इत्यादिसे ॥ २३ ॥

* यथा यह सशय होता है कि एकविज्ञानसे सर्वविज्ञानको बतलानेवाली श्रुति ब्रह्मको उपादान-
 कारण कैसे सिद्ध कर सकती है ? क्योंकि जैसे लोकमें राजाको देखनेपर अमात्य आदि सब वृष्ट
 ही हो जाते हैं, ऐसा व्यवहार होता है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानसे सब कामनाओंकी प्राप्ति होनेसे
 ब्रह्मके ज्ञानसे सब श्रात हो जाता है, ऐसा श्रुतिका अभिप्राय हो सकता है । कार्यकालमें कार्याभिन्न-
 रूपसे कार्यमें अनुवर्तमान द्रव्य ही उपादानकारण होता है, मृत्पिण्ड तो घट आदिकी तरह मृत्का
 अवस्थाविशेष है, वह घटमें अनुवर्तमान न होनेसे घटका उपादान नहीं हो सकता, इसलिये दृष्टान्त
 भी नहीं घटता । अतः एकविज्ञानसे सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा और आत्मविज्ञानसे सर्वविज्ञानकथनसे ब्रह्ममें
 उपादानता सिद्ध नहीं हो सकती । इसका उत्तर है—मृत्पिण्ड ही घट बनाया गया है, इस अवाधित
 प्रतीतिसे मृत्पिण्ड घटका उपादान सिद्ध होता है । घटमें मृत्पिण्डकी अनुश्रुति न होनेपर भी तदात्म्य
 द्रव्यकी अनुश्रुति है । यद्यपि राजाको देखनेसे अमात्य आदि वृष्ट हो जाते हैं, तो भी राजाको घुननेसे,
 राजाके ज्ञानसे सब श्रात एवं श्रात नहीं हो सकते हैं, अतः वह दृष्टान्त अन्यथासिद्ध है, इससे सिद्ध
 होता है कि दृष्टान्त एवं एकविज्ञानसे सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा ब्रह्मको उपादान सिद्ध करती है ।

अभिध्योपदेशाच्च ॥ २४ ॥

पदच्छेद—अभिध्योपदेशात्, च ।

पदार्थोक्ति—अभिध्योपदेशाच्च—‘सोऽकामयत’ इत्यात्मनो ध्यानोपदेशात् कर्तृत्वम्, ‘बहु स्याम्’ इति ध्यानोपदेशात् प्रकृतित्वम् ।

भाषार्थ—श्रुतिमें ‘सोऽकामयत’ (उसने कामना की) इस प्रकारके ध्यानका उपदेश होनेसे आत्मा कर्ता अर्थात् निमित्तकारण है, ‘बहु स्याम्’ (मैं बहुत होऊँ) इस प्रकारके ध्यानका उपदेश होनेसे प्रकृति अर्थात् उपादानकारण है ।

भाष्य

अभिध्योपदेशश्चाऽऽत्मनः कर्तृत्वप्रकृतित्वे गमयति ‘सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति’ ‘तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय’ इति च । तत्राऽभिध्यानपूर्विकायाः स्वातन्त्र्यप्रवृत्तेः कर्तेति गम्यते, बहु स्यामिति प्रत्यगात्मधिपयत्वाद् बहुभवनाभिध्यानस्य प्रकृतिरित्यपि गम्यते ॥ २४ ॥

भाष्यका अनुवाद

‘सोऽकामयत बहु स्यां०’ (उसने कामना की कि मैं बहुत होऊँ, प्रजारूपमें उत्पन्न होऊँ) और ‘तदैक्षत बहु स्यां०’ (उसने विचार किया कि मैं बहुत होऊँ, प्रजारूपमें उत्पन्न होऊँ) इस प्रकार सृष्टिसङ्कल्पके उपदेशसे प्रतीत होता है कि आत्मा निमित्तकारण और उपादानकारण भी है । उसमें सङ्कल्पपूर्वक स्वतंत्र प्रवृत्तिरूप कारणसे आत्मा निमित्तकारण प्रतीत होता है और ‘बहु स्याम्’ (बहुत होऊँ) इस प्रकार अनेक रूपमें उत्पन्न होनेका संकल्प आत्मा ही करता है, इससे प्रतीत होता है कि वह उपादानकारण भी है ॥ २४ ॥

रत्नप्रभा

एकस्य उभयरूपं कारणत्वम् अविरुद्धमिति सूत्रचतुष्टयेन साधयति—कुतश्चेत्यादिना । अभिध्या—सृष्टिसङ्कल्पः ॥ २४ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

एक ही के निमित्तकारण और उपादानकारण होनेमें कोई विरोध नहीं है, यह चार सूत्रोंसे सिद्ध करते हैं—‘कुतश्च’ इत्यादिसे ।

अभिध्या—सृष्टिसंकल्प, अज्ञानकी इच्छा—संकल्प है ॥ २४ ॥

साक्षाच्चोभयाम्नानात् ॥ २५ ॥

पदच्छेद—साक्षात्, च, उभयाम्नानात् ।

पदयोक्ति—साक्षाच्चोभयाम्नानात्—‘सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति’ इत्याकाशशब्देन साक्षादेव ब्रह्म गृहीत्वा जगदुत्पत्तिप्रलययोराम्नानात् [ब्रह्म निमित्तप्रकृती]

भाषार्थ—‘सर्वाणि ह वा इमानि०’ (ये सब भूत आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं आकाशमें ही लीन होते हैं) इस प्रकार आकाशशब्दसे ब्रह्मका ग्रहण कर साक्षात् ही जगत्की उत्पत्ति और प्रलय कहे गये हैं । अतः ब्रह्म निमित्तकारण एवं उपादानकारण है ।

भाष्य

प्रकृतित्वस्याऽयमभ्युच्यः । इतश्च प्रकृतिर्ब्रह्म, यत्कारणं साक्षाद् ब्रह्मैव कारणमुपादायोभौ प्रभवप्रलयावाप्नायेते—‘सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति’ (छा०१।९।१) इति । यद्धि यस्मात् प्रभवति यस्मिंश्च प्रलीयते, तद् तस्योपादानं प्रसिद्धम् । यथा व्रीहियवादीनां पृथिवी । साक्षादिति चोपादानान्तरानुपादानं दर्शयत्याकाशादेवेति । प्रत्यस्तमयश्च नोपादानादन्यत्र कार्यस्य दृष्टः ॥ २५ ॥

भाष्यका अनुवाद

ब्रह्म प्रकृति है, इस विषयमें यह दूसरा हेतु है । इससे भी प्रकृति है, क्योंकि ‘सर्वाणि ह वा इमानि०’ (ये सब भूत आकाशसे उत्पन्न होते हैं और आकाशमें ही लीन होते हैं) इस श्रुतिमें साक्षात् ब्रह्मको ही कारण मान कर सृष्टि और प्रलय कहे गये हैं । यह प्रसिद्ध है कि जो जिससे उत्पन्न होता है और जिसमें लीन होता है, वह उसका उपादान है, जैसे धान, जौ, गेहूँ आदिका पृथिवी उपादान कारण है । श्रुतिस्थ ‘आकाशादेव’ के एवकारसे सूचित अन्य उपादानके अग्रहणको सूत्रकार साक्षात् पदसे सूचित करते हैं । कार्यका प्रलय भी उपादानसे अन्यमें नहीं दिखाई देता है ॥ २५ ॥

रत्नप्रभा

अभ्युच्यः—हेत्वन्तरम् । आकाशादेव इत्येवकारसूचितम् उपादानान्तरानुपादानम् अग्रहणं साक्षात् इति पदेन सूत्रकारो दर्शयति इति योजना ॥२५॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

अभ्युच्य-अन्य हेतु । श्रुतिस्थ ‘आकाशादेव’ के एवकारसे सूचित अन्य उपादानके अग्रहणका सूत्रकार साक्षात् पदसे दिखाते हैं, ऐसी योजना करनी चाहिए ॥ २५ ॥

आत्मकृतेः परिणामात् ॥२६ ॥

पदच्छेद—आत्मकृतेः, परिणामात् ।

पदार्थोक्ति—आत्मकृतेः—‘तदात्मानं स्वयमकुरुत’ इत्यत्र आत्मसम्बन्धिण्याः कृतेः [आम्नानात् ब्रह्म निमित्तम् उपादानं च] परिणामात्—विवर्तात् [सिद्ध-स्यापि साध्यत्वमिति ब्रह्मणः कृतिकर्मत्वम्] ।

भाषार्थ—‘तदात्मानं०’ (उसने स्वयं अपना सृष्टिरूपसे निर्माण किया) इस श्रुतिमें आत्मसम्बन्धिनी कृति कही गई है, अतः ब्रह्म निमित्त है और उपादान भी है। सिद्ध वस्तु भी विवर्तरूपसे साध्य हो सकती है, अतः ब्रह्म कृतिका कर्म-विषय होता है।

भाष्य

इतश्च प्रकृतिर्ब्रह्म, यत्कारणं ब्रह्मप्रक्रियायाम् ‘तदात्मानं स्वयम-कुरुत’ (तै० २।७) इत्यात्मनः कर्मत्वं कर्तृत्वं च दर्शयति, आत्मानमिति कर्मत्वम्, स्वयमकुरुतेति कर्तृत्वम् । कथं पुनः पूर्वसिद्धस्य सतः कर्तृत्वेन व्यवस्थितस्य क्रियमाणत्वं शक्यं संपादयितुम् । परिणामादिति ब्रूमः ।

भाष्यका अनुवाद

और इससे भी ब्रह्म प्रकृति है, क्योंकि ब्रह्मप्रक्रियामें ‘तदात्मानं०’ (उसने आत्माको सृष्टिरूपसे स्वयं रचा) इस श्रुतिमें आत्मा कर्म और कर्ता रूपसे दिखलाया गया है—‘आत्मानम्’ पदसे कर्म और ‘स्वयमकुरुत’ से कर्ता कहा गया है। परन्तु पूर्वसिद्ध एवं कर्तारूपसे व्यवस्थित पदार्थ क्रियाका विषय कैसे बनाया जा सकता है? परिणामसे बनाया जा सकता है, ऐसा हम कहते हैं।

रत्नप्रभा

आत्मसम्बन्धिनी कृतिः आत्मकृतिः, सम्बन्धश्च आत्मनः कृतिं प्रति विषयत्वम् आश्रयत्वञ्च । ननु कृतेः आश्रयः सिद्धो भवति विषयस्तु साध्यः इति एकस्य उभयं विरुद्धम् इत्याशङ्कते—कथं पुनरिति । यथा मृदः साध्यपरिणामामेदेन कृतिविषयत्वम्, तद्वद् आत्मन इत्याह—परिणामादिति । आत्मानमिति ।

रत्नप्रभाका अनुवाद

आत्मासे संबन्ध रखनेवाली कृति आत्मकृति है। कृतिके प्रति आत्माका संबन्ध तो विषयत्व-रूप और आश्रयत्वरूप है अर्थात् आत्मा कृतिका विषय और आश्रय है। सिद्ध पदार्थ कृतिका आश्रय होता है और विषय साध्य होता है, इसलिए एक ही आत्मा कृतिका आश्रय और विषय है, यह विरुद्ध है, ऐसी आशंका करते हैं—“कथं पुनः” इत्यादिसे। जैसे मृत्तिका साध्य—परिणामसे अभिन्न रहकर कृतिका विषय होती है जैसे ही आत्मा भी कृतिका विषय

भाष्य

पूर्वसिद्धोऽपि हि सन्नात्मा विशेषेण विकारात्मना परिणमयामासाऽऽत्मान-
मिति । विकारात्मना च परिणामो मृदाद्यासु प्रकृतिपूपलब्धः, स्वय-
मिति च विशेषणान्निमित्तान्तरानपेक्षत्वमपि प्रतीयते । परिणामादिति वा
पृथक् सूत्रम् । तस्यैपोऽर्थः—इत्थं प्रकृतिर्ब्रह्म, यत्कारणं ब्रह्मण एव विकारा-

भाष्यका अनुवाद

आत्मा यद्यपि पूर्वसिद्ध है, तो भी उसने अपनेको विशेषविकाररूपसे परिणत
किया । विकाररूपसे परिणाम मृत्तिका आदि उपादानकारणमें देखा जाता है ।
'स्वयम्' इस विशेषणसे प्रतीत होता है कि उसे अन्य निमित्तोंकी अपेक्षा नहीं
है । अथवा 'परिणामात्' इतना अंश पृथक् सूत्र है । उसका अर्थ यह
है—इससे भी ब्रह्म प्रकृति है, क्योंकि 'सच्च त्यचाभवत्०' (ब्रह्म ही प्रत्यक्ष और

रत्नप्रभा

अविरोध इति शेषः । सिद्धस्याऽपि साध्यत्वे दृष्टान्तमाह—विकारात्मनेति ।
ननु ब्रह्मण आत्मानमिति द्वितीयया कार्यात्मना साध्यत्वश्रुत्या अस्तु प्रकृतित्वम्,
कर्त्ता तु अन्योऽस्तु इत्यत आह—स्वयमिति चेति । ब्रह्मणः कृतिर्मत्वोपपाद-
नार्थं परिणामाद् इति पदं व्याख्याय अन्यथापि व्याचष्टे—पृथक् सूत्रमिति ।
मृद्घट इतिवद् ब्रह्म सच्च त्यचेति परिणामसामानाधिकरण्यश्रुतेः ब्रह्मणः प्रकृति-

रत्नप्रभाका अनुवाद

है, ऐसा कहते हैं—“परिणामात्” इत्यादिसे । “आत्मानम्” इस वाक्यमें ‘अविरोध’
(अविरोध है) इतना शेष समझना चाहिए । सिद्ध भी साध्य होता है, इस विषयमें दृष्टान्त
कहते हैं—“विकारात्मना” इत्यादिसे । यदि कोई कहे कि ‘आत्मानम्’ इस द्वितीयासे ब्रह्म
कार्यरूपसे साध्य होता है, ऐसा धृति कहती है, इससे ब्रह्म प्रकृति हो, कर्त्ता तो अन्य होना
चाहिए, इसपर कहते हैं—“स्वयमिति च” इत्यादि । ब्रह्म कृतिविषय है, इसके उपादानके
लिए ‘परिणामात्’ इस पदका व्याख्यान करके अब अन्य प्रकारसे व्याख्यान करते हैं—“पृथक्
सूत्रम्” इत्यादिसे । आशय यह कि ‘मृद्घट’ (घट मृत्तिका है) इसके समान ‘ब्रह्म सच्च त्यच्च’
इस प्रकार ब्रह्मका परिणाम (जगत्) के साथ सामानाधिकरण्य धृतिमें कहा गया है, इससे ब्रह्म

(१) यद्य शका हो सकती है कि आत्मा मृत्स्य, अचल, अविचार है, ऐसा धृतिसे प्रतिपादित
है, तो यहाँ आत्माका परिणाम कैसे स्वोकार किया जा रहा है । यह युक्त नहीं है, क्योंकि
धृतिमें विकार मिथ्या कहा गया है, इसलिये विकारके मिथ्या होनेसे आत्माको निर्दिचार कहनेवाली
धृतिवाँसे कोई विरोध नहीं है, क्योंकि परिणामशब्द यहाँ विपर्ययरक है ।

भाष्य

त्मनाऽयं परिणामः सामानाधिकरण्येनाऽऽज्ञायते 'सच्च त्यच्चाभवत् । निरुक्तं चानिरुक्तं च' (तै ० २।६) इत्यादिनेति ॥ २६ ॥

भाष्यका अनुवाद

परोक्ष, निर्वचन करने योग्य, निर्वचन करने अयोग्य सब पदार्थ हुआ) इत्यादिसे श्रुति ब्रह्मका ही विकारात्मामें परिणाम सामानाधिकरण्यसे दिखलाती है ॥२६॥

रत्नप्रभा

त्वमित्यर्थः । सत्—प्रत्यक्षं भूतत्रयम् । त्यत्—परोक्षं भूतद्वयम्, निरुक्तम्—वक्तुं शक्यं घटादि, अनिरुक्तम्—वक्तुमशक्यं कपोतरूपादिकं च ब्रह्मैव अभवदित्यर्थः । अत्र सूत्रे परिणामशब्दः कार्यमात्रपरः, न तु सत्यकार्यात्मकपरिणामपरः तदनन्यत्वमिति विवर्तवादस्य वक्ष्यमाणत्वात् ॥ २६ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

उपादानकारण है । सत्—प्रत्यक्ष तीन भूत—पृथिवी, जल और तेज, त्यत्-परोक्ष दो भूत-वायु और आकाश, निरुक्त—यह ऐसा, ऐसे निर्वचनके योग्य घट आदि, अनिरुक्त कहनेके अशक्य कपोतरूप आदि भी ब्रह्म ही हुआ, ऐसा अर्थ है । इस सूत्रमें परिणामशब्द कार्यमात्रवाचक है, सत्य कार्यात्मक परिणाम वाचक नहीं है, क्योंकि 'तदनन्यत्वम्' इत्यादिसे विवर्तवाद कहा जानेवाला है ॥ २६ ॥

योनिश्च हि गीयते ॥ २७ ॥

पदच्छेद—योनिः, च, हि, गीयते ।

पदार्थोक्ति—हि—यस्माद्, योनिश्च—योनिरित्यपि गीयते—'यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति' इत्यत्र प्रकृतिवाचकयोनिशब्देनात्मा कथ्यते [तस्मात् ब्रह्म प्रकृतिरपि] ।

भाषार्थ—चूंकि 'यद्भूतयोनिं०' (धीर पुरुष जिसे भूतयोनि समझते हैं) इस श्रुतिमें प्रकृतिवाचक योनिशब्दसे आत्मा कहा गया है, इसलिए ब्रह्म उपादानकारण भी है ।

भाष्य

इतश्च प्रकृतिर्ब्रह्म, यत्कारणं ब्रह्म योनिरित्यपि पठ्यते वेदान्तेषु 'कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्' (मु० ३।१।३) इति, 'यद्भूतयोनिं परि-

भाष्यका अनुवाद

और इससे भी ब्रह्म प्रकृति है, क्योंकि वह 'कर्तारमीशं०' (कर्ता, ईश, पुरुष, ब्रह्म और योनिको धीर पुरुष ध्यानसे देखते हैं) और 'यद्भूतयोनिं०' (जिसको

भाष्य

पश्यन्ति धीराः' (मु० १।१।६) इति च । योनिशब्दश्च प्रकृतिवचनः
समधिगतो लोके 'पृथिवी योनिरोपधिवचनस्पतीनाम्' इति । स्त्रीयोनैरप्य-
स्त्येवाऽवयवद्वारेण गर्भं प्रत्युपादानकारणत्वम् । क्वचित् स्थानवचनोऽपि
योनिशब्दो दृष्टः—'योनिष्ट इन्द्र निपदे अकारि' (ऋ० सं० १।१०।४।१)
इति । वाक्यशेषात् त्वत्र प्रकृतिवचनता परिगृह्यते 'यथोर्णनाभिः
सृजते गृह्णते च' (मु० १।१।७) इत्येवंजातीयकात् । तदेवं प्रकृतित्वं
भाष्यका अनुवाद

विद्वान् भूतयोनि जानते हैं) इस प्रकार वेदान्तोंमें योनि कहा गया है ।
'पृथिवी योनि०' (ओपधि और वनस्पतियोंकी योनि पृथिवी है) इत्यादि
स्थलोंमें देखा जाता है कि व्यवहारमें योनिशब्द प्रकृतिवाचक माना जाता है ।
स्त्रीकी योनिमें भी अपने अवयव—शोणित द्वारा गर्भके प्रति उपादान कारणता
है ही । 'योनिष्ट इन्द्र०' (हे इन्द्र ! तुम्हारे बैठनेके लिए मैंने स्थान बनाया है)
इत्यादि किसी-किसी स्थलमें योनिशब्द स्थानवाचक भी है । और 'यथोर्णनाभिः०'
(जैसे मकड़ी उत्पन्न करती है और ग्रहण करती है) इस प्रकारके वाक्य-

रत्नप्रभा

योनिशब्दाच्च प्रकृतित्वम् इत्याह—योनिश्चेति । कर्तारम्—क्रियाशक्ति-
मन्तम्, ईशम्—नियन्तारम्, पुरुषम्—प्रत्यक्षम्, ब्रह्म—पूर्णम्, योनिम्—प्रकृतिम्,
धीरा ध्यानेन पश्यन्ति इत्यर्थः । ननु अनुपादानेऽपि स्त्रीयोनौ योनिशब्दो दृष्ट
इत्यत आह—स्त्रीयोनैरिति । शोणितम् अवयवशब्दार्थः । योनिशब्दस्य
स्थानमपि अर्थो भवति सोऽत्र भूतयोन्यादिशब्दैः न ग्राह्यः, ऊर्णनाभ्यादिप्रकृतदृष्टा-
न्तवाक्यशेषविरोधाद् इत्याह—क्वचिदिति । हे इन्द्र ते—तव निपदे—उपवे-
शनाय योनिः—स्थानं मया अकारि—कृतमित्यर्थः । पूर्वपक्षोक्तानुमानानि
रत्नप्रभाका अनुवाद

और योनिशब्दसे भी ब्रह्म प्रकृति है, ऐसा कहते हैं—“योनिश्च” इत्यादिसे । कर्तारम्—
क्रियाशक्तिवाले, ईशम्—नियन्ता, पुरुषम्—प्रत्यक्ष, ब्रह्म—पूर्णको योनि—उपादानकारण धीर
पुरुष ध्यानसे देखते हैं । यदि कोई कहे कि स्त्रीकी योनिमें भी जो कि उपादानकारण नहीं है,
योनिशब्दका प्रयोग देखा जाता है, इसपर कहते हैं—“स्त्रीयोनैः” इत्यादिसे । अवयवशब्दका
अर्थ रक्त है । योनिशब्दका अर्थ स्थान भी होता है, 'भूतयोनि' इत्यादि शब्दमें वह अर्थ ग्राह्य नहीं
है, क्योंकि ऊर्णनाभि आदि प्रकृत दृष्टान्तप्रतिपादक वाक्यशेषसे विरोध है, ऐसा कहते हैं—
“क्वचित्” इत्यादिसे । हे इन्द्र ! तुम्हारे बैठनेके लिए मैंने स्थान बनाया है, ऐसा अर्थ है ।
पूर्वपक्षी द्वारा कहे गये अनुमानोंका अनुवाद करके आगमसे उनका बाध कहते हैं—

भाष्य

ब्रह्मणः प्रसिद्धम् । यत्पुनरिदमुक्तम्—ईक्षापूर्वकं कर्तृत्वं निमित्तकारणेष्वेव कुलालादिषु लोके दृष्टं नोपादानेषु इत्यादि, तत् प्रत्युच्यते—न लोक-वदिह भवितव्यम्, नह्ययमनुमानगम्योऽर्थः । शब्दगम्यत्वात् त्वस्याऽर्थस्य यथाशब्दमिह भवितव्यम् । शब्दश्चेक्षितुरीश्वरस्य प्रकृतित्वं प्रतिपादयती-त्यवोचाम । पुनश्चैतत् सर्वं विस्तरेण प्रतिवक्ष्यामः ॥ २७ ॥

भाष्यका अनुवाद

शेषसे यहां योनिशब्द प्रकृतिवाचक लिया जाता है । इस प्रकार ब्रह्म प्रकृति है, यह सिद्ध होता है । और ईक्षापूर्वक कर्तृत्व लोकमें कुम्हार आदि निमित्त कारणोंमें ही देखा जाता है, उपादानमें नहीं देखा जाता, इत्यादि जो पीछे कहा गया है, उसका निराकरण करते हैं—यहां लोकके समान न होना चाहिए, क्योंकि यह अर्थ अनुमानगम्य नहीं है, किन्तु शब्दगम्य है इससे शब्दके अनुसार ही अर्थ होना चाहिए । शब्द तो यह प्रतिपादन करता है कि ईक्षण करने-वाला ईश्वर प्रकृति है, ऐसा हम कह चुके हैं । और यह सब विस्तारसे आगे भी कहेंगे ॥ २७ ॥

रत्नप्रभा

अनुद्याऽऽगमबाधमाह—यत्पुनरित्यादिना । ननु अनुमानस्य श्रुत्यनपेक्षत्वान्न तथा बाध इत्यत आह—नहीति । जगत्कर्ता पक्षः श्रुत्यैव सिद्धयति, या कृतिः सा शरीरजन्येति व्याप्तिविरोधेन नित्यकृतिमतोऽनुमानासम्भवाद् अतः श्रौतमीश्वरम् पक्षीकृत्याऽनुपादानत्वसाधने भवत्येव उपजीव्यया प्रकृतित्वबोधकश्रुत्या बाध इत्यर्थः । यदुक्तं विलक्षणत्वाद् ब्रह्मणो न जगदुपादानत्वमिति, तत्राह—पुनश्चेति । “न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दाद्” (ब्र० सू० २।१।४) इत्यारभ्य इत्यर्थः । अत उभयरूपं कारणत्वं ब्रह्मणो लक्षणमिति सिद्धम् ॥ २७ ॥ (७) ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

“यत्पुनः” इत्यादिसे । यदि कोई कहे कि अनुमान धृतिकी अपेक्षा नहीं रखता है, इसलिये उसका श्रुतिसे बाध नहीं होता, इसपर कहते हैं—“नहि” इत्यादि । आशय यह है कि जगत्कर्तारूप पक्ष धृतिसे ही सिद्ध होता है क्योंकि जो कार्य है, यह शरीरजन्य है, इस व्याप्तिसे विरोध होनेके कारण अनुमानसे नित्य कृतिमानकी सिद्धि नहीं हो सकती, इससे धृति-प्रतिपादित ईश्वरको पक्ष करके उसमें अनुपादानत्वके अनुमानका उपजीव्य प्रकृतित्व-बोधक धृतिसे बाध होता है । यह जो कहा है कि विलक्षण होनेसे ब्रह्म जगत्का उपादानकारण नहीं हो सकता है, इसपर कहते हैं—“पुनश्च” इत्यादिसे । ‘न विलक्षण-त्वादस्य’ सूत्रसे आरंभ करके ऐसा अर्थ है । इससे सिद्ध हुआ कि उपादानकारणत्व एवं निमित्तकारणत्व ब्रह्मका लक्षण है ॥ २७ ॥

भाष्य

पश्यन्ति धीराः' (मु० १।१।६) इति च । योनिशब्दश्च प्रकृतिवचनः ।
समधिगतो लोके 'पृथिवी योनिरोपधिवनस्पतीनाम्' इति । स्त्रीयोनेरप्य-
स्त्येवाऽवयवद्वारेण गर्भं प्रत्युपादानकारणत्वम् । क्वचित् स्थानवचनोऽपि
योनिशब्दो दृष्टः—योनिष्ट इन्द्र निपदे अकारि' (ऋ० सं० १।१०।४।१)
इति । वाक्यशेषात् त्वत्र प्रकृतिवचनता परिगृह्यते 'यथोर्णनाभिः
सृजते गृह्यते च' (मु० १।१।७) इत्येवंजातीयकात् । तदेवं प्रकृतिस्त्वं
भाष्यका अनुवाद

विद्वान् भूतयोनि जानते हैं) इस प्रकार वेदान्तोंमें योनि कहा गया है ।
'पृथिवी योनि०' (ओपधि और वनस्पतियोंकी योनि पृथिवी है) इत्यादि
स्थलोंमें देखा जाता है कि व्यवहारमें योनिशब्द प्रकृतिवाचक माना जाता है ।
स्त्रीकी योनिमें भी अपने अवयव—शोणित द्वारा गर्भके प्रति उपादान कारणता
है ही । 'योनिष्ट इन्द्र०' (हे इन्द्र ! तुम्हारे बैठनेके लिए मैंने स्थान बनाया है)
इत्यादि किसी-किसी स्थलमें योनिशब्द स्थानवाचक भी है । और 'यथोर्णनाभिः०'
(जैसे मकड़ी उत्पन्न करती है और ग्रहण करती है) इस प्रकारके वाक्य-

रत्नप्रभा

योनिशब्दाच्च प्रकृतिस्त्वम् इत्याह—योनिश्चेति । कर्तारम्—क्रियाशक्ति-
मन्तम्, ईशम्—नियन्तारम्, पुरुषम्—प्रत्यक्षम्, ब्रह्म—पूर्णम्, योनिम्—प्रकृतिम्,
धीरा ध्यानेन पश्यन्ति इत्यर्थः । ननु अनुपादानेऽपि स्त्रीयोनौ योनिशब्दो दृष्ट
इत्यत आह—स्त्रीयोनेरिति । शोणितम् अवयवशब्दार्थः । योनिशब्दस्य
स्थानमपि अर्थो भवति सोऽत्र भूतयोन्यादिशब्दैः न ब्राह्म, ऊर्णनाभ्यादिप्रकृतदृष्टान्त-
न्तवाक्यशेषविरोधाद् इत्याह—क्वचिदिति । हे इन्द्र ते—तव निपदे—उपवे-
शनाय योनिः—स्थानं मया अकारि—कृतमित्यर्थः । पूर्वपक्षोक्तानुमानानि

रत्नप्रभाका अनुवाद

और योनिशब्दसे भी ब्रह्म प्रकृति है, ऐसा कहते हैं—“योनिश्च” इत्यादिसे । कर्तारम्—
क्रियाशक्तिवाले, ईशम्—नियन्ता, पुरुषम्—प्रत्यक्, ब्रह्म—पूर्णको योनि—उपादानकारण धीर
पुरुष ध्यानेसे देखते हैं । यदि कोई कहे कि स्त्रीकी योनिमें भी जो कि उपादानकारण नहीं है,
योनिशब्दवा प्रयोग देखा जाता है, इसपर कहते हैं—“स्त्रीयोनिः” इत्यादिसे । अवयवशब्दका
अर्थ रक्त है । योनिशब्दका अर्थ स्थान भी होता है, 'भूतयोनि' इत्यादि शब्दमें वह अर्थ प्राप्त नहीं
है, क्योंकि ऊर्णनाभि आदि प्रकृत दृष्टान्तप्रतिपादक वाक्यशेषसे विरोध है, ऐसा कहते हैं—
“क्वचित्” इत्यादिसे । हे इन्द्र ! तुम्हारे बैठनेके लिए मैंने स्थान बनाया है, ऐसा अर्थ है ।
पूर्वपक्षी द्वारा कहे गये अनुमानोंका अनुवाद करके आगमसे उनका बाध कहते हैं—

भाष्य

ब्रह्मणः प्रसिद्धम् । यत्पुनरिदमुक्तम्—ईक्षापूर्वकं कर्तृत्वं निमित्तकारणेष्वेव कुलालादिषु लोके दृष्टं नोपादानेषु इत्यादि, तत् प्रत्युच्यते—न लोक-वदिह भवितव्यम्, नह्यमनुमानगम्योऽर्थः । शब्दगम्यत्वात् तस्याऽर्थस्य यथाशब्दमिह भवितव्यम् । शब्दश्रेक्षितुरीश्वरस्य प्रकृतित्वं प्रतिपादयती-त्यवोचाम । पुनश्चैतत् सर्वं विस्तरेण प्रतिवक्ष्यामः ॥ २७ ॥

भाष्यका अनुवाद

शेषसे यहां योनिशब्द प्रकृतिनाचक लिया जाता है । इस प्रकार ब्रह्म प्रकृति है, यह सिद्ध होता है । और ईक्षापूर्वक कर्तृत्व लोकमें कुम्हार आदि निमित्त कारणोंमें ही देखा जाता है, उपादानमें नहीं देखा जाता, इत्यादि जो पीछे ब्याह गया है, उसका निराकरण करते हैं—यहां लोकके समान न होना चाहिए, क्योंकि यह अर्थ अनुमानगम्य नहीं है, किन्तु शब्दगम्य है इससे शब्दके अनुसार ही अर्थ होना चाहिए । शब्द तो यह प्रतिपादन करता है कि ईक्षण करने-वाला ईश्वर प्रकृति है, ऐसा हम कह चुके हैं । और यह सब विस्तारसे आगे भी कहेंगे ॥ २७ ॥

रत्नप्रभा

अनुयाऽऽगमबाधमाह—यत्पुनरित्यादिना । ननु अनुमानस्य श्रुत्यनपेक्षत्वाच्च तथा बाध इत्यत आह—नहीति । जगत्कर्ता पक्षः श्रुत्यैव सिद्ध्यति, या कृतिः सा शरीरजन्येति व्याप्तिविरोधेन नित्यकृतिमतोऽनुमानासम्भवाद् अतः श्रौतमीश्वरम् पक्षीकृत्याऽनुपादानत्वसाधने भवत्येव उपजीव्यया प्रकृतित्वबोधकश्रुत्या बाध इत्यर्थः । यदुक्तं विलक्षणत्वाद् ब्रह्मणो न जगदुपादानत्वमिति, तत्राह—पुनश्चेति । “न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दाद्” (ब्र० सू० २।१।४) इत्यारभ्य इत्यर्थः । अत उभयरूपं कारणत्वं ब्रह्मणो लक्षणमिति सिद्धम् ॥ २७ ॥ (७) ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

“यत्पुन” इत्यादिसे । यदि कोई कहे कि अनुमान श्रुतिकी अपेक्षा नहीं रखता है, इसलिए उसका श्रुतिसे बाध नहीं होता, इसपर कहते हैं—“नहि” इत्यादि । आशय यह है कि जगत्कर्तारूप पक्ष श्रुतिसे ही सिद्ध होता है क्योंकि जो कार्य है, वह शरीरजन्य है, इस व्याप्तिसे विरोध होनेके कारण अनुमानसे नित्य कृतिमानकी सिद्धि नहीं हो सकती, इससे श्रुति-प्रतिपादित ईश्वरको पक्ष करके उसमें अनुपादानत्वके अनुमानका उपजीव्य प्रकृतित्व-बोधक श्रुतिसे बाध होता है । यह जो कहा है कि विलक्षण होनेसे ब्रह्म जगत्का उपादानकारण नहीं हो सकता है, इसपर कहते हैं—“पुनश्च” इत्यादिसे । ‘न विलक्षण-त्वादस्य’ सूत्रसे आरंभ करके ऐसा अर्थ है । इससे सिद्ध हुआ कि उपादानकारणत्व एवं निमित्तकारणत्व ब्रह्मका लक्षण है ॥ २७ ॥

[८ सर्वव्याख्यानाधिकरण सू० २८]

अण्वादेरपि हेतुत्वं श्रुतं ब्रह्मण एव वा ।

वटधानादिदृष्टान्तादण्वादेरपि तच्छ्रुतम् ॥१॥

शून्याण्वादिप्वेकबुद्ध्या सर्वबुद्धिर्न युज्यते ।

स्युर्ब्रह्मण्यपि धानाद्यास्ततो ब्रह्मैव कारणम्* ॥२॥

[अधिकरणसार]

सन्देह—भ्रुतिमें जगत्कारण अणु आदि भी कहे गये हैं या केवल ब्रह्म ही जगत्कारण कहा गया है ।

पूर्वपक्ष—भ्रुतिमें वटवीज आदि दृष्टान्तरूपसे कहे गये हैं, इससे प्रतीत होता है कि अणु आदि भी जगत्कारण कहे गये हैं ।

सिद्धान्त—एकविज्ञानसे सर्वविज्ञान शून्यवाद, अणुवाद आदिमें उपपन्न नहीं हो सकता है । वटवीज आदि दृष्टान्त ब्रह्मके भी हो सकते हैं, इसलिए ब्रह्म ही जगत्कारण है ।

* तात्पर्य यह है—इस अधिकरणके विषय वेदान्त है । वेदान्तोंमें सशय होता है कि ब्रह्मके समान परमाणु, शून्य आदिमें भी कारणत्व कहा गया है अथवा सर्वत्र केवल ब्रह्म ही कारण कहा गया है ।

पूर्वपक्षी कहता है कि भ्रुतिमें अणु आदि भी कारण कहे गये हैं, क्योंकि वटवीज आदि दृष्टान्तरूपसे कहे गये हैं । छान्दोग्यके छठे अध्यायमें श्वेतकेतुके प्रति उपदेश देते हुए उद्दालकने सूक्ष्मतत्त्वमें स्थूल जगत्के अन्तर्भावका प्रतिपादन करनेके लिए महावृक्षगर्भित वटवीज दृष्टान्तरूपसे कहे हैं, इसलिए महाकार्यगर्भित परमाणु दार्ष्टान्तिरूपसे भ्रुतिमें कहे गये हैं । “असद्वा इदमथ आसीत्” (यह सारा जगत् उत्पात्तिके पूर्वमें असत् ही था) यह भ्रुति साक्षात् ही असत्को जगत्कारण बतलाती है । “स्वभावमेकं कवयो वदन्ति कालं तयाऽन्ये” (कुछ लोग स्वभावको जगत्कारण कहते हैं, अन्य कुछ लोग समयको जगत्कारण कहते हैं) इस प्रकार भ्रुतिमें स्वभाव तथा काल जगत्कारण कहे गये हैं । इसलिए परमाणु आदिमें जगत्कारणत्व भ्रुतिसे ही है ।

सिद्धान्ती कहते हैं कि एकविज्ञानसे सर्वविज्ञान शून्य आदि मतोंमें उपपन्न नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मके शून्य आदिसे उत्पन्न न होनेके कारण शून्यके ज्ञानसे ब्रह्मका ज्ञान नहीं हो सकता है । वटवीज दृष्टान्त जो ब्रह्मके इन्द्रियागोचर होनेसे सूक्ष्म होनेके कारण जगत्विषयक भी हो सकता है । अमत् शब्दका अर्थ नाम रूपसे व्याकार न पाया हुआ है, ऐसा इस पादके अतुर्भ्रुति अधिकरणमें कहा चुके है । भ्रुतिमें स्वभावपक्ष और कालपक्ष पूर्वपक्षरूपसे कहे गये हैं । इसमें मिश्र होता है कि श्रुत्युक्त जगत्कारण ब्रह्म ही है, परमाणु आदि नहीं है ।

एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः ॥ २८ ॥

पदच्छेद—एतेन, सर्वे, व्याख्याताः, व्याख्याताः ।

पदार्थोक्ति—एतेन—प्रधाननिराकरणेन, सर्वे—अणसत्त्वभावादिकारण-वादाः, व्याख्याताः—निराकृतत्वेन व्याख्याताः । व्याख्याता इति पदाभ्यासोऽ-ध्यायपरिसमाप्त्यर्थः ।

भाषार्थ—प्रधानकारणवादके निराकरणसे अणु, असत् स्वभाष आदिको जगत्के कारण माननेवालोंके मत भी निराकृत समझने चाहिएँ । 'व्याख्याताः' इस पदका अभ्यास अध्यायसमाप्तिका द्योतक है ।

भाष्य

'ईक्षतेर्नाशब्दम्' (ब्र० सू० १।१।५) इत्यारभ्य प्रधानकारणवादः सूत्रैरेव पुनः पुनराशङ्क्य निराकृतः, तस्य हि पक्षस्योपोद्बलकानि कानि-चिल्लिङ्गाभासानि वेदान्तेष्वापातेन मन्दमतीन् प्रतिभान्तीति । स च कार्य-कारणानन्यत्वाभ्युपगमात् प्रत्यासन्नो वेदान्तवादस्य । देवलप्रभृतिभिश्च कैश्चिद् धर्मसूत्रकारैः स्वग्रन्थेष्वश्रितः, तेन तत्प्रतिषेधे यत्नोऽतीव कृतो

भाष्यका अनुवाद

'ईक्षतेर्नाशब्दम्' सूत्रसे लेकर सूत्रों द्वारा ही चारंबार आशंका करके प्रधान कारणवादका निराकरण किया गया, क्योंकि मन्दमतियोंको उस पक्षके पोषक कुछ लिंगाभास वेदान्तोंमें साधारणरूपसे प्रतीत होते हैं । वह वाद कार्यकारणका अभेद स्वीकार करता है, इससे वेदान्तवादके अत्यन्त निकटवर्ती है । और देवल आदि कुछ धर्मसूत्रकारोंने अपने ग्रन्थोंमें उसको अवकाश दिया है । इसलिए उसके निराकरणके लिए बहुत यत्न किया गया, परन्तु

रत्नप्रभा

एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः । अस्य अतिदेशाधिकरणस्य तात्पर्यं वक्तुं वृत्तमनुवदति—ईक्षतेरिति । प्रधानवादस्य प्राधान्येन निराकरणे हेतूनाह—तस्य हीत्यादिना । तर्हि अण्वादिवादा उपेक्षणीया दुर्बलत्वादित्यत आह—

रत्नप्रभाका अनुवाद

इस अतिदेश अधिकरणका तात्पर्य कहनेके लिए वृत्तका अनुवाद करते हैं—“ईक्षते.” इत्यादिसे । प्रधानवादका प्रधानतासे निराकरण करनेमें हेतु कहते हैं—“तस्य हि” इत्यादिसे । तब अणु भादि वादोंकी उपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वे दुर्बल हैं, इसपर कहते हैं—“तेपि तु”

भाष्य

नाण्वादिकारणवादप्रतिषेधे । तेऽपि तु ब्रह्मकारणवादपक्षस्य प्रतिपक्षत्वात् प्रतिषेद्धव्याः । तेषामप्युपोद्बलकं वैदिकं किञ्चिल्लिङ्गमापातेन मन्दमतीन् प्रतिभायादिति । अतः प्रधानमल्लनिवर्हणन्यायेनाऽतिदिशति—एतेन प्रधानकारणवादप्रतिषेधन्यायकलापेन सर्वेऽण्वादिकारणवादा अपि प्रति-

भाष्यका अनुवाद

अणु आदि कारणवादके प्रतिषेधके लिए प्रयत्न नहीं किया गया । ब्रह्म कारणवादपक्षके प्रतिपक्षी होनेसे उनका भी प्रतिषेध करना चाहिए, क्योंकि कुछ वैदिक लिङ्ग मन्दमतियोंको आपाततः उनके पोषक प्रतीत हो सकते हैं । इसलिए प्रधानमल्लनिवर्हणन्यायसे अतिदेश करते हैं—इससे अर्थात् प्रधानकारणवादके

रत्नप्रभा

तेऽपि त्विति । निर्मूलास्ते कथं प्रतिपक्षा इत्यत आह—तेषामिति । तथाहि छान्दोग्ये जगत्कारणत्वज्ञापनार्थं पिता पुत्रमुवाच—आसां वटधानानां मध्ये एकां भिन्धीति, भिन्ना भगव इत्युवाच पुत्रः, पुनः पित्रा किमत्र पश्यसि इत्युक्ते, न किञ्चन भगव इत्याह, तत्र पित्राऽणिमानं न पश्यसि इत्युक्तम्, तथा च न किञ्चन शब्दात् शून्यस्वभाववादौ प्रतीयेते, अणुशब्दात् परमाणुवाद इति । एवम् “असदेवेदमग्र आसीद्” (छा० ३।१९।१) “अणोरणीयान्” (क० २।२०) इत्यादि लिङ्गं द्रष्टव्यम् । अत्र अण्वादिवादाः श्रौता न वेति संशये सति असदण्वादिशब्दबलात् श्रौता इति प्राप्तेऽतिदिशति—एतेनेति । अस्य अतिदेशत्वाद् न पृथक् सङ्गत्याद्यपेक्षा । नकिञ्चनाऽसच्छब्दयोः प्रत्यक्षयोग्यवस्तुपरत्वाद्

रत्नप्रभाका अनुवाद

इत्यादि । यदि कोई कहे कि ये वाद यदि निर्मूल हैं, तो प्रतिपक्ष किस प्रकार हो सकते हैं, इसपर कहते हैं—“तेषाम्” इत्यादि । क्योंकि छान्दोग्यमें जगत्के कारणको समझानेके लिए पिताने पुत्रको कहा—इस वृक्षके फलके बीजोंमेंसे एक बीजको तोरो, पुत्रने कहा—हे भगवन् ! तोड़ लिया, फिर पिताने कहा—उधमें क्या देखते हो ? पुत्रने कहा—हे भगवन् ! ‘न किञ्चन’—कुछ नहीं, पीछे पिताने कहा—अणिमाको नहीं देखते ? इसमें ‘न किञ्चन’ शब्दसे शून्यवाद और स्वमायवादकी प्रतीति होती है और अणुशब्दसे परमाणुवाद प्रतीत होता है । इसी प्रकार ‘असदेवेदमग्र’ (ऋषिके पहले यह अद्यत् ही था) ‘अणोरणीयान्’ (अणुसे भी शणु) इत्यादि लिङ्ग समझने चाहिए । अणु आदि वाद धुतिसंगत हैं या नहीं, ऐसा संशय होनेपर धुतिमें अरात्, अणु आदि पद हैं, इसलिए श्रौत हैं, ऐसा प्राप्त होनेसे अतिदेश करते हैं—“एतेन” इत्यादिते । यह अतिदेश सद् है, अतः इसकी पृथक् संगति आदि कहनेकी अपेक्षा

भाष्य

पिद्धतया व्याख्याता वेदितव्याः । तेषामपि प्रधानवदशब्दत्वाच्छब्द-
विरोधित्वाच्चेति । व्याख्याता व्याख्याता इति पदाभ्यासोऽध्यायपरि-
समाप्तिं द्योतयति ॥२८ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादकृतौ शारी-
रकमीमांसाभाष्ये प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ ४ ॥

इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्ये समन्वयाख्यः
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

भाष्यका अनुवाद

निषेधक न्यायोंसे सब अणु आदि कारणवाद भी निराकृत समझने चाहिएँ,
क्योंकि वे भी प्रधानके समान अशब्द और शब्दविरुद्ध हैं । 'व्याख्याता व्या-
ख्याताः' इस प्रकार पदका अभ्यास अध्यायकी समाप्तिका सूचक है ॥ २८ ॥

यतिवर श्रीभोलेबाबा कृत प्रथम अध्यायके चतुर्थपादके
भाष्यका अनुवाद समाप्त ।

रत्नप्रभा

अणुशब्दस्य सूक्ष्माभिप्रायत्वाद् अशब्दत्वम्, तेषां वादानां प्रधानवादवद् अश्रौतत्वम्
ब्रह्मकारणश्रुतिबाधितत्वञ्च, तस्माद् ब्रह्मैव परमकारणम् । तस्मिन्नेव सर्वेषां वेदान्ता-
नां समन्वय इति सिद्धम् ॥ १ ॥ ४ ॥ २८ ॥ (८) ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्गोपालसरस्वतीपूज्यपादशिष्य-
श्रीरामानन्दभगवत्पादकृतौ शारीरकमीमांसादर्शन-
भाष्यव्याख्यायां भाष्यरत्नप्रभायां प्रथमाध्यायस्य
चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ १ ॥ ४ ॥

रत्नप्रभाका अनुवाद

नहीं है । 'न विद्यन' और 'असत्' शब्द प्रत्यक्षके अयोग्य वस्तुके प्रतिपादक हैं और अणुशब्द
सूक्ष्मपरक है, इसलिए 'अणु' आदि श्रुतिप्रतिपादित नहीं है और ये वाद प्रधानवादके समान
अश्रौत हैं और ब्रह्म कारण है, ऐसा प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिसे बाधित हैं, इसलिए ब्रह्म ही परम
कारण है और उसमें ही सब वेदान्तोंका समन्वय है, यह सिद्ध हुआ ॥२८॥

यतिवर श्रीभोलेबाबा कृत प्रथमाध्यायके चतुर्थ पादका रत्नप्रभानुवाद समाप्त ।